

भणवानुं ठेकाणु :
 श्री अ. सा. रवे. स्थानठवासी
 नैन शास्त्रोद्धार समिति,
 ठ अरेठियाकूवा रोड, श्रीन हौज
 पासे, राणठोट, (सौराष्ट्र)

Published by
 Shri Akhil Bharat S. S.
 Jain Shastrodhdhara Samiti,
 Garedia Kuva Road, RAJKOT
 (Saurashtra) W Ry India.



ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यबद्धां,
 जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैष यत्नः ।
 उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा,
 काळोद्धार्यं निरपधिर्विपुला च पृथ्वी ॥ १ ॥



हरिगीतच्छन्दः



करते अरुणा जो हमारी यत्न ना उनके लिये ।
 जो जानते हैं सत्त्व कुछ फिर यत्न ना उनके लिये ॥
 जनमगा सुदृसा व्यक्ति कोई सत्त्व इससे पायगा ।
 है काम निरपधि विपुल पृथ्वी ध्यान में यह सायगा ॥ १ ॥

मूल्याः ३ २५=००

प्रथम आवृत्ति : प्रत १२ •
 दोरे सवतः २४६•
 विंशत सवतः २०२•
 इसवीसतः १६९४

: धृष्टः ।
 भण्डिताव छजनदास शाह
 नवप्रभात प्रिन्टिंग प्रेस,
 पी गंटा रोड, अमडावाड,

श्री भगवती सूत्र भा० सातवें की विषयानुक्रमिका

अनुक्रमांक

पृष्ठांक

आठवें शतकका आठवां उद्देश

१ आठवें उद्देशका विषयविवरण	१-३
२ गुर्वादिकप्रत्यनीकके स्वरूपकानिरूपण	४-१५
३ व्यवहार के स्वरूपका निरूपण	१६-२७
४ कर्मबन्ध के स्वरूपका निरूपण	२७-७६
५ सांप्रदायिक कर्मबन्ध के स्वरूपका निरूपण	७५-९३
६ कर्म-प्रकृति और परीपहके स्वरूपका वर्णन	९३-१२४
७ उष्णपरीपह के हेतुभूत सूर्यका निरूपण	१२५-१५४

नववां उद्देश

८ नववें उद्देशका संक्षिप्तविषयविवरण	१५५-१६०
९ बन्धके स्वरूपका निरूपण	१६०-१६१
१० विस्मृता बन्धके स्वरूपका निरूपण	१६२-१८०
११ प्रयोगबन्धके स्वरूपका निरूपण	१८१-२२८
१२ औदारिक शरीर प्रयोगबन्ध का वर्णन	१२८-२८२
१३ वैक्रियशरीर प्रयोगबन्धका वर्णन	२८२-३२०
१४ वैक्रिय शरीर गमनागमनविषयक प्रयोगबन्धका वर्णन	३२१-३४७
१५ आहारक शरीर प्रयोगबन्धका वर्णन	३४७-३६१
१६ तैजस शरीर प्रयोगबन्धका वर्णन	३६२-३७२
१७ कार्मणशरीर प्रयोगबन्धका निरूपण	३७३-४११
१८ औदारिकादि बन्धों के परस्पर में सम्बन्धका निरूपण	४१२-४३६
१९ औदारिक आदि शरीरों के देशबन्धक, सर्वबन्धक, और अवन्धक के अल्पबहुत्वका कथन	४३६-४४६

दशवां उद्देश

२० दशवें उद्देशे का संक्षिप्तविषयविवरण	४४६-४६३
२१ शील श्रुतादिका निरूपण	४४८-४६३
२२ आराधनाका निरूपण	४६४-४८८

२३ पुद्गलपरिणाम का निरूपण	४८९-४९३
२४ पुद्गलास्तिकाय के स्वरूपका निरूपण	४९४-५१२
२५ लोकाकाश प्रवेशका निरूपण	५१३-५१५
२६ कर्ममकृति का निरूपण	५१५-५३३
२७ ज्ञानावरणीयादि कर्मके सम्बन्धका निरूपण	५३३-५६५
२८ जीवादिर्को के पुद्गल पुद्गलीका विचार	५६५-५७३
नववे शतकका मयम उद्देश	
२९ जम्बूद्वीप के स्वरूपका निरूपण	५७४-५८२
दूसरा उद्देश	
३० जम्बूद्वीपमें चन्द्रसूर्यादि ज्योतिष्कका कथन	५८३-६०३
नववे शतकके तीसरे उद्देशकसे तीस उद्देशक	
३१ एकोरुक आदि द्वीपवरविशेष का निरूपण	६०४-६१२
इकतीसवां उद्देश	
३२ इकतीसवें उद्देशका सप्तविषयविषरण	६१३-६१६
३३ अमुत्वा केवलीके घर्मादिलामका निरूपण	६१७-७७४
३४ अमुत्वा अवधिज्ञान के उत्पाद का निरूपण	६७४-६८३
३५ अमुत्वा अवधिज्ञानि के छेयादि का निरूपण	६८३-७०९
३६ अमुत्वा केवलीका घर्णन	७१०-७२३
३७ अमुत्वा सप्तविषयविज्ञानि का निरूपण	७२४-७३४

समाप्त


कलासवार मेम्बरैनी सचय्या

ता. २५ -१२-६३ ना शैल

३०	आद्यपुराणीय, इ. ५००० थी वधु रक्षम बनारस
३७	पुराणीय, इ. १००० थी वधु रक्षम बनारस
१३३	सहायक मेम्बरै, इ. ५०० थी वधु रक्षम बनारस
५६	दायक मेम्बरै, इ. २५० थी वधु रक्षम बनारस
४६	जीवा नखरना ज्योतिष्क मेम्बरै, इ. १५ थी वधु रक्षम बनारस
८३५	दुःख मेम्बरै

“ असंख्यं जीविय मा पमायए ”

..... श्री विनोद कुमार वीराणी



(टीक्षा दीधा पडेलां शास्त्राभ्यास करता)

जन्म : पोर्टसुदान सां. १९६२

टीक्षा

जीवन - (राजस्थान)

सां. २०१३ वैशाख वद १२

ता. २६-५-५७ रविवार

निर्वाण

इलोटी - (राजस्थान)

सां. २०१३ श्रावण शुद्ध १२

ता. ७-८-५७ शुक्रवार

२३ पुद्गलपरिणाम का निरूपण	४८९-४९३
२४ पुद्गलसात्त्विकाय के स्वरूपका निरूपण	४९४-५१२
२५ लोकाकाश प्रवेशका निरूपण	५१३-५१५
२६ कर्ममकृति का निरूपण	५१५-५३३
२७ ज्ञानावरणीयादि कर्मके सम्बन्धका निरूपण	५३३-५६५
२८ क्षीणादिकों के पुद्गल पुद्गलीका विचार नववे शतकका मयम उद्देशा	५६५-५७३
२९ बम्बूद्वीप के स्वरूपका निरूपण दूसरा उद्देशा	५७४-५८२
३० जम्बूद्वीपमें चन्द्रसूर्यादि ज्योतिष्कका कथन नववे शतकके तीसरे उद्देशकसे तीस उद्देशक	५८३-६०३
३१ एकोरुक आदि द्वीपवरविशेष का निरूपण इकतीसवां उद्देशा	६०४-६१२
३२ इकतीसवें उद्देशका सप्तविधियविवरण	६१३-६१६
३३ अमृत्वा केवलीके घर्मादिलामका निरूपण	६१७-७७४
३४ अमृत्वा अवधिज्ञान के उत्पाद का निरूपण	६७४-६८३
३५ अमृत्वा अवधिज्ञान के उद्देशादि का निरूपण	६८३-७०९
३६ अमृत्वा केवलीका घर्जन	७१०-७२३
३७ अमृत्वा प्रतिपन्नावधिज्ञान का निरूपण	७२४-७३४

समाप्त


ठेलासवार भेभरोनी सभ्या

ता. २५ -१२-६३ ना रोज

३० आद्यमुद्रणीकी,	श. ५००० थी	वधु रकम भरनार
३७ मुद्रणीकी,	श. १००० थी	वधु रकम भरनार
१३३ सदायक भेभरो, श.	५०० थी	वधु रकम भरनार
५६ साधक भेभरो, श.	२५० थी	वधु रकम भरनार
४६ बीजा नजरना गुना भेभरो, श.	१५ थी	वधु रकम भरनार

८३५ पुत्र भेभरो

આધમુરખીશ્રીઓ




(સ્વ.) શેઠશ્રી હરખચંદ કાલીદાસ વારિચ્યા
ભાણવડ.

(સ્વ.) શેઠ રંગલભાઈ મોહનલાલ શાહ
અમદાવાદ.



૧ વચ્ચે બેઠેલા મોટાભાઈ શ્રીમાન મૂલચંદ્રજી
જવાહીરલાલજી ખરડિયા
૨ બાબુમા બેઠેલા ભાઈ મિશ્રીલાલજી ખરડિયા
૩ ઉભેલા સૌથી નાનાભાઈ પૂનમચંદ ખરડિયા



શેઠશ્રી નેસિંગભાઈ પાચાલાલભાઈ
અમદાવાદ.



સ્વ. શેઠશ્રી આત્મારામ માણેકલાલ
અમદાવાદ.

આવમુરુબીશીઓ



મલ્લે ખેડેશ
સામાજિક કિશનજી દલ સા. બોહરી
કોલેજ સુપુન વિ. મહેતાજીજીજી સા. વેલ
નાના - આનિસકુમાર વેલ (સેવવા)



(સ્વ.) શામી સામલભાઈ વેશલભાઈ
વીરાવી-રાજકોટ.



શામી શાંતિલાલ મજરાસભાઈ
અમદાવાદ.



શામી સામલભાઈ સામલભાઈ વીરાવી
રાજકોટ.




(સ્વ.) શામી દિનેશભાઈ કાંતિલાલ શવડ
અમદાવાદ.



(સ્વ.) શામી હનનલાલ સામલભાઈ અમદાવાદ

આધ્યક્ષશ્રીઓ



શ્રી વૃજલાલ દુર્લભ પારેખ
રાજકોટ.



કેઠારી હરશાવિંદ જેથંદભાઈ
રાજકોટ.



શેઠશ્રી મિત્રીલાલ લાલચંદલ સા. લુણિયા
તથા શેઠશ્રી જેવંતરાજલ લાલચંદલ સા.



(સ્વ) શેઠશ્રી ધારશીલાલ ચવણલાલ
ખારસી.

સ્વ. શ્રીમાન્ શેઠશ્રી મુકન્દચંદલ સા.
ખાલિયા પાલી મારવાડ.

આઘમુરુબીથી



સ્વ. શામી હરિલાલ અનોપચક શાહ
ખલાલ.

આઘમુરુબીથી દાનવીર



સ્વ. શેઠ તારાભાઈ સાહેબ નેઠા
મયાસ.

બા. પ્ર. શ્રી વિનોદમુનિનું સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર

આ પરમ વૈરાગી અને ધ્યાના પુત્ર જેવા આ પુરુષનો જન્મ વિક્રમ સંવત ૧૯૯૨ પોર્ટસુદાન (આફ્રિકા) માં કે જ્યાં વીરાણી કુટુંબનો વ્યાપાર આજ દિવસ સુધી ચાલુ છે, ત્યાં થયો હતો.

શ્રી વિનોદકુમારના પુણ્યવાન પિતાશ્રીનું નામ શેઠશ્રી દુર્લભજી શામજી વીરાણી અને મહા લાગ્યવાન માતૃશ્રીનું નામ મણિબેન વીરાણી, બન્નેનું અસલ વતન રાજકોટ (સૌરાષ્ટ્ર) છે. બેન મણિબેન ધાર્મિક ક્રિયામાં પહેલેથી જ રૂચિવાળા હતા, પરંતુ શ્રી વિનોદકુમાર ગર્ભમાં આવ્યા પછી વધારે દૃઢધર્મી અને પ્રિયધર્મી બન્યા હતા.

પૂર્વભવના સંસ્કારથી શ્રી વિનોદકુમારનું લક્ષ ધાર્મિક અભ્યાસ અને ત્યાગ ભાવ તરફ વધારે હોવા છતાં તેઓશ્રીએ નૌનમેટ્રીક સુધી અભ્યાસ કરી વ્યવહારિક કેળવણી લીધેલી અને વ્યાપારની પેઢીમાં કુશળતા બતાવેલી.

તેઓશ્રીએ યુનાઇટેડ, ફિંગડમ, ફ્રાન્સ, બેલ્જિયમ, હોલેન્ડ, જર્મની, સ્વીઝર્લેન્ડ, તેમજ ઇટાલી, ઈજિપ્ત વગેરે દેશોમાં પ્રવાસ કરેલ. સં. ૨૦૦૬ ના વૈશાખ માસ, સને ૧૯૫૩ માં લંડનમાં રાણી એલીઝાબેથના રાજ્યારોહણ પ્રસંગે તેઓશ્રી લંડન ગયા હતા. કાશ્મિરનો પ્રવાસ પણ તેમણે કરેલ, દેશ પરદેશ ફરવા છતાં પણ તેમણે કોઈ વખતે પણ કંઈમૂળનો આહાર વાપરેલ નહીં.

ઉગતી આત્મી યુવાનીમાં તેઓશ્રીએ દુનિયાના રમણીય સ્થળો જેવાં કે કાશ્મિર, ઈજિપ્ત અને યુરોપનાં સુંદર સ્થળોની મુલાકાત લીધી હોવા છતાંએ તેઓને રમણીય સ્થળો કે રમણીય યુવતીઓનું આકર્ષણ થયું નહીં. એ એના પૂર્વભવના ધાર્મિક સંસ્કારનો જ રંગ હતો અને એ રંગે જ તેમને તે બધું ન ગમ્યુ અને તુરત વતન પાછા ફર્યા અને સાધુ-સાધ્વીજીનાં દર્શન કરવાને ઠેકઠેકાણે ગયા અને તેમના ઉપદેશનો લાભ લીધો અને વૈરાગ્યમાં જ મન લાગ્યું. હુંડા-કાલ અવસર્પિણિના આ દુષમ નામના પાંચમા આરાનું વિચિત્ર વાતાવરણ જોઈ તેમને કંઈક ક્ષોભ થતો કે તુરત જ તેનો ખુલાસો મેળવી લેતા અને ત્યાગ ભાવમાં સ્થિર રહેતા. દેશ-પરદેશમાં પણ સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, એવિહાર આદિ પચ્ચક્ષ્ણાણુ તેઓ ચૂકયા નહીં. ઊંચી કોટિની શૈયાને ત્યાગ કરી તેઓ સૂવા માટે માત્ર એક શેતરંજી, એક ઝોસીકું અને ઝોઠવા માટે એક આદર ફક્ત વાપરતા અને પલંગ ઉપર નહીં પણ ભૂમિ પર જ શયન કરતા અને પહેરવા માટે એક ખાતીનો લેંઘો અને ઝલ્લો વાપરતા, કોઈ વખતે કબજો પહેરતા, બહુ ઠંડી હોય તો વખતે સાદો ગરમ કોટ પહેરી લેતા અને મુહુપત્તિ, પાથરજી, રજોહરણ અને બે ચાર ધાર્મિક પુસ્તકની ઝોળી

સાથે શખતા, સપ્તસમાં નહીં પણ જગતમાં એકાંત જગ્યામાં ઘણે ભાગે શરીરની અશુભિ દૂર કરવા જતા, હોલતા ચાલતા, સઠાસ અને પેશાબ સબખીમાં છવડવાની ગરાબર જવન કરતા હતા.

દેશમાં કે પરદેશમાં જ્યારે તેમને કોઈની સાથે મળવાનું થતું ત્યારે તેમની સાથે અહિંસામય જીન ધર્મનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યા વગર રહેતા નહીં.

દીક્ષાર્થીઓને જલદી દીક્ષા લેવાની પ્રેરણા કરતા અને એમ જ કહેતા કે છાહીને કોઈ ભરોસો નથી. "અસક્ત્યં જીવિયં મા પમાયય" આશુબ્ય તુલાં વાર લાગવી નથી, તુલ્યુ છવન સધાતું નથી માટે ધર્મકરણીમા સમયમાત્રનો પ્રમાદ ન કરવો જોઈએ.

જોડલ સંપ્રદાયના ધણાજણ પૂ મુનિવરો અને પૂ મહાસતીઓનો તથા ઘોટાદ સંપ્રદાયના પૂ આચાર્યશ્રી માણેકચંદ્ર મહારાજ અને દરિયાપુરી સંપ્રદાયના શાંત-શાશ્વત પૂ મુનિશ્રી લાયચંદ્ર મહારાજ ધમણુ સધના મુખ્ય આચાર્યશ્રીઓ આત્મારામજી મહારાજ તપોમય જ્ઞાનનિધિ શાસ્ત્રોદારક જા. ધ્ર પૂ આચાર્ય મહારાજ શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ વગેરે અનેક સાધુ-સાધ્વીઓના ઉપદેશનો તેમણે લાભ લીધેલ મુળધર્મમાં સ ૨૦૧૧ સાલમાં શ્રી ધર્મસિદ્ધજી મહારાજના સંપ્રદાયના પરિવરતન શ્રી લાલચંદ્ર મહારાજનો પરિચય થયો. લાલચંદ્ર મહારાજ પોતે સંસારપક્ષના ત્રણ પુત્રો અને બે પુત્રીઓ એમ કુલ ૬ ભલકે જાણા કુટુંબિ સવમ જગીબર કરેલ, તે બધી તેમને અદ્ભૂત ત્યાગ લાવના પ્રગટ ધર્મ કે જે ઠરી ક્ષય પામી નહીં.

આ પહેલાં તેઓ જ્યારે માતાપિતાની સાથે પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી માણેકચંદ્ર મહારાજના ઇશને ઘોટાદ ગયેલા ત્યારે તેમના ઉપદેશની જે અસર થઈ તે પણ મુખ્ય અસર પહેલી હતી અને બીજી અસર તે પૂજ્ય લાલચંદ્ર મહારાજના સદકુટુંબની દીક્ષા એ હતી. આ બેઉ પ્રક્રિયાઓ પૂવ જવની બાકી રહેલી આરાધનાને પૂરી કરવાના નિમિત્તરૂપ હોઈને વખતો વખત તેઓ માતા-પિતા પાસે દીક્ષાની આજ્ઞા માગતા હતા અને તેનો જવાબ તેમના પિતાશ્રી તરફથી એક જ હતો, જે હજુ વાર છે સમય પાકવા દીઓ, જ્ઞાનાભ્યાસ વધારો.

સ ૨૦૧૨ ના અવાક શુદી ૧૫ થી શ્રી રિનોદકુમારે જોડલ સંપ્રદાયના શાશ્વત પૂ આચાર્ય શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ સાહેબ પાસે વેશવજ ધાતુમાંસ દરમ્યાન ખાસ નિયમિત રીતે દીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે તેમની પાસે જ્ઞાનાભ્યાસ કર્યો તેની સાથે પૂ આચાર્ય શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજના સંસાર પક્ષના કુટુંબી, દીક્રાના બાલિક શ્રી જયશંભુમાંક પણ જ્ઞાનાભ્યાસ કરતા હતા તેઓએ ત્યા જવો નિવૃત્ત કરવો કે આચાર્ય શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ

પાસે આપણે બન્નેએ દીક્ષા લેવી, પહેલાં વિનોદકુમારે અને પછી શ્રી જસરાજ-લાઇએ દીક્ષા લેવી, શ્રી જસરાજલાઇની દીક્ષા તિથિ પૂ. શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ સાહેબે સં. ૨૦૧૩ ના જેઠ સુદ ૫ ને સોમવારે માંગરોલ મુકામે નક્કી કરી. શ્રી જસરાજલાઇ વિનોદકુમારને રાજકોટ મળ્યા શ્રી વિનોદકુમારે શ્રી જસરાજલાઇની યથાયોગ્ય સેવા બજાવી, માંગરોલ રવાના કર્યા અને પોતે નિશ્ચયપૂર્વક દીક્ષા માટે આજ્ઞા માગી પણ તેઓના પિતાશ્રીની એકને એક વાણી સાંભળીને તેમને મનમાં આઘાત થયો અને દીક્ષા માટેનો તેમણે ખીન્ને રસ્તો શોધી કાઢ્યો.

પૂજ્યશ્રી લાલચંદજી મહારાજ અને તેમના શિષ્યોનો પરિચય મુંબઈમાં થયેલ હતો અને ત્યારબાદ કોઈ વખત પત્રવહેવાર પણ થતો હતો. છેલ્લા પત્રથી તેમણે જાણેલ હતું, જે પૂજ્ય શ્રી લાલચંદજી મહારાજ, ખીચન ગામે પૂ. આચાર્ય શ્રી સમર્થમલજી મહારાજ સાહેબ પાસે જ્ઞાનાભ્યાસ અર્થે ગયા છે પોતાને પિતાશ્રીની આજ્ઞા (દીક્ષા માટે) મળે તેમ નથી અને દીક્ષા તો લેવી જ છે. આજ્ઞા વિના કોઈ સાધુ મુનિરાજ દીક્ષા આપશે નહીં અને સ્વયમેવ દીક્ષા સૌરાષ્ટ્રમાં લઈને આચાર્ય શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ પાસે જવામાં ઘણું વિઘ્નો થાશે, એમ ધારીને તેઓએ દૂર રાજસ્થાનમાં ચાલ્યા જવાનું નક્કી કર્યું.

તા. ૨૪-૫-૫૭ સં. ૨૦૧૩ ના વૈશાખ વદ ૧૦ ને શુક્રવારના રોજ સાંજના માતુશ્રી સાથે છેલ્લું જમણું કર્યું. લોજન કરી, માતુશ્રી સામાયિકમાં બેસી ગયા. તે વખતે કોઈને જાણ કર્યા વગર દીક્ષાના વિદ્યોમાંથી બચવા માટે ઘર, કુટુંબ, સૌરાષ્ટ્રભૂમિ અને ગોંડલ સપ્રદાયનો પણ ત્યાગ કરી તેઓ ખીચન તરફ રવાના થયા.

શ્રી વિનોદમુનિના નિવેદનપરથી માલુમ પડ્યું કે તા. ૨૪-૫-૫૭ ના રોજ રાત્રે અઠ વાગે ઘેરથી નીકળી, રાજકોટ જંકશને જોધપુરની ટ્રિકિટ લીધી. તા. ૨૫-૫-૫૭ ના સવારે ૮ વાગ્યે મહેસાણા પહોંચ્યા. ત્યાં અઢી કલાક ગાડી પડી રહે છે, તે દરમિયાન ગામમાં જઈને લોચ કરવા માટેના વાળ રાખીને બાકીના કઠાવી નાખ્યા અને ગાડીમાં બેસી ગયા. મારવાડ જંકશન તથા જોધપુર જંકશન થઈને તા. ૨૬-૫-૫૭ ની વહેલી સવારે ૪૧ વાગ્યે ફેલોદી પહોંચ્યા ત્યાંથી પગે ચાલીને ખીચન ઉપાશ્રયમાં પહોંચ્યા અને ઉપાશ્રયમાં બિરાજતા મુનિવરોના દર્શન કર્યા, વંદણા નમસ્કાર કરી સુખશાતા પૂછી બહાર નીકળ્યાં અને પોતાના સામાયિકના કપડાં પહેર્યાં અને પછી પૂજ્ય શ્રી મુનિવરોની સન્મુખ સામાયિક કરવા બેઠા, તેમાં “ જાવ નિયમા પજ્જવાસામિ દુવિહ તિવિદેણ ” ના બહલે “ જાવ જીવ પજ્જવાસામિ તિવિદ્ધ

તિવિદ્યેજ્ઞ” બોલ્યા તે શ્રી લાલચદાસ મહારાજે સાંભળ્યું અને તેઓશ્રીએ પૂછ્યું કે ‘વિનોદપુત્રાર! તમે ત્યાં શું કરો છો, તેનો જ્વાળ આપવાને બદલે “અપ્પાણ વોસિરામિ” બોલી પાઠ પૂરો કર્યો અને પછી વિનયપૂર્વક બે હાથ જોડીને બોલ્યા કે “સાહેબ! જો તો બની ચૂક્યું અને મેં સ્વયંમેવ દીક્ષા લઈ લીધી બરાબર જ છે અને તેમાં કાંઈ ફેરફાર થઈ શકે તેમ નથી. આ સિવાય આપશ્રીની બીજી કોઈ પણ પ્રકારની આજ્ઞા હોય તો ફરમાવો.”

તે જ દિવસે બપોરના સાઝણ પૂ. મુનિશ્રી સમર્થમલલ મહારાજ સાહેબે શ્રી વિનોદપુત્રાર મુનિને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને સમજાવ્યા કે “તમે જોકે સાચા જ્ઞાનદાન કુટુંબના વ્યક્તિ છો તમારી આ દીક્ષા અગીકાર કરવાની રીત બરાબર નથી, કારણ કે તમારા માતા-પિતાને આ હકીકતથી દુઃખ થાય અને તેથી મારી સહમતિ છે કે રજોદશરજની ઠાંડી ઉપરથી કપડું કાઢી નાખો, જેથી તમે શ્યાવક જણાવ અને જરૂર પડે તો શ્યાવકોનો સાથ લઈ ચકો, જોમ ત્રણવાર પૂ મહારાજશ્રીએ સમજાવેલા પરંતુ તેમજે ત્રણેય વખત જોકે જ ઉત્તર આપેલો કે “જે યજુ તે યજુ હવે મારે આગળ શું કરવું તે ફરમાવો.”

શ્રી વિનોદમુનિના શ્રી સમર્થમલલ જેવા મહામુનિના પ્રશ્નના જ્વાળ પછી ખીજનનો ચતુર્વિંશ સમ વિચારમાં પડી ગયો અને મુનિશ્રીઓ ઉપર સહાયરીઓનો કોઈ પણ પ્રકારનો આ નિષ્કારણ હુમલો ન આવે તે માટે શ્રી વિનોદમુનિને જણાવવામાં આવ્યું કે “આમરી સલામતી માટે તમારે બદલેર નિવેદન બદલેર પાડવાની જરૂર છે” ત્યારે શ્રી વિનોદમુનિએ પોતાના હસ્તાક્ષરે નિવેદન શ્રી સમ સમજ પ્રકટ કર્યું, તેનો સાર નીચે મુજબ છે—

મારા માતા-પિતા મોહને વચ થઈને દીક્ષાની આજ્ઞા આપે તેમ ન હતું અને “અસંકલ્પ વીચિય મા વમાગવ” ને આધારે જોકે ક્ષણ પણ દીક્ષાથી વચિત રહી શકું તેમ નથી, જોમ અને લાગ્યું શ્રી લાલચદાસ મહારાજ સાહેબ વજેરેએ મને મારી દીક્ષા માટે વિચારી પછી કરવાનું કહેલ પરંતુ મને સમજ માત્રનો પ્રમાદ કરવો ઠીક ન લાગ્યો, તેથી શ્રી અરિહંત ભગવંતો તથા શ્રી સિદ્ધ ભગવંતોની સાક્ષીએ મારા ગુરુ મહારાજ સમક્ષ પ્રવચ્ચાનો પાઠ બોલીને મારા આત્માના કમ્પાણ માટે મેં દીક્ષા અગીકાર કરી છે સમાજને જોડેલો જ્ઞાસ ન આવે કે મારી દીક્ષા ક્ષણિક જુસ્સાથી અથવા વેરધમજથી થઈ છે તેથી તથા સમાજમાં નૈનયાસનની પ્રસાધના થાય તે હેતુથી મારે મારો જુસ્સાવ પ્રજા કરવો ઉચિત છે

ઉત્તરાધ્યયનલ સૂત્રના ૧૬ માં અધ્યયનપરથી અને લાગ્યું કે મનુષ્ય લખનું ખર્ચે કવચ મોક્ષકળ આપનારી દીક્ષા જ છે

છેવટ સુધી મેં મારા બાપુજી પાસે દીક્ષા માટે આજ્ઞા માગી અને તે વખતે પણ પહેલાંની જેમ વાત ઉઠાવી દીધી અને અનંત ઉપકારી એવા મારા બાપુજી સમક્ષ હું તેમને કડક ભાષામાં પણ કહી શકતો ન હતો અને બીજી બાબતો મને થયું કે આયુષ્ય અશાશ્વાત છે અને આવા ઉત્તમ કામ માટે મારે જરાપણ પ્રમાદ કરવો ઉચિત નથી. તેથી વિચારીને આ પગલું ભયું છે અને મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે, શ્રી વીરપ્રભુ મહાવીર સ્વામીનો સકળ સંઘ મારા આ કાર્યને અનુમોદશે જ “ તથાસ્તુ ”

રાજકોટમાં—શ્રી વિનોદકુમારના ગયા પછી પાછળથી ખબર પડી કે વિનોદકુમાર કેમ દેખાતા નથી, એટલે તપાસ થવા માંડી, ગામમાં ક્યાંય પત્તો ન લાગ્યો એટલે બહારગામ તારો કર્યો. ક્યાંયથી સંતોષકારક સમાચાર સાંપડ્યા નહીં, અર્થાત્ પત્તો મળ્યો જ નહીં. આમ વિમાસણના પરિણામે તેમના પિતાશ્રીને બે મહિના પહેલાંની એક વાત યાદ આવી. ને એ હતી કે તે વખતે શ્રી વિનોદકુમારે આજ્ઞા માગેલી કે “ બાપુજી ! આપની આજ્ઞા હોય તો આ આતુર્ભાસ ખીચન (રાજસ્થાન) જઈ, કારણ કે ખીચનમાં પૂ. ગુરુ મહારાજ શ્રી સમર્થમલજી મહારાજ કે જેઓ સિદ્ધાંત વિશારદ છે અને એકાંતવાદના પૂરા જાણકાર છે, તેઓ ત્યાં બિરાજમાન છે. જેઓશ્રી પાસે શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવા માટે પૂ લાલચંદજી મહારાજ આદિ ઠાણા ૪ જવાના છે. તો મારી ઇચ્છા પણ ત્યાં તેમની પાસે જવાની છે ”

આ વાતચીતનું સ્મરણ તેમના પિતાશ્રીને આવવા સાથે તેઓએ પં. પૂર્ણચંદ્રજી દેવને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને વિનોદકુમાર માટેની પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી. પંડિતજીનું આ વાતને સમર્થન મળ્યું, તેઓશ્રીએ જણાવ્યું કે થોડા સમય પૂર્વે વિનોદકુમારે મારી પાસે જાણવા માગ્યું હતું કે, ખીચનમાં કેવા પ્રકારની સગવડ છે? આમ મારી સાથે પણ વાર્તાલાપ થયો હતો. બંનેનો આ પ્રમાણે એકમત થતાં તેમના પિતાશ્રીએ ખીચન તાર કરવા સૂચના કરી. તા. ૨૬-૫-૫૭ ના રોજ પૃથિવરાજજી માલુ ખીચન (રાજસ્થાન) ઉપર તાર કર્યો.

તા. ૨૮-૫-૫૭ ના રોજ જેવાબ આવ્યો કે શ્રી વિનોદલાઈએ ખીચનમાં સ્વયમેવ દીક્ષા ગ્રહણ કરી છે. એટલે તેમના પિતાશ્રીએ રાવબહાદુરશ્રી એમ. પી. સાહેબ, શ્રી કેશવલાલભાઈ પારેખ અને પંડિતજી પૂર્ણચંદ્રજી દેવ એમ ત્રણેયને શ્રી વિનોદકુમારને પાછા તેડી લાવવા માટે ખીચન મોકલ્યા. તા. ૨૮-૫-૫૭ ના રોજ સવાના થઈ તા. ૩૦-૫-૫૭ ના રોજ સવારે કુલોદી સ્ટેશને પહોંચ્યા. તેઓ બળદગાડીમાં ખીચન ગયા કે જ્યાં સ્થવિર મુનિશ્રી મહારાજ પૂજ્ય પંડિતરત્ન શાસ્ત્ર વિશારદ શ્રી સમર્થમલજી મહારાજ આદિ ઠાણા ૮ તથા પૂજ્ય તપસ્વી મહારાજ શ્રી લાલચંદજી મહારાજ આદિ ઠાણા

૪ બિરાજતા હતા. કુદલે સાધુ-સાધ્વીની સંખ્યા અઠ્ઠાવીસથી ત્રીસની હતી.

પૂછપરછના જવાબમાં થી વિનોદમુનિએ કેશવલાલભાઈ પારખને કહ્યું કે “ મેં તો દીક્ષા અર્જીકાર કરી લીધી છે તેમાં કંઈ ફેરફાર થાય તેમ નથી. તમને અમારા વીરાણી કુટુંબના દિતૈયી છે, અને જો સાચા દિતૈયી હો તો મારા પૂ જા અને જાપુજને મારી હવે પછીની મોટી દીક્ષાની આજ્ઞા અઠવાડીયાની અંદર અપાવી ઘો જોટલું જ નહિ પણ ‘ સવિ શુભ કઈ શાસન વસી ’ ની જાવનામાં અને આજ દિવસ મુખીના મારી ઉપરના ઉપકારના વહલામાં આજમને અનુલક્ષીને મારી જો જાવના હોય જ અને છે કે, મારી દીક્ષા તેજોની દીક્ષાનું નિમિત્ત બને અને મારા માતા-પિતા સફળતિને સાધે અર્થાત્ મારી સાથે દીક્ષા લીજો.

આવા દુઠ જવાબના પરિણામે તે જ સમયે શ્રી વિનોદકુમારને પાછા લઈ જવાની જાવનાને નિષ્ફળતા સંપત્રી અને તા ૦૧-૫-૫૭ ની શત્રિના રવાના થઈ, તા ૨-૬-૫૭ ના સવારે મહા પરીષદરૂપ ક્ષેત્રનો અનુભવ કરી, શ્રી વિનોદકુમારના પિતાશ્રીને તમામ વાતથી વાકેફ કર્યા.

મોક્ષ વખતમાં ફોલોડીના થી સયે પૂ શ્રી હાલઅહલ મહારાજને ફોલોડીમા મોખામુ કરવાની વિનવતી કરી તેનો અસ્વીકાર થવામાં સઘ અમળીન બન્ને જોટલે નિષ્ફળ ફેરવે અને અપાઠ મુદ ૧૩ ના રાજ ખીચનથી વિહાર કરી ફોલોડી આવ્યા.

દીક્ષા પછી બહી મહિનાને અંતરે ફોલોડી મોખામુ દરમ્યાન શ્રી વિનોદ-મુનિને હાજરતે જવાની સસા થઈ અને તે માટે જવા તૈયાર થવા જોટલે તેમના ગુરુએ કહ્યું કે બહુ અસ્મી છે, જરાબાર મોળી બવ જોટલે શ્રી વિનોદ મુનિએ રજોદરજી વચેરેની પ્રતિલેખના કરી તે દરમ્યાન ન રોહી શકાય જોવી હાજર લાગી તેથી ફરી આજ્ઞા આગ્રતા જણાવ્યું કે મને હાજર બહુ લાગી છે તેથી બઈ હુ જલહી પાછો ફરીશ. ઠાળની ગઢન અતિને દુઃખે રજના રજવી હતી આજે જ જોક્ષા જવાનો બનાવ હતો, હ મેમાં તો બધા સાધુજો સાથે મળીને વિસાજો જતા

હાજરથી મોકળા થઈ પાછા ફરતા હતા, ત્યાં રહેલે લાઇન ઉપર જી ગાયો આવી રહી હતી. બીજી જાણથી ટેમન પણ આવી રહી હતી, તેની બિહસલ વાજવા છતાં પણ ગાયો ખસતી ન હતી. શ્રી વિનોદમુનિનું હૃદય યરવરી ઉઠ્યું અને મહા અનુકંપાએ મુનિના હૃદયમાં સ્થાન લીધું. હાથમાં રજોદરજી લઈ જાવના જોખમની પરજા કર્યા વગર ગાયોને બચાવવા ગયા.

ગાથાને તો બચાવી જ લીધી પરંતુ આ ક્રિયામાં છકાય જીવની દયાના સાધન ભૂત રજોહરણ કે જે વિનોદમુનિને આત્માથી વધારે પ્યારો હતો, તે રેલ્વે લાઇન ઉપર પડી ગયો અને શ્રી વિનોદમુનિએ તે પાછો સંપાદન કરવામાં જડવાદને સિદ્ધ કરતાં રાક્ષસી એન્જિનને ઝપાટે આવ્યા અને પોતાનું બલિદાન આપ્યું. અરિહંત... અરિહંત.. એવા શબ્દો મુખમાંથી નીકળ્યા અને શરીર તૂટી પડ્યું. રક્તપ્રવાહ છૂટી પડ્યો અને થોડા જ વખતમાં પ્રાણાંત થઈ ગયો બધા લોકો કહેવા લાગ્યા કે ગૌરક્ષામાં મુનિશ્રીએ પ્રાણ આપ્યાં, અંતિમ સમયે મુનિશ્રીના ચહેરાપર ભવ્ય શાન્તિ જ દેખાતી હતી.

હ મેશા તેઓ જે તરફ હાજતે જતા હતા તે તરફ ફ્લોદીથી પોકરણ તરફ જવાની રેલ્વે લાઇન હતી આ લાઇન ઉપર રેલ્વે સત્તાવાળાઓએ ફાટક મૂકેલ નથી અને ત્યાં રસ્તો પણ છે, એટલે પશુઓની અવરજવર હોય જ છે અને વખતો વખત ત્યાં ઠોરો રેલ્વેની હડકેટે ચડી જવાના પ્રસંગ બને છે.

ફ્લોદી સંઘે આ દુર્ઘટનાના બખર રાજકોટ, ટેલીફોનથી આપ્યા. જે વખતે ટેલીફોન આવ્યો તે વખતે વિનોદમુનિના પિતાશ્રી બહાર ગયા હતા અને માતૃશ્રી મણિબેન સામાયિક પ્રતિક્રમણમાં બેઠાં હતાં, માત્ર એક નોકર જ ઘરમાં હતો કે જેણે ટેલીફોન ઉઠાવ્યો પણ તે કાંઈ ટેલીફોનમાં હકીકત સમજી શક્યો નહીં અને સાચા સમાચાર મોડા મળ્યા સ્પેશ્યલ પ્લેનથી ફ્લોદી પહોંચે તે પહેલાં અસિસ્ટન્કાર થઈ ગયો. સૂચનાનો ટેલીફોન અડધી કલાક મોડા પહોંચ્યો. જો સદેશો સમયસર પહોંચ્યો હોત તો માતા-પિતાને શ્રી વિનોદમુનિના શબ્દપે પણ ચહેરો જોવાનો અને અંતિમ દર્શનનો પ્રસંગ મળત. પરંતુ અંતરાય કર્મે તેમ બન્યું નહીં.

આથી પ્લેઇનને પોશ્રામ પડતો મૂકવામાં આવ્યો અને માતા-પિતા તા ૧૪-૮-૫૭ ના રોજ ટ્રેન મારફત ફ્લોદી પહોંચ્યા, શ્રી દુર્લભજીભાઈ અને મણિબેને પૂજ્ય તપસ્વીશ્રી લાલચંદજી મહારાજ સાહેબના દર્શન કર્યાં.

આ પ્રસંગે શ્રી લાલચંદજી મહારાજ સાહેબે અવસરને પિછાણીને અને ધૈર્યનું એકાએક એકય કરીને, શ્રી વિનોદમુનિના માતા-પિતાના સાત્વન અર્થે ઉપદેશ શરૂ કર્યો જેનો ટૂંકામાં સાર આ પ્રમાણે છે.

“ હવે તો એ રત્ન ચાલ્યું ગયું ! સમાજનો આરાદીપક એલવાઈ ગયો ! ઝટ ભગીને આથરી ગયો ! હવે એ દીપ ફરીથી આવી શકે તેમ નથી ”

શ્રી વિનોદમુનિના સસારપમના માતૃશ્રી મણિબેનને મુનિશ્રીએ કહ્યું કે, બેન ! ભાવિ પ્રજા છે આ બામનમા મહાપુરુષોએ પણ હાથ ધીરું નાખ્યા છે અને હીને મરણને ચરણ ચર્ક પડે છે તો પછી આપણા જેવા પામર માણીનું શું ચલુ છે ? હવે તો શેક દૂર કરીને આપણે એમના મૃત્યુનો આદ્ય જેપને માત્ર ધીરજ પરવાની રહી

પૂ શ્રી સમથ મલ્લ મહારાજ સાહેબનો અભિપ્રાય—

પ્રાથમિક તેમજ અધ્યાત્મના પરિચયથી મને શ્રી વિનોદમુનિના વિષે અનુભવ થયો, કે તેમની ધર્મપ્રિયતા અને ધર્માભિલાષા ' અટ્ટમિત્તા વેમાણુ રાગરત ' નો પરિવચ કરાવતી હતી. પ્રાપ્ત સાંચારિક પ્રચૂર વૈભવ તરફ તેમની કૃષિ દિશોચર ધની ન હતી. પરંતુ તેઓ વીતરામચાણીના સર્જકની વિષય વિમુક્ત ધર્મકાવમાં આ તરફ અને તદ્દીન દેખાતા હતા. આમ પરિચયના અભાવે વૈરાગ્ય પણ તેમની ધારાથી તેમની ધર્મોનુરામિતા તથા છવનયથી કલ્પિત કાર્ય કરવામાં પણ અમર ન્તા સ્થાને મુખાનુભવની વૃત્તિ લગભગ આવતી હતી.

શ્રી વિનોદમુનિના છવનના બે પ્રશ્નો ઉપરિચય થાય છે તેનો ખુલાસો કરવામા આવે છે

પ્રશ્ન ૧—તેમણે જ્ઞાતા જમર સ્વયમેવ દીપ્તા કેમ લીધી ?

ઉત્તર—પદ્યમાં જ્ઞાતામાં બહુ શેડાણીના પુત્ર જોવતા (અતિમુખ) કુમારને તેની માતૃશ્રીએ દીપ્તની જ્ઞાતા આપવાની તરત ના પાડી એવું તેણે જણાવ્યું હતું. આ જ્ઞાતા બહુ જીવે પતાના કુમારને મુરુને સોંપી દીધા તેજ સામે તેણે જાણી બિજાણી પગા અગ્નિકાર કરી અને શિયા લાગીના પતીવહાયે કાગ કરી તરીકેનુભવ વિમાનમાં ગયા તેવી જ રીતે શ્રી વિનોદમુનિ ૧૯૧૯ દલિત થય

પ્રશ્ન ૨—અથા શા રી છવને આવો અવકાશ પરીવહ કેમ આવે ?

ઉત્તર—ઉદાત્તક નમ મરીતી છવને માણનિક ઉપમત આવેત છે એ—અજ્ઞાનમરુત, મિત્રજ(મતાપ) મુનિ કેશવ મુનિ કાચુ કે તેમની સમજ હજારો અર્થા કમ વાચા એ તે ત્યારે તેમને જોઈમ મિત્ર જર્ક હતું ત્ય પ્રાણનિક ઉપમત અભ્યા વમર જોઈતુ અથા કમ કેવી રીતે ખરે ? આ જ્ઞાતી વિને દમનિને અરો પગીઈ જ્ઞાતી, જે ઉપવધી એમ અનુમાન થય છે કે તે આ વડી છવ રે જ

એ વિનેતકનુ વિનુદ છવનધરિ અથા કુવતથી મુખાની અથા નવ દિન્દિ અવધ છવરેક શી પેદાઈ અરી કમ રૂપ મરીત કરેત છે

॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥

श्रीजैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री-घासीलालव्रतिविरचितया प्रमेय-
चन्द्रिकाख्यया व्याख्यया समलङ्कृतं व्याख्याप्रज्ञप्त्यापरनामकम्

श्री-भगवतीसूत्रम् ।

(सप्तमो भागः)

अथ अष्टमोद्देशकः प्रारभ्यते ।

अष्टमशतकस्य अष्टमोद्देशकस्य संक्षिप्तविषयविवरणम्—

गुरुप्रत्यनीकाः, गतिप्रत्यनीकाः, समूहप्रत्यनीकाः, अनुकम्पाप्रत्यनीकाः, श्रुतप्रत्य-
नीकाः, भावप्रत्यनीकाः, व्यवहारः, व्यवहारस्य फलम्, ऐर्यापथिकः सांपरायिकश्च
बन्धः, ऐर्यापथिकबन्धस्य स्वामी, ऐर्यापथिकं कर्म वेदरहितो जीवो बध्नाति, स्त्रीपुं-
नपुंसकपश्चात्कृतो जीव ऐर्यापथिकं कर्म बध्नाति, ऐर्यापथिककर्मसम्बन्धे विकल्पाः,

आठवें शतक के आठवां उद्देशक

आठवें शतक के इस अष्टम उद्देशे में जो विषय वर्णित हुआ है
—उसका विवरण संक्षेप से इस प्रकार है—गुरुप्रत्यनीक, गतिप्रत्यनीक,
समूहप्रत्यनीक, अनुकंपाप्रत्यनीक, श्रुतप्रत्यनीक, भावप्रत्यनीक, इनका
कथन। व्यवहार और व्यवहारफल, ऐर्यापथिकबन्ध, सांपरायिकबन्ध,
तथा ऐर्यापथिकबन्धके स्वामी इनका कथन। ऐर्यापथिककर्म यदि वेदरहित
जीव बांधता है तो स्त्रीनपुंसक पश्चात्कृतादि जीव बांधता है क्या ? ऐसा

आठवां शतकने आठमो उद्देशक

आठवां शतकने आठवां उद्देशकमां जे विषयनुं प्रतिपादन करवांमां
आव्यु छे, तेनुं संक्षिप्त विवरण नीचे प्रमाणे छे—गुरु प्रत्यनीक, गति प्रत्य-
नीक, समूह प्रत्यनीक, अनुकंपा प्रत्यनीक, श्रुत प्रत्यनीक, भाव प्रत्यनीक, आ
छ प्रकारना प्रत्यनीके। (विरोधीओनुं) कथन. व्यवहार अने व्यवहार इणतुं
कथन. ऐर्यापथिक अंध, सांपरायिक अंध अने ऐर्यापथिक अंधता. स्वामीनुं
कथन. ऐर्यापथिक कर्म जे वेदरहित जीव बांधतो होय, तो शु स्त्रीनपुंसक पश्चात्-
कृतादि जीव बांधे छे ? ओवो प्रश्न अने तेनो उत्तर. ऐर्यापथिक कर्मना

प्रेयांपथिककर्मसम्बन्धे सादिसपर्यवसितादिमहा, (प्रेयांपथिक कर्म किं देशात्
 येषं वध्नाति' इत्यादि प्रश्नोत्तरम्, सर्वेण सर्वं वध्नाति, साम्परायिककर्मसम्बन्धस्य
 स्वामी, स्त्रीप्रभृति वध्नाति, स्त्रीपश्चात्कृतादिः वध्नाति, सांपरायिक कर्म अपश्नात्,
 वध्नाति, संत्स्यति, इत्यादिसम्बन्धे विकल्पाः, सादिसपर्यवसितादिविकल्पाः, सांप
 रायिककर्म, देशात् देशं वध्नाति? कर्मप्रकृतयः, परिपहाः, परिपहाणां कर्म
 प्रकृतिः समवतार वेदनीयकर्मसु समवतार, दर्शनमोहनोपकर्मसु समवतार, चारि
 प्रमोहनोपकर्मसु समवतारः, अन्तरायधर्मणि समवतार, सप्तविधकर्मबन्धकानां
 परिपहा, अष्टविधकर्मबन्धकानां परिपहा, पञ्चविधकर्मबन्धकानां परिपहा, एक

प्रश्न और उत्तर, प्रेयांपथिक कर्मके संबंध में विकल्प। प्रेयांपथिक कर्म
 के संबंध में सादि, सपर्यवसित आदि भङ्ग। प्रेयांपथिककर्म के एकदेश
 को एकदेश से जीव बांधता है? इत्यादि प्रश्न। सर्व से सर्व को बांधता
 है ऐसा उत्तर। सांपरायिक कर्मबंध के स्वामी। स्त्री आदि भी इसे
 बांधते हैं ऐसा कथन। स्त्री पश्चात्कृतादि जीव सांपरायिक कर्म को
 बांधता है ऐसा कथन। सांपरायिक कर्म जीवने बांधा है, बांधता है,
 बांधेगा-इत्यादि सम्बन्धमें अनेक विकल्प। सांपरायिक कर्मबंधमें सादि
 सुपर्यवसित आदि विकल्प। साम्परायिक कर्म के देश को देश से जीव
 बांधता है? ऐसा प्रश्न और उत्तर। कर्मप्रकृतियों का परीपहो का कर्म
 प्रकृतियों में समवतार का कथन। इनका जानावरणीय, वेदनीय, मोह
 नीय और अन्तराय में समवतार होता है ऐसा कथन। सप्तविधकर्म
 बन्धक जीवों के परीपहो का कथन। अष्टविध कर्मबन्धक जीवों के परी

विधकर्म विकल्प कथन. प्रेयांपथिक कर्म विधेना सादि, सपर्यवसित आदि
 भङ्ग प्रश्न—' शु एव प्रेयांपथिक कर्मना ज्ञेय देशी ज्ञेय देशने बांधे छे?'
 उत्तर—सर्वथी सर्वने बांधे छे " सांपरायिक कर्मबन्धना स्वामीतुं कथन,
 स्त्री आदि पशु ते बांधे छे जेवु कथन. स्त्रीपश्चात् कृतादि एव सांपरायिक
 कर्म बांधे छे जेवु कथन. सांपरायिक कर्म एव बांध्यु छे बांधे छे -ने बांध्ये
 धर्म्यादिने अनुसंधाने अनेक विकल्प सांपरायिक कर्मबन्धनां सादि सपर्यवसित
 आदि विकल्प. ' शु सांपरायिक कर्मना देशने देशथी एव बांधे छे? '
 अने प्रश्न अने तेना उत्तर. कर्म प्रकृतियेना परीपहोनां कर्मप्रकृतियेना
 समवतारनु- (समावेशनुं) कथन तेमने. जानावरणीय, वेदनीय, मोहनोप
 अने अन्तरायमां समवतार बांधे छे जेवु कथन. सप्तविध कर्मबन्धक एवोना

विधबन्धकवीतरागछद्मस्थस्य परिपहाः, एकविधबन्धकसयोगिकेवलिनः परिपहाः, कर्मबन्धरहिताऽयोगिकेवलिनः परिपहाः, जम्बूद्वीपे दूरस्थोऽपि सूर्यः कथं समीपवर्ती प्रतीयते, सूर्यः सर्वत्रैव उच्चत्वे समान एव, तेजसः प्रतिघातात् दूरवर्ती भूत्वाऽपि समीपवर्ती प्रतीयते, तेजसः अभितापात् समीपस्थोऽपि दूरतरवर्ती प्रतीयते, अतीतक्षेत्रं प्रति गच्छति ?, इत्यादिप्रश्नः, अतीतं प्रकाशयति, इत्यादिप्रश्नः, वर्तमानं क्षेत्रं प्रकाशयति, स्पृष्टक्षेत्रं प्रकाशयति, अतीतं क्षेत्रमुद्घोतयति, इत्यादिप्रश्नोत्तरम्, सूर्यपरिस्पन्दनं वर्तमानक्षेत्रे भवति, सूर्यः स्पृष्टां क्रियां करोति, क्रिय-

पहों का कथन । षड्विध कर्मबन्धक जीवों के परीषहों का कथन । एकविध कर्मबन्धक वीतराग छद्मस्थ जीव के परीषहों का कथन । एकविध बंधक सयोगी केवली के परीषहों का कथन । कर्मबन्ध रहित अयोगी केवली के परीषहों का कथन—जम्बूद्वीप में दूरस्थ भी सूर्य समीप में रहा-हुआ क्यों प्रतीत होता है ऐसा प्रश्न । सूर्य सर्वत्र ही ऊँचाई में समान ही है ऐसा कथन । तेज के प्रतिघात से दूरवर्ती होकर भी सूर्य समीपवर्ती प्रतीत होता है—तेज के अभिताप से समीपस्थ भी सूर्य दूरतरवर्ती प्रतीत होता है ऐसा कथन । सूर्य अतीतक्षेत्र के प्रति जाता है ? ऐसा प्रश्न—अतीतक्षेत्र को प्रकाशित करता है ? ऐसा प्रश्न—वर्तमान क्षेत्र को प्रकाशित करता है ऐसा कथन—स्पृष्ट क्षेत्र को प्रकाशित करता है ऐसा समाधान, अतीत क्षेत्र को उद्योतित करता है ऐसा उत्तर—सूर्य की परिस्पन्दरूप क्रिया वर्तमानक्षेत्र में होती है ऐसा कथन—सूर्य-

परीषडानुं कथन. એ જ પ્રમાણે સમવિધ અને ષડ્વિધ કર્મબંધક જીવોના પરિષડોનું કથન એકવિધ કર્મબંધક વીતરાગ છદ્મસ્થ જીવના પરિષડોનું કથન એકવિધ કર્મબંધક સયોગી કેવલીના પરિષડોનું કથન કર્મબંધ રહિત અયોગી કેવલીના પરિષડોનું કથન “જ ખૂદ્દીપમાં દૂર રહેલો સૂર્ય શા કારણે સમીપમાં રહેલો દેખાય છે,” એવો પ્રશ્ન. ઉત્તર—“સૂર્ય સર્વત્ર સમાન ઊંચાઈએ જ છે તેજના પ્રતિઘાતથી દૂર રહેલો સૂર્ય પણ સમીપમાં હોય એવું લાગે છે. તેજના અભિતાપથી સમીપમાં રહેલો સૂર્ય પણ દૂર દેખાય છે એવું કથન.”

“સૂર્ય અતીત ક્ષેત્રની તરફ જાય છે ખરો ? એવો પ્રશ્ન. “અતીત ક્ષેત્રને સૂર્ય પ્રકાશિત કરે છે ખરો ?” એવો પ્રશ્ન વર્તમાન ક્ષેત્રને પ્રકાશિત કરે છે એવું કથન, સ્પૃષ્ટ ક્ષેત્રને પ્રકાશિત કરે છે એવું સમાધાન અતીત ક્ષેત્રને ઉદ્યોતિત કરે છે એવો ઉત્તર—સૂર્યની પરિસ્પન્દરૂપ ક્રિયા વર્તમાન ક્ષેત્રમાં થાય છે એવું કથન. સૂર્ય સ્પૃષ્ટ ક્રિયા કરે છે એવું કથન. “સૂર્ય-

स्तेममूष्व तापयति ? मनुष्योत्तरपर्वतान्तर्गतचन्द्रादिदेव किमूर्ध्वलोकोत्पन्नाः ? मनुष्योत्तरपर्वतस्य बहिर्बन्धादिदेवः किमूर्ध्वलोकोत्पन्नोऽस्ति ? इन्द्रस्थान किं कालपर्यन्तम् उपपातविरहित भवेत् ? इति ।

गुर्वादिप्रत्यनीकपक्ष्यता ।

सप्तमो देशके स्वधिरान् प्रति अन्यतीर्थिकाणां प्रत्यनीकतया प्ररूपितत्वेन प्रत्यनीकप्रस्तावात् अष्टमादेशके गुर्वादिप्रत्यनीकान् प्ररूपयितुमाह—‘रायगिहे’ इत्यादि ।

मूष्म्—रायगिहे नयरे जाष ष्व वयासी—गुरू ण भते ।

पहुच्च कइ पडिणीया पणत्ता ? गोयमा ! तओ पडिणीया

पणत्ता, त जहा आयरियपडिणीए, उवज्झायपडिणीए,

थेरपडिणीए । गइ ण भते ? पहुच्च कइ पडिणीया पणत्ता ?

गोयमा ! तओ पडिणीया पणत्ता, तं जहा इह लोगपडिणीए,

परलोगपडिणीए, दुहओलोगपडिणीए । समूह ण भते ।

पहुच्च कइ पडिणीया पणत्ता ? गोयमा ! तओ पडिणीया

पणत्ता, त जहा कुलपडिणीए, गणपडिणीए, सघपडिणीए ।

अणुकप पहुच्च पुच्छा ? गोयमा ! तओ पडिणीया पणत्ता

त जहा—सवस्सिपडिणीए, गिलाणपडिणीए, सेहपडिणीए ।

सुय ण भते ! पहुच्च पुच्छा ? गोयमा ! तओ पडिणीया

सृष्ट क्रिया करता है ऐसा कथन । सूर्य कितने ऊँचे तपता है ऐसा प्रश्न ! मनुष्योत्तरपर्वत के भीतर जो चन्द्रादिदेव हैं वे क्या ऊर्ध्वलोक में उत्पन्न हुए हैं ? इन्द्रस्थान कितने कालतक उपपातसे रहित कहा गया है ? ऐसे प्रश्न और इनके उत्तर ।

‘हेतुलो कश्चा तपे छे ?’ कश्चा प्रश्न मनुष्योत्तर पर्वतनी मध्य के चन्द्रादि देवा छे, ते शु ऊर्ध्वलोकां उत्पन्न भयेला छे ? इन्द्रस्थान हेतुला मनुष्योत्तरपर्वतभी रहित कहुं छे ? आ प्रश्नां जाने तेमन्थ उत्तरा आ उद्देश्यमां भावनामां भाषा छे

पण्णत्ता, तं जहा--सुत्तपडिणीए, अत्थपडिणीए, तदुभय-
पडिणीए, भावं णं भंते ! पडुच्च पुच्छा ? गोयमा ! तओ
पडिणीया पण्णत्ता, तं जहा--नाणपडिणीए, दंसणपडिणीए,
चरित्तपडिणीए ॥ सू० १ ॥

छाया—राजगृहे नगरे यावत् एवम् अवादीत्-गुरुन् खलु भदन्त !
प्रतीत्य कति प्रत्यनीकाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! त्रयः प्रत्यनीकाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा—

गुर्वादिक प्रत्यनीक- द्वेषी वक्तव्यता

‘ रायगिहे नयरे जाव एवं वयासी ’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(रायगिहे नयरे जाव एवं वयासी) राजगृह नगर में
गौतम ने यावत् इस प्रकार से कहा—पूछा—(गुरुणं भंते ! पडुच्च कह
पडिणीया पण्णत्ता) हे भदन्त ! गुरुजनों को आश्रित करके कितने प्रत्य-
नीक कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (तओ पडिणीया पण्णत्ता)
तीन प्रत्यनीक कहे गये हैं (त जहा) जो इस प्रकार से हैं (आयरिय
पडिणीए, उवज्झायपडिणीए, थेरपडिणीए) आचार्यप्रत्यनीक उपाध्या-
यप्रत्यनीक और स्थविरप्रत्यनीक । (गइणं भंते ! पडुच्च कह पडिणीया
पण्णत्ता) हे भदन्त ! गतिकी अपेक्षा करके कितने प्रत्यनीक कहे गये हैं ?
(गोयमा) हे गौतम ! (तओ पडिणीया पण्णत्ता) तीन प्रत्यनीक कहे

गुर्वादिक प्रत्यनीक (द्वेषी) नी वक्तव्यता—

“ रायगिहे नयरे जाव एवं वयासी ” इत्यादि—

सूत्रार्थ—(रायगिहे नयरे जाव एवं वयासी) राजगृह नगरमें भडावीर
ब्रह्म पधार्या. (यावत्) गौतम स्वामीअे तेमने आ प्रमाणे पूछथु—(गुरुणं
भंते ! पडुच्च कह पडिणीया पण्णत्ता ?) हे भदन्त ! गुरुजनोनी अपेक्षाअे
केटला प्रत्यनीक (द्वेषी विरोधी) कइया छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (तओ पडिणीया पण्णत्ता) गुरुजनोनी अपे-
क्षाअे त्रय प्रत्यनीक कइया छे. (तजहा) ते त्रय प्रत्यनीक आ प्रमाणे छे—
(अयरिय पडिणीए, उवज्झाय पडिणीए, थेरपडिणीए) (१) आचार्य प्रत्यनीक,
(२) उपाध्याय प्रत्यनीक अने (३) स्थविर प्रत्यनीक.

(गइ ण भंते ! पडुच्च कह पडिणीया पण्णत्ता ?) हे भदन्त ! गतिनी
अपेक्षाअे केटला प्रत्यनीक कइया छे ?

“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (तओ पडिणीया पण्णत्ता) गतिनी अपेक्षाअे

आचार्यप्रत्यनीक, उपाध्यायप्रत्यनीका, स्थविरप्रत्यनीकाः, गर्वि खलु भदन्त ।
 प्रवीत्य कवि प्रत्यनीका प्रज्ञप्ता ? गौतम ! प्रयः प्रत्यनीकाः प्रज्ञप्ता, तद्यथा-इह
 लोकप्रत्यनीक, परलोकप्रत्यनीकाः, द्विधा लोकप्रत्यनीक, समूह खलु भदन्त ।
 प्रवीत्य कवि प्रत्यनीका, प्रज्ञप्ताः ? गौतम !, प्रय मत्यनीकाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-
 कुलप्रत्यनीक, गणप्रत्यनीका, सघप्रत्यनीक, अनुकम्पा प्रवीत्य पृच्छा ? गौतम !
 प्रयः प्रत्यनीकाः प्रज्ञप्ता, तद्यथा-तपस्विप्रत्यनीकाः, ग्लानप्रत्यनीकाः, शैलप्रत्य

गये है । (तं जहा) जो इस प्रकार से है - (इहलोगपडिणीए, परलोग
 पडिणीए, दुहओलोगपडिणीए) इह लोकप्रत्यनीक, परलोकप्रत्यनीक
 और तपस्वलोकप्रत्यनीक । (समूहण्ण भंते ! पडुक्ख कइ पडिणीया
 पण्णत्ता) है भदन्त ! समूह को लेकर कितने प्रत्यनीक कहे गये है ?
 (गोयमा) है गौतम ! (तओ पडिणीया पण्णत्ता) समूह को लेकर तीन
 प्रत्यनीक कहे गये है । ' तं जहा ' जो इस प्रकार से है - ' कुलपडिणीए,
 गणपडिणीए, सघपडिणीए ' कुलप्रत्यनीक, गणप्रत्यनीक और सघप्र
 त्यनीक ' अनुकंप पडुक्ख पुच्छा ' है भदन्त ! अनुकम्पा को लेकर कितने
 प्रत्यनीक कहे गये है ? ' गोयमा ' है गौतम ! ' तओ पडिणीया पण्ण
 त्ता ' अनुकम्पा को लेकर तीन प्रत्यनीक कहे गये है ' तं जहा ' जो
 इस प्रकार से है ' तपस्विपडिणीए, गिलाणपडिणीए, सेहपडिणीए '
 तपस्वीप्रत्यनीक, ग्लानप्रत्यनीक और शैलप्रत्यनीक । ' सुयण्ण भंते !

अस्य प्रत्यनीकं कथा छे- (तजहा) ते अस्य प्रत्यनीकं नीचे प्रमाद्ये छे- (इहलोग
 पडिणीए, परलोगपडिणीए, दुहओलोगपडिणीए) (१) उक्तलोक प्रत्यनीक (२)
 तपस्वलोक प्रत्यनीक अने (३) उक्तलोक प्रत्यनीक ।

(समूहण्ण भंते ! पडुक्ख कइ पडिणीया पण्णत्ता) के कथन्त । अभूकंती
 अपेक्षाके कथन्त प्रत्यनीक कथा छे ?

(गोयमा ।) के गौतम ! (तओ पडिणीया पण्णत्ता-तजहा) अभूकंती
 अपेक्षाके नीचे प्रमाद्ये अस्य प्रत्यनीक कथा छे- (कुलपडिणीए, गणपडिणीए,
 सघपडिणीए) (१) कुल प्रत्यनीक, (२) गण प्रत्यनीक अने सघ प्रत्यनीक

' अनुकंप पडुक्ख पुच्छा ? ' के कथन्त ! अनुकम्पा अपेक्षाके कथन्त
 प्रत्यनीक कथा छे ?

" गोयमा । " के गौतम ! " तओ पडिणीया पण्णत्ता-तजहा " अनु
 कम्पा अपेक्षाके नीचे प्रमाद्ये अस्य प्रत्यनीक कथा छे- ' तपस्विपडिणीए
 गिलाणपडिणीए, सेह पडिणीए " तपस्वी प्रत्यनीक (२) ग्लान प्रत्यनीक अने,
 (३) शैल प्रत्यनीक (सुयण्ण भंते पुच्छा) के कथन्त ! सुतन्ती अपेक्षाके कथन्त

नीकः । श्रुतं खलु भदन्त ! प्रतीत्य पृच्छा ? गौतम ! त्रयः प्रत्यनीकाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा—सूत्रप्रत्यनीकः, अर्थप्रत्यनीकः, तदुभयप्रत्यनीकः । भावं खलु भदन्त ! प्रतीत्य पृच्छा ? गौतम ! त्रयः प्रत्यनीकाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा—ज्ञानप्रत्यनीकः, दर्शनप्रत्यनीक, चारित्रप्रत्यनीकः ।

टीका—‘रायगिहे नयरे जाव एवं वयासी’ राजगृहे नगरे यावत् स्वामी समवसृतः, स्वामिनं वन्दितुं पर्यत् निर्गच्छति, वन्दित्वा धर्मोपदेशं श्रुत्वा प्रतिगता पर्यत्, ततः

पुच्छा’ हे भदन्त ! श्रुत की अपेक्षा करके कितने प्रत्यनीक कहे गये हैं ? ‘गोयमा तओ, पडिणीया पणत्ता’ हे गौतम ! शास्त्र की अपेक्षा करके प्रत्यनीक तीन प्रकार के कहे गये हैं । ‘तं जहा’ जो इस प्रकार से हैं । ‘सुत्तपडिणीए, अत्थपडिणीए, तदुभयपडिणीए’ श्रुतप्रत्यनीक अर्थप्रत्यनीक और तदुभयप्रत्यनीक ‘भावं णं भंते ! पडुच्च पुच्छा’ हे भदन्त ! भाव को लेकर प्रत्यनीक कितने प्रकार के कहे गये हैं ? ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘तओ पडिणीया पणत्ता’ भाव को लेकर प्रत्यनीक तीन प्रकार के कहे गये हैं । ‘तं जहा’ जो इस प्रकार से हैं—‘नाणपडिणीए, दंसणपडिणीए, चरित्तपडिणीए’ ज्ञानप्रत्यनीक, दर्शनप्रत्यनीक और चारित्रप्रत्यनीक ।

टीकार्थ—सप्तम उद्देशक में स्थविरो के प्रति अन्ययूथिकों को प्रत्यनीक रूप से कहा गया है । इसलिये प्रत्यनीक के प्रकरण से आठवें उद्देशक में गुर्वादिकों के जो प्रत्यनीक-द्वेषी हैं उनकी प्ररूपणा सूत्रकार करते हैं (रायगिहे नयरे जाव एवं वयासी) राजगृह नगर में यावत्

प्रत्यनीक कछा छे ? “गोयमा !” हे गौतम ! (तओपडिणीया पणत्ता—तं जहा—श्रुतनी अपेक्षाये नीये प्रमाणे त्रय प्रकारना प्रत्यनीक कछा छे.

“सुत्तपडिणीए, अत्थपडिणीए, तदुभयपडिणीए” श्रुत प्रत्यनीक अर्थ प्रत्यनीक अने तदुभय प्रत्यनीक. (भाव णं भंते ! पडुच्च पुच्छा) हे भदन्त ! भावनी अपेक्षाये प्रत्यनीक केटला प्रकारना कछा छे ? “गोयमा !” हे गौतम ! “तओपडिणीया पणत्ता—तं जहा” भावनी अपेक्षाये प्रत्यनीक त्रय प्रकारना कछा छे. जेवां के—(नाणपडिणीए, दंसणपडिणीए, चरित्तपडिणीए)

(१) ज्ञानप्रत्यनीक, (२) दर्शन प्रत्यनीक अने (३) चारित्र प्रत्यनीक

टीकार्थ—सातमां उद्देशकमा परतीर्थिकेने स्थविरेना प्रत्यनीक (द्वेषी) इधे प्रकट करवामां आव्या छे. उवे आ आव्या उद्देशकमां सूत्रकारे गुरु आदिना प्रत्यनीक (द्वेषी, विरोधी) नी प्ररूपणा करी. छे “रायगिहे नयरे जाव एवं वयासी.”

शुभ्रपमाणो नमस्यन् विनयेन माञ्जलिपुटो गौतमः एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण अवादीत्—
 ' गुरु ग मते ! पडुच्च कइ पडिणीया पण्णाचा ? ' हे मदन्त ! गुरुन् धर्मतत्त्वोप
 देखकान् खल्ल मवीत्य आधित्य कति कियन्तः मत्पनीकाः विरुद्धाचरणशीलाः
 प्रद्वप्ता ? मत्पनीकमिष प्रतिसैन्यमिष प्रतिकूलतया ये वर्धन्ते तेऽपि मत्पनीका
 उच्यन्ते, मगधानाह—' गोयमा ' तमो पडिणीया पण्णाचा ' हे गौतम ! प्रयः
 मत्पनीकाः गुरुणां विरोधिनः प्रद्वप्ताः, तानेवाह—' तं नहा—आयरियपडिणीय,

महावीरस्वामी पधारे, महावीरस्वामी को बन्दना करने के लिये परिपद्
 आई बन्दना करके और धर्मोपदेश सुनकर के वह घापिस आ गयी।
 प्रभु से धर्मोपदेश सुनने की इच्छावाले गौतम ने प्रभु को दोनों हाथ
 जोड़कर नमस्कार किया और फिर उनसे इस प्रकार से पूछा—(गुरु णं
 भंते ! पडुच्च कइ पडिणीया पण्णाचा) हे मदन्त ! गुरु की अपेक्षा से
 कितनेक मत्पनीक कहे गये हैं—धर्मोपदेशकका नाम गुरु है। विरुद्धाचरण
 शील का नाम मत्पनीक है। मत्पनीक शब्द का अर्थ प्रतिसैन्य होता
 है। जैसे मत्पनीक सैन्य प्रतिकूल आचरण करने वाला होता है—वसी
 प्रकार जो अपने गुरुजनों के प्रति प्रतिकूल आचरणशील होते हैं वे
 मत्पनीक कहे जाते हैं। इहाँ मत्पनीकों के प्रकार जानने के लिये गौतम
 का यह प्रश्न है—उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (तमो
 पडिणीया पण्णाचा) गुरु की अपेक्षा लेकर मत्पनीक तीन प्रकार के कहे

शुभ्रपुटं नमस्सं महावीर प्रभु पधाधो तेभने वड्ढा नमस्कार इस्वाने माटे
 परिपद नीकणी. वड्ढा नमस्कार करीने तथा धर्मोपदेश अवणु करीने परिपद
 विस्मित यत् त्वाण्णाह धर्मोपदेश आभणवानी धम्मिअवाणा भौतम स्वामीजे
 महावीर प्रभुने वड्ढा नमस्कार करीने, जे काय बोधीने विनयपूर्वक आ प्रभावे
 पूछथु—“गुरु ग मते ! पडुच्च कइ पडिणीया पण्णाचा ?” हे मदन्त ! गुरुणी
 अपेक्षाजे देखा प्रकान्ता मत्पनीक कइया छे ?

धर्मोपदेशकने गुरु कहे छे विरुद्धाचरणशीलने मत्पनीक कहे छे
 “ मत्पनीक ” शब्दने अर्थ प्रतिसैन्य (करीक सेना) यात्र छे जेवी रीते
 मत्पनीक सैन्य (प्रति सैन्य) प्रतिकूल आचरण करनाई करय छे जे प्रभावे
 गुरुजने मत्पनीक प्रतिकूल आचरण करतारा वोडोने पणु गुरुमत्पनीक कहे छे
 जेवा गुरुमत्पनीकना प्रकार आवणु माटे भौतमस्वामीजे उपसुंठ
 प्रश्न पूछथो छे

तेना उत्तर आभता महावीर प्रभु कहे छे— गोयमा !” हे गौतम !
 “ तमो पडिणीया पण्णाचा ” गुरुजनेनी अपेक्षाजे मत्पनीक त्रय प्रकारना

उवज्झायपडिणीए, थेरपडिणीए ' तद्यथा-आचार्यप्रत्यनीकः, उपाध्यायप्रत्यनीकः, स्थविरप्रत्यनीकश्च, तत्र आचार्यः-अर्थव्याख्यानकर्ता, । उपाध्यायः-सूत्रदायकः, स्थविरस्तु त्रिविधः-जाति-श्रुत-पर्यायभेदात्, तत्र जात्या स्थविरः पट्टिवर्षजातवयस्कः, श्रुतेनस्थविरः स्थानाङ्गसमवायधरः, पर्यायेण स्थविरो त्रिंशतिवर्षपर्यायः, एतेषां प्रत्यनीकता चेत्थम्—

‘ जच्चाईहिं अवन्नं, भासइ वट्टइ न यावि उववाए ।

अहिओ छिदप्पेही, पगासवाई अणणुलोमो ॥ १ ॥

गये हैं। अर्थात् गुरुजनों के विरोधी जन ये तीन प्रकार के होते हैं— (तं जहा) जैसे—(आयरियपडिणीए, उवज्झायपडिणीए, थेरपडिणीए) आचार्यप्रत्यनीक, उपाध्यायप्रत्यनीक, स्थविरप्रत्यनीक। अर्थ का जो व्याख्यान करते हैं उनका नाम आचार्य है। सूत्रदाता का नाम उपाध्याय है। जाति, श्रुत और पर्यायके भेदसे स्थविर तीन प्रकारका होता है। वय-अवस्थासे जो बड़ा होता है वह जाति स्थविर है। साठ वर्षकी अवस्थावाला जाति स्थविर कहा गया है। स्थानाङ्ग, समवायाङ्ग, का जो पाठी होता है वह श्रुत स्थविर कहा गया है। जो २० बीस वर्ष की पर्याय वाला होता है वह पर्याय स्थविर हैं। इनकी प्रत्यनीकता इस प्रकार से आती है—

जो शिष्य जाति आदि को लेकर इनका अर्थात् गुरुजनों का अवर्णवाद करता है, उनका विनय नहीं करता है उनके अहित करने में

कहता है. ओटवे के गुरुजनो विरोधीओ त्रणु प्रकारना डोय छे. “त जहा” जेवां के—“आयरियपडिणीए, उवज्झायपडिणीए, थेरपडिणीए” १ आचार्य, प्रत्यनीक, २ उपाध्याय प्रत्यनीक अने ३ स्थविर प्रत्यनीक अर्थनुं जे व्याख्यान करे छे तेमनु नाम आचार्य छे. सूत्रदाताने उपाध्याय कहे छे. जाति, श्रुत अने पर्यायना लेदथी स्थविर त्रणु प्रकारना डोय छे. उमरमां जे मोटा डोय तेमने जातिस्थविर कहे छे साठ वर्षनी उमरवाणाने जातिस्थविर कहे छे. स्थानाग, समवायाग आदिना जे पाठी डोय छे तेमने श्रुतस्थविर कहे छे. जे २० वर्षनी पर्यायवाणा (दीक्षावाणा) डोय छे, जेवा साधुने पर्यायस्थविर कहे छे. तेमनी प्रत्यनीकता आ प्रकारे थती डोय छे

जे शिष्य जाति आदिनी अपेक्षाजे गुरुजनोना अवर्णवाद करे छे, तेमना प्रत्ये विनय अतावतो नथी, तेमनु अहित करवाने तत्पर रहे छे,

अहवापि षण् एर्ष, उषएस परस्स देह पवं तु ।

दशविधवेयावृत्ते, कायव्य सय न कुर्वन्ति ' ॥ २ ॥

छाया—मात्यादिभि अदर्शं मापते, वर्तते—न चापि उपाते ' वितय ' ।

अहितः छिद्रमेषी प्रकाशवादी 'दोषप्रकाशकः' अननुलोमा 'प्रतिकूल' ॥ १॥

अथनाऽपि षवेदेवम् उपदेशं परस्य ददात्येष तु ।

दशविधवेयावृत्त्य कर्त्तव्यं स्वय न कुर्वन्ति ॥ २ ॥

गौतमः पृच्छति—'गर्ह ण मंते ! पञ्च कइ पडिणीया पण्णाचा ? हे भदन्त !

अथः प्रत्यनीकाः मानुष्यत्वादिगतिविरोचिनः प्रज्ञप्ता , तानेवाह—' व जडा—इह

लगा रहता है, छिद्रों की ललाश करता रहता है, उनके दोषों का प्रकाश करता है उनसे हमेशा प्रतिकूल होकर चलता है अथवा गुरुजनों से यों भी कहता है कि दूसरों के लिये उपदेश इस प्रकार से दिया जाता है। गुरुजनों का जो दश प्रकार से वेयावृत्त्य करना कहा गया है—उसे ये स्वय नहीं करते हैं। इस प्रकार की शिष्यजनों की प्रवृत्ति उनमें प्रत्यनीकता प्रदर्शित करती है। इस प्रत्यनीकता के संपर्क से वे शिष्य भी यहाँ प्रत्यनीक प्रकट किये गये हैं ॥ १ ॥ २ ॥

1) अथ गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पृच्छते है—(गर्ह ण मंते ! पञ्च कइ पडिणीया पण्णाचा) मानुष्यत्व आदि रूप गति को लेकर हे भदन्त ! कितने प्रत्यनीक कहे गये हैं ? उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (तओ पडिणीया पण्णाचा) मानुष्यत्व आदि गति को आश्रित करके प्रत्यनीक—मानुष्यत्वादि गति विरोधी तीन कहे गये हैं— (तं

तेमना छिद्रो शोभा करे छे, तेमना दोषाने भूला पादे छे तेमनी बिहङ्ग वर्तन शोभा करे छे अथवा गुरुजनाने जेम कडे छे छे तमादे जीजाने जा प्रभावे उपदेश आपवे जोधजे, जे इश प्रकारे गुरुजनानुं वेयावृत्त्य करे पावु कहुं छे ते प्रभावे ते पाते वेयावृत्त्य करतो नही जा प्रकाली शिष्योती जे प्रवृत्ति होय तो तेमनामां प्रत्यनीकता छे तेम कही शक्य छे जा प्रत्यनीकतानी अपेक्षाके जेवा शिष्योनेपक्ष जही पक्ष प्रत्यनीक न कहेवामां जाव्या छे

उवे गौतमस्वामी महावीरप्रभुने जेवो प्रश्न पूछे छे छे— ' गर्ह ण मंते ! पञ्च कइ पडिणीया पण्णाचा ? ' हे भदन्त ! मानुष्यत्व आदिद्वय अतिनी अपेक्षाके प्रत्यनीक कहेवा प्रकारना कया छे ? महावीर प्रभु कहे छे— ' गोयमा ! ' हे गौतम ! " तओ पडिणीया पण्णाचा मानुष्यत्व आदि अतिनी अपेक्षाके प्रत्यनीक—मानुष्यत्व आदि गति विरोधी—त्रय प्रकारना कया छे

लोगपडिणीए, परलोगपडिणीए, दुहओलोगपडिणीए ' तद्यथा—इहलोकप्रत्यनीकः, परलोकप्रत्यनीकः, द्विधातो लोकप्रत्यनीकः, तत्र इहलोकस्य प्रत्यक्षस्य मानुपत्व-लक्षणपर्यायस्य प्रत्यनीको विरोधी इन्द्रियार्थप्रतिकूलकारित्वात् पञ्चाग्नितत्पस्वि-वद् इहलोकप्रत्यनीकः उच्यते, परलोकस्य जन्मान्तरस्य प्रत्यनीकः विरोधी इन्द्रि-यार्थतत्परत्वात् परलोकप्रत्यनीकः, द्विधातोलोकस्य उभयलोकस्य प्रत्यनीकश्च स्तेया-दिभिरिन्द्रियार्थसाधनतत्परो द्विधातोलोकप्रत्यनीकः उच्यते, गौतमः पृच्छति— ' समूहं णं भंते ! पडुच्च कइ पडिणीया पणत्ता ? ' हे भदन्त ! समूहं श्रमणसमु-दायं खलु प्रतीत्य-आश्रित्य कति कियन्तः प्रत्यनीकाः विरोधिनः प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह— ' गोयमा ! तओ पडिणीया पणत्ता ' हे गौतम ! त्रयः प्रत्यनीकाः

जहा) जैसे (इहलोगपडिणीए, परलोगपडिणीए, दुहओ लोगपडिणीए) इहलोक प्रत्यनीक परलोकप्रत्यनीक, उभयलोकप्रत्यनीक, इन्द्रियार्थप्रति-कूलकारी होने से पञ्चाग्नि तापते हैं वह इहलोकप्रत्यनीक है । तात्पर्य यह है कि—इन्द्रियादिक से प्रतिकूल अज्ञानमूलक कष्टाचरण करने वाला जो जीव है वह इहलोक प्रत्यनीक है क्यों कि ऐसी क्रियाएं प्रत्यक्षभूत इस मानुष पर्याय के विरुद्ध हैं । इन्द्रियों के विषयों में सदा तत्पर रहने वाला जीव परलोकप्रत्यनीक है चोरी आदि कुकर्मों द्वारा इन्द्रियों के विषय को पोषण करने में तत्पर बना रहने वाला जीव उभयलोक-प्रत्यनीक है । अब गौतम प्रभुसे ऐसा प्रछते हैं—(समूहणं भंते ! पडुच्च कइ पडिणीया पणत्ता) हे भदन्त ! समूह को—श्रमण समुदाय को लेकर के कितने प्रत्यनीक-विरोधी कहे गये हैं ? अर्थात् श्रमणसमुदाय के कितने विरोधी कहे गये हैं—इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं (गोयमा) हे

“ त जहा ” जेवां के—“ इहलोगपडिणीए, परलोगपडिणीए, दुहओलोग पडि-णीए ” १ धडलोकप्रत्यनीक, २ परलोकप्रत्यनीक, ३ उलयलोकप्रत्यनीक

जे एव धन्द्रियोवडे प्रतिकुण अज्ञानमूलक कष्टाचरण करे छे, जेवा एवोने धडलोक प्रत्यनीक कडे छे, कारण के जेवी कियेओ प्रत्यक्षभूत आ मनुष्यपर्यायनी विरुद्ध होय छे.

धन्द्रियोना विषयोना सदा प्रवृत्त रहेनारे एव परलोक प्रत्यनीक होय छे. चोरी आदि कुकर्मो वडे धन्द्रियोना विषयोने पोषनारे एव उलयलोक प्रत्यनीक कडेवाय छे.

हुवे गौतमस्वामी सभूड प्रत्यनीकनी अपेक्षाओ महावीरप्रभुने आ प्रभावे प्रश्न पूछे छे—“ समूहणं भंते ! पडुच्च कइ पडिणीया पणत्ता ? ” हे भदन्त ! श्रमण समुदायनी अपेक्षाओ प्रत्यनीक (विरोधी) केदला प्रकार कहा छे ?

साधुसमुदायस्य विरोधिनः मङ्गप्ता , सानेवाह—‘ त जहा कुलपङ्क्तिणीए, गणपङ्क्तिणीए, सघपङ्क्तिणीए ’ तथा—कुलप्रत्यनीक , गणप्रत्यनीक , सघप्रत्यनीक, तत्र कुल चान्द्रादिक, तत्समुदायो गणः—कोटिकादि, तत्समुदायः सघः, एतेषां प्रत्यनीकताचाक्षणं च (निन्दा) दिमिर्मवति कुलाखिलगणं चेत्यम्—

‘ एतत् कुल घिन्नेय, एगापरियस्स सवईमा उ ।

तिण्ह कुलाण मिहो पुण, सावेक्खणां गणो होइ ॥ १ ॥

सन्धोवि नाणदसणचरणगुणविहूसियाण समणार्ण ।

समुदामो पुण सवो, गणसमुदाओ—चि फाऊण ॥२॥

छाया—अत्र कुल विज्ञेयम् एकाचायस्य सन्धतिः या च ।

प्रमाणं कुलानां मियः पुन सापेसाणां गणो भवति ॥ १ ॥

सर्वाऽपि ध्यानदर्शनचरणगुणविभूषितानां भ्रमणानां

समुदायः पुनः सवो गणसमुदाय इति कृत्वा ॥ २ ॥

गौतम । (तत्रो पङ्क्तिणीया पण्णप्ता) साधुसमुदाय के प्रत्यनीक विरोधी तीन कहे गये है (त जहा) जो इस प्रकार से है (कुलपङ्क्तिणीए, गणपङ्क्तिणीए, संघपङ्क्तिणीए) कुलप्रत्यनीक, गणप्रत्यनीक और संघप्रत्यनीक । चान्द्र आदि गण को कुल कहते हैं और कुलोंके समुदाय को गण कहते हैं, और गणों के समुदायको सघ कहते हैं सो इनकी निन्दा आदि करने से करने वाले जीव में प्रत्यनीकता आती है, कुल आदिका लक्षण इस प्रकार से कहा गया है—

एक भाष्यार्थ की सतति का नाम कुल है । तीन कुलों के समूह का नाम गण है । तथा ज्ञान-दर्शन और चारित्र्य गुण से विभूषित हुए भ्रमणों के समूह का नाम सघ अथवा गण समुदाय को सघ कहते हैं ।

अध्यायी अजुने उचर- गोवमा’ डे औतम ! ‘ तत्रो पङ्क्तिणीया पण्णप्ता ’

आधु समुदायना प्रत्यनीक (विरोधी) प्रत्यु प्रधारना इया छे ‘ त जहा ’

ते त्रय प्रधाये आ प्रभाजे छे—“ कुलपङ्क्तिणीए, गणपङ्क्तिणीए, सघपङ्क्तिणीए ”

१ कुलप्रत्यनीक, २ गणप्रत्यनीक अने ३ सघप्रत्यनीक चान्द्र आदि अण्ठने

कुल छे छे कुलोना समुदायने गण छे छे, अने अण्ठेना समुदायने सघ

छे छे तेमनी निन्दा बजेशे करनार लवने तेमना विरोधी भाववार्ता आवे

छे कुल आदिनु त त्रय नीधे प्रभाजे अताणु छे—

जेक आयायनी सततिने कुल छे छे त्रय कुलोना समुदायने गण छे छे

छे तथा ज्ञान, दर्शन अने चारित्र्य गुणभी विभूषित जेवा भ्रमणोना अमूहने

सघ छे छे अपना शुभ समुदायने त्रय सघ छे छे

गौतमः पृच्छति—‘अणुकंपं पडुच्च पुच्छा ?’ हे भदन्त ! अनुकम्पां भक्त-
पानादिभिरनुग्रहं प्रतीत्य आश्रित्य पृच्छा प्रश्नः ? तथा च क्रियन्तः अनुकम्पा
प्रत्यनीकाः अनुकम्पाया विरोधिनः प्रज्ञप्ताः, तानेवाह—‘तं जहा—तवस्सिपडि-
णीए, गिलाणपडिणीए, सेहपडिणीए’ तद्यथा—तपस्विप्रत्यनीकः, ग्लानप्रत्यनीकः,
शैक्षप्रत्यनीकः, तत्र तपस्विन-क्षपणकस्य प्रत्यनीकः विरोधी तपस्विप्रत्यनीकः,
ग्लानस्य रोगादिभिरसमर्थस्य प्रत्यनीको—विरोधी ग्लानप्रत्यनीकः, शैक्षस्य नूतन-
प्रव्रजितस्य प्रत्यनीको विरोधी शैक्षप्रत्यनीकः उच्यते, तत्र शिक्षयते इति शिक्षः,
शिक्षएव शैक्षः ‘प्रजादित्वात् स्वार्थे अण् नवदीक्षित इत्यर्थः। एतेषां द्वि-पडुजीवनि-
कायानाम् अननुकम्पकतया तदकरणाऽकारणाभ्यां च प्रत्यनीकता भवति, गौतमः
पृच्छति—सुयं णं भंते ! पडुच्च पुच्छा’ हे भदन्त ! श्रुतं खलु प्रतीत्य आश्रित्य पृच्छा

अत्र गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(अणुकंपं पडुच्च पुच्छा)
हे भदन्त ! भक्त, पान आदि द्वारा अनुग्रह करने रूप अनुकम्पा को
आश्रित करके प्रत्यनीक कितने कहे गये हैं ? अर्थात् अनुकम्पा के
विरोधी कितने कहे गये हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम !
(तओ पडिणीया पणत्ता) अनुकम्पा के विरोधी तीन कहे गये हैं ‘तं
जहा) जो इस प्रकार है ‘तवस्सि पडिणीए, गिलाणपडिणीए, सेह
पडिणीए’ तपस्विप्रत्यनीक, ग्लानप्रत्यनीक, और शैक्षप्रत्यनीक इनमें
जो क्षपणक का विरोधी है वह तपस्विप्रत्यनीक है, रोगादि के द्वारा
असमर्थ बने हुए का जो विरोधी है वह ग्लानप्रत्यनीक है तथा नूतन-
दीक्षित हुए का जो विरोधी है वह शैक्षप्रत्यनीक है। ‘सुयणं भंते !
पडुच्च पुच्छा’ हे भदन्त ! श्रुत के प्रत्यनीक-विरोधी कितने कहे गये

उवे गौतमस्वामी अनुकंपा प्रत्यनीक विषे प्रश्न पूछे छे—“अणुकंपं पडुच्च
पुच्छा” हे भदन्त ! आहार, पाणी आदि द्वारा अनुग्रह करवाइए अनु-
कंपानी अपेक्षाओ केटला प्रकारना प्रत्यनीक कइया छे ?

उत्तर—“गोयमा !” हे गौतम ! “तओ पडिणीया पणत्ता—तं जहा”
अनुकंपाना विरोधीओ त्रणे प्रकारना कइया छे ते त्रणे प्रकारे नीचे प्रमाणे
छे—“तवस्सिपडिणीए, गिलाणपडिणीए, सेहपडिणीए” १ तपस्वी प्रत्यनीक,
ग्लान प्रत्यनीक अने ३ शैक्षप्रत्यनीक क्षपणकना के विरोधीओ होय छे तेमने
तपस्वी प्रत्यनीक कडे छे, रोगादि द्वारा शक्तिहीन बनेला साधुओना के
विरोधीओ छे तेमने ग्लान प्रत्यनीक कडे छे, नवदीक्षित साधुना विरोधीओने
शैक्षप्रत्यनीक कडे छे.

प्रश्नः, तथा च श्रुतप्रत्यनीका कियन्तः प्रहृष्टाः ? मगवानाह—' गोयमा । तत्रो पडिणीया पण्णात्ता ' इ गौतम ! प्रयः प्रत्यनीकाः श्रुतस्य विरोधिनः प्रहृष्टाः, तानेवाह—' तं ब्रह्म—सुचपडिणीए, अत्यपडिणीए, तदुभयपडिणीए ' तद्यथा—सूत्रप्रत्यनीकः, अर्थप्रत्यनीकः, तदुभयप्रत्यनीक, तत्र सूत्रस्य व्याख्येयस्य मूलसूत्रस्य प्रत्यनीको विरोधी सूत्रप्रत्यनीकः, अर्थस्य सूत्रव्याख्यानरूपस्य अमिषेयस्य प्रत्यनीको विद्वेपी अर्थप्रत्यनीकः, तदुभयस्य सूत्रार्थोभयस्य प्रत्यनीको विद्वेपी तदुभयप्रत्यनीकः उच्यते, तेषां प्रत्यनीकता चेत्यम्—

“ काया वया य तेस्विद्य ते चेष पमायअप्पमायाय ।

मोक्खहाडिगारियाण, मोइसजोणीहिं किं कज्ज ? ” ॥ १ ॥

छाया—कायन वचसा च तं चैत्र प्रमादिन अपमादिनव ।

मोक्षाधिकारिणां उद्योतिष्कयोनिभिः किं कार्यम् ॥

इत्यादिरूपेण रूपणोद्भावनरूपा घोष्या । गौतमः पृच्छति—' भाष ण मत्ते ! पडुच्च पुच्छा ? ' हे भदन्त ! भाष खलु मतीस्य आश्रित्य पृच्छा प्रश्नः ? तथा च भावप्रत्यनीकाः कियन्तः प्रहृष्टाः ? इति प्रश्नः, मगवानाह—' गोयमा । तत्रो

हे ? उत्तर में प्रश्न कहते हैं—' गोयमा ' हे गौतम ! ' तत्रो पडिणीया पण्णात्ता ' श्रुत के विरोधी तीन कहे गये हैं—' त जहा ' जो इस प्रकार से है—' सुचपडिणीए, अत्यपडिणीए, तदुभयपडिणीए ' सूत्रप्रत्यनीक, अर्थप्रत्यनीक और तदुभयप्रत्यनीक जो व्याख्येय मूलसूत्र का प्रत्यनीक विरोधी होता है वह सूत्रप्रत्यनीक है सूत्र व्याख्यानरूप अर्थ का अमिषेय का—जो विरोधी होता है वह अर्थप्रत्यनीक है । सूत्र और अर्थ इन दोनों का जो विरोधी—विद्वेपी होता है वह तदुभय प्रत्यनीक है ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—' भाष ण मत्ते ! पडुच्च पुच्छा ' हे भदन्त ! भाष के विरोधी कितने कहे गये हैं—उत्तर

गौतमस्वामीने प्रश्न—“ सुयण्ण मत्ते ! पडुच्च पुच्छा ' हे भदन्त ! श्रुतना विरोधी केटवा क्ख्वा उ ? उत्तर—' गोयमा । ” हे गौतम ! ' तत्रो पडिणीया पण्णात्ता—तं ब्रह्म ' श्रुत प्रत्यनीकना नीस्य प्रभासे तस्य प्रश्नर क्ख्वा उ—“ सुचपडिणीए अत्यपडिणीए, तदुभयपडिणीए ” १ सूत्र प्रत्यनीक, २ अर्थ प्रत्यनीक अने ३ तदुभय प्रत्यनीक व्याख्येय भूय सूत्रना विरोधीने सूत्र प्रत्यनीक कहे उ सूत्र व्याख्यानरूप अर्थना अमिषेयने—ने विरोधी दोय उ तेने अर्थ प्रत्यनीक कहे उ, सूत्र अने अर्थ, जे अन्नेना विरोधीने तदुभय प्रत्यनीक कहे उ

अथ गौतमस्वामी भद्राचीरप्रश्नने जेवे प्रश्न पूछे उ हे—“ भाष ण मत्ते ! पडुच्च पुच्छा ” हे भदन्त ! भाषना विरोधी केटवा क्ख्वा उ ? तेना उत्तर

પડિણીયા પળ્ણત્તા ' હે ગૌતમ ! ત્રયઃ પ્રત્યનીકાઃ ભાવસ્ય વિદ્વેષિણઃ પ્રજ્ઞપ્તાઃ, તાનેવાહ—' તં જહા—નાણપડિણીણ, દંસણપડિણીણ, ચરિત્તપડિણીણ ' તદ્ધથા—જ્ઞાનપ્રત્યનીકઃ, દર્શનપ્રત્યનીકઃ, ચારિત્રપ્રત્યનીકશ્ચ, અયમાશયઃ—ભાવઃ પર્યાયઃ, સ ચ જીવાજીવગતઃ, તત્ર જીવસ્ય પ્રશસ્તોઽપ્રશસ્તશ્ચ, તત્ર પ્રશસ્તઃ ક્ષાયિકાદિઃ, અપ્રશસ્તઃ—વિવક્ષયૌદયિકઃ, ક્ષાયિકાદિઃ પુનર્જ્ઞાનાદિરૂપોઽતો ભાવાન્ જ્ઞાનાદીન્ પ્રતિ પ્રત્યનીકતા ચ તેપાં મિથ્યાપ્રરૂપણતઃ, દૂષણતો વા ભવતિ, તથા ચોક્તમ્—

‘ પાયયસુત્તનિવહ્દં, કો વા જાણઙ્ પળીય કેળેયં ? ।

કિં વા ચરણેણં તુ, દાણેણ વિના ઉ હવઙ્ ત્તિ ? ” ॥૧ ॥

છાયા—પ્રાકૃતસૂત્રનિવહ્દં કો વા જાનાતિ પ્રણીતં કેનેદમ્ ।

કિં વા ચરણેન તુ દાનેન વિના તુ ભવતિ ઇતિ ॥ સૂ૦ ૧ ॥

મેં પ્રશ્ન કહતે હૈં—‘ ગોયમા ’ હે ગૌતમ ! ‘ તઓ પડિણીયા પળ્ણત્તા ’ ભાવ કે પ્રત્યનીક—વિદ્વેષી ત્રીન કહે ગયે હૈં જો ઇસ પ્રકાર સે હૈં—‘ નાણપડિણીણ દંસણપડિણીણ, ચરિત્તપડિણીણ, ’ જ્ઞાનપ્રત્યનીક, દર્શન પ્રત્યનીક ઓર ચારિત્રપ્રત્યનીક—તાત્પર્ય યહ હૈં—ભાવ નામ પર્યાય કા હૈં । યહ પર્યાય જીવ મેં ભી હોતી હૈં ઓર અજીવ મેં ભી હોતી હૈં । જીવ મેં પ્રશસ્ત ઓર અપ્રશસ્ત દોનોં પ્રકાર કી પર્યાય હોતી હૈં—ક્ષાયિક આદિરૂપ પ્રશસ્તપર્યાય હોતી હૈં, ઓર વિવક્ષાવશ અપ્રશસ્ત પર્યાય ઔદયિક આદિરૂપ હોતી હૈં । ક્ષાયિક જ્ઞાનાદિરૂપ ભાવોં કે પ્રતિ પ્રત્યનીકતા યહી હૈં જો ઇનકી મિથ્યાપ્રરૂપણા કી જાતી હૈં । અથવા ઇનમેં જો દૂષણ લગાયા જાતા હૈં વહ ભી ઇનકી પ્રત્યનીકતા હૈં ।

કહા ભી હૈં—‘ પાયય સુત્ત ’ ઇત્યાદિ । પ્રાકૃતસૂત્ર સે રચિત હુએ કો

આપતા પ્રશ્ન કહે છે—“ તઓ પડિણીયા પળ્ણત્તા—તં જહા ” હે ગૌતમ ! ભાવ પ્રત્યનીક (ભાવ વિદ્વેષી) ના નીચે પ્રમાણે ત્રણ પ્રકાર કહ્યા છે—“ નાણ પડિણીણ, દંસણપડિણીણ, ચરિત્તપડિણીણ ” ૧ જ્ઞાનપ્રત્યનીક ૨ દર્શનપ્રત્યનીક અને ૩ ચારિત્ર પ્રત્યનીક. તેનું તાત્પર્ય નીચે પ્રમાણે છે—ભાવ એટલે પર્યાય આ પર્યાય જીવમાં પણ હોય છે અને અજીવમાં પણ હોય છે. જીવમાં પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત, એ બંને પ્રકારની પર્યાય હોય છે. ક્ષાયિક આદિરૂપ પ્રશસ્ત પર્યાય હોય છે. અને અપ્રશસ્ત પર્યાય ઔદયિક આદિરૂપ હોય છે. ક્ષાયિક જ્ઞાનાદિરૂપ ભાવો પ્રત્યેની પ્રત્યનીકતા (વિરોધી વૃત્તિ) એટલે કે તેમની મિથ્યાપ્રરૂપણા કરવી તે અથવા એમાં જે દોષ લગાડવામાં આવે છે. એ પણ તેના પ્રત્યેની પ્રત્યનીકતા જ ગણાય છે. કહ્યું પણ છે કે—“ પાયય સુત્ત ” ઇત્યાદિ પ્રાકૃત સૂત્રને

व्यवहारवक्तृत्वता ।

गुर्यादिमान्तस्य मत्पनीकाम अपुनःकरणेनाम्युत्पिताः शुद्धिमर्हन्ति,
 ह्यदिम व्यवहाराद् भवति, अतो व्यवहारं प्ररूपयितुमाह—' कइविहेण ' इत्यादि ।

मूळम्—कइविहे ण भंते ! ववहारे पण्णत्ते ? गोयमा ! पव
 विहे ववहारे पण्णत्ते, त जहा-आगमे ? सुए २ आणा ३ धारणा ४
 जीए ५ । जहा से तत्थ आगमे सिया आगमेण ववहार पट्टवेज्जा ।
 गो य से तत्थ आगमे सिया जहा से तत्थ सुए सिया, सुएण
 ववहार पट्टवेज्जा । गो वासे तत्थ सुए सिया जहा से तत्थ
 आणा सिया आणाए ववहार पट्टवेज्जा । गो य से तत्थ आणा
 सिया, जहा से तत्थ धारणा सिया, धारणाए ण ववहार पट्ट
 वेज्जा । गो य से तत्थ धारणा सिया, जहा से तत्थ जीए सिया,
 जीएण ववहार पट्टवेज्जा । इच्चेएहिं पचहिं ववहार पट्टवेज्जा,
 त जहा-आगमण, सुएण, आणाए, धारणाए, जीएण । जहा जहा
 से आगमे सुए आणा, धारणा जीए तहा तहा ववहार पट्टवेज्जा ।
 से किमाहु भते ! आगमवालिया समणा निग्गया, इच्चेय पच
 विह ववहार जया जया जहिं जहिं तहा तहा तहिं तहिं आणि
 स्सिओवस्सिय सन्म ववहरमाणे समणे निग्गंथे आणाए
 आराहए भवइ ॥ सु० २ ॥

जाया—कठिविधः खलु मदः । व्यवहारं मत्पत्तः ? । गौतम ! पञ्चविधो
 व्यवहार मत्पत्तः, तपसा-आगम, श्रुतम्, शास्त्रा, धारणा जीतम् यथा स तत्र

बौद्ध जानता है ? न मालूम यह किसने पनाया है ? दान से रहित
 अकेले श्राद्ध से क्या होता है ? । सु० १ ॥

व्यापारि इधितने देणु आवे छे ? शी अवर ते देणु जनांमु छे ? इतथी
 इदित जेइया श्राद्धिथी शु वजे ? ' आ मकारनी मान्यताने आवमत्त
 नी ता हे छे ॥ सु १ ॥

आगमः स्यात्, आगमेन व्यवहारं प्रस्थापयेत् । नो च तत् तत्र आगमः स्यात्, यथा तस्य तत्र श्रुतं स्यात्, श्रुतेन व्यवहारं प्रस्थापयेत्, नो वा तस्य तत्र श्रुतं स्यात्, यथा तस्य तत्र आज्ञा स्यात्, आज्ञया व्यवहारं प्रस्थापयेत् । नो च तस्य

॥ व्यवहारात् वक्तव्यता ॥

‘कहविहे णं भंते । व्यवहारे पण्णत्ते’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—‘कहविहे णं भंते ! व्यवहारे पण्णत्ते’ हे भदन्त व्यवहार कितने प्रकार का कहा गया है ? ‘गोयमा’ हे गौतम । ‘पंचविहे व्यवहारे पण्णत्ते’ व्यवहार पांच प्रकार का कहा गया है (तं जहा) जो इस प्रकार से है ‘आगमे, सुए, आणा धारणा, जीए’ आगमव्यवहार, श्रुतव्यवहार, आज्ञाव्यवहार, धारणाव्यवहार और जीतव्यवहार ‘जहा से तत्थ आगमे सिया, आगमेणं व्यवहार पट्टवेज्जा, णो य से तत्थ आगमे सिया जहा से तत्थ सुए सिया, सुएणं तत्थ व्यवहारं पट्टवेज्जा’ इस पांच प्रकार के व्यवहार में जैसा वहां वह आगम हो, उस आगम से वहां व्यवहार चलाना चाहिये यदि वहां पर आगम नहीं हो तो जैसा वहां पर श्रुत हो उस श्रुत से वहां पर व्यवहार चलाना चाहिये । ‘णो वा से तत्थ सुए सिया, जहा से तत्थ आणा सिया, अणाए व्यवहारं पट्टवेज्जा, णो य से तत्थ आणा सिया, जहा से तत्थ धारणा सिया,

व्यवहार वक्तव्यता—

“कहविहेणं भंते । व्यवहारे पण्णत्ते” इत्यादि

सूत्रार्थ—(कहविहेणं भंते ! व्यवहारे पण्णत्ते ?) हे भदन्त ! व्यवहारना कितने प्रकार कहा है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (पंचविहे व्यवहारे पण्णत्ते) व्यवहारना पांच प्रकार कहा है. (तं जहा) ते प्रकारे नीचे प्रमाणे छे—(आगमे, सुए, आणा, धारणा, जीए) १ आगमव्यवहार, २ श्रुतव्यवहार, ४ आज्ञाव्यवहार अने ५ श्रुतव्यवहार (जहा से तत्थ आगमे सिया, आगमेणं व्यवहार पट्टवेज्जा, णो य से तत्थ आगमे सिया जहा से तत्थ सुए सिया, सुएणं व्यवहार पट्टवेज्जा) आ पांच प्रकारना आगममांथी जेवे। त्या ते आगम छाय, जेवा आगमथी त्यां व्यवहार यथाववे जेधंजे, जेत्यां आगमने आश्रय लभं शक्य तेम न छाय ते जेवुं श्रुत त्यां छाय जेवा श्रुतथी व्यवहार यथाववे। जेधंजे (णो वा से तत्थ सुए सिया, जहा से तत्थ आणासिया, आणाए व्यवहार पट्टवेज्जा, णो य से तत्थ आणासिया जहा

तत्र आशाम्यात्, यथा तस्य तत्र धारणास्यात्, धारणया ललु व्यवहार प्रस्थापयेत्
 नो घ तस्य तत्र धारणा स्यात् यथा तस्य तत्र जीतं स्यात्, जीतेन व्यवहारं
 प्रस्थापयेत्। इत्येतैः पञ्चमि व्यवहार प्रस्थापयेत्, तत्रया-भागमेन, ध्रुतेन,
 आह्वया, धारणया, जीतेन, यथा यथा तस्य आगम, ध्रुतम्, आह्वा, धारणा,
 जीतम्, तथा तथा व्यवहारं प्रस्थापयेत्, अथ किमाहुः मन्तव्यं। आगमयल्लिका

धारणाए ण व्यवहारं पट्टवेज्जा ' यदि वहां पर श्रुत न हो तो जैसी वहां
 आज्ञा हो उस प्रकार से उसे वहां व्यवहार चलाना चाहिये। यदि वहां
 आज्ञा भी न हो तो जिस प्रकार से वहां धारणा हो उस प्रकार से व्य
 वहार चलाना चाहिये। (णो य से तस्य धारणा सिया, जहा से तस्य
 जीए सिया, जीए ण व्यवहार पट्टवेज्जा) यदि वहां पर धारणा भी न हो
 तो जिस प्रकार से उसके पास जीत हो उस जीत से उसे अपना व्य
 वहार चलाना चाहिये। ' इच्छेपहि पंचहि व्यवहारं पट्टवेज्जा ' इस तरह
 के इन पांच व्यवहारों द्वारा व्यवहार चलाना चाहिये। ' त जहा-भाग
 मेण, सुपण, आणाए, धारणाए, जीएण, जहा से आगमे, सुए, आणा,
 धारणा, जीए, तथा तथा व्यवहारं पट्टवेज्जा ' जैसे-आगम से, ध्रुत से,
 आह्वा से, धारणा से और जीत से जैसा जैसा उसके पास आगम,
 ध्रुत, आज्ञा, धारणा, जीत हो, वैसा वैसा उसे व्यवहार चलाना चाहिये।
 (से किमाहु मन्ते। आगमयल्लिया समणा निग्गंया) हे मन्तव्यं !

से तस्य धारणा सिया, धारणाए ण व्यवहारं पट्टवेज्जा) ने त्यां श्रुतेन आधार
 भणे तेभ न होय, तो नेची त्यां ज्ञाना होय ते प्रभावे व्यवहार चलाववे।
 नेधजे ने त्यां ज्ञानाने आधार पणु भणं शक्य तेभ न होय तो त्यां नेवा
 प्रकारनी धारणा होय ते प्रभावे व्यवहार चलाववे। नेधजे (णो य से तस्य
 धारणा सिया जहा से तस्य जीए सिया, जीएण व्यवहार पट्टवेज्जा) ने त्यां
 धारणांने आधार पणु भणे तेभ न होय तो त्यां ने प्रकारनी एत होय, ते
 एतने आधारे पोताने व्यवहार चलाववे। नेधजे (इच्छेपहि पंचहिव्यवहारं
 पट्टवेज्जा) त्या प्रकारना पांच पध्दतरे द्वारा व्यवहार चलाववे। नेधजे। (तं
 जहा-आगमण, सुए, आणाए धारणाए जीएण तथा जहासे आगमे सुए,
 आणा धारणा, जीए, तथा तथा व्यवहारं पट्टवेज्जा) नेभ के-आत्रभधी श्रुतधी
 आज्ञाधी, धारणाधी अने एतधी नेवां नेवां तेनी पासे आत्रभ ध्रुत, आह्वा
 धारणा अने एत होय जेवा जेवा तेले व्यवहार चलाववे। नेधजे (से

श्रमणाः निर्ग्रन्था, इत्येतं पञ्चविधं व्यवहारं यदा यदा यत्र यत्र तदा तदा तत्र तत्र अनिश्रितं सम्यग् व्यवहरन् श्रमणो निर्ग्रन्थः आज्ञाया आराधको भवति ॥सू०२

टीका—' कश्चिद्देहं भंते ! व्यवहारे पण्णत्ते ? ' गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! कत्रिविधः खलु व्यवहारः प्रज्ञप्तः ? भगवानाह—' गोयमा । पंचविहे व्यवहारे पण्णत्ते '

आगम के बल वाले श्रमण निर्ग्रन्थ क्या कहते हैं ? अर्थात् इस पंच-विध व्यवहार का क्या फल होना श्रमण निर्ग्रन्थ कहते हैं ? (इच्छे तं पंचविहं व्यवहारं जया जया जहिं जहिं तथा तथा तहिं तहिं अणिसोवस्सितं सम्मं व्यवहरमाणे समणे निग्गंथे आणाए आराहए भवइ) हे गौतम ! वे ऐसा कहते हैं कि जहाँ जहाँ जब जब यह पांच प्रकार का व्यवहार उचित लगे, वहाँ वहाँ तब तब रागद्वेष का परिहार करते हुए अच्छी तरह से इन व्यवहारों से अपना व्यवहार चलाता हुआ श्रमण निर्ग्रन्थ आज्ञा का आराधक होता है ।

टीकार्थ—गुर्वादि से लेकर भाव तक के प्रत्यनीक जन-गुरुके विरोधी जन यदि उनके अप्रत्यनीक (गुरु के आज्ञाकारी) बन जाते हैं—अब हम पुनः ऐसा नहीं करेंगे—इस तरह से अपने आपको तैयार कर लेते हैं—तो वे शुद्धि के लायक बन जाते हैं । वह शुद्धि व्यवहार से होती है, इसी व्यवहार की प्ररूपणा सूत्रकार ने इस सूत्र द्वारा की है—इसमें

किमाहु भंते ! आगमवल्लिया समणा निग्गंथा) हे भदन्त ! आगमना भल-वाला श्रमणु निर्ग्रथो शुं कडे छे ? अट्ठे के आ पाय प्रकारना व्यवहारु कथुं इण श्रमणु निर्ग्रथो कडे छे ? (इच्छे तं पंचविहं व्यवहार जया जया जहिं जहिं तथा तथा तहिं तहिं अणिसोवस्सितं सम्मं व्यवहरमाणे समणे निग्गंथे आणाए आराहए भवइ) हे गौतम ! तेओ ओपु कडे छे के न्या न्या न्यारे न्यारे आ पाय प्रकारना व्यवहार योग्य लागे, त्या त्या त्यारे त्यारे राग द्वेषना त्याग करीने सारी रीते व्यवहार यत्तावतो श्रमणु निर्ग्रथ आज्ञानो आराधक होय छे.

टीकार्थ—गुरु प्रत्यनीकथी लधने लाव प्रत्यनीक पर्यन्तना प्रत्यनीको (विरोधीओ) ने तेमनी प्रत्ये अप्रत्यनीक (आज्ञाकारी) भनी जय, तो तेओ शुद्धिने लायक भनी जय छे " उवे हुं तेमनो विरोध, द्वेष आदि करीश नहिं " आ प्रकारनो निर्ग्रथ करी नाथे तो तेओ अप्रत्यनीक भनी नवाथी शुद्धिने पात्र भने छे आ शुद्धि व्यवहारथी थाय छे सूत्रकारे आ सूत्रमां ते व्यवहारनी प्ररूपणा करी छे व्यवहारने अनुलक्षीने गौतमस्वामी महावीर

हे मौतम ! पञ्चविधो व्यवहार महत्तः, 'त जहा-भागमे, सुए, आणा पारणा, जीए' तयया-आगम धुतम्, आझा, पारणा, जीतम्, अत्र व्यवहरण व्यवहार इति व्युत्पत्त्या मोक्षाभिलाषिणीवमवृत्तिरूप तद्वैतत्वाद् ज्ञानविशेषोऽपि व्यवहार उच्यते, तत्र भागम्यते परिच्छिद्यते निष्पत्तिरपि क्रियते अर्थाः अनेनेत्यागम -केवलज्ञान -मनःपर्यवसाना-अवधिज्ञान-अतुर्दशपूर्व-दशपूरनवपूर्वरूपो बोध्य तथाविधागमेन

गौतम ने प्रश्न से ऐसा पूछा है- 'कहविहे ण भते ! व्यवहारे पण्णत्ते' है भदन्तं ! जिस व्यवहार से प्रस्थनीकों की शुद्धि होती है-यह व्यवहार कितने प्रकार का कहा गया है, उत्तरमें प्रश्न कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! (पञ्चविहे व्यवहारे पण्णत्ते) व्यवहार पांच प्रकार का कहा गया है। 'तंजहा' जैसे- 'आगमे, सुए, आणा, पारणा, जीए' आगम, धुत, आझा, पारणा और जीत 'व्यवहारण व्यवहार' इस व्युत्पत्ति के अनुसार मोक्षाभिलाषी जीव का प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप जो ज्ञानविशेष है वह व्यवहार का हेतु होनेसे व्यवहाररूप से कहा गया है। 'आगम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते निष्पत्तिरपि क्रियन्ते अर्थाः अनेन इति आगमः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिससे जीवादिक पदार्थ जाने जाते हैं-निष्पत्ति के विषयभूत बनाये जाते हैं-ऐसा वह ज्ञान आगम है। ऐसा आगमरूप ज्ञान केवलज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान, अवधिज्ञान है, तथा अतुर्दशपूर्वधारी का ज्ञान, दश पूर्वधारी का

प्रश्नने आ प्रभावे प्रश्न पूछे छे- 'कह विहेण भंत ! व्यवहारे पण्णत्ते ?' के कहन्त ! ने व्यवहार प्रस्थनीकेनी शुद्धि थाय छे, ते व्यवहार केवल प्रधारणा कहा छे ? महावीर प्रश्नने उत्तर- गोयमा ! हे मौतम ! 'पञ्चविहे व्यवहारे पण्णत्ते' ते व्यवहार पांच प्रकारने कहा छे 'त जहा' ते पांच प्रकारे नीछि प्रभावे छे- आगमे सुए, आणा पारणा जीए " १ आगम २ धुत, ३ ज्ञान, ४ धारणा अने ५ लत. 'व्यवहारण व्यवहार' आ व्युत्पत्ति अनुसार मोक्षाभिलाषी एवम् प्रवृत्ति अने निवृत्ति रूप ने ज्ञान विशेष बोध छे ते व्यवहारने कारणरूप बोधायी तेने व्यवहाररूप कहा छे 'आगम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते निष्पत्तिरपि क्रियन्ते अर्थाः अनेन इति आगमः' आ व्युत्पत्ति अनुसार केना दश एवादि पदार्थने बोधी ज्ञानय छे केना दश तेमने निष्पत्ति करी ज्ञानय छे-जेवु ने ज्ञान ते आगम छे जेवु आगम रूप ज्ञान-केवलज्ञान मनःपर्यवज्ञान, अवधिज्ञान, तथा ओर पूर्वधारीनु ज्ञान

वर्तितो जीवप्रवृत्तिनिवृत्तिरूपो व्यवहार आगमव्यवहार उच्यते, श्रुतम् आचाराङ्गा-
दकम्, नवादिपूर्वाणां च श्रुतत्वेऽपि अतीन्द्रियार्थेषु विशिष्टज्ञानहेतुत्वेन सातिशयत्वात्
प्रागमव्यपदेशः केवलज्ञानवत्, श्रुतज्ञानेन च प्रवर्तितः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपः श्रुतव्यव-
हार उच्यते, तथा आज्ञा-अतिचारान् आलोचयितुं केनचित् गीतार्थसाधुना स्वागी-
तार्थशिष्येण सह अन्यदेशस्थितगीतार्थसाधुसमीपे गूढार्थपदानि प्रेषितानि, तेन च
गूढार्थपदवेदिना गीतार्थसाधुना तद्गूढार्थपदातिचारशुद्धग्रथं प्रतिप्रेषितं प्रायश्चित्त-
माज्ञाव्यवहार उच्यते, तथा धारणा-द्रव्यक्षेत्रकालभावान् विचार्य गीतार्थसाधुना,

ज्ञान और नौ पूर्वधारी का ज्ञान ऐसा ही आगमरूप ज्ञान है। इस प्रकार के आगमज्ञान से प्रवर्तित क्रिया गया मोक्षाभिलाषी जीव का जो प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार है वह आगमव्यवहार है। आचाराङ्ग आदि श्रुत हैं। यद्यपि नौ आदि पूर्वों में भी श्रुतत्व है परन्तु वे अतीन्द्रिय पदार्थों के ज्ञान में विशिष्ट रूप से हेतु होने के कारण सातिशय माने गये हैं-अतः इनमें श्रुतका व्यपदेश न होकर केवल ज्ञानकी तरह आगम का व्यपदेश हुआ है-श्रुतज्ञान से प्रवर्तित हुआ मोक्षाभिलाषी जीव का जो प्रवृत्ति निवृत्तिरूप व्यवहार है वह श्रुतव्यवहार है। किसी गीतार्थ साधु ने अतिचारों की आलोचना करने के लिये अपने अगीतार्थ शिष्य के साथ अन्यदेशस्थित गीतार्थसाधु के पास गूढ अर्थवाले पद प्रेषित किये-उन गूढार्थ पदवेदी गीतार्थसाधु के द्वारा उन गूढार्थ पदों से अतिचार जानकर उनकी शुद्धि

इस पूर्वधारीनु ज्ञान अने नव पूर्वधारीनु ज्ञान गणाय छे. आ प्रकारना आगमज्ञानथी आदतो 'अथेवो मोक्षाभिलाषी एवनेो जे प्रवृत्ति निवृत्ति इप व्यवहार छे, ते व्यवहारनु नाम आगम व्यवहार छे. आचाराग आदि श्रुत गणाय छे. जे के नव आदि पूर्वोभां पणु श्रुतत्व छे परन्तु तेओ अतीन्द्रिय पदार्थोना ज्ञानभां विशिष्ट इपे हेतुइप डोवाने कारणे सातीशय मानवामां आव्या छे तेथी तेमनाभा श्रुतनेो व्यपदेश न थता, केवलज्ञाननी जेम आगमनेो व्यपदेश थयो छे श्रुतज्ञानथी प्रवर्तित थयेला मोक्षाभिलाषी एवनेो जे प्रवृत्ति निवृत्ति इप व्यवहार छे, ते व्यवहारने श्रुत-व्यवहार कडे छे. कडे गीतार्थ साधुओ (छेद सूत्रनेो लणुकार) अतिचारोनी आलोचना करवाने भाटे पोताना अगीतार्थ शिष्यनी साथे जीण देशभां रहेता गीतार्थ साधुनी पासे गूढ अर्थवाणा पद मोडव्यां-ते गूढार्थ पदना लणुकार गीतार्थ साधुओ ते गूढार्थ पदो द्वारा अतिचार लणुकीने तेमनी शुद्धिने भाटे प्रायश्चित्त मोडली हीधुं.

यादृशपराधे यत् प्रायश्चित्तं कृतं तद् धारणया सादृशेऽपराधे तयानिपत्यैव प्रायश्चित्तस्य दान धारणा व्यवहार उच्यते, अथवा कश्चित् साधु सर्वाणि छेदसूत्राणि श्रितितुमसमर्थं गुरुर्यत् प्रायश्चित्तपदं श्रितयत्, तद्धारणं धारणा उच्यते, तथा जीतः—द्रव्यक्षेत्रकालमात्रापेक्षया शारीरिकबलाबल विचार्य दीयमान प्रायश्चित्त जीतव्यवहार उच्यते, अथवा बहुमि गीतार्थसाधुमि सद् परामृश्य प्रवर्तितो याः प्रायश्चित्तन्यवहारो बहुभिरन्यैश्चानुवर्तितः, स जीतव्यवहार उच्यते । अथ भागमादिपञ्चसु पूर्वपूर्वस्य पलवत्तरत्तम्, उत्तरोत्तरस्य च न्यूनवत्त्व प्रतिपादयित्वा

के निमित्त प्रायश्चित्त मेज दिया—सो ऐसा मेजा गया यह प्रायश्चित्त आज्ञा व्यवहार है । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनको विचार कर के गीतार्थसाधु ने अनुक्त अपराध हो जाने पर ऐसा प्रायश्चित्त दिया हो उस प्रायश्चित्त की धारणा करके इसी तरह के और दूसरे अपराध में उसी प्रकार का प्रायश्चित्त देना सो यह धारण व्यवहार है । अथवा कोई गुरु अपने शिष्य साधु को छेद सूत्रों को सीखने के लिये असमर्थ जान कर जो उसे प्रायश्चित्त पद सिखाता है सो उस प्रायश्चित्त पद का धारण करना—यह धारणा व्यवहार है । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनकी अपेक्षा से शारीरिक बलाबलका विचार कर दिया गया जो प्रायश्चित्त है वह जीत व्यवहार है । अथवा—अनेक गीतार्थ साधुओं के साथ परामर्श करके प्रवर्तित किया गया जो प्रायश्चित्त का व्यवहार है, सो उस व्यवहार को जो अन्य साधुजन मानते हैं वह जीत व्यवहार है । इस पांच प्रकार के व्यवहार में पूर्वपूर्व के व्यवहार में पलवत्तरता तथा

तो आ रीते भोक्तव्यार्थमावेष्टा ते प्रायश्चित्तने आज्ञा—व्यवहार कहे छे

द्रव्य क्षेत्र, काल अने भावने विचार करीने जीतार्थ साधुके अनुक्त दोष करनारने अनुक्त प्रायश्चित्त आशु होय कहे ते प्रायश्चित्तनी धारणा करीने जेव प्रकारना जेवा जीत दोष करनारने जेव प्रकारनु प्रायश्चित्त आपवुं तदुं नाम धारणा—व्यवहार छे अथवा ठोष अरु पोताना शिष्य साधुने छेद सूत्रे शीष्यवाने असमर्थ भानीने तेने प्रायश्चित्त पद शीष्यवे छे तो ते प्रायश्चित्त पदने धारण करवुं तदुं नाम धारणा व्यवहार छे द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भावनी अपेक्षाके शारीरिक बलाबलने विचार करीने जे प्रायश्चित्त आपवार्थमा आशु होय तेने एतव्यवहार रूप मानवार्थमा आवे छे अथवा अनेक जीतार्थ साधुजोनी साथे यथा विचारणा करीने प्रवर्तित करवार्थमा आवेष्ट के प्रायश्चित्तने व्यवहार छे, ते व्यवहारने पञ्च एतव्यवहार कहे छे अथ

तेषां व्यापारणे उत्सर्गापवादौ आह—‘जहासे तत्थ आगमे सिया, आगमेणं व्यवहारं पट्टवेज्जा’ यथा यत्प्रकारकः केवलज्ञानादीनामुपर्युक्तानामेकतमः कश्चित् दानादिव्यवहारकाले, व्यवहर्तव्ये वा वस्तुनि विषये आगमः केवलज्ञानादिः स्यात् भवेत् तत्प्रकारकैणैव आगमेन व्यवहारं प्रायश्चित्तदानादिकं प्रस्थापयेत् प्रवर्तयेत्, आगमेऽपि षड्विधे केवलेनैव व्यवहारं प्रवर्तयेत्, केवलज्ञानस्य अवन्ध्यबोधकत्वात्, तदभावे तु मनःपर्यवज्ञानेन, एवं रीत्या प्रधानतरालाभे उत्तरोत्तरेण अप्रधाने-

उत्तर उत्तर के व्यवहार में न्यून बलता है इस बात को स्पष्ट करने के लिये इनके व्यापारण में-लगाने में उत्सर्ग और अपवाद को सूत्रकार प्रकट करते हैं—‘जहा से तत्थ आगमे सिया-आगमे णं व्यवहारं पट्टवेज्जा’ पांच प्रकार के व्यवहार में से व्यवहारकर्ता के पास जो भी कोई आगम हो उससे वह प्रायश्चित्त दानादि व्यवहारकाल में, अथवा व्यवहर्तव्य वस्तु के विषय में अपना व्यवहार चलावे—पांच प्रकार के पूर्वोक्त आगमों में से यदि उसके पास केवलज्ञानरूप आगम है तो उससे वह उस प्रकार व्यवहार चलावे, क्यों कि केवलज्ञान अवन्ध्य बोधक होता है। यदि केवलज्ञानरूप आगम व्यवहर्ता के पास नहीं है और मनः पर्यवज्ञानरूप आगम व्यवहर्ता के पास है—तो वह उससे उस प्रकार का अपना व्यवहार चलावे इस तरह प्रधानतर के अभाव में उत्तरोत्तर अप्रधान आगम से व्यवहार चलाने की बात की पुष्टि—‘णो

पांच प्रकारना जे व्यवहार अतापवामां आव्या छे तेमां पूर्व पूर्वना (आगमना) व्यवहारामां अक्षपत्तरता अने उत्तर उत्तरना व्यवहारमां न्यूनबलता छे. अज वातने स्पष्ट करीने तेमना उपयोगनी पद्धति सूत्रकार नीचेनासूत्र द्वारा प्रकट करे छे (जहा से तत्थ आगमे सिया, आगमेणं व्यवहारं पट्टवेज्जा) पांच प्रकारना व्यवहारमांथी व्यवहार कर्ता पासे जे केध पणु आगम डोय, तेनी महदथी प्रायश्चित्त देवानो प्रसंग आवे त्यारे अथवा व्यवहर्तव्य वस्तुना विषयमां तेले पोतानो व्यवहार अलाववो लेधअे पूर्वोक्त पांच प्रकारना आगमामांथी जे तेनी पासे केवल-ज्ञानरूप आगम डोय, तो तेना द्वारा तेले ते प्रकारना व्यवहार अलाववो लेधअे, कारणु के केवलज्ञान अवन्ध्य बोधक डोय छे जे व्यवहर्तानी पासे केवल-ज्ञानरूप आगम न डोय, पणु मन-पर्यव-ज्ञानरूप आगम डोय, तो तेले तेना द्वारा ते प्रकारना पोतानो व्यवहार अलाववो लेधअे आ रीते प्रधानतर आगमने अलावे उत्तरोत्तर अप्रधान आगमथी व्यवहार अलाववानी पुष्टि नीचेना सूत्र द्वारा करवामा आवी छे.

नापि व्यवहारं स्यापयेत्, तदाह—' जो य से तस्य आगमे सिया, जहा से तस्य सुए सिया, सुएणं व्यवहारं पट्टवेज्जा' नो च नैव यदि तस्य व्यवहर्तुं तत्र व्यवहर्तुं व्यादी आगम स्यात् मवेत् तदा यथा यत्प्रकारक यादृशमित्यर्थ, तस्य तत्र सुए स्यात् तादृशेन युतेनैव व्यवहारं प्रायश्चित्तादिकं प्रस्थापयेत् ' जो वा से तस्य सुए सि ग, जहा से तस्य आगा सिया, आगाए व्यवहारं पट्टवेज्जा' नो वा नैव यदि तस्य व्यवहर्तुं तत्र व्यवहर्तव्यादी भुव स्यात् तदा यथा यादृशी तस्य व्यवहर्तुस्तत्र व्यवहर्तव्यादी आहा स्यात् तादृश्या भाग्यैव व्यवहारं प्रायश्चित्तादिकं प्रस्थापयेत् प्रवर्तयेत्, ' जो य से तस्य आणा सिया, जहा से तस्य पारणा सिया, पारणाए णं व्यवहारं पट्टवेज्जा' नो च नैव यदि तस्य व्यवहर्तुस्तत्र व्यवहर्तव्यादी विषये आहा स्यात्तदा यथा यादृशी तस्य तत्र पारणा स्यात् तादृश्या पारण्यैव सस्य व्यव

य से तस्य आगमे सिया, जहा से तस्य सुए सिया सुएणं व्यवहारं पट्टवेज्जा' इस सूत्र से होती है—सूत्रकार कहते हैं कि व्यवहर्ता के पास व्यवहर्तव्य वस्तु के विषय में यदि आगम नहीं है, तो जैसा उसके पास भ्रुन हो वह उससे ही उस वस्तु का प्रायश्चित्त आदि व्यवहार चलावे (जो वा से तस्य सुए सिया—जहा से तस्य आणा सिया आणाए व्यवहारं पट्टवेज्जा) यदि उसके पास भ्रुन नहीं है—तो व्यवहर्ता के पास प्रायश्चित्त आदि को चलान के लिये उसके विधान देने के लिये—जैसी आज्ञा हो—जैसा आज्ञान्वय व्यवहार हो, उससे ही वह उस प्रकार का प्रायश्चित्त आदि के देने का व्यवहार चलावे ' जो य से तस्य आणा सिया जहा से तस्य पारणा सिया, पारणाए णं व्यवहारं पट्टवेज्जा' व्यवहर्ता के पास यदि प्रायश्चित्त आदिके लिये आज्ञा

(जो य से तस्य आगमे सिया, जहा से तस्य सुए सिया सुएणं व्यवहारं पट्टवेज्जा) सूत्रकार बड़े छे छे व्यवहर्तव्य वस्तुना विषयभां ने आगम न होय पण्य भुतने सद्भाव होय तो तेव्हे भुतने आधार के ते वस्तुना प्रायश्चित्तने व्यवहार चलावने लोपजे. (जो वा से तस्य सुए सिया, जहा से तस्य आणा सिया आणाए व्यवहारं पट्टवेज्जा) ने व्यवहर्तव्य वस्तुना विषयभां ने आगम न होय तो प्रायश्चित्त आदि आपनाने भाटे—तेव्हे विधान देवाने भाटे जेवी आज्ञा होय—जेवो आज्ञाप्य व्यवहार होय—तेना भाश तेव्हे प्रायश्चित्त आदि आपनाने व्यवहार चलावने लोपजे.

(जो य से तस्य आणा सिया जहा से तस्य पारणा सिया पारणाए णं व्यवहारं पट्टवेज्जा) ने व्यवहर्तव्य वस्तुना विषयभां ने आगम न होय तो प्रायश्चित्त आदिने भाटे आज्ञाप्य

हारंप्रायश्चित्तादिकं प्रस्थापयेत्, 'णो य से तत्थ धारणा सिया, जहा से तत्थ जीए सिया, जीएण ववहारं पट्टवेज्जा' नो च नैव यदि तस्य व्यवहारकर्तुस्तत्र व्यवहर्तव्यादौ धारणा स्यात्तदा यथा यादृशं तस्य तत्र जीतं स्यात् तादृशेन जीते नैव व्यवहारंप्रायश्चित्तादिकं प्रस्थापयेत् प्रवर्तयेत्, उपर्युक्तमुपसंहारनाह—'इच्चेएहि पंचहि ववहारं पट्टवेज्जा, तं जहा-आगमेणं, सुएणं, आणाए, धारणाए, जीएणं' इत्येतैः उपर्युक्तैः पञ्चभिः आगम-श्रुता-ज्ञाधारणाजीतैः व्यवहार प्रायश्चित्तादिकं प्रस्थापयेत् प्रवर्तयेत्, तान्येवाह-तद्यथा आगमेन, श्रुतेन, आज्ञया,

रूप व्यवहार नहीं है, तो जैसी उसके पास प्रायश्चित्त आदि व्यवहार चलाने के लायक धारणा हो-वह उससे उस प्रकार का प्रायश्चित्त आदि देवे (णो य से तत्थ धारणा सिया, जहा से तत्थ जीए सिया, जीए णं ववहारं पट्टवेज्जा) यदि व्यवहार कर्ता को व्यवहर्तव्य आदि में धारणा नहीं है तो जैसा उसके पास जीत व्यवहार हो, उससे ही वह उस प्रकार का प्रायश्चित्त आदि व्यवहार चलावे । अब सूत्रकार उस उपर्युक्त विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि 'इच्चेएहि पंचहि ववहारं पट्टवेज्जा' इस प्रकार से इन पांच व्यवहारों से-आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत इनसे-व्यवहर्ता प्रायश्चित्त आदि को चलावे । इन्हीं व्यवहारों के नाम इस सूत्रद्वारा प्रकट किये गये हैं 'तं जहा-आगमेणं, सुएणं, आणाए, धारणाए, जीएणं' । इन आगम, श्रुत, आज्ञा धारणा और जीतरूप व्यवहारों में से किसी एक से जो जिसके पास

व्यवहार न होय तो प्रायश्चित्त आदि देवाने भाटे तेनी पासे नेवी धारणा होय, ते धारणा द्वारा तेहे ते प्रकारनु प्रायश्चित्त आदि देवु नेधये (णो य से तत्थ धारणा सिया, जहा से तत्थ जीए सिया, जीए णं ववहारं पट्टवेज्जा) ने व्यवहार कर्तानी पसे प्रायश्चित्त आदि देवाने भाटे धारणा न होय, तो तेनी पासे नेवे। एतद्व्यवहार होय अथवा एतद्व्यवहार द्वारा न तेहे प्रायश्चित्त आदि व्यवहार यत्नारवे। नेधये।

इवे सूत्रकार उपर्युक्त विषयने उपसंहार करता कडे छे डे—(इच्चेएहि पंचहि ववहारं पट्टवेज्जा) आ प्रकारना आ पांच व्यवहारोथी (आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा अने एत) व्यवहारोथे प्रायश्चित्त आदि व्यवहार यत्नारवे। ते व्यवहारोना नाम आ सूत्र द्वारा सूत्रकारे प्रकट कर्या छे— (तं जहा-आगमेणं, सुएणं, आणाए, धारणाए, जीएणं) आ आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा अने एतद्व्यवहारोमाने ने कोथि अके व्यवहार नेनी

धारणा, जीतेन, इत्येतेषामन्यतमेनेत्यर्थ इति सामान्यनिगमनमुक्त्वा विशेष
 निगमनमाह—'जहा जहा से आगमे, सुए आगा, धारणा जीए तथा तथा बरहार
 पट्टवेज्जा' यथा यथा यादक् तस्य व्यवहारकर्तुः आगमः, धुत्तम्, आगा, धारणा,
 भीतं स्यात्, तथा तथा तादृशेन व्यवहार प्रापञ्चिकादिकं प्रस्थापयेत् मवर्तयेत्,
 गौतम एतैर्व्यवहारकर्तुः फलं पृच्छति—' से किमाहु भवे ! आगमप्रक्रिया समया
 निमाया ? ' हे भवन्त ! तत् अय आगमप्रक्रिया सामाजिका उक्तज्ञानविशेषपर-
 वन्त -अमणा निर्घ्न्याः केचिप्रमृतयः एतैर्व्यवहारकर्तुः किं फलमाहु प्रतिपाद
 यन्तीति प्रश्नः, मगधानाह—'इच्छेयं पचविद् व्यवहारं जया जयिं जहिं, तथा
 तथा तदिं तदिं अणिसिभोवस्मिय सम्मं व्यवहारमाणे समणे निगंघे आमाए
 आराइए भवइ हे गौतम ! इत्यतम् उक्तस्वरूपम् एत प्रत्यक्ष पञ्चविधं व्यवहार

हो एतसे प्रायश्चित्त आदि की व्यवहारी प्रवृत्ति करता रहे यही बात
 हम विशेष निगमनद्वारा सूत्रकार ने प्रकट की है (जहा जहा से आगमे
 सुए, आणा, धारणा जीए तथा २ व्यवहार पट्टवेज्जा)। अथ गौतमस्वामी
 इन पांच व्यवहारों में से किसी भी व्यवहार से व्यवहार चलाने वाले
 को क्या फल प्राप्त होता है—इस बात को पूछते हैं—' से किमाहु भवे !
 आगमप्रक्रिया समया निगंघा ' हे भवन्त ! आगमप्रक्रिया—आगमप्र
 क्रियामानमेवाद्ये—उक्तज्ञानविशेषरूपफलवाद्ये—अमणनिर्घ्न—केवलीआदि
 व्यवहारी—इनसे व्यवहार करने को किस फल की प्राप्ति होना कहते
 हैं ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—' इच्छेयं पचविद् व्यवहारं जया
 जया जहिं जहिं, तथा तथा तदिं तदिं अणिसिभोवस्मितं सम्मं व्यवह
 रमाणे समणे निगंघे आणाए आराइए भवइ ' हे गौतम ! जो अमण

पासे देना देना द्वारा व्यवहार कर्तव्ये प्रायश्चित्त आदि व्यवहार बलावणे
 कोछने कोछ बात विशेष निगमन द्वारा सूत्रकारे प्रकट करी छे— जहा जहा
 से आगमे, सुए आणा, धारणा, जीए तथा व्यवहार पट्टवेज्जा)

इहे गौतम स्वामी को बलुवा भागे छे के आ पाय व्यवहारकर्तव्यमाना
 देयं पञ्च व्यवहारानो आद्यं एतने व्यवहार बलावत करने के आ इगनी प्राप्ति
 पाव छे— (से किमाहु भवे ! आगमप्रक्रिया समया निमाया ?) छे भवन्त !
 आगमप्रक्रिया (आगमने प्रभाज्य माननाश) उक्त ज्ञान—विशेषरूप इगणाण
 शमज्य निगंघे—केवली आदि व्यवहारी—अथ व्यवहार प्रमाणे व्यवहार कर
 नारने के आ प्राप्ति देय छे के आ कहते छे ?

तेना उत्तर आपदा मन्गीर प्रभु इहे छे—(इच्छेयं पचविद् व्यवहारं
 जया जया जहिं जहिं तथा तथा तदिं तदिं अणिसिभोवस्मितं सम्मं व्यव

प्रायश्चित्तदानादिरूपं यदा यदा काले यस्मिन् यस्मिन् अवसरे यत्र यत्र प्रयोजने वा क्षेत्रे वा यो य उचितस्तं तमित्यर्थः तदा तदा काले अवसरे तस्मिन् तस्मिन् प्रयोजनादौ अनिश्रितोपश्रितम् अनिश्रितैः सर्वांशंसारहितैः उपश्रितम् अङ्गीकृतम् अनिश्रितोपश्रितम्, अथवा निश्रितं रागः, उपश्रितं द्वेषः ताभ्यां रहितम् अनिश्रितोपश्रितम्, सम्यग् व्यवहरन् प्रवर्तयन् श्रमणो निर्ग्रन्थः आज्ञायाः जिनोपदेशस्याराधको भवति ॥ सू० २ ॥

कर्मबन्धवक्तव्यता ।

आज्ञाराधकश्च अशुभं कर्म क्षपयति शुभं वा कर्म बध्नातीति बन्धप्रस्तावात् तं प्ररूपयितुमाह—‘ कइविहेणं भंते बन्धे इत्यादि ।

मूलम्—कइविहे णं भंते ! बंधे पणत्ते ? गोयसा ! दुविहे बंधे पणत्ते, तं जहा—ईरियावहियाबंधे य संपराइयबंधे य, ईरियावहियणं भंते ! कम्मं किं नेरइओ बंधइ, तिरिक्खजोणिओ बंधइ, तिरिक्खजोणिणी बंधइ, मणुस्सो बंधइ, मणुस्सी बंधइ, देवो बंधइ, देवी बंधइ ? गोयसा ! णो नेरइओ बंधइ, णो तिरिक्खजोणिओ बंधइ, णो तिरिक्खजोणिणी बंधइ, णो

निर्ग्रन्थ उक्त स्वरूप वाले इस प्रत्यक्षीभूत पंचविध प्रायश्चित्त दानादिरूप व्यवहार द्वारा जिस जिस अवसर में जिस जिस प्रयोजन में अथवा क्षेत्र में जो जो उचित है उस उस को उस उस अवसर में उस उस प्रयोजनादि में सर्वांशंसारहित होकर या रागद्वेषरहित होकर अच्छी तरह से व्यवहार चलाता है वह श्रमण निर्ग्रन्थ—केवली जिनोपदेश का आराधक होता है ॥सू०२॥

हरमाणे समणे निगंथे आणाए आराहए भवइ) डे गौतम ! ने श्रमणु निग्रंथ उक्त स्वरूपवाणा आ प्रत्यक्षीभूत पंचविध प्रायश्चित्त आपवा इप व्यवहार द्वारा ने ने प्रसंगे ने ने प्रयोजनमा अथवा क्षेत्रमा ने ने व्यवहार उचित डाय तो ते व्यवहारतु ते ते अवसरे ते ते प्रयोजनादिमा णिलकुल आशका राभ्यां वगर अने रागद्वेष रहित थधने सारी रीते आचरणु करे छे, ते श्रमणु निग्रंथ—डेवली जिनोपदेशने आराधक थाय छे. ॥ सत्र २ ॥

देवो वधइ, णो देवी वधइ, पुव्वपडिवसणए पडुच्च मणुस्सा
 य । मणुस्सीओ य वधति, पडिवज्जमाणए पडुच्च मणुस्सो वा
 वधइ १, मणुस्सी वा वधइ २, मणुस्सा वा वधति ३, मणु
 स्सीओ वा वधति ४, अहवा मणुस्सो य मणुस्सी य वधइ ५,
 अहवा मणुस्सो य मणुस्सीओ य वधति ६, अहवा मणुस्सा य,
 मणुस्सी य वधति ७, अहवा मणुस्सा य मणुस्सीओ य वधति ८ ।
 त भते ! किं इत्थी वधइ, पुरिसो वधइ, नपुसगो वधइ, इत्थीओ
 वधति, पुरिसा वधति, नपुसगा वधति, नोइत्थीनोपुरिस
 नोनपुसओ वधइ ? गोयमा ! णो इत्थी वधइ, णो पुरिसो
 वधइ, जाव नोनपुसगा वधति पुव्वपडिवसणए पडुच्च अव
 गयवदो वधति, पडिवज्जमाणए य पडुच्च अवगयवेदो वा,
 वधइ, अवगयवेदा वा वधति । जइ ण भते ! अवगयवेदो वा
 वधइ, अवगयवेदा वा वधति, त भते ! किं इत्थीपच्छाकडो
 वधइ १, पुरिसपच्छाकडो वधइ २, नपुसगपच्छाकडो वधइ ३,
 इत्थीपच्छाकडा वधति ४, पुरिसपच्छाकडा वधति ५,
 नपुसगपच्छाकडा वधति ६, उदाहु इत्थीपच्छाकडो य,
 पुरिसपच्छाकडो य वधइ ७, उदाहु इत्थी पच्छाकडोय णपु
 सगपच्छाकडो य वधइ ८, उदाहु पुरिसपच्छाकडो य, णपुसग
 पच्छाकडोय वधइ ९, उदाहु इत्थी पच्छाकडो य पुरिसपच्छा
 कडो य, णपुसगपच्छाकडा य भाणियव्व ८, एव एते छन्वीस २६
 भगा भाणियव्वा जाव उदाहु इत्थीपच्छाकडा य, पुरिसपच्छाकडा

य, णपुंसगपच्छाकडा य वंधंति ? गोयमा ! इत्थी पच्छाकडो वि, वंधइ १, पुरिसपच्छाकडो वि वंधइ २, नपुंसगपच्छाकडो वि वंधइ ३, इत्थीपच्छाकडा वि वंधंति ४, पुरिसपच्छाकडा वि वंधंति ५, नपुंसगपच्छाकडा वि वंधंति ६, अहवा इत्थी-पच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडो य वंधइ ४, जाव अहवा इत्थी पच्छाकडाय, पुरिसपच्छाकडाय, नपुंसगपच्छाकडाय वंधंति । तं भंते ! किं वंधी वंधइ, वंधिस्सइ १, वंधी वंधइ, न वंधिस्सइ २, वंधी न वंधइ वंधिस्सइ ३, वंधी न वंधइ, न वंधिस्सइ ४, न वंधी वंधइ, वंधिस्सइ ५, न वंधी वंधइ न वंधिस्सइ ६, न वंधी न वंधइ वंधिस्सइ ७, न वंधी न वंधइ न वंधिस्सइ ८ ? गोयमा ! भवागरिसं पडुच्च अत्थेगइए वंधी, वंधइ, वंधिस्सइ, अत्थेगइए वंधी वंधइ न वंधिस्सइ, एवं तं चेव सव्वं जाव अत्थेगइए न वंधी न वंधइ, न वंधिस्सइ, गहणागरिसं पडुच्च अत्थेगइए वंधी, वंधइ, वंधिस्सइ, एवं जाव अत्थेगइए न वंधी, वंधइ, वंधिस्सइ, णो चेव णं न वंधी, वंधइ, न वंधिस्सइ, अत्थेगइए न वंधी न वंधइ, वंधिस्सइ, अत्थेगइए न वंधी न वंधइ, न वंधिस्सइ । तं भंते ! किं साइयं सपज्जवसियं वंधइ, साइयं अपज्जवसियं वंधइ, अणाइयं सपज्जवसियं वंधइ अणाइयं अपज्जवसियं वंधइ ? गोयमा ! साइयं सपज्जवसियं वंधइ, णो साइयं अपज्जवसियं वंधइ, णो अणाइयं सपज्जवसियं वंधइ, णो अणाइयं अपज्जवसियं वंधइ । तं भंते ! किं देसेणं देसं वंधइ, देसेणं सव्वं वंधइ, सव्वेणं देसं वंधइ

सर्व्वेण सर्व्व घघइ ? गोयमा ? णो देसेण देस घघइ, णो देसेण
सर्व्व घघइ, णो सर्व्वेण देस घघइ, सर्व्वेण सर्व्व घघइ ॥सू०३॥

छाया—कनिषिध खलु मइन्त । बघः प्रइत्त ? गौतम । द्विचिवा बघः
प्रइत्तः, तवया—ऐयांपधिकव बघ, सांपरायिकव बघ, ऐयांपधिक खलु मइन्त ।
कम्म किं नेरयिको बघ्नाति, तिरियगोनिक्को बघ्नाति, तिरियगोनिक्की बघ्नाति, मनुष्यो
बघ्नाति, मानुपी बघ्नाति, देवो बघ्नाति, देवी बघ्नाति ? गौतम ! नो नेरयिको बघ्नाति,

कर्मपघ यच्छन्वता

‘कइविहेण भंते ! पघे पण्णत्ते’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(कइविहे ण भंते ! पघे पण्णत्ते) हे भदन्त ! पघ कितने
प्रकार का कइ गया है ? (गोयमा) हे गौतम ! (दुचिहे पघे पण्णत्ते)
पघ दो प्रकार का कइ गया है । (त जहा) जो इस प्रकार से है—(ईरि
यावहियापघे य, संपराइयपघे य) एरु ऐयांपधिकपन्ध और इमरा
सांपरायिक पघ—(ईरियावहिया ण भंते ! कम्म किं नेरइओ बघइ, तिरि
क्खजोगिओ बघइ) हे भदन्त ! ऐयांपधिक कर्म कया नारकजीव यांघता
है या तिरिय ब योनिकजीव यांघता है ? (तिरिक्खजोगिणी बघइ मणुस्सो
बघइ, मणुस्सो पघइ, देवो पघइ, देवी बघइ) या तिय ब स्त्री यांघती है ?
या मनुष्य यांघता है ? या मनुष्य स्त्री यांघती है ? या देव यांघता है ? (गोयमा)
हे गौतम ! ऐयांपधिक कर्म (णो नेरइओ बघइ णो तिरिक्खजोगिओ

कम्मं अथ यच्छन्वता—

कइविहेण भंते ! बघे पण्णत्ते ” इत्यादि—

सूत्रार्थ—(कइविहे ण भंते ! बघे पण्णत्ते ?) के भदन्त ! अथ डेटवा
प्रकारेण कइ छे ! (गोयमा !) के गौतम ! (दुचिहे पघे पण्णत्ते) अथ
दो प्रकारेण कइ छे (त जहा) केवां के (ईरियावहिया बघे य संपराइ य
पघे य) (१) ऐयांपधिक अथ अने (२) सांपरायिक अथे (ईरियावहियाण
भंते ! कम्म किं नेरइओ बघइ तिरिक्खजोगिओ बघइ) के भदन्त ! ऐयांपधिक
अथ इ नारक जीव अथि छे ? के तिरिय अथे निक जीव अथि छे ? (तिरिक्ख
जोगिणी पघइ मणुस्सो बघइ मणुस्सो पघइ देवो बघइ, देवी पघइ ?) के
तिरिय ब स्त्री अथि छे ? के मनुष्य अथि छे ? के मनुष्य स्त्री अथि छे ? के
देव अथि छे ? के देवी अथि छे ? (गोयमा !) के गौतम ! ऐयांपधिक कर्म
(णो नेरइओ बघइ, णो तिरिक्खजोगिओ बघइ, णो तिरिक्खजोगिणी बघइ,

नो तिर्यग्योनिको बध्नाति, नो तिर्यग्योनिकी बध्नाति, नो देवो बध्नाति, नो देवी बध्नाति । पूर्वप्रतिपन्नकान् प्रतीत्य मनुष्याश्च मानुष्यश्च बध्नन्ति, प्रतिपद्यमानकान् प्रतीत्य मनुष्यो वा बध्नाति १, मानुषी वा बध्नाति २, मनुष्या वा बध्नन्ति ३, मानुष्यो वा बध्नन्ति ४, अथवा मनुष्यश्च, मानुषी च बध्नाति ५, अथवा मनुष्याश्च मानुष्यश्च बध्नन्ति ६, अथवा मनुष्याश्च मानुषी च बध्नन्ति ७, अथवा मनुष्यश्च

बंधइ, णो तिरिक्खजोणिणी बंधइ, णो देवो बंधइ, णो देवी बंधइ, पुव्व पडिवन्नए पडुच्च मणुस्सा य मणुस्सीओ य बंधंति, पडिवज्जमाणए पडुच्च मणुस्सो वा बंधइ ?) नारक नहीं बांधता है, तिर्यच योनि के जीव नहीं बांधते हैं, तिर्यच स्त्री नहीं बांधती है, देव नहीं बांधता है देवी नहीं बांधती है, किन्तु पूर्वप्रतिपन्न को आश्रित करके मनुष्य और मनुष्यस्त्री बांधती है । प्रतिपद्यमान को आश्रित करके मनुष्य बांधता है ? (मणुस्सी वा बंधइ) अथवा मनुष्य स्त्री बांधती है २ (मणुस्सा वा बंधंति ३ मणुस्सीओ वा बंधति ४) अथवा मनुष्य बांधते हैं ३ अथवा मनुष्यस्त्रियां बांधती हैं ४ (अहवा मणुस्सो य मणुस्सी य बंधइ ५) अथवा मनुष्यय और मनुष्य स्त्री बांधती है (अहवा मणुस्सो य मणुस्सीओ य बंधंति ६) अथवा मनुष्य और मनुष्यस्त्रियां बांधती हैं (अहवा मणुस्सा य मणुस्सी य बंधंति ७) अथवा सब मनुष्य बांधते हैं और मनुष्य स्त्री बांधती है ७, (अहवा-मणुस्साय मणुस्सीओ य बंधंति ८) अथवा सब मनुष्य और सब मनुष्यस्त्रियां बांधती हैं । (तं भंते ! किं इत्थी

णो देवो बंधइ, णो देवी बंधइ, पुव्वपडिवन्नए पडुच्च मणुस्सा य मणुस्सीओ य बंधंति, पडिवज्जमाणए पडुच्च मणुस्सो वा बंधइ, मणुस्सी वा बंधइ) नारक बांधता नहीं, तिर्यच्योनिको बांधता नहीं, तिर्यच स्त्री बांधती नहीं, देव बांधता नहीं, देवी बांधती नहीं, परन्तु पूर्वप्रतिपन्ननी अपेक्षाओ मनुष्य अने मनुष्य स्त्री बांधे छे. प्रतिपद्यमाननी अपेक्षाओ मनुष्य बांधे छे, (१) मनुष्य स्त्री बांधे छे (२) (मणुस्सा वा बंधंति, मणुस्सीओ वा बंधंति) (३) अथवा मनुष्यो बांधे छे, (४) अथवा मनुष्य स्त्रीओ बांधे छे, (अहवा मणुस्सो य मणुस्सी य बंधइ) (५) अथवा मनुष्य अने मनुष्य स्त्री बांधे छे, (अहवा मणुस्सो य मणुस्सीओ य बंधइ) (६) अथवा मनुष्य अने मनुष्य स्त्रीओ बांधे छे, (अहवा मणुस्सा य मणुस्सीय बंधंति) (७) अथवा सधणा मनुष्यो अने मनुष्य स्त्री बांधे छे, (अहवा मणुस्सा य मणुस्सीओ य बंधंति) (८) अथवा सधणा मनुष्यो अने सधणी मनुष्य स्त्रीओ बांधे छे

मानुष्यश्च यन्ति । तद् मन्त । किं स्त्री यन्ति, पुरुषो यन्ति, नपुंसको यन्ति, त्रियो यन्ति, पुरुषा यन्ति, नपुंसका यन्ति, नोस्त्रीनोपुरुष मोनपुंसको यन्ति । गौतम ! नो स्त्री यन्ति, नो पुरुषो यन्ति, नो नपु संको यन्ति, यावत् नोनपुंसको यन्ति, पूर्वमतिपद्यकान् प्रतीत्य अपगतवेदा यन्ति, प्रतिपद्यमानवांश्च प्रतीत्य अपगतवेदो वा यन्ति, अपगतवेदा वा यन् न्ति । यदि त्वल्ल मन्त ! अपगतवेदो वा यन्ति, अपगतवेदा वा यन्ति, तत् मन्त । किं स्त्रीपञ्चात्कृतो यन्ति १, पुरुषपञ्चात्कृतो यन्ति २ नपुंसक

यश्च, पुरिसो यश्च, नपुंसगो यश्च, इत्थीओ यन्ति, पुरिसा यन्ति, नपुंसगा यन्ति, नोइत्थी, नोपुरिसो नोनपुंसओ यश्च) हे मन्त ! ऐर्थापधिक कर्म क्या स्त्री यांचती है ? या पुरुष यांचता है ? या स्त्रियां यांचती हैं ? या पुरुष यांचते हैं ? अथवा नपुंसक यांचते हैं ? तथा नो स्त्री, नो पुरुष नो नपुंसक यांचता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जो इत्थी यश्च, जो पुरिसो यश्च, जाय जो नपुंसगा यन्ति, पुण्वपडियमए पडुच्च अवगयवेदा यन्ति, पडिचअमाणए य पडुच्च अवगयवेदो वा यश्च, अवगयवेदा वा यन्ति) ऐर्थापधिक कर्म को न स्त्री यांचती है, न पुरुष यांचता है, यावत् न नपुंसक यांचते हैं । पूर्व प्रतिपद्य को आश्रित करके वेदरहित जीव यांचते हैं । प्रतिपद्यमान को आश्रित करके वेदरहित एक जीव या वेदरहित सय जीव यांचते हैं । (जइ ण भंते ! अवगयवेदो वा यश्च, अवगयवेदा वा यन्ति तं भंते किं इत्थी पञ्चाकडो यश्च १,

(त मंते ! किं इत्थी यश्च, पुरिसो यश्च नपुंसगो यश्च, इत्थीओ यन्ति पुरिसा यन्ति नपुंसगा यन्ति नो इत्थी, नो पुरिसो, नो नपुंसओ यश्च) हे मन्त ! शु ऐर्थापधिक कर्म स्त्री यांचते ? के पुरुष यांचते ? के नपुंसक यांचते ? के स्त्रियो यांचते ? के पुरुषो यांचते ? के नपुंसको यांचते ? अथवा नो स्त्री, नो पुरुष, नो नपुंसक यांचते ?

(गोयमा ! हे गौतम ! (जो इत्थी यश्च जो पुरिसो यश्च, जाय जो नपु संगा यन्ति पुण्वपडियमए पडुच्च अवगय वेदा यन्ति पडिचअमाणए य पडुच्च अवगयवेदो वा यश्च अवगयवेदा वा यन्ति) ऐर्थापधिक कर्म स्त्री यांचती नथी, पुरुष यांचते नथी, अने नपुंसको यन्तना उपयुक्त केअं पय लवे यांचता नथी, यत्तु पूर्व प्रतिपद्यनी अपेक्षाके वेदरहित लवे यांचते अने प्रतिपद्य माननी अपेक्षाके वेदरहित लोक लव अथवा वेदरहित अधां लवे ऐर्थापधिक कर्म यांचते

(जइ मंते ! अवगय-वेदो वा यश्च, अवगय वेदा वा यन्ति त मंते किं इत्थी पञ्चाकडो यन्ति १, पुरिचपञ्चाकडो यश्च २ नपुंसगपञ्चाकडो

पश्चात्कृतो बध्नाति ३, स्त्रीपश्चात्कृता बध्नन्ति ४ पुरुषपश्चात्कृता बध्नन्ति ५, नपुंसकपश्चात्कृता बध्नन्ति ६, उताहो स्त्रीपश्चात्कृतश्च पुरुषपश्चात्कृतश्च बध्नाति ४ उताहो स्त्रीपश्चात्कृतश्च नपुंसकपश्चात्कृतश्च बध्नाति ४, उताहो पुरुषपश्चात्कृतश्च नपुंसकपश्चात्कृतश्च बध्नाति ४, उताहो स्त्रीपश्चात्कृतश्च पुरुषपश्चात्कृतश्च नपुंसकपश्चात्कृतश्च भणितव्यः ८, एवमेते पङ्क्तिशक्तिः भद्राः भणितव्याः २६ यावत् उताहो स्त्रीपश्चा-

पुरिसपच्छाकडो बंधइ, २, नपुंसगपच्छाकडो बंधइ ३, इत्थीपच्छाकडा बंधति ४, पुरिसपच्छाकडा बंधति ५, नपुंसगपच्छाकडा वि बंधति ६, उदाहु इत्थियपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडो य बंधइ ४, उदाहु इत्थीपच्छाकडो य, नपुंसगपच्छाकडो य बंधइ ४) हे भदन्त ! जो वेदरहित जीव या वेदविना के जीव ऐर्थापथिक कर्म को बांधते हैं तो जिसके पहिले स्त्री वेदथा ऐसा जीव बांधता है अथवा पुरुष पश्चात्कृत जीव-जिसके पहिले पुरुष वेद था ऐव्या जीव-उस कर्म को बांधता है ? अथवा नपुंसक पश्चात्कृत जीव-जिसके पहिले नपुंसक वेद था-ऐसा जीव उसे बांधता है ? अथवा-स्त्री पश्चात्कृत जीव, और पुरुषपश्चात्कृत जीव बांधता है ? अथवा जो जीव स्त्रीपश्चात्कृत है और नपुंसक पश्चात्कृत है वह बांधता है (उदाहु-पुरिसपच्छाकडो य नपुंसगपच्छाकडो य बंधइ) अथवा जो जीव पुरुष पश्चात्कृत और नपुंसकपश्चात्कृत है वह बांधता है ४, (उदाहु इत्थीपच्छाकडो य, पुरिसपच्छाकडो य, नपुंसगपच्छाकडो य, भाणियव्व ८) अथवा-स्त्रीपश्चात्कृत, पुरुषपश्चात्कृत जीव बांधता है ? (एवं एए छव्वीसं भंगा २६ जाव उदाहु इत्थीपच्छाकडा

बंधइ ३, इत्थीपच्छाकडा बंधति ४, पुरिसपच्छाकडा बंधति ५, नपुंसगपच्छाकडा बंधति ६, उदाहु इत्थीपच्छाकडो य, पुरिसपच्छाकडो य बंधइ ४, उदाहु इत्थीपच्छाकडो य, नपुंसगपच्छाकडो य बंधइ ४ ?) हे भदन्त ! जो वेदरहित एव अथवा वेद विनाना एवो ऐर्थापथिक बंध बांधता होय, तो पूवे ने स्त्रीवेदवाणो एव उतो ते बांधे छे ? के पुरुष-पश्चात्कृत एव (पूवे ने पुरुष वेदवाणो उतो एवो एव) बांधे छे ? के नपुंसक-पश्चात्कृत एव (पडेलां ने नपुंसक-वेदवाणो उतो एवो एव) बांधे छे ? अथवा स्त्री-पश्चात्कृत एव अने पुरुष-पश्चात्कृत एव बांधे छे ? अथवा स्त्री-पश्चात्कृत अने नपुंसक-पश्चात्कृत एव बांधे छे ? (उदाहु-पुरिसपच्छाकडो य नपुंसगपच्छाकडो य बंधइ, ४) अथवा पुरुष पश्चात्कृत अने नपुंसक पश्चात्कृत एव बांधे छे ? (उदाहु-इत्थीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडो य नपुंसग-पच्छाकडो य भाणियव्व ८) अथवा स्त्री-पश्चात्कृत, पुरुष-पश्चात्कृत अने नपुंसक-पश्चात्कृत एव बांधे छे ?

कृताश्च, पुरुषपश्चात्कृताश्च, नपुंसकपश्चात्कृताश्च यद्वन्ति ? गौतम! स्त्रीपश्चात्कृतोऽपि
 यद्वन्ति १, पुरुषपश्चात्कृतोऽपि यद्वन्ति २, नपुंसकपश्चात्कृतोऽपि यद्वन्ति ३,
 स्त्रीपश्चात्कृता अपि यद्वन्ति ४, पुरुषपश्चात्कृता अपि यद्वन्ति ५, नपुंसकपश्चात्कृता
 अपि यद्वन्ति ६, अथवा स्त्रीपश्चात्कृतश्च पुरुषपश्चात्कृतश्च यद्वन्ति ७, एवम् एते
 चैव पञ्चविंशति मङ्गा मणितव्या, यावत् अथवा स्त्रीपश्चात्कृताश्च, पुरुषपश्चात्कृ-

य, पुरिसपच्छाकडा य नपुंसगपच्छाकडा य यद्वन्ति) इस तरह से ये
 २६ भेग यावत् अथवा स्त्रीपश्चात्कृत जीव पुरुषपश्चात्कृत जीव एवं नपु
 संकपश्चात्कृत जीव यांचते हैं ? यहाँ तक जानना चाहिये । (गोयमा)
 हे गौतम ! (इत्थीपच्छाकडो वि यद्वह १, पुरिसपच्छाकडो वि यद्वह २,
 नपुंसगपच्छाकडो वि यद्वह ३ इत्थीपच्छाकडा वि यद्वन्ति ४, पुरिसपच्छा-
 कडा वि यद्वन्ति ५, नपुंसगपच्छाकडा वि यद्वन्ति ६) स्त्रीपश्चात्कृत जीव
 भी ऐयांपथिक कर्म को यांचता है, पुरुषपश्चात्कृत जीव भी ऐयांपथिक
 कर्म को यांचता है और नपुंसकपश्चात्कृत जीव भी ऐयांपथिक कर्म को
 यांचता है । तथा स्त्रीपश्चात्कृत जीव भी ऐयांपथिक कर्म को यांचते हैं,
 पुरुषपश्चात्कृत जीव भी ऐयांपथिक कर्मको यांचते हैं और नपुंसकपश्चा-
 त्कृत जीव भी ऐयांपथिक कर्म को यांचते हैं ७ । (अथवा-इत्थीपच्छा
 कडो य पुरिसपच्छाकडो य यद्वह ७) अथवा ऐमा जीव कि जो स्त्री
 पश्चात्कृत और पुरुषपश्चात्कृत है ऐयांपथिक कर्म का पष करता है ।
 (एवं एए छन्वीस भगा माणियव्वा) इस प्रकार से २६ भेग कहना

पच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य नपुंसगपच्छाकडा य यद्वन्ति) आ. शीते
 २६ भेग (विहव्य) समख्या छेव्वा भेग आ प्रभावे समन्वे-अथवा
 स्त्री-पश्चात्कृत एवे। पुरुष-पश्चात्कृत एवे। अने नपुंसक-पश्चात्कृत एवे। अपि छे ?
 (गोयमा ।) हे गौतम ! (इत्थीपच्छाकडो वि यद्वह १, पुरिसपच्छाकडो वि
 यद्वह २, नपुंसगपच्छाकडो वि यद्वह ३ इत्थीपच्छाकडा वि यद्वन्ति ४, पुरिसपच्छा
 कडा वि यद्वन्ति ५, नपुंसगपच्छाकडा वि यद्वन्ति ६) स्त्री-पश्चात्कृत एव पष
 ऐयांपथिक कर्म अपि छे (२) पुरुष-पश्चात्कृत एव पष ऐयांपथिक कर्म
 अपि छे (३) नपुंसक-पश्चात्कृत एव पष ऐयांपथिक कर्म अपि छे (४) स्त्री
 पश्चात्कृत एवे। पष ऐयांपथिक कर्म अपि छे (५) पुरुष-पश्चात्कृत एवे।
 पष ऐयांपथिक कर्म अपि छे (६) नपुंसक-पश्चात्कृत एवे। पष ऐयांपथिक
 कर्म अपि छे (अथवा-इत्थीपच्छाकडो य पुरिस-पच्छाकडो य यद्वह) अथवा
 स्त्री-पश्चात्कृत अने पुरुष-पश्चात्कृत एवे। एव पष ऐयांपथिक कर्म
 अपि छे (एवं एए छन्वीसभगा माणियव्वा) आ प्रभावे २६ भेग छेव्वा



ताश्च नपुंसकपश्चात्कृताश्च बध्नन्ति । तद् भदन्त । किं बद्धवान् , बध्नाति, भन्त्स्यति
१, बद्धवान् , बध्नाति, न भन्त्स्यति २, बद्धवान् न बध्नाति, भन्त्स्यति ३ बद्ध-

चाहिये-(जाव अहवा इत्थीपच्छाकडा य, पुरिस्सपच्छाकडा य, नपुंस-
गपच्छाकडा य बंधंति) यावत् अथवा स्त्री पश्चात्कृत जीव, पुरुषपश्चा
त्कृत जीव और नपुंसक पश्चात्कृत जीव उस ऐर्यापथिक कर्म को
बांधते हैं यहाँ तक ।

(तं भन्ते ! किं बंधी बंधइ, बंधिस्सइ १, बंधी बंधइ न बंधिस्सइ २,
बंधी न बंधइ बंधिस्सइ ३, बंधी न बंधइ, न बंधिस्सइ ४, बंधी बंधइ,
बंधिस्सइ ५, न बंधी बंधइ, नबंधिस्सइ ६, न बंधी न बंधइ, बंधिस्सइ
७, न बंधी न बंधइ, न बंधिस्सइ ८) हे भदन्त ! उस ऐर्यापथिक कर्म
को पहिले किसी जीव ने क्या बांधा है ? वर्तमान में वही जीव उसे
क्या बांधता है ? भविष्यत् में वही जीव क्या उसे बांधेगा ? १, क्या
उसको किसी ने पूर्वकाल में बांधा है ? वर्तमान में वह उसको बांधता
है ? भविष्यत् में क्या वह उसको नहीं बांधेगा ? २, पूर्व में इसे किसी
जीव ने बांधा है, वर्तमान में वह जीव इसे बांधता नहीं है ? और आगे
वह जीव इसे बांधेगा नहीं ? ३, पूर्व में इसको किसी जीव ने बांधा
है ? वर्तमान में वही जीव इसको नहीं बांधता है, आगे वही जीव

नेधये. (जाव-अहवा इत्थीपच्छाकडा य, पुरिस्सपच्छाकडा य, नपुंसग-पच्छाकडा य
बंधंति) २६ भो लंग आ प्रमाणे अनशे अथवा स्त्री-पश्चात्कृत एवे,
पुरुष-पश्चात्कृत एवे अने नपुंसक-पश्चात्कृत एवे आ ऐर्यापथिक कर्म आधे
छे. अर्ही सुधीना २६ लंगो समज्जवा

(त भन्ते ! किं बंधी बंधइ, बंधिस्सइ १, बंधी बंधइ, न बंधिस्सइ २,
बंधी न बंधइ बंधिस्सइ ३, बंधी न बंधइ, न बंधिस्सइ ४, न बंधी बंधइ,
बंधिस्सइ ५, न बंधी न बंधइ, न बंधिस्सइ ६, न बंधी बंधइ, बंधिस्सइ ७, न
बंधी न बंधइ, न बंधिस्सइ ८) हे भदन्त ! आ ऐर्यापथिक कर्म शुं पढेतां
कोई एवे आध्यु छे, वर्तमानमां शुं ऐज एव ते कर्म आधे छे, भविष्यमां
शुं ऐज एव ते कर्म आधशे ? (१) शुं कोई एवे भूतकालमां ते आध्यु छे,
वर्तमानमां शुं ऐज एव ते कर्म आधे छे, भविष्यमां शुं ऐज एव ते
कर्म नही आधे ? (२) भूतकालमां कोई एवे ते कर्म आध्यु छे, वर्तमानमां
ते एव ते कर्म आधतो नथी, अने भविष्यमां ते एव तेने आंधशे ? (३)
भूतकालमां कोई एवे ते आध्यु छे, वर्तमानमां ऐज एव तेने आधतो नथी

વાન્ ન વધ્નાતિ, ન મન્ત્સ્યતિ ૪ ન વદ્વાન્ વધ્નાતિ મન્ત્સ્યતિ ૫ ન વદ્વાન્, વધ્નાતિ, ન મન્ત્સ્યતિ ૬, ન વદ્વાન્, ન વધ્નાતિ, મન્ત્સ્યતિ ૭ । ન વદ્વાન્, ન વધ્નાતિ, ન મન્ત્સ્યતિ ૮ ? ગૌતમ ! મવાકર્ષ પ્રતીત્ય અસ્ત્યેકકો વદ્વાન્ વધ્નાતિ, મન્ત્સ્યતિ, અસ્ત્યેકકો વદ્વાન્, વધ્નાતિ, ન મન્ત્સ્યતિ, एवं तदेव सर्वं

इसको नहीं बाधेगा ? ४, पूर्व में किसी जीव इसे नहीं बांधा है, वर्तमानमें वही जीव इसे बांधता है, भविष्यत् में वही जीव इसे बाधेगा ? ५, पूर्व में किसी जीव ने इसे नहीं बांधा, वर्तमान में वही जीव इसे बांधता है, भविष्यत् में वही जीव इसे नहीं बाधेगा ६, पूर्व में किसी जीव ने इसे नहीं बांधा, वर्तमान में वही जीव इसे नहीं बांधता है, भविष्यत् में वही जीव इसे बाधेगा ७, पूर्व में किसी जीव ने इसे नहीं बांधा, वर्तमान में भी वही जीव इसे नहीं बांधता है, भविष्यत् में भी वही जीव इसे नहीं बाधेगा ? ८ (गोपमा) हे गौतम ! 'मवागर्षिस्तु पशुश्च अत्येगहृष वधी, वषह, वधिस्तह, अत्येगहृष वधी वषह, न वधिस्तह, एव त येव सम्य जाव अत्येगहृष, न वधी, न वषह, न वधिस्तह' मवाकर्ष (भवगृहणा)को आश्रय करके किसी एक जीव ने उस ऐर्थापधिक कर्मको बांधा है, वही एक जीव उसे बांधता है और वही एक जीव उसे बाधेगा

अने भविष्यत् में जेव एव तेने बांधये नहीं ? (४) भूतकालमा कौं एवे शु ते बांध्यु नहीं वर्तमानमा जेव एव तेने बांधे छे अने भविष्यत् में जेव एव तेने बांधये ? (५) भूतकालमा शु कौं एवे ते बांध्यु नहीं, वर्तमानमा जेव एव तेने बांधे छे अने भविष्यत् में जेव एव तेने नहीं बांधे छे ? (६) भूतकालमा शु कौं एवे तेने बांध्यु नहीं वर्तमानमा पशु जेव एव तेने बांधने नहीं अने भविष्यत् में जेव एव तेने बांधये ? (७) भूतकालमा शु कौं एवे तेने बांध्यु नहीं, वर्तमानमा पशु जेव एव तेने बांधने नहीं अने भविष्यत् में पशु जेव एव तेने बांधये नहीं ? ८

(गोपमा !) हे गौतम ! (मवागर्षिस्तु पशुश्च अत्येगहृष वधी, वषह, वधिस्तह अत्येगहृष वधी, वषह, न वधिस्तह एव त येव सम्य जाव अत्येगहृष न वधी न वषह न वधिस्तह) मवाकर्षणी अपेक्षाजे (अनेक भवेत्तां उपशम मेट्ठी आदिनी प्राप्तिशी ऐर्थापधिक कर्म पुत्रगत्रोने भद्वज इत्या तेजु नाम मवाकर्ष छे) कौं जेव एवे ऐर्थापधिक कर्म बांध्यु रिये छे, जेव जेव एव तेने बांधे छे अने जेव जेव एव तेने बांधये कौं जेव एव

यावत्-अस्त्येकको न बद्धवान्, न बध्नाति, न भन्त्स्यति, ग्रहणाकर्षं प्रतीत्य अस्त्येकको बद्धवान्, बध्नाति, भन्त्स्यति, एवं यावत् अस्त्येकको न बद्धवान्, बध्नाति, भन्त्स्यति, नो चैव खलु न बद्धवान्, बध्नाति, न भन्त्स्यति, अस्त्येकको न बद्धवान्, न

किसी एक ने उसे पहिले बांधा है, वही एक उसे बांधता है, वही एक जीव उसे नहीं बांधेगा ' एवं तं चेव सव्वं ' इस तरह पूर्वोक्त सब कथन यहां ' जाव अत्थे गइए न बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ ' यावत् किसी एक ने पूर्व में इसे बांधा नहीं है, वर्तमान में वही एक जीव इसे बांधता नहीं है और भविष्यत् में वही एक जीव इसे बांधेगा नहीं " इस सूत्र पाठ तक जानना चाहिये । ' गहणागरिसं पडुच्च अत्थेगइए बंधी, बंधइ बंधिस्सइ-एवं जाव अत्थेगइए न बंधी, बंधइ बंधिस्सइ ' ग्रहणाकर्ष को आश्रित करके किसी एक जीव ने उस ऐर्यापथिक कर्म को पहिले बांधा है, वर्तमान में वही एक जीव इसे बांधता है, और आगे इसे वही एक जीव बांधेगा । इसी तरह से यावत् किसी एक जीव ने बांधा नहीं है, बांधता है, और बांधेगा यहां तक कथन पूर्वोक्त रूपसे जानना चाहिए । (णो चेव णं न बंधी, बंधइ, न बंधिस्सइ) यहां यह अंग- " बांधा नहीं है, बांधता है, बांधेगा नहीं " नहीं है । (अत्थेगइए न बंधी न बंधइ, न बंधिस्सइ) किसी एक जीवने पहिले इसे बांधा नहीं

पडेलां तेने भांध्यु छे, वर्तमानमां अेज्ज एव तेने भाधे छे अने अेज्ज अेक एव तेने भांधशे नडीं. (एवं त चेव सव्वं) आ प्रभाण्णु पूर्वोक्त समस्त कथन अडीं अडणु करवु अेट्ठे के " कोथ अेक एवे भूतकाणमां अैर्यापथिक कर्म भांध्यु नथी, वर्तमानमां अेज्ज एव तेने भाधते नथी अने भविष्यमां अेज्ज एव तेने भांधशे नडीं " आ सूत्रपाठ सुधीनु कथन अडीं अडणु करवु जेठअे. (गहणागरिसं पडुच्च अत्थेगइए बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ-एवं जाव अत्थेगइए न बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ) अडणुकर्षनी अपेक्षाअे (अेकज्ज भवनां अैर्यापथिक कर्मपुद्गलाने अडणु करवा तेनुं नाम अडणुकर्षं छे) कोथ अेक एवे ते अैर्यापथिक कर्म पडेलां भांध्यु डोय छे, वर्तमानमा अेज्ज अेक एव तेने भाधे छे अने भविष्यमां पणु अेज्ज अेक एव तेने भांधशे. अेज्ज प्रभाण्णु " कोथ अेक एवे तेने भांध्युं नथी, अेज्ज एव तेने भाधे छे अने भांधशे " अडीं सुधीनुं कथन आगणना कथन सुज्ज समज्जुं (णो चेव णं न बंधी बंधइ, न बंधिस्सइ) परन्तु अडीं आ अंग दाणु पडते नथी- " भांध्युं नथी भाधे छे, भांधशे नडीं " (आगेगण - - -)

बध्नाति, मन्त्सपति, अस्त्येकको न बद्धवान्, न बध्नाति, न मन्त्सपति, तद्
 मदन्त किं सादिकं सपर्यवसितं बध्नाति, सादिकम् अपर्यवसितं बध्नाति, अनादिकं
 सपर्यवसितं बध्नाति, अनादिकम् अपर्यवसितं बध्नाति ? गौतम ! सादिकं सपर्य
 वसितं बध्नाति, ना सादिकम् अपर्यवसितं बध्नाति । नो अनादिकं सपर्यवसितं
 बध्नाति, नो अनादिकम् अपर्यवसितं बध्नाति, तद् मदन्त । किं देशेन वेदी
 बध्नाति, देशेन सर्वं बध्नाति, सर्वेण देशे बध्नाति, सर्वेण सर्वं बध्नाति ? गौतम !

है, यही एक जीव इसे बांधता नहीं है, यही एक जीव इसे बांधेगा नहीं।
 (त मंते ! किं साह्यं सपञ्जवसियं बध्ना, साह्यं अपञ्जवसियं बध्ना,
 अणाह्यं सपञ्जवसियं बध्ना, अणाह्यं अपञ्जवसियं बध्ना ?) हे मदन्त !
 उस ऐर्थापधिक कर्मका पक्ष सादि सपर्यवसित होता है ? या सादि
 अपर्यवसित होता है ? या अनादि सपर्यवसित होता है ? या अनादि
 अपर्यवसित होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! 'साह्यं सपञ्जवसियं
 बध्ना, णो साह्यं अपञ्जवसियं बध्ना, णो अणाह्यं सपञ्जवसियं
 बध्ना णो अणाह्यं अपञ्जवसियं बध्ना' उस ऐर्थापधिक कर्म का पक्ष
 सादि सपर्यवसित होता है, सादि अपर्यवसित नहीं होता है, अनादि
 सपर्यवसित नहीं होता है और न अनादि अपर्यवसित होता है । 'त
 मंते ! किं देशेण वेदीं बध्ना, देशेण सर्वं बध्ना, सर्वेण वेदीं
 बध्ना, सर्वेण सर्वं बध्ना ?' हे मदन्त ! जीव जो उस ऐर्थापधिक कर्म
 का पक्ष करता है सो क्या वह देश से देशका पक्ष करता है ? या देश

को लवे पकेता ते और्थापधिकं कर्मं व्याप्नु नथी, कोल कोल लव पर्वमानम
 तेने व्यापते नथी अने कोल कोल लव अविश्रमा तेने व्यापते नथी
 (त मते ! किं साह्यं सपञ्जवसियं बध्ना, साह्यं अपञ्जवसियं बध्ना अणा
 ह्यं सपञ्जवसियं बध्ना अणाह्यं अपञ्जवसियं बध्ना ?) हे मदन्त ! ते और्था
 पधिकं कर्मनो लभे सादि सपर्यवसितं होय छे ? हे सादि अपर्यवसितं होय
 छे ? हे अनादि सपर्यवसितं होय छे ? हे अनादि अपर्यवसितं होय छे ?
 (गोयमा) हे गौतम ! (साह्यं सपञ्जवसियं बध्ना णो साह्यं अपञ्ज
 वसियं बध्ना णो अणाह्यं सपञ्जवसियं बध्ना णो अणाह्यं अपञ्जवसियं
 बध्ना) अथ और्थापधिकं कर्मनो लभे सादि सपर्यवसितं होय छे, सादि सपर्य
 वसितं होय नथी, अनादि सपर्यवसितं होय नथी अने अनादि अपर्य
 वसितं पण्यं होय नथी।

(त मते ! किं देशेण वेदीं बध्ना, देशेण सर्वं बध्ना, सर्वेण वेदीं बध्ना
 सर्वेण सर्वं बध्ना ?) मदन्त ! लव ने आ और्थापधिकं कर्मनो लभे करे
 छे, ते तु देशेण वेदीं बध्ना, देशेण सर्वं बध्ना, सर्वेण वेदीं बध्ना, सर्वेण
 सर्वं बध्ना छे ? हे देशेण वेदीं बध्ना, देशेण सर्वं बध्ना, सर्वेण वेदीं बध्ना, सर्वेण
 सर्वं बध्ना छे ?

नो देशेन देशं बध्नाति, नो देशेन सर्वं बध्नाति नो सर्वेण देशं बध्नाति, सर्वेण सर्वं बध्नाति, ॥ सू० ३ ॥

टीका—‘ कइविहेणं भंते ! बंधे पणत्ते ? ’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! पतिविधं खलु बन्धः प्रज्ञप्तः ? बन्धश्च द्रव्यतोनिगडशृङ्खलादिवन्धो, भावतः कर्मबन्धः, अत्र च प्रकरणात् भावतः कर्मबन्धाधिकारः, भगवानाह—‘ गोयमा ! दुविहे-

से सर्वका बंध करता है ? या सर्व से देश का बंध करता है ? या सर्व से सर्व का बंध करता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जो देसेणं देसं बंधइ, जो देसेणं सव्वं बंधइ, जो सव्वेणं देसं बंधइ सव्वेणं सव्वं बंधइ) जीव देश से देश का बंध नहीं करता है, न देश से सर्व का बंध करता है, न सर्वसे देशका बंध करता है किन्तु सर्वसे सर्वका बंध करता है ।

टीकार्थ—आराधक जीव अशुभ कर्म का क्षय करता है और शुभ कर्मका बंध करता है—इस प्रकार के बंधके विषयसे सूत्रकार इस बंध का प्ररूपण करते हैं—इसमें गौतमस्वामी ने प्रभुसे ऐसा पूछा है—‘ कइ विहेणं भंते ! बंधे पणत्ते ’ हे भदन्त ! बंध कितने प्रकार का कहा गया है ? द्रव्यबंध और भावबंध के भेद से बंध दो प्रकारका कहा गया है निगड आदि से जो बांधना होता है वह द्रव्यबंध है और रागादिसे जो कर्मोंका बंध होता है वह भावबंध है । सो यहां-पर गौतमका ऐसा यह प्रश्न भावबन्ध को लेकर हुआ है—क्यों कि प्रकरणवश भावबन्ध का

सर्वथी देशेनो अंध करे छे ? के सर्वथी सर्वेणो अंध करे छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जो देसेणं देसं बंधइ, जो देसेणं सव्वं बंधइ, जो सव्वेणं देसं बंधइ, सव्वेणं सव्वं बंधइ) एव देशथी देशेनो अंध करतो नथी, देशथी सर्वेणो अंध पणु करतो नथी, सर्वथी देशेनो अंध पणु करतो नथी, परन्तु सर्वथी सर्वेणो अंध करे छे.

टीकार्थ—आराधक एव अशुभ कर्मने क्षय करे छे अने शुभ कर्मने अंध करे छे आ सअंधने अनुलक्षीने सूत्रकारे अर्ही अंधना विषे प्रइपणु करी छे. आ विषयने अनुलक्षीने गौतम स्वामी महावीर प्रभुने पूछे छे के— (कइविहेणं भंते ! बंधे पणत्ते ?) हे भदन्त ! अंध केटला प्रकारना कइया छे ? (द्रव्यअंध अने लावअंधनी अपेक्षाये अंध जे प्रकारना कइया छे. निगड (जेडी) आदि वडे जे अंध आंधवामा आवे छे तेने द्रव्यअंध कइ छे रागादिथी कर्मने जे अंध अंधाय छे तेने लावअंध कइ छे. अर्ही गौतम स्वामीजे लावअंधनी अपेक्षाये उपरने प्रश्न पूछये छे जेम समजवुं, धारणु के आ प्रकरणमां लावअंधने अधिकार जे आदी रह्यो छे.)

बध्नाति, मन्त्स्यति, अस्त्येकको न बद्धवान्, न बध्नाति, न मन्त्स्यति, उद्
 मदन्त किं सादिकं सपर्यवसित बध्नाति, सादिकम् अपर्यवसित बध्नाति, अनादिक
 सपर्यवसित बध्नाति, अनादिकम् अपर्यवसित बध्नाति ? गौतम ! सादिकं सपर्य
 वसितं बध्नाति, ना सादिकम् अपर्यवसितं बध्नाति । नो अनादिकं सपर्यवसित
 बध्नाति, नो अनादिकम् अपर्यवसित बध्नाति, उद् मदन्त । किं देशेन देशं
 बध्नाति, देशेने सर्वं बध्नाति, सर्वेण दर्शं बध्नाति, सर्वेण सर्वं बध्नाति ? गौतम !

हे, वही एक जीव इसे बांधता नहीं है, वही एक जीव इसे बांधेगा नहीं।
 (त भंते ! किं साह्यं सपञ्चवसिय वधइ, साह्यं अपञ्जवसिय वधइ,
 अणाह्यं सपञ्चवसियं वधइ, अणाह्यं अपञ्जवसियं वधइ ?) हे मदन्त !
 उस ऐयापधिक कर्मका वध सादि सपर्यवसित होता है ? या सादि
 अपर्यवसित होता है ? या अनादि सपर्यवसित होता है ? या अनादि
 अपर्यवसित होता है ? (गोपमा) हे गौतम ! ' साह्यं सपञ्जवसियं
 वधइ, गो साह्यं अपञ्जवसियं वधइ, गो अणाह्यं सपञ्जवसियं
 वधइ गो अणाह्यं अपञ्जवसियं वधइ ' उस ऐयापधिक कर्म का वध
 सादि सपर्यवसित होता है, सादि अपर्यवसित नहीं होता है, अनादि
 सपर्यवसित नहीं होता है और न अनादि अपर्यवसित होता है । ' तं
 भंते ! किं देशेण देसं वधइ, देशेणं सर्वं वधइ, सर्वेणं देसं
 वधइ, सर्वेणं सर्वं वधइ !) हे मदन्त ! जीव जो उस ऐयापधिक कर्म
 का वध करता है सो क्या वह देश से देशका वध करता है ? या देश

जेक एवे पडेवा ते ऐयापधिकं ठमं आंध्यु नधी जेज जेक एव वतमानमां
 तेने आंधते। नधी जने जेज जेक एव आविधमा तेने आंधरे नधी
 (त भते ! किं साह्यं सपञ्चवसियं वधइ साह्यं अपञ्जवसियं वधइ अणा
 ह्यं सपञ्चवसियं वधइ अणाह्यं अपञ्जवसियं वधइ ?) हे मदन्त ! ते ऐया
 पधिकं ठमंनो अथ सादि सपर्यवसितं होय छे ? हे सादि अपर्यवसितं होय
 छे ? हे अनादि सपर्यवसितं होय छे ? हे अनादि अपर्यवसितं होय छे ?
 (गोपमा !) हे गौतम ! (साह्यं सपञ्जवसियं वधइ, गो साह्यं अपञ्ज
 वसियं वधइ गो अणाह्यं सपञ्जवसियं वधइ गो अणाह्यं अपञ्जवसियं
 वधइ) आ ऐयापधिकं ठमंनो अथ सादि सपर्यवसितं होय छे सादि अपर्य
 वसितं होतो नधी अनादि सपर्यवसितं होतो नधी जने अनादि अपर्य
 वसितं पड्यु होतो नधी।

(त भते ! किं देशेण देसं वधइ देशेणं सर्वं वधइ सर्वेणं देसं वधइ,
 सर्वेणं सर्वं वधइ !) मदन्त ! एव जे आ ऐयापधिकं ठमंनो अथ करे
 छे, ते शु देशी देशेनो अथ करे छे ? हे देशी सर्वेनो अथ करे छे ? हे

नो देशेन देशं बध्नाति, नो देशेन सर्वं बध्नाति नो सर्वेण देशं बध्नाति, सर्वेण सर्वं बध्नाति, ॥ सू० ३ ॥

टीका—‘कइविहेणं भंते ! वंघे पणत्ते ?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! षतिविधः खलु बन्धः प्रज्ञप्तः ? बन्धश्च द्रव्यतोनिगडशृङ्खलादिवन्धो, भावतः कर्मबन्धः, अत्र च प्ररुणात् भावतः कर्मबन्धाधिकारः, भगवानाह—‘गोयमा ! दुविहे-

से सर्वका बंध करता है ? या सर्व से देश का बंध करता है ? या सर्व से सर्व का बंध करता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जो देसेणं देसं बंधइ, जो देसेणं सव्वं बंधइ, जो सव्वेणं देसं बंधइ सव्वेणं सव्वं बंधइ) जीव देश से देश का बंध नहीं करता है, न देश से सर्व का बंध करता है, न सर्वसे देशका बंध करता है किन्तु सर्वसे सर्वका बंध करता है ।

टीकार्थ—आराधक जीव अशुभ कर्म का क्षय करता है और शुभ कर्मका बंध करता है—इस प्रकार के बंधके विषयसे सूत्रकार इस बंध का प्ररूपण करते हैं—इसमें गौतमस्वामी ने प्रभुसे ऐसा पूछा है—‘कइ विहेणं भंते ! वंघे पणत्ते ?’ हे भदन्त ! बंध कितने प्रकार का कहा गया है ? द्रव्यबंध और भावबंध के भेद से बंध दो प्रकारका कहा गया है निगड आदि से जो बांधना होता है वह द्रव्यबंध है और रागादिसे जो कर्मोंका बंध होता है वह भावबंध है । सो यहांपर गौतमका ऐसा यह प्रश्न भावबन्ध को लेकर हुआ है—क्यों कि प्रकरणवश भावबन्ध का

सर्वथी देशेनो भंध करे छे ? के सर्वथी सर्वेनो भंध करे छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जो देसेणं देसं बंधइ, जो देसेणं सव्वं बंधइ, जो सव्वेणं देसं बंधइ, सव्वेणं सव्वं बंधइ) एव देशथी देशेनो भंध करतो नथी, देशथी सर्वेनो भंध पणु करतो नथी, सर्वथी देशेनो भंध पणु करतो नथी, परन्तु सर्वथी सर्वेनो भंध करे छे

टीकार्थ—आराधक एव अशुभ कर्मने क्षय करे छे अने शुभ कर्मने भंध करे छे आ सभधने अनुलक्षीने सूत्रकारे अही भंधना विषे प्ररूपणा करी छे. आ विषयने अनुलक्षीने गौतम स्वामी भडावीर प्रभुने पूछे छे के— (कइविहेणं भंते ! वंघे पणत्ते ?) हे भदन्त ! भंध केटला प्रकारना कइया छे ? (द्रव्यभंध अने लावभंधनी अपेक्षाअे भंध जे प्रकारना कइया छे. निगड (जेडी) आदि वडे जे भंध भांधवामा आवे छे तेने द्रव्यभंध कइ छे रागादिथी कर्मोना जे भंध भांधाय छे तेने लावभंध कइ छे. अही गौतम स्वामीअे लावभंधनी अपेक्षाअे उपरने प्रश्न पूछथे छे अेम समजवुं, कारणु के आ प्रकरणमां लावभंधने अधिकार न आवी रह्यो छे)

बंधे पणमचे, सं जहा-ईरियावहियावधे य सपराइयवधे य' हे गौतम । द्विविधः कर्मवन्ध प्रज्ञप्त, सपया-ऐयापधिकवध, सांपरायिकवध, तन-ईर्याम्-ईर्या-गमनं तद्विशिष्टः तत्प्रधानो वा पन्याः ईर्यापयः, तत्र भवः ऐर्यापयिक न्युत्त्वितिमात्रमिदम् प्रवृत्तिनिमित्तं यः केवलयोगप्रत्ययः उपशान्तमोहादिप्रयस्य धाव वेदनीयकर्मवधः स ऐर्यापयिकवधः । स चैकस्य वेदनीयस्य भवति । सपरैति ससारं पर्यटति पभिरिति सपराया कपायास्तपु भव सांपरायिक कर्म तस्य चो

अधिकार चल रहा है । इसक उत्तरमें प्रभु कहते हैं- 'गोयमा' हे गौतम । (दुबिहे बंधे पण्णत्ते) वध दो प्रकार का कहा गया है- 'त जहा' जो इस प्रकार से है- 'ईरियावहियबंधे य, संपराइयबंधे य' एक ऐर्यापयिक बंध और हमरा सांपरायिक वध 'ईर्या नाम गमन का है-इससे युक्त जगवा इस प्रधान वाला जो पय रास्ता है वह ईर्यापय है-इस ईर्यापय में जो बंध होता है वह ऐर्यापयिक वध है । सो ऐमी जो यह ऐर्यापयिक की न्युत्त्विति है वह केवल न्युत्त्वितिमात्र ही है-ऐयापयिक की प्रवृत्ति का निमित्त तो एमा ही है कि जो वध केवल योगनिमित्तक होता है वह ऐर्यापयिक वध है । यह वध सात्तावेदनीय कर्मवध धरत होता है । ओर यह ११ वें १२ वें एवं १३ वें गुणस्थान में होता है । क्यों कि इन गुणस्थानों में एक वेदनीय कर्म का ही वध होता है । जिनके द्वारा जीव ससार में भ्रमण करता है-उनका नाम सपराय है-ऐसे ये संपराय कपाये हैं । इन कपायों के सङ्घाय में जो कर्म होता है वह सांपरायिक

भगवतीर प्रभुने उत्तर—(गोयमा । दुबिहे बंधे पण्णत्ते-त जहा) हे गौतम । जगना नीधि प्रभावे ये प्रकार कथा छे—(ईरियावहिय वधेय, सपराइयवधेय) ऐर्यापयिक वध जने (२) सांपरायिक वध.

धर्मा' जेठे जगन तेनाथी मुक्त के भाज तेने धर्मापय कहे छे ते धर्मापयभा के वध थाय छे तेनुं नाम ऐर्यापयिक वध छे आ ते भाज धर्मापयनी युत्पत्ति न छे पय जही तेना आ प्रभावे जव जगजवे— ' ऐर्यापयिक प्रवृत्ति योज निमित्त न थाय छे तेषी योजनिमित्तक के वध डाय छे तेने ऐर्यापयिक वध कहे छे आ वध सात्तावेदनीय कर्मवध रूप डाय छे जने ते ११ भां, १२ भां जने १३ भां सुखस्थानभां थाय छे जस्य के ते सुखस्थानोभां जेठ वेदनीय कर्मो न वध डाय छे जेना जारा एव ससारभां जगज करे छे तेनुं नाम सपराय छे कपाये जेवां संपराय रूप डाय छे ते कपायोना सङ्घाय डाय त्थारे के कर्म जगज छे तेनुं नाम

बन्धः स सांपरायिकबन्धः कषायप्रत्ययः, स च अवीतरागगुणस्थानकेषु सर्वेषु भवति । गौतमः पृच्छति—‘ ईरियाबहिय णं भंते । कम्मं किं नेरइओ वंधइ ? ’ हे भदन्त । ऐर्यापथिकं खलु कर्म किं नैरयिको बध्नाति ? ‘ तिरिक्खजोणिओ वंधइ ’ किं वा तिर्यग्योनिको बध्नाति ? ‘ तिरिक्खजोणिणी वंधइ ? ’ तिर्यग्योनिकी तिरश्ची बध्नाति ? ‘ मणुस्सो वंधइ, मणुस्सी वंधइ ’ किं वा मनुष्यो बध्नाति ? किं वा मानुषी बध्नाति ? ‘ देवो वंधइ ’ किं वा देवो बध्नाति किं देवी बध्नाति ? भगवानाह—‘ गोयमा । नो नेरइओ वंधइ, नो तिरिक्खजोणिओ वंधइ ’ हे गौतम ! ऐर्यापथिक कर्म नो नैरयिको बध्नाति, नो वा तिर्यग्योनिको बध्नाति, ‘ नो तिरिक्खजोणिणी वंधइ ’ नो वा तिर्यग्योनिकी बध्नाति, ‘ णो देवो वंधइ णो देवी वंधइ ’ नो

कर्म है । इल्ल कर्म का जो बध है वह सांपरायिक बन्ध है । यह सांपरायिक बन्ध कषाय कारणक माना गया है यह बध समस्त अवीतराग गुणस्थानवाले जीवों में होता माना गया है । अब गौतम प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—‘ ईरियाबहिय णं भंते । कम्मं किं नेरइओ वंधइ ’ हे भदन्त ! ऐर्यापथिक कर्म को क्या नैरयिक जीव बाधता है ? ‘ तिरिक्खजोणिओ वंधइ ’ या तिर्यग्योनिक जीव बाधता है ? या ‘ तिरिक्खजोणिणी वंधइ ’ तिर्यच्योनिक-तिरश्ची बाधती है ? ‘ मणुस्सो वंधइ ’ या मनुष्य बाधता है ? ‘ मणुस्सी वंधइ ’ या मनुष्य स्त्री बाधती है ? ‘ देवो वंधइ ’ या देव बाधता है ? या ‘ देवी वंधइ ’ देवी बाधती है ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं—‘ गोयमा ’ हे गौतम ! (नो नेरइओ वंधइ, नो तिरिक्खजोणिओ वंधइ) हम ऐर्यापथिक कर्म को न नैरयिक बाधता है, न

सांपरायिक कर्म छे ते कर्मना अंधने सांपरायिक अंध कडे छे. आ सांपरायिक अंधनुं कारण उपायेने मानवामा आवे छे अने समस्त अवीतराग गुणस्थानवाणा एवामा आ अंधने सदृभाव मानवामा आवे छे

गौतम स्वामीने प्रश्न—(ईरियाबहिय णं भंते । कम्म किं नेरइओ वंधइ ?) हे भदन्त ! शु नारक एव ऐर्यापथिक कर्म आधे छे ? (तिरिक्खजोणिओ वंधइ) ते तिर्यच्येनीवाणो एव आधे छे ? (तिरिक्खजोणिणी वंधइ) के तिर्यच्येनिक स्त्री (तिर्यशिष्णी) आधे छे ? (मणुस्सो वंधइ) के मनुष्य आधे छे ? (मणुस्सी वंधइ) के मनुष्य स्त्री आधे छे ? (देवो वंधइ) के देव आधे छे ? ‘ देवी वंधइ ’ के देवी आधे छे ?

महावीर प्रश्नो उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (नो नेरइओ वंधइ, नोतिरिक्खजोणिओ वंधइ, नोतिरिक्खजोणिणी वंधइ) आ ऐर्यापथिक

वा दसो बध्नाति, नैत्र वा देवी बध्नाति, अपितु 'पुरुषपट्टिबन्धन पट्टुच मणुस्ता यः मणुस्तीओ य बधति' पूर्वप्रतिपन्नान् मनीत्य आश्रित्य ऐर्यापथिक कर्म मनुष्याम् मानुष्यश्च बध्न्ति, त्रयमाश्रय -पूर्व प्राक्काळे प्रतिपन्नमैर्यापथिककर्मबन्धकत्व यैस्त्वे पूर्वप्रतिपन्नका से च ऐर्यापथिककर्मबन्धस्य द्वितीय तृतीय वादिसमयवर्तिना भवन्ति, तादृशाश्च कतिपये पुरुषाः स्त्रियश्च सन्ति, उभयप्रकारकाः फेबलिन सर्वदा भवन्ति, ऐर्यापथिककर्मबधकाश्च वीतरागो-प्रधान्यमोह-क्षीणमोह-सयोगिकवन्निरुणगण स्थानवर्तिनो मनुष्या भवन्ति, तथा च मनुष्यस्यैव ऐर्यापथिककर्मबन्धो भवति नेत्ररेपामित्यमिप्रायणैवाह- 'मणुस्ता य, मणुस्तीओ य' इति ।

तिर्य्यच्योमिक जीव बाधता है, ' जो तिरिक्यन्जोणिणी य बध' न तिर्य्यञ्च स्त्री बाधती है, ' जो देवो य बध' न देव बाधता है, ' जो देवी य बध' न देव स्त्री बाधती है अपि तु ' पुरुषपट्टिबन्धन पट्टुच मणुस्ता य मणुस्तीओ य बध' पूर्वप्रतिपन्नको को आश्रित करके ऐर्यापथिक कर्म को मनुष्य और मनुष्यस्त्रिया बाधती हैं । इसका तात्पर्य पेटा है । जिन्होंने पहिले ऐर्यापथिक कर्म का बांध किया होता है वे पूर्वप्रतिपन्नक कहलाते हैं ऐसे वे जीव ऐर्यापथिक कर्म बन्ध के द्वितीय तृतीय आदि समयवर्ती होते हैं । ऐसे अनेक मनुष्य और अनेक स्त्रियां होती हैं । क्यों कि दोनों प्रकार के केबली हमेशा होते हैं । ऐर्यापथिक कर्म के बाधक वीतराग उपशान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगकेबली इन गुणस्थानों में रहने वाले जीव होते हैं । तथा च-मनुष्य को ही ऐर्यापथिक

कर्म नाशक एवं बाधता नहीं तिर्य्यञ्च योमिक एवं पशु बाधता नहीं, तिर्य्यञ्च योमिक स्त्री पशु बाधती नहीं (जो देवो य बध जो देवी य बध) देव पशु बाधता नहीं अने देवी पशु बाधती नहीं. पशु (पुरुषपट्टिबन्धन पट्टुच मणुस्ता य मणुस्तीओ य बध) पूर्वप्रतिपन्नकी अपेक्षासे मनुष्य अने मनुष्य स्त्रीको ऐर्यापथिक कर्मना बाध बाधते है तेत तात्पर्य नीचे प्रमाणे है- अनेके पट्टेका ऐर्यापथिक कर्मना बाध करी केबल है तेमने पूर्वप्रतिपन्नक कहे है अने ते एवं ऐर्यापथिक कर्मबधना द्वितीय, तृतीय आदि समयवर्ती होय है-अनेके अनेके मनुष्यो अने अनेके स्त्रियां होय है कारण है अने प्रकारना केबली हमेशा होय है ऐर्यापथिक कर्मना बाधक वीतराग उपशान्त मोह, क्षीण मोह अने सयोग केबली जे लक्षणस्थानोनां रहेताय एवं होय है मनुष्य एवं ऐर्यापथिक कर्मना बाध करे है अने एवं एवं ते कर्मना बाध करता नहीं, जे अविश्रयनी अपेक्षासे लक्षणारे कर्तु है- (मणुस्ता य

अथ प्रतिपद्यमानकापेक्षयाऽऽह—‘पड्विज्जमाणए पडुच्च मणुस्सो वा बंधइ?’ प्रतिपद्यमानकान् प्रतीत्य आश्रित्य तु ऐर्यापथिक कर्म मनुष्यो वा बध्नाति?, अयमाशयः—ऐर्यापथिककर्मबन्धस्य प्रथमसमयवर्तिनः केवल्योत्पत्तौ प्रथमसमय इत्यर्थः मनुष्याः प्रतिपद्यमानका उच्यन्ते, एषां च विरहसंभवात् एकदा मनुष्यश्च मनुष्याश्चैकैकयोगे एकत्व—बहुत्वाभ्यां चत्वारो विकल्पाः, तथा द्विकसंयोगेऽपि चत्वारो विकल्पाः, एवंरीत्या सर्वे अष्टौ विकल्पा भवन्ति, इत्यभिप्रायेणाह—‘मणुस्सो वा’ इत्यादि । अथ एकैकसंयोगे द्वितीयादिविकल्पानाह—‘मणुस्सी वा बंधइ २’ प्रति-

कर्म का बंध होता है दूसरों को नहीं होता है, इसी अभिप्राय को लेकर सूत्रकार ने ‘मणुस्सा य मणुस्सीओ य’ ऐसा कहा है ।

अब सूत्रकार प्रतिपद्यमानक जीवोंकी अपेक्षासे ऐसा कहते हैं—‘पड्विज्जमाणए पडुच्च मणुस्सो वा बंधइ’ कि प्रतिपद्यमानक जीवोंको आश्रित करके तो ऐर्यापथिक कर्म का बंध मनुष्य करता है, इसका आशय ऐसा है—ऐर्यापथिक कर्म बंध के प्रथम समय में जो वर्तमान हों—अर्थात् वीतराग अवस्था की प्राप्ति के प्रथम समय में जो मौजूद हों—ऐसे मनुष्य प्रतिपद्यमानक कहलाते हैं इनका विरह संभवित होने से एक समय में एक मनुष्य और अनेक मनुष्य इनके एक एक के योग में एकत्व और बहुत्व को लेकर चार विकल्प होते हैं । तथा द्विक संयोग में भी चार विकल्प होते हैं । इस रीति से सब आठ विकल्प होते हैं । इसी अभिप्राय को लेकर सूत्रकार ने ऐसा कहा है ‘मणुस्सो वा’ इत्यादि । अब एक एक के संयोग में अन्य द्वितीयादि विकल्पों को सूत्रकार कहते हैं—‘मणुस्सी वा बंधइ’ २ प्रतिपद्यमानक की अपेक्षा मनुष्यस्त्री ऐर्या-

मणुस्सीओ य) “ मनुष्यो अने मनुष्य स्त्रीओ न ऐर्यापथिक कर्म पाधे छे. ”

इसे सूत्रकार प्रतिपद्यमानकी अपेक्षासे नीचे प्रमाणे कहे छे—(पड्विज्जमाणए पडुच्च मणुस्सो वा बंधइ) (१) प्रतिपद्यमान लोवानी अपेक्षासे ऐर्यापथिक कर्मनो बंध मनुष्य करे छे ऐर्यापथिक कर्मबधना प्रथम समयमां नो वर्तमान (मोणुद) डोय—अएदो के वीतराग अवस्थानी प्राप्तिना प्रथम समयमां नो मोणुद डोय—अएवा मनुष्यने प्रतिपद्यमानक कहे छे तेमनो विरह संभवित डोवार्थी अक समयमां अक मनुष्य अने अनेक मनुष्यना अक अकना योगमां अकत्व अने बहुत्वनी अपेक्षासे चार विकल्प अने छे तथा द्विक संयोगथी यणु चार विकल्प अने छे आ रीते कुल आठ विकल्प नीचे प्रमाणे अने छे—(१) प्रतिपद्यमानकी अपेक्षासे मनुष्य (अक वचनमा) ऐर्यापथिक कर्मनो बंध करे छे. (२) “ मणुस्सी वा बंधइ ” प्रतिपद्यमानकी अपेक्षासे

पद्यमानकापेक्षया मानुषी वा ऐर्षापथिक कर्म बध्नाति २ 'मणुस्सा वा बधति १' मनुष्या वा बध्नाति ३, 'मणुस्सीओ वा बधति ४' मानुष्य -मनुष्यस्त्रियो वा बध्नाति, अथ द्विकल्पयोगेन चतुरो पिकल्पानाह-अहवा मणुस्तो य मणुस्ती य षघइ ५, 'अथवा मनुष्यम मानुषी च बध्नाति ५, 'अहवा मणुस्तो य मणुस्सीओ य बधति ६' अथवा मनुष्यम मानुष्य मनुष्यस्त्रियम बध्नाति ६ 'अहवा मणुस्ताय मणुस्तोय बधति ७' अथवा मनुष्याम मानुषी च बध्नाति ७, 'अहवा माणुस्ता य मणुस्सीओ य बधति ८' अथवा मनुष्याम मानुष्य -मनुष्यस्त्रियम ऐर्षापथिक कर्म बध्नाति ८ एतेषां च पुंस्त्व-

पथिक कर्म का षघ करती है २ 'मणुस्सा वा बधति १' अनेक मनुष्य ऐर्षापथिक कर्म का षघ करते हैं ३, 'मणुस्सीओ वा ४' अथवा अनेक मनुष्यस्त्रियां ऐर्षापथिक कर्म का षघ करती हैं ४। इस तरह से " एक मनुष्य और अनेक मनुष्य, एक मनुष्य स्त्री और अनेक मनुष्य स्त्रियां प्रतिपद्यमान की अपेक्षा ऐर्षापथिक कर्म का षघ करती है " ये चार विकल्प एक एक के एकत्व और बहुत्व को लेकर कहे गये हैं। अथ द्विक के योग में जो चार विकल्प होते हैं वे इस प्रकार से हैं- 'अहवा मणुस्तो य मणुस्ती य षघइ' एक मनुष्य एक मनुष्यस्त्री ऐर्षापथिक कर्म का षघ करती है १, 'अहवा मणुस्तो य मणुस्सीओ य बधति' अथवा एक मनुष्य और अनेक मनुष्यस्त्रिया ऐर्षापथिक कर्म का षघ करती हैं २ 'अहवा मणुस्ता य मणुस्ती य बधति ३' अथवा-अनेक मनुष्य और एक मनुष्यस्त्री ऐर्षापथिक कर्म का षघ करती है ३। 'अहवा-मणुस्ता य,

जेक मनुष्य आ ऐर्षापथिक कर्मना षघ करे छे (३) 'मणुस्सा वा बधति' अनेक मनुष्यो ऐर्षापथिक कर्मना षघ करे छे (४) 'मणुस्सीओ वा' अथवा अनेक मनुष्य स्त्रीओ ऐर्षापथिक कर्मना षघ करे छे जेह प्रमाणे जेक मनुष्य अने अनेक मनुष्यो, जेक मनुष्य अने अनेक मनुष्य स्त्रीओ प्रति पद्यमाननी अपेक्षाजे ऐर्षापथिक कर्मना षघ करे छे आ चार विकल्प जेक जेकना जेकत्व अने बहुत्वनी दृष्टिके कहेवाभा आन्य छे हवे द्विकल्प भेजणी ले चार विकल्पो अने छे ते नीके प्रमाणे समजवा- अहवा मणुस्तो य मणुस्ती य षघइ अथवा जेक मनुष्य अने जेक मनुष्य स्त्री ऐर्षापथिक कर्मना षघ करे छे (२) "अहवा मणुस्तो य मणुस्सीओ य बधति" अथवा जेक मनुष्य अने अनेक मनुष्य स्त्रीओ ऐर्षापथिक कर्मना षघ करे छे (३) अहवा मणुस्ता य मणुस्ती य बधति" अथवा अनेक मनुष्य अने जेक स्त्री ऐर्षापथिक कर्मना षघ करे छे

स्त्रीत्वे तत्तल्लिङ्गापेक्षया विज्ञेये, नतु वेदापेक्षया, तेषां क्षीणोपशान्तवेदत्वात्,

अष्टभङ्ग-ज्ञानाय स्थापनायन्त्रम् ।	
एकसंयोगिनश्चत्वारो भङ्गाः ४ (एकवचनबहुवचनाभ्याम्)	
पुरुषः १	स्त्री २
पुरुषाः ३	स्त्रियः ४
द्विकसंयोगिनश्चत्वारो भङ्गाः ४	
पुरुषः, स्त्री १	पुरुषाः, स्त्री २
पुरुषाः, स्त्रियः ३	पुरुषाः, स्त्रियः ४
एवमेतेऽष्टौ भङ्गाः ८	

अथ वेदापेक्षया स्त्रीत्व-पुंस्त्व-नपुंसकत्वमधिकृत्याह-‘तं भंते’ इत्यादि । ‘तं भंते ! किं इत्थी बंधइ, पुरिसो बंधइ, नपुंसगो बंधइ ?’ गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! तद् ऐर्यापथिकं कर्म-किं स्त्री बध्नाति, पुरुषो बध्नाति, नपुंसको वा बध्नाति ? ‘इत्थीओ बंधंति, पुरिसा बंधंति, नपुंसगा बंधंति ?’ किं वा स्त्रियः ऐर्यापथिकं कर्म बध्नन्ति,

मणुस्सीओ य बंधंति ४’ अथवा-अनेक मनुष्य और अनेक मनुष्य-स्त्रियां ऐर्यापथिक कर्म का बंध करती हैं ४ । इनमें पुल्लिङ्गता और स्त्रीलिङ्गता अपने २ लिङ्गों की अपेक्षासे जाननी चाहिये-वेद की अपेक्षा से नहीं । क्यों कि ये क्षीण और उपशान्त वेद वाले होते हैं । अब वेद की अपेक्षा से गौतम प्रश्न से ऐर्यापथिक कर्म के बंध के विषय में ऐसा पूछते हैं-‘ तं भंते ! किं इत्थी बंधइ, पुरिसो बंधइ, नपुंसगो बंधइ, हे भदन्त ! उस ऐर्यापथिक कर्म को क्या स्त्री बांधती है ? या पुरुष बांधता है ? या नपुंसक बांधता है ?’ इत्थीओ बंधंति, पुरिसा बंधंति, नपुंसगा

(४) (अहवा-मणुस्सा य मणुस्सीओ य बंधंति) अथवा अनेक मनुष्यो अने अनेक मनुष्य स्त्रीओ ऐर्यापथिक कर्मना अध करे छे तेमनामां पुद्विगता अने स्त्रीविगता पोतपोताना दिगोनी अपेक्षाओ समन्वी जेधओ, वेदनी अपेक्षाओ समन्वी नहीं कारण के तेओ क्षीण अने उपशान्तवेदवाणा होय छे । हवे गौतमस्वामी वेदनी अपेक्षाओ ऐर्यापथिक कर्मना अध विषे आ प्रभाओ पूछे छे-(त भंते ! किं इत्थी बंधइ, पुरिसो बंधइ, नपुंसगो बंधइ) हे भदन्त ! शु’ स्त्री ऐर्यापथिक कर्म पाधे छे ? के पुरुष पाधे छे ? के नपुंसक पाधे छे ? (इत्थीओ बंधंति, पुरिसा बंधंति नपुंसगा बंधंति) आवा शु’ ऐर्या-

पुरुषाः वा घञन्ति, नपुसका वा घञन्ति? किं वा ' नो इत्थी नो पुरिसो नो नपुंसो नो वंघइ ? ' नो स्त्री नो पुरुषो नो नपुंसको घञ्जाति? तथा घ आदिभि पट्पदै सवेदकानां कर्मबन्धविषयकः प्रश्न, ' नो स्त्री ' -इत्यादि सप्तमपदेन अवेदकस्य कर्मबन्धविषयकः प्रश्ना, तदनुसारेणैव आदीनां पण्णां वेदकत्रियकपदानां निषेधात्मकमुत्तरम् सप्तमपदोक्तन्यपगत वेदविषयक स्वीकारात्मकमुत्तरमित्याह- 'गोयमा। नो इत्थी वंघइ, नो पुरिसो वंघइ, नाव नो नपुंसगा वधति ' हे गौतम ! ऐर्यापथिकं कर्म नो स्त्री स्त्रीस्ववेदको घञ्जाति, नो पुरुष पुस्त्ववेदको घञ्जाति, यावत् नो नपुंसकः-नपुंसकस्ववेदको घञ्जाति, नो वा स्त्रियः स्त्रीत्ववेदाः घञन्ति, नो पुरुषा पुस्त्ववेदा

वधति ' किं वा स्त्रियां वधती हैं, पुरुष वधते हैं, या नपुंसक वधते हैं ? अथवा ' नो इत्थी नो पुरिसो नो नपुंसो वधइ ' नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक अर्थात् सिद्ध वधता है क्या ? यहाँ वेद की अपेक्षा लेकर ये ७ सात प्रश्न किये गये हैं-सो इनमें से आदि के ६ पदों द्वारा वेद वाले जीवों के ऐर्यापथिक कर्म के वध के विषय के ६ प्रश्न हैं और ' नो इत्थी ' आदिरूप जो यह सातवां पद है उससे अवेदक जीव के ऐर्यापथिककर्मवध होनेके विषय में प्रश्न है सो आदि के वेद विषयक ६ प्रश्नों के उत्तर निषेधात्मक हैं । और सप्तम प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है इसी बात को सूत्रकार ' गोयमा। नो इत्थी वधइ, नो पुरिसो वधइ, नाव नो नपुंसगा वधति ' इस सूत्र द्वारा प्रकट करते हैं-वे कहते हैं हे गौतम ! ऐर्यापथिक कर्म को न स्त्री-स्त्रीस्ववेदक जीव-वधता है, न पुरुष-पुस्त्ववेदक जीव-वधता है, यावत् न नपुंसक-नपुंसकस्ववेदक जीव-वधता है, न स्त्रीत्व वेदवाले जीव वधते हैं, न पुरुष पुरुष

पथिक कर्म आदिना अपि छे छे पुरुषो अपि छे छे नपुंसको अपि छे ? अथवा शु (नो इत्थी नो पुरिसो नो नपुंसो वंघइ) नो स्त्री, नो पुरुष, नो नपुंसक-अर्थात् वेदके अपि छे ? अर्थात् वेदके अनुसंधाने उपर प्रमाणे सात प्रश्नो पूछनामा आख्या छे ते सात प्रश्नोमाथी पहिले छे प्रश्नो द्वारा वेदवाला जीवोना ऐर्यापथिक कर्म वध विषे प्रश्न पूछवा छे अने (नो इत्थी) आदि रूप सातमा प्रश्न अवेदक जीवोना ऐर्यापथिक कर्म वध विषे पूछनामा आख्या छे अर्थात् वेदवाला वेदविषयक ६ प्रश्नोना उत्तर निषेधात्मक (नकारवाचक) छे अने सातमा प्रश्नो उत्तर स्वीकारात्मक (कारवाचक) छे अर्थात् वात सूत्रकार महावीर प्रभुना उत्तर द्वारा नीचे प्रमाणे प्रकट करे छे (गोयमा !) हे गौतम ! (नो इत्थी वंघइ नो पुरिसो वंघइ नाव नो नपुंसगा वधति) ऐर्यापथिक कर्मोना वध स्त्री (स्त्रीत्व वेदक जीव) वाधती नथी, पुरुष (पुरु

बध्नन्ति, नो वा-नपुंसकाः नपुंसकत्ववेदा बध्नन्ति, अपि तु 'पुत्रपडिवन्नए पडुच्च अवगयवेदा बंधंति' पूर्वप्रतिपन्नकान् मनुष्यान् प्रतीत्य आश्रित्य अपगतवेदा ऐर्यापधिकं कर्म बध्नन्ति, 'पडिवज्जमाणए य पडुच्च अवगयवेदो वा बंधइ, अवगयवेदा वा बंधंति' प्रतिपद्यमानकांश्च मनुष्यान् प्रतीत्य आश्रित्य अपगतवेदो वा बध्नाति, अपगतवेदा वा बध्नन्ति, अयमाशयः—'नोस्त्रीनोपुरुषो-
नोनपुंसकः' इति पूर्वपक्षीयसप्तमपदोक्तव्यपगतवेदेषु पूर्वप्रतिपन्नकाः, प्रतिप-
द्यमानकाश्च भवन्ति, तत्र-पूर्वप्रतिपन्नकानां कर्मबन्धद्वित्रादिसमयवर्तितया सदैव
बहुत्वसद्भावात् 'पूर्वप्रतिपन्नकान्' इत्यादिना एकमेव विकल्पमुक्तवान्, प्रति-

वेदवाले जीव बांधते हैं, न नपुंसक-नपुंसक वेदवाले जीव बांधते हैं, अपितु 'पुत्रपडिवन्नए पडुच्च अवगयवेदा बंधंति' पूर्व प्रतिपन्न मनुष्यों को आश्रित करके अपगतवेदवाले जीव ऐर्यापधिक कर्म को बांधते हैं। तथा 'पडिवज्जमाणए य पडुच्च अवगयवेदो वा बंधइ, अवगयवेदा वा बंधंति' प्रतिपद्यमान मनुष्यों को आश्रित करके अपगत वेदवाला मनुष्य अथवा अपगतवेदवाले मनुष्य इस ऐर्यापधिक कर्मको बांधते हैं। तात्पर्य कहने का यह है—“नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक” ऐसा जो यह पूर्वपक्षसंबंधी सप्तम पद है उसमें व्यपगतवेदों में-पूर्वप्रतिपन्नक और प्रतिपद्यमानक दोनों प्रकार के मनुष्य होते हैं। सो इनमें जो पूर्वप्रतिपन्नक मनुष्य हैं वे ऐर्यापधिक कर्म बन्ध के दो तीन आदि समयवर्ती होने के कारण सदा बहुत होते हैं इस कारण “पूर्वप्रतिपन्नकान्” इत्यादि द्वारा

पत्व वेदक एव) बांधता नथी, नपुंसक (नपुंसकत्व वेदक एव) बांधता नथी, स्त्रीत्व वेदक एवो बांधता नथी, पुरुषत्व वेदक एवो बांधता नथी अने नपुंसकत्व वेदक एवो पणु बांधता नथी, परन्तु (पुत्रपडिवन्नए पडुच्च अवगयवेदा बंधंति) पूर्वप्रतिपन्न मनुष्योनी अपेक्षाओ अपगत वेदवाणा (अवेदक-वेदरहित) एवो न ऐर्यापधिक कर्मनो अध करे छे. तथा (पडिवज्जमाणए पडुच्च अवगयवेदो वा बंधइ, अवगयवेदा वा बधति) प्रतिपद्यमाननी) अपेक्षाओ अपगत वेदवाणो (वेदरहित) मनुष्य अथवा अपगत वेदवाणा मनुष्यो ऐर्यापधिक कर्मनो अध करे छे आ कथननुं तात्पर्य नीचे प्रभाषे छे—(नो स्त्री, नो पुरुष, नो नपुंसक) ओहुं जे पूर्वपक्ष संबंधी सातमुं पद छे—तेमां समाविष्ट वेदोमां-पूर्वप्रतिपन्नक, ओ अने प्रकारना मनुष्यो डोय छे, तेमाना जे पूर्वप्रतिपन्नक मनुष्यो छे तेओ ऐर्यापधिक कर्म अधना ओ त्रणु आदि समयवर्ती डोवाता कारणे सदा अनेक डोय छे ते कारणे (पूर्वप्रतिपन्नकान्) इत्यादि द्वारा ओह ओ निरूपण नीकारे कथी छे. परन्तु जे

पुरुषा वा षध्नन्ति, नपुसका वा षध्नन्ति? किं वा ' नो इत्थी नो पुरिसो नो नपुंसको षधइ? ' नो स्त्री नो पुरुषो नो नपुंसको षध्नाति? तथा च आदिभि पदपदै सवेदकानां कर्मव्यविषयकः प्रश्न, ' नो स्त्री ' इत्यादि सप्तमपदेन अवेदकस्य कर्मव्यविषयकः प्रश्नः, तदनुसारेणैव आधीनां पञ्चा वदकत्रियकपदानां निषेधात्मकसूत्रस्य सप्तमपदोक्तन्यपगत वेदविषयक स्वीकारात्मकसूत्रमित्याह—'गोयमा! नो इत्थी षधइ, नो पुरिसो षधइ, जाव नो नपुंसगा षधति' हे गौतम! ऐर्यापथिक कर्म नो स्त्री स्त्रीत्ववेदको षध्नाति, नो पुरुषः पुंस्त्ववेदको षध्नाति, यावत् नो नपुंसकः—नपुंसकत्ववेदको षध्नाति, नो वा स्त्रियः स्त्रीत्ववेदाः षध्नन्ति, नो पुरुषा पुंस्त्ववेदा षधति' किं वा स्त्रियां षधती है, पुरुष षधते है, या नपुंसक षधते है? अथवा ' नो इत्थी नो पुरिसो नो नपुंसको षधइ ' नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक अर्थात् सिद्ध षधता है क्या? यहाँ वेद की अपेक्षा छेकर ये ७ सात प्रश्न किये गये हैं—सो इनमें से आदि के ६ पदों द्वारा वेद वाले जीवों के ऐर्यापथिक कर्म के षध के विषय के ६ प्रश्न हैं और ' नो इत्थी ' आविरूप जो यह सातवां पद है उससे अवेदक जीव के ऐर्यापथिक कर्म षध होनेके विषय में प्रश्न है सो आदि के वेद विषयक ६ प्रश्नों के उत्तर निषेधात्मक हैं। और सप्तम प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है इसी बात को सूत्रकार ' गोयमा! नो इत्थी षधइ, नो पुरिसो षधइ, जाव नो नपुंसगा षधति' इस सूत्र द्वारा प्रकट करते हैं—वे षधते हैं हे गौतम! ऐर्यापथिक कर्म को न स्त्री—स्त्रीत्ववेदक जीव—षधता है, न पुरुष—पुंस्त्ववेदक जीव—षधता है, यावत् न नपुंसक—नपुंसकत्ववेदक जीव—षधता है, न स्त्रीत्व वेदवाले जीव षधते हैं, न पुरुष पुरुष

पथिक कर्म स्त्रीत्व वेदको षधते है न पुरुषो षधते है नपुंसको षधते है? अथवा शु (नो इत्थी नो पुरिसो नो नपुंसको षधइ) नो स्त्री, नो पुरुष, नो नपुंसक—अर्थात् सिद्ध षधता है? अर्थात् वेदने अनुवक्षीने उपर प्रभाषे सात प्रश्नो पूछवामां आत्मा छे ते सात प्रश्नोभांथी पड़ेलां छे प्रश्नो द्वारा वेदवाला जीवोना ऐर्यापथिक कर्म लष विषे प्रश्न पूछना छे जने (नो इत्थी) आदि रूप सातवो प्रश्न अवेदक जीवोना ऐर्यापथिक कर्म लष विषे पूछवामां आत्मा छे श्रद्धातना वेदविषयक ६ प्रश्नोना उत्तर निषेधात्मक (नकारवाचक) छे जने सातवो प्रश्नो उत्तर स्वीकारात्मक (कारवाचक) छे जेण वात सूत्रकार मन्वापीर प्रथुना उत्तर दाश नीचे प्रभाषे प्रकट करे छे (गोयमा!) हे गौतम! (नो इत्थी षधइ नो पुरिसो षधइ जाव नो नपुंसगा षधति) ऐर्यापथिक कर्मो लष स्त्री (स्त्रीत्व वेदक जीव) षधती नथी, पुरुष (पुरु

बध्नन्ति, नो वा-नपुंसकाः नपुंसकत्ववेदा बध्नन्ति, अपि तु 'पुत्रपडिवन्नए पडुच्च अवगयवेदा बध्न्ति' पूर्वप्रतिपन्नकान् मनुष्यान् प्रतीत्य आश्रित्य अपगतवेदा ऐर्यापथिकं कर्म बध्नन्ति, 'पडिवज्जमाणए य पडुच्च अवगयवेदो वा बध्न्ति, अवगयवेदा वा बध्न्ति' प्रतिपद्यमानकांश्च मनुष्यान् प्रतीत्य आश्रित्य अपगतवेदो वा बध्नाति, अपगतवेदा वा बध्नन्ति, अयमाशयः—'नोस्त्रीनोपुरुषो-नोनपुंसकः' इति पूर्वपक्षीयसप्तमपदोक्तव्यपगतवेदेषु पूर्वप्रतिपन्नकाः, प्रतिपद्यमानकाश्च भवन्ति, तत्र-पूर्वप्रतिपन्नकानां कर्मबन्धद्वित्रादिसमयवर्तितया सदैव बहुत्वसद्भावात् 'पूर्वप्रतिपन्नकान्' इत्यादिना एकमेव विकल्पमुक्तवान्, प्रति-

वेदवाले जीव बांधते हैं, न नपुंसक-नपुंसक वेदवाले जीव बांधते हैं, अपितु 'पुत्रपडिवन्नए पडुच्च अवगयवेदा बध्न्ति' पूर्व प्रतिपन्न मनुष्यों को आश्रित करके अपगतवेदवाले जीव ऐर्यापथिक कर्म को बांधते हैं। तथा 'पडिवज्जमाणए य पडुच्च अवगयवेदो वा बध्न्ति, अवगयवेदा वा बध्न्ति' प्रतिपद्यमान मनुष्यों को आश्रित करके अपगत वेदवाला मनुष्य अथवा अपगतवेदवाले मनुष्य इस ऐर्यापथिक कर्मको बांधते हैं। तात्पर्य कहने का यह है—“नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक” ऐसा जो यह पूर्वपक्षसंबंधी सप्तम पद है उसमें व्यपगतवेदों में—पूर्वप्रतिपन्नक और प्रतिपद्यमानक दोनों प्रकार के मनुष्य होते हैं। सो इनमें जो पूर्वप्रतिपन्नक मनुष्य हैं वे ऐर्यापथिक कर्म बन्ध के दो तीन आदि समयवर्ती होने के कारण सदा बहुत होते हैं इस कारण “पूर्वप्रतिपन्नकान्” इत्यादि द्वारा

पत्व वेदक एव) बांधतो नथी, नपुंसक (नपुंसकत्व वेदक एव) बांधतो नथी, स्त्रीत्व वेदक एवो बांधता नथी, पुरुषत्व वेदक एवो बांधता नथी अने नपुंसकत्व वेदक एवो पणु बांधता नथी, परन्तु (पुत्रपडिवन्नए पडुच्च अवगयवेदा बध्न्ति) पूर्वप्रतिपन्न मनुष्योनी अपेक्षाओ अपगत वेदवाणा (अवेदक-वेदरहित) एवो न ऐर्यापथिक कर्मनो अध करे छे. तथा (पडिवज्जमाणए पडुच्च अवगयवेदो वा बध्न्ति, अवगयवेदा वा बध्न्ति) प्रतिपद्यमाननी) अपेक्षाओ अपगत वेदवाणो (वेदरहित) मनुष्य अथवा अपगत वेदवाणा मनुष्यो ऐर्यापथिक कर्मनो अध करे छे. आ कथननुं तात्पर्य नीचे प्रमाणो छे—(नो स्त्री, नो पुरुष, नो नपुंसक) ओरुं ने पूर्वपक्ष संबंधी सातसुं पद छे—तेमां समाविष्ट वेदोमां-पूर्वप्रतिपन्नक, ओ अने प्रकारना मनुष्यो डाय छे, तेमांना ने पूर्वप्रतिपन्नक मनुष्यो छे तेओ ऐर्यापथिक कर्म अंधना ओ त्रणु आदि समयवर्ती होवाना कारणे सदा अनेक डाय छे ते कारणे (पूर्वप्रतिपन्नकान्) इत्यादि द्वारा ओक न विकल्प सूत्रकारे कही छे. परन्तु ने

पद्यमानकानां तु एयांपथि कर्मबन्धप्रथमसमयवर्धितया विरहामावेन एषादिसंभवात्
 'प्रतिपद्यमानकान्' इत्यादिना विप्लवद्वयमुक्तम् । अथ अपगतवदमैर्यापथिककर्म
 बन्धमादित्य स्त्रीत्यादि भूतभाषापेक्षया विकल्पयन् आह--'जइ ण भते' इत्यादि ।
 जइ णं भंत ! अत्रगयवेदो वा वंधइ अत्रगयवेदा वा वंधति ? ' गौतम पृच्छति-हे
 मदन्त ! यदि स्वलु ऐर्यापथिक वम अपगतवेदो वा वध्नाति, अपगतवेदा वा
 वध्नाति ' सं भते ! किं इत्यीपच्छाकहो वंधइ ? हे मदन्त ! तत् ऐर्यापथिक कर्म
 किं स्त्रीपश्चात्कृत स्त्रीत्वं पश्चात्कृतम् अतीतत्वं नीत येन अवेदकेनासौ स्त्रीपश्चा
 कृतः भूतपूर्वस्त्रीत्ववदक इत्यर्थः, वध्नाति१, 'पुरिसपच्छाकहो वंधइ २' किं वा

एक ही विकल्प सूत्रकार ने कहा है । परन्तु जो प्रतिपद्यनामक होते हैं वे
 ऐर्यापथिक कर्मवध के प्रथमसमयवर्ती होते हैं, इसलिये इनमें विरह की
 संभाषना होनेसे एक आदिका सद्भाष रहता है इस कारण "प्रतिपद्य
 मानकान्" इत्यादि द्वारा सूत्रकारने दो विकल्प कहे हैं । अथ गौतमस्वामी
 अपगतवेदवासे ऐर्यापथिक कर्मवध को आश्रित्य करके स्त्रीत्यादि भूत
 भाषकी अपेक्षा से प्रभु से ऐसा पूछते हैं 'जइण भंते ! अत्रगयवेदो वा
 वधइ अत्रगयवेदा वा वधति' हे मदन्त ! यदि वेदरहित जीव ऐर्या
 पथिक कर्म को वंधता है या वेदरहित जीव ऐर्यापथिककर्म को वंधते
 हैं- 'त भंते ! किं इत्यीपच्छाकहो वधइ?' तो हे मदन्त ! जो स्त्री पश्चा
 स्मृत है-जिस अवेदक जीव ने स्त्रीत्व को असीतावस्था में कर दिया
 है-ऐसा भूतपूर्व स्त्रीत्व वेदक अवेदक जीव-उस ऐर्यापथिककर्मका वध

अनुप्य प्रतिपद्यमानक डोय छे तेजो ऐर्यापथिक कर्मबंधना प्रथम समयवर्ती
 डोय छे, तेथी तेमनाभां विरहणी सभाषना डोवाथी जोक आदिने सदुभाष
 रहे छे ते कारणे (प्रतिपद्यमानकान्) इत्यादि द्वारा सूत्रकारने दो विकल्प कहे छे,
 अवेदो अत्रगयवेदनावाणा (वेद रहित) ऐर्यापथिक कर्म
 बंधनी अपेक्षासे स्त्रीत्व आदि भूतभाषने अनुवक्षीने मत्वापीर प्रभुने नीचे
 प्रभाषे प्रभु पूछे छे-(जइण भंते ! अत्रगयवेदो वा वधइ अत्रगयवेदा वा
 वधति) हे मदन्त ! जो वेदरहित जोक एव ऐर्यापथिक कर्म बंधतो डोय
 अधवा वेदरहित अनेक एवो ऐर्यापथिक कर्म बंधता डोय ते (सं भते !
 किं इत्यी पच्छाकहो वधइ) (१) हे मदन्त ! शु स्त्रीपश्चात्कृत अवेदक एव
 ऐर्यापथिक कर्मना बंध करे छे ? (ने एवे स्त्रीत्वने अतीतगतभां अनुवध
 करी थीपि डोय जोवा भूतपूर्व स्त्रीत्व वेदक एवने स्त्री पश्चात्कृत अवेदक
 (२) (पुरिसपच्छाकहो वधइ) हे शु पूछ्य पश्चात्कृत अवेदक एव ऐर्याप

પુરુષપશ્ચાત્કૃતઃ પુરુષત્વ પશ્ચાત્કૃતમ્ અતીતતાં નીતં યેન અવેદકેન અસૌ પુરુષપશ્ચાત્કૃતઃ ભૂતપૂર્વપુસ્ત્વવેદકો વધનાતિ ૨?, 'નપુંસગપચ્છાકઢો વધઙ્ ૩' કિંવા નપુંસકત્વં પશ્ચાત્કૃતમ્ અતીતતાં નીતં યેન અવેદકેન અસૌ નપુંસકપશ્ચાત્કૃતઃ ભૂતપૂર્વ-નપુંસકત્વવેદક इत्यर्थः, વધનાતિ ૨? અન્નંદં ધોધ્યમ્-એકૈકયોગે એકત્વવહુત્વાભ્યાં પદ્ વિકલ્પાઃ, દ્વિકયોગે તુ તથૈ વૈકત્વ-વહુત્વાભ્યાં દ્વાદશ, ત્રિકયોગે પુનસ્તથૈવાષ્ટૌ, સર્વે ચૈતે પદ્વિંશતિર્વિકલ્પા ભવન્તિ, તત્ર ત્રય ઉક્તાઃ શેપાન્ તાનેવાહ ક્રમશઃ- 'इत्थीपच्छाकडा वंधति' ૪, કિંવા સ્ત્રીપશ્ચાત્કૃતા વધન્તિ ૪ 'पुरिसपच्छा-

करता है ? 'पुरिसपच्छाकडो य वंधइ' या जो अवेदक जीव पुरुषपश्चात्कृत है-भूतपूर्व पुंस्त्ववेदक है-वह ऐर्यापथिक कर्म का बंध करता है ? 'नपुंसगपच्छाकडो वंधइ ३' या जो जीव नपुंसक पश्चात्कृत है-जिस अवेदक जीव ने पूर्व में नपुंसक वेद का वेदन किया है-ऐसा भूतपूर्व नपुंसकत्व वेदक जीव इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करता है ? यहां ऐसा समझना चाहिये-कि एक एक के योग में एकत्व और बहुत्व को लेकर ६ विकल्प होते हैं, तथा द्विक के योग में एकत्व और बहुत्व को लेकर १२ विकल्प होते हैं, और त्रिक के योग में एकत्व बहुत्व को लेकर ८ विकल्प होते हैं-इस प्रकार सब ये २६ विकल्प हो जाते हैं-इनमें ३ तीन विकल्प तो कह दिये गये हैं। बाकी २३ विकल्प क्रमशः इस प्रकार से हैं—'इत्थीपच्छाकडा वंधति ४' या जो अवेदक जीव

થિક કર્મનો બંધ કરે છે ? (જે જીવે સ્ત્રીત્વનો અતીતકાળમાં અનુભવ કરી લીધો હોય એવા ભૂતપૂર્વ સ્ત્રીત્વવેદક જીવને સ્ત્રી-પશ્ચાત્કૃત કહે છે) (૨) " પુરિસપચ્છાકઢો વધઙ્ " કે શુ પુરુષ-પશ્ચાત્કૃત અવેદક જીવ ઐર્યાપથિક કર્મનો બંધ કરે છે ? (ભૂતપૂર્વ પુરુષત્વ વેદક જીવને પુરુષપશ્ચાત્કૃત કહે છે) (૩) (નપુંસગપચ્છાકઢો વંધઈ) (૩) કે શું નપુંસકપશ્ચાત્કૃત અવેદક જીવ ઐર્યાપથિક કર્મનો બંધ કરે છે (જે જીવે પૂર્વે નપુંસક વેદનું વેદન કર્યું હોય એવા જીવને નપુંસક પશ્ચાત્કૃત કહે છે) અહીં એણે સમજવું જોઈએ કે એક એકના યોગથી એકત્વ અને બહુત્વની અપેક્ષાએ ૬ વિકલ્પ થાય છે, તથા દ્વિકના યોગથી એકત્વ અને બહુત્વની અપેક્ષાએ ૧૨ વિકલ્પ થાય છે અને ત્રિકના યોગથી એકત્વ અને બહુત્વની અપેક્ષાએ ૮ વિકલ્પ થાય છે. આ રીતે કુલ ૨૬ વિકલ્પ થાય છે તેમાંના ત્રણ વિકલ્પો તો ઉપર કહેવામાં આવી ચુક્યા છે. બાકીના ૨૩ વિકલ્પો અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે—

(૪) " इत्थीपच्छाकडा वंधति " અથવા શું સ્ત્રી-પશ્ચાત્કૃત અવેદક જીવે

कदाचि घषति ५ ' किंवा पुरुषपद्मात्कृता अपि घघ्नन्ति ५, ' नपुंसगपञ्चाकडापि
 घघति ६ ' किंवा नपुंसरूपपद्मात्कृता अपि घघ्नन्ति ६ । अथ द्विपसयोगे द्वादशवि
 कल्पानाह—'उदाहु इत्यीपञ्चाकडो य घघद् पुरिसपञ्चाकडो य घघद्' उताहो
 अथवा स्त्रीपद्मात्कृतम् घघ्नाति । पुंरूपपद्मात्कृतम् घघ्नाति १, उताहो स्त्रीपद्मा-
 त्कृतम् पुरुषपद्मात्कृताश्च घघ्नन्ति २, उताहो स्त्रीपद्मात्कृताश्च, पुरुषपद्मात्कृ-

स्त्रीपद्मात्कृत होते हैं वे इस ऐर्यापथिक कर्म का घघ करते हैं ? ' पुरि
 सपञ्चाकडा घघति ५ ' या जो अवेदक जीव पुरुषपद्मात्कृत होते हैं वे
 इस ऐर्यापथिक कर्म का घघ करते हैं ? ' नपुंसगपञ्चाकडा घघति ६ '
 या जो अवेदक जीव नपुंसरूपपद्मात्कृत होते हैं—वे इस ऐर्यापथिक कर्म
 का घघ करते हैं ? ये ६ विकल्प एक एक के योग में कहे गये हैं । अब
 द्विकके योगमें जो १२ प्रकारह विकल्प एकत्र बहुत्वको लेकर होते हैं—वे इस
 प्रकार से हैं—

' उदाहु इत्यीपञ्चाकडो य, पुरिसपञ्चाकडो य घघद् ? ' अथवा
 जो कोई एक अवेदक जीव स्त्रीपद्मात्कृत है और कोई एक पुरु-
 षपद्मात्कृत है—अर्थात् पहिले जिस किसी एक ने स्त्रीवेद का और किसी
 एक ने पुरुषवेद का वेदन किया होता है ऐसे ये दोनों अवेदक जीव क्या
 इस ऐर्यापथिक कर्मका घघ करते हैं?(१) या जो जीव—अवेदक एक जीव
 स्त्रीपद्मात्कृत है या जो कोई बहुत अवेदक जीव पुरुषपद्मात्कृत है ऐसे ये
 एकत्रबहुत्ववाले अवेदक जीव क्या इस ऐर्यापथिक कर्म का घघ करते
 हैं ? २ अथवा जो कोई बहुत अवेदक जीव स्त्रीपद्मात्कृत हैं, और कोई एक

ऐर्यापथिक कर्मना लघ करे छे ? (५) पुरिसपञ्चाकडा घघति " अथवा
 शु पुरुषपद्मात्कृत अवेदक एवो ऐर्यापथिक कर्मना लघ करे छे ? (६)
 ' नपुंसगपञ्चाकडा घघति ' अथवा शु नपुंसक-पद्मात्कृत अवेदक एवो
 ऐर्यापथिक कर्मना लघ करे छे ? आ रीते जेक जेकना योग्यी आ ६
 विकल्प कहेवामा आग्या छे हवे द्विकना योग्यी जेकत्य अने बहुत्वनी
 अपेक्षाजे ने १२ विकल्प अने छे ते नीके प्रभाले समजवा—

(१) ' उदाहु इत्यीपञ्चाकडो य पुरिसपञ्चाकडो य घघद् ' अथवा कौठ
 जेक अवेदक स्त्री-पद्मात्कृत एव अने कौठ जेक अवेदक पुरुष-पद्मात्कृत एव
 शु ऐर्यापथिक कर्मना लघ करे छे ? जेतले के पढेतां जेले अवेदनु वेदन
 क्युं होय जेवो जेक एव तथा जेले पुरुष-वेदनु पूर्वे वेदन क्युं होय
 जेवो जेक एव जे अने अवेदक एव शु ऐर्यापथिक कर्मना लघ करे छे ?
 (२) अथवा अवेदक स्त्री-पद्मात्कृत एव तथा कौठजक अवेदक पुरुष-पद्मा

तश्च बध्नन्ति३, अथवा स्त्रीपश्चात्कृताश्च पुरुषपश्चात्कृताश्च बध्नन्ति४, 'उदाहु इत्थीपच्छाकडो य, णपुंसगपच्छाकडो य बंधइ ? ५' उताहो स्त्रीपश्चात्कृतश्च नपुंसकपश्चात्कृतश्च बध्नन्ति, अथवा स्त्रीपश्चात्कृतश्च नपुंसकपश्चात्कृताश्च बध्नाति६, अथवा स्त्रीपश्चात्कृताश्च नपुंसकपश्चात्कृतश्च बध्नन्ति७, स्त्रीपश्चात्कृताश्च, नपुंसकपश्चात्कृताश्च बध्नाति८ उदाहु पुरिसपच्छाकडो य, णपुंसगपच्छाकडो य बंधइ९' उताहो पुरुषपश्चात्कृतश्च नपुंसकपश्चात्कृतश्च बध्नाति, उताहो पुरुषपश्चा-

अवेदक जीव पुरुष पश्चात्कृत है-वे क्या इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करते हैं ? ३, अथवा-जो अवेदक जीव कितनेक स्त्रीपश्चात्कृत हैं और कितनेक पुरुषपश्चात्कृत हैं वे क्या इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करते हैं ? ४, 'उदाहु-इत्थी पच्छाकडो य, णपुंसगपच्छाकडो य बंधइ' अथवा जो कोई एक अवेदक जीव स्त्री पश्चात्कृत और कोई एक नपुंसक पश्चात्कृत है वे क्या इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करते हैं ? ५ अथवा जो एक अवेदक जीव स्त्रीपश्चात्कृत है और कितनेक नपुंसक पश्चात्कृत हैं वे क्या इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करते हैं ? ६, अथवा जो कितनेक अवेदक जीव स्त्रीपश्चात्कृत हैं और कोई एक अवेदक जीव नपुंसकपश्चात्कृत है वे क्या इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करते हैं ? ७, अथवा जो अनेक अवेदक जीव स्त्री पश्चात्कृत हैं और कितनेक नपुंसक पश्चात्कृत हैं वे क्या इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करते हैं ? ८, (उदाहु पुरिसपच्छाकडो य, णपुंसगपच्छाकडो य बंधइ) अथवा जो कोई एक

कृत भवे, आ अन्ने प्रकारना अवेदक भवे शु ऐर्यापथिक कर्मना बंध करे छे ? (३) अथवा डेटलाक स्त्री-पश्चात्कृत अवेदक भव अने डोअ छेक पुरुष पश्चात्कृत अवेदक भव शु ऐर्यापथिक कर्मना बंध करे छे ? (४) अथवा डेटलाक अवेदक स्त्री-पश्चात्कृत भवे अने डेटलाक अवेदक पुरुषपश्चात्कृत भवे शु ऐर्यापथिक कर्मना बंध करे छे ? (५) " उदाहु-इत्थीपच्छाकडो य, णपुंसग पच्छाकडो य बंधइ" अथवा शु डोअ छेक अवेदक पुरुष-पश्चात्कृत भव अने डोअ छेक अवेदक नपुंसक पश्चात्कृत भव ऐर्यापथिक कर्मना बंध करे छे ? (६) अथवा छेक अवेदक स्त्री-पश्चात्कृत भव अने डेटलाक नपुंसक पश्चात्कृत भवे शु ऐर्यापथिक कर्मना बंध करे छे ? (७) अथवा शु डेटलाक अवेदक स्त्रीपश्चात्कृत भवे अने छेक नपुंसक पश्चात्कृत भव ऐर्यापथिक कर्मना बंध करे छे ? (८) अथवा अनेक अवेदक स्त्रीपश्चात्कृत भवे अने अनेक अवेदक नपुंसक पश्चात्कृत भवे शु ऐर्यापथिक बंध बांधे छे ? (९) उदाहु-पुरिस पच्छाकडो य, णपुंसगपच्छाकडो य बंधइ) अथवा पुरुष-पश्चात्कृत डोअ भवे

ત્કૃતશ્ચ નપુસકપદ્મવાત્કૃતાશ્ચ ઘષ્ણન્તિ ૧૦, અથવા પુરુષપદ્મવાત્કૃતાશ્ચ નપુ
સકપદ્મવાત્કૃતશ્ચ ઘષ્ણન્તિ ૧૧, અથવા પુરુષપદ્મવાત્કૃતાશ્ચ નપુસકપદ્મવાત્કૃતાશ્ચ
ઘષ્ણન્તિ ૧૨. અથ ધ્રિફસયોગન ઋણા ધ્રિફલ્વાનાદ-‘ઉદાહુ ઇત્યીપચ્છાકઢો
ય, પુરિસવચ્છાકઢો ય, નપુસગવચ્છાકઢો ય માણિયચ્ચ ’ ઉતાહો સ્ત્રીપદ્મવાત્કૃ
તશ્ચ, પુરુષપદ્મવાત્કૃતશ્ચ નપુસકપદ્મવાત્કૃતશ્ચ ઘષ્ણન્તિ’, ઇતિ મણિતબ્ધ્યમ્, પચ્ચ

અવેદક જીવ પુરુષપદ્મવાત્કૃત છે ઓર કોઈ એક નપુમકપદ્મવાત્કૃત છે એ
કયા ઇસ ણેયાંપથિક કર્મ કા ઘ ઘ કરતે છે ૯, અથવા-જો એક અવેદક
જીવ પુરુષપદ્મવાત્કૃત છે ઓર કિતનેક અવેદક જીવ નપુમકપદ્મવાત્કૃત છે
તો કયા એ દોનોં તરહ કે જીવ ડસ ણેયાંપથિક કર્મ કા ઘ ઘ કરતે છે ?
૧૦, અથવા-કિતનેક અવેદક જીવ પુરુષપદ્મવાત્કૃત છે ઓર એક અવેદક
જીવ નપુસકપદ્મવાત્કૃત છે તો કયા એ દોનોં ઇસ ણેયાંપથિક કર્મ ઘ ઘ કરતે
છે ? ૧૧, અથવા-જો અનેક અવેદક જીવ પુરુષપદ્મવાત્કૃત છે ઓર અનેક
હી અવેદક જીવ નપુસકપદ્મવાત્કૃત છે તો એ દોનોં હી પ્રકારકે અવેદક જીવ
પેયાંપથિક કર્મકા ઘ ઘ કરતે છે ? ૧૨, ઇસ પ્રકાર સે એ એકત્ર ઓર મહુત્વ
કો ઢેકર ધ્રિફ કે મંયોગ મેં ૧૨ મગ ણેસે છે. ધ્રિફસયોગ મેં જો મ્ઠ
ધ્રિફલ્પ હોતે છે એ ઇસ પ્રકાર સે છે-‘ઉદાહુ ઇત્યીપચ્છાકઢો ય, પુરિસ
વચ્છાકઢો ય, નપુસગવચ્છાકઢો ય માણિયચ્ચ ’ ઇસ ણેયાંપથિક કર્મ
કો ‘જો અવેદક જીવ સ્ત્રીપદ્મવાત્કૃત છે, પુરુષપદ્મવાત્કૃત છે, નપુસકપ

એક અવેદક એવ અને નપુસક-પદ્મવાત્કૃત હોય એવો એક એવ શુ ણેયાં
પથિક કર્મ ણેપે છે ? (૧૦) અથવા પુરુષ પદ્મવાત્કૃત હોય એવો એક અવેદક
એવ અને નપુસક-પદ્મવાત્કૃત હોય એવો અનેક અવેદક એવો શુ ણેયાંપથિક
કર્મનો મધ કરે છે ? (૧૧) અથવા પુરુષ પદ્મવાત્કૃત હોય એવો અનેક અવેદક
એવો અને નપુસક પદ્મવાત્કૃત હોય એવો એક અવેદક એવ શુ ણેયાંપથિક
કર્મ ણેપે છે ? (૧૨) અથવા પુરુષ-પદ્મવાત્કૃત હોય એવાં અનેક અવેદક એવો
અને નપુસક પદ્મવાત્કૃત હોય એવા અનેક અવેદક એવો શુ ણેયાંપથિક કર્મ
ણેપે છે ? આ રીતે એકત્ર અને મહુત્વની અપેક્ષાએ ધ્રિફના સંયોગથી ઉપર
મુજબ ૧૨ મગ (વિકલ્પ) અને છે

ધ્રિફ સંયોગથી એ આક વિકલ્પો અને છે તે નીચે પ્રમાણે છે—

(૧) ઉદાહ-ઇત્યી પચ્છાકઢો ય પુરિસવચ્છાકઢો ય નપુસગવચ્છાકઢો ય
માણિય

अथवा-स्त्रीपश्चात्कृतश्च, पुरुषपश्चात्कृतश्च, नपुंसकपश्चात्कृताश्च वध्नन्ति २, स्त्रीपश्चात्कृतश्च, पुरुषपश्चात्कृताश्च, नपुंसकपश्चात्कृतश्च वध्नन्ति ३, अथवा स्त्रीपश्चात्कृतश्च, पुरुषपश्चात्कृताश्च, नपुंसकपश्चात्कृताश्च वध्नन्ति ४, अथवा स्त्रीपश्चात्कृताश्च पुरुषपश्चात्कृतश्च नपुंसकपश्चात्कृतश्च वध्नन्ति ५, अथवा स्त्रीपश्चात्कृताश्च पुरुषपश्चात्कृतश्च नपुंसकपश्चात्कृताश्च वध्नन्ति ६, अथवा-

श्चात्कृत है वह बांधता है क्या ? १. अथवा एक अवेदक जीव स्त्रीपश्चात्कृत है अवेदकों में कोई एक जीव पुरुषपश्चात्कृत है कितनेक जीव नपुंसकपश्चात्कृत हैं, तो क्या ये सब जीव इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करते हैं ? २ अथवा-अवेदकों में कोई एक जीव स्त्रीपश्चात्कृत है कितनेक पुरुषपश्चात्कृत हैं, और कोई एक नपुंसकपश्चात्कृत है-तो क्या ऐर्यापथिक कर्म का बंध करते हैं ? ३, अथवा-अवेदक में कोई एक जीव स्त्रीपश्चात्कृत है, कितनेक जीव पुरुषपश्चात्कृत हैं और कितनेक नपुंसकपश्चात्कृत हैं-तो क्या ये सब जीव इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करते हैं ? ४ अथवा-अवेदकों में कितनेक जीव ऐसे हैं जो स्त्री पश्चात्कृत हैं कोई एक पुरुषपश्चात्कृत है, और कोई एक नपुंसकपश्चात्कृत है-तो क्या ऐसे ये सब जीव इस ऐर्यापथिक कर्मका बंध करते हैं ? ५ अथवा-जो अवेदकों में कितनेक ऐसे हैं कि जिन्होंने पूर्व में स्त्री वेद का वेदन किया है, किसी एक ने पुरुष वेद का वेदन किया है, और कितनेक ने नपुंसक वेद का वेदन किया है-तो क्या ये सब इस ऐर्या

नपुंसक पश्चात्कृत छे, ते शु ऐर्यापथिक कर्मना भध करे छे ? (२) अथवा एक स्त्री-पश्चात्कृत अवेदक छव, एक पुरुष-पश्चात्कृत अवेदक छव अने अनेक नपुंसक पश्चात्कृत अवेदक छवो शु ते कर्मना भंध करे छे ? (३) अथवा अवेदकोमानो कोछि एक छव स्त्री-पश्चात्कृत छोय, केटलाक छवो पुरुष-पश्चात्कृत छोय, अने कोछि एक छव नपुंसक पश्चात्कृत छोय, तो शु तेओ भधा ऐर्यापथिक कर्मना भध करे छे ? (४) अथवा अवेदकोमानो कोछि एक छव स्त्री-पश्चात्कृत छोय, केटलाक छवो पुरुष-पश्चात्कृत छोय अने केटलाक छवो स्त्री-पश्चात्कृत छोय तो शु तेओ भधा ऐर्यापथिक कर्मना भध करे छे (५) अथवा अवेदकोमाना केटलाक छवो स्त्री-पश्चात्कृत छोय, कोछि एक छव पुरुष-पश्चात्कृत छोय अने कोछि एक छव नपुंसक पश्चात्कृत छोय, तो शु तेओ भधा ते कर्मना भंध करे छे ? (६) अथवा अवेदकोमाना केटलाक छवो स्त्री-पश्चात्कृत छोय, कोछि एक पुरुष पश्चात्कृत छोय अने केटलाक नपुंस

स्त्रीपश्चात्कृताश्च पुरुषपश्चात्कृताश्च नपुंसकपश्चात्कृताश्च वध्नन्ति ७, एष एष छञ्चीस मगा २६ माणियव्या जाव उदाहु इत्यीपच्छाकडा य, पुरिसपच्छाकडा य नपुंसगपच्छाकडा य वधति ८ ? एवं रीत्या एते सर्वे उपरिवर्णिता पश्चि-
शतिः २६ मगा विकल्प्या मयति यावत्-उदाहो स्त्रीपश्चात्कृताश्च पुरुषपश्चा-
त्कृताश्च नपुंसकपश्चात्कृताश्च ऐर्यापधिक कर्म वध्नन्ति ८, भगवानाह-‘गोयमा ।
इत्यीपच्छाकडो वि वधइ ?’ हे गौतम ! स्त्रीपश्चात्कृतोऽपि ऐर्यापधिक कर्म

पधिक कर्म का वध करतें हैं ? ६, अथवा-अवेदकों में कितनेक अवेदक ऐसे जो स्त्रीपश्चात्कृत हैं, और कितनेक ऐसे हैं जो पुरुषपश्चात्कृत हैं, कोई एक नपुंसक पश्चात्कृत है तो क्या ये सब इस ऐर्यापधिक कर्म का वध करते हैं ? ७, ‘एष एष छञ्चीस मगा माणियव्या जाव उदाहु इत्यीपच्छाकडा य, पुरिस पच्छाकडा य, नपुंसगपच्छाकडा य वधति’ इस प्रकार से ये “स्त्रीपश्चात्कृताश्च, पुरुषपश्चात्कृताश्च नपुंसक पश्चात्कृताश्च” इस आठवें मंग को मिलाने से २४ मंग हो जाते हैं। इस आठवें मंग का तात्पर्य इस प्रकार से है-अवेदकों में जो कितनेक जीव स्त्रीपश्चात्कृत हैं, कितनेक पुरुषपश्चात्कृत हैं, कितनेक नपुंसक पश्चात्कृत हैं सो क्या ये सब इस ऐर्यापधिक कर्म का वध करते हैं ? इन सब प्रश्नों के उत्तर में प्रसु गौतम से कहते हैं-‘गोयमा’ हे गौतम ! इत्यीपच्छाकडो वि

पश्चात्कृत होय, तो शु तेज्ये अर्थां ते कर्मनो अथ करे छे ? (७) अथवा अवेदकोर्भांता डेटवाक स्त्री-पश्चात्कृत होय, डेटवाक लवो पुरुष-पश्चात्कृत होय अने डोळ ज्ये छे लव नपुंसक पश्चात्कृत होय, तो शु तेज्ये अर्थां ते कर्मनो अथ करे छे ? (८) इत्यीपच्छाकडा य, पुरिसपच्छाकडा य नपुंसकपच्छाकडा य वधति अथवा अवेदकोर्भांता डेटवाक लवो स्त्री-पश्चात्कृत होय डेटवाक लवो पुरुष पश्चात्कृत होय अने डेटवाक लवो नपुंसक पश्चात्कृत होय, तो शु तेज्ये अर्थां ऐर्यापधिक कर्मनो अथ करे छे ?

(एष एष छञ्चीस मगा माणियव्या-जाव-उदाहु इत्यी पच्छाकडा य, पुरिसपच्छाकडा य, नपुंसगपच्छाकडा य, वधति) आ प्रभावे त्रिके सु योप्रथी अनदा उपपुला जाठ काज (विकल्प) बीजा लवो आबे भेजववाभी कुल २६ काज अने छे आ रीते ने छेहे। काज अने छे ते त्रिवि प्रभावे समन्वये। अवेदकोर्भां डेटवाक लवो स्त्री-पश्चात्कृत होय, डेटवाक लवो पुरुष पश्चात्कृत होय अने डेटवाक लवो नपुंसक पश्चात्कृत होय तो शु तेज्ये अर्थां ऐर्यापधिक कर्मनो अथ करे छे ?

वध्नाति, 'पुरिसपच्छाकडो वि वंधइ २' पुरुषपश्चात्कृतोऽपि वध्नाति, २, 'नपुंसगपच्छाकडो वि वधइ ३' नपुंसकपश्चात्कृतोऽपि वध्नाति ३, 'इत्थी-पच्छाकडा वि वंधंति ४, स्त्रीपश्चात्कृता अपि वध्नन्ति ४, 'पुरिसपच्छाकडा वि वंधंति ५, पुरुषपश्चात्कृता अपि वध्नन्ति ५, 'नपुंसगपच्छाकडा वि वंधति ६, नपुंसकपश्चात्कृता अपि वध्नन्ति ६, अथवा इत्थीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडो य वंधइ ७, अथवा स्त्रीपश्चात्कृतश्च पुरुषपश्चात्कृतश्च वध्नाति ७, एवं

बंधइ' (१) जो अवेदक जीव स्त्रीपश्चात्कृत होता है वह भी इस ऐर्यापथिक कर्मका बंध करता है 'पुरिसपच्छाकडो वि बंधइ' (२) जो पुरुषपश्चात्कृत होता है वह भी इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करता है, 'नपुंसगपच्छाकडो वि वंधइ ३' और जो नपुंसकपश्चात्कृत होता है वह भी इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करता है 'इत्थीपच्छाकडा वि वंधंति ४' जो जीव-अवेदक जीव स्त्रीपश्चात्कृत होते हैं वे भी इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करते हैं। 'पुरिस पच्छाकडा वि वंधंति ५' जो अवेदक जीव पुरुषपश्चात्कृत होते हैं वे भी इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करते हैं। 'नपुंसग पच्छाकडा वि वंधंति ६' जो अवेदक जीव नपुंसक पश्चात्कृत होते हैं वे भी ऐर्यापथिक कर्म का बंध करते हैं। 'अहवा-इत्थी पच्छाकडो य, पुरिसपच्छाकडो य वंधइ ७' अथवा जो अवेदक जीव स्त्रीपश्चात्कृत होता है तथा पुरुषपश्चात्कृत होता है वह भी ऐर्यापथिक

इवे गौतम स्वामीना प्रश्नोने उत्तर आपता भडापीर प्रभु कडे छे के "गोयमा!" छे गौतम! (इत्थीपच्छाकडो वि वंधइ) (१) ने अवेदक एव स्त्री-पश्चात्कृत डोय छे ते पणु ऐर्यापथिक कर्मने भंध करे छे (२) पुरिसपच्छाकडो वि वंधइ) पुरुष पश्चात्कृत एव पणु ऐर्यापथिक कर्मने भंध करे छे (३) 'नपुंसगपच्छाकडो वि वंधइ' नपुंसक पश्चात्कृत एव पणु ऐर्यापथिक कर्मने भंध करे छे (४) "इत्थी पच्छाकडा वि वधति" स्त्री-पश्चात्कृत अवेदक एवो पणु आ ऐर्यापथिक कर्मने भंध करे छे (५) पुरिस पच्छाकडा वि वधति" पुरुष पश्चात्कृत अवेदक एवो पणु ऐर्यापथिक कर्मने भंध करे छे (६) "नपुंसगपच्छाकडा वि वधति" नपुंसक पश्चात्कृत अवेदक एवो पणु ऐर्यापथिक भंध करे छे (७) "अहवा-इत्थी पच्छाकडो य, पुरिस पच्छाकडो य वंधइ" ने अवेदक एव स्त्री-पश्चात्कृत डोय छे तथा पुरुष

एए चैत्र छन्वीस मंगा भाणियव्वा ' एपमुक्तीरत्या एते चैत्र सर्वे पश्चिञ्चति मङ्गा विषय्याः मणिसव्या ' ' जाव अहवा इत्थीपञ्छाकडा य, पुरिसपञ्छाकडा य, नपुसगपञ्छाकडा य वंघति ' यानत् अयवा स्त्रीपञ्चात्कृताम् पुरुपपञ्चात्कृतम् नपुसकपञ्चात्कृतम् वध्नन्ति, एव पश्चिञ्चतित्तमो मङ्ग २६ । यावत्पद कथिताः मध्यगताः श्लेषा अष्टादशमङ्गा प्रदर्श्यन्ते, तथाहि - यावत्पदेन-अथवा स्त्रीपञ्चात्कृताश्च पुरुपपञ्चात्कृताश्च वध्नन्ति २६, अथवा स्त्रीपञ्चात्कृताश्च पुरुपपञ्चात्कृताश्च वध्नन्ति ८, स्त्रीपञ्चात्कृताश्च पुरुपपञ्चात्कृतम् वध्नन्ति ९, अथवा स्त्रीपञ्चात्कृताश्च पुरुपपञ्चात्कृताश्च वध्नन्ति १०, अथवा स्त्रीपञ्चात्कृतम्

कर्म का पध करता है । ' एव एए चैत्र छन्वीसं मंगा भाणियव्वा ' इस तरह से ये ही २६ भग कहना चाहिये । ' जाव अहवा इत्थीपञ्छाकडा य, पुरिसपञ्छाकडा य, नपुसगपञ्छाकडा य वधति ' यावत् शब्द से यहाँ ये अवशिष्ट भग ग्रहीत हुए हैं-जो अवेक जीव कितनेक स्त्रीपञ्चात्कृत होते हैं और कितनेक पुरुपपञ्चात्कृत होते हैं वे ऐर्थापधिक कर्म का पध करते हैं ८, अथवा इनमें जो कोई एक स्त्रीपञ्चात्कृत हो तथा कितनेक पुरुपपञ्चात्कृत हों-तो ये सब भी ऐर्थापधिक कर्म का पध करते हैं ९, अथवा-इनमें कितनेक स्त्रीपञ्चात्कृत हों, कितनेक पुरुपपञ्चात्कृत हों-तो वे भी इस ऐर्थापधिक कर्मका पध करते हैं १०; अथवा इनमें कोई एक स्त्रीपञ्चात्कृत हो, कोई एक नपुसकपञ्चात्कृत हो-तो एसा जीव भी इस ऐर्थापधिक कर्म का पध करता है ११, अथवा

चैत्र छन्वीसं मंगा भाणियव्वा " आ प्रभासे जेव २६ विह्वेया कडेवा जेधजे

जाव अहवा इत्थी पञ्छाकडा य परिसपुञ्छाकडा य, नपुसगपञ्छाकडाय वधति " आ सूत्रमां आपता जाव ' (यावत्) पश्ची नीचैना ज जे प्रकलु करवाभां आभ्या उ (८) हेतलाक स्त्री-पञ्चात्कृत होय जने हेथ जेक पुरुप पञ्चात्कृत होय जेवा अवेक एवे। पलु जैर्थापधिक कर्मना जध करे उ (९) अथवा हेथ जेक स्त्री-पञ्चात्कृत होय जने हेतलाक पुरुप पञ्चात्कृत होय जेवा अवेक एवे। पलु जैर्थापधिक कर्मना जध करे उ (१०) अथवा हेतलाक स्त्रीपञ्चात्कृत होय जने हेतलाक पुरुप पञ्चात्कृत होय जेवा एवे। पलु जैर्थापधिक कर्मना जध करे उ (११) अथवा हेथ जेक स्त्रीपञ्चात्कृत एव होय जने हेथ जेक नपुसक पञ्चात्कृत एव होय, तो ते पलु जैर्था

नपुंसकपश्चात्कृतश्च बध्नाति ११, अथवा स्त्रीपश्चात्कृतश्च नपुंसकपश्चात्कृताश्च बध्नन्ति १२, अथवा स्त्रीपश्चात्कृताश्च नपुंसकपश्चात्कृतश्च बध्नन्ति १३, अथवा स्त्रीपश्चात्कृताश्च नपुंसकपश्चात्कृताश्च ऐर्यापथिकं कर्म बध्नन्ति १४, अथवा पुरुषपश्चात्कृतश्च नपुंसकपश्चात्कृतश्च बध्नाति १५, इत्येवं पूर्वपक्षोक्ताः सर्वे षोडशादारभ्य पञ्चविंशतिभङ्गपर्यन्तं संग्राह्याः, अन्तिममाह-अथवा स्त्रीपश्चात्कृताश्च पुरुषपश्चात्कृताश्च नपुंसकपश्चात्कृताश्च ऐर्यापथिकं कर्म बध्नन्ति २६ । इत्याशयः, सर्वे षड्विंशतिः भवन्ति ।

-इनमें कोई एक जीव स्त्रीपश्चात्कृत हो और कितनेक नपुंसकपश्चात्कृत हो तो वह भी इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करता है १२, अथवा इनमें कितनेक जीव स्त्रीपश्चात्कृत हो और कोई एक नपुंसकपश्चात्कृत हो तो वे भी इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करते हैं १३, अथवा-इनमें कितनेक स्त्रीपश्चात्कृत हों, और कितनेक नपुंसकपश्चात्कृत हों तो वे भी इस ऐर्यापथिक कर्म का बंध करते हैं, वा अथवा-इनमें कोई एक जीव पुरुषपश्चात्कृत हो और कोई एक नपुंसकपश्चात्कृत हो-तो ऐसा जीव भी इस ऐर्यापथिक कर्मका बंध करता है १५, इस प्रकार से पूर्वपक्षमें कहे गये सर्व पद यहां ग्रहण करना चाहिये-अन्तिम भंग तक ये सब भंग २६ होते हैं-सो अब अन्तिम पद २६वां 'अथवा-स्त्रीपश्चात्कृताश्च, पुरुषपश्चात्कृताश्च, नपुंसकपश्चात्कृताश्च' यह त्रिक संयोगवाला है ।

अब सूत्रकार इस ऐर्यापथिक कर्म के बन्धन की कालत्रय

पथिक कर्मना अध करे छे. (१२) अथवा डेटलाक स्त्रीपश्चात्कृत एवो होय अने कोछ ओक नपुंसक पश्चात्कृत एव होय, तो ते पणु ऐर्यापथिक अध करे छे (१३) अथवा कोछ ओक एव स्त्रीपश्चात्कृत होय, अने डेटलाक एवो नपुंसक पश्चात्कृत होय, तो ते पणु ऐर्यापथिक कर्मना अध करे छे. (१४) अथवा डेटलाक स्त्रीपश्चात्कृत एवो होय अने डेटलाक नपुंसक पश्चात्कृत एवो होय, तो तेओ पणु ऐर्यापथिक कर्मना अध करे छे. (१५) अथवा तेओमांथी कोछ ओक एव नपुंसक पश्चात्कृत होय तो एवो एव पणु आ ऐर्यापथिक अध करे छे आ रीते भाडीना ११ लग पणु पूर्वपक्षमां (प्रश्न सूत्रमा) कथा प्रमाणे न अडणु करग जेथओ, आ रीते कुल २६ लग अनथे छेद्वी (२६ भो) त्रिक संयोगवाणो आ प्रमाणे छे-" अथवा स्त्रीपश्चात्कृताश्च, पुरुषपश्चात्कृताश्च नपुंसकपश्चात्कृताश्च " अवेदकेमाना डेटलाक एवो स्त्री पश्चात्कृत होय, डेटलाक एवो पुरुष पश्चात्कृत होय अने डेटलाक नपुंसक पश्चात्कृत होय, तो तेओ अधा पणु ऐर्यापथिक कर्मना अध करे छे.

पञ्चात्कृते २६ पङ्क्तिश्रुतिमङ्गलौकिकम् ।

एकसंयोगिन पङ्कमङ्गा ६

स्त्री १, पुरुष २, नपुंसकम् ३, स्त्रियाः ४, पुरुषाः ५, नपुंसकानि ६ } ६

द्विकसंयोगिनो द्वादश मङ्गाः १२, तत्र-

स्त्रीपुरुषयोगे चत्वारो मङ्गा ४

स्त्री, पुरुषाः १। स्त्री, पुरुषा २। स्त्रियाः, पुरुषा ३। स्त्रिय, पुरुषा ४ } ४

एवं-स्त्रीनपुंसकयोगे चत्वारो मङ्गाः ४

स्त्री, नपुंसकम् १। स्त्रीनपुंसकानि २। स्त्रिय, नपुंसकम् ३। स्त्रियाः, नपुंसकानि ४ } ४

एव पुरुष-नपुंसकयोगेऽपि चत्वारो मङ्गा ४

पुरुष, नपुंसकम् १। पुरुषाः, नपुंसकानि २। पुरुषा, नपुंसकम् ३। पुरुषाः, नपुंसकानि ४ } ४

एते द्विकसंयोगे द्वादशमङ्गाः — १२

त्रिकसंयोगेऽष्टौमङ्गाः ८

स्त्री, पुरुष, नपुंसकम् १

स्त्री, पुरुष, नपुंसकानि २

स्त्री, पुरुषाः, नपुंसकम् ३

स्त्री, पुरुषाः, नपुंसकानि ४

स्त्रिय, पुरुष, नपुंसकम् ५

स्त्रिय, पुरुषाः, नपुंसकानि ६

स्त्रियाः, पुरुषाः, नपुंसकम् ७

स्त्रियाः, पुरुषाः, नपुंसकानि ८

एकसंयोगे षट्, द्विकसंयोगे द्वादश १२

त्रिकसंयोगे चाष्टौ ८। सर्वसंमेलने

नाता पङ्क्तिश्रुतिमङ्गाः । २६ ।

अथ ऐर्यापथिक कर्मबन्धनमेव अतीतादिकाकर्मण्येण प्ररूपयितुमाह—‘तं भवे । किं बन्धी, बन्ध, बन्धिस्तइ ?’ हे भवन्त ! तत् ऐर्यापथिकं कर्म किं बन्धवान्, बन्धाति,

की अपेक्षा से प्ररूपणा करते हैं—इसमें गौतम ने प्रभु से ऐसा पूजा है ‘तं भवे । किं बन्धी, बन्ध, बन्धिस्तइ’ हे भवन्त ! इस ऐर्यापथिक कर्म को पहिले—मृतकाल में क्या किसी जीव ने चांया है ? वर्तमान में यह इसे चांयता है ? भविष्यकाल में क्या यह इसे चांयेगा ? इस प्रकार का यह पहिला विकल्प है—इसी तरह से सात विकल्प और हैं—जो इस प्रकार से हैं—‘बन्धी, बन्ध, न बन्धिस्तइ’ २ किसी जीव ने क्या इसे

इवे सूत्रात् आ ऐर्यापथिकं कर्म बन्धनानी तत्रे कागनी अपेक्षात्ते प्ररूपणा करे छे गौतम स्वामीने प्रभ—“ तं भवे । किं बन्धी, बन्ध, बन्धिस्तइ ? ” हे भवन्त ! आ ऐर्यापथिकं कर्मणि जन्म शु मृतकागर्भां कौड लवे जांधे छे ? वर्तमानकागर्भां ते तेने अपि छे ? जने भविष्यकागर्भां शु ते तेने जांधे ? आ प्रभाजे पढेताे जन्म छे जीव सात जन्म (विकल्प) नीछे प्रभाजे छे—“ बन्धी, बन्ध, न बन्धिस्तइ ” (२) कौड लवे पढेतां शु ते कर्मणि

मन्त्स्यति इति प्रथमो विकल्पः, एवमन्यान् सप्त विकल्पान् प्रतिपादयति-
 'बंधी, बंधइ, न बंधिस्सइ २' किं वा वद्धवान्, बध्नाति, न मन्त्स्यति२, 'बंधी,
 न बंधइ, बंधिस्सइ३' किं वा वद्धवान् न बध्नाति, मन्त्स्यति च३, 'बंधी, न
 बंधइ, न बंधिस्सइ४, किंवा वद्धवान् न बध्नाति, न मन्त्स्यति४, 'न बंधी, बंधइ,
 बंधिस्सइ ५' किं वा न वद्धवान्, अपि तु बध्नाति, मन्त्स्यति५, 'न बंधी, बंधइ,
 न बंधिस्सइ ६' किं वा न वद्धवान्, अपि तु बध्नाति, न वा मन्त्स्यति६, 'न बंधी
 न बंधइ, बंधिस्सइ ७' किं वा न वद्धवान्, न वा बध्नाति, किन्तु मन्त्स्यति७,
 'न बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ ८' ? , किं वा न वद्धवान्, न बध्नाति, न वा

पहिले बांधा है, इसे क्या वह वर्तमान में बांधता है, भविष्यत् में क्या
 वह इसे नहीं बांधेगा ? २ 'बंधी, न बंधइ, बंधिस्सइ ३' किसी जीव ने
 भूतकाल में क्या इसे बांधा है ? वर्तमान में वह इसे नहीं बांधता है ?
 भविष्यत् कालमें क्या वह इसे बांधेगा ? ३ 'बंधी, न बंधइ न बंधिस्सइ ४'
 भूतकाल में किसी जीव ने क्या इसे बांधा है, वर्तमान में वह इसे नहीं
 बांधता है ? और भविष्यत्काल में भी क्या वह इसे नहीं बांधेगा ४,
 'न बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ ५' क्या भूत काल में इसे किसी जीव ने
 नहीं बांधा है ? वर्तमान में वह क्या इसे बांधता है ? और भविष्यत् में
 भी इसे क्या वह बांधेगा ? ५ 'न बंधी, बंधइ, न बंधिस्सइ ६' भूतकाल
 में इसे क्या किसी जीव ने नहीं बांधा है ? वर्तमान में वह बांधता है ?
 भविष्यत्में वह इसे नहीं बांधेगा क्या ? ६ 'न बंधी, न बंधइ बंधिस्सइ
 ७' भूतकाल में इसे किसी जीवने नहीं बांधा है, वर्तमानमें
 वह इसे नहीं बांधता है, भविष्यत् में वह इसे बांधेगा ? ७ अथवा
 --'न बंधी, न बंधइ न बंधिस्सइ ८' न इसे किसी ने पहिले बांधा

अथ बांधेो छे, वर्तमानमां शुं ते तेने बांधे छे, लविष्यमां शुं ते तेने
 नडीं बांधे ? (३) "बंधी, न बंधइ, बंधिस्सइ" केअं लुवे भूतकाणमां ते
 कर्मनेो अथ बांधेो डोय, वर्तमानमां बांधतेो न डोय अने लविष्यमा
 बांधनानेो डेय अवेुं अने छे अइ ? (४) बंधी, न बंधइ न बंधिस्सइ" केअं
 लुवे भूतकाणमां ते कर्मनेो अथ बांधेो छे, वर्तमानमां बांधतेो नथी अने
 लविष्यमां बांधशे नडीं, अवेुं अने छे अइ ? (५) "न बंधी, न बंधइ, न
 बंधिस्सइ" शुं भूतकाणमां केअं लुवे तेने बांधेो नथी ? शुं वर्तमानमां ते
 तेने बांधे छे ? शुं लविष्यमां ते तेने बांधशे ? (६) न बंधी, बंधइ, न
 बंधिस्सइ" शुं भूतकाणमां ते अथ केअं लुवे बांधेो नथी ? वर्तमानमां
 शुं अवेुं लुवे तेने बांधे छे ? अने शुं लविष्यमां ते तेने नडीं बांधे ?

मन्त्स्यति ८" भगवानाह- 'गोयमा ! भवागरिस पशुष अत्येगए षधी, षपइ, षचिस्सइ' हे गौतम ! भवाकर्षं प्रतीरय-आधिरय गवाकर्षापेसया इत्यर्थः अस्त्येककः कश्चित् ऐर्यापधिकं कर्म बद्धवान्, षन्नाति, मन्त्स्यति ष मवे अनेक मव उपसमादिश्रेणिमाप्स्या आर्षं - ऐर्यापधिककर्माणुपृष्टानां ग्रहण भवाकर्षः कथ्यत, तदपेसया 'अत्येगए षधी, षपइ, न षधिस्सइ' अस्त्येककः कश्चित् ऐर्यापधिकं कर्म पद्धवान्, षन्नाति, किन्तु न मत्स्यतिर 'एवं त चेव सञ्च जाव अत्येगए न षधी, न षपइ, न षधिस्सइ, एष रीत्या तदेव पूर्वपसाक्त सर्व यावत्-अस्त्येककः कश्चित् बद्धवान्, न षन्नाति, मन्त्स्यतिर, अस्त्येककः कश्चित्

है ? न इसे वह वांचता है और न इसे वह चायेगा ? ८, इस प्रकार से ये आठ चिकल्प हैं। इसके उत्तर में भगवान् कहते हैं- 'गोय मा ! भवागरिसं पशुष्व अत्येगए षधी, षपइ, षचिस्सइ' हे गौतम ! भवाकर्षको आभिक करके-अर्थात् भवाकर्ष की अपेक्षा लेकर के किसी एक जीव ने ऐर्यापधिक कर्म को वांचा है, यह वांचना है और यह चांचे गा। अनेक भवों में उपशमश्रेणी आदि कीप्राप्ति से ऐर्यापधिक कर्म पुद्गलों का ग्रहण करना इसका नाम भवाकर्ष है। इस भवाकर्ष की अपेक्षा से जिस किसी एक जीवने पहिले ऐर्यापधिक कर्म को वाचा है, वही इस वर्तमान में वाचता है, आगे यह इसे वांचेगा, यह प्रथम चिकल्प है। 'एवं तं चेव सञ्चजाय अत्येगए न षधी, न षपइ, न षधिस्सइ' इसी तरह से पूर्वपशोक्त षीष के अन्य छह चिकल्पों के सवच में भी लगा

(७) न षधी न षपइ, षचिस्सइ शु भूतलजभा ते जधे क्कं लवे आधये नथी ? शु ज्जेव लप वतमानभा तेने जधते नथी ? शु ते लवि ध्यभा तेने जधये ? (८) (न षधी न षपइ न षचिस्सइ) शु भूतलजभां क्कं लवे ते जधे आधये नथी, वर्तमानभां जधते नथी जने लविध्यभां जे लप तेने आधये पण नदी ? आ प्रभाजे आठ प्रभरूप विकरपो छे

तेने ज्जवाल आपता भदाधीर प्रभु क्कं छे क- गोयमा ! भवागरिसं पशुष्व अत्येगए षधी षपइ षचिस्सइ" हे गौतम ! भवाकर्षणी अपेक्षाजे क्कं ज्जेव लवे ऐर्यापधिकं कर्म जांधुं छे ते जापे छे जने ते जांधये. (अनेक लवेभा उपशमश्रेणी आदिनी प्राप्तिधी ऐर्यापधिकं कर्म पुद्गलद्वैने बद्धपु करवा तेनु नाम भवाकर्ष छे) आ भवाकर्षणी अपेक्षाजे जे क्कं लवे पडेता ऐर्यापधिकं कर्म जांधुं जाय छे जेव लप वतमानभां पण तेने जापे छे जने लविध्यभां पण जांधये. आ पडेता विकल्प छे (एवं तं चेव सञ्च जाव अत्येगए न षधी, न षपइ, न षचिस्सइ जेव प्रभाजे प्रभ

वद्धवान् न बध्नाति, न भन्त्स्यति४, अस्त्येककः कश्चित् न वद्धवान्, बध्नाति, भन्त्स्यति५, अस्त्येककः कश्चित् न वद्धवान्, बध्नाति, न भन्त्स्यति६, अस्त्येककः न वद्धवान्, न बध्नाति, अपि तु भन्त्स्यति७, अस्त्येककः कश्चित् न वद्धवान्, न बध्नाति, न वा भन्त्स्यति८, इति भावः। अत्रेदं बोध्यम्—प्रथमविकल्पोक्तः कश्चिज्जीवः पूर्वभवे उपशान्तमोहत्वे सति ऐर्यापथिकं कर्म वद्धवान्, वर्तमानभवे चोपशान्तमोहत्वे बध्नाति, भाविभवे चोपशान्तमोहावस्थायाम् भन्त्स्यति, इति प्रथमो विकल्पः १। द्वितीयः पुनर्यः पूर्वस्मिन् भवे उपशान्तमोहत्वं लब्धवान्, वर्तमानभवे च क्षीणमोहत्वं प्राप्तः स पूर्वं वद्धवान्, वर्तमाने च बध्नाति, शैलेश्यवस्थायां पुनर्न भन्त्स्यति२, तृतीयस्तु पूर्वजन्मनि उपशान्तमोहत्वे वद्धवान्, उपशान्तमोहात् मच्युतो न बध्नाति, अनागते चोपशान्तमोहत्वं यदा प्रतिपत्स्यते

लेना चाहिये—यहां तक कि कोई एक जीव ऐर्यापथिक कर्म न भूतकाल में बांधा है न वर्तमान में बांधता है और न भविष्यत्काल में बांधेगा। यहाँ पहले और आठवें भंग का ग्रहण किया है,—शेष बीच के छह भंग प्रश्न वाक्य से समझ लेना चाहिये—अतएव टीकाकार ने 'एवं तं चेव सव्वं जाव ऐसा कहा है अब वे आठों भंग यहाँ दिखलाये जाते हैं—भूतकाल में जिस किसी जीव ने ऐर्यापथिक कर्म को बांधा है, वह वर्तमान में इसे बांधता है, आगे भी बांधेगा १, कोई एक जीव ऐसा है कि जिसने पहिले ऐर्यापथिक कर्म का बंध किया होता है, वर्तमान में वह उसका बंध करता है और आगे वह उसका बन्ध नहीं रहेगा २, कोई एक जीव होता है जिसने पहिले इसका बंध किया है, पर वर्तमान काल में वह उसका बंध नहीं करता और भविष्यत् में वह उसका बंध करेगा

सूत्रेणा भताव्या प्रमाणे णीण विकल्पे पणु समञ्ज देवा. आठमो विकल्प आ प्रमाणे समञ्जोः—“ कौडि ओक एवे ऐर्यापथिक कर्म भूतकालमा बांध्युं नथी, वर्तमानमां बाधते नथी अने लविध्यमा पणु बांधशे नही. ” अर्द्धी पडेले अने आठमो विकल्प आपवामां आव्ये छे भाडीना छ विकल्पे प्रश्न वाक्य उपरथी समञ्ज देवाना छे, तेथी न सूत्रकारे “ एवं तं चेव सव्वं ” ओज प्रमाणे भाडीतु समस्त कथन समञ्जुं, ओम कहु छे हुवे ते आठ विकल्प नीचे आपवामां आवे छे—

(१) भूतकालमां जे एवे ऐर्यापथिक कर्म बांध्यु छे ते वर्तमानमां पणु तेने बाधे छे अने लविध्यमा पणु बाधशे (२) जे एवे भूतकालमा ऐर्यापथिक कर्मना बंध कथी डाय छे, ते वर्तमानमां तेना बंध करे छे अने लविध्यमां ते तेना बंध नही करे. (३) जे एवे भूतकालमा तेना बंध कथी

तदा मन्त्स्यति ३, चतुर्थ्यं पुनः शैलेशीर्षकाले वद्वान्, शैलेश्यवस्यायां च न
 वध्नाति, न च मन्त्स्यति ४ । पञ्चमस्तु पूर्वजन्मनि उपशान्तमोहत्वस्यालम्बत्वात्
 न वद्वान्, इदानीं च सररुन्धत्वात् वध्नाति, पुनरपि मधिष्यत्काले उतशान्त-
 मोहाद्यवस्यायां मन्त्स्यतीति ५ । षष्ठस्तु पूर्वमवे क्षीणमोहत्वस्यासम्भत्वे न वद्वान्,
 इदानीन्तु क्षीणमोहत्वस्य लम्बत्वात् वध्नाति, शैलेश्यवस्यायां न पुनर्मन्त्स्यति इति
 षष्ठ्यं ६ । सप्तमस्तु मध्यस्य भवति, सहि अनादौ काले न वद्वान्, अधुनाऽपि न
 वध्नाति, काष्ठान्तरे पुनर्भाविनि मन्त्स्यतीति ७ । अष्टमस्तु अमध्यस्य भवति,
 स हि पूर्वमपि पेर्यापयिक कर्म न वद्वान्, न चाधुना वध्नाति, न वा भाविनि
 काले मन्त्स्यतीति ८, भावः । अथ च ' गहणागरिसं पञ्चव अत्येगए नधी,

३. कोई एक जीव ऐसा होता है कि पूर्व में इसका वध किया है, वर्त-
 मान में इसे नहीं बांधता है और भविष्यत् में भी वह इसे नहीं बांधेगा
 ४। कोई एक जीव ऐसा होता है कि जिसने पूर्वकाल में इसका वध
 नहीं किया है, वर्तमान में इसका वध करता है और भविष्यत् में भी
 यह उसका वध करेगा ५। कोई एक जीव ऐसा होता है कि जिसने
 मृतकाल में इसका वध नहीं किया, वर्तमान में वध करता है और
 भविष्यत् में यह इसका वध नहीं करेगा ६। किसी जीव ने मृतकाल
 में इसका वध नहीं किया है और वर्तमान में नहीं करता है किन्तु
 भविष्यत् में करेगा ७। कोई जीव ऐसा होता है कि इसका वध न मृत
 काल में किया है, न वर्तमान में करता है और न भविष्यत्काल में कर-
 गा ८। ये आठमग होते हैं।

ॐ, ते एव वतमानमां तेनां वधं करोती नधीं अने भविष्यमां ते तेनां
 वधं करोती (४) कोऽपि जेक एव जेवो दोष उ के जेवे मृतकालमां तेनां
 वधं करोती उ, पञ्च वतमानमां करोती नधीं अने भविष्यमां पञ्च करोती नधीं
 (५) कोऽपि जेक एव जेवो दोष उ के जेवे मृतकालमां तेनां वधं करोती नधीं,
 वर्तमानकालमां जेव एव तेनां वधं करोती उ अने भविष्यमां पञ्च ते तेनां
 वधं करोती. (६) कोऽपि जेक एव जेवो दोष उ के जेवे मृतकालमां तेनां
 वधं करोती नधीं, वतमानमां तेनां वधं करोती उ पञ्च भविष्यमां तेनां वधं करोती
 नधीं (७) कोऽपि जेक एव जेवो दोष उ के जेवे मृतकालमां तेनां वधं करोती
 नधीं, वतमानमां पञ्च करोती नधीं पञ्च भविष्यमां तेनां वधं करोती (८) कोऽपि
 जेक एव जेवो दोष उ के जेवे मृतकालमां तेनां वधं करोती नधीं, वर्तमा-
 नमां पञ्च करोती नधीं अने भविष्यमां पञ्च करोती नधीं

ऐर्यापथिककर्म के बन्ध का तीनों काल संबन्धी कोष्टक

	भूत	वर्तमान	भविष्यत्
१	किया	करता है	करेगा
२	किया	करता है	नहीं करेगा
३	किया	नहीं करता है	करेगा
४	किया	नहीं करता है	नहीं करेगा
५	नहीं किया	करता है	करेगा
६	नहीं किया	करता है	नहीं करेगा
७	नहीं किया	नहीं करता है	करेगा
८	नहीं किया	नहीं करता है	नहीं करेगा

इन सब विकल्पों का सारांश इस प्रकार से है—प्रथम विकल्प में जो कहा गया है—सो वहाँ ऐसा समझना चाहिये—कि कोई एक ऐसा अवेदक जीव कि जिसका पूर्वभव में मोह उपशान्त हो गया था, उसने ऐर्यापथिक कर्म का बंध उस समय वहाँ किया था—और अब वर्तमान

ऐर्यापथिक कर्मबंधना त्रये काल संबन्धी कोष्ठो—

विकल्पोना कर्म	भूतकाल	वर्तमानकाल	भविष्यकाल
१	कर्यो छे	करे छे	करशे
२	कर्यो छे	करे छे	नहीं करे
३	कर्यो छे	करतो नथी	करशे
४	कर्यो छे	करतो नथी	नहीं करे
५	नथी कर्यो	करे छे	करशे
६	नथी कर्यो	करे छे	नहीं करे
७	नथी कर्यो	करतो नथी	करशे
८	नथी कर्यो	करतो नथी	नहीं करे

आ अधां विकल्पोना भावार्थ नीचे प्रमात्रे छे—पडेला विकल्पमां ने ने वात कडेवाभां आवी छे तेना भावार्थ आ प्रमात्रे छे—कोई एक अवेदक एव के नेना पूर्वभवमां मोह उपशात थरि गयो हतो तेले ते समये त्यां ऐर्यापथिक कर्मना बंध कर्यो हतो, अने वर्तमानकाले पणु ने तेनी अंहर

भयमें भी मोहकी उपशान्तता उसमें है, अतः इससे यह इस समय भी उसका बंध कर रहा है तथा भयिमय में भी यह मोह की उपशान्तता होने पर इसका बंध करेगा १, पूर्वभय में किसी अवेदक जीव ने ११वें गुणस्थान मोह की उपशान्त अवस्था में प्राप्त किया मो वहाँ उसने उस समय ऐर्षापथिक कर्म का बंध किया, भय वही जीव अतमानभय में १२ वें क्षीणमोह गुणस्थान को प्राप्त करके मोह की क्षीणतावाला बन रहा है—ऐसी स्थिति में यह वर्तमान में भी ऐर्षापथिक कर्म का बंध कर रहा है—पर अथ यह अवेदक शैलेशी अवस्था में आरुह हो जावेगा तब इसे बंध नहीं बांधेगा—इस प्रकार से यह द्वितीयविकल्प का स्पष्टार्थ है—तृतीय विकल्प में ऐसा समझाया गया है—किसी अवेदक जीवने पूर्वभय में मोह के उपशान्त होने पर इस सांपरायिक कर्म का बंध किया था, पर जब यह उस ११ वें गुणस्थान से पतित हो गया—तब यह इस अतमान समय में उसका बंध नहीं करता है, और जब यह भयिप्यत् काल में उपशान्त मोहवाला होगा—तो इसका बंध करलेगा ३, चतुर्थ विकल्प में ऐसा समझाया गया है—कि अवेदक जीव अवतर्क शैलेशी अवस्थावाला नहीं था—तबतक इसके पहिले उसने ऐर्षापथिककर्म

मोहनी उपशान्तता होय, तो ते वर्तमान समये पञ्च तेने जन्म करतो होय
 छे जने अविध्यमा पञ्च मोहनी उपशान्तता रहे तो त्पारे पञ्च ते तेने जन्म करये

जीव विकल्पने आवाध—पूर्वभयमां होय अवेदक एवे मोहनी उप
 शान्त अवस्थामां ११ गुं शुचुस्थान प्राप्त कसुं होय तो त्पारे तेवे जैर्षा
 पथिक कर्मना जन्म कये होय छे, हवे जेज एव वर्तमानभवमां १२ मां
 क्षीणमोह शुचुस्थानने प्राप्त करीने मोहनी क्षीणतावाजे आहु रह्यो छे—जेवी
 स्थितिमां वर्तमानमां पञ्च ते जैर्षापथिक कर्मना जन्म करे छे पञ्च त्पारे
 जेज एव अविध्यमा शैलेशी अवस्थाजे पडोव्यो जये, त्पारे ते जैर्षापथिक
 कर्म जाधये नही

तीम विकल्पनुं स्पष्टीकस्यु—होय अवेदक एवे पूर्वभवमां मोह उप
 शान्त वध ज्वाधी जैर्षापथिक कर्मना जन्म कये हतो पञ्च ते ११ मां शुचु
 स्थानेधी नीचे उतरी जाने क्षीणे वर्तमानमाजे तेने जन्म करतो नथी जने
 जे ते अविध्यमागमा उपशान्त मोहवाजे धये तो ते तेने जन्म करये.

श्याया विकल्पनुं स्पष्टीकस्यु—अवेदक एव ज्यां शुधी शैलेशी अवस्था
 वाजे धये न हतो त्पारे शुधी तेवे जैर्षापथिक कर्मना जन्म करतो नही.

का बंध किया था—शैलेशी अवस्था में आजाने पर अब वह इसका बंध नहीं करता है न अब वह आगे भी इसका बंध करेगा, पंचमविकल्पमें ऐसा समझाया गया है—कि पूर्वभव में किसी अवेदक जीव को मोहकी उपशान्तता प्राप्त नहीं हो सकी अतः उस समय ऐर्यापथिक कर्म का बंध नहीं हो सका, अब इस भव में उसी जीव का इस उपशान्त मोहत्व की प्राप्ति हो गई है—सो उसके ऐर्यापथिक कर्म का बंध हो रहा है तथा भविष्यत् काल में भी वह मोह की उपशान्तता में इसका बंध करने वाला होगा ५, छठे विकल्प में ऐसा समझाया गया है—कि किसी अवेदक जीव को पहिले भव में क्षीणमोहत्व की प्राप्ति नहीं हुई सो उसे उस समय इसका बंध नहीं हुआ, वर्तमान भव में उसे क्षीणमोह की प्राप्ति हो रही है अतः इससे वह इसे बांध रहा है, पर जब वही जीव शैलेशी अवस्था में आरूढ हो जावेगा तो इसका बांधकर्ता नहीं होगा सातवां विकल्प तो भव्य को होता है—भव्य जीव ने अनादिकाल से अभीतक इसे नहीं बांधा है, अभी भी वह इसे नहीं बांध रहा है, भविष्यत्काल में जब वह उपशान्त मोहादि अवस्थावाला

अवस्थाभां आवी नवाधी हुवे ते तेनो अंध करतो नथी अने लविष्यभां पणु ते तेनो अंध करशे नही.

पात्रभां विकल्पनुं स्पष्टीकरणु—पूर्वभवभां कोष्ठ अेक एव मोहनी उपशान्तता प्राप्त करी शक्यो न इतो, तेथी त्त्यारे तेणु ऐर्यापथिक कर्मनो अंध कर्यो न इतो, पणु वर्तमानभवभां तेणु मोहनी उपशान्तता प्राप्त करी लीधी छे, तेथी ते वर्तमानभां ते आ कर्मनो अंध बांधी रह्यो छे. अने लविष्यभां पणु मोहनी उपशान्तता रहेवाधी ते आ कर्मनो अंध करशे

छठ्ठा विकल्पनुं स्पष्टीकरणु—कोष्ठ अवेदक एवे पूर्वभवभा क्षीणमोहत्वनी प्राप्ति करी न इती, तेथी त्त्यारे तेणु आ कर्मनो अंध कर्यो न इतो, वर्तमानभवभा तेने क्षीणमोहत्वनी प्राप्ति थछ रही छे, तेथी ते वर्तमानभा तेना अध करी रह्यो छे, पणु लविष्यभां न्त्यारे अेक एव शैलेशी अवस्थाअे यदी नशे, त्त्यारे ते तेनो अंध करशे नही.

सातभां विकल्पनुं स्पष्टीकरणु—लव्य एवने आ विकल्प दागु पडे छे. लव्य एवे अनादि काणथी अत्थार सुधी तेने आध्यो नथी, अत्थारे पणु ते तेने आधतो नथी, लविष्यकाणभा न्त्यारे ते उपशान्त मोहादिवानी अवस्थावाणो थछ नशे, त्त्यारे तेनो अंधकर्ता थछ नशे.

વંચદ્, વંચિસ્સદ્ ' દે ગૌતમ ! ગ્રહણાકર્ષમ્ એકસ્મિન્નેવ મથે યેર્ણાપયિકકર્મપુદ્ગમાનો
 ગ્રહણરૂપ આકર્ષ્ય ગ્રહણાકર્ષમ્ત પ્રતીત્ય આશ્રિય મન્વ્યેકક કશ્ચિત્ત્રીણો વદવાન્,
 વચ્નાતિ, મન્ત્સ્યતિ ચ ૧ ' એવં જાવ અત્યેગદ્ એ ન વધી, વંચદ્, વચિસ્સદ્, એવં
 પૂર્વોક્તરીત્યા યાવત્-યાવત્પદેન ઢિ િયાદારમ્ય વતુર્થમદ્વર્પન્તમત્ર વાગ્યદ્, પચ્ચમ-
 માયમ્-અસ્ત્યેકક કશ્ચિત્-ન વદવાન્ વચ્નાતિ, મન્ત્સ્યતિ, ઇતિ। અય ઢિતીયાદારમ્ય
 પચ્ચમમદ્વર્પન્તમેકૈકશઃ મદ્વર્પ્યતે અસ્ત્યેકક કશ્ચિત્ વદવાન્, વચ્નાતિ ન મન્ત્સ્યતિ
 ૨, અસ્ત્યેકક કશ્ચિત્ વદવાન્, ન વચ્નાતિ, મન્ત્સ્યતિ ૩, અસ્ત્યેકક કશ્ચિત્ વદ

હો જાયેગા-તો હસકા વ ધકર્તા હો જાયેગા । અષ્ટમ વિકલ્પ અમલ્ય કો
 હોતા હૈ-અમલ્ય જીવ વહિછે ણી યેર્ણાપયિક કર્મ કા વ ધ નહીં કિયા
 હોતા હૈ, વર્તમાન મેં ણી વહ હસ કર્મ કા વ ધ નહીં કરતા હૈ ઓર ન
 આગામીકાલ મેં ણી વસે હસ કર્મ કા વ ધ હોતા હૈ । અથ ગ્રહણાકર્ષ્ય કો
 એક હી મથ મેં યેર્ણાપયિક કર્મ પુદ્ગલો કે ગ્રહણરૂપ આકર્ષ્ય કો-આશ્રિય
 કરકે કિસી એક જીવ ને હસકા વ ધ કિયા હૈ, વર્તમાન મેં વહ હસે વાંચ
 રહા હૈ આગે કે સમયો મેં ણી વહ હસકા વ ધ કરેગા ૧, ' એવં જાવ
 અત્યેગદ્ એ ન વધી, વ ધદ્, વ ચિસ્સદ્ ' હસી પૂર્વોક્ત રીતિ કે અનુસાર
 યાવત્-કિસી એક જીવ ને હસકા વ ધ કિયા હૈ, વ ધ કર રહા હૈ, આગે
 વહ હસકા વ ધ નહીં કરેગા ૨, કિસી એક જીવ ને પૂર્વ મેં હસે વાંચા હૈ,
 વર્તમાન મેં વહ હસે નહીં વાંચ રહા હૈ-આગે વહ હસે વાંચેગા ૩, કિસી

આકર્ષ્ય વિકલ્પ-અમલ્યને લાગુ પડે છે અમલ્ય હવે પડેલાં પણ
 યેર્ણાપયિક કર્મને બધ કર્યો હોતો નથી વતમાનમાં પણ તે આ કર્મને
 બધ કરતો નથી અને ભવિષ્યમાં પણ તે આ કર્મને બધ કરશે નહીં

હવે મહત્વાકાંક્ષી અપેક્ષાએ (એક જ ભવમાં યેર્ણાપયિક કર્મ પુદ્ગલોને
 પ્રકલ્પ કરવાહુપ આકર્ષ્યની અપેક્ષાએ) કોઈ એક હવે જૂતકાળમાં તેને બધ
 કર્યો છે, વર્તમાનમાં પણ તેને બધ કરે છે અને ભવિષ્યમાં પણ તેને બધ
 કરશે, આ પહેલો વિકલ્પ છે (૧) (એવં જાવ અત્યેગદ્ એ ન વધી વ ધદ્ વ ચિસ્સદ્)
 એ જ પૂર્વોક્ત રીતે આશ્રિયા વિકલ્પો અને છે (૨) કોઈ એક હવે તેને બધ
 કર્યો છે, વર્તમાનમાં કરી રહ્યો છે અને ભવિષ્યમાં તે તેને બધ કરશે નહીં
 (૩) કોઈ એક હવે પૂર્વ તેને (યેર્ણાપયિક કર્મને) વાંચ્યું છે વતમાનમાં
 તે આ કર્મ વાંચતો નથી ભવિષ્યમાં તે તેને બધશે (૪) કોઈ એક હવે

वान्, न बध्नाति, न भन्त्स्यति ४, अस्त्येककः कश्चित् न बद्धवान्, बध्नाति, भन्त्स्यति ५, ' णो चेव णं न बंधी, बधइ, न बंधिस्सइ ' किन्तु नो चैव नैव खलु कश्चिज्जीवो न बद्धवान् न वा भन्त्स्यति अपि तु बध्नाति ६, इति पठो विकल्पो न संभवत्येव, एतस्य तत्त्वं स्पष्टीकरणसमयेऽग्रे विवेचयिष्यते, ' अत्येगइए न बंधी, न बधइ, बंधिस्सइ ' अस्त्येककः कश्चित् न बद्धवान्, न बध्नाति अपि तु भन्त्स्यति ७, अत्येगइए न बंधी, न बधइ, न बंधिस्सइ ' अस्त्येककः कश्चित् ग्रहणाकर्षको जीवः ऐर्यापधिकं कर्म न बद्धवान्, न बध्नाति, न वा भन्त्स्यति ८ इतिभावः,

एक जीव ने पूर्व में इसे बांधा है, वर्तमान में वह इसे नहीं बांध रहा है आगे भी वह इसे नहीं बांधेगा ४, किसी एक जीव ने पहिले इसे नहीं बांधा, अब इसे बांध रहा है, आगे भी बांधेगा ५, ' णो चेव णं न बंधी बधइ, न बधिस्सइ ' ऐसा नहीं है कि " किसी जीव ने इसे नहीं बांधा नहीं बांधेगा किन्तु वह बांध रहा है " ऐसा वह छठा विकल्प नहीं बनता है। इस विषय को हम जब इसका स्वरूप स्पष्ट करने लगेंगे तब कहेंगे ' अत्येगइए न बधी न बधइ, बधिस्सइ ७ ' कोई जीव ऐसा होता है कि जिसने पूर्व में इसका बंध नहीं किया है, न वह वर्तमान में इसका बंध कर रहा है—पर आगे इसका बंध करेगा—' अत्येगइए न बंधी न बधइ, न बधिस्सइ ' कोई एक ऐसा जीव है—कि जिसने पहिले इसका बंध नहीं किया है, वर्तमान में वह इसका बंध नहीं कर रहा है और न आगे भी वह इसका बंध करेगा ८।

पूर्व तेने आंध्युं छे, वर्तमानमा ते तेने आंधतो नथी अने लविण्यमा आधशे नडीं (५) कोधं अेक एवे पूर्वे आ कर्म आंध्युं नथी, वर्तमानमा आधे छे अने लविण्यमा पणु आधशे (णो चेव णं न बधइ, बधइ, न बंधिस्सइ " कोधं एवे ते कर्मअध आंध्यो नथी, आंधशे नडीं, पणु वर्तमानमा आंधी रह्यो छे, " आ प्रकारनेो छडु विकल्प अडीं अनतो नथी. तेनु स्वइप स्पष्ट करती वणते आ आभवतु कारणु आपवामा आवशे.

(७) " अत्येगइए न बधी, न बधइ, बधिस्सइ " कोधं एव अेवो डोय छे के जेणु लूतकाणमा अैर्यापधिक कर्मनेो अंध कर्यो डोतो नथी, वर्तमानमा पणु करतो नथी, परन्तु लविण्यमां ते तेनेो अंध करशे. (८) " अत्येगइए न बधी, न बधइ, न बधिस्सइ " कोधं एव अेवो डोय छे के जेणु लूतकाणमा तेनेो अंध कर्यो डोतो नथी, वर्तमानमां पणु करतो नथी अने लविण्यमा पणु करशे नडीं.

अपेक्ष तत्त्वम्—प्रथमवैकल्पिको ग्रहणाकर्षको जीव उपशान्तमोहादि र्यदा ऐर्ष्या पथिक कर्म बद्ध्वा बध्नाति तदा अतीतकालापेक्षया बद्धवान्, वर्तमानकालापेक्षया च बध्नाति, भविष्यत्कालापेक्षया तु मन्त्स्यति इति १, द्वितीयस्तु केवली अतीतकाले बद्धवान्, वर्तमानकाले च बध्नाति, शैलेश्यवस्थायान्तु न मन्त्स्यतीति २, तृतीयः पुनरुपशान्तमोहत्वे बद्धवान्, उपशान्तमोहस्वात्प्रच्युतस्तु न बध्नाति, पुनस्तत्रैव मये उपशमश्रेणीं प्रतिपन्नो मन्त्स्यतीति एकमवेऽपि उपशमश्रेणीं चारद्वयं

यद्वा ऐसा समझना चाहिये—प्रथम विकल्प मर्षणी ग्रहणाकर्षक-उपशान्तमोहादिबाला जीव ऐर्ष्यापथिक कर्मको बांधकर उसे बांधता है तब वह अतीतकाल की अपेक्षा से उसका बाधनेवाला बन जाता है और वर्तमानकाल की अपेक्षा से वह उसे बांध रहा है ऐसा बन जाता है तथा भविष्यत्कालकी अपेक्षासे वह उसे बांधेगा ऐसा बन जाता है। द्वितीय विकल्प केवलीकी अपेक्षासे है केवलीने ऐर्ष्यापथिक कर्म को अतीतकालमें बांधा है—वर्तमानमें वे उसे बांध रहे हैं पर शैलेशी अवस्था में वे उसे नहीं बांधगे। तृतीय विकल्पमें उपशान्तमोहकी दशा में जीवने इस ऐर्ष्यापथिक कर्मका बंध किया है, पर जब वह उससे प्रच्युत हो जाता है। तब इसका बंध उसे नहीं होता है और जब वही जीव पुन उसी भव में उपशमश्रेणी पर आसक्त हो जावेगा—तब उसका बंध करने लगेगा। उपशम श्रेणी की प्राप्ति जीव को एक भव में दो चार तक हो सकती

बहुला विकल्पानुं स्पष्टीकरण—अद्वयत्वं (अथ च भवमां ऐर्ष्यापथिक कर्मपुनर्भवाने अद्वयं इत्या इय आक्षयं) नी अपेक्षाके उपशान्त मोहवाये एव न्यारे ऐर्ष्यापथिक कर्म जांपीने आ कर्मने अथ जांपि छे, त्यारे अतीत (भूत) कालनी अपेक्षाके ते तेना अथक जखाम छे, वर्तमानकालमां ते तेना अथक जनी रहे छे अने भविष्यमा पखु ते तेना अथक जनये. वीजे विकल्प केवलीनी अपेक्षाके आभ्ये छे केवलीके ऐर्ष्यापथिक कर्म तेना भूतकालमां जांभु दोष छे, वर्तमानमां पखु तेजे ते कर्म जांपि छे, पखु भविष्यमा शैलेशी अवस्थामां तेजे तेने जांधये नही। तृतीय विकल्प जे जतावे छे के पूव उपशान्त मोहनी दशाभा एवे ऐर्ष्यापथिक कर्मने अथ कथीं छतो, पखु वर्तमानकाले ते उपशान्त मोहवाजे नही नही (तेमांधी प्रच्युत भर्त्त गये छे) तेथी वर्तमानमां ते एव ते अथ करते नथी, पखु जे एव शरीथी जेव भवमां न्यारे उपशम श्रेणीके अती नये त्यारे तेना अंध करवा मांशये. उपशम श्रेणीनी प्राप्ति एवने जेव भवमां चभारेभा चभारे वे चार भाव छे.

प्राप्यते एवेति ३, चतुर्थस्तु सयोगित्वे वद्धवान्, शैलेश्यवस्थायां न वध्नाति, न वा भन्त्स्यतीति ४, पञ्चमः पुनरायुषः पूर्वभागे उपशान्तमोहत्वादेरलब्धत्वात् न वद्धवान्, अधुना तस्य लब्धत्वात् वध्नाति, तद्द्वया एव च भविष्यत्समये पुनर्भन्त्स्यतीति ५, षष्ठस्तु न भवत्येव, तत्र न वद्धवान्, अपि तु वध्नाति इत्यनयोरुपपद्यमानत्वेऽपि न भन्त्स्यतीत्यस्य अनुपपद्यमानत्वात्, तथाहि-आयुषः पूर्वभागे उपशान्तमोहत्वादेरलब्धत्वात् न वद्धवान्, तल्लाभसमये च वध्नाति,

है। चतुर्थ विकल्प में सयोगी अवस्था में जीव ने इसे बांधा है, शैलेशी अवस्था में पहुँचने पर वह उसे नहीं बांधता है, और आगे भी फिर यह उसे नहीं बांधेगा। पंचमविकल्प में आयु के पूर्वभाग में उपशान्त मोहादि की अलब्धता होने से जीव ने पहिले इसे नहीं बांधा है, वर्तमान में अभी उपशान्त मोहादि की लब्धता में यह उसे बांध रहा है, और आगे भी वह बांधेगा 'किसी जीव ने पहिले इसे नहीं बांधा है, नहीं वह इसे बांधेगा, अपितु अब वह इसे बांध रहा है' ऐसा जो यह विकल्प है वह नहीं बनता है यद्यपि "न वद्धवान्, अपि तु वध्नाति" ये दो बातें बन सकती हैं-फिर भी "न भन्त्स्यति" यह बात नहीं बनती है इस विषय में स्पष्टीकरण इस प्रकार से है-आयु के पूर्वभाग में उपशान्तमोह आदि की अलब्धता होने से जीव ने पहिले इसे नहीं बांधा है, और जब उपशान्त मोहादि की जीव को लब्धता हो जाती है

थोथो विकल्प अये अतावे छे के एवे सयोगी अवस्थाभां आ कर्मनो अंध क्यो छतो, वर्तमानभां शैलेशी अवस्थाअे पडोच्यता ते आ अंध आंधतो नथी अने लविष्यभां पञ्च इरीथी आ अंध आंधशे नडीं पांचभां विकल्पभां अबुं प्रतिपादन करवाभां आबुं छे के आयुष्यना पूर्वकाणभां उपशान्त मोहादिनी प्राप्ति नडीं थवाथी एवे ते अंध आंध्यो न छतो अने वर्तमानभां तेने उपशांतमोहनी प्राप्ति थछं जवाथी ते आ कर्मनो अंध करे छे अने लविष्यभां पञ्च ते आ कर्मनो अंध करशे. "कोछं एवे पडेलो आ कर्मनो अंध क्यो नथी, लविष्यभां करशे पञ्च नडीं, परन्तु वर्तमानभां ते आ कर्मनो अंध करी रह्यो डोय छे." आवो छुठो विकल्प अडीं अनी शकतो नथी जे के "न वद्धवान्, अपि तु वध्नाति" आ जे वातो अनी शके छे परन्तु "न भन्त्स्यति" आ वात अनती नथी. तेनुं स्पष्टीकरषु आ प्रभाषे छे-आयुनी पूर्ववस्थाभां उपशान्त मोहादिनी प्राप्ति नडीं थवाथी एवे त्तारे अयोपथिक कर्मनो अंध क्यो न छतो. वर्तमानभां तेने उपशान्त मोहादिनी प्राप्ति करी छे, तेथी डालभां ते

अपेक्षे तत्त्वम्—प्रथमवैकल्पिको ग्रहणाकर्षको जीव उपशान्तमोहादि यदा ऐर्ष्या पथिक कर्म बद्ध्वा घट्नाति तथा अतीतकालापेक्षया बद्धवान्, वर्तमानकालापेक्षया च घट्नाति, भविष्यत्कालापेक्षया तु मत्स्यति इति १, द्वितीयस्तु केवली अतीतकाले बद्धवान्, वर्तमानकाले च घट्नाति, श्लेशयत्रस्यायान्तु न मन्स्यतीति २, तृतीयः पुनरुपशान्तमोहत्वे बद्धवान्, उपशान्तमोहत्वात्प्रच्युतस्तु न घट्नाति, पुनस्तमेव मवे उपशमभ्रेणी मतिपन्नो मन्स्यतीति, एकमवेऽपि उपशमभ्रेणी पारद्वये

यहा ऐसा समझना चाहिये—प्रथम विकल्प स्वर्षी ग्रहणाकर्षक-उपशान्तमोहादिवाला जीव ऐर्ष्यापथिक कर्मको बाधकर उसे पांजता है तब वह अतीतकाल की अपेक्षा से उसका बांधनेवाला घन जाता है और वर्तमानकाल की अपेक्षा से वह उसे बांध रहा है ऐसा घन जाता है तथा भविष्यत्कालकी अपेक्षासे वह उसे बांधेगा ऐसा घन जाता है। द्वितीय विकल्प केवलीकी अपेक्षासे है केवलीने ऐर्ष्यापथिक कर्म को अतीतकालमें बांधा है—वर्तमानमें वे उसे बांध रहे हैं पर शैलेशी अवस्था में वे उसे नहीं बांधेंगे। तृतीय विकल्पमें उपशान्तमोहकी दशा में जीवने इस ऐर्ष्यापथिक कर्मका बंध किया है, पर जब वह उससे प्रच्युत हो जाता है। तब इसका बंध उसे नहीं होता है और जब वही जीव पुनः उसी भव में उपशमभ्रेणी पर आरूढ़ हो आवेगा—तब उसका बंध करने लगेगा। उपशम भ्रेणी की प्राप्ति जीव को एक भव में दो बार तक हो सकती

पक्षेला विकल्पानु सपथीकरण—अच्छवाक्यं (अथ च भवमां जैर्ष्यापथिक कर्मपुद्गलद्वेने अच्छवा क्त्वा रूप आक्यं) नी अपेक्षासे उपशान्त मोहवायो एव न्यारे जैर्ष्यापथिक कर्म बांधीने आ कर्मने अथ अपि छे, त्यारे अतीत (भूत) कालनी अपेक्षासे ते तेने अथक अयुक्त छे वर्तमानकालमां ते तेने अथक अनी रहे छे अने भविष्यमां पक्ष ते तेने अथक अनये. जीने विकल्प केवलीनी अपेक्षासे आभ्यो छे केवलीजे जैर्ष्यापथिक कर्म तो भूतकालमां बांधु होय छे, वर्तमानमां पक्ष तेजे ते कर्म बांधि छे, पक्ष भविष्यमां शैलेशी अवस्थामां तेजे तेने बांधये नहीं। तृतीय विकल्प जे जतावे छे के पूव उपशान्त मोहनी दशामां एवे जैर्ष्यापथिक कर्मने अथ कर्मो कतो, पक्ष वर्तमानकाले ते उपशान्त मोहवायो रह्यो नहीं (तेमाधी प्रच्युत कर्म जयो छे) तेधी वर्तमानमां ते एव ते अथ करतो नहीं, पक्ष जे एव शरीर्यी जेव भवमां न्यारे उपशम भ्रेणीजे बंधी लये त्यारे तेने अथ क्त्वा बांधये. उपशम भ्रेणीनी प्राप्ति एवने जेक भवमां न्यारेमां न्यारे से बार बाध छे.

प्राप्यते एवेति ३, चतुर्थस्तु सयोगित्वे वद्ववान्, शैलेश्यवस्थायां न वध्नाति, न वा भन्त्स्यतीति ४, पञ्चमः पुनरायुषः पूर्वभागे उपशान्तमोहत्वादेरलब्धत्वात् न वद्ववान्, अधुना तस्य लब्धत्वात् वध्नाति, तद्द्वयाया एव च भविष्यत्समये पुनर्भन्त्स्यतीति ५, षष्ठस्तु न भवत्येव, तत्र न वद्ववान्, अपि तु वध्नाति इत्यनयोरुपपद्यमानत्वेऽपि न भन्त्स्यतीत्यस्य अनुपपद्यमानत्वात्, तथाहि—आयुषः पूर्वभागे उपशान्तमोहत्वादेरलब्धत्वात् न वद्ववान्, तल्लाभसमये च वध्नाति,

है। चतुर्थ विकल्प में सयोगी अवस्था में जीव ने इसे बांधा है, शैलेशी अवस्था में पहुँचने पर वह उसे नहीं बांधता है, और आगे भी फिर यह उसे नहीं बांधेगा। पंचमविकल्प में आयु के पूर्वभाग में उपशान्त मोहादि की अलब्धता होने से जीव ने पहिले इसे नहीं बांधा है, वर्तमान में अभी उपशान्त मोहादि की लब्धता में यह उसे बांध रहा है, और आगे भी वह बांधेगा 'किसी जीव ने पहिले इसे नहीं बांधा है, नहीं वह इसे बांधेगा, अपितु अब वह इसे बांध रहा है' ऐसा जो यह विकल्प है वह नहीं बनता है यद्यपि "न वद्ववान्, अपि तु वध्नाति" ये दो बातें बन सकती हैं—फिर भी "न भन्त्स्यति" यह बात नहीं बनती है इस विषय में स्पष्टीकरण इस प्रकार से है—आयु के पूर्वभाग में उपशान्तमोह आदि की अलब्धता होने से जीव ने पहिले इसे नहीं बांधा है, और जब उपशान्त मोहादि की जीव को लब्धता हो जाती है

शैलेशी विकल्प में अतावे छे के लवे सयोगी अवस्थायां आ कर्मना अंध कर्यो इतो, वर्तमानमां शैलेशी अवस्थाये पडोयता ते आ अंध आंधतो नथी अने लविष्यमां पञ्च इरीथी आ अंध आंधशे नडी. पाचमां विकल्पमां अंबुं प्रतिपादन करवामां आंयुं छे के आयुष्यना पूर्वकाणमां उपशान्त मोहादिनी प्राप्ति नडीं थवाथी लवे ते अंध आंध्ये न इतो अने वर्तमानमां तेने उपशान्तमोहनी प्राप्ति थछे जवाथी ते आ कर्मना अंध करे छे अने लविष्यमां पञ्च ते आ कर्मना अंध करशे. "कोछे लवे पडेलीं आ कर्मना अंध कर्यो नथी, लविष्यमां करशे पञ्च नडी, परन्तु वर्तमानमां ते आ कर्मना अंध करी रह्यो होय छे." आवो छुठो विकल्प अडीं अनी शकतो नथी जे के "न वद्ववान्, अपि तु वध्नाति" आ जे वातो अनी शके छे परन्तु "न भन्त्स्यति" आ वात अनती नथी. तेनुं स्पष्टीकरञ्च आ प्रमाण्ये छे—आयुनी पूर्ववस्थायां उपशान्त मोहादिनी प्राप्ति नडीं थवाथी लवे त्त्यारे अौर्यापथिक कर्मना अंध कर्यो न इतो. वर्तमानमां तेने उपशान्त मोहादिनी प्राप्ति करी छे, तेथी क्षाणमां ते

ततोऽनन्तरसमयेषु च भन्त्स्पतीव, न तु न भन्त्स्पतीति, ममयमाप्रस्य पन्वन्पहा
 भावात्, मोहोपशमनिर्ग्रयस्य समयानन्तरमरणेन ऐर्यापधिककर्मणश्चरुपः समय
 मात्रस्तु न पद्यतिकल्पहेतु रामवति, ग्रहणाकर्षस्यैव प्रकृते प्रकान्तत्वे न तदनन्त
 रैर्यापधिककर्मपन्व्यामात्रस्य भवान्तरवर्तित्वात्, यदि तु सयोगिचरमसमये बध्नाति
 ततोऽनन्तरं न भन्त्स्पतीति उच्यते तदा मयोगिचरममये यद् बध्नाति तद्वन्ध
 पूर्वकमेव स्यात् नात्र पपूर्वमिति तत्पूर्वसमय तस्य पश्चत्वात् द्वितीय एव

-तय वह इसे बांधता है-इस तरह से यह कथन तो बन सकता है-
 परन्तु "अनन्तर समयों में भी यह इसे नहीं बांधेगा" यह कथन नहीं
 बनता है-क्यों कि उपशान्त मोहादि की लब्धता के अनन्तर समयों में
 भी यह उसे बांधेगा ही कारण समयमात्र बंध का यहाँ अभाव है।
 अतः 'नहीं बांधेगा' यह बात नहीं बनती है। मोहोपशमनिर्ग्रय का
 समयानन्तर में मरण हो जान से ऐर्यापधिक कर्मबन्ध का समयमात्र
 छोटे भग का हेतु हो जायेगा सो ऐसी बात भी नहीं कहनी चाहिये-
 क्यों कि यहाँ पर ग्रहणाकर्षक का ही प्रकरण चल रहा है इसलिये
 तदनन्तर समय में जो ऐर्यापधिक कर्म के बंध का अभाव होगा वह तो
 भवान्तरवर्ती कहलावेगा। यद्यपि सयोगी के चरम समय में इस
 ऐर्यापधिक कर्म का बंध जीव करता है-अनन्तर समयों में फिर वह
 उसका बंध नहीं करेगा-इस तरह से यदि इस छोटे भग को बनाने के
 लिये कहा जावे-तो ऐसा कहना भी नहीं बनता है-क्यों कि सयोगी

ज्या जध करी श्यो छे ज्या प्रकान्ती वे वात तो सजवी शके छे, परन्तु
 "ज्यामुनी उत्तरावस्थाभां पञ्च ते तेने नदीं अपि" ज्या वात सजवी शकती
 नदीं कान्च के उत्तरान्त मोहादिनी लब्धता (माप्ति) ना अनन्तर (पछीना)
 समयोभां पञ्च ते ज्या कमनो अंध करी ज कान्च के समय मात्र अंधनो
 त्यां अभाव छे तेवी 'जाधये नदी' जेनी वात सजवी शकती नदीं
 मोहापशम निर्ग्रयनुं समयान्तरभां मरण यध अवाधी ऐर्यापधिक कर्मबंधनो
 समय मात्र छोटा चित्तपनो हेतु (कान्च) जनी जरी. तेवी जेवी वात पञ्च
 कहेवी जेधजे नदीं कान्च के नदीं प्रकृत्याकर्षनुं प्रकृत्य ज वाती रहुं छे
 त्थारजाहना समयभां जे ऐर्यापधिक कर्मबंधनो अभाव करी, ते तो अवान्तर
 वर्ती जवारी. जे के सयोगीना चरम समयभां ज्या ऐर्यापधिक कर्मनो जध
 छव करे छे अनन्तर समयोभां ते करीवी तेनो जध नदीं करे-ज्या प्रकान्ती
 परिस्थितिभां ज्या छोटा अंध जनी शके जेध कहेवुं ते पञ्च अशान्त नदीं,

विकल्पे पर्यवसानं स्यात् न षष्ठो विकल्पः इति भावः, सप्तमस्तु भव्यविशेषस्य ७, अष्टमस्तु अभव्यस्य इति ८। अत्र भवाकर्षापेक्षेषु अष्टमृ विकल्पेषु 'बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ' इति प्रथमे विकल्पे उपशान्तमोहः१, 'बंधी, बंधइ, न बंधिस्सइ' इति द्वितीये क्षीणमोहः२, 'बंधी, न बंधइ, बंधिस्सइ' इति तृतीये उपशान्तमोहः३, 'बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ' इति चतुर्थे शैलेशीगतः४, 'न बंधी, बंधइ बंधिस्सइ' इति पञ्चमे उपशान्तमोहः५, 'न बंधी, बंधइ, न बंधिस्सइ' इति षष्ठे क्षीण-

के चरम समय में जो जीव ऐर्यापथिक कर्म का बंध करता है वह उसके बंध पूर्वक ही करता है अवन्धपूर्वक नहीं करता है अतः जब वह उसे बांधकर उसका बंध करता है तो यह कथन तो द्वितीय भंग में ही आ जाता है—फिर इसके लिये छठे भंगको स्वतंत्र बनानेकी क्या आवश्यकता है। सातवां भंग भव्य विशेष की अपेक्षा से है। और आठवां भंग अभव्य की अपेक्षा से है। भवाकर्ष के जो आठ विकल्प कहे गये हैं—उनमें जो यह (बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ) प्रथम विकल्प है वह उपशान्त मोहवाले जीव की अपेक्षा से है, (बंधी, बंधइ, न बंधिस्सइ) ऐसा जो द्वितीय विकल्प है वह क्षीणमोहवाले जीव की अपेक्षा से है, (बंधी न बंधइ, बंधिस्सइ) यह तृतीय विकल्प उपशान्त मोहवाले की अपेक्षासे है, (बंधी न बंधइ न बंधिस्सइ) यह चतुर्थ विकल्प शैलेशी गत जीवकी अपेक्षा से है, (न बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ) ऐसा जो यह पांचवां विकल्प है वह उपशान्त मोहवाले जीव की अपेक्षा से है, (बंधी, बंधइ,

कारणु के सयोगीना अरभ समयमां ने एव ऐर्यापथिक कर्मना बंध करे छे, ते तेना बंधपूर्वक न करे छे—अबधपूर्वक करतो नथी. तेथी ज्यारे तेने बांधीने तेना बंध करे छे, तो अबु कथन तो भीज्ज बंगमां पणु आवी भय छे. तो पछी तेने भाटे छट्टे स्वतंत्र विकल्प बनाववानी शी नइर छे ? सातमे विकल्प अव्यविशेषनी अपेक्षाये क्हो छे, अने आठमे विकल्प अव्यविशेषनी अपेक्षाये क्हो छे. भवाकर्षना ने आठ विकल्पे क्ह्यां छे तेमाने। “ बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ ” आ पडेवे विकल्प उपशान्त मोहवाणा एवनी अपेक्षाये क्हो छे. “ बंधी, बंधइ, न बंधिस्सइ ” आवो ने भीजे विकल्प छे ते क्षीण मोहवाणा एवनी अपेक्षाये क्हो छे, “ बंधी, न बंधइ, बंधिस्सइ ” आवो नीजे ने विकल्प छे ते उपशान्त—मोहवाणा नी अपेक्षाये क्हो छे “ बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ ” आ येथे विकल्प शैलेशी अवस्थावाणा एवने अनुलक्षीने क्हो छे. “ न बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ ” आ पांचमे विकल्प उपशान्त मोहवाणा एवने अनुलक्षीने क्हो छे. “ बंधी, बंधइ, न बंधिस्सइ ”

મોહ:૬, 'ન વધી ન વંધઈ, વંધિસ્સઈ' इति सप्तमे भग्न्य:७, 'न वंधी, न वंधइ, न वधिस्सइ' इति अष्टमे भग्न्य:८, ग्रहणाकृपापेक्षेषु पुनरेतेषु प्रथमे विकल्पे उपशान्त मोह क्षीणमोहो वा १, द्वितीये पुन केवली २, तृतीये क्षुपशान्तमोह:३, चतुर्थे शैलेशी गत:४, पञ्चमे उपशान्तमोह ५, क्षीणमोहो वा ६, षष्ठ: शून्य: , सप्तमे भग्न्यो माविमो- होपक्षमा: , माविमोहस्यो वा ७, अष्टमे पुनरभग्न्य एवेति फलितम् । अथ पर्यापविक

न वधिस्सइ) यह छठा विकल्प क्षीणमोहवाले जीव की अपेक्षा से है (न वधी, न वधइ, वधिस्सइ) यह सातवां विकल्प भग्न्य जीव की अपेक्षा से है, (न वधी, न वधइ, न वधिस्सइ) यह आठवां विकल्प अमग्न्य जीव की अपेक्षा से है । इसलिये प्रथम विकल्प में उपशान्त मोहवाला जीव, द्वितीय विकल्प में क्षीण मोहवाला जीव, तृतीय में उपशान्त मोहवाला जीव, चतुर्थ में शैलेशीगत जीव, पंचम में उप शान्त मोहवाला जीव, छठे में क्षीणमोहवाला जीव सप्तम में भग्न्य और अष्टम में अमग्न्य गृहीत हुए हैं । इसी तरह से ग्रहणाकृपविक्ष इन्हीं आठों विकल्पों में से प्रथम विकल्प में उपशान्तमोहवाला जीव, अथवा क्षीण मोहवाला जीव, द्वितीय विकल्प में केवली, तृतीय विकल्प में उपशान्तमोही जीव, चतुर्थ में शैलेशीगत जीव, पंचम में उपशान्त मोही जीव, अथवा क्षीणमोही जीव, छठे भंग में शून्य, सप्तम विकल्प में भग्न्य जिसके मोह का उपशम होने वाला है, अथवा मोह का क्षय होनेवाला है आठवें विकल्प में अमग्न्य जीव गृहीत हुए हैं । अब पर्या-

या છૂટો વિકલ્પ ક્ષીણ-મોહવાળા જીવની અપેક્ષાએ કર્યો છે " ન વધી, ન વંધઈ, ન વધિસ્સઈ " આ સાતમો વિકલ્પ ભગ્ન્ય જીવની અપેક્ષાએ કર્યો છે " ન વધી, ન વંધઈ ન વધિસ્સઈ " આ આઠમો વિકલ્પ અમગ્ન્ય જીવની અપેક્ષાએ કર્યો છે તેથી પહેલા વિકલ્પમાં ઉપશાન્ત મોહવાળો જીવ, બીજા વિકલ્પમાં ક્ષીણ-મોહવાળો જીવ, ત્રીજા વિકલ્પમાં ઉપશાન્ત મોહવાળો જીવ, ચોથા વિકલ્પમાં શૈલેશીગત જીવ પાંચમો વિકલ્પમાં ઉપશાન્ત મોહવાળો જીવ, છઠ્ઠા વિકલ્પમાં ક્ષીણ-મોહવાળો જીવ સાતમામાં ભગ્ન્ય જીવ અને આઠમમાં અમગ્ન્ય જીવ ગ્રહણ કરવામાં આવેલ છે આ રીતે પ્રહણાકૃપની અપેક્ષાએ જનતાં આઠ વિકલ્પોમાંના પહેલા વિકલ્પમાં ઉપશાન્ત મોહવાળો અથવા ક્ષીણ મોહવાળો જીવ બીજા વિકલ્પમાં કેવલી, ત્રીજા વિકલ્પમાં ઉપશાન્ત મોહવાળો જીવ, ચોથામાં શૈલેશીગત જીવ, પાંચમાં વિકલ્પમાં ઉપશાન્ત મોહવાળો જીવ અથવા ક્ષીણમોહવાળો જીવ, છઠ્ઠા ભાગમાં શૂન્ય સાતમામાં ભગ્ન્ય મોહનો ઉપશમ થવાનો છે એવો ભગ્ન્ય જીવ અને આઠમાં વિકલ્પમાં અમગ્ન્ય જીવ ગ્રહીત થયેલ છે

बन्धमेव प्ररूपयितुमाह—‘ त भंते ! किं साइय सपज्जवसियं बंधइ ? ’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! तत् ऐर्यापथिकं कर्म किं सादिकं सपर्यवसितं बध्नाति ? १ ‘ साइयं अपज्जवसियं बंधइ ? ’ किं वा सादिकम् अपर्यवसितं बध्नाति ? २ अणाइयं सपज्जवसियं बंधइ ’ किं वा अनादिकं सपर्यवसितं बध्नाति ? ३ ‘ अणाइयं अपज्जवसियं बंधइ ’ किं वा अनादिकम् अपर्यवसितं बध्नाति ? ४, इति चतुर्विकल्पेषु ऐर्यापथिककर्मणः प्रथमे एव विकल्पे बन्धो भवति नान्तिमेषु त्रिषु, इत्यभिप्रायेण भगवानाह—‘ गोयमा ! साइयं सपज्जवसियं बंधइ, ’ हे गौतम ! ऐर्यापथिकं कर्म सादिकं सपर्यवसितं बध्नाति ‘ णो साइयं अपज्जवसियं बंधइ ’ नो सादिकम् अपर्यवसितं बध्नाति, ‘ णो अणाइयं सपज्जवसियं बंधइ ’ नो वा अनादिकं सपर्यवसितं बध्नाति, ‘ णो अणाइयं अपज्जवसियं बंधइ ’ नापि अनादिकम् अपर्यवसितं

पथिक कर्म को जीव कैसा बांधता है ? इस विषय को गौतम प्रभु से पूछते हैं—(तं भंते ! किं साइयं सपज्जवसियं बंधइ ?) हे भदन्त ! उस ऐर्यापथिक कर्म को क्या जीव सादि सपर्यवसित बांधता है ? या (साइयं अपज्जवसियं बंधइ) सादि अपर्यवसित बांधता है ? (अणाइयं सपज्जवसियं बंधइ) या अनादि सपर्यवसित बांधता है ? या (अणाइयं अपज्जवसियं बंधइ) अनादि अपर्यवसित बांधता है ? इस तरह से ये ऐर्यापथिक कर्मबन्ध के विषय में चार विकल्प हैं—इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! (साइयं सपज्जवसियं बंधइ) जीव-ऐर्यापथिक कर्म का बंध सादि सपर्यवसित रूप में करता है, अन्यतीन विकल्पों के रूप में नहीं करता है—(णो साइयं अपज्जवसियं बंधइ, णो अणाइयं सपज्जवसियं बंधइ, णो अणाइयं अपज्जवसियं बंधइ) यही

७३वे गौतमस्वामी महावीर प्रभुने पूछे छे डे—(तं भंते ! किं साइयं सपज्जवसियं बंधइ ?) हे भदन्त ! शु सादि (सादि सडित) सपर्यवसित इपे एव ऐर्यापथिक कर्म बाधे छे ? (साइयं अपज्जवसियं बंधइ ?) डे सादि अपर्यवसित इपे एव तेने बाधे छे ? (अणाइयं सपज्जवसियं बंधइ ?) डे अनादि सपर्यवसित इपे एव तेने बाधे छे ? (अणाइयं अपज्जवसियं बंधइ ?) डे अनादि अपर्यवसित इपे एव तेने बाधे छे ? आ रीते ऐर्यापथिक कर्म-बंध विषे चार विकल्पे छे

उत्तर—(गोयमा !) हे गौतम ! (साइयं सपज्जवसियं बंधइ) एव ऐर्यापथिक कर्मना बंध सादि अपर्यवसित इपे ए करे छे—भीला त्रले विकल्पे करते नथी. अत्र वात सूत्रकारे (णो साइयं अपज्जवसियं बंधइ, णो अणाइयं सपज्जवसियं बंधइ, णो अणाइयं अपज्जवसियं बंधइ) आ सूत्र पदे द्वारा प्रकट करी छे

घनाति, सादिरनादिः सपर्यवसितोऽपर्यवसितश्च पूर्व प्ररुपित एव । गौतम पृच्छति-
 ' सं संवे । किं देसेण वेस वधइ ? ' हे भदन्त ! सत् ऐयापधिकं कर्म किं देसेन-
 जीवदेसेन जीवस्यैकदेसेनेत्पर्याः, देसं-कर्मदेश कर्माश्रमित्यर्याः घनाति ? ' देसेन
 सव्व वंधइ ' किं वा देसेन जीवसंगंशेन सर्वं समग्रं कर्म घनाति ? ' सव्वेण वेसं
 वंधइ ' किं वा सर्वेण सर्वात्मना वेस कर्माश्रं घनाति ? ' सव्वेणं सव्व वंधइ ? '
 किं सर्वेण सर्वं सर्वात्मना समग्रं कर्म घनाति ? इत्यादिरीत्या चतुर्भङ्गा प्रश्नाः,
 एव जीवदेसेन कर्मणो दशाः, सर्वं वा कर्म न वध्यते, एव जीवसर्वात्मना वा कर्म
 णो दशो न वध्यत, अपित् सर्वात्मना जीवेन सर्वमेव कर्म वध्यते जीवस्य तथा
 स्वमाप्तत्वादित्यभिप्रायेण भगवानाह--'गोयमा ! णो देसेण वेस वंधइ, णो देसेन
 सव्वं वंधइ, णो सव्वेण वेसं वंधइ, सव्वेणं सव्व वंधइ ' हे गौतम ! नो देसेन

यात इन सुवर्णद्वारा प्रकट की गई है। अथ गौतमस्वामी प्रश्न से (त
 अन्ते ! किं देसेणं वेस वंधइ) इत्यादि यात पूछते हैं-इसमें ऐसा पूछा
 है कि हे भदन्त ! जीव जो ऐयापधिक कर्म को वांधता है सो वह अपने
 एक देश से उस ऐयापधिक कर्म के एक देश को वांधता है ? या
 (देसेणं सव्वं वंधइ) या अपने एकदेशसे उस समस्त ऐयापधिक कर्म
 को वांधता है ? या (सव्वेणं वेसं वंधइ) अपने समस्तदेश से ऐयापधिक
 के अंश को वांधता है ? या (सव्वेणं सव्व वंधइ) अपने समस्तदेश से
 समस्त ऐयापधिक कर्मांशों को वांधता है ? इसके उत्तर में प्रश्न गौतम
 से कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! (णो देसेणं वेस वंधइ, णो देसेणं
 सव्वं वंधइ, णो सव्वेण वेसं वंधइ, सव्वेणं सव्व वंधइ) जो पूर्वोक्त रूपसे
 चतुर्भङ्गी द्वारा प्रश्न किये गये हैं-उस विषय में समाधान ऐसा है कि
 जीव अपने समस्त देश से ऐयापधिक कर्म को सम्पूर्ण रूप से वांधता

गौतम स्वामीने प्रश्न--(त संवे ! किं देसेण वेसं वंधइ ?) के उत्तर
 में एव के ऐयापधिक कर्म आपि छे ते शु पीताना जेक देशधी तेना
 (ऐयापधिक कर्माना) जेक देशने आपि छे ? के (देसेण सव्व वंधइ ?)
 पीताना जेक देशधी शु ते समस्त ऐयापधिक कर्मने आपि छे ? के (सव्वे
 ण वेस वंधइ ? पीताना समस्त देशधी ऐयापधिक कर्मना जेथिने आपि छे ?
 (सव्वे ण सव्व वंधइ ?) पीताना समस्त देशधी ऐयापधिक कर्मांशिने
 आपि छे ? तेना उत्तर आपत्ता भवतीर प्रश्न कहे छे के--(गोयमा) हे
 गौतम ! (णो देसेण वेस वंधइ णो देसेणं सव्व वंधइ णो सव्वेणं वेस
 वंधइ सव्वेणं सव्व वंधइ) एव पीताना समस्त देशधी ऐयापधिक कर्मने
 अपूर्ण रूप आपि छे, ते तेना जेक देशधी (जेथि) ते कर्मना जेक जेथिने

जीवांशेन देशं कर्मांशं बध्नाति, नो वा देशेन जीवांशेन सर्वं समग्रं कर्म बध्नाति, नो वा सर्वेण सर्वात्मना देशं कर्मांशं बध्नाति, अपितु सर्वेण सर्वात्मना सर्वं कर्म बध्नातीति भावः ॥ सू० ३ ॥

सांपरायिककर्मबन्धवक्तव्यता

अथ सांपरायिक कर्मबन्धं, निरूपयितुमाह—' संपराइयं णं ' इत्यादि ।

मूलम्—संपराइयं णं भंते ! कम्मं किं नेरइओ बंधइ, ति-
रिक्खजोणिओ बंधइ, जाव देवी बंधइ ? गोयमा ! नेरइओ वि
बंधइ, तिरिक्ख जोणिओ वि बंधइ, तिरिक्खजोणिणी वि बंधइ,
मणुस्सो वि बंधइ, मणुस्सी वि बंधइ, देवो वि बंधइ, देवी वि
बंधइ । तं भंते ! किं इत्थी बंधइ, पुरिसो बंधइ, तहेव जाव नो-
इत्थीनोपुरिसनोनपुंसओ बंधइ ? गोयमा ! इत्थी वि बंधइ,
पुरिसो वि बंधइ, जाव नपुंसगो वि बंधइ, अहवेए य
अवगयवेदो य बंधइ, अहवेए य अवगयवेया य बंधंति, जइ
भंते ! अवगयवेयो य बंधइ, अवगयवेया य बंधंति तं भंते !
किं इत्थीपच्छाकडो बंधइ, पुरिसपच्छाकडो बंधइ ? एवं जहेव
ईरियावहियाबंधगस्स तहेव निरवसेसं जाव अहवा इत्थी
पच्छाकडा य, पुरिसपच्छाकडा य, नपुंसगपच्छाकडा य
बंधंति । तं भंते ! किं बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ १, बंधी, बंधइ,

है—एसा नहीं है—कि जीव अपने एकदेशसे इस कर्म के एकदेश का
अथवा सर्वदेश का बध करे या अपने सर्वदेश से इसके एक अंश का
बध करे । वह तो अपने सर्वांश से इसके सर्वांशका बध करता है । सू० ३ ।

ठे समस्त अशोनेो अंध करतो नथी, अने ते तेना सर्व अशोथी ते कर्मा
अेक अंशनेो यषु अंध करतो नथी, आ रीते " पोतना सर्वाशोथी तेना
सर्वाशोनेो अंध करे छे " अेवा बोधा विक्कपनेो रवीक्षर करवाभां आयेो छे ॥ सू० ३ ॥

न, वधिस्सइ२, वधी, न वधइ, वधिस्सइ३, वधी न वधइ, न
 वधिस्सइ ४, ? गोयमा ! अत्थे गइए वधी, वधइ, वधिस्सइ?
 अत्थेगइए वधी, वधइ, न वधिस्सइ२, अत्थेगइए वधी, न
 वधइ, वधिस्सइ३, अत्थेगइए वधी, न वधइ, न वधिस्सइ, त
 भते ! किं साइय सपज्जवसिय वधइ०? पुच्छा तहेव, गोयमा !
 साइय वा सपज्जवसिय वधइ, अणाइय वा सपज्जवसिय वधइ
 अणाइय वा अपज्जवसिय वधइ, णो चेव ण साइय अपज्जवसिय
 वधइ । त भते ! किं देसेण देस वधइ, एव जहेव ईरियावहिया
 वधगस्स जाव सव्वेण सव्व वधइ ॥ सू० ४ ॥

छाया—सांपरायिक स्वल्प मद्दन्त ! कर्म किं नैरयिका वध्नाति ? तिर्यग्यो
 निको वध्नाति, यावत् देवी वध्नाति ? गौतम ! नैरयिकाऽपि वध्नाति, तिर्यग्यो
 निकोऽपि वध्नाति, तिर्यग्योनिकी अपि वध्नाति, मनुष्योऽपि वध्नाति, मनुषी अपि
 वध्नाति देवोऽपि वध्नाति, देवी अपि वध्नाति, तद् मद्दन्त ! किं स्त्री वध्नाति,

— सांपरायिक कर्मवन्धवस्तव्यता—

‘ सांपराइयं ण भते । कम्म किं नेरइओ वधइ ’ इत्यादि ।

सुत्रार्थ—(संपराइयं णं भते । कम्म किं नेरइओ वधइ तिरिकस्व
 जोणिओ वधइ, जाय दयी वधइ) हे मद्दन्त ! सांपरायिक कर्म को क्या
 नारक पापता है ? या तिर्यग्य वधता है ? या यावत् देवी पापती है ?
 (गोयमा) हे गौतम ! (नेरइओ यि वधइ, तिरिकस्वजोणिओ यि वधइ
 तिरिकस्वजोणिणी यि वधइ, मणुस्सो यि वधइ, मणुस्सी यि वधइ, दयो

सांपरायिक कर्मवन्धवस्तव्यता

‘ सांपराइयं ण भते । कम्म किं नेरइओ वधइ ’ इत्यादि—

सुत्रार्थ—(सांपराइयं णं भते । कम्म किं नेरइओ वधइ, तिरिकस्वजोणिओ
 वधइ जाय देवी वधइ ?) हे मद्दन्त ! सांपरायिक कर्म गुं नारक वापि ४ ?
 ४ गुं तिय अ वापि ४ ? ४ (यावत्) गुं देवी वापि ४ ? (गोयमा) हे गौ
 तम ! (नेरइओ यि वधइ तिरिकस्वजोणिओ यि वधइ तिरिकस्वजोणिणी यि वधइ
 मणुस्सो यि वधइ, मणुस्सी यि वधइ, देवी यि वधइ, देवी यि वधइ) सांपरा

पुरुषो बध्नाति, तथैव यावत् नोस्त्रीनोपुरुषनोनपुंसको बध्नाति ? गौतम ! स्त्री अपि बध्नाति, पुरुषोऽपि बध्नाति, यावत्-नपुंसकोऽपि बध्नाति, अथवा एते च अपगवेदश्च बध्नाति, अथवा एते च अपगतवेदाश्च बध्नन्ति । यदि भदन्त! अपगतवेदश्च

वि बंधइ, देवी वि बंधइ) नारक जीव भी सांपरायिक कर्म को बांधता है, तिर्यंच भी बांधता है ? तिर्यंच स्त्री भी बांधती है, मनुष्य भी बांधता है, मनुष्य स्त्री भी बांधती है, देव भी बांधता है और देवी भी बांधती हैं। (तं भंते ! किं इत्थी बंधइ, पुरिसो बंधइ तहेव जाव नोइत्थी, नो-पुरिसनोनपुंसओ बधइ) हे भदन्त ! सांपरायिक कर्म को क्या स्त्री बांधती है ? पुरुष बांधता है ? इसी तरह से क्या यावत् नो स्त्री, नो पुरुष और नो नपुंसक बांधता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (इत्थी वि बंधइ, पुरिसो वि बंधइ, जाव नपुंसगो वि बंधइ) सांपरायिक कर्म को स्त्री भी बांधती है, पुरुष भी बांधता है, यावत् नपुंसक भी बांधता है। (अहवेए य अवगय वेदोय बंधइ) अथवा ये और वेद रहित स्त्री वगैरह एक जीव भी बांधता है, (अहवेए य अवगयवेया य बंधति) अथवा-ये और वेदरहित अनेक जीव भी बांधते हैं। (जइ भंते ! अवगयवेयो य बंधइ, अवगयवेया य बंधंति, तं भंते ! किं इत्थी पच्छाकडो

यिक कर्म नारक एव पणु भाधे छे, तिर्यंच पणु भाधे छे, तिर्यंचिणी पणु भाधे छे, मनुष्य पणु भाधे छे, मनुष्य स्त्री पणु भाधे छे, देव पणु भाधे छे अने देवी पणु भाधे छे (तं भंते ! किं इत्थी बंधइ, पुरिसो बंधइ, तहेव जाव नो इत्थी नो पुरिसनो नपुंसओ बंधइ) हे भदन्त ! सांपरायिक कर्म शुं स्त्री भाधे छे ? शु पुरुष भाधे छे ? अथवा प्रमाणे शु नो स्त्री, नो पुरुष के नो नपुंसक भाधे छे ? ” त्या सुधीना पूर्वोक्त प्रश्नो अर्डी पणु अडणु करवा.

(गोयमा) हे गौतम ! (इत्थी वि बंधइ, पुरिसो वि बंधइ, जाव नपुंसगो वि बंधइ) सांपरायिक कर्म स्त्री पणु भाधे छे, पुरुष पणु भाधे छे, अने नपुंसक पर्यन्तना एव पणु भाधे छे. (अहवेएय अवगयवेदो य बंधइ) अथवा उपर्युक्त वेदसहित एवो तथा वेदरहित स्त्री वगैरे ओक एव पणु भाधे छे (अहवेए य अवगयवेया य बंधति) अथवा वेदसहित एवो तथा वेदरहित अनेक एवो पणु भाधे छे.

(जइ भंते ! अवगयवेयो य बंधइ, अवगयवेया य बंधंति, तं भंते ! किं इत्थीपच्छाकडो बंधइ, पुरिस पच्छाकडो बंधइ० ?) हे भदन्त ! नो आ सांप-



पश्नाति, अपगतवेदाश्च पश्नन्ति, तद् मद्न्त ! किं स्त्रीपश्नात्कृतो पश्नाति ? पुरुष-
पश्नात्कृतो पश्नाति ? एत यथैव ऐर्यापधिकव्ययस्य तथैव निरयस्य वास्तु यथा
स्त्रीपश्नात्कृतो पुरुषपश्नात्कृतो, नपुंसकपश्नात्कृतो पश्नन्ति, तद् मद्न्त ! किं

य धर, पुरिसपञ्चाकडा य धर०? हे भद्रत ! इस सांपरायिक कर्मको यदि
वेदरहित एक जीव याधता है या वेदरहित अनेक जीव याधते हैं तो जो जीव
स्त्रीपश्नात्कृत है वह याधता है या जो पुरुषपश्नात्कृत है वह याधता है ? या
जो नपुंसकपश्नात्कृत है वह याधता है ? इत्यादि । (गोयमा) हे गौतम !
(एवं जहेव ईरियाधियावपगस्त तहेव निरयसेस जाव अहवा
इत्थीपञ्चाकडा य, पुरिसपञ्चाकडा य, नपुंसगपञ्चाकडा य धरति)
जिस प्रकार ऐर्यापधिक क व्यय के विषय में कहा गया है उसी तरह
यहां पर " अथवा स्त्रीपश्नात्कृत, पुरुषपश्नात्कृत और नपुंसकपश्नात्कृत
अनेक जीव इसे याधते हैं " यहा तक जानना चाहिये । (त भते ! किं
य धी, य धर, य धिस्सइ) हे भद्रन्त ! उस सापरायिक कर्मको मूलकाल में
जीव ने याधा है वर्तमान में वह इसे याधता है और आगे याधेगा ? १,
(य धी, य धर, न य धिस्सइ) जीव ने इसे पहिले याधा है, वर्तमान में वह
याधता है, आगे वह इसे नहीं याधेगा २, (य धी, न य धर, य धिस्सइ)

शक्ति इमने वेदरहित कोक एव पद्य अपि छे अथवा वेदरहित अनेक एवो
अप्य अपि छे वा शुं स्त्री पश्नात्कृत एव तेने अपि छे ? के पुरुष पश्नात्कृत
एव तेने अपि छे ? के नपुंसक पश्नात्कृत एव तेने अपि छे ? इत्यादि
प्रश्नो जर्ही पद्य अर्थेषु ३२१।

(गोयमा) हे गौतम ! (एवं जहेव ईरियाधियावपगस्त तहेव निर-
यसेस जाव अहवा इत्थीपञ्चाकडा य पुरिसपञ्चाकडा य नपुंसगपञ्चाकडा य,
धरति) ऐर्यापधिक व्यय के विषय में प्रभाष्ये ठकेवाभां ज्ञान्यु छे ज्येव प्रभाष्ये
सांपरायिकता ज्येव विषय पद्य समस्त इयम समस्तु ' अथवा स्त्री पश्ना-
त्कृत पुरुष पश्नात्कृत अने नपुंसक पश्नात्कृत अनेक एवो पद्य तेने अपि
छे " जर्ही सुधीर्नु इमन अर्थेषु ३२१ (त भते ! किं य धी, य धर, य धिस्सइ)
हे भद्रन्त ! (१) सांपरायिक इमने ज्येव शुं एवे नृत्ताजमां इथी छे,
वर्तमानमां इरे छे अने अविज्यमां इरथे ? (य धी य धर न य धिस्सइ) (२)
एवे पदेला तेने ज्येव इथी छे वर्तमानमां ते तेने ज्येव इरे छे अने
अविज्यमां नर्ही इरे ? (य धी, न य धर य धिस्सइ) (३) के एवे पदेला तेने

वद्धवान्, भन्त्स्यति? वद्धवान्, वध्नाति, न भन्त्स्यति? वद्धवान्, न वध्नाति?,
वद्धवान्, न वध्नाति, न भन्त्स्यति? ४, गौतम ! अस्त्येकको वद्धवान्, वध्नाति,
भन्त्स्यति १, अस्त्येककः वद्धवान्, वध्नाति, न भन्त्स्यति २, अस्त्येकको वद्ध-
वान्, न वध्नाति, भन्त्स्यति ३, अस्त्येकको वद्धवान्, न वध्नाति, न भन्त्स्यति ४,
तद् भंते ! किं सादिकं सपर्यवसितं वध्नाति? पृच्छा तथैव, गौतम ! सादिकं वा

जीवने पहिले इसे बांधा है वह वर्तमान में नहीं बांधता है, आगे वह
इसे बांधेगा ? ३, (बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ) भूतकाल में इसे जीव
ने बांधा है वह अब इसे नहीं बांधता है और आगे भी वह इसे नहीं
बांधेगा ? ४, (गोयमा) हे गौतम ! (अत्येगइए बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ)
किसी एक जीव ने इसे पहिले भूतकाल में बांधा है । वर्तमान में वह
इसे बांधता है । आगे भी वह इसे बांधेगा । (अत्येगइए बंधी, बंधइ, न
बंधिस्सइ) तथा कोई एक जीव ऐसा होता है कि जिसने इसे पहिले
बांधा है, वर्तमान में वह इसे बांधता है आगे वह इसे नहीं बांधेगा २ ।
(अत्येगइए बंधी, न बंधइ, बंधिस्सइ) तथा कोई एक जीव ऐसा होता
है कि जिसने इसे पहिले बांधा है, वर्तमान से वह इसे नहीं बांधता है
आगे वह इसे बांधेगा ३ । (अत्येगइए बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ)
तथा कोई एक जीव ऐसा होता है कि जिसने इसे पहिले बांधा है वर्त-
मान में वह इसे नहीं बांधता है आगे भी वह इसे नहीं बांधेगा (तं
भंते ! किं साइयं सपज्जवसियं बंधइ० १, पुच्छा तहेव) हे भदन्त ! जीव

बंध कर्थां छे, वर्तमानमां करतो नथी, पणु भविष्यमां करशे ? (बंधी बंधइ
न बंधिस्सइ) (४) के भूतकाणमां एवे ते कर्मां भंध कर्थां छे, वर्तमानमां
करतो नथी अने भविष्यमां करशे नही ? (गोयमा !) हे गौतम ! (अत्ये
गइए बंधी, बंधइ, बंधिस्सइ) कोइ एक एवे भूतकाणमां ते कर्मां बांध्युं छे,
वर्तमानमां पणु ते तेने आधे छे अने भविष्यमां पणु ते बांधशे (अत्येग
इए बंधी, बंधइ, न बंधिस्सइ) तथा कोइ एवे एवे पणु डोय छे के नेणे
भूतकाणमां सांपरायिक कर्मां बांध्युं डोय छे, वर्तमानमां पणु तेने आधतो
डोय छे पणु भविष्यमां ते तेने नही आधे. (अत्येगइए बंधी, न बंधइ,
बंधिस्सइ) तथा कोइक एवे एवे डोय छे के नेणे भूतकाणमां तेने बांध्युं
डोय छे, वर्तमानमां ते तेने आधतो नथी अने भविष्यमां ते तेने बांधशे
(अत्येगइए बंधी, न बंधइ, न बंधिस्सइ) तथा कोइक एवे एवे डोय छे के
नेणे भूतकाणमां तेने बांध्युं डोय छे, वर्तमानमां ते तेने आधतो नथी अने
भविष्यमां आधशे नही.) (तं भंते ! किं साइयं सपज्जवसियं बंधइ० ? पुच्छा

सपर्यवसितं वचनाति, अनादिक वा सपर्यवसितं वचनाति, अनादिक वा अपर्यवसितं वचनाति, नो ष्वे सख्णसादिकम् अपर्यवसितं वचनाति, त्व् मदन्त ! किं देशेन देशे वचनाति, एवं यद्येव ऐर्यापयिकवन्धकस्य यावत् सर्वेण सर्वं वचनाति ॥ सू० ४ ॥


इस सांपरायिक कर्म को क्या सादि सपर्यवसितरूप में पांचता है ? इत्यादि प्रश्न ऐर्यापयिक कर्म के पांचने के विषय में जैसे किये गये हैं वैसे ही यहां पर भी करना चाहिये । (गोयमा) हे गौतम ! (साइय वा सपज्जवसिय वचइ, अणाइयं वा सपज्जवसिय वचइ, अणाइयं वा अपज्जवसियं वचइ, जो ष्वे णं साइयं अपज्जवसियं वचइ) हे गौतम ! इस कर्म को जीव सादि सपर्यवसित पांचता है, अनादि सपर्यवसित पांचता है और अनादि अपर्यवसित पांचता है परन्तु सादि अपर्यवसित रूप से नहीं पांचता है । (त भते ! किं देसेणं देसं वंचइ) हे मदन्त ! जीव इस कर्म को जो पांचता है सो क्या अपने एक देश से उसके एक देश को पांचता है ? इत्यादि प्रश्न पहिले की तरह यहां पर भी करना चाहिये । (एष जहेव ईरिया व्हिया वचगस्स जाव सख्णेणं सख्य वंचइ) हे गौतम ! जैसा कथन पहिले ऐर्यापयिक कर्म के वंच के विषय में कहा गया है, वैसे ही उत्तररूप कथन यहां पर भी जानना चाहिये—यावत् जीव अपने सर्वदेश से इस कर्म को सम्पूर्णरूप से पांचता है ।

तदेव) हे मदन्त ! शु एव आपराधिकं कर्मणि सादि सपर्यवसितं इति वाचिंते । अदी पञ्च ऐर्यापयिकं कर्मणा अथ विषेना प्रश्नेनेवां न वीत्त प्रश्नेना पञ्च समञ्च देव (गोयमा) हे गौतम ! (साइय वा सपज्जवसिय वचइ, अणाइयं वा सपज्जवसिय वचइ, अणाइयं वा अपज्जवसिय वचइ जो ष्वे णं साइयं अपज्जवसियं वचइ) आ कर्मणि एव सादि सपर्यवसितं इति वाचिंते, अनादि सपर्यवसितं इति पञ्च वाचिंते अनादि अपर्यवसितं इति पञ्च वाचिंते परन्तु सादि अपर्यवसितं इति वाचिंते नधी । (त भते ! किं देसेणं देसं वंचइ) हे मदन्त ! शु एव पीताना अथ देशी (अशधी) तेना अथ देशेने वाचिंते ? इत्यादि प्रश्नेने अदी पञ्च पूजवा अथ अथे । (एष जहेव ईरिया व्हिया वचगस्स जाव सख्णेणं सख्य वचइ) हे गौतम ! पदेत्ता ऐर्यापयिकं कर्मणा अथ विषे नेव कथन करवाभां आणु उ अणु न उत्तररूप कथन अदी पञ्च समञ्च देव ' एव पीताना अथ देशी आ कर्मणि अपूल इति वाचिंते ' त्या सुधीनु कथन अदी अदणु इत्यु

टीका—‘संपराह्यं णं भंते । कम्मं किं नेरइयो बंधइ ?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त । सांपरायिकं खलु कर्म संपरैति—संसारंपर्यटति जीवणभिरिति संपरायाः—कपायाः, स्तेपु भवं सांपरायिकं तच्चकर्मं किं नैरयिको वध्नाति ? ‘तिरिक्खजोणिओ बंधइ, जाव देवी वधइ ?’ किं वा तिर्यग्योनिको वध्नाति ? यावत्—किं वा तिर्यग्यो-निकी वध्नाति ? किं वा मनुष्यो वध्नाति ? किं वा मनुषी वध्नाति ? किं वा देवो वध्नाति, किं वा देवी वध्नाति ? इति सप्त प्रश्नाः । भगवान् प्राह—‘गोयमा । नेरइओ वि बंधइ’ हे गौतम ! सांपरायिकं कर्म नैरयिकोऽपि वध्नाति, ‘तिरिक्ख-

टीकार्थ—सूत्रकार ने इस सूत्र द्वारा सांपरायिक कर्म बंध के विषय की वक्तव्यता का कथन किया है—संपराय शब्द का अर्थ कषाय है क्योंकि कि जीव कषाय के निमित्त से ही संसार में परिभ्रमण करता है “संपरैति संसारं एभिः संपरायाः” ऐसी संपराय की व्युत्पत्ति है इन कषायों के होने पर जो कर्म होता है वह सांपरायिक कर्म है । इस कर्म के बंध का नाम सांपरायिक कर्म बंध है गौतम ने प्रभु से ऐसा पूछा है “संपराह्यं णं भंते ! कम्मं किं नेरइयो बंधइ” हे भदन्त ! सांपरायिक कर्म का बंध कौन करता है—क्या नारक करता है ? (तिरिक्खजोणियो वधइ) या तिर्यग्योनिक जीव करता है ? (जाव देवी बंधइ) यावत् देवी करती है ? यहां यावत् शब्द से “या तिर्यच्च स्त्री करती है, या मनुष्य करता है, या मनुष्य स्त्री करती है, अथवा देव करता है” इस पाठ का ग्रहण हुआ है । इस प्रकार से ये सात प्रश्न हैं । इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (नेरइओ वि बंधइ)

टीकार्थ—सूत्रकारे आ सूत्रद्वारा सांपरायिक कर्मबन्धना विषयतुं निरूपणं कथुं छे संपराय ओटले कषाय ते कषायने कारणे च एवने संसारमां परिभ्रमणं करवुं पडे छे “संपरैति संसारं एभिः संपरायाः” जेवी संपरायनी व्युत्पत्ति थाय छे. आ कषायोना सहभावो जावथी जे कर्म अथाय छे तेने सांपरायिक कर्म कडे छे अने ते कर्मना अथनु नाम सांपरायिक कर्मबन्ध छे जे ते कर्मबन्ध विषे गौतमस्वामी भडावीरप्रभुने नीचेना प्रश्नो पूछे छे—“संपराह्यं णं भंते ! कम्मं किं नेरइओ बंधइ ?” जे भदन्त ! सांपरायिक कर्मना अंध जोणु करे छे—शुं नारक करे छे ? जे “तिरिक्खजोणिओ बंधइ” तिर्यच्च योनीना एव करे छे ? “जाव देवी वधइ” तिर्यच्च योनीनी स्त्री जे मनुष्य करे छे ? जे मनुष्य स्त्री करे छे ? जे देव करे छे ? जे देवी करे छे ? आ प्रकारना सात प्रश्नो अही पूछवामा आया छे.



જોગિઓ વિ ધંધા ' તિર્યગ્યોનિકોઽપિ ધજ્નાતિ, ' તિરિક્સ્વજોગિણી વિ ધધા ' તિર્યગ્યોનિકી અપિ ધજ્નાતિ, ' મણુસ્તો વિ ધંધા ' મણુપ્યોઽપિ ધજ્નાતિ, ' મણુસ્તી વિ ધધા ' મણુપી અપિ ધજ્નાતિ, ' દેવો વિ ધંધા ' દેવોઽપિ ધજ્નાતિ, ' દેવી વિ ધધા ' દેવી અપિ ધજ્નાતિ, इति रीत्या यथा प्रश्न सप्त उत्तराण्यपि, किन्तु एतेषु मनुष्यमानुषीवर्जा पञ्च सकृपायत्वात् नियमतः साम्प्रदायिककर्मबन्धका एव भवन्ति, मनुष्यमनुष्यौ तु भजनया, सकृपायित्वे सति साम्प्रदायिक कर्म बन्धीतम् अकृपायित्वे तु न बन्धीत इत्याशय । अथ साम्प्रदायिककर्मवचनेनस्याप्येतेषां

सांप्रदायिक कर्म का यद्य नैरधिक मी करता है (तिरिक्स्वजोगिणो वि धधह) तिर्येष योनिक जीव भी करता है (तिरिक्स्वजोगिणी वि धधह) तिर्येष स्त्री भी करती है (मणुस्तो वि धधह) मनुष्य भी करता है, (मणुस्ती वि धधह) मनुष्य स्त्री भी करती है, (देवो वि धधह) देव भी करता है, (देवी वि धधह) देवी भी करती है इस प्रकार से ये पूर्वोक्त सात प्रश्नों के उत्तर हैं । किन्तु इनमें मनुष्य और मनुष्य स्त्री इनको छोड़कर पांच जीव कृपाय सहित होने से नियमतः सांप्रदायिक कर्म के यद्य ही होते हैं । मनुष्य और मनुष्य स्त्री ये दो सांप्रदायिक कर्म के यद्य भजना से होते हैं—अर्थात् जब ये कृपाय सहित होते हैं तब तो सांप्रदायिक कर्म यद्य करते हैं और जब कृपाय सहित नहीं होते हैं—तब सांप्रदायिक कर्म का यद्य नहीं करते हैं । अब सूत्रकार स्त्री आदि की अपेक्षा छेफर सांप्रदायिक कर्म यद्य की ही प्रस्पष्टताकरते

મહાવીરબ્રહ્મણે ઉત્તર—' ગોષમા ! ઠે ગૌતમ ! " નેરહમો વિ ધંધા " સાંપ્રદાયિક કર્મને બધ નાશક પણુ કરે છે, " તિરિક્સ્વજોગિણી વિ ધધા " તિર્યેષ યોનિક એવ પણુ કરે છે તિરિક્સ્વજોગિણી વિ ધધા " તિર્યેષિણી પણુ કરે છે ' મણુસ્તો વિ ધધા ' મનુષ્ય પણુ કરે છે " મણુસ્તી વિ ધધા " મનુષ્ય સ્ત્રી પણુ કરે છે ' દેવો વિ ધંધા ' દેવ પણુ કરે છે, ' દેવી વિ ધધા ' અને દેવી પણુ કરે છે પૂર્વોક્ત સાતે પ્રશ્નોના ઉત્તર આ પ્રમાણે છે પણ તે સાતેમાંથી મનુષ્ય અને મનુષ્ય સ્ત્રી સિવાયના બાકી પ્રકારના એવો કૃપાયસહિત દેવાને કાણે નિશ્ચયથી જ સાંપ્રદાયિક કર્મના બંધક દેાય છે. મનુષ્ય અને મનુષ્ય સ્ત્રી નિકર્યે તેના બંધક દેાય છે જ્યેઠહે ઠે બધારે તેઓ કૃપાયયુક્ત દેાય છે ત્યારે સાંપ્રદાયિક કર્મને બધ કરે છે પણ બધારે કૃપાય યુક્ત હોતા નથી ત્યારે તેનો બધ કરતા નથી.

એ સૂત્રકાર સ્ત્રી આદિની અપેક્ષાએ સાંપ્રદાયિક કર્મ બંધનું નિરૂપણ કરવા નિમિત્તે નીચેના પ્રશ્નોત્તરે આપે છે— ત મદે ! કિં હતી ધંધા

परूपयितुमाह—‘ तं भते ! किं इत्थी बंधइ, पुरिसो बंधइ, तहेव जाव नोइत्थी नोपुरिस नोनपुंसओ बंधइ ? ’ हे भदन्त ! तत् साम्परायिकं कर्म किं स्त्री बध्नाति ? किं वा पुरुषो बध्नाति ? तथैव ऐर्यापथिक कर्म बन्धवदेव यावत्—किं वा नपुंसको बध्नाति, किं वा स्त्रियः बध्नन्ति, पुरुषाः बध्नन्ति, नपुंसकाः बध्नन्ति, अथवा नोस्त्रीनोपुरुषनो नपुंसको बध्नाति ? भगवानाह—‘ गोयमा ! इत्थी वि बंधइ, पुरिसो वि बंधइ, जाव नपुंसगो वि बंधइ ’ हे गौतम ! सांपरायिकं कर्म स्त्री अपि बध्नाति, पुरुषोऽपि बध्नाति, यावत् नपुंसकोऽपि बध्नाति, स्त्रियोऽपि बध्नन्ति, पुरुषा अपि बध्नन्ति, नपुंसका अपि बध्नन्ति, नोस्त्रीनोपुरुषनोनपुंसकोऽपि बध्नाति, इति भावः, ‘ अहवेएय अवगयवेयो य बंधइ ’ अथवा

हैं—इसमें गौतम ने प्रभु से ऐसा पूछा है (तं भंते । किं इत्थी बंधइ, पुरिसो बंधइ, तहेव जाव नोइत्थी नोपुरिसो, नोनपुंसओ बंधइ) हे भदन्त ! उस साम्परायिक कर्म को क्या स्त्री बांधती है ? या पुरुष बांधता है ? या तथैव—ऐर्यापथिक कर्मबन्ध की तरह ही यावत्—नपुंसक बांधता है ? या स्त्रियां बांधती हैं ? या पुरुष बांधते हैं ? नपुंसक बांधते हैं ? अथवा जो नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक है वह बांधता है ? इन प्रश्नों के उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (इत्थी वि बंधइ, पुरिसो वि बंधइ, जाव नपुंसगो वि बंधइ) साम्परायिक कर्म स्त्री भी बांधती है, पुरुष भी बांधता है यावत् नपुंसक भी बांधता है, स्त्रियां भी बांधती हैं, पुरुष भी बांधते हैं, और नपुंसक भी बांधते हैं । तथा जो नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक है वह भी बांधता है । (अहवा एए य अवगयवेओ य बंधइ) अथवा ये पूर्वोक्त स्त्री आदिक बांधते हैं, तथा जो

पुरिसो बंधइ, तहेव जाव नो इत्थी, नो पुरिसो, नो नपुंसओ बांधइ ? ” हे भदन्त ! आ सांपरायिक कर्म थु स्त्री बांधे छे, के पुरुष बांधे छे, के नपुंसक बांधे छे ? के स्त्रीओ बांधे छे ? के पुरुषो बांधे छे ? के नपुंसको बांधे छे ? अथवा जे नो स्त्री, नो पुरुष के नो नपुंसक डोय ते बांधे छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! “ इत्थी वि बंधइ, पुरिसो वि बंधइ, जाव नपुंसगो वि बंधइ ” सांपरायिक कर्म स्त्री पणु बांधे छे, पुरुष पणु बांधे छे, नपुंसक पणु बांधे छे, स्त्रीओ पणु बांधे छे, पुरुषो पणु बांधे छे अने नपुंसको पणु आवे छे तथा नो स्त्री, नो पुरुष अने नो नपुंसक पणु ते कर्म बांधे छे. (अहवा एए य अवगयवेओय बंधइ) अथवा पूर्वोक्त स्त्री आदि छव पणु बांधे छे अने वेहरडित छव पणु ते कर्म

एत च स्र्यादयो वध्नन्ति, अपगतवेदश्च वध्नन्ति ' अथवा एष य अत्रगयवेयाप
 वधति ' अथवा एते च स्र्यादयो वध्नन्ति, अपगतवेदाश्च वध्नन्ति । अथमाश्रया-
 मत्र स्र्यादयो विवक्षितैकस्ववहुत्वाः पद सर्वदा साम्परायिकं कर्म वध्नन्ति, अप-
 गतवेदश्च कदाचिदेष वध्नाति, तस्य कदाचित्कत्वात् , अत एव स्र्यादयः वेदसहित
 अपि वध्नन्ति अपगतवेदा वेदरहिताश्चापि, ततश्च यदा अपगतवेदास्तदोच्यते-
 ' अथवा एत स्र्यादयो वध्नन्ति, अपगतवेदश्च वध्नाति, तस्य एकस्याऽपि समवात् ,
 अथवा एते स्र्यादयो वध्नन्ति, अपगतवेदाश्च वध्नन्ति तेषां बहुनामपि समवात् ।

जीव वेदरहित होते हैं वह भी मांगता है । (अथवा एष य अत्रगयवेयाप
 य वधति) ये स्त्री आदिक मांगते हैं और जो जीव वेदरहित होते हैं वे
 मांगते हैं । तात्पर्य इस कथन का इस प्रकार से है—जिनमें एकस्व और
 बहुस्व की विवक्षा की गई है ऐसे ये स्त्री आदि ६ गो सर्वदा साम्परायिक
 कर्म को मांगते हैं । परन्तु जो अपगत वेद वाला जीव है वह कदाचित्त
 ही इसे मांगता है । क्योंकि अपगतवेदता कदाचित्क है । इसलिये स्त्री
 आदि केवल वेदसहित अथवा में भी इसे मांगते हैं और जब कि
 अपगत वेद वाले हो जाते हैं—तब भी इसे मांगते हैं । इसलिये
 अपगतवेद वाले जीव इसे मांगते हैं इस अपेक्षा से " अथवा—ये स्त्री-
 आदिक जीव साम्परायिक कर्म मांगते हैं ऐसा कहा गया है । " " और
 जो अपगत वेदवाला जीव है वह इसे मांगता है " ऐसा जो कहा गया
 है वह एक जीव का लेकर कहा गया है—क्यों कि अपगत वेद वाला एक
 जीव भी हो सकता है । अर्थात् इन स्र्यादिकों में से कोई एक जीव
 वेदरहित भी हो सकता है और शेष जीव वेदसहित भी हो सकते हैं ।

आदि ७ (अथवा एष य अत्रगयवेयाप य वधति) अथवा पूर्वोक्त स्त्री आदि
 एते तया वेदरहित एते पञ्च साम्परायिकं कर्म जापि ७ आ कथनं तात्पर्य
 ये ७ के—अनेकत्व अने बहुत्वकी अपेक्षाके स्त्री आदि ७ तो साम्परायिकं कर्म
 सपदा जापि ७ परन्तु अपभ्रत वेदवागे। एत तो क्यारिक ७ ते कर्म जापि
 ७ कश्च ७ अपभ्रतवेदना क्यारिक सभवे ७ तेषां स्त्री आदि ७ वेद
 सदिन अपभ्रतामा पञ्च तेने जापि ७ अने क्यारि तेजे अपभ्रतवेदवागे। (वेदरहित)
 यए जापि ७ त्यारे पञ्च तेने जापि ७ तेषी अपभ्रतवेदवागे। एत तेने जापि ७ जे
 अपेक्षाके ' अथवा ते स्त्री आदि ७ साम्परायिकं कर्म जापि ७ " जेनु कडेवाभा
 आन्वु ७ अपभ्रतवेदवागे। एत तेने जापि ७, ' जेनु जे कडेवाभा आन्वु ७ ते
 जे ७ एतनी अपेक्षाके कडेवाभा आ पु ७ कश्च ७ अपभ्रतवेदवागे। जे ७
 एत पञ्च दे। शके ७ जेते ७ आ स्त्री आदि ७ वेदाभांभी कए जे ७ एत
 वेदरहित पञ्च दे। शके ७ अने आदीना एते वेदसदिन पञ्च दे। शके ७

अपगतवेदश्च साम्परायिककर्मबन्धको वेदत्रये उपशान्ते क्षीणे वा यावत् यथाख्यातं न प्राप्नोति तावल्लभ्यते । अत्र च पूर्वप्रतिपन्न-प्रतिपद्यमानकविवक्षा न कृता, द्वयोरपि एकत्व बहुत्वयोर्भावेन निर्विशेषत्वात् । तथाहि-अपगतवेदत्वे साम्परायिकबन्धोऽल्पकालिक एव, तत्र च योऽपगतवेदत्वं प्रतिपन्नपूर्वः साम्परायिकं बध्नाति, असौ एकोऽनेको वा स्यात्, एवं प्रतिपद्यमानोऽपीति भावः, गौतमः

तथा-“ स्थादिक जीव इसे बांधते हैं और अपगतवेदवाले जीव इसे बांधते हैं ”-यह कथन बहुतों में अपगत वेदता की संभावना को लेकर किया है । क्यों कि इनमें बहुत से जीव अपगतवेदनावाले भी हो सकते हैं । अपगतवेदवाला जीव तबतक सांपरायिक कर्म का बंधक होता है कि जबतक वह वेदत्रय की उपशांति में अथवा उसकी क्षीणता में यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं कर लेता है । यहां पर पूर्वप्रतिपन्नक एवं प्रतिपद्यमानक की विवक्षा नहीं की गई है, क्यों कि इन दोनों में एकत्व और बहुत्व के सद्भाव से कोई विशेषता नहीं भाती है । वेद की अपगतता में सांपरायिक का बध अल्पकालिक ही होता है इसमें जो प्रतिपन्नपूर्व अपगतवेदनावाला सांपरायिक कर्म को बांधता है ऐसा जीव एक भी हो सकता है और अनेक जीव भी हो सकते हैं । इसी तरह से प्रतिपद्यमानक भी जब सांपरायिक कर्म को बांधता है तब वह एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं । अब गौतमस्वामी प्रभु

तथा “ ते स्त्री आदि एवो तेने बांधे छे अने अपगतवेदवाणा एवो तेने बांधे छे, ” आ कथन धरुा एवोमां अपगतवेदनानी संभावनानी अपेक्षाये करवामां आबुं छे. कारण के तेओमां धरुां एवो अपगतवेदवाणा पणु डोर्ध शके छे. अपगतवेदवाणो एव त्यां सुधी न सांपरायिक कर्मनेो बाधक डोय छे के न्यां सुधी ते वेदत्रय (त्रषु वेद) नी उपशांतिमां अथवा तेनी क्षीणतामां यथाभ्यात चारित्रने प्रप्त करी देतो नथी. अडीं पूर्वप्रतिपन्नक अने प्रतिपद्यमानकनी वात करवामा आनी नथी कारण के ते जन्नेमां ऐकत्व अने बहुत्वना सद्भावथी केर्ध विशेषता आवती नथी वेदनी अपगततामा सांपरायिक कर्मनेो बाध अल्पकालिक न डोय छे. तेमां नो पूर्वप्रतिपन्न अपगत वेदवाणो एव सांपरायिक कर्मने बांधे छे, एवो एव ऐक पणु डोर्ध शके छे. अने अनेक एवो पणु डोर्ध शके छे. ऐन प्रभाणु प्रतिपद्यमानक-पणु न्यांरे सांपरायिक कर्म बांधे छे, त्यांरे ते ऐक पणु डोर्ध शके छे अने अनेक पणु डोर्ध शके छे.

पूछति—'जह मते ! अगणयवेपो य वधइ, अगणयवेया य वधति व मते ! किं इत्थी पण्णाकडो वधइ, पुरिसपण्णाकडो वधइ ?' हे भदन्त ! यत् साम्परायिक कर्म अपगतवेद्व बभ्भाति, अपगतवदाध बभ्नन्ति, तत् सांपरायिक कर्म हे भदन्त ! किं स्त्रीपञ्चात्कृती वध्नाति ? किं वा पुरुषपञ्चात्कृती वध्नाति ? इत्यादिप्रश्न, मग्वा नाइ—' एवं जहेव ईरियावहियावधगस्स तहेव निरवसेस जाव अहवा इत्थीपण्णाकडा य पुरिसपण्णाकडा य, नपुसगपण्णाकडाप वधति' हे गौतम ! एव पूर्वोक्त रीत्या यथेव पेयापयिककर्मवचकस्योक्त तथैव साम्परायिककर्मवचकस्यापि निरवशेषे सर्वं मणितव्य भावस—स्त्रीपञ्चात्कृता अपि वधन्ति, पुरुषपञ्चात्कृताश्च अपि वधन्ति, नपुसकपञ्चात्कृता अपि वधन्ति, इत्यादयः पश्चिन्नतिः पूर्वोक्ताः

से पेसा पूछते हैं—(जह मते ! अगणयवेपो य वधइ, अगणयवेया य वधति व मते ! किं इत्थीपण्णाकडो वधइ, पुरिसपण्णाकडो वधइ ?) हे भदन्त ! यदि सांपरायिक कर्म अपगतवेद्वबाला एक जीव वाचता है या अपगतवेद्वबाले अनेक जीव वाचते हैं, तो हे भदन्त ! जो स्त्रीपञ्चात्कृत जीव है वह वाचता है ? या जो पुरुष पञ्चात्कृत जीव—अपगतवेद्वबाला है वह वाचता है ? इत्यादि प्रश्न—इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(एवं जहेव ईरियावहियावधगस्स, तहेव निरवसेस जाव अहवा इत्थी पण्णाकडा य, पुरिसपण्णाकडा य, नपुसगपण्णाकडा य वधति) हे गौतम ! जिस प्रकार से पहिले पेयापयिक कर्मवचक के विषय में कहा गया है उसी प्रकार से इस सांपरायिक कर्म वच के विषय में भी वह कथन संपूर्णरूप से कहना चाहिये। यावत् जो जीव—स्त्रीपञ्चात्कृत होते

हवे गौतम स्वामी जेवो प्रभु पूछे छे हे—(जह मते ! अगणयवेपो य वधइ, अगणयवेया य वधति व मते ! किं इत्थीपण्णाकडो वधइ, पुरिसपण्णाकडो वधइ ?) हे भदन्त ! जे सांपरायिक कर्म अपगतवेद्वबालो जेक एव जेपि छे अथवा अपगतवेद्वबाला अनेक जेवो जेपि छे, ते हे भदन्त ! शु अपगतवेद्वबालो स्त्रीपञ्चात्कृत एव तेने जेपि छे हे अपगतवेद्वबालो पुरुष पञ्चात्कृत एव तेने जेपि छे ? इत्यादि प्रश्नो जेकी पक्ष अर्थसु करवा जेधजे.

भद्वीर भञ्जने उत्तर—(एवं जहेव ईरियावहिया वणत्स, तहेव निरवसेस जाव अहवा इत्थीपण्णाकडा य पुरिसपण्णाकडा य नपुसगपण्णाकडा य वधति) हे गौतम ! जेयापयिक कर्मवचना विषयमां आग्ग ने प्रभावे हदेवामां आग्गु छे जेव प्रभावे जेकी पक्ष समस्त कथन समस्त जेधजे. जेहे हे ने जेवेक एव श्री पञ्चात्कृत डोय छे ते पक्ष सांपरायिक कर्मने

વિકલ્પા ઝઠ્ઠાઃ, તત્સૂચયિતુમન્તિમમાહ—અથવા સ્ત્રીપશ્ચાત્કૃતાશ્ચ પુરુષપશ્ચાત્કૃતાશ્ચ, નપુંસકપશ્ચાત્કૃતાશ્ચાપિ સામ્પરાયિકં કર્મ વધન્તીત્યાશયઃ । અથ સાંપરાયિકકર્મ-વન્ધમેવ અતીતાદિ કાલત્રયેણ પ્રરૂપયન્નાહ—‘ તં મંતે ! કિં વંધી, વંધઈ, વંધિસ્સઈ ? ’ ગૌતમઃ પૃચ્છતિ-હે મદન્ત ! તત્ સાંપરાયિકં કર્મ કિં વદ્ધવાન્ , વધ્નાતિ, મન્ત્સ્યતિ ? ‘ વંધી, વંધઈ, ન વંધિસ્સઈ ૨ ’ કિં વા વદ્ધવાન્ , વધ્નાતિ, ન મન્ત્સ્યતિ, ‘ વંધી, ન વંધઈ, વંધિસ્સઈ ૩ ’ કિં વા વદ્ધવાન્ , ન વધ્નાતિ, મન્ત્સ્યતિ, ‘ વંધી, ન વંધઈ, ન વંધિ-તઈ ૪ ’ કિં વા વદ્ધવાન્ , ન વધ્નાતિ, ન મન્ત્સ્યતિ ? મગવાનાહ—

હૈં, વે મી ડસ સાંપરાયિક કર્મ વંધ કરતે હૈં, જો પુરુષપશ્ચાત્કૃત હોતે હૈં વે મી ડસ સાંપરાયિક કર્મ કા વંધ કરતે હૈં, ઓર જો નપુંસકપશ્ચાત્કૃત હોતે હૈં વે મી ડસ સામ્પરાયિક કર્મ કા વંધ કરતે હૈં । યહ અંતિમ મજ્જ વહુવચન કા હોતા હૈં ઇત્યાદિ ૨૬ પૂર્વોક્ત વિકલ્પ સવ યહાં પર લગા લેના ચાહિયે । ડસી વાત કો સૂચિત કરને કે લિયે (અહવા-ઇત્થીપચ્છાકઢા ય, પુરિસપચ્છાકઢા ય, નપુંસગપચ્છાકઢા ય વંધંતિ) ઁસા અન્તિમ પાઠ કહા ગયા હૈં । અવ ગૌતમસ્વામી પ્રમુ સે ઁસા પૂછતે હૈં કિ-(તં મંતે ! કિં વંધી, વંધઈ, વંધિસ્સઈ) હે મદન્ત ! ડસ સાંપરાયિક કર્મકો વ્યા-વાંધા હૈ,વાંધતા હૈ, વાંધેગા ? (વંધી, વંધઈ, ન વંધિસ્સઈ) વાંધા હૈ, વાંધતા હૈ, આગે નહીં વાંધેગા ? ૨ (વંધી, ન વંધઈ, વંધિસ્સઈ) વાંધા હૈ, નહીં વાંધતા હૈ, આગે વાંધેગા ? (વંધી, ન વંધઈ, ન વંધિસ્સઈ) વાંધા હૈ, નહીં વાંધતા હૈ, આગે મી નહીં વાંધેગા ? ડસકે ઉત્તર

અધ કરે છે, જે પુરુષ પશ્ચાત્કૃત હોય છે તે પણ સાંપરાયિક કર્મને અધ કરે છે અને જે નપુંસક પશ્ચાત્કૃત હોય છે તે પણ સાંપરાયિક કર્મને અધ કરે છે, ઈત્યાદિ ૨૬ પૂર્વોક્ત વિકલ્પ અહીં શ્રદ્ધા કરવા જોઈએ. એજ વાત સૂચિત કરવાને માટે—(અહવા-ઇત્થીપચ્છાકઢા ય, પુરિસ પચ્છાકઢા ય, નપુંસગ પચ્છાકઢા ય વંધંતિ) એવો અન્તિમ સૂત્રપાઠ આપવામા આવ્યો છે.

ગૌતમ સ્વામીનો પ્રશ્ન—(ત મંતે ! કિં વંધી, વંધઈ, વંધિસ્સઈ ” હે મદન્ત ! આ સાંપરાયિક કર્મને શું કોઈ જીવે ભૂતકાળમાં બાંધ્યું છે, વર્તમાનમાં બાંધે છે અને ભવિષ્યમાં બાંધશે ?

“ વંધી, વંધઈ, ન વંધિસ્સઈ ” ભૂતકાળમાં બાંધ્યું છે, વર્તમાનમાં બાંધે છે અને ભવિષ્યમાં નહીં બાંધે ? “ વંધી ન વંધઈ, વંધિસ્સઈ ” ભૂતકાળમાં બાંધ્યું છે, વર્તમાનમાં બાંધતો નથી અને ભવિષ્યમાં બાંધશે ? “ વંધી, ન વંધઈ, ન વંધિસ્સઈ ” ભૂતકાળમાં બાંધ્યું છે, વર્તમાનમાં બાંધતો નથી અને ભવિષ્યમાં પણ નહીં બાંધે ?

पृच्छति—'अहं भवे ! अवगयवेयो य वचइ, अवगयवेया य वंचति त मते । किं इत्थी पच्छाकडो वंचइ, पुरिसपच्छाकडा वंचइ ?' हे भदन्त ! यत् साम्परायिक कर्म अपगतवेदश्च वप्नान्ति, अपगतवदाश्च वप्नन्ति, तत् सांपरायिक कर्म हे भदन्त । किं स्त्रीपश्चात्कृतो वप्नान्ति ? किं वा पुरुषपश्चात्कृतो वप्नान्ति ? इत्यादिप्रश्नः, महात्मा नाह—' एवं जहेव ईरियावहियावचगस्स तहेव निरवसेस जाव महवा इत्थीपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य, नपुंसगपच्छाकडा य वंचति' हे गौतम ! एवं पूर्वोक्त रीत्या यथैव ऐर्यापयिककर्मवचकस्योक्तं तथैव साम्परायिककर्मवचकस्यापि निरपक्ष्य सर्वे मणितव्य यावत्—स्त्रीपश्चात्कृता अपि वप्नन्ति, पुरुषपश्चात्कृताश्च अपि वप्नन्ति, नपुंसकपश्चात्कृता अपि वप्नन्ति, इत्यादयः पदविधितिः पूर्वोक्ता

से ऐसा पूछते हैं—(अहं भवे ! अवगयवेयो य वचइ, अवगयवेया य वंचति त मते । किं इत्थीपच्छाकडो वचइ, पुरिसपच्छाकडो वचइ ?) हे भदन्त ! यदि सांपरायिक कर्म अपगतवेदवाला एक जीव वांचता है या अपगतवेदवाले अनेक जीव वांचते हैं, तो हे भदन्त ! जो स्त्रीपश्चात्कृत जीव है वह वांचता है ? या जो पुरुष पश्चात्कृत जीव—अपगतवेदवाला है वह वांचता है ? इत्यादि प्रश्न—इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(एवं जहेव ईरियावहियावचगस्स, तहेव निरवसेस जाव महवा इत्थी पच्छाकडा य, पुरिसपच्छाकडा य, नपुंसगपच्छाकडा य वंचति) हे गौतम ! जिस प्रकार से पहिले ऐर्यापयिक कर्मवचक के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार से इस सांपरायिक कर्म वच के विषय में भी वह कथन संपूर्णरूप से कहना चाहिये । यावत् जो जीव—स्त्रीपश्चात्कृत होते

हवे जीवम स्वाग्गी जेवे प्रभु पूछे छे के—(अहं भवे ! अवगयवेयो व वचइ, अवगयवेयाप व वंचति त मते । किं इत्थीपच्छाकडो वचइ, पुरिसपच्छाकडो वचइ ?) के भदन्त ! जे सांपरायिक कर्म अपगतवेदवाणे जे छे एव जापि छे अथवा अपगतवेदवाणे अनेक जेवे जापि छे, ते के भदन्त ! शु अपगतवेदवाणे स्त्रीपश्चात्कृत एव तेने जापि छे के अपगतवेदवाणे पुरुष पश्चात्कृत एव तेने जापि छे ? इत्यादि प्रश्नो जहो पक्ष प्रकल्प करवा जेउजे

महावीर प्रभुने उत्तर—(एवं जहेव ईरियावहिया वचगस्स, तहेव निरवसेस जाव महवा इत्थीपच्छाकडा य, पुरिसपच्छाकडा य, नपुंसगपच्छाकडा य वंचति) हे गौतम ! ऐर्यापयिक कर्मवचना विषयमां आशय के प्रमाणे जहेवामां आशु छे जेव प्रमाणे जहो पक्ष प्रकल्प करवा जेउजे जेउजे के जे जेवे छे एव स्त्री पश्चात्कृत कोय छे ते पक्ष सांपरायिक कर्मनि

વિકલ્પા ઝઠ્ઠાઃ, તત્સૂચયિતુમન્તિમમાહ—અથવા સ્ત્રીપશ્ચાત્કૃતાશ્ચ પુરુષપશ્ચાત્કૃતાશ્ચ, નપુંસકપશ્ચાત્કૃતાશ્ચાપિ સામ્પરાયિકં કર્મ વધ્નન્તીત્યાશયઃ । અથ સાંપરાયિકકર્મ-બંધમેવ અતીતાદિ કાલત્રયેણ પ્રરુપયન્નાહ—‘ તં મંતે ! કિં વંધી, વંધઈ, વંધિસ્સઈ ? ’ ગૌતમઃ પૃચ્છતિ-હે મદન્ત ! તત્ સાંપરાયિકં કર્મ કિં વદ્ધવાન્ , વધ્નાતિ, મન્તસ્યતિ ? ‘ વંધી, વંધઈ, ન વંધિસ્સઈ ૨ ’ કિં વા વદ્ધવાન્ , વધ્નાતિ, ન મન્તસ્યતિ, ‘ વંધી, ન વંધઈ, વંધિસ્સઈ ૩ ’ કિં વા વદ્ધવાન્ , ન વધ્નાતિ, મન્તસ્યતિ, ‘ વંધી, ન વંધઈ, ન વંધિસ્સઈ ૪ ’ કિં વા વદ્ધવાન્ , ન વધ્નાતિ, ન મન્તસ્યતિ ? મગવાનાહ—

હૈં, વે મી ઠસ સાંપરાયિક કર્મ વંધ કરતે હૈં, જો પુરુષપશ્ચાત્કૃત હોતે હૈં વે મી ઠસ સાંપરાયિક કર્મ કા વંધ કરતે હૈં, ઓર જો નપુંસકપશ્ચાત્કૃત હોતે હૈં વે મી ઠસ સામ્પરાયિક કર્મ કા વંધ કરતે હૈં । યહ ંતિમ મજ્ઞ વહુવચન કા હોતા હૈં ઇત્યાદિ ૨૬ પૂર્વોક્ત વિકલ્પ સવ યહાં પર લગા લેના ચાહિયે । ઇસી વાત કો સૂચિત કરને કે લિયે (અહવા-ઇત્થીપચ્છાકઢા ય, પુરિસપચ્છાકઢા ય, નપુંસગપચ્છાકઢા ય વંધંતિ) ંસા અન્તિમ પાઠ કહા ગયા હૈં । અવ ગૌતમસ્વામી પ્રશ્નુ સે ંસા પૂચ્છતે હૈં કિ—(તં મંતે ! કિં વંધી, વંધઈ, વંધિસ્સઈ) હે મદન્ત ! ઇસ સાંપરાયિક કર્મકો વ્યા-વાંધા હૈ, વાંધતા હૈ, વાંધેગા ? (વંધી, વંધઈ, ન વંધિસ્સઈ) વાંધા હૈ, વાંધતા હૈ, આગે નહીં વાંધેગા ? ૨ (વંધી, ન વંધઈ, વંધિસ્સઈ) વાંધા હૈ, નહીં વાંધતા હૈ, આગે વાંધેગા ? (વંધી, ન વંધઈ, ન વંધિસ્સઈ) વાંધા હૈ, નહીં વાંધતા હૈ, આગે મી નહીં વાંધેગા ? ઇસકે ઉત્તર

મંધ કરે છે, જે પુરુષ પશ્ચાત્કૃત હોય છે તે પણ સાંપરાયિક કર્મનો મંધ કરે છે અને જે નપુંસક પશ્ચાત્કૃત હોય છે તે પણ સાંપરાયિક કર્મનો મંધ કરે છે, ઇત્યાદિ ૨૬ પૂર્વોક્ત વિકલ્પ અહીં ગ્રહણ કરવા લેઈએ. એજ વાત સૂચિત કરવાને માટે—(અહવા-ઇત્થીપચ્છાકઢા ય, પુરિસ પચ્છાકઢા ય, નપુંસગ પચ્છાકઢા ય વંધંતિ) એવો અન્તિમ સૂત્રપાઠ આપવામા આવ્યો છે

ગૌતમ સ્વામીનો પ્રશ્ન—(તં મંતે ! કિં વંધી, વંધઈ, વંધિસ્સઈ ” હે મદન્ત ! આ સાંપરાયિક કર્મને શુ કોઈ જીવે ભૂતકાળમાં બાધ્યું છે, વર્તમાનમાં બાધે છે અને ભવિષ્યમાં બાધશે ?

“ વંધી, વંધઈ, ન વંધિસ્સઈ ” ભૂતકાળમાં બાધ્યું છે, વર્તમાનમાં બાધે છે અને ભવિષ્યમાં નહીં બાધે ? “ વંધી ન વંધઈ, વંધિસ્સઈ ” ભૂતકાળમાં બાધ્યું છે, વર્તમાનમાં બાધતો નથી અને ભવિષ્યમાં બાધશે ? “ વંધી, ન વંધઈ, ન વંધિસ્સઈ ” ભૂતકાળમાં બાધ્યું છે, વર્તમાનમાં બાધતો નથી અને ભવિષ્યમાં પણ નહીં બાધે ?

'गोयमा । अत्येगइए वषी, वषइ, वषिस्सइ ?' हे गौतम । साम्पराकिं कर्म अस्त्येककाः कश्चित्तीपो वदवान्, वप्णाति, मन्त्स्यति १; 'अत्येगइए वषी, वषइ, न वषिस्सइ २' अस्त्येककाः कश्चित् वदवान्, वप्णाति, न मन्त्स्यति २, 'अत्येगइए वषी, न वषइ, वषिस्सइ ३' अस्त्येककाः कश्चित् वदवान्, न वप्णाति, मन्त्स्यति, 'अत्येगइए वषी, न वषइ, न वषिस्सइ' अस्त्येककाः कश्चित् वदवान् न वप्णाति, न मन्त्स्यति, अयमाश्रयः—अत्र पूर्वोक्तेषु अष्टसु विकल्पेषु आद्याधत्वार एव संभवन्ति,

में प्रसु कहते हैं (गोयमा) हे गौतम । (अत्येगइए वषी, वषइ, वषिस्सइ) कोई जीव अपगतवेदवाला ऐसा होता है कि जिसने पूर्वकालमें इस सांपरायिक कर्मका वंधकिया है वर्तमानमें वह इसका पप करता है, और आगे भी वह इसका वंध करेगा । (अत्येगइए वषी, वषइ, न वषिस्सइ) कोई एक जीव ऐसा होता है कि जिसने पूर्वकाल में इसका पप किया है, वर्तमान में वह इसका पप कर रहा है, पर आगे वह इसका वंध नहीं करेगा २, (अत्येगइए वषी, न वषइ, वषिस्सइ) कोई एक जीव ऐसा होता है कि जिसने इसका वंध पहिले किया होता है २, वर्तमानमें वह इसका वंध नहीं करता है, हा भविष्यत् में वह इसका वंध करनेवाला होता है ३, (अत्येगइए वषी, न वषइ, न वषिस्सइ) कोई एक जीव ऐसा होता है जो इसका पहिले तो वंध करता है, पर वर्तमान में वह इसका पप नहीं करता और न भविष्यत् में वह इसका वंध करने वाला बनता है । इस कथन का अशय ऐसा है कि पूर्वोक्त आठ

भक्तव्रीह प्रश्नो उत्तर—(गोयमा ।) हे गौतम । “अत्येगइए वषी वषइ वषिस्सइ” (१) केअ अपगत वेदवाला एव जेवो दोष छे के जेवे भूतकालभा आ सांपरायिक कर्मना अंध ठयो दोष छे, वतमानभा ते तेना अंध करे छे अने भविष्यभा पप ते तेना अंध करेये । “अत्येगइए वषी वषइ न वषिस्सइ” (२) केअ एव जेवो दोष छे के जेवे भूतकालभा तेना अंध ठयो दोष छे, वर्तमानभा ते तेना अंध करेते दोष छे, पप भविष्यभा ते तेना अंध नहीं करे । “अत्येगइए वषी न वषइ वषिस्सइ” (३) केअ एव जेवो दोष छे के जेवे भूतकालभा तेना अंध ठयो दोष छे, वतमानभा ते तेना अंध करेते नहीं पप भविष्यभा ते तेना अंध करेये । “अत्येगइए वषी न वषइ, न वषिस्सइ” (४) केअ एव जेवो दोष छे के जेवे भूत कालभा तेना अंध ठयो दोष छे पप वतमानभा तेना अंध करेते नहीं अने भविष्यभा पप ते तेना अंध करेये नहीं आ कथनना आशय जेवो

नान्तिमाश्चत्वारो जीवनां सांपरायिककर्मबन्धस्यानादितया ' न बंधी ' इत्यादेर
संभवात् , आद्येषु चतुर्षु च प्रथमः सर्व एव संसारी यथाख्यातासंप्राप्तोपशमकक्षप-
कावसानः स च पूर्वं साम्परायिकं कर्म बद्धवान् , वर्तमानकाले तु बध्नाति,
भविष्यत्कालापेक्षया च भन्त्स्यति, इति प्रथमः १, द्वितीयस्तु मोहक्षयात्पूर्वमतीत-
कालापेक्षया बद्धवान् , वर्तकाले तु बध्नाति, भाविमोहक्षयापेक्षया तु न भन्त्स्यति
इति २, तृतीयः पुनरुपशान्तमोहत्वात् पूर्वं बद्धवान् उपशान्तमोहत्वे न बध्नाति,

विकल्पों में से यहाँ आदि के चार विकल्प ही बनते हैं—अन्तिम
चार विकल्प नहीं—क्यों कि जीवों के सांपरायिक कर्म का बन्ध
अनादि से होता हुआ चला आ रहा है अनः (न बंधी) इत्यादि की
असंभवता है आदि के चारों में से प्रथम विकल्प इस प्रकार से बन
जाता है कि समस्त ही संसारी जीव जबतक यथाख्यातचारित्र्य को प्राप्त
नहीं कर पाये हैं, उपशमक नहीं हो पाये हैं, क्षपक नहीं बन पाये हैं
इसके पहिले वे सांपरायिक कर्म का बध क्रिये हुए होते हैं। वर्तमान
में भी वे सांपरायिक कर्म को बांधते हैं और भविष्यत् में भी वे उसे
बांधने वाले होते हैं। द्वितीय भंग इस प्रकार से बनता है—ओहनीय
कर्म क्षय होने के पहिले अतीत काल की अपेक्षा से उस सांपरायिक
कर्म को जीव ने बांधा है वर्तमान काल में जीव उसे बांधता रहता है
और जब इस जीव का मोहक्षय हो जावेगा—तब वह उसे नहीं
बांधेगा। तृतीयभंग इस अपेक्षा से घटता है—उपशान्त मोह होने से

छे के 'अैर्यापथिक कर्मना जेवा आठ विकल्प पड़ेलाना प्रकरणमा आपवामा
आव्या छे जेवा आठ विकल्प सांपरायिक कर्मना बनता नथी, पणु तेमांथी
पड़ेलां यार विकल्प भने छे अने छेवला यार बनता नथी कारणु के लुवेमां
सांपरायिक कर्मना अथ तो अनादिथी आल्यो न आवे छे, तेथी " न बंधी "
आदि विकल्पोनी असंभवता रहे छे शर्यातना यार विकल्पोमानो पड़ेवो
विकल्प आ प्रकारे सुसगत णनी नथ छे—संसारी लुव न्या सुधी यथाप्यात
चारित्रने प्राप्त करी शक्या नथी, उपशमक थर् शक्या नथी, क्षपक णनी शक्या
नथी, ते पड़ेलां तो तेजो सांपरायिक कर्मना अथ करता न होय छे. वर्त-
मानमां पणु तेजो तेनो अथ करता होय छे अने भविष्यमां पणु तेजो
तेनो अथ करता रहेशे जीने विकल्प आ प्रकारे सुसगत णनी नथ छे.
मोहनीय कर्मना क्षय थया पड़ेला भूतकालमां लुवे सांपरायिक कर्म आधुं
होय छे, वर्तमानमा पणु लुव तेने बांधतो रहे छे पणु न्यारे तेना मोहने
क्षय थर् नशे थ्यारे ते तेने बांधशे नही त्रीन विकल्पनु स्पष्टीकरणु आ

उपशान्तमोहत्वात्प्रयुतस्तु पुनर्मन्त्स्यति ३, चतुर्यस्तु मोहक्षयात्तुर्न साम्परायिकं फलं यदपान्, मोहक्षये न वचनाति, न च मन्त्स्यतीति ४। साम्परायिककर्मबन्धमेवाधित्याह—'तं मन्ते ! किं साह्यं सपर्यवसित्य बंधं पुच्छा ? तदेव' गौतमः पृच्छति—हे मन्त ! तत् साम्परायिकं कर्म किं सादिकं सपर्यवसितं वचनाति ? इति पृच्छा तथैव, यथा पर्यायिककर्मबन्धे उक्तः, यथा च किं वा सांपरायिकं कर्म सादिकम् अपर्यवसितं वचनाति ? २ किं वा अनादिकं सपर्यवसितं वचनाति ? ३, किं वा पहिले जीव ने उस सांपरायिक कर्म का बंध किया है और जब उसी जीव का मोह उपशान्त हो जाता है तब वह उसे नहीं बांधता है तथा जब वह उपशान्त मोहवाला जीव उस मोहकी उपशान्त अवस्थासे प्रच्युत रहित होगा—तब उसे बांधेगा ३। चतुर्यं भंग इस प्रकार से घटता है—मोह क्षय होने के पहिले जीव ने इस सांपरायिक कर्म का बंध किया है—अर्थात् अभी तक वह अनादिकाल से सांपरायिक कर्म के बंध से युक्त हुआ ही बला आ रहा है, अतः इस अपेक्षा उमने सांपरायिक कर्म बांधा है, और जब वर्तमान समय में उसी जीव के मोह का क्षय होता है तब वह उस मोहक्षय की अवस्था में सांपरायिक-कर्म नहीं बांधता है और न आगे भी वह सांपरायिक कर्म बांधने वाला होता है। अब गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पृच्छते हैं (तं मन्ते ! किं साह्यं सपञ्जवसित्यं, यदपि पुच्छा ? तदेव) हे मन्त ! जीव उस साम्परायिक कर्म को जो बांधता है वह उसे सादि सपर्यवसितरूप में बांधता है ? या सादि अपर्यवसितरूप में बांधता है ? या अनादि सपर्यवसितरूप

प्रभावे बंध शक्ये—उपशान्त मोह यथा पढेलां एवे वा सांपरायिकं कर्मने वाचं करीं डेवां छे अने न्यारे जेव एवने मोह उपशान्त यद्य वाच छे त्पारे ते तेने वाचं करते नथी यद्य न्यारे ते उपशान्त मोहवाला एव ते मोहनी उपशान्त अवस्थासी प्रच्युत (रहित) यद्य वाच छे त्पारे ते तेने वाचं करीं डेवां विवक्ष्यत एपहीकस्तु वा प्रभावे करीं शक्यं—मोह क्षय यथा पढेलां एवे सांपरायिकं कर्मने वाचं करीं डेवां छे—जेव के अनादि कालसी अत्यार भुभी ते सांपरायिकं कर्मना नभसी युक्त रहैवै छे ते दृष्टिजे जेतां तेवे सांपरायिकं कर्म वाच्यु छे यद्य वतमान समये न्यारे तेना मोहनी क्षय यद्य वय छे त्पारे ते मोहक्षयनी अवस्थाभा सांपरायिकं कर्म वाचते नथी अने नविध्यमां यद्य ते सांपरायिकं कर्मने वाचं करीं नथी

गौतम स्वामीना प्रश्न—(तं मन्ते ! किं साह्यं सपर्यवसित्यं यदपि पुच्छा तदेव) के मन्त ! एव ते सांपरायिकं कर्मने सादि सपर्यवसित रूपे छे ?

अनादिकम् अपर्यवसितं बध्नाति ?४, इति चतुर्भङ्ग्या प्रश्नः कल्पनीयः, ' भगवानाह—' गोयमा ! साइयं वा सपञ्जवसियं बंधइ ' हे गौतम ! सांपरायिकं कर्म प्रथमभङ्गगतं सादिकं वा सपर्यवसितं बध्नाति, 'अणाइयं वा सपञ्जवसियं बंधइ ' अनादिकं वा सपर्यवसितं तृतीयभङ्गगतं बध्नाति, ' अणाइयं वा अपञ्जवसियं बंधइ ' अनादिकं वा अपर्यवसितं चतुर्थभङ्गगतं बध्नाति, किन्तु ' णो चैव णं साइयं अपञ्जवसियं बंधइ ' नो चैव खलु साम्परायिकं कर्म द्वितीयभङ्गगतं सादिकम् अपर्यवसितं बध्नाति, तथा च उपशान्तमोहत्वात्प्रच्युतः पुनरुप-

में बांधता है ? या अनादि अपर्यवसितरूप में बांधता है ? इसी प्रकार से जिसे ऐर्यापथिक कर्मबन्ध के विषय में पहिले चतुर्भङ्गी को लेकर प्रश्न किये गये हैं—उसी प्रकार से यहां पर भी ये प्रश्न किये गये हैं । इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (साइयं वा सपञ्जवसियं बंधइ) जीव सांपरायिक कर्म का बंध करता है—वह या तो सादि सपर्यवसितरूप से करता है (अणाइयं वा अपञ्जवसियं बंधइ) अथवा अनादि अपर्यवसितरूप से करता है, (अणाइयं सपञ्जवसियं बंधइ) या अनादि सपर्यवसित रूप से करता है ? परन्तु (णो चैव णं साइयं अपञ्जवसियं बंधइ) वह सादि अपर्यवसितरूप से उसका बंध नहीं करता है । जीव सांपरायिक कर्म का बंध सादि सपर्यवसितरूप से करता है इसका तात्पर्य ऐसा है जीव जब उपशान्त मोहवाला होकर उससे प्रच्युत—(रहित) हो जाता है और फिर जब वह आगे उपशान्त

के सादि अपर्यवसित रूपे बांधे छे ? के अनादि अपर्यवसित रूपे बांधे छे ? के अनादि अपर्यवसित रूपे बांधे छे ? जेवी रीते ऐर्यापथिक कर्मबंधना विषयमां पडेला चार विकल्पवाणा प्रश्नो पूछया छे, जेज रीते सांपरायिक कर्मबंध विषे पणु अही चार वैकल्पिक प्रश्नो पूछया छे.

तेनो उत्तर आपता भडावीर प्रभु कडे छे के—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (साइयं वा सपञ्जवसियं बंधइ) एव सांपरायिक कर्मने जे बंध करे छे ते कतेो सादि अपर्यवसित रूपे करे छे, (अणाइय वा अपञ्जवसियं बंधइ) कतेो अनादि अपर्यवसित रूपे करे छे, (अणाइय सपञ्जवसिय बंधइ) कतेो अनादि अपर्यवसित रूपे करे छे, परन्तु (णो चैव णं साइयं अपञ्जवसिय बंधइ) ते सादि अपर्यवसित रूपे तेनो बंध करतो नथी. एव सादि अपर्यवसित रूपे सांपरायिक कर्मने बंध करे छे तेनु स्पष्टीकरणु एव न्यारे उपशान्त मोहवाणे अनिने तेनाथी प्रच्युत (रहित) थउ नप छे अने पत्री इरीथी

शान्तमोहतां क्षीणमोहतां वा प्रतिपत्स्यमान साम्परायिक कर्म सादिकं सपर्यवसितं
 बध्नाति?, आदितः क्षपकापेक्षया तु अनादिकं सपर्यवसितं बध्नाति?, अमन्यापे
 क्षया च अनादिकम् अपर्यवसितं बध्नाति?, किन्तु नैव खलु साम्परायिक कर्म द्विती
 यमङ्गगतं सादिकम् अपर्यवसितं बध्नाति, सादिसाम्परायिककर्मबन्धो मोहोपशमात्
 प्रच्युतस्यैव भवति, तस्य च नियमता मोहक्षायित्वात् साम्परायिककर्मबन्धस्य
 व्यवच्छेदसम्भवात्, अतएव सादिरपर्यवसितः द्वितीयमङ्गगतः साम्परायिककर्म
 बन्धो नास्तीति क्लिप्तम्। गौतम पृच्छति—‘तं मते? किं देसेण देसं बधइ?’ इ
 मदन्त! तत्साम्परायिक कर्म किं दक्षेण जीवांशेन दर्श कर्मांशं बध्नाति? एव भावे

मोहदशा को या क्षीणमोहदशा को प्राप्त करने वाला होता है तब
 वह सापरायिक कर्म का बध सादि सपर्यवसितरूप से करता है। जो
 जीव अभव्य होता है उसकी अपेक्षा सापरायिक कर्म का अनादि अप
 र्यवसित होता है। क्षपक की अपेक्षा जीव पहिले से साम्परायिक कर्म
 का बध अनादि सपर्यवसितरूप से करता है। किन्तु साम्परायिक कर्म
 का जीव को सादि अपर्यवसितरूप से नहीं होता है। क्यों कि साम्परा
 यिक कर्मका सादि बध मोहोपशामसे प्रच्युत- (रहित) हुए जीवको ही
 होता है। और जो मोहोपशाम से प्रच्युत हुआ है वह जीव नियम से
 मोह का क्षय करने वाला होता है-इस कारण सापरायिक कर्म के बध
 का व्यवच्छेद संभव होने से उसका बध सादि छोकर अपर्यवसित
 नहीं होता है। अथ गौतमस्वामी प्रश्न से—(तं मते! किं देसेण देसं
 बधइ) ऐसा पूछते हैं—कि हे भदन्त! सापरायिक कर्म का बध जीव जो
 करता है सो क्या यह अपने किसी एक अंश से उसके एक अंश का

अथारे ते वपशान्त मोहदशाने के क्षीण मोहदशाने प्राप्त करनेवाले को है,
 त्पारे ते सांपरायिक कर्मना लध सादि सपर्यवसित रूपे करे छे के छप
 अमन्य डोय छे तेनी अपेक्षाके सांपरायिक कर्मना लध अनादि अपर्यवसित
 डोय छे क्षपकनी अपेक्षाके छप पहिलेकी ल सांपरायिक कर्मना लध
 अनादि सपर्यवसित रूपे करे छे परन्तु छप सांपरायिक कर्मना लध सादि
 अपर्यवसित रूपे करेता नथो शरखु के सांपरायिक कर्मना सादि लध मोहो
 पशमधी प्रच्युत (रहित) बधेछे। छप ल करे छे अने के मोहोपशमधी
 प्रच्युत बधेछे छे जेवो छप नियमधी / मोहने लध करनेवाले डोय छे, ते
 शरखे सांपरायिक कर्मना लधने व्यवच्छेद (छेदन) ल भवित डोयधी तेना
 लध सादि बध छता अपर्यवसित डोयते नथी।

इवे गौतम स्वामी भदानीर प्रश्न जेवो प्रश्न पूछे छे के—(तं मते!
 किं देसेण देसं बधइ) के लदन्त! शु छप पीताना जेक देशधी (लशमी)

ईरिया वहिया बंधगस्स जाव सव्वेणं सव्वं बंधइ ' एवं रीत्या यथैव ऐर्यापथिक-
कर्मबन्धकस्य प्रकारेण उक्तं तथैवान्नापि यावत्-देशेन सर्वं बध्नाति, सर्वेण देशं
बध्नाति, सर्वेण सर्वं वा बध्नाति ? इति प्रश्नोत्तरं पूर्ववदेव अत्रापिबोध्यम्, जीवः
सर्वेण आत्मना सर्वं साम्परायिकं कर्म बध्नाति न तु देशेन देशमित्यादि त्रयं
बध्नाति ॥ सू० ४ ॥

कर्मप्रकृति-परीपहवक्तव्यता

पूर्वं कर्मवक्तव्यता प्ररूपिता, अत च कर्मस्वेव यथायोगं परीपहाव-
तारं प्ररूपयितु कामः कर्मप्रकृतीः, परिपहोश्च वर्णयन्नाह- ' कइणं भंते' इत्यादि ।

मूलम्-कइ णं भंते ! कम्मपयडीओ पणत्ताओ ? गोयमा !
अट्टु कम्मपयडीओ पणत्ताओ, तं जहा-णाणावरणिज्जं जाव
अंतराइयं । कइ णं भंते ! परीसहा पणत्ता ? गोयमा बावीसं
परीसहा पणत्ता, तं जहा - दिग्गिच्छापरीसहे, पिवासापरीसहे,
जाव दंसणपरीसहे । एए णं भंते ! बावीसं परीसहा कइसु

बंध करता है या अपने एक अंश से उस सांपरायिक के पूर्ण अंशोंका
बंध करता है ? या अपने समस्त अंशोंसे उसके समस्त अंशोंका बंध
करता है ? इस प्रकार से जैसे ऐर्यापथिक कर्म बंधक के प्रकरण में
कहा गया है उसी तरह से यहां पर भी जानना चाहिये-जो प्रकट
किया जा चुका है । इसके उत्तर में प्रभु गौतम से कहते हैं-हे गौतम !
आदि के तीन विकल्प तो यहां माने नहीं गये हैं । किन्तु अन्तिम जो
विकल्प है वही स्वीकार किया गया है अर्थात्-जीव अपने समस्त अंशों
से उस पूरे साम्परायिक कर्म का बंध करता है ॥ सू०४ ॥

सांपरायिक कर्मना एक अंशना षध करे छे ? के पोताना एक अंशथी ते
सांपरायिक कर्मना पूणुं अशेना षध करे छे ? के पोताना समस्त अंशथी
तेना समस्त अंशेना षध करे छे ? आ रीते ऐर्यापथिक षधना विषयमां
के प्रभाणु कडेवामां आण्यु छे, अए प्रभाणु सांपरायिक कर्मषधना विषयमां
अडीं कडेवामां आण्यु छे ।

महावीर प्रभुने उत्तर-डे गौतम पडेला त्रणु विकल्पने अडीं स्वी-
कार करवामा आण्ये नथी. पणु छेदला विकल्पने स्वीकार करवामा आण्ये
छे. अेटदे के एव पोताना समस्त अशेथी संपूणुं सांपरायिक कर्मने षध
करे छे. ॥ सू० ४ ॥

कम्मपगडीसु समोयरति ? गोयमा । चउसु कम्मपयडीसु समो-
 यरति, त जहा-नाणावरणिजे, वेयणिजे, मोहणिजे, अंतराइए ।
 नाणावरणिजे णं भते कम्मे कइ परीसहा समोयरति ? गोयमा ।
 दो परीसहा समोयरति, त जहा-पन्नापरीसहे, नाणपरीसहे
 य । वेयणिजे णं भते । कम्मे कइ परीसहा समोयरति ? गोयमा ।
 एकारस परीसहा समोयरति, त जहा-पचेव आणुपुव्वीए चरिया
 सेज्जा वहे य । रोगे य, तणफासजल्लमेव य एकारस वेयणि
 जमि ५८ ॥ दसणमोहणिजे णं भते । कम्मे कइ परीसहा
 समोयरति ? गोयमा । एगे दसणपरीसहे समोयरइ । चरित्त-
 मोहणिजे ण भते । कम्मे कइ परीसहा समोयरति ? गोयमा ।
 सत्त परीसहा समोयरति, त जहा-अरइ, अचेल, इस्थी, निसी-
 हिया, जायणा य, अक्कोसे, सक्कार पुरक्कारे, चरित्तमोहमि सुत्तेप
 ॥ ५९ ॥ अतराइए णं भते । कम्मे कइ परीसहा समोयरति ?
 गोयमा । एगे अलाभपरीसहे समोयरइ । सत्तविहवधगस्स णं
 भते । कइ परीसहा पण्णत्ता ? गोयमा । चावीस परीसहा पण्णत्ता,
 वीसं पुण वेपइ, ज समय सीयपरिसह वेपइ, णो त समय उसिण
 परीसह वेपइ, ज समय उसिणपरीसह वेपइ, णो त समय सीयपरी
 सह वेपइ, ज समय चरियापरीसह वेपइ, णो त समय निसीहियापर
 सह वेपइ, ज समय निसीहियापरीसह वेपइ, णो त समय चरिया
 परीसह वेपइ, एव अट्टविहवधगस्स वि । छठिवहवधगस्स प
 भते । सरागच्छउमरपस्स कइ परीसहा पण्णत्ता ? गोयमा
 चोइस परीसहा पण्णत्ता, थारसपुण वेपइ, ज समय सीयपरी

सहं वेएइ, णो तं समयं उस्सिणपरीसहं वेएइ, जं समयं उस्सिणपरीसहं वेएइ नो तं समयं सीयपरीसहं वेएइ, जं समयं चरियापरीसहं वेएइ, णो तं समयं सेज्जापरीसहं वेएइ, जं समयं सेज्जापरीसहं वेएइ णो तं समयं चरिया परीसहं वेएइ । एक्कविहबंधगस्स णं भंते ! बीयरागच्छउमत्थस्स कइ परीसहा पणत्ता ? गोयमा ! एवं चेव जहेव छव्विहं बंधणस्स णं एग-विहबंधगरस णं भंते । सजोगिभवत्थकेवलिस्स कइ परीसहा पणत्ता ? गोयमा । एक्कारस परीसहा पणत्ता, नव पुणवेएइ, सेसं जहा छव्विहबंधगस्स । अबंधगस्स णं भंते । अजोगि-भवत्थकेवलिस्स कइ परीसहा पणत्ता ? गोयमा । एक्कारसपरीसहा पणत्ता, नव पुण वेएइ, जं समयं सीयपरीसहं वेएइ नो तं समयं उस्सिणपरीसहं वेएइ जं समयं उस्सिणपरीसहंवेएइ, नो तं समयं सीयपरीसहं वेएइ, जं समयं चरियापरीसहं वेएइ, नो तं समयं सेज्जापरीसहं वेएइ, जं समयं सेज्जा-परीसहं वेएइ नो तं समयं चरियापरीसहं वेएइ ॥ सू० ५ ॥

जाया—कति खलु भदन्त ! कर्मप्रकृतयः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अष्ट कर्मप्रकृतयः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा—ज्ञानावरणीयं यावत्-अन्तराधिकम् । कति खलु भदन्त ! परी-

कर्मप्रकृति-परीषद्व-वक्तव्यता

‘कइणं भंते ! कम्मपयड्डीओ पणत्ताओ’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(कइणं भंते ! कम्मपयड्डीओ पणत्ताओ) हे भदन्त ! कर्मप्रकृतियां कितनी कही गई हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (अष्ट कम्मप-

कर्मप्रकृति-परीषद्व वक्तव्यता

“कइ णं भंते ! कम्मपयड्डीओ पणत्ताओ” इत्यादि

सूत्रार्थ—(कइ ण भंते ! कम्मपयड्डीओ पणत्ताओ ?) हे भदन्त ! कर्मप्रकृतिओ केटली कही छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (अष्ट कम्मपयड्डीओ

पश्चात् महासा ? गौतम ! द्वाविंशतिः परीपहा महासाः, तद्यथा-जिपत्सापरीपहा, पिपासापरीपहा यावत्-दर्शनपरीपहा । एते खलु भवन्त । द्वाविंशति परिपहा कतिपु कर्मप्रकृतिषु समवतरन्ति ?, गौतम ! चतस्रु कर्मप्रकृतिषु समवतरन्ति, तद्यथा-ज्ञानावरणीय, वेदनीये, मोहनीये आन्तरायिके । ज्ञानावरणीये खलु भवन्तः कर्मणि कति परीपहाः समवतरन्ति ? गौतम ! द्वी परीपहौ समवतरता, तद्यथा-

पण्यहीभो पण्यसाभो) कर्मप्रकृतियां आठ कही गई हैं ! (त जहा) जो इस प्रकार से हैं (नाणावरणिञ्च, जाय अंतराय) ज्ञानावरणीय यावत् अन्तराय । (कइणं भंते ! परीसहा पण्यसा) हे भवन्त ! परिपह कितने कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! बावीस परीसहा पण्यसा) परीपह २२ कहे गये हैं । (त जहा) जो इस प्रकार से हैं- (दिगिणापरीसहे, पिपासा परीसहे, जाय वंसणपरीसहे) क्षुधापरीपह, पिपासापरीपह यावत् दर्शन परीपह । (एएण भंते ! बावीसं परीसहा कइसु कम्मपयहीसु समोयरति) हे भवन्त ! ये २२ परीपहों का कितनी कर्मप्रकृतियों में समावेश होता है ? 'गोयमा' हे गौतम ! 'चउसु कम्मपयहीसु समो यरति' याईसु परीपहों का चार कर्मप्रकृतियों में समावेश होता है 'तं जहा' जैसे- 'नाणावरणिज्जे, वेयणिज्जे, मोहणिज्जे, अतराय' ज्ञानावरणीय में, वेदनीय में, मोहनीय में और अन्तराय में । 'नाणावरणि ज्जे ण भंते ! कम्मे कइ परीसहा समोयरति' हे भवन्त ! ज्ञानावरणीय कर्म में कितने परीपहों का समावेश होता है ? 'गोयमा' हे गौतम !

पण्यसाभो) कर्मप्रकृतियों आठ कही है (त जहा) के आ प्रभावे है- (नाणावरणिञ्च जाय अंतराय) ज्ञानावरणीय ही वधने अंतराय पर्यन्तनी (कइ ण भंते ! परीसहा पण्यसा) के भवन्त ! परीपह केटला कइला है ? (गोयमा !) के गौतम ! (बावीसं परीसहा पण्यसा) परीपह बावीस कइला है (त जहा) तेभनां नाम नीधि प्रभावे है (दिगिणा परीसहे, पिपासा परीसहे जाय वंसणपरीसहे) क्षुधा परीपह पिपासा परीपह यावत् दर्शन परीपह (एए ण भंते ! बावीस परीसहा कइसु कम्मपयहीसु समोयरति) के भवन्त ! ते बावीस परीपहोंने समावेश केटली कर्मप्रकृतियोंमा बाय है ? (गोयमा !) के गौतम ! (चउसु कम्मपयहीसु समोयरति) बावीस परीपहोंने चार कर्मप्रकृतियोंमा समावेश बाय है (त जहा) केम के (नाणावरणिज्जे, वेयणिज्जे मोहणिज्जे, अतराय) ज्ञानावरणीयमा वेदनीयमा मोहनीयमा अने अन्तरायमा (नाणावरणिज्जण भंते ! कम्मे कइ परीसहा समोयरति ?) के भवन्त ! ज्ञानावरणीय कर्ममा केटला परीपहोंने समावेश बाय है ? (गोयमा !) हो

प्रज्ञापरीषदः ज्ञानपरीषदश्च वेदनीये खलु भदन्त । कर्मणि कतिपरीषदाः समवतरन्ति ? गौतम । एकादश परीषदाः समवतरन्ति, तद्यथा—पञ्चैव आनुपूर्व्या, “चर्या, शय्या, वधश्च, रोगश्च, तृणस्पर्शः, जल्लमेव च । एकादश वेदनीये ॥५८॥ दर्शनमोहनीये” खलु भदन्त । कर्मणि कति परीषदाः समवतरन्ति ? गौतम । एको दर्शनपरीषदः समवतरति, चारित्रनोहनीये खलु भदन्त । कर्मणि कतिपरीषदाः समवतरन्ति ?

‘दो परीसहा समोयरति’ ज्ञानावरणीय कर्ममें दो परीषदों का समावेश होता है । ‘तं जहा’ जो इस प्रकार से हैं ‘पञ्चापरिसहे, नाणपरीसहे य’ प्रज्ञापरीषद और ज्ञानपरीषद । ‘वेयणिज्जेणं भंते ! कस्मे कइ परीसहा समोयरति’ हे भदन्त । वेदनीय कर्म में कितने परीषदों का समावेश होता है ? ‘गोयमा’ हे गौतम । ‘एक्कारस परीसहा समोयरति’ वेद-वेदनीय कर्म में ग्यारह ११ परीषदों का समावेश होना है । ‘तं जहा’ जो इस प्रकार से हैं ‘पञ्चैव आणुपुब्बी, चरिया सेज्जावहे य, रोगे य तणफासजल्लमेव य, एक्कारस वेयणिज्जंमि ५८’ क्रमशः पहिले के पांच परीषद क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, और दंशमशक-चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल ये ग्यारह ११ परीषदों का वेदनीय कर्म में समावेश होता है । दंसणमोहणिज्जेणं भंते ! कस्मे कइ परीसहा समोयरति’ हे भदन्त दर्शनमोहनीय कर्म में कितने परीषदों का समावेश होता है ? ‘गोयमा’ गौतम ! ‘एगे दंसण परीसहे समोयरइ’ दर्शन मोहनीय कर्म में एक दर्शन-

परीसहा समोयरति) हे गौतम ! ज्ञानावरणीय कर्मों में दो परीषदों का समावेश थाय छे (तं जहा) जेभनां नाम आ प्रभाणु छे (पञ्चापरिसहे, नाणपरीसहे य) प्रज्ञापरीषद अने ज्ञानपरीषद (वेयणिज्जेणं भंते कस्मे कइ परीसहा समोयरति ?) हे भदन्त ! वेदनीय कर्मों में कितना परीषदों का समावेश थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (एक्कारस परीसहा समोयरति - तं जहा) वेदनीय कर्मों में नीचेना ११ परीषदों का समावेश थाय छे—(पञ्चैव आणुपुब्बी, चरिया, सेज्जा, वहेय, रोगे य, तणफासजल्लमेव य, एक्कारस वेयणिज्जंमि ४८) अनुक्रमे पड़ेला पाय परीषदों—(१) क्षुधा, (२) तृषा, (३) शीत (४) उष्ण अने (५) दंशमशक, (६) चर्या, (७) शय्या, (८) वध, (९) रोग, (१०) तृणस्पर्श अने (११) मल आ अगियार परीषदों का वेदनीय कर्मों का समावेश थाय छे. (दंसणमोहणिज्जेणं भंते ! कस्मे कइ परीसहा समोयरति ?) हे भदन्त ! दर्शनमोहनीय कर्मों में कितना परीषदों का समावेश थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (एगे दंसणपरीसहे समोयरइ) दर्शनमोहनीय कर्म

गौतम ! सप्त परीपहाः समवतरन्ति, तद्यथा—“अरतिः, अचेष्टः, स्त्री, नैपेचिकी, याचना च । आक्रोशः, सत्कारपुरस्कारौचरिप्रमोहे समैते ” ॥५९॥ अन्तरायिके खलु भदन्त ! कर्मणि कति परीपहाः समवतरन्ति ? गौतम ! एक अलामपरीपहाः समवतरति । सप्तविषयभक्तस्य खलु भदन्त ! कति परीपहाः प्रहृष्टाः ? गौतम ! शत्रुशक्तिः परीपहाः प्रहृष्टाः, विद्वतिः पुनर्वेदयति, यस्मिन् समये क्षीतपरीपह वेद

परीपहका समावेश होता है। (चरित्तमोहणिउजेण भते । कइ परीसहा समोयरंति) हे भदन्त ! चरित्र मोहनीयकर्म में कितने परीपहों का समावेश होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सप्त परीसहा समोयरंति) चरित्र मोहनीयकर्ममें सात परीपहोंका समावेश होता है। (त जहा) जो इस प्रकार से हैं (अरती, अचेष्ट, इत्थी, निसीहिया, जायणा य, अकोसे, सकारपुरकारे चरित्तमोहमि ससेते) अरति, अचेष्ट, स्त्री, नैपिचिकी, याचना, आक्रोश और सत्कारपुरस्कार इस प्रकार ये सात परीपह हैं। ५९। (अंतरायण ण भंते ! कस्से कइ परीसहा समोयरंति) हे भदन्त ! अन्तरायकर्म में कितने परीपहों का समावेश होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (एगे अलामपरीसहे समोयरह) अन्तराय कर्म में एक अलाम परीपह का समावेश होता है। (सप्तविहयभगस्त ण भंते ! कइ परी सहा पण्णसा) हे भदन्त ! सात प्रकार के कर्म का य घ करनेवाले जीव के कितने परीपह होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (चासीस परीपहा पण्णसा) सात प्रकार के कर्म का य घ करने वाले जीव के चाईस परी

मां जेठ इश'न परीपहणे । च समावेश थाय छे (चरित्तमोहणिउजेण भंते । कइ परीसहा समोयरंति ?) हे भदन्त ! चरित्र मोहनीय कर्ममां केटला परी पडेणे समावेश थाय छे ? (गोयमा ।) हे गौतम ! (सप्तपरीसहा समोयरंति - तं जहा) चरित्र मोहनीय कर्ममा नीये प्रभावे सात परीपडेणे समावेश थाय छे (अरती, अचेष्ट इत्थी, निसीहिया, जायणा य, अकोसे, सकार पुरकारे चरित्तमोहमि ससेते) अरति, अचेष्ट स्त्री, नैपेचिकी, याचना आक्रोश जने सत्कारपुरस्कार, जमा प्रभावे सात परीपडेणे चरित्र मोहनीय कर्ममां समावेश थाय छे (अंतरायण भंते । कस्से कइ परीसहा समोयरंति) हे भदन्त ! अंतराय कर्ममां केटला परीपडेणे समावेश थाय छे ? (गोयमा ।) हे गौतम ! (एगे अलामपरीसहे समोयरह) अंतराय कर्ममां जेठ अलाम परीपहणे च समावेश थाय छे (सप्तविहयभगस्त ण भंते । कइ परीसहा पण्णसा ?) हे भदन्त ! सात प्रकारने कर्मणे जेठ करनार एवने केटला परी पडे । अद्वन करवा पडे छे ? (गोयमा ।) हे गौतम ! चासीस परीसहा पण्णसा

યતિ, નો તસ્મિન્ સમયે ઉષ્ણપરીપહં વેદયતિ, યસ્મિન્ સમયે ઉષ્ણપરીપહં વેદયતિ, નો તસ્મિન્ સમયે શીતપરીપહં વેદયતિ, યસ્મિન્ સમયે ચર્યાપરીપહં વેદયતિ, નો તસ્મિન્ સમયે નૈષેધિકીપરીપહં વેદયતિ, યસ્મિન્ સમયે નૈષેધિકીપરીપહં વેદયતિ, નો તસ્મિન્ સમયે ચર્યાપરીપહં વેદયતિ । એવમ્ અષ્ટવિધવન્ધકસ્યાપિ । પદ્ધવિધવન્ધકસ્ય ચ્વલ્લુ ભદન્ત । સરાગછત્ત્વસ્થસ્ય કતિ પરિપહાઃ પ્રજ્ઞતાઃ ? ગૌતમ ! ચતુર્દશ પરીપહાઃ

પદ્ધ હોતે હૈં । (વીસં પુણવેદ્દ) પરન્તુ વેદન જીવ કે એક સાથ વીસ પરીપહોં કા હોતા હૈં । (જં સમયં સીયપરીસહં વેદ્દ, ણો તં સમયં ઉસિણ પરીસહં વેદ્દ, જં સમયં ઉસિણપરીસહં વેદ્દ, ણો તં સમયં સીયપરીસહં વેદ્દ, જં સમયં ચરિયાપરીસહં વેદ્દ, ણો તં સમયં નિસીહિયાપરીસહં વેદ્દ) જિસ સમય શીતપરીપહ કા વેદન હોતા હૈં, ઉસ સમય ઉષ્ણ-પરીપહ કા વેદન નહીં હોતા હૈં, તથા જિસ સમય ઉષ્ણપરીપહ કા વેદન હોતા હૈં, ઉસ સમય શીતપરીપહ કા વેદન નહીં હોતા હૈં । જિસ સમય ચર્યા પરીપહ કા વેદન હોતા હૈં ઉસ સમય નૈષેધિકી પરીપહ કા વેદન નહીં હોતા હૈં ઓર જિસ સમય નૈષેધિકી પરીપહ કા વેદન હોતા હૈં ઉસ સમય ચર્યા પરીપહ કા વેદન નહીં હોતા હૈં । (એવં અદ્ધવિહ વન્ધગસ્સ વિ) હસી તરહ સે આઠ પ્રકાર કે કર્મ કા વન્ધ કરને વાલે જીવ કે મી વાર્દસ પરીપહ હોતે હૈં । પરન્તુ વેદન ૨૦ વીસ કા હી હોતા હૈં એક સાથ । (છત્ત્વિહ વન્ધગસ્સ ણં મંતે ! સરાગછત્ત્વસ્સ કહ પરીસહા પણ્ણત્તા) હે ભદન્ત ! છહ પ્રકાર કે કર્મોં કા વન્ધ કરને વાલે સરાગ

સાત પ્રકારના કર્મોના બંધ કરનાર જીવને બાવીશ પરીપહો સહન કરવા પડે છે (વીસં પુણ વેદ્દ) પણ એક સાથે ૨૦ પરીપહોતુ જીવને વેદન કરવુ પડે છે. (જં સમયં સીયપરીસહં વેદ્દ, ણો ત સમયં ઉસિણપરીસહં વેદ્દ, જ સમયં ઉસિણ પરીસહ વેદ્દ, ણો ત સમયં સીયપરીસહં વેદ્દ, જ સમયં ચરિયા પરીસહ વેદ્દ, ણો ત સમયં નિસીહિયાપરીસહ વેદ્દ) જે સમયે શીત પરીપહનું વેદન થાય છે, તે સમયે ઉષ્ણપરીપહનું વેદન થતુ નથી, તથા જે સમયે ઉષ્ણપરીપહનું વેદન થાય છે, તે સમયે શીતપરીપહનું વેદન થતુ નથી. તથા જે સમયે ચર્યાપરીપહનું વેદન થાય છે, તે સમયે નૈષેધિકી પરીપહનું વેદન થતુ નથી, અને જે સમયે નૈષેધિકી પરીપહનું વેદન થાય છે, તે સમયે ચર્યાપરીપહનું વેદન થતુ નથી (એવ અદ્ધવિહ વન્ધગસ્સ વિ) એજ પ્રમાણે આઠ પ્રકારના કર્મોના બંધ કરનાર જીવને પણ બાવીશ પરીપહો સહન કરવા પડે છે. પરન્તુ એવો જીવ એક સાથે ૨૦ પરીપહોતુ જ વેદન કરે છે. (છત્ત્વિહ વન્ધગસ્સ ણ મંતે ! સરાગ છત્ત્વસ્સ કહ પરીસહા પણ્ણત્તા ?) હે ભદન્ત !



મગ્ધા, ઘાદશ પુનર્વેદયતિ યસ્મિન્ સમયે શીતપરીપદ્ધં વેદયતિ, નો તસ્મિન્ સમયે ડબ્બપરીપદ્ધં વેદયતિ, યસ્મિન્ સમયે ઉષ્ણપરીપદ્ધં વેદયતિ નો તસ્મિન્ સમયે શીતપરીપદ્ધં વેદયતિ, યસ્મિન્ સમયે ચર્યાપરીપદ્ધં વેદયતિ, નો તસ્મિન્ સમયે શ્યાપરીપદ્ધં વેદયતિ, યસ્મિન્ સમયે શ્યાપરીપદ્ધં વેદયતિ, નો તસ્મિન્ સમયે ઘર્યાપરીપદ્ધં વેદયતિ । एकविधपक्षस्य स्वच्छ मन्त ! शीतरागछद्मस्यस्य कति परीपदा

છદ્મસ્ય જીવ કે કિતને પરીપદ્ધં હોતે હું ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! છદ્મ પ્રકાર કે કર્મોં કા યદ્ય કરને બાલે સરાગછદ્મસ્ય જીવ કે (બોદસ પરી સહા પગ્ગસા) બોદસ પરીપદ્ધં હોતે હું । (ચારમ પુણવેણ્હ) પરન્તુ વહ એક સાથ વારહ ૧૨ પરીપદ્ધોં કા વેદન કરતા હૈ । (જ સમયં સીયપરી-મહં વેણ્હ જો ત સમય ડસિણપરીસહ વેણ્હ, જ સમય ડસિણપરીસહં વેણ્હ, નો ત સમયં સીયપરીમહ વેણ્હ, જં સમય ચરિયા પરીસહં વેણ્હ, જો તં સમય સેઝાપરીસહ વેણ્હ, જં સમયં સેઝાપરીસહં વેણ્હ, જો તં સમયં ચરિયાપરીમહં વેણ્હ) ક્યોં કિ જિસ સમય વહ શીતપરીપદ્ધં કા વેદન કરતા હૈ ડસ સમય વહ ડબ્બપરીપદ્ધં કા વેદન નહીં કરતા હૈ । તથા જિસ સમય વહ ડબ્બપરીપદ્ધં કા વેદન કરતા હૈ ડસ સમય વહ શીતપરીપદ્ધં કા વેદન નહીં કરતા હૈ । જિસ સમય વહ ચર્યાપરીપદ્ધં કા વેદન કરતા હૈ—ડસ સમય વહ શ્યાપરીપદ્ધં કા વેદન નહીં કરતા હૈ ઓર જિસ સમય વહ શ્યાપરીપદ્ધં કા વેદન કરતા હૈ ડસ સમય વહ ચર્યાપરીપદ્ધં કા વેદન નહીં કરતા હૈ । (एकविधपक्षस्य मन्ते ! शीप


છ પ્રકારના કર્મોંના બધ કરનાર સરાગ છદ્મસ્ય જીવને કેટલા પરીપદ્ધોં સહન કરવા પડે છે ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! છ પ્રકારના કર્મોંના બધ કરનાર સરાગ છદ્મસ્ય જીવને (બોદસપરીસહા પગ્ગસા) બોદ પરીપદ્ધોં સહન કરવા પડે છે 'વારસ પુણ વેણ્હ' પણ તે બધે સાથે બાર પરીપદ્ધોંનું વેદન કરે છે "જં સમયં સીયપરીસહ વેણ્હ જો ત સમય ડસિણપરીસહ વેણ્હ, જં સમય ડસિણપરીસહ વેણ્હ, નો ત સમય સીયપરીસહ વેણ્હ, જ સમય ચરિયાપરીસહ વેણ્હ, જો ત સમય સેઝાપરીસહ વેણ્હ, જ સમય સેઝાપરીસહ વેણ્હ, જો ત સમય ચરિયાપરીસહ વેણ્હ" કારણ કે જે સમયે તે શીત પરી પદ્ધનું વેદન કરે છે તે સમયે તે ડબ્બપરીપદ્ધનું વેદન કરતો નથી તથા જે સમયે તે ડબ્બપરીપદ્ધનું વેદન કરે છે, તે સમયે તે શીતપરીપદ્ધનું વેદન કરતો નથી તથા જે સમયે તે ચર્યાપરીપદ્ધનું વેદન કરે છે, તે સમયે તે શ્યાપરીપદ્ધનું વેદન કરતો નથી તથા જે સમયે તે શ્યાપરીપદ્ધનું વેદન કરે છે, તે સમયે તે ચર્યાપરીપદ્ધનું વેદન કરતો નથી "एकविधपक्षस्य मन्ते ! शीप

प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! एवमेव, यथैव षड्विधबन्धकस्य । एकविधबन्धकस्य खलु भदन्त ! सयोगिभवस्थकेवलिनः कति परीपहाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! एकादश-परीपहाः प्रज्ञप्ताः, नव पुनर्वेदयति, शेषं यथा षड्विधबन्धकस्य । अबन्धकस्य खलु भदन्त ! अयोगिभवस्थकेवलिनः कति परीपहाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! एकादश-

यीपरागच्छउमत्थस्स कर्हं परीसहा पणत्ता) हे भदन्त ! एक प्रकार के कर्म का बंध करने वाले वीतराग छद्मस्थ के कितने परीपह होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (एवं चेव जहेव छव्विहबन्धगस्स) जिस प्रकार से छह प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले जीव के परीपहों का होना कहा गया है उतने ही परीपहों का होना एक प्रकार के कर्म का बंध करनेवाले वीतराग छद्मस्थके कहा गया है । (एगविहबन्धगस्स णं भंते ! सजोगिभवत्थकेवलिस्स कइ परीसहा पणत्ता) हे भदन्त ! एकविधबंधक सयोगी भवस्थ केवलज्ञानी के कितने परीपह होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! एकविध बंधक सयोगी भवस्थ केवलज्ञानी के (एकारस परीसहा पणत्ता) ग्यारह ११ परीपह होते हैं । (नवपुण वेएइ) परन्तु वह एक साथ नौ परीपहों का वेदन करता है । (सेसं जहा छव्विहबन्धगस्स) बाकी का और सब कथन ६ प्रकार के कर्मों को बंध करने वाले जीव की तरह से जानना चाहिये । (अबन्धगस्स णं भंते ! अजोगिभवत्थ केवलिस्स कइ परीसहा पणत्ता) हे भदन्त ! कर्मबंधरहित

रागछमत्थस्स कर्हं परीसहा पणत्ता ? " हे भदन्त ! एक प्रकारना कर्मोना अंध करनार वीतराग छद्मस्थने डेटला परीपडो वेठवा पडे छे ?

" गोयमा ! " हे गौतम ! " एव चेव जहेव छव्विहबन्धगस्स) छ प्रकारना कर्मोना अंध करनार अणना जेटला परीपडो कइला छे, अटला न परीपडो एक प्रकारना कर्मोना अंध करनार वीतराग छद्मस्थना पणु कइला छे. (एगविह बन्धगस्स णं भंते ! सजोगी भवत्थकेवलिस्स कइ परीसहा पणत्ता?) हे भदन्त ! एक प्रकारना कर्मोना अंध करनार सयोगी भवस्थ केवलज्ञानीना डेटला परीपडो कइला छे ? " गोयमा ! " हे गौतम एक प्रकारना कर्मोना अंध करनार सयोगी भवस्थ केवलज्ञानीना (एकारस परीसहा पणत्ता) अजि-थार परीपडो कइला छे (नव पुण वेएइ) परन्तु ते एक साथे नव परीपहोनुं न वेदन करे छे. (सेसं जहा छव्विहबन्धगस्स) आकीनुं समस्त कथन ६ छ प्रकारना कर्मोना अंध करनार अणना कथन प्रमाणे समजनुं (अबन्धगस्स णं भंते ! अजोगिभवत्थकेवलिस्स कइ परीसहा पणत्ता ?) हे भदन्त कर्म



परीपहा प्रहृष्टा*, नच पुनर्बेदयति, यस्मिन् समये शीतपरीपहं वेदयति, नो तस्मिन् समये उष्णपरीपह वेदयति, यस्मिन् समये चर्षापरीपह वेदयति नो तस्मिन् समये शय्यापरीपह वेदयति, यस्मिन् समये शय्यापरीपहं वेदयति नो तस्मिन् समये चर्षापरीपहं वेदयति ॥ सू० ५ ॥

टीका—'कइ ण मते! कम्मपयङ्गीओ पण्णात्ताओ?' गौतमः पृच्छति—इे भदन्त! क्वि क्वियस्य खल्ल कम्मकृतपः सायधानुष्ठानसङ्गणाः प्रहृष्टा*! मगवानाह 'गोयमा!

अयोगी भवस्य केवली के फिजने परीपह होते हैं? (गोयमा) हे गौतम! कर्मघरहित अयोगी भवस्य केवली के (एकारसपरीसहा पण्णात्ता) ११ परीपह होते हैं। (नच पुणवेदेइ) परन्तु वे एक साथ नौ परीपहों का वेदन करते हैं। (जं समयं सीयपरिसहं वेएइ, नो त समयं वसिणपरीसहं वेएइ, जं समयं वसिणपरीसहं वेणइ, नो त समयं सीयपरीसहं वेएइ, जं समयं चरियापरिसहं वेएइ, नो त समयं सेज्जापरीसहं वेएइ, जं समयं सेज्जापरीसहं वेएइ, नो त समयं चरियापरीसहं वेएइ) क्यों कि जिस समय में वे शीतपरीपह का वेदन करते हैं उस समय वे उष्णपरीपह का वेदन नहीं करते हैं। और जब वे उष्णपरीपह का वेदन करते हैं तब शीतपरीपह का वेदन नहीं करते हैं। तथा जब वे चर्षापरीपह का वेदन करते हैं, उस समय वे शय्यापरीपह का वेदन नहीं करते हैं, और जब वे शय्यापरीपह का वेदन करते हैं, तब वे चर्षापरीपह का वेदन नहीं करते हैं।


अथ रद्धित अयोगी भवस्य केवलीना डेटसा परीपहेइ कइया ऐ? (गोयमा।) हे गौतम! कम्मपयङ्गीओ पण्णात्ताओ (एकारसपरीसहा पण्णात्ता) अविहार परीपहेइ कइया ऐ, (नच पुण वेएइ) परन्तु तेज्जे ज्जेइ साथे नच परीपहेइनु वेदन करे ऐ (जं समयं सीयपरिसहं वेएइ, नो त समयं वसिणपरीसहं वेएइ, जं समयं वसिणपरीसहं वेणइ, नो त समयं सीयपरीसहं वेएइ, जं समयं चरियापरिसहं वेएइ, नो त समयं सेज्जापरीसहं वेएइ, जं समयं सेज्जापरीसहं वेएइ) कइएइ के ऐ समये तेज्जे शीतपरीपहं वेदन करे ऐ, ते समये उष्णपरीपहं वेदन करता नथी, अने ते समये उष्णपरीपहं वेदन करे ऐ, ते समये शीतपरीपहं वेदन करता नथी, अने तेज्जे शय्यापरीपहं वेदन करे ऐ, त्पारे शय्यापरीपहं वेदन करता नथी, अने तेज्जे चर्षापरीपहं वेदन करे ऐ, त्पारे चर्षापरीपहं वेदन करता नथी।

अट्ट कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ' हे गौतम ! अट्ट, कर्मप्रकृतयः प्रज्ञप्ताः, 'त जहा-
णाणावरणिज्जं जाव अंतराइयं' तद्यथा-ज्ञानावरणीयं १, यावत् आन्तरायिकम्,
यावच्छब्दात् दर्शनावरणीयम् २, वेदनीयम् ३, मोहनीयम् ४, आयुष्कम् ५,
नाम६, गोत्रम् ७, चेत्येतेषां ग्रहणम्, गौतमः पृच्छति- 'कइ णं भंते ! परीसहा-
पण्णत्ता ?' हे भदन्त ! कति खलु परीषहाः प्रज्ञप्ताः ? परितः समन्तात् स्वहेतुभि-
रुदीरिता मार्गोच्चयन-कर्मनिर्जरार्थं साधुभिः सह्यन्ते इति परीषहाः, भगवानाह-
'गोयमा ! बावीसं परीसहा पण्णत्ता' हे गौतम ! द्वाविंशतिश्च ते परीषहाः प्रज्ञप्ताः,

टीका १-—पहिले कर्मवक्तव्यता का प्ररूपण किया जा चुका है। सो
अब उन्हीं कर्मों में यथायोग्य परीषहों के अवतार (समावेश) को
प्ररूपण करने की इच्छा से सूत्रकार यहां कर्मप्रकृतियों का और परी-
षहों का वर्णन करते हैं-इस में गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं 'कइ
णं भंते ! कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ' हे भदन्त ! सावधानुष्ठानरूप कर्म
प्रकृतिर्या वितनी वही गई हैं ? उत्तर में प्रभु कहते हैं- 'गोयमा' हे
गौतम ! 'अट्ट कम्म पयडीओ पण्णत्ताओ' कर्मप्रकृतियां आठ कही
गई हैं। 'तं जहा' जो इस प्रकार से हैं- 'णाणावरणिज्जं जाव अंत-
राइयं' ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम,
गोत्र और अन्तराय। अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं- (कइणं
भंते ! परीसहा पण्णत्ता) हे भदन्त ! परीषह कितने कहे गये हैं ? उत्तर
में प्रभु कहते हैं- (गोयमा) हे गौतम ! (बावीसं परीसहा पण्णत्ता)

टीकार्थ-—पडेलांना प्रकरणुमा कर्मवक्तव्यतानी प्ररूपणा करवामां आवी
छे डवे ते कुभोमां यथायोग्य परीषडोना अवतारनुं (समावेशनुं) निरूपणु
करवा निमित्ते सूत्रकार अहीं कर्मप्रकृतियो अने परीषडोनुं वण्णुं करे छे आ
विषयने अनुलक्षिने गौतमस्वामी मंडावीर प्रभुने पूछे छे के- "कइ णं भंते !
कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ ?" हे भदन्त ! सावधानुष्ठानरूप कर्मप्रकृतियो केटली
कही छे ? तेना उत्तर आपता मंडावीर प्रभु कडे छे- "गोयमा !" हे गौतम !
"अट्ट कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ" कर्मप्रकृतियो आठ कही छे "त जहा"
हे आ प्रभाणु छे- "णाणावरणिज्जं जाव अंतराइय" ज्ञानावरणीय, दर्शना-
वरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र अने अन्तराय
गौतमस्वामीने प्रभु- "कइ णं भंते ! परीसहा पण्णत्ता ?" हे भदन्त !
परीषडो केटला कहा छे ?

मंडावीर प्रभुने उत्तर- "गोयमा !" हे गौतम ! "बावीसं परीसहा
पण्णत्ता" परीषडो आवीश कहा छे. परीषड शब्दनी श्रुत्यपत्ति नीचे प्रभाणु



परीपह प्रकृष्टाः, नच पुनर्वेद्यति, यस्मिन् समये शीतपरीपहं वेदयति, नो तस्मिन् समये उष्णपरीपहं वेदयति, यस्मिन् समये चर्मापरीपहं वेदयति नो तस्मिन् समये शय्यापरीपहं वेदयति, यस्मिन् समये शय्यापरीपहं वेदयति नो तस्मिन् समये चर्मापरीपहं वेदयति ॥ सू० ५ ॥

टीका—'कइ ज मंते 'कर्मपयढीओ पण्णत्ताओ?' गौतमः पृच्छति—इ मइन्त ! कति कियस्य सल्ल कम्मप्रकृतपः साधयानुष्ठानलक्षणः प्रहस्ता' ? मगवानाह 'गोयमा ।

अयोगी भवस्य केवली के किसने परीपह होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! कर्मयधरहित अयोगी भवस्य केवली के (एकारसपरीसह पण्णत्ता) ११ परीपह होते हैं । (नव पुण्यवेदेह) परन्तु वे एक साथ नौ परीपहों का वेदन करते हैं । (ज समय सीपपरिसह वेपह, नो तं समय उसिणपरीसह वेपह, जं समय उसिणपरीसह वेपह, नो तं समय सीप परीसह वेपह, जं समय चरियापरिसह वेपह, नो म समय सेज्जापरीसह वेपह, जं समय सेज्जापरीसह वेपह, नो तं समय चरियापरीसह वेपह) क्यों कि जिस समय में वे शीतपरीपह का वेदन करते हैं उस समय वे उष्णपरीपह का वेदन नहीं करते हैं । और जब वे उष्णपरीपह का वेदन करते हैं तब शीतपरीपह का वेदन नहीं करते हैं । तथा जब वे चर्मापरीपह का वेदन करते हैं, उस समय वे शय्यापरीपह का वेदन नहीं करते हैं, और जब वे शय्यापरीपह का वेदन करते हैं, तब वे चर्मापरीपह का वेदन नहीं करते हैं ।

अथ रक्षित अथोऽपि भवस्य केवलीना डेटसा परीपहो कइया छे ? (गोयमा ।) हे गौतम ! इमं अथ रक्षित अथोऽपि भवस्य केवलीना (एकारस परीसह पण्णत्ता) अनिवाह परीपहो कइया छे, (तब पुण्य वेपह) परन्तु तेज्जे जेह साधे नव परीपहोंनु वेदन करे छे (ज समय सीपपरिसह वेपह, नो तं समय उसिणपरीसह वेपह, जं समय उसिणपरीसह वेपह, नो तं समय सीप परीसह वेपह, जं समय चरियापरिसह वेपह, नो तं समय सेज्जापरीसह वेपह, जं समय सेज्जापरीसह वेपह, नो तं समय चरियापरिसह वेपह) इत्येव ते ने समये तेज्जे शीतपरीपहं वेदन करे छे, ते समये उष्णपरीपहं वेदन करता नथी, अने ने समये उष्णपरीपहं वेदन करे छे, ते समये शीतपरीपहं वेदन करता नथी. अने अथारे तेज्जे चर्मापरीपहं वेदन करे छे, त्थारे शय्यापरीपहं वेदन करता नथी, अने अथारे तेज्जे शय्या परीपहं वेदन करे छे, त्थारे चर्मापरीपहं वेदन करता नथी.

अदृ कम्मपयडीओ पणत्ताओ' हे गौतम । अष्ट, कर्मप्रकृतयः प्रज्ञप्ताः, 'त जहा-
णाणावरणिज्जं जाव अंतराइयं' तद्यथा-ज्ञानावरणीयं १, यावत् आन्तरायिकम् ,
यावच्छब्दात् दर्शनावरणीयम् २, वेदनीयम् ३, मोहनीयम् ४, आयुष्कम् ५,
नाम ६, गोत्रम् ७, चेत्येतेषां ग्रहणम् , गौतमः पृच्छति—' कइ णं भंते । परीसहा-
पणत्ता ?' हे भदन्त । कति खलु परीषदाः प्रज्ञप्ताः ? परितः समन्तात् स्वहेतुभि-
रुदीरिता मार्गोच्चयवन-कर्मनिर्जरार्थं साधुभिः सह्यन्ते इति परीषदाः, भगवानाह—
'गोयमा । वावीसं परीसहा पणत्ता ' हे गौतम ! द्वाविंशतिश्च ते परीषदाः प्रज्ञप्ताः,

टीका १—पहिछे कर्मवक्तव्यता का प्ररूपण किया जा चुका है । सो
अब उन्हीं कर्मों में यथायोग्य परीषदों के अवतार (समावेश) को
प्ररूपण करने की इच्छा से सूत्रकार यहाँ कर्मप्रकृतियों का और परी-
षदों का दर्शन करते हैं—इस में गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं 'कइ
णं भंते ! कम्मपयडीओ पणत्ताओ' हे भदन्त ! सावधानुष्ठानरूप कर्म
प्रकृतिर्या कितनी वही गई हैं ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—'गोयमा' हे
गौतम ! 'अदृ कम्म पयडीओ पणत्ताओ' कर्मप्रकृतियाँ आठ कही
गई हैं । 'तं जहा' जो इस प्रकार से हैं—'णाणावरणिज्जं जाव अंत-
राइयं' ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम,
गोत्र और अन्तराय । अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(कइणं
भंते । परीसहा पणत्ता) हे भदन्त ! परीषद कितने कहे गये हैं ? उत्तर
में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (वावीसं परीसहा पणत्ता)

टीका २—पड़ेलांना प्रकरणुमा कर्मवक्तव्यतानी प्ररूपणा करवामा आवी
छे हवे ते कर्मोमां यथायोग्य परीषडोना अवतारतुं (समावेशतुं) निरूपण
करवा निमित्ते सूत्रकार अहीं कर्मप्रकृतियो अने परीषडोतुं वखुंन करे छे. आ
विषयने अनुवक्षीने गौतमस्वामी मडावीर प्रबुने पूछे छे के—'कइ णं भंते !
कम्मपयडीओ पणत्ताओ ?' हे भदन्त ! सावधानुष्ठानरूप कर्मप्रकृतियो केटकी
कही छे ? तेने उत्तर आपता मडावीर प्रबु कडे छे—'गोयमा ।' हे गौतम !
"अदृ कम्मपयडीओ पणत्ताओ" कर्मप्रकृतियो आठ कही छे. "तं जहा"
हे आ प्रभावे छे—'णाणावरणिज्ज जाव अंतराइयं' ज्ञानावरणीय, दर्शना-
वरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र अने अन्तराय.
गौतमस्वामीने प्रभु—'कइ णं भंते ! परीसहा पणत्ता ?' हे भदन्त !
परीषडो केटका कहा छे ?

मडावीर प्रबुने उत्तर—'गोयमा ।' हे गौतम ! "वावीसं परीसहा
पणत्ता" परीषडो आबीस कहा छे. परीषद शब्दनी व्युत्पत्ति नीचे प्रभावे

वानेवाह- ' तं जहा-दिगिच्छापरीसहे, पिशासापरीसहे जाव दंसणपरीसहे ' तद्यवा-
त्रिघत्सापरीसहः स एव पुसुक्ष्मापरीसहः, तपोर्यम् अनेपणीयमक्तपरिहारार्यं मोक्षानिला-
पिणा परिपद्यमानस्वात् पुसुक्ष्मापरीसहः १, एव पिपासापरीसहः २, यावत्-दर्शनपरी-
सहोऽपि, याक्त्करणात्-३-शीतपरीसह, ४-उष्णपरीसहः, ५-दक्षमशकपरीसहः।


परीसह षाईस २९ कहे गये हैं। " परितः-समन्तात् स्वहेतुमिः उदीरिता
मार्गाच्यवन कर्मनिर्जरार्थं साधुमिः सद्यन्ते इति परीसहाः " यह परीसह
शब्द की व्युत्पत्ति है। साधुओं द्वारा जो मार्ग से च्युत न होने और
कर्म की निर्जरा के निमित्त सभ ओर से अपने हेतुओं द्वारा उदीरित
करके सहन करने योग्य हों उनका नाम परीसह हैं। (त जहा) जो
इस प्रकार से हैं-(दिगिच्छापरीसहे, पिशासापरीसहे जाव दंसणपरीसह
हे) त्रिघत्सा परिपद्य-पुसुक्ष्मापरीसह, पिपासा-तृषा परीसह यावत् दर्शन
परीसह; क्षुधा और तृषा की चाहे कैसी भी वेदना हो फिर अगीकार
की हुई मर्यादा के विरुद्ध आहार पानी न लेते हुए समभावपूर्वक ऐसी
वेदनाओं को सहन करना सो क्षुधापरीसह और तृषापरीसह है। इन
परीसहों को सहन करने का भाव तप संयम की वृद्धि करने के लिये
होता है। इसी लिये मोक्षानिलापीसाधु अनेपणीय-अप्रासुक आहार
पानी का परित्याग करते हुए तत्सन्ध वेदनाओं को शान्ति के साथ
सहन करते रहते हैं। यहा यावत् पद से इन निम्नलिखित परीसहों का
समग्र हुआ है-शीतपरीसह, उष्णपरीसह, दक्षमशकपरीसह, अचेलपरी-

ॐ- " परितः-समन्तात् स्वहेतुमिः उदीरिता मार्गाच्यवन कर्मनिर्जरार्थं साधुमिः
सद्यन्ते इति परीसहाः " साधुओं द्वारा जो मार्ग से च्युत न यवाने निमित्त
निर्जराने निमित्त जभी तरहकी वेदना हेतुओं द्वारा उदीरित करीने सहन
करवाने योग्य होय, तेमनुं नाम परीसह ॐ " त जहा " ते परीसहो नीचे
प्रभावे ॐ- " दिगिच्छापरीसहे जाव दंसणपरीसहे " त्रिघत्सापरीसह (क्षुधापरीसह)
पिपासा (तृषा) परीसह यावत् दर्शनपरीसह क्षुधा अने तृषानी जैसे वेदनी
वेदना होय छतां पक्ष अजीर्ण करेनी मर्यादांनी विरुद्ध आहार पाणी नही
लेतां समभावपूर्वक जेवी वेदनाओंने सहन करवी तेनुं नाम क्षुधापरीसह अने
तृषापरीसह ॐ आ परीसहोने सहन करवाने भाव तपसयमनी वृद्धि करवाने
भावे भाव ॐ तेषी मोक्षानिलापी साधुओं अनेपणीय-अप्रासुक आहार,
पाणीने परित्याग करीने तेना कारणे उद्भवती वेदनाओंने शान्तिपूर्वक सहन
करां करे ॐ अही ' जाव (यावत्) पद्यी नीचेना परीसहो अक्षय करवाभा
ज्याया ॐ-शीतपरीसह, उष्णपरीसह, दक्षमशकपरीसह अचेलपरीसह, अरति

६-अचेलपरीषदः, ७-अरतिपरीषदः, ८-स्त्रीपरीषदः, ९-चर्यापरीषदः, १०-
नैषेधिकीपरीषदः, ११-शय्यापरीषदः, १२-आक्रोशपरीषदः, १३-वधपरीषदः,
१४-याचनापरीषदः, १५-अलाभपरीषदः, १६-रोगपरीषदः, १७-तृणस्पर्शपरी-
षदः, १८-जल्लपरीषदः, १९-सत्कारपुरस्कारपरीषदः, २०-प्रज्ञापरीषदः, २१-
ज्ञानपरीषदः, २२-दर्शनपरीषदः। अत्र परिसहन परीषदः इति भावव्युत्पत्त्या दुःखा-
दिसहनं परीषदः, परिषह्यन्ते इति व्युत्पत्त्या तु बुभुक्षादिरेव परीषदः, तत्र बुभुक्षा-
जन्यदुःखसहनं बुभुक्षापरीषदः १, पिपासासहनं पिपासापरीषदः २, शीतोष्णे परीषदौ
च आतापनार्थं शीतोष्णवाधायामपि अग्न्यादिसेवनस्नानाद्यकृत्यपरिवर्जनार्थं वा मो-
क्षाभिलाषिणा तयोः परिषद्व्युत्पत्त्यात् ४, दंशमशकपरीषदः-दंशमशकाः चतुरिन्द्रिय-

षदः, अरतिपरीषदः, स्त्रीपरीषदः, चर्यापरीषदः, नैषेधिकीपरीषदः, शय्याप-
रीषदः, आक्रोशपरीषदः, वधपरीषदः, याचनापरीषदः, अलाभपरीषदः,
रोगपरीषदः, तृणस्पर्शपरीषदः, जल्लपरीषदः, सत्कारपुरस्कारपरिषदः, प्रज्ञा-
परीषदः और ज्ञानपरीषदः, दर्शनपरीषदः। 'परिसहनं परीषदः' इस
भावव्युत्पत्ति के अनुसार दुःखादिकों का सहना परीषद है और जब
"परिषह्यन्ते परीषदाः" ऐसी व्युत्पत्ति की जाती है-तब इसके अनुसार
बुभुक्षा आदि ही स्वयं परीषदरूप होते हैं। बुभुक्षा (भूख) जन्य दुःख
का सहना इसका नाम बुभुक्षा परीषद तथा पिपासा जन्य दुःख का
सहना पिपासापरीषद है। ठंड और गरमीसे चाहे कितना ही कष्ट होता
हो, तो भी उनके निवारणार्थ अकल्प्य किसी भी वस्तुका-अग्नि आदिका
-स्नान आदिका-सेवन किये बिना ही समभाव पूर्वक उन वेदनाओंका
सहन करना जो अनुक्रमसे शीत और उष्णपरीषद हैं। दंशमशक चौह

परीषदः, स्त्रीपरीषदः, चर्यापरीषदः, नैषेधिकीपरीषदः, शय्यापरीषदः, आक्रोशपरी-
षदः, वधपरीषदः, याचनापरीषदः, अलाभपरीषदः, रोगपरीषदः, तृणस्पर्शपरीषदः
मल्लपरीषदः, सत्कारपुरस्कारपरीषदः, प्रज्ञापरीषदः, ज्ञानपरीषदः अने दर्शनपरी-
षदः "परिसहन परीषदः" आ भावव्युत्पत्ति अनुसार दुःखादिने सहन करवा
तेनुं नाम परीषदः छे "परिषह्यन्ते परीषदाः" आ प्रभाष्ये व्युत्पत्ति करवाभां
आवे त्वादे क्षुधा आदि पोते न परीषदरूप भनी नय छे बुभुक्षा (क्षुधा,
भूख) जन्य दुःख अने सहन करवु तेनु नाम बुभुक्षापरीषदः छे तृषा जन्य
दुःख अने सहन करवु तेनु नाम पिपासापरीषदः छे ठंडी अने गरमीने लीधे
गमे तेटवी भुरकेली पडे, छातां पथु तेभना निवारणु भाटे अग्निस्नान आदि
कोर्ष पथु अकल्प्य वस्तुनु सेवन र्या बिना समभावपूर्वक ते वेदनाओने सहन
करवी तेनु नाम अनुक्रमसे शीत अने उष्णपरीषदः छे.



લઘુજીવચિશેષા , અનયોરુપલપગસ્વાત્ યુક્તામાત્કુળમસિકાદિપરિગ્રહઃ, પરીપહસ્વ વૈ
 તેર્ષા શરીરન્યયામુત્પાદયતામપિ તેષામનિવારણમયદ્રેષામાત્રતો વિદ્વેષમ્ ૫, અષેલ-
 ષેલામાત્રઃજિનકલ્પિકવિશેષણમ્। સ્પવિરકલ્પિકાનાં તુ જીર્ણ સ્ખિન્નમસ્પમૂલ્ય પ્રમા-
 ણોપેથ ચ ષેલ સદપ્યષેલ્મોવ। તદ્દેષ પરીપહઃ અષેલપરીપહઃ ૬ અરતિપરીપહઃ-તત્ર-રતિઃ
 મોહનીયજન્યો મનોવિકારઃ, તસ્યા અમાત્ર -અરતિઃ તસ્યા પરીપહસ્તન્નિપેષનેત

ન્દ્રિય જીવ હૈ-યુક્તા, મત્કુળ-અટમલ-મશ્નિકાદિ ષે સપ દંશમશક પરી
 પહમેં આ જાતે હૈ-અત ઝાંસ મચ્છર આદિ જ-તુઓકા ઉપદ્રવ હોને પર
 સ્થિત ન હોતે છુપ્ત ઉસે સમ માધૂર્વક સહન કર લેના સો દંશમશક પરીપહ
 હૈ। દંશમશક કો પરીપહ્ ઇમલ્પિયે કહા ગયા હૈ કિ ષે શરીર મેં કષ્ટ
 ઉત્પન્ન કરતે હૈ-ફિર મી ઇન્હેં નહીં ભગાના ઉનસે અયનહીં રસ્વના, ઉનકે
 ઉપર દ્રેષ ભાય નહીં કરના-ઇનકે દ્વારા ઉત્પાદિત કષ્ટ કો શાંતિ સે
 સહના। યસ્ત્ર કા સર્વથા અમાધ અષેલ હૈ, યહ્ જિનકલ્પિયોં કો હોતા
 હૈ। સ્પવિરકલ્પિયોં કે જીર્ણ, સ્ખિન્ન, અસ્પમૂલ્યનાલે એષ પ્રમાણોપેથ
 યસ્ત્ર હોતે હૈ તો મી ઉનકો અષેલ હી જાનના વાહિયે। ઇસ રુપ પરીપહ
 હી અષેલ પરીપહ્ હૈ ૬। મોહનીયજન્ય માનસિક વિકાર કા નામ રતિ
 હૈ-સો ઉસ કા પ્રસંગ આ જાને પર મી-ઉસ સમય ઉસમેં રતિ રુષિ
 કો ન લાતે છુપ્ત ધૈર્યપૂર્વક ઉસે સહન કરના-ઇસકા નામ અરતિપરીપહ્
 હૈ। સાધક પુરુષ યા સ્ત્રી કો અપની સાધના મેં વિજાતીય આકર્ષણ સે

૫, માકક, માળી આદિ અતુરિન્દ્રિય જીવોને દંશમશક કહે છે એવાં
 જીવો તથા ઝંસ, મચ્છર આદિ જીવોનો ઉપદ્રવ થાય ત્યારે જિન્ન ન થતા,
 તેના ત્રાસને સમભાવ પૂરક સહન કરવો તેનું નામ દંશમશક પરીપહ છે
 દંશમશકને પરીપહ ગણવાનું કારણ એ છે કે તેઓ શરીરમાં કષ્ટ ઉત્પન્ન કરે
 છે, છતાં પણ તેમને બાગાવ્યા નહી, તેમનો ભય ન રાખવો, તેમના ઉપર
 દ્રેષ ન કરવો અને તેમના દ્વારા ઉત્પાદિત કષ્ટને શાંતિથી સહન કરવું તેનું
 નામ જ દંશમશક પરીપહ છે અષેલ " એટલે વસ્ત્રને અભાવ હોય છે
 સ્પવિર કલ્પિયો જીવ જિન, અસ્પમૂલ્યવસ્ત્રા અને પ્રમાણોપેથ વસ્ત્ર રાજે
 છે. છતાં પણ તેમને અષેલ જ ગણવામાં આવે છે અને તે પ્રકારના પરીપ
 હને અષેલ પરીપહ કહે છે

મોહનીય જન્ય માનસિક વિભાવનું નામ રતિ છે તેા તેનો પ્રસંગ
 આવી પડે ત્યારે તેમાં રતિ-રુષિ રાખ્યા વિના ધૈર્યપૂર્વક તેને સહન કરવી
 તેનું નામ અરતિપરીપહ છે સાધક પુરુષ કે સ્ત્રીએ પોતાની સાધનામાં વિના

सहनात् ७, स्त्रीपरीषद्, तन्निरपेक्षत्वं मैथुनवर्जनं ब्रह्मचर्यमित्यर्थः ८, चर्यापरीषद्:-
चर्यायां ग्रामनगरादिषु संचरणस्य परिषद्गम् अप्रतिबद्धतया विहरणम् चर्यापरी,
षद्: ९, नैषेधिकीपरीषद्:-नैषेधिक्याः स्वाध्यायभूमेः शून्यागारादिरूपायाः परि-
षद्गम्, तत्रोपसर्गवाधादौ त्रासाभावः १०, शय्यापरीषद्:-शय्याया वसतेः परिष-
द्गं तज्जन्यदुःखादेरुपेक्षा, ११, आक्रोशपरीषद्:-आक्रोशस्य गालिप्रदानादि-
दुर्वचनस्य परिषद्गम् १२, वधपरीषद्:-वधस्य यष्ट्यादिना ताडनस्य परिषद्गं

नहीं ललचाना मैथुन सेवन का त्याग करना-ब्रह्मचर्य का पालन करना
यह स्त्रीपरिषद् है। स्वीकार किये हुए धर्मजीवन को पुष्ट रखने के लिये
असंग वन भिन्न २ स्थानों में ग्राम नगर आदिकों में-विहार करना-
उनमें नियत वास स्वीकार नहीं करना-इसका नाम चर्यापरीषद् है।
शून्यागार (सूने घर) आदि रूप स्वाध्यायभूमि का नाम नैषेधिकी है
-इसका सहन करना अर्थात् साधना के अनुकूल एकान्त जगह में
मर्यादित समय तक आसन लगाकर बैठे हुए यदि भय का प्रसंग आ
पड़ता है तो उसे बिना किसी कम्पितवृत्ति के सहलेना इसका नाम
नैषेधिकी परीषद् हैं। वसति को सहन करना-तज्जन्य दुःखादिकों की
उपेक्षा करना-अर्थात् कोमल या कठिन, ऊँची या नीची जैसी भी
सहजभाव से मिले वैसी जगह में समभाव से रहना-इसका नाम
शय्यापरीषद् है। गालीप्रदानादि रूप दुर्वचनों का सहन करना-कोई भी
व्यक्ति अप्रिय, कठोर वचन कहे-तो उसे सत्कार के जैसा समझ कर

तीय आकर्षणुथी ललचावु न्नेधञ्जे नडी। तेमञ्जे मैथुन सेवनने त्याग करवे।
न्नेधञ्जे-ब्रह्मचर्य पाणवु न्नेधञ्जे तेनु नाम न् स्त्रीपरीषद् छे अंगीकार करेला
धर्मशुवनने पुष्ट करवाने भाटे असंग भनीने जुहां जुहा स्थानोभां-ग्राम,
नगर आदिभां विहार करवे-तेभां नियतवास न स्वीकारवे-तेनुं नाम चर्या
परीषद् छे। शून्यागार (सूनां घर) आदि रूप स्वाध्याय भूमिने नैषेधिकी
कडे छे-तेने सडन करवु अटले के साधनाने अनुकूल एकान्त स्थानभां मर्या-
दित समय सुधी आसन न्भावीने जेडा डोय त्यारे लयने प्रसंग आवी पडे
तो तेने मिलकुल निर्वाय भनीने सडी देवे। तेनु नाम नैषेधिकी परीषद् छे।
कोमल के कठिन, उंची के नीची, सडन लावे जेवी भजे जेवी न्ज्याभां
समभावपूर्वक रडेवुं तेनु नाम शय्यापरीषद् छे।

कोई पणु व्यक्ति गाणे हे, अप्रिय अने कठोर वचन संलणावे, तो
तेने सत्कार समान गळीने सडन करी देवा तेनु नाम आक्रोश-परिषद् छे।

ज्ञान्यवलम्बनम् १३, याचनापरीपह - याचनाया मियादिरूपाया परीपहण तत्र
 मानापमानसहनम् १४, अलामपरीपह - अलामस्य प्राप्त्यभावस्य वा परीपहणम्,
 तत्र दैन्यानुत्पादनम् १५, रोगपरीपह - रोगस्य परीपहण तज्जन्यपीडासहनम्
 चिकित्सावर्जनं च १६, तृणस्पर्शपरीपह - तृणस्पर्शस्य शय्यादी कुशादिस्पर्शस्य
 परीपहण शय्यादिगततृणस्पर्शजन्यदुःखादिसहनम् १७, तल्लपरीपहः - शरीरगतमल-

सहलेना इसका नाम भाषोदापरीपह है। कोई भी साहन-लफडी आदि
 से प्रहार आदि करे—फिर भी उसे आनन्द के साथ सहलेना इसका
 नाम वधपरीपह है। मित्रता में मान अपमान का क्याल नहीं करना—
 अर्थात् दीनभाव या अभिमान न रखते हुए सिर्फ संयमयात्रा के
 निर्वाहार्थ याचकवृत्ति स्वीकार करना इसका नाम याचना परीपह है।
 प्राप्ति के अभाव को सहन करना—उसमें दीनता नहीं करना अर्थात्—
 चाहनेपर भी यदि अभीष्ट वस्तु न मिले—तो प्राप्ति की वजाय अप्राप्ति
 को ही सच्चा तप समझना—उसमें सताप रखना इसका नाम अलाम
 परीपह है। रोग—रोगजन्य पीडा का सहना—चिकित्सा कराने का भाव
 नहीं रखना—अर्थात् रोग से व्याकुल होने पर भी—समभाव पूर्वक
 रोगजन्य कष्टों को सहन करना इसका नाम रोगपरीपह है। तृण—
 कुशादिमों के स्पर्शजन्य दुःख को समता से सहना—अर्थात् सपारे में
 या अन्यत्र तृण आदि की तीक्ष्णता या कठोरता का अनुभव हो तो
 मृदुशय्या के सेवन जैसा उनमें भाव रखना—इसका नाम तृणस्पर्श

काल पशु वृद्धि लाकडी आदि वडे भार भारे तो पशु तेने ज्ञानदुर्बल
 सहन करवे। तेनु नाम वधपरीपह छे। मित्रता में मान-अपमानने विचार न
 करवे। जेटने के दीन भाव के अभिमान शय्या विना मात्र समधयात्राया
 निभाव अर्थ याचकवृत्ति स्वीकारवी तेनु नाम याचना परीपह छे। ध्विष्ट
 वस्तुनी प्राप्ति न थाय तो दीनता नहीं करवी, प्राप्तिना जभावने सहन करवे,
 अभीष्ट वस्तु न भजे तो प्राप्तिने लदने अप्राप्तिने च साथ तप माननुं जने
 तेभाज सताप मानवे। तेनु नाम अलाम परीपह छे। रोग-रोगजन्य पीडाने
 सहन करवी, चिकित्सा कराववानो भाव न राखवे। जेटने के रोगजन्य पीडाने
 व्याकुल थाया विना समभावपूर्वक सहन करवी तेनु नाम रोगपरीपह छे। तृण
 कुशादिदिना स्पर्शजन्य दुःखने समतापूर्वक सहन करवुं—जेटने के शय्याशय्य
 अधवा तो च यत्र तृणादिनी तीक्ष्णता के कठोरतानो अनुभव करवे। पडे तो
 ते समये मृदुशय्यायु सेवन करवा। टोर्छजे तवे। भाव राखवे। तेनु नाम

जन्यपीडासहनम् सर्वतो वा स्नानोद्धर्तनादिवर्जनम् १८, सत्कारपुरस्कारपरीषदः-
 तत्र सत्कारस्य वस्त्रादिप्राप्तिरूपस्य, पूजनस्य, पुरस्कारस्य राजादिद्व्युत्थानादि
 सन्मानस्य परीषद्वर्णं तत्सद्भावे आत्मात्तर्पणवृद्धिवर्जनम्, तद्भावे दैन्यग्लानिवर्जनं,
 तदनाकाङ्क्षा च १९, प्रज्ञापरीषदः-प्रज्ञाया मतिज्ञानविशेषरूपायाः परिषद्वर्णं,
 तस्या अभावे उद्वेगाकरणं, तद्भावे च मदारुणम् २०, ज्ञानपरीषदः-ज्ञानस्य

परीषद्वर्णं है। जलपरीषद्वर्णं में जल शब्द मल-मैल वाचक है। शरीर में लगे हुए मैल से उत्पन्न दुःख को सहन करना अर्थात् शरीर में चाहे जितना मैल लगा हो, उससे चित्त में विक्षोभ उत्पन्न न होना और थोड़े से स्नान की अथवा अधिक स्नान की चाहना नहीं करना स्नान करने का सर्वथा परित्याग करना-इसका नाम मल-जल परीषद्वर्ण है। जल शब्द देशीयभाषा का शब्द है वस्त्रादि द्वारा कृत सत्कार से और राजा आदि द्वारा कृत अभ्युत्थान आदिरूप सन्मान से फूलना नहीं, और सत्कार पुरस्कार नहीं होने पर खेदखिन्न होना नहीं इसका नाम सत्कार पुरस्कार परीषद्वर्ण है। सत्कारपुरस्कार परीषद्वर्ण जयी साधु स्वप्न में भी अपने सत्कार पुरस्कार की कामना नहीं करता है। मतिज्ञान विशेषरूप प्रज्ञा का-चमत्कारिणी बुद्धि का-गर्व नहीं करना और उसके नहीं होने पर दुःखित नहीं होना इसका नाम प्रज्ञापरीषद्वर्ण है। मत्यादि ज्ञानरूप बुद्धि की विशि-

पृष्ठस्पर्श-परीषद्वर्णं छे जलपरिषद्वर्णं जल शब्द मल (मैल) वाचक छे। शरीर लागेला मैल जन्य दुःखने सहन करवु शरीर पर गमे तेद्वे मैल लागेला डोय, तो पणु चित्तमां विक्षोभ थवा न देवे अने थोडा स्नाननी के पधारे स्नाननी धरिछा नडी करवी-स्नाननो भिलकुल परित्याग करवे। तेनुं नाम मल-जल परीषद्वर्ण छे। जल शब्द गामठी शब्द छे अने ते मैल शब्दने वाचक छे

वस्त्रादि द्वारा सत्कार करवामा आवे अने राजा आदि द्वारा अभ्युत्थान आदि रूप सन्मान करवामा आवे तो कूलाध्वंजु नडी, अने सत्कार पुरस्कार न थाय तो भिन्न न थवु तेनुं नाम सत्कारपुरस्कार परीषद्वर्ण छे। सत्कारपुरस्कार परीषद्वर्ण उपर जेमण्णे विजय जेण्णे छे जेवा साधुजो स्वप्नमा पणु सत्कारपुरस्कार नी कामना करता नथी मतिज्ञाननो-विशेषरूप प्रज्ञानो-चमत्कारिणी बुद्धिने गर्व न करवे अने ते न डोय तो मनमा दुःख न मानवु तेनुं नाम प्रज्ञापरीषद्वर्ण छे। मत्यादि ज्ञानरूप बुद्धिनी विशिष्टताना सहभावमा पणु तेनुं अभि-



-मत्यादिरूपस्य परिपठणम् तस्य विशिष्टस्य विच्छेदणस्य सद्भावे मदवर्जनम्, असद्भावे च दैन्यग्लानिपरिवर्जनम् २, दर्शनपरीपहः-दर्शनस्य तत्त्वध्यानरूपस्य परिपठणम् जिनानां जिनोक्तसूक्ष्मभावानां चाधदानवर्जनम् ।

गौतम पृच्छति-एष ण भते । वाचीम परिसहा कइसु कम्मपयडीसु समोयरंति ? हे मदन्त ! एते न्वलु बुद्धसादीनां बुद्धसादिरूपा वा द्वाविशतिः परीपहाः कतिपु कर्मप्रकृतिपु विषये समवतरन्ति ? समवतारं प्राप्नुवन्ति ? समाविष्टा मवन्तीत्यर्थं भगवानाह-‘गोयमा । चउसु कम्मपयडीसु समोयरंति चउसु कर्मप्रकृतिपु विषये उप-युक्ता’ द्वाविशति परीपहाः समवतरन्ति=समाविशन्ति, तं जहा-‘नाणावरणिज्जे, वेयणिज्जे, मोहणिज्जे, अतराए’ सघया-ज्ञानावरणीये, वेदनीये, मोहनीये,

एता के सद्भाव में भी अभिमान करने का त्याग करना और नहीं होने पर अपने आपको हीन न मानना इसका नाम ज्ञान परीपह है । सूक्ष्म और अतीन्द्रिय पदार्थों का दर्शन न होने से स्वीकार किया हुआ त्याग निष्फल प्रतीत होने पर विवेक से अद्वापनाये रखना-अद्वा में कमी नहीं आने देना-अधदानरूप परिणाम नहीं होने देना-इसका नाम दर्शन परीपह है अथ गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं कि-एषणं भते । वाचीसं परिसहा कइसु कम्मपयडीसो समोयरंति) हे भदन्त ! वे जो २२ परीपह कहे गये हैं सो वे किन कर्म प्रकृतियों में समाविष्ट होते हैं ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! (चउसु कम्मपयडीसु समोयरंति) वे २२ परीपह आर कर्म प्रकृतियों में समाविष्ट होते हैं । (तं जहा) इसी बात को सूत्रकार अथ स्पष्ट करके कहते हैं-(नाणावरणिज्जे, वेयणिज्जे मोहणिज्जे, अंतराए) ज्ञानावरणीय

मान न करपु, जने ते न डीय ते। पोत्ताने हीन न मानवे। तेनु नाम ज्ञानपरीपहं छे सूक्ष्म जने अतीन्द्रिय पदार्थानु दर्शन न यथाशीं ज्वलीकर करेवे। त्याग निश्चय जते ज्ञाप्य त्यारे पयु विवेकशीं अद्वाभां अउमत्ता शोभी-अदाने विवक्षुसं उभवा न देवा। अद्वाइय परिष्कार डीवा न देव, तेनु नाम इयनपरीपहं छे

इवे गौतमस्वामी भदोवीर प्रभुने जेवे। प्रश्न पूछे छे के-“ एष णं भते । वाचीसं परिसहा कइसु कम्मपयडीसो समोयरंति ” हे भदन्त ! आने वाचीस परीपहो कइया छे, तभने सभावेश कथं प्रकृतियेभा थाय छे

भदोवीर प्रभुने। उत्तर-‘ गोयमा । ’ हे गौतम ! “ चउसु कम्मपयडीसु समोयरंति त जहा ” ते वाचीस परीपहोने। सभावेश थार उभं प्रकृतियेभां थाय छे “ नाणावरणिज्जे, वेयणिज्जे, मोहणिज्जे, अतराए ” (१) ज्ञानावरणीय

અન્તરાયિકે । ગૌતમઃ પૃચ્છતિ-‘નાનાવરણિજ્જે ણં મંતે । કમ્મે કહ્ પરીસહા સમો-
યરંતિ ?’ હે ભદન્ત ! જ્ઞાનાવરણીયે સ્વલુ કર્મણિ ક્વતિ પરીપહાઃ સમવતરન્તિ ? મગ-
વાનાહ-‘ગોયમા । દો પરીસહા સમોયરંતિ ’ હે ગૌતમ ! જ્ઞાનાવરણીયે કર્મણિ દ્વૌ
પરીપહૌ સમવતરતઃ, ‘ તં જહા-પણ્ણાપરીસહે, નાણપરીમહે ય ’ તન્નથા-પ્રજ્ઞાપરી-
પહઃ, જ્ઞાનપરીપહશ્ચ, તન્ન પ્રજ્ઞાપરીપહો જ્ઞાનાવરણે મતિજ્ઞાનાવરણરૂપે સમવતરતિ
તસ્યાઃ સમવતારશ્ચ પ્રજ્ઞાયા અભાવમાશ્રિત્ય બોધ્યઃ તદભાવસ્ય જ્ઞાનાવરણોદયસમ્ભ-
વાત્, યન્ન તદભાવે દૈન્યપરિવર્જનં તત્સદ્ભાવે ચ માનવર્જનમિત્યુક્તમ્, ત્ત્ત્વારિન્ન

કર્મ મેં વેદનીયકર્મ મેં, મોહનીય કર્મ મેં ઓર અન્તરાયિક-અન્તરાય
કર્મ મેં યે ૨૨ પરીષહ સમાવિષ્ટ હોતે હેં । અવ ગૌતમસ્વામી પ્રશ્નુ સે
એસા પૂછતે હે-(નાનાવરણિજ્જે ણં મંતે ! કમ્મે કહ્ પરીસહા સમોય-
રંતિ) હે ભદન્ત ! જ્ઞાનાવરણીય કર્મ મેં કિતને પરીષહ સમાવિષ્ટ હોતે
હેં અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કે ઉદય મેં કિતને પરીષહ હોતે હેં ?
ઉત્તર મેં પ્રશ્નુ કહતે હેં-‘ ગોયમા ’ હે ગૌતમ ! ‘ દો પરીસહા સમો-
યરંતિ ’ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ મેં દો પરીષહ સમાવિષ્ટ હોતે હેં-‘ તં
જહા ’ જૈસે-(પણ્ણાપરીસહે નાણપરીસહે) એક પ્રજ્ઞા પરીષહ ઓર દૂસરા
જ્ઞાન પરીષહ પ્રજ્ઞાપરીષહ મતિજ્ઞાનાવરણરૂપ જ્ઞાનાવરણ મેં સમાવિષ્ટ
હોતા હે । હસકા સમાવેશ પ્રજ્ઞા કે અભાવ કો આશ્રિત કરકે જાનના
ચાહિયે । કયોં કિ જ્ઞાનાવરણ કર્મ કે ઉદય સે પ્રજ્ઞા કા અભાવ સંભ-
વિત હોતા હે । તથા જો એસા કહા ગયા હે કિ પ્રજ્ઞા કે અભાવ મેં દીનતા
કા પરિવર્જન કર દેના ચાહિયે ઓર ઉસકે સદ્ભાવ મેં માન કા પરિવર્જન

કર્મમા (૨) વેદનીયકર્મમા (૩) મોહનીય કર્મમા અને (૪) અંતરાય કર્મમા
તે ૨૨ ખાવીશ પરીષહોનો સમાવેશ થાય છે

ગૌતમસ્વામીનો પ્રશ્ન-“ નાનાવરણિજ્જે ણં મંતે । કમ્મે કહ્ પરીસહા સમો-
યરંતિ ? ” હે ભદન્ત ! જ્ઞાનાવરણીય કર્મમા કેટલા પરીષહોનો સમાવેશ થાય
છે ? એટલે કે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયમા કેટલા પરીષહો હોય છે ?

મહાવીર પ્રશ્નુનો ઉત્તર-“ દો પરીસહા સમોયરંતિ-તં જહા ” હે ગૌતમ !
જ્ઞાનાવરણીય કર્મમા નીચે પ્રમાણે બે પરીષહોનો સમાવેશ છે-“ પણ્ણાપરીસહે,
નાણપરીસહે ” (૧) પ્રજ્ઞાપરીષહ અને (૨) જ્ઞાનપરીષહ પ્રજ્ઞાપરીષહ મતિજ્ઞાના-
વરણરૂપ જ્ઞાનાવરણમા સમાવૃષ્ટ થાય છે. તેનો સમાવેશ પ્રજ્ઞાના અભાવને
અનુલક્ષી સમજવો જોઈએ. કારણ કે જ્ઞાનાવરણ કર્મના ઉદયથી પ્રજ્ઞાનો
અભાવ સંભવિત હોય છે તથા એવું બે કહેવામા આવ્યું છે કે “ પ્રજ્ઞાના
અભાવમા દીનતાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને તેના સદ્ભાવમા માનનો ત્યાગ

मोहनीयस्योऽक्षमादेर्नाभ्यम्, ज्ञानपरीपहस्तु मत्यादिज्ञानावरणे समवतरति
 गौतम पृच्छति—‘ वेयणिज्जे ण भते । कम्मे कइ परीसहा समोयरंति ? ’ हे
 भदन्त ! वेदनीये खल्लु कर्मणि कति परीपहा समवतरन्ति ? मगधानाह—‘ गोयमा ।
 एक्कारस परीसहा समोयरति ’ हे गौतम ! वेदनीये कर्मणि एकादश परीपहा
 समवतरन्ति तानेव एकादश परीपहानाह—‘ त जहा—‘ पवेव आणुपुब्धि चरिया
 सेज्जा वहे य रोगे य । तण फासजल्लमेय य, एक्कारसवेयणिज्जमि” ॥५९॥ तथा—पञ्च
 एव आनुपूर्वी, शय्या, वषट्ठ रागम्, तृस्पर्शाः, मलमेव एकादश वेदनीये, तत्र

कर देना चाहिये—सो यह कथन चारित्रमोहनीय के क्षयोपशम आदि
 की अपेक्षा से जानना चाहिये । क्यों कि सहन करना आदि रूप जो
 आवरण होता है वह चारित्रमोहनीय कर्म के क्षयोपशमादि से होता
 है । ज्ञानपरीपह मत्यादिज्ञानावरण में समाविष्ट होता है । अथ गौतम
 प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(वेयणिज्जे ण भते ! कम्मे कइ परीसहा समो
 यरति) हे भदन्त ! वेदनीय कर्म में कितने परीपहों का समावेश होता
 है ? इनके उत्तर में प्रश्न गौतम से कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम !
 (एक्कारसपरीसहा समोयरंति) वेदनीय कर्म में ११ ग्यारहपरीपहों का
 समावेश होता है—अर्थात् वेदनीय कर्म के उदय में ११ परीपह होते हैं
 —(तं जहा) जो इस प्रकार से हैं—(पंचेव आणुपुब्धि, चरिया, सेज्जा, वहे
 य, रोगे य तण फासजल्लमेय य एक्कारसवेयणिज्जमि) पांच आनुपूर्वी—
 छुषा, तृषा, शीत, उष्ण और वंशमशक ये पांच परीपह, तथा चर्पा,
 शय्या, वष, रोग तृष्णस्पर्शा, एवं मल ये ११ परीपह वेदनीय कर्म में

करवे। जेठजे ’ आ कथन चारित्रमोहनीयना क्षयोपशम आदिनी अपेक्षाके
 यत्र छे जेठ समवत्तु ठाण्ठु के सदन करवा आदि रूप ने आवरण था
 छे ते चारित्र मोहनीय कर्मना क्षयोपशम आदिथी थाय छे ज्ञानपरीपहने।
 समावेश मत्यादि ज्ञानावरणमां थाय छे

गौतमभ्यामीना प्रश्न—‘ वेयणिज्जेण भते । कम्मे कइ परीसहा समोय
 रति ? ’ हे भदन्त ! वेदनीयकर्ममां केटला परीपहोने। समावेश थाय छे ?
 भदावीर प्रश्नो उत्तर—‘ गोयमा । हे गौतम ! “ एक्कारसपरीसहा
 समोयरति ’ वेदनीय कर्ममां ११ परीपहोने। समावेश थाय छे—जेठजे के
 वेदनीय कर्मना उदयमा ११ परीपहो। थाय छे “ त जहा ’ ते ११ परीपहो
 नीक्षे प्रभाजे छे—‘ पवेव आणुपुब्धि चरिया, सेज्जा वहे य रोगे य, तण
 फासजल्लमेय य एक्कारसवेयणिज्जमि ” पदेलां पांच परीपहो जेठजे के छुषा,
 तृषा, शीत, उष्ण जने वंशमशक तथा चर्पा, शय्या, वष, रोग, तृष्णस्पर्श

आनुपूर्व्या यथानुपूर्वी अनुक्रमेण पञ्च क्षुधा-पिपासा शीतो-ष्ण-दंशमशङ्कपरीषहाः, इत्याशयः, एतेषु च वेदनीयजन्या पीडैव भवति, तदधिसहनं-तु चारित्रमोहनीय क्षयोपशमादिसंभवं बोध्यम्, अधिसहनस्य चारित्ररूपत्वात् चर्यादिकं तु प्रतिपादितमेव, गौतमः पृच्छति-‘दंसणमोहणिज्जे णं भंते ! कस्समे कइ परीसहा समोयरंति ?’ हे भदन्त ! दर्शनमोहनीये खलु कर्मणि विषये क्वति परीषहाः समवतरन्ति ? भगवानाह-‘ गोयमा । एगे दंसणपरीसहे समोयरइ ’ हे गौतम ! दर्शनमोहनीये कर्मणि विषये एको दर्शनपरीषहः समवतरति, दर्शनस्य तत्त्वश्रद्धानरूपत्वात् दर्शनमोहनीयस्य क्षयोपशमादौ तत्संभवात्, दर्शनमोहनीयस्योदये तु तत्संभवात् तत्र केवलं दर्शनपरीषहः समवतरति, इति । गौतमः पृच्छति-‘ चरित्तमोह-

समाविष्ट हुए हैं । इन परीषहों में जो पीडा होती है वह वेदनीयकर्म-जन्य होती है । तथा इस पीडा को जो सहन करना होता है वह चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशमादि के होने से होता है । क्यों कि सहन करना यह चारित्ररूप होता है । चर्यादिक तो कहे ही जा चुके हैं । अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं-(दंसणमोहणिज्जे णं भंते ! कस्समे कइ परीसहा समोयरंति) हे भदन्त ! दर्शन मोहनीय कर्म में कितने परीषहों का समावेश होता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! (एगे दंसणपरीसहे समोयरइ) दर्शनमोहनीय कर्म में एक दर्शन परीषह का समावेश होता है । क्यों कि दर्शन तत्त्वश्रद्धानरूप होता है । तत्त्वश्रद्धानरूप दर्शनमोहनीय कर्म के क्षयोपशमादि होने पर होता है । दर्शनमोहनीय के उदय होने पर तो तत्त्व श्रद्धानरूप

अने मल, आ ११ अगियार परीषडोने वेदनीय कर्ममां समावेश थाय छे आ परीषडोमा ने पीडा थाय छे ते वेदनीय कर्म जन्य डोय छे तथा ते पीडाने ने सहन करवी पडे छे ते चारित्र मोहनीय कर्मने क्षयोपशमादि थायथी न सहन करवी पडे छे. कारण के सहन करवुं ओ चारित्ररूप डोय छे. चर्यादिकने अर्थ पडैला आपी देवामां आये छे

गौतमस्वामीने प्रश्न-“ दंसणमोहणिज्जेण भंते ! कस्समे कइ परीसहा समोयरंति ?” हे भदन्त ! दर्शन मोहनीय कर्ममां डेटला परीषडोने समावेश थाय छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर-“ गोयमा ! ” हे गौतम ! “ एगे दंसणपरीसहे समोयरइ ” दर्शनमोहनी कर्ममां ओक दर्शन परीषडोने समावेश थाय छे, कारण के दर्शन तत्त्वश्रद्धानरूप डोय छे तत्त्वश्रद्धानरूप दर्शन मोहनीय कर्मने क्षयोपशमादि थाय त्पारे थाय छे. दर्शनमोहनीयने उदय थता ते तत्त्वश्रद्धानरूप दर्शन थतुं नवी तेथी दर्शनमोहनीय कर्ममां दर्शनपरीषडोने समावेश करवामां आये छे.

णिज्जेण मत्त ! कम्मे कइ परीसहा समोयरंति ? हे मदन्त ! चारित्रमोहनीये सल्ल कर्मणि विपये क्वि परीपहाः समवतरन्ति ? भगवानाह—'गोयमा ' सत्त परीसहा समोयरंति' हे गौतम ! चारित्रमोहनीये कर्मणि विपये सत्त परीपहाः समवतरन्ति, तानेवाह—'तं जहा—'अरत्ति, अचेल, इत्थी, निसीहिया, जायणा य अफोसे । सक्कार पुरस्कारे चरिच्चमोहमि ससेते' ॥५९॥ तथया—अरति १, अचेलपूर, स्त्री ३, नैपेधिकी, ४, याचना घ ५, आक्कोशः, सत्कारपुरस्कारचारित्रमोहनीये सत्त एते परीपहा भवन्ति, तत्र च अरति परीपहा रतिमोहनीये तज्जन्यत्वात्, अचेलपरीपहो ज्ञुगुप्सा मोहनीये छत्रजापेयया, स्त्रीपरीपहः पुरुषवेदमोहनीय, तत्त्वतस्तस्य स्थापामिलापरूप

दर्शन परीपह का समावेश दर्शनमोहनीय कर्म में कहा गया है। अब गौतमस्वामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं—(चरिच्चमोहणिज्जेणं मत्ते ! कम्मे कइ परीसहा समोयरंति) हे मदन्त ! चारित्रमोहनीय कर्म में कितने परीपहों का समवतार होता है उसर में प्रश्नु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (सत्त परीसहा समोयरंति) चारित्रमोहनीय कर्म में सात परीपहों का समावेश होता है। जो इस प्रकार से हैं—(अरती अचेल इत्थीनिसीहिया जायणा य अफोसे, सक्कारपुरस्कारे चरिच्चमोहमि ससेते) अरति, अचेल, स्त्री, नैपेधिकी, याचना, आक्कोश और सत्कार पुरस्कार इनमे अरति परीपह का समवतार मोहनीय में होता है, क्योंकि अरति—अरतिमोहनीयजन्य होती है अचेलपरीपह लज्जा की अपेक्षा से ज्ञुगुप्सामोहनीय में समाविष्ट होता है। स्त्रीपरीपह पुरुषवेदमोहनीय में, स्त्री की अपेक्षा से पुरुषपरीपह स्त्रीवेदमोहनीय में, क्योंकि पुरुषप-

गौतम स्वामीने प्रश्नु—“ चरिच्चमोहणिज्जेणं मत्ते ! कम्मे कइ परीसहा समोयरंति ? ” हे मदन्त ! चारित्रमोहनीय कर्मों में कितने परीपहों का समावेश थाय है ?

महावीर प्रश्नुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! “ सत्त परीसहा समोयरंति ” चारित्रमोहनीय कर्मों में सात परीपहों का समावेश थाय है—“ अरती, अचेल इत्थी, निसीहिया जायणा य अफोसे सक्कारपुरस्कारे चरिच्चमोहमि ससे ते ” अरति, अचेल स्त्री, नैपेधिकी, याचना, आक्कोश और सत्कार पुरस्कार का सात परीपहों का समावेश मोहनीय में थाय है अरति अरतिमोहनीयजन्य होता है अचेल परीपह लज्जा की अपेक्षा से ज्ञुगुप्सामोहनीय में समाविष्ट होता है स्त्रीपरीपह पुरुषवेद मोहनीय में अचेल की अपेक्षा से पुरुष परीपह स्त्रीवेद मोहनीय में समावेश थाय है अरति के पुरुष परीपह स्त्री आदिनी अभिलाषा

त्वात्, भयमोहनीये उपसर्गबाधा भयापेक्षया नैषेधिकीपरीषहः, मानमोहनीये तद्
दुष्करत्वापेक्षया याचनापरीषहः समवतरति, मानमोहनीये मदोत्पत्त्यपेक्षया सत्कार-
पुरस्कारपरीषहः समवतरति । सर्वेऽपि एते सप्त सामान्यतश्चारित्रमोहनीये समव-
तरन्ति । गौतमः पृच्छति—‘अंतराहणं भंते ! कस्मै कइ परीसहा समोयरंति ? ’
हे भदन्त ! आन्तरायिके खलु कर्मणि विषये कति परीषदाः समवतरन्ति ? भग-
वानाह—‘ गोयमा ! एगे अलाभपरीसहे समोयरइ ’ हे गौतम ! अन्तराये कर्मणि
एकः अलाभपरीषह एव समवतरति, अन्तरायश्चात्र लाभान्तरायरूपो विज्ञेयः तद्दुदये

रीषह स्त्री आदि की अभिलाषा रूप होता है, नैषेधि की परीषह उपसर्ग
बाधा और भय की अपेक्षा से भयमोहनीय में, याचनापरीषह दुष्करत्व
की अपेक्षा से मानमोहनीय में समाविष्ट होते हैं । क्रोधोत्पत्ति की अपेक्षा
से आक्रोशपरीषह क्रोधमोहनीय में, मदोत्पत्ति की अपेक्षा से सत्कार
पुरस्कार परीषह मानमोहनीय में समाविष्ट होते हैं । इस प्रकार ये
सात परीषह सामान्यरूप से चारित्रमोहनीय में समाविष्ट होते हैं । अब
गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं (अंतराहणं भंते ! कस्मै कइ
परीसहा समोयरंति) हे भदन्त ! अन्तरायिक कर्म में कितने परीषहों
का समावेश होता है ? उत्तर में प्रश्नकहते हैं (गोयमा) हे गौतम !
(एगे अलाभपरीसहे समोयरइ) अन्तराय कर्म में एक अलाभपरीषह
का समाविष्ट होता है । यहां अन्तरायसे लाभान्तरायरूप जानना चाहिये
क्यों कि लाभान्तराय के उदय में ही लाभ का अभाव होता है । इस

इयं डोय छे नैषेधिकी परीषडने। समावेश उपसर्ग, बाधा अने लयनी
अपेक्षाये लयमोहनीयमां थाय छे याचना परिषडने। दुष्करत्वनी अपेक्षाये
मानमोहनीयमां समावेश थाय छे। क्रोधोत्पत्तिनी अपेक्षाये आक्रोश परीषडने।
मानमोहनीयमां अने मदोत्पत्तिनी अपेक्षाये सत्कार पुरस्कार परिषडने। पणु
मानमोहनीयमां समावेश थाय छे आ प्रमाणे सात परिषडने। समावेश
सामान्य रीते चारित्र मोहनीयमां थाय छे

गौतम स्वामीने प्रश्न—“ अंतराहणं भंते ! कस्मै कइ परीसहा समो-
यरंति ? ” हे भदन्त ! अन्तराय कर्ममां केटला परीषडने। समावेश थाय छे ?
तेने उत्तर आपता भडावीर प्रणु कडे छे के “ गोयमा ! ” हे गौतम !
(एगे अलाभपरिसहे समोयरइ) अन्तराय कर्ममां एक अलाभ परीषडने।
समावेश थाय छे। अडी अन्तरायने लाभान्तराय इयं समज्जो। कारणु के
लाभान्तरायना उदय वणते न लालने। अलाभ रडे छे। आ परीषह सडने
ते चारित्र मोहनीयना क्षयोपशम इयं डोय छे।

एष लामाभाषात्, तत्परिपहण च चारित्रमोहनीयनयोपक्षमरूपम् । अथ च य
स्थानान्पाधित्य परीपहान् प्ररूपयित्वाह—‘राचविहयघगस्त ण भवे ! कइ परीसहा
पण्णत्ता ’ गौतम वृच्छति—हे भदन्त ! सप्तत्रिंशत्कर्मस्य आयुर्जंशेषसत्पूर्वोक्त
कर्मस्यैकस्य स्वच्छ जीवस्य कति परीपहाः प्रहृष्टाः ? महावतीनाह—‘ गोयमा !
बाबीस परीसहा पण्णत्ता ’ हे गौतम ! सप्तत्रिंशत्कर्मस्य द्वाविंशतिः परी
पहाः पूर्वोक्ताः प्रहृष्टाः किन्तु ‘ बीस पुण वेपइ ’ विंशति पुनः परीपहान् वेद
यति, तदाह—‘ जं समय सीयपरीसहं वेपइ णो त समयं उस्सिणपरिसहं वेपइ ’
‘सुत्रे—‘ ज समय ’ इत्यत्र द्वितीया सप्तम्यर्थे प्राकृतत्वात् । एवमग्रेऽपि बोध्यम्,
ततः यस्मिन् समये इत्यर्थः शीतपरीपहं वेदयति, नो खलु एस्मिन् समये उष्ण

परीपह का महना घह चारित्रमोहनीय के क्षयोपशमरूप होता है । अब
सूत्रकार यपस्थानों को आश्रित करके परीपहों की प्ररूपणा करते हैं—
इस में गौतमस्थामी ने प्रश्न से ऐसा पूछा है—(सप्तत्रिंशत्कर्मस्य ण
भवे ! कइ परीसहा पण्णत्ता) हे भदन्त ! आयुर्कर्म को छोड़कर शेष
सातकर्मों का बच करने वाले जीवके कितने परीपह कहे गये हैं ? उत्तर
में प्रश्न कहते हैं (गोयमा ! बाबीस परीसहा पण्णत्ता) हे गौतम ! ऐसे
जीवके २२ परीपह कहे गये हैं । किन्तु (बीस पुण वेपइ) वेदन उनके
२० का ही होता है । क्योंकि (जं समयं सीयपरीसहं वेपइ) जिस समय
वह शीत परीपह का वेदन करता है (णो त समयं उस्सिणपरिसहं वेपइ)
उस समय वह उष्ण परीपह का वेदन नहीं करता है । क्योंकि शीत
और उष्ण इनका परस्पर में अव्यक्त विरोध है—इस कारण युगपत् इन

दो सूत्रकार यपस्थानोंकी अपेक्षाके परीपहोंकी प्ररूपणा करे थे—
विषयने अनुसंधाने जौतम स्वामी महावीर प्रश्नने जेवा प्रश्न पूछे थे—
(सप्तत्रिंशत्कर्मस्य ण भवे ! कइ परीसहा पण्णत्ता ?) हे भदन्त ! आयुर्कर्म
सिवायना सात कर्मणि अध करनार एवना डेटवा परीपह कइया थे ? तेना
उत्तर आपता महावीर प्रश्न कहे थे (गोयमा ! बाबीस परीसहा पण्णत्ता)
हे जौतम ! जेवा एवना २२ बाबीस परीपह कइया थे परंतु (बीस पुण
वेपइ) ते २० बीसनु न वेदन जेक साथे न करे थे कारण के (ज समय
सीयपरीसहं वेपइ) ने समये ते शीतपरीपहनु वेदन करे थे, (णो त समयं
उस्सिणपरिसहं वेपइ) ने समये ते उष्णपरीपहनु वेदन करते नथी कारण के
शीत जने उष्णता वच्चे परस्पर अव्यक्त विरोध डेवा थे तेथी ते जनेथ

परीषहं वेदयति, शीतोष्णयोः पररपरमत्यन्तविरोधेन युगपदेकत्रासंभवात्, अथ च 'जं समयं उस्मिणपरीसह वेएइ णो तं समयं सीयपरीसहं वेएइ' यस्मिन् समये उष्णपरीषहं वेदयति, नो तस्मिन् समये शीतपरीषहं वेदयति अट्टुभवतीत्यर्थः 'जं समयं चरियापरीसहं वेएइ, णो तं समयं निसीहियापरीसहं वेएइ' यस्मिन् समये चर्यापरीषहं वेदयति, नो तस्मिन् समये नैषेधिकीपरीसहं वेदयति—अनुभवति, अथ च 'जं समयं निसीहियापरीसहं वेएइ, णो तं समयं चरियापरीसहं वेएइ' यस्मिन् समये नैषेधिकीपरीषहं वेदयति—अनुभवति, नो तस्मिन् समये चर्यापरीषहं वेदयति, अयमाशय -- चर्या नगर-ग्रामादिषु विचरणं, नैषेधिकी च नगरग्रामादिषु प्रतिपन्नमासकल्पादेः स्वाध्यायादिनिमित्तं शय्यातो द्विविक्ततरोपाश्रये गत्वा निपदनम्, अनयोश्च चर्यानैषे-

का एक में वेदन होना असंभव है। तथा (जं समयं उस्मिणपरीसहं वेएइ) जिस समय में उष्णपरीषह का वेदन होता है (णो तं समयं सीयपरीसहं वेएइ) उस समय में शीत परीषह का वेदन नहीं होता है (जं समयं चरियापरीसहं वेएइ, णो तं समयं निसीहिया परीसहं वेएइ) जिस समय में चर्यापरीषह का वेदन होता है, उस समय में नैषेधिकी परीषह का वेदन नहीं होता है। (जं समयं निसीहिया परीसहं वेएइ, णो तं समयं चरिया परीसहं वेएइ) जिस समय नैषेधिकी परीषह का वेदन होता है उस समय चर्यापरीषह का वेदन नहीं होता है। ग्राम नगर आदि में विचरण करना इसका नाम चर्या है। नगर ग्राम आदि में मासकल्प आदि को स्वीकार किये हुए साधु का स्वाध्याय आदि के निमित्त शय्या से उतर कर एकान्त उपाश्रय में जा करके मर्यादित

अथ साधु वेदन थपु संलपित नथी. तथा (जं समयं उस्मिणपरीसहं वेएइ) जे समये ते उष्णपरीषहंतु वेदन करे छे, (णो तं समयं सीयपरीसहं वेएइ) ते समये शीतपरीषहंतु वेदन करतो नथी. तथा (जं समयं चरियापरीसहं वेएइ, णो तं समयं निसीहिया परीसहं वेएइ) जे समये चर्यापरीषहंतु वेदन थाय छे, ते समये नैषेधिकी परीषहंतु वेदन थतु नथी (जं समयं निसीहिया परीसहं वेएइ, णो तं समयं चरियापरीसहं वेएइ) जे समये नैषेधिकी परीषहंतु वेदन थाय छे ते समये चर्यापरीषहंतु वेदन थतु नथी. ग्राम, नगर आदि मा विचरण करेवुं तेनु नाम चर्या छे नगर, ग्राम आदिमा मासकल्प आदिने स्वीकार करेवुं छेवुं साधु स्वाध्याय आदिने निमित्ते शय्या-माथी उत्तरीने एकान्त उपाश्रयमा जेधने मर्यादित समय सुधी आसन जेमा-

ધિચ્યાર્વિહારાવસ્થાનરૂપત્વેન પરસ્પરવિરોધાન્ન યુગપત્ સમન્વ ઇતિ, તથા ચ શ્રીતોષ્ણાચર્યાનપેધિકીપુ એકદા દ્વયોરેષ્વેદનાત્ વિશ્વતિપરીપદ્ધેવનમ્, 'એવં અદ્વિહરવગસ્ત્ત ચિ' એવ સપ્તચિષ્કર્મવચકવદેવ આયુઃસહિતાષ્ટનિષ્કર્મ વન્ધકસ્યાપિ દ્વાવિશ્વતિઃ પરીપદ્ધા અવસેયા । ગૌતમઃ, પૃચ્છતિ- 'છન્નિહવંચગસ્ત્તળ મંતે । સરાગછઝમત્યસ્ત્ત ક્ષ્મ્પરીસદ્ધા પળ્ણસા' હે મદન્ત ! પદ્વિષ્કર્મ ન પચકસ્ય સ્વલ્લ આયુર્મોહરહિતસ્ય સૂક્ષ્મસંપરાયસ્યેત્યર્થઃ આયુર્મોહમિષ્કર્મવન્ધકસ્ય ત્વેનાહ સરાગછઝમત્યસ્ય સૂક્ષ્મલોમાદીનાં વેદનાત્ સરાગસ્ય અનુત્પન્નકેવલજ્ઞાનસાત્ છષ્પસ્યસ્ય ક્ષતિ પરીપદ્ધાઃ મણ્ણસા ? મગવાનાહ- 'ગોયમા ! ચોરસ પરીસમય ત્તક આસન લગ્ગા કરકે પૈઠના ડ્સક્કા નામ નૈવેધિકી પરીપદ્ધૈ । વે વોનોં વિહાર ઓર અવસ્થાનરૂપ હોને સે-ચર્યાવિહારરૂપ એવં નૈવેધિકી અવસ્થાનરૂપ હોને સે-પરસ્પર મેં વિકરુદ્ધ હું ઇમ કારણ યુગપત્ (એક સાધ) ઇનકા હોના નહીં વનતા હૈ । તથા ચ-શીત, ઝળ્ણ, ચર્યા ઓર નૈવેધિકી ઇન મેં સે એક કાલ મેં વો હી પરીપદ્ધોં કા વેદન હોતા હૈ । ઇસસે ૨૦ પરીપદ્ધોં કા યુગપત્ વેદન હોના કહ્વા ગયા હૈ । (એવ અદ્વિહરવંચગસ્ત્ત ચિ) સસયિષ્કર્મ વંચક કી તરહ આયુસહિત આઠ કર્મોં કા વધ કરનેવાલે જીષ્કે મી ૨૨ પરીસદ્ધ હોતે હું-પરન્તુ વેદન ૨૦કા હોતા હૈ એસા જાનના વ્વાહિવે । અવ ગૌતમસ્વામી પ્રજુ સે એસા પૂછતે હું (છન્નિહ વચગસ્ત્ત ણ મંતે । સરાગ છઝમત્યસ્ત્ત ક્ષ્મ્પરીસદ્ધા પળ્ણસા) હૈ મદન્ત ! જો જીષ્ક આયુર્મોહવર્જિત ૬ પ્રકાર કૈ કર્મોં કા વંચક હૈ-

વીને ભેચી ભવ તેનું નામ નૈવેધિકીપરીપદ્ધ છે આ બને વિહાર અને અવસ્થાન દ્વર હોવાથી (ચર્યા વિહારરૂપ છે અને નૈવેધિકી અવસ્થાનરૂપ છે) પરસ્પરમાં વિરોધ છે તે કારણે તે બન્ને એક સાથે સંભવી શકતા નથી આ રીતે શીત, હ્રિયુ ચર્યા અને નૈવેધિકી, એ વ્યવસ્થાથી એક સાથે બે પરીપદ્ધોનું જ વેદન થાય છે, તેથી જ વીસ પરીપદ્ધોનું એક સાથે વેદન થાય છે, એનું કહેવામાં આવ્યું છે

(એવં અદ્વિહરવગસ્ત્ત ચિ) સપ્તચિષ્કર્મ કર્મબંધકની જેમ આયુ સહિત અષ્ટનિષ્કર્મોના બંધ કરનાર હોવાના પશુ ૨૨ બાવીસ પરીપદ્ધો કહ્યા છે, પરન્તુ એવો હવ પશુ એક સાથે ૨૦ વીસ પરીપદ્ધોનું જ વેદન કરે છે,

હશે ગૌતમસ્વામી મહાવીર પ્રજુને એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે- (છન્નિહ વચગસ્ત્ત ણ મંતે । સરાગછઝમત્યસ્ત્ત ક્ષ્મ્પરીસદ્ધા પળ્ણસા ?) હે મદન્ત ! જે હવ આયુ અને મોહ સિવાયના છ પ્રકારના કર્મોના બંધક હોય છે સ્વમ

सहा पण्णत्ता, वारस पुण वेएइ ' हे गौतम ! षड्विधकर्मबन्धकस्य सरागच्छन्न-
स्थस्य चतुर्दश परीषहाः प्रज्जप्ताः, तत्र दर्शनमोहनीयस्य एको दर्शनपरीषहः, सप्त
चारित्रमाहनीयस्य तथा च दर्शनपरीषहः-१, अरतिपरीषहः २, अचैलपरीषहः ३,
त्तीपरीषहः ४, नैवेधिकीपरीषहः ५, याचनापरीषह ६, आक्रोशपरीषहः ७, सत्कारपुर-
स्कारपरीषहः इत्येवं, रूपाणां अष्टानां मोहनीयसम्भवानां तस्यमोहाभावेनाभावात्
द्वाविंशतेः परिशेषाश्चतुर्दश परीषहाः भवन्तीत्याशयः । किन्तु द्वादश परीषदान्

सूक्ष्म संपराय गुणस्थानवर्ती है-यह सूक्ष्म लोभकषायबाला होने से
सराग और केवलज्ञानकी उत्पत्ति से रहित होनेके कारण छद्मस्थ होता
है-सो इस षड्विध कर्मबन्धक सराग छद्मस्थ जीव के कितने परीषह
होते हैं? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—' गोयमा ' हे गौतम !
(चोदसपरीसहा पण्णत्ता) इस जीव के चौदह १४ परीषह होते हैं।
परन्तु (वारसपुणवेएइ) यह बारह १२ परीषहों का वेदन करता है।
दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय के भेद से मोहनीयकर्म दो प्रकार
का कहा गया है। इनमें दर्शनमोहनीयनिमित्तक एक दर्शनपरीषह और
चारित्रमोहनीय निमित्तक सात परीषह यहां नहीं होते हैं। यद्यपि इस
गुणस्थान में मोह है-पर वह इतना अल्प होता है कि उसका अस्तित्व
नहीं जैसा ही होता है इस कारण मोहनिमित्तक-मोहजन्य आठ परीषह
यहां नहीं होते हैं, केवल चौदह १४ परीषह ही होते हैं ऐसा कहा है।
चौदह १४ परीषह यहां होने पर भी वेदन बारह १२ का ही होता है।

संपरायगुणस्थानवर्ती होय छे-तो सूक्ष्म लोभकषायवाणो होवाथी सराग होय
छे अने केवलज्ञाननी उत्पत्तिथी रहित होवाथी छद्मस्थ होय छे-तो अेवा
प्रकारना कर्मना बंधक सराग छद्मस्थ अणना हेटला परीषडो कइया छे ?
मडावीर प्रभुनो उत्तर-(गोयमा !) हे गौतम ! (चोदसपरीसहा पण्णत्ता?)
अेवा अणना १४ परीषडो होय छे, परन्तु (वारस पुण वेएइ) ते आर
परीषडोनुं अेक साथे वेदन करे छे मोहनीय कर्मना अे लेह कइया छे-(१)
दर्शनमोहनीय अने (२) चारित्रमोहनीय तेमाथी दर्शनमोहनीय निमित्तक
अेक दर्शनपरीषह अने चारित्रमोहनीय निमित्तक सात परीषडुनो अडी
अभाव होय छे ले के आ गुणस्थानमा मोहनु अस्तित्व होय छे, पणु ते
अेटहु अदय होय छे के अडी तेनु अस्तित्व नहीं नेवु न होय छे, ते
कारणे मोहजन्य आठ परीषडोना अडी अभाव होय छे अने आडीना १४
परीषडोना न सद्भाव होय छे वणी १४ परीषडोना अस्तित्व ते

વેદયતિ, તદ્દેશઃ—‘જ સમય સીયપરીસહ વેપદ્, ણો ત સમય ઠસિળપરીસહ વેપદ્’ યસ્મિન્ સમય શીતપરીપદ વેદયતિ, નો તસ્મિન્ સમયે ડ્વણપરીપદ વેદયતિ, અથ ષ ‘જ સમય ઠસિળપરીસહ વેપદ્, નો ત સમય સીયપરીસહ વેપદ્’ યસ્મિન્ સમયે ડ્વણપરીપદ વેદયતિ, નો ત્વલ્લુ તસ્મિન્ સમયે શીતપરીપદ વેદયતિ, ‘જ સમય ચરિયા પરીસહ વેપદ્, ણો ત સમય સેઝ્ઝાપરીસહ વેપદ્’ યસ્મિન્ સમયે ચર્યાપરીપદ વેદયતિ, નો ત્વલ્લુ તસ્મિન્ સમયે શ્યાપરીપદ વેદયતિ શ્વિતોષ્ણવત્ વિહારાવસ્થાનવશ ચર્યાશ્ચર્યાયો રપિ પરસ્પરધિરોધેન યુગપદ્સમવાત્ અત્ત એવ ‘જ સમય સેઝ્ઝાપરીસહ

હસકા કારણ યદ્દ હૈ કિ (જ સમય સીયપરીસહ વેપદ્, ણો ત સમય ઠસિળપરીસહ વેપદ્) યદ્દ સરાગ છદ્મસ્ય ઝીઘ ઝિસ સમય શીતપરીપદ કા વેદન કરતા હૈ ઠસ સમય યદ્દ ડ્વણપરીપદ કા વેદન નહીં કરતા, (જ સમય ઠસિળપરીસહ વેપદ્, નો ત સમય સીયપરીસહ વેપદ્, જ સમય ચરિયાપરીસહ વેપદ્, નો ત સમય સેઝ્ઝાપરીસહ વેપદ્) ઓર ઝિસ સમય ડ્વણપરીપદ કા વેદન કરતા હૈ ઠસ સમય યદ્દ શીતપરીપદ કા વેદન નહીં કરતા હૈ। તથા ઝિસ સમય યદ્દ ચર્યાપરીપદ કા વેદન કરતા હૈ ઠસ સમય યદ્દ શ્યાપરીપદ કા વેદન નહીં કરતા હૈ। ક્રયો કિ શીતોષ્ણ કી તરહ તથા વિહાર ઓર અવસ્થાન કી તરહ ઈન ડોનો ચર્યા ઓર શ્યાપરીપદ કા આપસ મેં યુગપત્ એક સાથ અવસ્થાન કા વિરોધ હૈ। ઈસ તરહ શીત, ડ્વણ ચર્યા

સાથે વેદન તો ૧૨ પરીપદોનું જ થાય છે તેનું કારણ એ છે કે (જ સમય શીત પરીસહ વેપદ્ ણો ત સમય ઠસિળપરીસહ વેપદ્) તે સરાગ છદ્મસ્ય એ સમયે શીતપરીપદનું વેદન કરે છે તે સમયે તે ડ્વણપરીપદનું વેદન કરતો નથી, તથા (જ સમય ઠસિળપરીસહ વેપદ્ ણો ત સમય સીયપરીસહ વેપદ્) એ સમયે ડ્વણપરીપદનું વેદન કરે છે, તે સમયે તે શીતપરીપદનું વેદન કરતો નથી (જ સમય ચરિયાપરીસહ વેપદ્, ણો ત સમય સેઝ્ઝાપરીસહ વેપદ્, જ સમય સેઝ્ઝાપરીસહ વેપદ્ ણો ત સમય ચરિયાપરીસહ વેપદ્) એ સમયે તે અર્ધા પરીપદનું વેદન કરે છે, તે સમયે તે શ્યાપરીપદનું વેદન કરતો નથી તથા એ સમયે તે શ્યાપરીપદનું વેદન કરે છે, તે સમયે તે અર્ધાપરીપદનું વેદન કરતો નથી કારણ કે શીત અને ડ્વણતાની જેમ તથા વિહાર અને અવસ્થાનની જેમ ચર્યા અને શ્યા, એ જ ને વિરોધી શબ્દો કોવાથી તે બન્નેનું કોઈ સાથે અસ્તિત્વ સંભવી શકતું નથી. આ રીતે શીત, ડ્વણ, ચર્યા, અને શ્યા

वेएइ, णो तं समयं चरियापरीषह वेएइ ' यस्मिन् समये शय्यापरीषहं वेदयति,
नो तस्मिन् समये चर्यापरीषह वेदयति, तथा च शीतोष्णचर्याशय्यासु

और शय्या इन परीषहों से एक काल में दो ही का वेदन हो सकता है
इस कारण यहाँ १२ परीषहों का वेदन होना कहा गया है। अब गौत-
मस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं (एगविहबंधगस्स णं भते । वीयरग
छउमत्थस्स कई परीसहा पणत्ता) हे भदन्त ! जो जीव एकविध कर्म
का बंधक होता है ऐसे उस उपशान्त मोहवाले में और वीतराग छद्म-
स्थ में कितने परीषह कहे गये हैं ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा)
हे गौतम ! (एवं चेवं जहेव छव्विहबंधगस्स णं) जिस प्रकार से छ
प्रकार के कर्मबन्धक जीव में—क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक,
चर्या, प्रज्ञा, ज्ञान, अलाभ, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श, और मल—ये
१४ परीषह कहे गये हैं और मोह के अभाव से—दर्शनपरीषह,
अरतिपरीषह, स्त्रीपरीषह, नैषेधिकीपरीषह, याचनापरीषह, आक्रोशप-
रीषह, सत्कारपुरस्कारपरीषह—ये ८ परीषह नहीं होते कहे गये हैं—उसी
प्रकार से जो जीव एक वेदनीय कर्म का बन्धक होता है ऐसे उस
वीतराग छद्मस्थ—उपशान्त मोहवाले और क्षीणमोहवाले जीव के भी—

ये चार परीषहोमांशी येक न समये ये परीषहोतुं न वेदन थणं शके छे,
ते कारणे अहीं येवु क्खु छे के ते येक साथे १२ परीषहोतुं न वेदन करे छे.

गौतमस्वामीने प्रश्न—(एगविहबंधगस्स णं भते ! वीयरगछउमत्थस्स
कई परीसहा पणत्ता ?) हे भदन्त ! ये एव येक प्रकारना कर्मना बंधक
होय छे येवा उपशान्त मोहवाणा एवना येने वीतराग छद्मस्थना केटवा
परीषह क्खु छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—(एवं चेवं जहेव छव्विहबंधगस्स णं) छ प्रका-
रना कर्मना बंधक नेतुं न कथन अहीं पणु समज्जु ये प्रकारे छ प्रकारना
कर्मना बंधक एवना क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या प्रज्ञा, ज्ञान
अलाभ, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श अने मल ये १४ परीषहो क्खु छे.
अने मोहना अलावने लीधे दर्शनपरीषह अरतिपरीषह, स्त्रीपरीषह, नैषेधि-
क्षीपरीषह, याचनापरीषह, आक्रोशपरीषह अने सत्कारपुरस्कार परीषह, आ
आठ परीषहोने तेमनामा अभाव क्खु छे येन प्रमाणे इत्त येक न
कर्मना (वेदनीय कर्मना) बंधक वीतराग छद्मस्थ—उपशान्त मोहवाणा अने

एकदा द्वयोरवदनात् द्वादशवेदनम् । गौतमं पृच्छति—‘ एकविह्वंशगस्त ष
 भन्ते ! यीपरागच्छप्रत्यस्तस्य क्व परीसहा पण्णात्ता ? ’ हे मद्दन्त ! एकविषकर्मबन्ध
 कस्य खलु वेदनीयबन्धकस्य वीतरागच्छप्रत्यस्य उपशान्तमोहस्य क्षीणमोहस्य
 चेत्यर्थः कति फियन्तः परीपहाः प्रहृष्टाः ? भगवानाह—‘ गोयमा ! एष चैव
 नहेव छन्विह्वंशगस्त ० ’ हे गौतम ! एवमेव पूर्वोक्तरीत्यैय यथैव पदविष
 कर्मबन्धकस्य चतुर्दश परीपहाः मोहनीयाद्यष्टपरीपहभिक्षाः पूर्वं प्रतिपादितास्त्वैव
 एकविषवेदनीयकर्मबन्धकस्यापि चतुर्दश एव उपर्युक्ताः परीपहाः प्रतिपत्तव्याः,
 द्वादश पुनर्वेदयति क्षीणोप्ययोश्चर्याश्चत्ययोश्च पर्यायेण वेदनात् । गौतमं पृच्छति—
 ‘ एगविह्वंशगस्त ष भन्ते ! सजोगिभवत्यकेवलिस्म कर्ई परीसहा पण्णात्ता ? ’ हे
 मद्दन्त ! एकविषकर्मबन्धकस्य खलु वेदनीयबन्धकस्य प्रयोदशगुणस्यानकवर्तिना
 सयोगिभवत्यकेवलिन् कति परीपहा प्रहृष्टाः ? भगवानाह—‘ गोयमा ! एकारस-
 परीसहा पण्णात्ता, नन पुण वेएइ’ हे गौतम ! वेदनीयमाभवन्धकस्य सयोगिभवत्य

१४ परीपह होते हैं—मोहजन्य ८ परीपह नहीं होते हैं। क्षीत, उष्ण,
 चर्या और शय्या इन चार परीपहों में एक काल में दो का ही वेदन
 होने से यहाँ—वेदन १२ का होता है। अब गौतम प्रभु से ऐसा पूछते
 हैं—(एगविह्वंशगस्त ष भन्ते ! सजोगिभवत्यकेवलिस्म कर्ई परीसहा
 पण्णात्ता) हे मद्दन्त ! जो जीव एकविष कर्म का पचक होता है ऐसे
 उस सयोगि भवत्य केवली जीव में कितने परीपह कहे गये हैं ? इसके
 उत्तर में प्रभु कहते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (एकारसपरीसहा
 पण्णात्ता) एक वेदनीय कर्म का पच करने वाले उस तैरहवें गुणस्या
 मधर्ती सयोगी भवत्य केवली के ११ परीपह कहे गये हैं। परन्तु वेदन
 यहाँ एक काल में क्षीत, चर्या और शय्या इनमें से दो परीपहों का ही

क्षीण मोहवाणा एवना पञ्च १४ परीपहो द्वोप छे तेमनामां पञ्च मोहजन्य
 आठ परीपहोना सहाव होतो नहीं। तेजो पञ्च क्षीत, उष्ण चर्या अने
 शय्या के साथ परीपहोमांशी केक सभये जे परीपहोनुं न वेदन करे छे आ
 शीते तेजो केक साथे १२ परीपहोनुं न वेदन करे छे

जीवभस्वाभीनेः प्रथ—(एगविह्वंशगस्त ष भन्ते ! सजोगिभवत्यकेवलिस्म
 कर्ई परीसहा पण्णात्ता ?) हे मद्दन्त ! केक प्रकारना कर्मना अधक केवा
 सयोगी भवत्य केवली एवना केवा परीपह कया छे ?

महावीर प्रभुनेः उत्तर—(गोयमा एकारसपरीसहा पण्णात्ता ?) हे गौतम !
 वेदनीय कर्मना अध करना ते तैरमां उपस्थानवती सयोगी भवत्य केवलीना
 ११ परीपह कया छे, पञ्च चैवो एव केक साथे ६ नव परीपहोनुं न वेदन

केवलिनः एकादश परीपहाः प्रज्ञप्ताः, नव पुनः परीपहान् वेदयति एकदा शीतो-
 णचर्याशय्यासु द्वयोरेव वेदनात् नववेदनमित्यर्थः 'सेसं जहा छव्विहवंधगस्स' शेषं
 यथा पञ्चविधकर्मबन्धकरयोक्तास्तथा वक्तव्याः । गौतमः पृच्छति—' अवंधगस्स णं
 भंते ! अजोगिभवत्थकेवलिस्स कई परीसहा पणत्ता ' हे भदन्त ! अवन्धकस्य
 खलु अयोगिभवस्थ केवलिनः कति परिपहाः प्रज्ञप्ताः ? भगवान्नाह—' गोयमा !
 एकारसपरीसहा पणत्ता, नव पुणवेएइ ' हे गौतम अवन्धकस्य चतुर्दशगुणस्थान-
 कवर्तिनः अयोगिभवस्थकेवलिनः एकादश परीपहाः प्रज्ञप्ताः, नव पुनः परीपहान्
 वेदयति, तदेवाह—' जं समयं सीयपरीसहं वेएइ, नो तं समयं उस्सिणपरीसहं
 वेएइ ' यस्मिन् समये शीतपरीपहम् अवन्धकः अयोगिभवस्थकेवली वेदयति, नो
 तस्मिन् समये उष्णपरीपहं वेदयति, एवं ' जं समयं उस्सिणपरीसहं वेएइ, नो तं
 समयं सीयपरीसहं वेएइ ' यस्मिन् समये उष्णपरीपहं वेदयति, नो तस्मिन् समये

होता है—अतः वेदन ९ का कहा गया है । (सेसं जहा छव्विहवंधगस्स)
 इसी बात को इस सूत्र पाठ द्वारा समझाया गया है । अब गौतमस्वामी
 प्रश्न से ऐसा पृच्छते हैं—(अवन्धगस्स णं भंते ! अजोगि भवत्थ केवलिस्स
 कई परीसहा पणत्ता) हे भदन्त ! अयोगिभवस्थ अवन्धककेवली के
 कितने परीपह होते हैं ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे
 गौतम ! (एकारस परीसहा पणत्ता) अयोगि भवस्थ अवन्धक केवली
 के ग्यारह ११ परीपह होते हैं । परन्तु (नवपुण वेएइ) वह वेदन नौ
 परीपहों का करता है । इसी बात को सूत्रकार प्रकट करते हैं—(जं समयं
 सीयपरीसहं वेएइ, नो तं समयं उस्सिणपरीसहं वेएइ, जं समयं उस्सि-

करे छे, कारणु के शीत, उष्ण, चर्या अने शय्या, अे चार परीपडोतु ७ अेक
 साथे वेदन थाय छे अेव वातने (सेसं जहा छव्विहवंधगस्स) आ सूत्र
 द्वारा समझववामां आवी छे.

गौतमस्वामीने प्रश्न—(अवंधगस्स ण भंते ! अजोगिभवत्थकेवलिस्स
 कई परीसहा पणत्ता ?) के लक्षन्त ! अयोगी भवस्थ अवंधक केवलीना
 केटला प्रकार क्हा छे ?

भट्टावीरप्रभुने उत्तर—(गोयमा !) के गौतम ! (एकारसपरीसहा पणत्ता ?)
 अयोगी भवस्थ अवंधक केवलीना ११ परीपडो क्हा छे परन्तु (नव पुण
 वेएइ) ते नव परीपडोतु वेदन करे छे तेतु कारणु अतावतां सूत्रकार कडे
 छे के—' ज समय सीयपरीसह वेएइ, नो तं समय उस्सिणपरिसह वेएइ, '
 जं समयं उस्सिणपरिसह वेएइ, नो तं समय सीयपरीसह वेएइ, ज समयं

श्रीतपरीपहं वेदयति, श्रीसोष्णयोर्युगपद्वेदना समवात् तपैव ' जं समय चरियाप रोसहं वेपइ, नो त समयं सेज्जापरीसहं वेपइ ' यस्मिन् समये चर्यापरीपहं वेद यति, नो तस्मिन् समये क्षय्यापरीपहं वेदयति, एवमेव ' जं समय सेज्जापरीसहं वेपइ, नो त समय चरियापरीसहं वेपइ, यस्मिन् समये क्षय्यापरीपहं वेदयति, नो तस्मिन् समये चर्यापरीपहं वेदयति, विहरणावस्थानयोर्युगपदसमवात् । एव वैका वक्षसु परीपहेषु श्रीतोष्णचर्या क्षय्यानां चतुर्णां मध्ये एफदा द्वयोरेव वेदनात् नैव वेदयति इत्याशयः ॥ सू० ५ ॥

णपरीसहं वेपइ, नो तं समयं सीपपरीसहं वेपइ, जं समयं चरियाप रीसहं वेपइ, नो त समय सेज्जापरीसहं वेपइ, ज समय सेज्जापरीसहं वेपइ, नो त समयं चरियापरीसहं वेपइ) चतुर्दशगुणस्थानवर्ती ऋषभक ऋयोगि ऋषभस्थ फेबली जिस समय शीतपरीपह का वेदन करता है उस समय वह उष्णपरीपह का वेदन नहीं करता है और जिस समय वह उष्णपरिपह का वेदन करता है उस समय वह शीत परिपह का वेदन नहीं करता है । तथा जिस समय वह चर्या परीपह का वेदन करता है उस समय वह क्षय्यापरिपह का वेदन नहीं करता है और जिस समय वह क्षय्यापरीपह का वेदन करता है उस समय वह चर्यापरीपह का वेदन नहीं करता है । क्यों कि विहार और अवस्थान अवस्थानों इनका युगपत् एकसमय होना संभावित नहीं है । इस तरह ११ परीपहों में से शीत, उष्ण, चर्या और क्षय्या इन ४ परीपहों के बीच एक साथ किन्हीं दो का वेदन होने से यहाँ नौ का वेदन कहा गया है ॥ सू० ५ ॥

चरिया परिपहं वेपइ, नो त समय सेज्जापरीसहं वेपइ, ज समय सेज्जापरी सहं वेपइ, नो त समय चरियापरिसहं वेपइ " यौद्ध्यां शुभ्रस्थानवर्ती, अणधक अथेष्ठी अवस्थ केवली न्यारे शीत परीपहं वेदन करे छे, त्तारे उष्णपरीपहं वेदन करता नथी तथा न्यारे तेज्जा उष्णपरीपहं वेदन करे छे त्तारे शीतपरीपहं वेदन करता नथी. तथा न्यारे तेज्जा चर्यापरीपहं वेदन करे छे, त्तारे क्षय्यापरीपहं वेदन करता नथी तथा न्यारे तेज्जा क्षय्या परीपहं वेदन करे छे, त्तारे चर्यापरीपहं वेदन करता नथी. कारण के विहार जने अवस्थान, जे जन्नेमां विशेष कोवाधी ते जन्ने परीपहो जेक साधे कोष शकता नथी. आ रीते शीत, उष्णता चर्या जने क्षय्या, जे क्षय्य परीपहोमांथी जेक साधे जे परिपहो जे वेदन थप शकतु कोवाधी जेकी जेपु कहेवामां आ०पु छे के तेज्जा जेक साधे नथ परीपहो वेदन करे छे ॥ सू. ५ ॥

उष्णपरीपहहेतुधूतधूर्यवक्तव्यता ।

इतः पूर्वं परीपहान्तर्गततया उष्णपरीपहः प्ररूपितः, तद्वैतवश्च सूर्याः, अतः सूर्यवक्तव्यतामाह—‘ जंबुद्वीवेण भंते ’ इत्यादि ।

मूलम्—जंबुद्वीवे णं भंते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य, मूले य दीसंति, मज्झंतियमुहुत्तंसि मूले य, दूरे य दीसंति, अत्थमणमुहुत्तंसि दूरे य, मूले य दीसंति ? हंता, गोयमा ! जंबुद्वीवे णं दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि, दूरे य, तं चेव जाव अत्थमणमुहुत्तंसि दूरे य, मूले य, दीसंति जंबुद्वीवे णं भंते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि मज्झंतियमुहुत्तंसि य अत्थमणमुहुत्तंसि य सव्वत्थ समा उच्चत्तेणं ? हंता गोयमा ! जंबुद्वीवेणं दीवे सूरिया उग्गमण जाव उच्चत्तेणं । जइ णं भंते ! जंबुद्वीवे दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि य, मज्झंतियमुहुत्तंसि य, अत्थमणमुहुत्तंसि य मूले जाव उच्चत्तेणं । से केणं खाइ अट्टे णं भंते ! एवं बुच्चइ — जंबुद्वीवे णं दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य, मूले य दीसंति, जाव अत्थमणमुहुत्तंसि दूरे य, मूले य दीसंति ? गोयमा ! लेसापडिघाएणं उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य, मूले य, दीसंति, लेसाभितावेणं मज्झंतिय मुहुत्तंसि मूले य दूरे य दीसंति, लेसापडिघाएणं अत्थमणमुहुत्तंसि दूरे य मूले य दीसंति, से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ—जंबुद्वीवे णं दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य मूले य दीसंति, जाव अत्थमण० जाव दीसंति, जंबुद्वीवे णं भंते ! दीवे सूरिया किं तयिं खेत्तं गच्छंति, पडुपन्नं खेत्तं गच्छंति ? अणागयं खेत्तं गच्छंति ? गोयमा !

णो तीय खेत्त गच्छति, पडुप्पन्न खेत्त गच्छति, णो अणागय खेत्त
 गच्छति । जवुद्दीवे णं भते । दीवे सूरिया किं तीय खेत्त ओभासति,
 पडुप्पन्न खेत्त ओभासति, अणागय खेत्त ओभासति ? गोयमा । नो
 तीय खेत्त ओभासति, पडुप्पन्न खेत्त ओभासति, णो अणागय
 खेत्त ओभासति । त भते । किं पुट्ट ओभासति, अपुट्ट ओभासति ?
 गोयमा ! पुट्ट ओभासति । णो अपुट्ट ओभासति, जाव नियमा
 छदिसिं । जवुद्दीवे णं भते । दीवे सूरिया किं तीय खेत्त उज्जोवेत्ति ?
 एव खेव जाव नियमा छदिसिं । एव तवेत्ति, एव भासति, जाव
 नियमा छदिसिं । जवुद्दीवे णं भते । दीवे सूरिया किं तीये खेत्त
 किरिया कज्जइ, पडुप्पन्ने खेत्ते किरिया कज्जइ, अणागय खेत्ते किरिया
 कज्जइ ? गोयमा । णो तीये खेत्ते किरिया कज्जइ, पडुप्पन्ने खेत्ते
 किरिया कज्जइ णो अणागय खेत्ते किरिया कज्जइ, सा भते ।
 किं पुट्टा कज्जइ, अपुट्टा कज्जइ ? गोयमा । पुट्टा कज्जइ, नो
 अपुट्टा कज्जइ, जाव नियमा । छदिसिं जवुद्दीवे णं भते । दीवे
 सूरिया केवइय खेत्त उडु तवति ? केवइय खेत्त अहे तवति ? केवइय
 खेत्त तिरिय तवेत्ति ? गोयमा ! एग जोयणसय उडु तवति,
 अट्टारस जोयणसयाइ अह तवति, सीयालीस जोयणसहस्साइ दोद्धिं
 तेवट्टे जोयणसयाइ, एकत्तीस च सट्ठिभाए जोयणस्स तिरिय
 तवति । अतो ण भते ! माणुसुत्तरस्स एज्जयस्स जे चदिम-सूरिय
 गहगण-णसखत्त ताराख्या तेणं भते ! देवा किं उडुोपयध्दगा जहा

जीवाभिगमे तद्देव निरवसेलं जाव उक्कोसेणं छम्मासा । वहिया
णं भंते ! माणुसुत्तरस्स जहा जीवाभिगमे जाव इंदुवाणे णं भंते !
केवइयं कालं उववाएणं विरहिए पन्नत्ते ? गोयमा ? जहण्णेणं एकं
समयं, उक्कोसेणं छम्मासा, सेवं भंते ? सेवं भंते ? त्ति ॥सू०६॥

अट्टमसए अट्टमो उद्देसो समत्तो ॥८-८॥

छाया-जम्बूद्वीपे खलु भदन्त ! द्वीपे सूर्यो उद्गमनमुहूर्ते दूरे च, मूले च दृश्येते,
मध्यान्तिकमुहूर्ते मूले च दूरे च दृश्येते, अस्तमनमुहूर्ते दूरे च मूले च दृश्येते ?
दन्त, गौतम ! जम्बूद्वीपे खलु द्वीपे सूर्यो उद्गमनमुहूर्ते, दूरे च, तदेव यावत्-अस्त-
मनमुहूर्ते दूरे च मूले च दृश्येते । जम्बूद्वीपे खलु भदन्त ! द्वीपे सूर्यो उद्गमनमुहूर्ते

उष्णपरीषह के हेतुभूत सूर्य की वक्तव्यता-

‘जंबुद्वीपे णं भंते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ-(जंबुद्वीपे णं भंते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य
मूले य दिसंति) हे भदन्त ! जम्बूद्वीप नामके द्वीपमें दो सूर्य उदय
होनेके समयमें दूर होने पर भी मूलमें-पासमें दिखते हैं (मज्झन्तिय
मुहुत्तंसि मूले य, दूरे य, दीसंति) मध्याह्नकालमें पास होने पर भी
दूर दिखते हैं (अत्थमणमुहुत्तंसि दूरे य मूले य दीसंति) तथा अस्त
होने के समय दूर होने पर भी पास में दिखते हैं ? (हंता गोयमा !
जंबुद्वीपे णं सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य, तं चेव जाव अत्थमणमु-
हुत्तंसि दूरेय मूले य दीसंति) हां गौतम ! जंबूद्वीप नामके द्वीप में दो

उष्णपरीषटना कारणरूप सूर्यनी वक्तव्यता—

(जंबुद्वीपेणं भंते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य मूले य दीसंति)
हे भदन्त ! जम्बूद्वीप नामका द्वीपमा जे सूर्यो उदय थवाने समये दूर होवा
छता पणु भूणमा (पास) देभाय छे, (मज्झन्तिय मुहुत्तंसि मूले य दूरे य
दिसंति) मध्याह्नकाले पास होवा छता पणु दूर देभाय छे, (अत्थमणमुहु-
त्तंसि दूरे य मूले य दीसंति) अने अस्त थवाने समये दूर होवा छता पणु
थु पास देभाय छे ?

(हंता, गोयमा ! जंबूद्वीपेणं दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य तं चेव
जाव अत्थमणमुहुत्तंसि दूरे य मूले य दीसंति) हां, गौतम ! जंबूद्वीप नामका

मघ्यान्तिकमुहूर्ते च अस्तमनमुहूर्ते च सर्वत्र समौ उच्चत्वेन ? इन्त, गौतम ! जम्बू
द्वीपे स्वल्प द्वीपे सूर्यो उत्रमन० यावत् उच्चत्वेन । यदि स्वल्प भवन्त ! जम्बूद्वीपे
द्वीपे सूर्यो उत्रमनमुहूर्ते च मघ्यान्तिकमुहूर्ते च अस्तमनमुहूर्ते च मूले यावत्

सूर्य उदय होने के समय दूर होने पर भी पाम में दिखते हैं, मघ्याह
काल में पास होने पर भी दूर दिखते हैं, और अस्त होने के समय दूर
होने पर भी पाम में दिखते हैं । (जम्बूद्वीपे ण भन्ते ! द्वीपे सूरिया उत्रा
मणमुहूर्त्तसि मज्झति य मुहुत्तसि य अत्यमणमुहूर्त्तसि य सवत्थ समा
उत्तसेण) हे भवन्त ! जम्बूद्वीप नामके द्वीप में दो सूर्य उदय होने के
समय में, मघ्याहकाल में एव अस्त होनेके समय में सर्वत्र ऊँचाई की
अपेक्षा समान दिखते हैं क्या ? (हता गोयमा !) हां गौतम ! (जम्बू
द्वीपे ण द्वीपे सूरिया उत्रामण जाव उत्तसेण) जम्बूद्वीप नामके द्वीप में
दो सूर्य उदय होने के समय, मघ्याह के समय एव अस्त होने के समय
ऊँचाई की अपेक्षा समान दिखते हैं । (जम्बू ण भन्ते ! जम्बूद्वीपे द्वीपे
सूरिया उत्रामणमुहूर्त्तसि य मज्झतियमुहूर्त्तसि य, अत्यमणमुहूर्त्तसि
य मूले जाव उत्तसेण से केण स्वाह भट्टे ण भन्ते ! एव सुच्चह, जम्बू
द्वीपेण द्वीपे सूरिया उत्रामणमुहूर्त्तसि दूरे य, मूले य वीसन्ति जाव
अत्यमणमुहूर्त्तसि दूरे य, मूले य वीसन्ति) हे भवन्त ! जम्बूद्वीप नाम के
द्वीप में दो सूर्य उदय होने के समय में, मघ्याह के समय में, एव अस्त

द्वीपमां वे सूर्य उदय पामती वपते इर डोवा छत्तां पवु पासे देआय छे,
मघ्याहकाले पासे डोवा छत्तां पवु इर देआय छे अने अस्त पामती वपते
इर डोवा छत्तां पवु पासे देआय छे

(जम्बूद्वीपेण भन्ते ! द्वीपे सूरिया उत्रामणमुहूर्त्तसि मज्झति य मुहुत्तसि य
अत्यमणमुहूर्त्तसि य सवत्थ समा उत्तसेण ?) हे भवन्त ! जम्बूद्वीप नामका
द्वीपमां वे सूर्य उदय समये, मघ्याहकाले तथा अस्तकाले शु सर्वत्र समान
ऊँचाईके होय छे ?

(हता गोयमा !) हां, गौतम ! (जम्बूद्वीपेण द्वीपे सूरिया उत्रामण जाव
उत्तसेण) जम्बूद्वीप नामका द्वीपमां वे सूर्य उदय यती वपते मघ्याहकाले
तथा अस्त समये सर्वत्र समान ऊँचाईके होय छे (जम्बू ण भन्ते ! जम्बूद्वीपे
द्वीपे सूरिया उत्रामणमुहूर्त्तसि य मज्झति य मुहुत्तसि य, अत्यमणमुहूर्त्तसि य मूले
जाव उत्तसेण से केण स्वाह भट्टेण भन्ते ! एव सुच्चर जम्बूद्वीपेण द्वीपे सूरिया
उत्रामणमुहूर्त्तसि दूरे य मूले य वीसन्ति जाव अत्यमणमुहूर्त्तसि दूरे य, मूले य
वीसन्ति ?) हे भवन्त ! जम्बूद्वीप नामका वे द्वीपमां वे सूर्य उदय पामती

उच्चत्वेन । तत् केन पुनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते—जम्बूद्वीपे खलु द्वीपे सूर्यो उद्ग-
मनमुहूर्ते दूरे च मूले च दृश्यते यावत् अस्तमनमुहूर्ते दूरे च, मूले च दृश्येते ?
गौतम ! लेश्याप्रतिघातेन उद्गमनमुहूर्ते दूरे च, मूले च दृश्येते, लेश्याभितापेन
मध्याह्निकमुहूर्ते मूले च दूरे च दृश्येते, लेश्याप्रतिघातेन अस्तमनमुहूर्ते दूरे च,
मूले च दृश्येते, तत् तेनार्थेन गौतम ! एवमुच्यते—जम्बूद्वीपे खलु द्वीपे सूर्यो

होने के समय में यावत् ऊँचाई की अपेक्षा समान दिखते हैं—तो हे
भदन्त ! ऐसा आप किस कारण से कहते हैं कि जंबूद्वीप नामके द्वीप
में दो सूर्य उदय होने के समय दूर होने पर भी पास में दिखते हैं,
यावत् अस्त होने के समय दूर होने पर भी पास में दिखते हैं ? (गोय-
मा ! लेस्सापडिघाएण उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य, मूले य दीसंति, लेस्साभि-
तावेण मज्झंतियमुहुत्तंसि मूले य दूरे य दीसंति लेस्सापडिघाएण अत्थ
मणमुहुत्तंसि दूरे य, मूले य दीसंति, से तेणट्टेण गोयमा । एवं वुच्चइ-
जंबुद्वीवे णं दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य मूले य दीसंति जाव
अत्थमण जाव दीसंति) हे गौतम ! लेश्या-तेज के प्रतिघात से उदय
के समय दो सूर्य दूर होने पर भी पास दिखते हैं, तथा लेश्या के अभि-
ताप से मध्याह्निकाल में पास होने पर भी दूर दिखते हैं, और लेश्या के
प्रतिघात से, अस्त होने के समय दूर होने पर भी पास दिखते हैं । इस
लिये हे गौतम ! मैंने ऐसा कहा है कि जंबूद्वीप नाम के द्वीप में दो सूर्य

वपते मध्याह्निकाणे, अने अस्त पामती वपते (यावत्) णि याधनी अपेक्षाओ
समान होय छे, तो हे भदन्त ! ओवुं आप शा कारणे कडो छे के जंबूद्वीप
नामना द्वीपमां ओ सूर्य उदय थती वपते इर होवा छता पणु पासे देभाय
छे, मध्याह्निकाणे पासे होवा छतां इर देभाय छे अने अस्तकाणे इर होवा
छतां पासे देभाय छे ?

(गोयमा ! लेस्सापडिघाएण उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य, मूले य दीसंति, लेस्सा-
भितावेण मज्झंतिय मुहुत्तंसि मूले य दूरे य दीसंति, लेस्सापडिघाएण अत्थमणमुहु-
त्तंसि दूरे य, मूले य दीसंति, से तेणट्टेण गोयमा । एवं वुच्चइ—जंबुद्वीवेणं दीवे
सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य, मूले य, दीसंत जाव अत्थमण जाव दीसंति)
हे गौतम ! लेश्या (तेज) ना प्रतिघातथी उदयकाणे ओ सूर्य इर होवा छता
पासे देभाय छे, तथा लेश्या (तेज) ना अभितापथी मध्याह्निकाणे तेओ पासे
होवा छतां इर देभाय छे अने लेश्याना प्रतिघातथी अस्तकाणे तेओ इर
होवा छतां पणु पासे देभाय छे हे गौतम ! ते कारणे मे ओवुं कथ छे के

उद्गमनमुद्धर्ते दूरे च, मूढे च दृश्यते यावत् अस्तमन यावद् दृश्यते । जम्बूद्वीपे
 म्लच्छ भवन्त ! द्वापे सूर्यो किम् अतीत क्षेत्रे गच्छत, प्रत्युत्पन्नं क्षेत्रं गच्छत,
 अनागतं क्षेत्रं गच्छत ? गौतम ! नो अतीतं क्षेत्रं गच्छतः प्रत्युत्पन्नं क्षेत्रं गच्छतः नो
 अनागतं क्षेत्रं गच्छत । जम्बूद्वीपे म्लच्छ भवन्त ! द्वीपे सूर्यो किम् अतीत क्षेत्रम् अवमा
 सयतः, प्रत्युत्पन्नं क्षेत्रम् अवमासयतः अनागत क्षेत्रम् अवमासयतः ? गौतम ! नो
 अतीतं क्षेत्रम् अवमासयतः प्रत्युत्पन्नं क्षेत्रं अवमासयतः नो अनागत क्षेत्रम् अवमा

सद्य होने के समय दूर होने पर भी पास दिखते हैं यावत् अस्त होने
 के समय में दूर होने पर भी पास दिखते हैं । (जम्बूद्वीपे ण भवे ! द्वीपे
 सूरिया किं तीर्यं क्षेत्रं गच्छति, पटुत्पन्नं क्षेत्रं गच्छति, अनागतं क्षेत्रं
 गच्छति) हे गौतम ! जम्बूद्वीप नाम के द्वीप में दो सूर्य क्या अतीत
 क्षेत्र के प्रति जाते हैं ? या वर्तमान क्षेत्र के प्रति जाते हैं या अनागत
 क्षेत्र के प्रति जाते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (णो तीर्यं क्षेत्रं गच्छति,
 पटुत्पन्नं क्षेत्रं गच्छति णो अनागतं क्षेत्रं गच्छति) वे अतीतक्षेत्र के
 प्रति नहीं जाते हैं । किन्तु वर्तमान क्षेत्र के प्रति जाते हैं । अनागतक्षेत्र
 के प्रति भी नहीं जाते हैं । (जम्बूद्वीपे ण द्वीपे सूरिया किं तीर्यं क्षेत्रं
 ओमासति, पटुत्पन्नं क्षेत्रं ओमासति, अनागतक्षेत्रं ओमासति) हे
 भवन्त ! जम्बूद्वीप में दो सूर्य क्या अतीतक्षेत्र को प्रकाशित करते
 हैं या वर्तमानक्षेत्र को प्रकाशित करते हैं, या अनागतक्षेत्र को प्रका

जम्बूद्वीप नामना द्वीपभां जे सूर्यं उदयकारे दूर होवा छदां पासे देभाव छे,
 मध्याह्नकारे पासे होवा छदां दूर देभाव छे अने अस्तकारे दूर होवा छदां
 पासे देभाव छे (जम्बूद्वीपे ण भवे ! द्वीपे सूरिया किं तीर्यं क्षेत्रं गच्छति, पटु-
 त्पन्नं क्षेत्रं गच्छति, अनागतं क्षेत्रं गच्छति ? हे भवन्त ! जम्बूद्वीप नामना
 द्वीपभां जे सूर्यं शु अतीत क्षेत्र तरह देभाव छे ? हे वर्तमान क्षेत्र तरह
 देभाव छे ? हे अनागत (अविभक्तखिन) क्षेत्र तरह देभाव छे ?

(गोयमा) हे गौतम ! (णो तीर्यं क्षेत्रं गच्छति, पटुत्पन्नं क्षेत्रं गच्छति
 णो अनागतं क्षेत्रं गच्छति) तेजो अतीत क्षेत्र तरह अत्ता नहीं, पटु वर्त
 मान क्षेत्र तरह देभाव छे तेजो अनागत क्षेत्र तरह अत्ता नहीं
 (जम्बूद्वीपे ण द्वीपे सूरिया किं तीर्यं क्षेत्रं ओमासति, पटुत्पन्नं क्षेत्रं ओमासति
 अनागतं क्षेत्रं ओमासति ?) हे भवन्त ! जम्बूद्वीपभां जे सूर्य अतीत (भूत
 कारिन) क्षेत्रने प्रकाशित करे छे, हे वर्तमान क्षेत्रने प्रकाशित करे छे, हे
 अनागत क्षेत्रने प्रकाशित करे छे ?

सयतः। तत् भदन्त ! किं स्पृष्टम् अवभासयतः, अस्पृष्टम् अवभासयतः ? गौतम !
स्पृष्टम् अवभासयतः नो अस्पृष्टम् अवभासयतः, यावत् नियमात् पृष्टदिशः । जम्बू-
द्वीपे खलु भदन्त ! द्वीपे सूर्यो किम् अतीतं क्षेत्रम् उद्योतयतः, एवमेव यावत् निय-
मात् पृष्टदिशः, एवं तपतः, एवं अत्रभासयतः यावत् नियमात् पृष्टदिशः । जम्बूद्वीपे

शित करते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (नो तीयं खेत्तं ओभा-
सन्ति पडुप्पन्नं खेत्तं ओभासन्ति नो अणागयं खेत्तं ओभासन्ति) वे न
अतीतक्षेत्र को प्रकाशित करते हैं न अनागत क्षेत्र को प्रकाशित
करते हैं किन्तु वर्तमान क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं । (तं भन्ते ! किं पुट्टं
ओभासन्ति, अपुट्टं ओभासन्ति) हे भदन्त ! वे सूर्य क्या स्पृष्ट हुए क्षेत्र
को प्रकाशित करते हैं या अस्पृष्ट हुए क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं ?
(गोयमा) हे गौतम ! (पुट्टं ओभासन्ति, णो अपुट्टं ओभासन्ति जाव
उद्दिसिं) वे स्पृष्ट हुए क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं अस्पृष्ट हुए क्षेत्र को
नहीं । यावत् अवश्य वे छहदिशाओं को प्रकाशित करते हैं । (जंबुद्वीपे
णं भन्ते ! दीवे सूरिया किं तीयं खेत्तं उज्जोवेति) हे भदन्त ! जम्बूद्वीप
में वे सूर्य क्या अतीतक्षेत्र को उद्योतित करते हैं ? इत्यादि । (एवं चेव
नियमा जाव उद्दिसिं) हे गौतम ! वे सूर्य अतीतक्षेत्र को अनागतक्षेत्र
को उद्योतित नहीं करते हैं किन्तु वर्तमानक्षेत्र को उद्योतित करते हैं ।

(गोयमा !) हे गौतम ! (नो तीयं खेत्तं ओभासति, पडुप्पन्नं खेत्तं
ओभासन्ति, णो अणागयं खेत्तं ओभासन्ति) तेऽप्यो अतीत क्षेत्रने प्रकाशित करता
नथी, अनागत क्षेत्रने पणु प्रकाशित करता नथी, पणु वर्तमान क्षेत्रने
प्रकाशित करे छे. (तं भन्ते ! किं पुट्टं ओभासन्ति, अपुट्टं ओभासन्ति ?) हे
भदन्त ! तेऽप्यो शुं स्पृष्ट थयेला क्षेत्रने प्रकाशित करे छे के अस्पृष्ट क्षेत्रने
प्रकाशित करे छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (पुट्टं ओभासति, णो अपुट्टं ओभासन्ति जाव
उद्दिसिं) तेऽप्यो स्पृष्ट थयेला क्षेत्रने प्रकाशित करे छे, अस्पृष्ट क्षेत्रने प्रकाशित
करता नथी (यावत्) तेऽप्यो छ दिशाऽप्योने प्रकाशित करे छे (जंबुद्वीपेणं
भन्ते ! दीवे सूरिया तीयं खेत्तं उज्जोवेति ?) हे भदन्त ! जम्बूद्वीपमां ये सूर्यो
शुं अतीत क्षेत्रने उद्योतित करे छे ? इत्यादि प्रश्नो अरुण्य करवा. “ एवं चेव
नियमा जाव उद्दिसिं ” हे गौतम ! तेऽप्यो अतीत क्षेत्रने के अनागत क्षेत्रने
उद्योतित करता नथी, परन्तु वर्तमान क्षेत्रने उद्योतित करे छे. (यावत्)
तेऽप्यो अवश्य छे दिशाऽप्योने उद्योतित करे छे. “ एवं तवेति, एवं भासन्ति

खलु भदन्त ! द्वीपे सूर्यो किम् अतीते क्षेत्रे क्रिया क्रियते, प्रत्युत्पन्ने क्षेत्रे क्रिया क्रियते, अनागते क्षेत्रे क्रिया क्रियते ? गौतम ! नो अतीते क्षेत्रे क्रिया क्रियते, प्रत्युत्पन्ने क्षेत्रे क्रिया क्रियते, नो अनागते क्षेत्रे क्रिया क्रियते । सा भदन्त ! किं स्पृष्टा क्रियते, अस्पृष्टा क्रियते ? गौतम ! स्पृष्टा क्रियते, नो अस्पृष्टा क्रियते यावत् नियमात् पृथग्दिशः । अम्बूद्वीपे खलु भदन्त ! द्वीपे सूर्यो क्रियत्क क्षेत्रम् क्व

यावत् भवद्दय वे छद्दिशाओं को उद्योतित करते हैं । (एवं तर्हेति, एवं भासति जाय नियमा छद्दिशि) इसी तरह से वे यावत् नियम से छद्दिशाओं को तपाते हैं । (जयुद्वीपे णं भंते ! द्वीपे सूरियाणं किं तीप क्षेत्रे किरिया कज्जइ पडुप्पन्ने क्षेत्रे किरिया कज्जइ, अणागए क्षेत्रे किरिया कज्जइ) हे भदन्त ! अम्बूद्वीप में वे सूर्य क्या अतीतक्षेत्र में क्रिया करते हैं ? या वर्तमानक्षेत्र में क्रिया करते हैं ? या अनागतक्षेत्र में क्रिया करते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! वे सूर्य (जो तीये क्षेत्रे किरिया कज्जइ, पडुप्पन्ने क्षेत्रे किरिया कज्जइ, णो अणागए क्षेत्रे किरिया कज्जइ) न अतीत क्षेत्र में क्रिया करते हैं, न अनागत क्षेत्र में क्रिया करते हैं किन्तु वर्तमान क्षेत्र में क्रिया करते हैं । (सा भंते ! किं पुट्टा कज्जइ, अपुट्टा कज्जइ) हे भदन्त ! वे जो क्रिया करते हैं वे स्पृष्ट क्रिया करते हैं या अस्पृष्ट क्रिया करते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (पुट्टा कज्जइ, नो अपुट्टा कज्जइ, जाय नियमा छद्दिशि) स्पृष्ट हुई क्रिया सूर्य करते हैं अस्पृष्ट हुई क्रिया नहीं करते हैं । यावत् वे छद्दिशा में

जाय नियमा छद्दिशि) ज्येष्ठ प्रभावे तेजो तेने तपावे छ जने यमभावे छ (यावत्) तेजो छजे दिशाज्जेने अवस्थ तपावे छ जने यमभावे छ

(अयुद्वीपेणं भंते ! द्वीपे सूरियाणं किं तीप क्षेत्रे किरिया कज्जइ, पडुप्पन्ने क्षेत्रे किरिया कज्जइ, अणागए क्षेत्रे किरिया कज्जइ ?) हे भदन्त ! अम्बूद्वीपमें शु ते वे सूर्य अतीत क्षेत्रमां क्रिया करे छ ? हे वर्तमान क्षेत्रमां क्रिया करे छ ? हे अनागत क्षेत्रमां क्रिया करे छ ?

(गोयमा !) तेजो (जो तीये क्षेत्रे किरिया कज्जइ पडुप्पन्ने क्षेत्रे किरिया कज्जइ जो अणागए क्षेत्रे किरिया कज्जइ) अतीत क्षेत्रमां क्रिया करता नहीं, अनागत क्षेत्रमां पण क्रिया करता नहीं, पण वर्तमान क्षेत्रमां न क्रिया करे छ (सा भते ! किं पुट्टा कज्जइ अपुट्टा कज्जइ ?) हे भदन्त ! तेजो शु स्पृष्ट क्रिया करे छ, हे अस्पृष्ट क्रिया करे छ ? (गोयमा !) हे गौतम ! ' पुट्टा कज्जइ, नो अपुट्टा कज्जइ, जाय नियमा छद्दिशि) तेजो स्पृष्ट क्रिया

तपतः, कियत्कं क्षेत्रम् अधस्तपतः, कियत्कं क्षेत्रं तिर्यक्तपतः? गौतम! एकं योजन-
शतम् ऊर्ध्वं तपतः, अष्टादशयोजनशतानि अधस्तपतः, सप्तचत्वारिंशद्द्वयोजनसह-
स्राणि, द्वे त्रिपष्टिः, योजनशते एकविंशतिं च पष्टिभागान् योजनस्य तिर्यक् तपतः ।
प्रन्तः खलु भदन्त ! मनुष्योत्तरस्य पर्वतस्य ये चन्द्र-सूर्य-ग्रहगण-नक्षत्र-ताराख-
पास्ते खलु भदन्त! देवाः किम् ऊर्ध्वोपपन्नकाः ? यथा जीवाभिगमे तथैव निरवशेषं

नियम से स्पष्ट क्रिया करते हैं (जंबुद्वीवे णं भंते ! दीवे सूरिया केवह्यं
खेत्तं उड्डं तवंति, केवह्यं खेत्तं अहेतवंति-केवह्यं खेत्तं तिरियं तवंति) हे
भदंत ! जम्बूद्वीपमें वे सूर्य ऊपरमें कितने ऊँचे क्षेत्रको तपाते हैं, नीचेमें
कितने नीचे क्षेत्र को तपाते हैं, और तिरछे में कितने तिरछे क्षेत्र को
तपाते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (एगं जोयणसयं उड्डं तवंति, अट्टारस-
जोयणसयाइं अहे तवंति, सीयालीसं जोयणसहस्साइं दोन्नि तेवट्टे
जोयणसए एकवीसं च सट्ठिभाए जोयणसस तिरियं तवंति) वे ऊँचे में
सौ योजनतक के क्षेत्र को तपाते हैं । नीचे में १८ सौ योजन तक के
क्षेत्र को तपाते हैं और तिरछे में ४७२६३ योजन और एक योजन के
६० भागों में से २१ भाग प्रमाण क्षेत्र तपाते हैं । (अंतो णं भंते !
माणुसुत्तरस्स पव्वयस्स जे चंदिम सूरियगहगणणक्खत्तताराखा-त्तेणं
भंते ! देवा किं उड्डोववन्नगा) हे भदन्त ! मानुषोत्तरपर्वत के भीतर जो

करे छे, अस्पृष्ट किया करता नथी. (यावत्) तेओ छये दिशाओमां
नियमथी अ स्पृष्ट किया करे छे.

(जंबूद्वीवे णं भंते ! दीवे सूरिया केवह्यं खेत्तं उड्डं तवंति, केवह्यं
खेत्तं अहे तवंति, केवह्यं खेत्तं तिरियं तवंति) हे भदन्त ! जम्बूद्वीपमां वे सूर्यो
ऊपरना डेटली जंआधना क्षेत्रने तपावे छे ? नीचेना डेटली जंआधना क्षेत्रने
तपावे छे ? अने तिरकसनी अपेक्षाओ डेटला तिरछा क्षेत्रने तपावे छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (एगं जोयणसयं उड्डं तवंति, अट्टारस जोय-
णसयाइं अहे तव ति, सीयालीसं जोयणसहस्साइं दोन्नि तेवट्टे जोयणसए एकवीसं च
सट्ठिभाए जोयणसस तिरियं तवंति) तेओ ओथे १०० योजन सुधीना क्षेत्रने
तपावे छे, नीचे १८०० योजन सुधीना क्षेत्रने तपावे छे अने ४७२६३/२१/६०
(सुडताणीश डब्बर, णसेा तेसठं योजन अने ओक योजनना ६० भागोमांथी
२१ भाग प्रमाण) योजन प्रमाण तिरछा क्षेत्रने तपावे छे ?

(अतो णं भंते ! माणुसुत्तरस्स पव्वयस्स जे चंदिमसूरियगहगणणक्खत्त-
ताराखा-त्तेणं भंते ! देवा किं उड्डोववन्नगा ?) हे भदन्त ! मानुषोत्तर पर्वतनी

યાવત્ ઉત્કર્ષેણ પદ્ માસાઃ, વાઘાઃ સ્વલ્લ મદન્ત ! માનુષ્યાવરસ્ય૦ યયા ઓત્રામિ
ગમે યાવત્ ઇન્દ્રસ્થાનમ્ સ્વલ્લ મદન્ત ! ક્રિયાતં ક્ષાન્મ્ ઉપપાતેન વિરહિતં મદ્ગપ્તમ્
ગૌતમ ! જઘયેન એક સમયમ્ ઉત્કર્ષેણ પદ્ માસાઃ ! તદેવ મદન્ત ! તદેવ
મદન્ત ! ઇતિ ॥ સૂ૦ ૬ ॥

અષ્ટમશતકે અષ્ટમોદેશકઃ સમાપ્ત ॥ ૮-૮ ॥

ચંદ્રમા, સૂર્ય, ગ્રહગણ, નક્ષત્ર ઓર તારારૂપ દેવ હૈં-થે કયા હે મદન્ત !
ઊર્ધ્વલોક મેં ઉત્પન્ન હુપ હૈં ? (જહા ઝીવામિગમે તહેચ નિરવસેસ જાબ
ઉક્ષોસેણ છમ્માસા) હે ગૌતમ ! હમ વિષય મેં જૈસા ઝીવામિગમ સૂત્ર
મેં " હનકા ઉપપાતવિરહકાલ એક સમય જઘન્ય સે હૈ ઓર યાવત્
ઉત્કૃષ્ટ ૬ માસ હૈ " યહાં તક કહા હૈં ઘૈસા હી યહાં પર મી જાનના
ચાહિયે । (વહિયા ણ મતે ! માણુસુત્તરસ્સ) હે મદન્ત ! માનુષોત્તરપર્વત
કે યાહર જો ચંદ્રમા આદિ દેવ હૈં થે કયા ઊર્ધ્વલોક મેં ઉત્પન્ન હુપ હૈં ?
(જહા ઝીવામિગમે-જાબ ઇંદ્રદુષ્ટાણે ણ મતે ! કેવહ્યં કાલ ઉવવાપ્ણ
વિરહિપ્ પળ્ણસે ?) હે ગૌતમ ! જૈસા ઝીવામિગમસૂત્ર મેં કહા હૈં ઘૈસા
જાનના ચાહિયે । યાવત્ હે મદન્ત ! ઇન્દ્રસ્થાન કિત્તને કાલતક ઉપપાત
સે વિરહ યુક્ત કહાગયા હૈ ? (ગોયમા ! જહન્નેણ એક સમય, ઉક્ષોસેન
છમ્માસા સેવ મતે ! સેવ મતે ! સિ) હે ગૌતમ ! ઇન્દ્રસ્થાન જઘન્ય સે
એક સમય તક ઓર ઉત્કૃષ્ટ સે ૬ માસતક ઉપપાત સે વિરહિત કહા

અહર એ ચન્દ્રમા, સૂર્ય, ગ્રહગણ, નક્ષત્ર અને તારારૂપ દેવો છે, તે શુ
ઉપ્પદોઠમાં ઉત્પન્ન થયેલા છે ?

(જહા ઝીવામિગમે તહેવ નિરવસેસ જાબ ઉક્ષોસેન છમ્માસા) હે ગૌતમ !
આ વિષયને અનુલક્ષીને ઊવાભિગમ સૂત્રમાં જે કથન કરવામાં આવ્યું છે તે
સમસ્ત કથન " તેમનો ઉત્પાત વિરહકાલ ઓછામાં ઓછે એક સમય છે
અને વધારેમાં વધારે ૬ માસનો છે " આ કથન પદન્ત શ્રદ્ધણ કરવું

(વહિયા ણ મતે ! માણુસુત્તરસ્સ) હે મદન્ત ! માનુષોત્તર પર્વતની બહાર
જે ચન્દ્રમા આદિ દેવો છે તેઓ શુ ઉપ્પદોઠમાં ઉત્પન્ન થયેલા છે ? (જહા
ઝીવામિગમે-જાબ ઇંદ્રદુષ્ટાણે મતે ! કેવહ્યં કાલ ઉવવાપ્ણ વિરહિપ્ પળ્ણસે ?)
હે ગૌતમ ! આ વિષયને અનુલક્ષીને જેવું કથન ઊવાભિગમ સૂત્રમાં કરવામાં
આવ્યું છે તે અહીં શ્રદ્ધણ કરવું (યાવત્) ' હે મદન્ત ! ઇન્દ્રસ્થાન ઉત્પન્ન
કાળ સુખી ઉપપાતથી વિરહયુક્ત કહ્યું છે ? "

(ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જહન્નેણ એક સમય ઉક્ષોસેન છમ્માસા-
સેવ મતે ! સેવ મતે ! સિ) ઇન્દ્રસ્થાન ઓછામાં ઓછું એક સમય સુખી

ટીકા—‘જંબુદ્વીવેણં મંતે ! દીવે સૂરિયા ઉગ્ગમણમુહુત્તંસિ દૂરે ય, મૂલે ય દીસંતિ’
 ગૌતમઃ પૃચ્છતિ—હે ભદ્રન્ત ! જમ્બૂદ્વીપે સ્વલુ દ્વીપે—મધ્યજમ્બૂદ્વીપે, ઉદ્ગમનમુહૂર્તે—
 ઉદયવેલાયામ્ સૂર્યો દૂરે વ્યવહિતે ચ સત્યપિ મૂલે નિકટે ચ દૃશ્યેતે ? તથા ચ
 દર્શકસ્થાનાપેક્ષયા દૂરે વ્યવહિતે દેશે સત્યપિ મૂલે—દ્રષ્ટપ્રતીત્યપેક્ષયા આસન્ને નિકટે
 સૂર્યો દૃશ્યેતે, દ્રષ્ટા હિ સ્વરૂપતો વહુભિર્યોજનસહસ્રૈઃ વ્યવહિતમપિ સૂર્યમુદયાસ્તમન-

ગયા હૈ । હે ભદ્રન્ત ! જૈસા આપને કહા હૈ, વહ ચિલકુલ એસા હી હૈ ।
 હે ભદ્રન્ત ! જૈસા આપને કહા હૈ વહ ચિલકુલ એસા હી હૈ । ઇસ પ્રકાર
 કહ કર વે ગૌતમ યાવત્ અપને સ્થાન પર વિરાજમાન હો ગયે ।

ટીકાર્થ—ઇસકે પહિલે પરીષદોં કે અન્તર્ગત હોને સે ઉષ્ણપરીષદ
 કા પ્રતિપાદન કિયા હૈ—ઇસકે હેતુ સૂર્ય હોતે હૈ—ઇસલિયે સૂર્યસંબંધી
 વક્તવ્યતા કો સૂત્રકાર ને ઇસ સૂત્ર દ્વારા કહા હૈ—ઇસમેં ગૌતમ ને પ્રશ્ન
 સે એસા પૂછા હૈ—(જંબૂદ્વીવે ણં મંતે ! દીવે સૂરિયા ઉગ્ગમણમુહુત્તંસિ દૂરે
 ય, મૂલે ય દીસંતિ) હે ભદ્રન્ત ! ઇસ જમ્બૂદ્વીપ નામ કે દ્વીપ મેં દો સૂર્ય
 કહે ગયે હૈ—સો યે સૂર્ય જબ ઉદિત હોતે હૈ તબ વે દૂર—વ્યવહિત દેશ મેં
 હોને પર મી મૂલ મેં—દેખને વાલોં મનુષ્યોં કી અપેક્ષા સે પાસ મેં—
 દિશ્વલાઈ દેતે હૈ—ઉદય ઓર અસ્ત હોનેકે સમય મેં દર્શકજન ઉન્હેં પાસ
 મેં રહે હુણ દેખતા હૈ—યદ્યપિ યે સ્વરૂપ સે અનેક હજાર યોજનોં કી દૂરી

અને વધારેમાં વધારે છ માસ સુધી ઉપચાતથી વિરહિત કહ્યું છે. હે ભદ્રન્ત !
 આપે એવું કહ્યું એવું જ છે. હે ભદ્રન્ત ! આ વિષયનું આપે જે પ્રતિપાદન
 કર્યું તે ખિલકુલ સત્ય છે આ પ્રમાણે કહીને મહાવીર પ્રશ્નને વદણા નમસ્કાર
 કરીને ગૌતમ સ્વામી ચોતાને સ્થાને વિરાજમાન થઈ ગયા.

ટીકાર્થ—પહેલાના પ્રકરણમાં પરીષદોનું નિરૂપણ કરવામાં આવી ગયું.
 ૨૨ પરીષદોમાં જેનો સમાવેશ થાય છે એવા ઉષ્ણ—પરીષદનું પ્રતિપાદન પણ
 ત્યાં કરવામાં આવ્યું છે ઉષ્ણતાનું કારણ સૂર્ય હોવાથી હવે સૂત્રકાર અહીં
 સૂર્ય સંબંધી વક્તવ્યતાનું પ્રતિપાદન કરે છે.

ગૌતમ સ્વામી મહાવીર સ્વામીને એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે—“ જંબૂદ્વીવે ણ
 મંતે ! દીવે સૂરિયા ઉગ્ગમણમુહુત્તંસિ દૂરે ય, મૂલે ય દીસંતિ ” હે ભદ્રન્ત ! જમ્બૂ-
 દ્વીપ નામના દ્વીપમાં જે સૂર્ય કહ્યા છે તે જે સૂર્ય જ્યારે ઉદય પામે છે
 ત્યારે દૂર હોવા છતાં પણ દેખનાર મનુષ્યની અપેક્ષાએ પાસે દેખાય છે
 ઉદય અને અસ્ત પામતી વખતે તેમને જોનાર લોકો તેમને નજીકમાં દેખે છે
 જો કે તેઓ ખરી રીતે તો હજારો યોજન દૂર હોય છે. પણ તે સદ્ભૂત

યાવત્ ઉત્કર્ષેણ પદ્ માસાઃ, વાઘાઃ સ્વલ્લ મદન્ત ! માનુષ્યાત્તરસ્ય૦ યયા ઝીવામિ
ગમે યાવત્ ઇન્દ્રસ્થાનમ્ સ્વલ્લ મદન્ત ! ક્ષિયત ક્ષાલ્મ્ ઉપપાતન ચિરહિતં મદ્વપ્તમ્
ગૌતમ ! નષયેન એક સમયમ્ ઉત્કર્ષેણ પદ્ માસાઃ । તદેવ મદન્ત ! તદેવ
મદન્ત ! શ્વિ ॥ મૂ૦ ૬ ॥

અષ્ટમશ્લોકે અષ્ટમઉદ્દેશકઃ સમાપ્ત ॥ ૮-૮ ॥

અન્દ્રમા, સૂર્ય, ગ્રહગણ, નક્ષત્ર ઓર તારારૂપ દેવ હું-થે કયા હે મદન્ત !
કર્ણલોક મેં ઉત્પન્ન હુવ હું ? (જહા ઝીવામિગમે તહેવ નિરવસેસ જાવ
લક્ષ્મીસેણ છમ્માસા) હે ગૌતમ ! હસ વિષય મેં જૈસા ઝીવામિગમ સૂત્ર
મેં “ હનકા ઉપપાતચિરહકાલ એક સમય જઘન્ય સે હે ઓર યાવત્
ઉત્કૃષ્ટ ૬ માસ હે ” યહાં તક કહા હે વૈસા હી યહાં પર ખી જાનના
ચાહિયે । (ચહિયા ણં મતે ! માણુસુતરસ્સ) હે મદન્ત ! માનુષોત્તરપર્વત
કે બાહર જો અદ્રમા આદિ દેવ હું થે કયા ઉર્ધ્વલોક મેં ઉત્પન્ન હુવ હું ?
(જહા ઝીવામિગમે-જાવ હૃદ્દગ્ગેણ મંતે ! કેવહ્ય કાલ ઉપપાત્ત
ચિરહિત્ત પન્નસે ?) હે ગૌતમ ! જૈસા ઝીવામિગમસૂત્ર મેં કહા હે વૈસા
જાનના ચાહિયે । યાવત્ હે મદન્ત ! ઇન્દ્રસ્થાન કિતને કાલતક ઉપપાત
સે ચિરહ યુક્ત કહાગયા હે ? (ગોયમા ! જહન્નેણ એક સમય, લક્ષ્મીસેણ
છમ્માસા સેવં મંતે ! સેવ મંતે ! સિ) હે ગૌતમ ! ઇન્દ્રસ્થાન જખય સે
એક સમય તક ઓર ઉત્કૃષ્ટ સે ૬ માસતક ઉપપાત સે ચિરહિત કહા

અહર ને અન્દ્રમા, સૂર્ય, ગ્રહગણ, નક્ષત્ર અને તારાકૃપ દેવો છે, તે શુ
ઉર્ધ્વલોકમાં ઉત્પન્ન થયેલા છે ?

(જહા ઝીવામિગમે તહેવ નિરવસેસ જાવ લક્ષ્મીસેણ છમ્માસા) હે ગૌતમ !
આ વિષયને અનુલક્ષીને અવાભિત્રમ સૂત્રમાં ને કથન કરવામાં આનું છે તે
સમસ્ત કથન “ તેમનેા ઉત્પાત વિરહકાલ ઝોછામા ઝોછા ઝોક સમય છે
અને વધારેમાં વધારે ૬ માસનેા છે ” આ કથન પચન્ત ગ્રહણ કરવું

(ચહિયા ણં મતે ! માણુસુતરસ્સ) હે મદન્ત ! માનુષોત્તર પર્વતની બહાર
ને અદ્રમા આદિ દેવો છે, તેઓ શુ ઉર્ધ્વલોકમાં ઉત્પન્ન થયેલા છે ? (જહા
ઝીવામિગમે-જાવ હૃદ્દગ્ગેણ મંતે ! કેવહ્ય કાલ ઉપપાત્ત ચિરહિત્ત પન્નસે ?)
હે ગૌતમ ! આ વિષયને અનુલક્ષીને નેવું કથન અવાભિત્રમ સૂત્રમાં કરવામાં
આનું છે તે અહીં ગ્રહણ કરવું (યાવત્) ‘ હે મદન્ત ! ઇન્દ્રસ્થાન ઉર્ધ્વ
કાલ સુખી ઉપપાતથી વિરહચુક્ત કહુ છે ? ”

(ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જહન્નેણ એક સમય લક્ષ્મીસેણ છમ્માસા-
સેવ મંતે ! સેવ મંતે ! સિ) ઇન્દ્રસ્થાન ઝોછામાં ઝોછા ઝોક સમય સુખી

ટીકા—‘જંબુદ્વીપેણં ંતે ! દીવે સૂરિયા ઉગ્ગમણમુહુત્તંસિ દૂરે ય, મૂલે ય દીસંતિ’
 ગૌતમઃ પૃચ્છતિ—હે ભદન્ત ! જમ્બૂદ્વીપે ચલુ દ્વીપે—મધ્યજમ્બૂદ્વીપે, ઉદ્દમનમુહૂર્તે—
 ઉદયવેલાયામ્ સૂર્યો દૂરે વ્યવહિતે ચ સત્યપિ મૂલે નિકટે ચ દૃશ્યેતે ? તથા ચ
 દર્શકસ્થાનાપેક્ષયા દૂરે વ્યવહિતે દેશે સત્યપિ મૂલે—દ્રષ્ટપ્રતીત્યપેક્ષયા આસન્ને નિકટે
 સૂર્યો દૃશ્યેતે, દ્રષ્ટા હિ સ્વરૂપતો વહુભિર્યોજનસહસ્રૈઃ વ્યવહિતમપિ સૂર્યમુદયાસ્તમન-

ગયા હૈ । હે ભદન્ત ! જૈસા આપને કહા હૈ, વહ ચિલકુલ એસા હી હૈ ।
 હે ભદન્ત ! જૈસા આપને કહા હૈ વહ ચિલકુલ એસા હી હૈ । ઇસ પ્રકાર
 કહ કર વે ગૌતમ યાવત્ અપને સ્થાન પર ચિરાજમાન હો ગયે ।

ટીકાર્થ—ઇસકે પહિલે પરીષહોં કે અન્તર્ગત હોને સે ઉષ્ણપરીષહ
 કા પ્રતિપાદન કિયા હૈ—ઇસકે હેતુ સૂર્ય હોતે હૈ—ઇમલિયે સૂર્યસંબંધી
 વક્તવ્યતા કો સૂત્રકાર ને ઇસ સૂત્ર દ્વાગ કહા હૈ—ઇસમેં ગૌતમ ને પ્રશ્ન
 સે એસા પૂછા હૈ—(જંબૂદ્વીપે ણં ંતે ! દીવે સૂરિયા ઉગ્ગમણમુહુત્તંસિ દૂરે
 ય, મૂલે ય દીસંતિ) હે ભદન્ત ! ઇસ જમ્બૂદ્વીપ નામ કે દ્વીપ મેં દો સૂર્ય
 કહે ગયે હૈ—સો યે સૂર્ય જબ ઉદિત હોતે હૈ તબ વે દૂર—વ્યવહિત દેશ મેં
 હોને પર મી મૂલ મેં—દેખને વાલોં મનુષ્યોં કી અપેક્ષા સે પાસ મેં—
 દિલ્લાઈ દેતે હૈ—ઉદય ઓર અસ્ત હોનેકે સમય મેં દર્શકજન ઉન્હેં પાસ
 મેં રહે હુવ દેખતા હૈ—યદ્યપિ યે સ્વરૂપ સે અનેક હજાર યોજનોં કી દૂરી

અને વધારેમાં વધારે છ માસ સુધી ઉપપાતથી વિરહિત કહ્યું છે. હે ભદન્ત !
 આપે જેવું કહ્યું એવું જ છે. હે ભદન્ત ! આ વિષયનું આપે જે પ્રતિપાદન
 કયું તે બિલકુલ સત્ય છે આ પ્રમાણે કહીને મહાવીર પ્રભુને વંદણા નમસ્કાર
 કરીને ગૌતમ સ્વામી પોતાને સ્થાને વિરાજમાન થઈ ગયા.

ટીકાર્થ—પહેલાના પ્રકરણમાં પરીષહોનું નિરૂપણ કરવામાં આવી ગયું.
 ૨૨ પરીષહોમાં જેનો સમાવેશ થાય છે એવા ઉષ્ણ-પરીષહનું પ્રતિપાદન પણ
 ત્યાં કરવામાં આવ્યું છે. ઉષ્ણતાનું કારણ સૂર્ય હોવાથી હવે સૂત્રકાર અહીં
 સૂર્ય સંબંધી વક્તવ્યતાનું પ્રતિપાદન કરે છે.

ગૌતમ સ્વામી મહાવીર સ્વામીને એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે—“ જંબૂદ્વીપે ણં
 ંતે ! દીવે સૂરિયા ઉગ્ગમણમુહુત્તંસિ દૂરે ય, મૂલે ય દીસંતિ ” હે ભદન્ત ! જમ્બૂ
 દ્વીપ નામના દ્વીપમાં જે સૂર્ય કહ્યા છે તે જે સૂર્ય જ્યારે ઉદય પામે છે
 ત્યારે દૂર હોવા છતાં પણ દેખનાર મનુષ્યની અપેક્ષાએ પાસે દેખાય છે
 ઉદય અને અસ્ત પામતી વખતે તેમને જોનાર લોકો તેમને નજીકમાં દેખે છે
 જો કે તેઓ ખરી રીતે તો હજારો યોજન દૂર હોય છે. પણ તે સદ્ભૂત

काल्योः—उद्गमनास्तमनयोराससवर्तिनया पश्यति, सद्भूतश्च विप्रकर्षं विद्यमान-
मपि न पश्यति, न प्रतिपद्यते वा ? 'मज्जवियमुहुत्संति, मूले य दूरं य दीसति'
हे मद्ग ! मध्यान्तिकमुहूर्ते मध्याह्नकाले च मूले निकटे च सत्यपि, दूरे व्यव-
हिते देशे सूर्यो दृश्यते, तथा च मध्यो—मध्यमः अन्तः—गगनस्य दिक्षस्य वा
भागो यस्य मुहुत्सस्यास्ति स मध्यान्तिकमुहूर्तस्तस्मिन् काले 'मूले' आसन्ने
वर्षकस्यानापेक्षया निकटे देशे वर्तमानावपि 'दूरे' द्रष्टृप्रतीत्यपेक्षया व्यवहिते
देशे सूर्यो दृश्यते प्रतीयते, यद्यपि द्रष्टा हि मध्याह्नकाले उदयास्तमनकाङ्क्षि
दक्षिणापेक्षया भासन्नवेद्यमेव रश्मिं पश्यति, मध्याह्नकाले हि योजनशताष्टकेनैव

परं है। परं सद्भूत जो दूरी है—विद्यमान जो—विप्रकर्ष है—उसे दर्शक
नहीं देखता है अथवा नहीं जानता है ? नहीं समझता है ? (मज्जति य
मुहुत्संति मूले य दूरे य दीसति) तथा मध्यान्तिक मुहूर्त में—मध्या-
ह्नकाल में दर्शक को सूर्य के समीप होने पर भी, वे पश्यत दूर देशमें हैं
इस रूप से दिखलाई पड़ते हैं। मध्याह्नकाल में सूर्य दर्शकजन के स्थान
की अपेक्षा से समीप में वर्तमान रहते हैं, तो भी दर्शककी प्रतीति की
अपेक्षा से वे व्यवहित—दूर—देश में उसे प्रतीत होते हैं। यद्यपि दर्शक
मध्याह्नकाल में उदय और अस्तकाल सबकी दर्शन की अपेक्षा से
समीप देशस्थ ही सूर्य को देखता है क्योंकि कि सूर्य मध्याह्नकाल में आठ
सौ योजन के व्यवधान में रहता है। तो भी उदय और अस्तकाल की
अपेक्षा से वह उसे व्यवहित—दूर मानता है। तात्पर्य इस कथन का
पेसा है कि उदय और अस्त होनेके समयमें दर्शकके स्थानकी अपेक्षासे
सूर्य दूर होते हैं तो भी दर्शक को सूर्य पास है ऐसा प्रतीत होता है।

(विद्यमान) अतरेण शु द्यः (देवनाश) देवतो नथी अथवा शु आवुतो
नथी ? समन्तो नथी ?

(मज्जति य मुहुत्संति मूले य दूरे य दीसति) तथा मध्याह्नकाले सूर्य
समीपभां होवा छत्तां पक्षु जेनारने ते आवु के अहु इर रहेतो होय जेवु
वाजे छे अरी रीते मध्याह्ने सूर्य जेनारना स्थाननी अपेक्षाजे समीपभां अ
रहेतो होय छे छत्तां पक्षु जेनारने जेवो आवु याम छे के सूर्य इर इर रहेतो
छे जे के मध्याह्नकाले सूर्य उदयकाल तथा अस्तकाल करतां समीपभां स्थानभां
रहेतो होय छे छत्तां पक्षु जेनारने जेवु वाजे छे के मध्याह्नकाले सूर्य उदयकाल
तथा अस्तकाल करतां जेवो स्थाने होय छे जे के सूर्य मध्याह्नकाले ८००
योजनने अतरे होय छे, तो पक्षु उदयकाल जे अस्तकालनी अपेक्षाजे ते
तेने इर माने छे अथ इयननुं तात्पर्यं जे छे के उदय जे अस्तकाले स्थान
स्थाननी अपेक्षाजे सूर्य इर होवा छत्तां पक्षु तेने जेवु वाजे छे के ते तेनी

सूर्यस्य व्यवहितत्वात् तथापि उदयास्तमनप्रतीत्यपेक्षया व्यवहितं मन्यते इति तत्र किं कारणमिति । प्रष्टुमाशयः उक्तमेवाह—‘ अत्यमणमुहुत्तंसि दूरे य, मूले य दीसन्ति ? ’ अस्तमनमुहुर्ते अस्तमनवेलायां दूरे व्यवहिते देशे च वर्तमानावपि सूर्यो मूले च आसन्ने निरुद्धे दृश्येते प्रतीयेते ज्ञायेते इत्यर्थः, तत्र किं कारणमिति प्रश्नः, भगवानाह—‘ हंता गोयमा । जंबुद्वीवे णं दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य, तं चैव जाव अत्यमणमुहुत्तंसि दूरे य, मूले य दीसति ’ हे गौतम ! इन्त, सत्यम् जम्बूद्वीपे खलु द्वीपे-मध्यजम्बूद्वीपे सूर्यो उदमनमुहुर्ते उदयकाले ‘ दूरे च ’ दर्शकस्थानापेक्षया व्यवहिते देशे च वर्तमानावपि तदेव पूर्वपक्षोक्तरीत्यैव यावत्

दृष्टा उदय होने के समय में और अस्त होने के समय में हजारों योजन दूर सूर्य को देखता है पर उसे ऐसा लगता है कि सूर्य पास में है । मध्याह्न समय में सूर्य दृष्टा के स्थान की अपेक्षा पास में होता है—तब भी उसे सूर्य दूर है ऐसा लगता है । दृष्टा उदय और अस्त समय की अपेक्षा मध्याह्न में सूर्य को पास में देखता है—क्यों कि उस समय सूर्य आठसौ योजन के अन्तर पर होता है, पर उसे उदय और अस्त की अपेक्षा वह दूर मानता है—सो इसका क्या कारण है ? ऐसा प्रश्न करने वालों का आशय है—इसी उक्त बात को सूत्रकार ने (अत्यमण मुहुत्तंसि दूरे य, मूले य दीसन्ति) इस सूत्रपाठ द्वारा व्यक्त किया है कि अस्तकाल में सूर्य दूर रहता है—पर वह मूल-पास में दिखता है । सो इसमें क्या कारण है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(हंता गोयमा) हां गौतम ! बात तो ऐसी ही है, कि (जंबु द्वीवे णं दीवे सूरिया उग्ग-

समीपमां व छे उदय अने अस्तकाणे दृष्टा डलारे योजन हर रडेला सूर्यने भवे छे, त्यारे तेने जेवो पास थाय छे डे सूर्य पोतानी नञ्जमां व छे. मध्याह्न समये दृष्टाना स्थाननी अपेक्षाजे सूर्य नञ्जमां व (८०० योजन हर) डोय छे, छता पणु तेने तो हर डोवानो पास थाय छे भरी रीते तो उदय अने अस्तनी अपेक्षाजे मध्याह्नकाणे सूर्य वधारे नञ्जमां डोय छे, छतां देणनारने मध्याह्नकाणे ते वधारे हर लागे छे तेतु डारणु जाणवाना आशयथी आ प्रश्न पूछवामां आण्यो छे, जे व बातने सूत्रकारे “ अत्यमण-मुहुत्तंसि दूरे य मूले य दीसन्ति ” आ सूत्रद्वारा प्रकट करी छे—अस्तकाणे सूर्य हर डोय छे पणु नञ्जमा देणाय छे तेतु डारणु शुं छे ?

तेनो उत्तर आपता मडानीं पणु कडे छे—“ हंता, गोयमा ! ” हा, गौतम ! जेवु व भने छे डे (जंबूद्वीवेण दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरेय

'मूले च' धामन्ने द्रष्टृप्रतीत्यपेक्षया निकटे दृश्येते, अथ च मध्यान्तिकमुहूर्ते मध्याह्नकाळे 'मूले च' द्रष्टृस्थानापेक्षया आसन्न देशे वर्तमानावपि 'दूरे च' द्रष्टृप्रतीत्यपेक्षया व्यवहिते देशे दृश्येते प्रतीयेते, अथ च अस्तमनमुहूर्ते अस्तमन वेलायाम् 'दूरे च' द्रष्टृस्थानापेक्षया व्यवहिते देशे वर्तमानावपि 'मूले च' दर्शकप्रतीत्यपेक्षया सञ्चिते देशे सूर्यो दृश्यते प्रतीयेते, एतत्कारणं चाग्रे व्यक्ती करिष्यते । गौतम पृच्छति—'अणुदीवे ण भंते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तसि, मज्झन्तियमुहुत्तसि य मन्वत्य समा उच्चत्तेण ?' हे मइन्त ! अणुदीपे खलु द्वीपे सूर्यो उद्गमनमुहूर्ते उदयकाले, मध्यान्तिकमुहूर्ते च, मध्याह्नकाळे, अस्तमनमुहूर्ते च अस्तकाले सर्वत्र समी उच्चत्वेन वर्तते किम् ? द्वयोः सूर्ययोः समभूत्त्वापेक्षया

मणमुहुत्तसि दूरे य त च्चेव जाव अत्यमणमुहुत्तसि दूरे य, मूले य दीसन्ति) इस अणुदीप नामके द्वीप में—मध्यजम्बूद्वीप में—सूर्य उद्गमन मुहूर्त्त में—उदयवेला में—दर्शकजन के स्थान की अपेक्षासे व्यवहित देश में वर्तमान होते हैं तो भी वे उसे पूर्वोक्तरीति के अनुसार पास में हैं ऐसे लगते हैं और मध्यान्तिक मुहूर्त्त में—मध्याह्नकाल में—दर्शकजन के स्थान की अपेक्षा वे आसन्नदेश में वर्तमान रहते हैं तो भी उसे वे अपनी प्रतीति की अपेक्षा से दूर लगते हैं—तथा अस्तमनवेला में वे दर्शकजन की अपेक्षा से दूर होने पर भी 'मूले' पासमें उसे लगते हैं—सो हम विषय में जो सुमने कारण पूछा है उसे हम आगे कहेंगे—अथ गौतमस्यामी प्रश्न से ऐसा पृच्छते है (अणुदीवे ण भंते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तसि, मज्झन्तिय मुहुत्तसि य, अत्यमण-

तथैव जाव अत्यमणमुहुत्तसि दूरे य मूले य कीसति) आ अणुदीप नामना द्वीपमा—मध्यजम्बूद्वीपमा—उदय वेलायाम् अस्तमनस्य स्थानानी अपेक्षायां दूर दृष्टेया सूर्यं पश्येते समीपमा दृष्टेया च, मध्याह्नकाळे द्रष्टृस्थानानी अपेक्षायां समीपमा दृष्टेया सूर्यं पश्येताणी प्रतीतिनी अपेक्षायां तेने दूर दृष्टेया च, तथा अस्तकाले ते अन्ने सूर्यो द्रष्टृस्थानानी अपेक्षायां दूर दृष्टेया चत्वा पश्येताणामने तेज्जां चाग्रे दृष्टेयायां आसन्नं यथा च आणु केम अने च ते आगतं अत्राववापामं आचये ।

गौतम स्वामीने प्रश्न—(अणुदीवेणं भंते ! दीवे सूरिया उग्गमण मुहुत्तसि मज्झन्तिय मुहुत्तसि य आवमण मुहुत्तसि य मन्वत्य समा उच्चत्तेण ?) हे मइन्त ! अणुदीप नामना द्वीपमा के सूर्य उदयकाले मध्याह्नकाळे अने अस्तकाले सु सर्वत्र समान उच्चत्वे दृष्टेया च । प्रश्नं तात्पर्यं के च के अन्ने सूर्योनी

सर्वत्र उच्चत्वमष्टयोजनशतानि अस्ति? इति प्रश्नाशयः। भगवानाह—‘हंता गोयमा! जंबुद्वीवेणं दीवे सूरिया उग्गमण० जाव उच्चत्तेणं’ हे गौतम । हन्त, सत्यं जम्बू-द्वीपे खलु द्वीपे सूर्यो उद्गमनमुहूर्ते यावत् मध्यान्तिकमुहूर्ते च अस्तमनमुहूर्ते च सर्वत्र समौ उच्चत्वेन वर्तेते इति भावः, अथोक्तार्थे गौतमः कारणं पृच्छति—‘जइ णं भंते ! जंबुद्वीवे दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि य, मज्झंतियमुहुत्तंसि य, अत्थमण-मुहुत्तंसि य मूले जाव उच्चत्तेणं’ हे भदन्त ! यदि खलु जम्बूद्वीपे द्वीपे सूर्यो उद्गमनमुहूर्ते च मध्यान्तिकमुहूर्ते च अस्तमनमुहूर्ते च मूले आसन्ने यावत् सर्वत्र समौ उच्चत्वेन वर्तेते, द्वयोरपि सूर्ययोः समभूतलापेक्षया सर्वत्र उच्चत्वमष्टौ योजनशतानि इति उच्यते ‘से केणं खाइ अट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जंबुद्वीवे णं

मुहुत्तंसि य सव्वत्थ समा उच्चत्तेणं) हे भदन्त ! जंबूद्वीप नामके इस द्वीप में दो सूर्य उदयकाल में, मध्याह्नकाल में और अस्तंगतकाल में ऊँचाई की अपेक्षा सर्वत्र सम हैं क्या ? अर्थात् पूछने का आशय ऐसा है कि दोनों सूर्यो की ऊँचाई समभूतल की अपेक्षा से सर्वत्र क्या आठ सौ योजन की है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—‘हंता, गोयमा’ हां, गौतम । सत्य है ‘जंबुद्वीवेणं दीवे सूरिया उग्गमण जाव उच्चत्ते णं’ इस जंबूद्वीप नाम के द्वीप में दोनों सूर्य उदय काल में मध्या-ह्नकाल में और अस्तमनकाल में ऊँचाईकी अपेक्षा सर्वत्र सम हैं ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—जइणं भंते ! जंबुद्वीवे दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि य, मज्झंतिय मुहुत्तंसि य, अत्थमणमुहुत्तंसि य, मूले जाव उच्चत्ते णं) हे भदन्त ! यदि इस जम्बूद्वीप नामके द्वीप में दोनों सूर्य उद्गमन मुहूर्त में, मध्यान्तिकमुहूर्त में और अस्तम-नमुहूर्तमें आसन्न हैं यावत् सर्वत्र ऊँचाईमें सम हैं—समभूतलकी अपेक्षा से सर्वत्र ऊँचाई इनकी आठ सौ योजन की है—ऐसा आप कहते हैं—

अथाथं समभूतलानी अपेक्षाये शुं भधे ८०० येअननी ञ छे ?

भङ्गादीर प्रभुने ञवाअ—“हंता, गोयमा !” डा, गौतम ! अे वात भरी छे डे (जंबूद्वीवेण दीवे सूरिया उग्गमण जाव उच्चत्तेणं) आ ञंभूद्वीपमा अन्ने सूर्य उदयकाणे, मध्याह्नकाणे अने अस्तकाणे सर्वत्र अेक सरणी अियाअे डाय छे

गौतम स्वामीने। प्रश्न—“जइणं भते ! जंबूद्वीवे दीवे सूरिया उग्गमण मुहुत्तंसि य, मज्झंतिय, मुहुत्तंसि य, अत्थमणमुहुत्तंसि य, मूले जाव उच्चत्तेणं” हे भदन्त ! अे आ ञंभूद्वीप नामना द्वीपना अन्ने सूर्य उदय पामती वअते, मध्याह्नकाणे अने अस्त पामती वअते सर्वत्र समान अियाअे रडेला डाय छे (समभूतलानी अपेक्षाये सर्वत्र ८०० येअननी अियाअे रडेला डाय

दीवे सूरिया उगमणमुहूर्त्तसि दूरे य, मूले य, दीसति, जाय अत्यमणमुहूर्त्तसि दूरे य मूले य दीसति ?' तत् सदा केन पुनर्येन कारणेन 'खाइ' इति पुनरर्ष वाचको देशीय शब्दः, हे मदन्त । एगमुक्तरीत्या उच्यते यत्-मन्वुद्वीपे खलु द्वीपे सूर्यो उदगमणमुहूर्त्ते दूरे च व्यवहिते दशे वर्तमानावपि मूले सन्निहिते च देशे दृश्यते यावत्-यावत् मध्यान्तिकमुहूर्त्ते मध्याह्नकाले मूले-सन्निहिते पर्वत मानावपि दूरे बहुव्यवहिते देशे दृश्येते, एवम् अस्तमनमुहूर्त्ते च अस्तकाले दूरे च बहुव्यवहिते देशे वर्तमानावपि मूले च अतिसमीपे दृश्येते ? इति । मगवानाह- 'गोयमा ! छेस्तापडिघाएण उगमणमुहूर्त्तसि दूरे य, मूलं य, दीसति' हे गौतम ! छेस्पामतिघातं तेजसः प्रतिष्टम्भेन तरेशस्य दूरत्वात् सप्रसारेणेत्यर्थः, छेस्या प्रतिघाते हि सुखदृश्यत्वेन स्वरूपतो दूरस्यावपि सूर्यो आसन्नप्रतीतिं जनयतः, इति

(से देण खाइ अट्टेण मंते । एव सुच्चइ जमुद्वीवे ण दीवे सूरिया उगमणमुहूर्त्तसि दूरे य, मूले य दीसति, जाय अत्यमणमुहूर्त्तसि दूरे य, मूले य दीसति ' तो फिर हे मदन्त । ऐसा आप किस कारण से कहते हैं कि इस जंभूद्वीप नाम के द्वीप में दो सूर्य उदित होने के समय में दूर रहने पर भी पास दिखलाई पड़ते हैं, मध्यान्तिकमुहूर्त्त में पास होने पर भी दूर मालूम देते हैं और अस्तमन समय में दूर होने पर भी पास में प्रतीत होते हैं ? इसके विषय में उत्तर देते हुए प्रभु गौतम से कहते हैं- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'छेस्तापडिघाए ण उगमणमुहूर्त्तसि दूरे य, मूले य दीसति' छेस्या के प्रतिघात से-तेज के प्रतिष्टम्भ-अप्रसारण से अर्थात् तेज के नहीं फैलने से सूर्य सुखपूर्वक देखे जाने

छे) ओउ आप ढडेा छे । ' से केण खाइ अट्टेण मंते । एव सुच्चइ जमुद्वीवेण दीवे सूरिया उगमणमुहूर्त्तसि दूरे य, मूले य दीसति जाय अत्यमणमुहूर्त्तसि दूरे य मूले य दीसति " तो हे मदन्त ! आप शा कारणे ओउ ढडेा छे । हे जंभूद्वीप नामना द्वीपगा के सूर्य उदितकाले दूर रहेवा डेवा छां सन्नीपभां देखाव छे, मध्याह्नकाले सन्नीपभां डेवा छां पञ्च इर वावे छे अने अस्त पावती वपते इर डेवा छां पञ्च सन्नीपभां देखाव छे

महावीर प्रयुने उक्तर- " गोयमा ! " हे गौतम ! (छेस्तापडिघाएण उगमणमुहूर्त्तसि दूरे य, मूले य दीसति) छेस्पाना प्रतिघातधी-तेजना प्रतिष्टम्भधी ओउवे के तेजसुं प्रसरणु नहीं यवाने कारणे सूर्य सुखपूर्वक देखावा ओउव यथं वाव छे-तेधी तेजो स्वरूपता (अरेअर) इर डेवा छां पञ्च

भावः, तदाह—उद्गमनमुहूर्ते—उदयकाले दूरे च बहुव्यवहिते देशे वर्तमानावपि मूले च सन्निहिते देशे दृश्येते प्रतीयेते, एवमेव 'लेस्साभितावेणं मज्झतियमुहुत्तंसि मूले य दूरे य दीसंति' लेस्याभितापेन तेजसोऽभितापेन यध्यान्तिकमुहूर्ते मध्याह्नकाले मूले च आसन्ने देशे वर्तमानावपि दूरे च बहुव्यवहिते देशे दृश्येते प्रतीयेते, मध्याह्ने हि अत्यासन्नत्वात् सूर्यो तेजसा प्रतपतः, तेजःप्रतापे च दुर्दृश्यत्वेन प्रत्यासन्नतरावपि तौ दूरप्रतीतिं जनयतः इति भावः, एवं 'लेस्सापडिघाएणं अत्थमणमुहुत्तंसि दूरे य मूले य, दीसंति' लेस्याप्रतिघातेन तेजसः प्रतिघातेन अस्तमनमुहूर्ते अस्तसमये 'दूरे च'—अत्यन्तव्यवहिते देशे वर्तमानावपि तौ सूर्यो 'मूले च' अत्यन्तसन्निहिते देशे दृश्येते प्रतीयेते, लेस्याप्रतिघाते सुखदृश्यतया स्वरूपेण दूरस्थावपि सूर्यो आसन्नप्रतीतिं जनयतः, इति भावः, 'से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ—जंबुद्वीवेणं दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य, मूले य, दीसंति, जाव अत्थमणं जाव दीसंति' हे गौतम ! तत् तेनार्थेन, एवमुच्यते—

योग्य हो जाते हैं—इसलिये वे स्वरूपतः दूर रहने पर भी समीप हैं इस प्रकार की प्रतीति द्रष्टाजन के लिये अपने उदयकाल में कराते हैं । इसी तरह से (लेस्साभितावेणं मज्झतियमुहुत्तंसि मूले य, दूरे य दीसंति) मध्याह्नकाल में जब सूर्य आ जाते हैं तब वे अपने तेज से पूर्णरूप में तपने लगते हैं—अतः ऐसी स्थिति में वह दुर्दृश्य बन जाते हैं । सो वे अत्यासन्न होने पर भी बहुत दूर द्रष्टाजन के लिये कराते हैं । ' एवं लेस्सापडिघाए णं अत्थमणं अत्थमणमुहुत्तंसि दूरे य, मूले य दीसंति ' इसी तरह से सूर्य जब अस्त होते लगते हैं—तब वे अपने तेज के प्रतिघात से सुखदृश्य होने के कारण स्वरूपतः दूरस्थ होने पर भी आसन्न हैं इस प्रकार की प्रतीति द्रष्टाजन के लिये कराते हैं । ' से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ जंबुद्वीवे णं दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य, मूले य दीसंति, जाव अत्थमणं जाव दीसंति ' इस कारण हे गौतम !

द्रष्टाजनने ते अन्ने सूर्यं नल्लकमां डोवानो भास तेभना उदयकाणे थाय छे. अने (लेस्साभितावेणं मज्झतियमुहुत्तंसि मूले य दूरे य दीसंति) मध्याह्नकाणे अन्ने सूर्यं पोताना तेज्ज्ठी पृष्ठी रीते तपवा दाजे छे. तेथी अेवी स्थितिमां तेज्जो दुर्दृश्य (सुअपूर्वकं देभी न शक्य अेवा) अनी नय छे तेथी तेज्जो नल्लकमा डोवा छतां पणु देअनारने इर डोवानो भास करावे छे. (एवं लेस्सापडिघाए णं अत्थमणं मुहुत्तंसि दूरे य मूले य, दीसंति) उदयकाणनी अेभ अस्तकाणे पणु पोताना तेज्ज्ना प्रतिघातथी ते अन्ने सूर्यं सुअपूर्वकं देअवा योग्य डोवाथी, अरेअर इर डोवा छता पणु द्रष्टाजनने समीपमां डोय अेवा भास थाय छे.

यत्-जम्बू द्वीपे खलु द्वीपे सूर्यो' उद्गमनमुहूर्ते दूरे च-व्यवहिते देशे वर्तमाना
 वपि, मूले च-भामने देशे दृश्येत, यावत् मध्याह्निकमुहूर्ते मध्याह्निकाले मूले च
 सन्निहिते देशे वर्तमानावपि 'दूरे च' व्यवहिते देशे दृश्येते, अस्तमनमुहूर्ते
 अस्तकाले यावत् 'दूरे च' पशुव्यवहिते देशे वर्तमानावपि, मूले च-त्रातन्न
 दृश्येते प्रतीयते । गौतम पृच्छति-'अंबुद्वीपे ण मते । द्वीपे सूरिया किं तीर्थं
 खेपं गच्छति, पशुपन्नं खेपं गच्छति, अणागयं खेपं गच्छति ?' हे भद्रन्त !
 जम्बूद्वीपे खलु द्वीपे सूर्यो' किम् अतीतं व्यतिक्रान्तं क्षेत्रं गच्छतः ? किं वा
 प्रत्युत्पन्नं वर्तमानम् अतिक्रम्यमाण क्षेत्रं गच्छता, किं वा अनागतम् गच्छमानम्

मते ऐसा कहा है कि इस अंबुद्वीप नाम के द्वीप में दो सूर्य हैं और ये
 दोनों ही सूर्य जब उदित होते हैं तब उस काल में दूर रहने पर भी
 द्रष्टाजन के लिये "पास हैं" ऐसी प्रतीति उत्पन्न कराते हैं । और जब
 ये दोनों सूर्य मध्याह्निकाल में आते हैं-तब पास में आ जाने पर भी ये
 दूर हैं ऐसी प्रतीति द्रष्टाजन के लिये कराते हैं-इसी तरह से जब ये
 अस्त होने लगते हैं तब दूर होने पर भी ये पास हैं ऐसी प्रतीति द्रष्टा
 जन के लिये कराते हैं ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं-'अंबुद्वीपे ण मते । द्वीपे
 सूरिया किं तीर्थं खेपं गच्छति, पशुपन्नं खेपं गच्छति, अणागयं खेपं
 गच्छति ?' हे भद्रन्त ! इस जम्बूद्वीपवर्ती दोनों सूर्य क्या व्यतिक्रान्त
 क्षेत्रमें आते हैं ? या अतिक्रम्यमाण क्षेत्र में आते हैं ? या गच्छमान-
 आगे जहाँ जाना है-उस गच्छक्षेत्र में आते हैं ? इसके उत्तर में प्रश्न

(से तेणद्वेषं गोयमा । पशुपन्नं-अंबुद्वीपेण द्वीपे सूरिया जगमणमुहूर्तसि
 दूरे च, मूले च, यावत् अत्यमणं यावत् विसति) के गौतम । ते भद्रन्ते मे अंबु
 द्वीपे उ उ अंबुद्वीप नामना द्वीपमां वे सूर्य उ ते अन्ने सूर्य उदयकाले
 दूर कोवा उदां द्रष्टाजनने "पासे उ" जेवी प्रतीति उत्पन्न करावे उ, अने
 मध्याह्निकाले न्यारे तेको समीपमां कोवा उ, त्पारे दूर उ" जेवी प्रतीति
 करावे उ अने न्यारे ते अन्ने सूर्य अस्त ववा भटि उ त्पारे दूर कोवा
 उदां पशु 'पसि उ' जेवी प्रतीति तेभने करावे उ

गौतम स्वामी प्रश्नसे अनेको उदाहरण उ- (अंबुद्वीपेण मते ।
 द्वीपे सूरिया किं तीर्थं खेपं गच्छति पशुपन्नं खेपं गच्छति अणागयं खेपं
 गच्छति ?) के भद्रन्त । या अंबुद्वीपना अन्ने सूर्य उ व्यतिक्रान्त क्षेत्रमां
 आवे उ ? के अतिक्रम्यमाण क्षेत्रमां आवे उ ? के अस्थमान-आविश्वमां अन्ना
 अन्नां उ जेवा अत्य-क्षेत्रमां आवे उ ?

अतिक्रंस्यमानं क्षेत्रं गच्छतः ? भगवानाह—‘ गोयमा ! णो तीयं खेत्तं गच्छंति, पडुप्पन्नं खेत्तं गच्छंति, णो अणागयं खेत्तं गच्छति ’ हे गौतम ! सूर्यो नो अतीतं क्षेत्रं गच्छतः, नो वा अनागतम् गंस्यमानं क्षेत्रं गच्छतः, अनागतस्यापि वर्तमान-गमनव्यापारस्याविषयत्वात्, क्षेत्रं चात्र यदाऽऽकाशखण्डमादित्यः स्वतेजसा व्याप्नोति तत् उच्यते । गौतमः पृच्छति—जंबुद्वीवे णं भंते ! दीवे सूरिया किं तीयं खेत्तं ओभासंति, पडुप्पन्नं खेत्तं ओभासंति, अणागयं खेत्तं ओभासंति? हे भदन्त ! जम्बूद्वीपे खलु द्वीपे किं सूर्यो अतीतम् अतिक्रान्तं क्षेत्रम् अवभासयतः प्रकाशयतः ? किं वा प्रत्युत्पन्नं वर्तमानं गम्यमानं क्षेत्रम् अवभासयतः प्रकाशयतः ? किं

वहते हैं—‘ गोयमा ! हे गौतम ! ‘ णो तीयं खेत्तं गच्छंति, पडुप्पन्नं खेत्तं गच्छंति, णो अणागयं खेत्तं गच्छंति ’ जम्बूद्वीपस्थ सूर्य न व्यतिक्रान्त देश में जाते हैं और न गंस्यमानक्षेत्र-देश में जाते हैं किन्तु प्रतिपन्न-गम्यमानक्षेत्रमें जाते हैं असीतक्षेत्र में तो वे इसलिये नहीं जाते हैं कि वह क्षेत्र उनके द्वारा अतिक्रान्त हो चुका है । तथा अनागतक्षेत्र में-गंस्यमान क्षेत्र में-वे इसलिये नहीं जाते हैं कि वह क्षेत्र वर्तमानगमन-व्यापार का अविषयभूत है । जितने आकाशखण्ड को आदित्य-सूर्य-अपने तेज से व्याप्त करता है उस आकाशखण्ड का नाम क्षेत्र है ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(जंबूद्वीवे ण भंते ! दीवे सूरिया किं तीयं खेत्तं ओभासंति, पडुप्पन्नं खेत्तं ओभासंति, अणागयं खेत्तं ओभासंति) हे भदन्त ! इस जम्बूद्वीपमें वर्तमान दोनों सूर्य क्या असीतक्षेत्र को प्रकाशित करते हैं ? किं वा-वर्तमानक्षेत्र को प्रकाशित

महावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (णो तीयं खेत्तं गच्छति, पडुप्पन्नं खेत्तं गच्छति. णो अणागयं खेत्तं गच्छति) जंबूद्वीपस्थ भन्ने सूर्य व्यतिक्रान्त क्षेत्रमा जतां नथी, गंस्यमान क्षेत्रमां पणु जतां नथी, परन्तु प्रतिपन्न (गम्यमान) क्षेत्रमां जय छे अतीत क्षेत्रमां तेओ जता नथी, कारणु के ते क्षेत्र तो तेमना द्वारा अतिक्रान्त थछ गथुं होय छे. तथा अनागत क्षेत्रमां-गंस्यमान क्षेत्रमा-तेओ जता नथी तेनु कारणु ओ छे के ते क्षेत्र वर्तमान-गमन व्यापारने अविषयभूत होय छे जेटला आकाशखण्डने सूर्य पोताना तेजथी व्याप्त करे छे ते आकाशखण्डनु नाम क्षेत्र छे

हुवे गौतमस्वामी महावीर प्रभुने ओवे प्रश्न पूछे छे के—(जंबूद्वीवेण भंते ! दीवे सूरिया किं तीयं खेत्तं ओभासंति, पडुप्पन्नं खेत्तं ओभासंति, अणागयं खेत्तं ओभासंति ?) हे भदन्त ! आ जंबूद्वीपवर्ती भन्ने सूर्यो थु अतीत क्षेत्रने प्रकाशित करे छे ? के वर्तमान क्षेत्रने प्रकाशित करे छे ? के

या प्रत्युत्पन्न वर्तमान गम्यमान क्षेत्रम् अवभासयतः ? किं वा अनागतं गम्यमानं क्षेत्रम् अवभासयतः ? ईषद्गुद्योतयत ? मगधानाह—' गोयमा ! नो तीयं खेच ओभासति, पडुप्पन्न खेच ओभासति, णो अणागय खेच ओभासति ' हे गौतम ! अवभासमानो सूर्यो नो भतीतम् अतिक्रान्तं क्षेत्रम् अवभासयतः, अतीतक्षेत्रस्यातिक्रान्तत्वेन वर्तमानावभासनाविषयत्वात्, अपि तु प्रत्युत्पन्न वर्तमानम् अवभासयमान क्षेत्रम् अवभासयतः, नो स्वतु अनागतम् अवभासयिष्यमाद्य क्षेत्रम् अवभासयत, अनागतस्य वर्तमानावभासनव्यापाराविषयत्वात् । गौतमः पृच्छति—' तं मंते ! किं पुद्ग ओभासति, अपुद्ग ओभासति ? इ मदन्त ! तत् क्षेत्रं किं

करते है ? या अनागतक्षेत्र को प्रकाशित करते हैं ? अवभासन शब्द का अर्थ यहां ईषत्प्रकाशित करना है । इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं— (गोयमा) हे गौतम ! (नो तीयं खेच ओभासति, पडुप्पन्नं खेच ओभासति, णो अणागय खेच ओभासति) जम्बूद्वीप में दोनों सूर्य अतीत क्षेत्र को प्रकाशित नहीं करते हैं और न अनागतक्षेत्र को प्रकाशित करते हैं—किन्तु वे दोनों वर्तमान क्षेत्र को ही प्रकाशित करते हैं । अतीतक्षेत्रको अवभासमान दोनों सूर्य इसलिये अवभासित नहीं करते हैं कि वह अतीतक्षेत्र अतिक्रान्त हो जाने के कारण वर्तमान संबंधी अवभासन का विषयमूल नहीं बनता है । इसी तरह अनागत क्षेत्र को भी वे दोनों सूर्य अवभासित नहीं करते हैं—क्योंकि वह अनागत होने के कारण वर्तमान संबंधी अवभासनके व्यापार का विषय है ।

अनागत क्षेत्रने प्रकाशित करे छे ? (अवभासन शब्दने अर्थ ' उत्पन्न प्रकाशित करतु ' थाय छे)

महावीर प्रभुने उत्तर—(नो तीयं खेच ओभासति पडुप्पन्न खेच ओभासति, नो अणागय खेच ओभासति) हे गौतम ! जम्बूद्वीपना अन्ने अन्ने सुष अतीत क्षेत्रने प्रकाशित करता नथी अनागत क्षेत्रने पण प्रकाशित करता नथी परन्तु तेज्जे अन्ने वर्तमान क्षेत्रने न प्रकाशित करे छे ते अन्ने सुष अतीत क्षेत्रने प्रकाशित करता नथी तेणु शरण्णे छे छे हे अतीत क्षेत्र तो अनिक्रान्त यद्ये अन्ने वर्तमान संबंधी अवभासनना विषयमूल अनी शकतु नथी अन्ने प्रभावे अनागत क्षेत्रने पण अरणाशिन (प्रकाशित) नदी करतु शरण्णे छे छे त अनागत दोताथी वर्तमान संबंधी अवभासनना व्यापारने विषय अनी शकतु नथी

सूर्यो तेजसा स्पृष्टं सम्बद्धम् अवभासयतः ? किं वा तेजसा अस्पृष्टम् असंबद्धम् अवभासयतः ? भगवान्नाह—‘गोयमा ! पुट्टं ओभासंति, णो अपुट्टं ओभासंति’ हे गौतम ! तत् क्षेत्रं सूर्यो स्वतेजसा स्पृष्टं सम्बद्धं सत् अवभासयतः, नो अस्पृष्टम् असम्बद्धमवभासयतः, जाव नियमा छद्दिसिं’ यावत् नियमात् नियमतः षड्दिशः—चतुर्दिशः ऊर्ध्वाधश्च सूर्यो अवभासयतः, यावत्करणादेवं द्रष्टव्यम्—‘तं भंते ! किं ओगाढं ओभासंति अणोगाढं ओभासंति? गोयमा ! ओगाढं ओभासंति, नो अणोगाढं ओभासंति, इत्यादि, हे भदन्त ! तत् क्षेत्रं किम् अवगाढम् अवभासयतः? अनवगाढम्

अत्र गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—‘तं भंते ! किं पुट्टं ओभासंति, अपुट्टं ओभासंति’ हे भदन्त ! वे दोनों सूर्य जो वर्तमान क्षेत्रको अवभासित करते हैं—सो क्या अपने तेजसे सम्बन्ध हुए उस वर्तमानक्षेत्र को वे अवभासित करते हैं या असंबद्ध हुए उस क्षेत्रको अवभासित करते हैं ? उसके उत्तर में प्रभु कहते हैं (गोयमा !) हे गौतम ! (पुट्टं ओभासंति, णो अपुट्टं ओभासंति) वे दोनों सूर्य अपने तेज से सम्बद्ध वर्तमान क्षेत्र को अवभासित करते हैं असंबद्ध वर्तमान क्षेत्र को अवभासित नहीं करते हैं । ‘जाव नियमा छद्दिसिं’ यावत् नियम से वे चार दिशाओंको और ऊपर नीचेको अवभासित करते हैं। यहाँ (यावत्) शब्दसे प्रभुसे ऐसा पूछा गया है (तं भंते ! किं ओगाढं ओभासंति णोगाढं ओभासंति ? गोयमा ! ओगाढं ओभासंति, नो अणोगाढं ओभासंति) कि हे भदन्त ! वे दोनों सूर्य अवगाढ हुए क्षेत्र को अवभासित करते हैं

गौतम स्वामीने प्रश्न—(तं भंते ! किं पुट्टं ओभासंति, अपुट्टं ओभासंति ?) हे भदन्त ! ते भन्ने सूर्यं णे वर्तमान क्षेत्रने प्रकाशित करे छे, तो शुं पोताना तेज्जथी स्पृष्ट (सम्बद्ध) थयेला वर्तमान क्षेत्रने प्रकाशित करे छे ? के अस्पृष्ट (असम्बद्ध) थयेला ते क्षेत्रने प्रकाशित करे छे ?

भट्टावीर प्रभुने उत्तर—‘गोयमा !’ हे गौतम ! (पुट्टं ओभासंति, णो अपुट्टं ओभासंति) ते भन्ने सूर्यं पोताना तेज्जथी सम्बद्ध थयेला वर्तमान क्षेत्रने प्रकाशित करे छे, पणु असम्बद्ध वर्तमान क्षेत्रने प्रकाशित करता नथी “जाव नियमा छद्दिसिं” (यावत्) नियमथी न ते छ दिशाओने (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्वदिशा, अधोदिशा) प्रकाशित करे छे अर्द्धी यावत् पद्धथी नीचेने सूत्रपाठ ग्रहणु करवाभां आये छे—

(तं भंते ! किं ओगाढं ओभासंति, अणोगाढं ओभासंति ?) हे भदन्त ! ते भन्ने सूर्यं शुं अवगाढ क्षेत्रने प्रकाशित करे छे, के अनवगाढ क्षेत्रने प्रका-

अवभासयत ? हे गौतम! अथगाढम् अवभासयतः, नो अनथगाढम् अवभासयतः, ततः 'तं मते । कइ दिंसि ओभासति?' गोयमा! नियमा छदिसि ओभासति' हे मवन्त! तत् कति दिश अवभासयतः? गौतम ! नियमात् प्राचीं, प्रतीचीमवाचीमुद्गीचीमूर्ध्व-मधम्य पश्च दिश अवभासयत इत्याशयः। गौतमः पृच्छति—'जघुरीवे ण मंते । वीवे सूरिया किं तीय खेत्तं उज्जोवेति ? एव चेव जाव नियमा छदिसि ' हे मवन्त ! जम्बूद्वीपे स्वच्छ द्वीपे सूर्यो किम् अतीतम् व्यतिक्रान्तं क्षेत्रम् उद्योतयत प्रकथेण प्रकाशयतः ? एव चैव पूर्वोत्तरीत्या यावत् प्रतिस्थुत्पन्न वर्तमान क्षेत्रम् उद्योतयतः ? किं वा अनागत क्षेत्रम् उद्योतयतः ? हे गौतम ! नो अतीतं क्षेत्रम्

या अनथगाढ ह्य क्षेत्र को अवभासित करते हैं ? उत्तर में प्रसु ने कहा है—गौतम ! वे दोनों सूर्य अथगाढ ह्य क्षेत्र को अवभासित करते हैं अनथगाढ ह्य क्षेत्र को अवभासित नहीं करते हैं । इत्यादि—इसके बाद गौतम ने प्रसु से ऐसा पूछा है—(तं मते ! कइ दिंसि ओभासति ? गोयमा ! नियमा छदिसि) हे मवन्त ! वे दोनों सूर्य कितनी दिशाओं का अवभासित करते हैं ? प्रसु कहते हैं—हे गौतम ! वे नियम से छह दिशाओं को पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण इन चार दिशाओं को तथा ऊपर नीचे को—अवभासित करते हैं । अथ गौतमस्वामी प्रसु से ऐसा पूछते हैं—(जघुरीवे ण मंते ! वीवे सूरिया किं तीयं खेत्तं उज्जोवेति, एव चेव जाव नियमा छदिसि) हे मवन्त ! जम्बूद्वीप नामके इस द्वीप में दो सूर्य क्या अतीतक्षेत्र को उद्योतित करते हैं ? या प्रस्थुत्पन्न—वर्तमान क्षेत्र को उद्योतित करते हैं ? या अनागतक्षेत्र को उद्योतित करते हैं ?

श्रित करे ? (गोयमा ! अथाढ ओभासति, नो अनथाढ ओभासति) तेना उत्तर आपत्ता भदावीर प्रभु कहे छे के के जीतम ! ते जन्ने सूर्यं अथगाढ थयेत्ता धेत्रने अ प्रकाशित करे छे—अनथगाढ धेत्रने प्रकाशित करेता नथी जीतम स्वाभीने प्रश्न—(त मते ! कइ दिंसि ओभासति ?) हे मवन्त ! ते जन्ने सूर्य केटवी दिशाओने प्रकाशित करे छे ? भदावीर प्रभुने उत्तर— " गोयमा ! नियमा छदिसि " हे जीतम ! ते जन्ने सूर्यं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण उत्तर अने अधो ओ छे दिशाओने प्रकाशित करे छे

दवे जीतम स्वामी भदावीर प्रभुने जेवे प्रश्न पूछे छे के—(जघुरीवेण मते ! वीवे सूरिया किं तीयं खेत्तं उज्जोवेति एव चेव जाव नियमा छदिसि) हे मवन्त ! जम्बूद्वीपना जन्ने सूर्यो गु अतीत क्षेत्रने उद्योतित करे छे ? के वर्तमान क्षेत्रने उद्योतित करे छे ? के अनागत क्षेत्रने उद्योतित करे छे ? (उद्योतित करे जेठे पक्ष अधिक प्रमाण्यं प्रकाशित करे)

उद्घोतयतः नो वा अनागतं क्षेत्रं उद्घोतयतः, अपितु प्रत्युत्पन्नं वर्तमानं क्षेत्रम् उद्घोतयतः। एवम् तेजसा स्पृष्टं क्षेत्रम् उद्घोतयतः, एवं नियमात् तेजसा स्पृष्टा एव प्राच्यादिपश्चिमादिः उद्घोतयतः, ' एवं तर्वेति, एवं भासंति जाव नियमा छद्दिसि ' एव पूर्वोक्तरीत्या तापयतः—उष्णरश्मित्वात् तौ सूर्यो किम् अतीतं क्षेत्रं तापयतः, प्रत्युत्पन्नं वा क्षेत्रं तापयतः, अनागतं वा क्षेत्रं तापयतः। हे गौतम ! नो अतीतं क्षेत्रं तापयतः, एव पूर्वोक्तरीत्या अवभासयतः—नो अतीतं क्षेत्रं अवभासयतः, नो वा अनागतं क्षेत्रम् अवभासयतः, अपितु प्रत्युत्पन्नं क्षेत्रं अवभासयतः प्रकाशयतः, यावत्—नियमात् नियमतः पश्चिमादिदिशोऽव भासयतः इति भावः, उक्ता-

यहुत अधिकरूप से प्रकाशित करने का नाम उद्योतित करना है। इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—हे गौतम। जंबूद्वीप में वे दोनों सूर्य प्रत्युत्पन्न-वर्तमानक्षेत्र और अनागतक्षेत्र को उद्योतित नहीं करते हैं। इसी तरह से वे दोनों सूर्य अपने तेज से स्पृष्टक्षेत्र को उद्योतित करते हैं—अपने तेज से अस्पृष्टक्षेत्र को उद्योतित नहीं करते हैं। इसी प्रकार वे दोनों सूर्य अपने तेज से स्पृष्ट छह दिशाओं को उद्योतित करते हैं। (एवं तर्वेति, एवं भासंति, जाव नियमा छद्दिसि) उष्णरश्मिवाले होने से वे दोनों सूर्य हे भदन्त ! क्या अतीतक्षेत्र को तापित करते हैं ? या प्रत्युत्पन्नक्षेत्र को तापित करते हैं ? या अनागतक्षेत्र को तापित करते हैं ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—हे गौतम ! वे दोनों सूर्य अतीतक्षेत्र और अनागतक्षेत्र को तापित नहीं करते हैं—किन्तु प्रत्युत्पन्नक्षेत्र को ही तापित करते हैं। इसी प्रकारसे यह भी समझलेना चाहिये कि वे दोनों

तेनो उत्तर आपता महावीर प्रभु कहे छे के-डे गौतम ! ते अन्ने सूर्य जंबूद्वीपमां वर्तमान क्षेत्रने ज उद्योतित करे छे, अतीत क्षेत्रने तथा अनागत क्षेत्रने ज उद्योतित करता नथी अथ रीते ते अन्ने सूर्य पोताना तेजथी स्पृष्ट थयेदा क्षेत्रने ज उद्योतित करे छे, पोताना तेजथी अस्पृष्ट रडेदा क्षेत्रने उद्योतित करता नथी अथ प्रभाषे ते अन्ने सूर्य पोताना तेजथी स्पृष्ट छये दिशाअने उद्योतित करे छे

(एवं तर्वेति, भासंति, जाव नियमा छद्दिसि) हे भदन्त ! उष्ण रश्मिवाला होवाने कारणे शु ते अन्ने सूर्य अतीत क्षेत्रने तपावे छे ? के वर्तमान क्षेत्रने तपावे छे ? के अनागत क्षेत्रने तपावे छे ? तेनो उत्तर आपता महावीरप्रभु कहे छे के-डे गौतम ! ते अन्ने सूर्य अतीत क्षेत्रने तथा अनागत क्षेत्रने तपावता नथी, पण वर्तमान क्षेत्रने ज तपावे छे अथ प्रभाषे अथ पण

યમેવ ક્ષિપ્યદિતાય પ્રકારાન્તરેનાદ-‘જમ્બુદ્વીપે ણ મત । દીવે સુરિયાણ કિં તીપ્
 લેષે કિરિયા કજ્જહ, પહુપ્પન્ને લેષે કિરિયા કજ્જહ ’ અનાગણ લેષે કિરિયા
 કજ્જહ ? ’ હે મદન્ત ! જમ્બુદ્વીપે લલ્લ દ્વીપે સૂર્યયો કિમ્ અતીતે વ્યતિક્રાન્તે
 ક્ષેત્રે ક્રિયા ક્રિયતે ? અવમાસનાદિકા ક્રિયા મવતિ ? કિં ષા પ્રત્યુત્પન્ને વર્તમાને
 ક્ષેત્રે ક્રિયા ક્રિયતે મવતિ ? કિં વા અનાગતે ક્ષેત્રે ક્રિયા ક્રિયતે ? મવતિ ? મગ-
 ધાનાદ ‘ગોયમા ! નો તીપે લેષે કિરિયા કજ્જહ પહુપ્પન્ને લેષે કિરિયા કજ્જહ,
 ણો અણાગણ લેષે કિરિયા કજ્જહ ’ હે ગૌતમ ! નો અતીતે વ્યતિક્રાન્તે ક્ષેત્રે

સૂર્ય અતીત ધ્રૌર અનાગતક્ષેત્રકો આસિત-પ્રકાશિત નહીં કરતે હિં-
 કિન્તુ પ્રત્યુત્પન્ન ક્ષેત્ર કો હી પ્રકાશિત કરતે હિં । હસી તરહસે લે યાલ્લ
 છહ દિશાઓ કો મિયમ સે અવમાસિત કરતે હિં । ઉત્કાર્ય કો હી અલ
 શિષ્ય કે હિતકે લિયે પ્રકારાન્તરસે સૂત્રકાર કહતે હિં-હસમેં ગૌતમ ને
 પ્રશ્ન સે ઁસા પૂછા (જમ્બુદ્વીપે ણ મતે । દીવે સુરિયાણ કિં તીપ્ લેષે
 કિરિયા કજ્જહ, પહુપ્પન્ને લેષે કિરિયા કજ્જહ, અણાગણ લેષે કિરિયા
 કજ્જહ) હે મદન્ત ! જમ્બુદ્વીપ નામ કે દ્વીપમેં ઢોનોં સૂર્યોંકી કયા અતીત
 ક્ષેત્ર મેં ક્રિયા-અવમાસનાદિરૂપ હોતી હૈ ? યા પ્રત્યુત્પન્નક્ષેત્ર મેં
 અવમાસનાદિરૂપ ક્રિયા હોતી હૈ ? યા અનાગતક્ષેત્ર મેં અવમાસનાદિરૂપ
 ક્રિયા હોતી હૈ ? હસકે ઉત્તર મેં પ્રશ્ન કહતે હિં-(ગોયમા) હે ગૌતમ !
 (નો તીપે લેષે કિરિયા કજ્જહ પહુપ્પન્ને લેષે કિરિયા કજ્જહ, ણો
 અણાગણ લેષે કિરિયા કજ્જહ) લે ઢોનોં સૂર્ય અતીતક્ષેત્ર મેં અવમા

સમલ લેવુ બેઠલે કે તે બન્ને સૂર્ય અતીત અને અનાગત ક્ષેત્રને આસિત
 (પ્રકાશિત) કરવા નથી, પણ વર્તમાન ક્ષેત્રને જ આસિત કરે છે એ જ
 પ્રમાણે તેઓ (શાવત્) છ દિશાઓને અવમાસિત કરે છે એ જ
 વાતને હવે સૂત્રકાર શિષ્યના હિતને આતર બીજી રીતે પ્રકર કરે છે.

ગૌતમ સ્વામી મહાવીર પ્રશ્નને પૂછે છે કે-‘ જમ્બુદ્વીપે ણ મતે । દીવે સુરિ
 યાણ કિ તીપ્ લેષે કિરિયા કજ્જહ પહુપ્પન્ને લેષે કિરિયા કજ્જહ અણાગણ લેષે
 કિરિયા કજ્જહ ?) હે મદન્ત ! જમ્બુદ્વીપ નામના દ્વીપમાં બન્ને સૂર્યની ધ્રુ
 અતીત ક્ષેત્રમાં ક્રિયા (અવમાસના આદિરૂપ ક્રિયા) યાવ છે ? કે વર્તમાન
 ક્ષેત્રમાં અવમાસના આદિરૂપ ક્રિયા યાવ છે ? કે અનાગત ક્ષેત્રમાં તે
 ક્રિયા યાવ છે ?

મહાવીર પ્રશ્નને ઉત્તર-‘ ગોયમા ! ’ હે ગૌતમ ! (નો તીપે લેષે
 કિરિયા કજ્જહ, પહુપ્પન્ને લેષે કિરિયા કજ્જહ ણો અણાગણ લેષે કિરિયા કજ્જહ)

क्रिया क्रियेते सूर्ययोः अवभासनादिका क्रिया भवति, नो वा अनागते क्षेत्रे क्रिया क्रियते भवति, अपितु प्रत्युत्पन्ने क्षेत्रे क्रिया क्रियते भवति, गौतमः पृच्छति— 'सा भंते ! किं पुट्टा कज्जइ, अपुट्टा कज्जइ ?' हे भदन्त ! सा सूर्ययोरवभासनादि क्रिया किं स्पृष्टा भवति? तेजसा स्पर्शनात् या क्रिया सा स्पृष्टा क्रिया इत्यर्थः किं वा अस्पृष्टा ? तेजसा स्पर्शनाद् विनैवेत्यर्थः सा अवभासनादिका क्रिया भवति किम् ? भगवानाह 'गोयमा ! पुट्टा कज्जइ, नो अपुट्टा कज्जइ, जाव नियमा छद्दिसि' हे गौतम ! सूर्ययोः सा अवभासनादिका क्रिया स्पृष्टा एव क्रियते भवति, नो अस्पृष्टा सती क्रिया क्रियते भवति यावत्-नियमात् नियमतः षड्-दिशासु स्पृष्टा क्रिया क्रियते, सूर्ययोः नियमतः षट्स्वपि दिक्षु तेजसा स्पृष्टा

सनादिरूप क्रिया नहीं करते हैं और न अनागतक्षेत्र में अवभासनादि रूप क्रिया करते हैं किन्तु प्रत्युत्पन्नक्षेत्र में ही वे अवभासनादिरूप क्रिया करते हैं। अब गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(सा भंते ! किं पुट्टा कज्जइ, अपुट्टा कज्जइ) हे भदन्त ! सूर्यो की वह अवभासनादिरूप क्रिया प्रत्युत्पन्नक्षेत्र में क्या स्पृष्ट हुई होती है ? या अस्पृष्ट हुई होती है ? तेज के द्वारा हुई हुई जो क्रिया होती है वह स्पृष्ट क्रिया है और तेज के द्वारा नहीं हुई हुई जो क्रिया होती है वह अस्पृष्ट क्रिया है। इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (पुट्टा कज्जइ, नो अपुट्टा कज्जइ, जाव नियमा छद्दिसि) सूर्यो की वह अवभासनादिक क्रिया स्पृष्ट हुई ही होती है, अस्पृष्ट हुई नहीं होती है। इसी तरह से छह दिशाओं में भी तेजसे स्पृष्ट हुई ही अवभासनादि क्रिया होती है।

ते षन्ने सूर्यं अतीत क्षेत्रमा अवलासन आदि इय क्रिया करता नथी, अनागत क्षेत्रमां पणु अवलासन आदि इय क्रिया करता नथी, परन्तु वर्तमान क्षेत्रमां न अवलासन आदि इय क्रिया करे छे.


गौतम स्वामीने प्रश्न—(सा भंते ! पुट्टा कज्जइ, अपुट्टा कज्जइ) हे भदन्त ! ते षन्ने सूर्यं नी वर्तमान क्षेत्रमां अवलासन आदि इय न्ने क्रिया थाय छे ते शु स्पृष्ट थाय छे के अस्पृष्ट थाय छे ? तेजना द्वारा स्पर्शित न्ने क्रिया होय छे, ते क्रियाने स्पृष्ट क्रिया कडे छे अने तेजना द्वारा अस्पृशित न्ने क्रिया होय छे तेने अस्पृष्ट क्रिया कडे छे.

भडावीर प्रभुने उत्तर—“गोयमा !” हे गौतम ! (पुट्टा कज्जइ, नो अपुट्टा कज्जइ, जाव नियमा छद्दिसि) षन्ने सूर्यं नी ते अवलासन क्रिया स्पृष्ट न्ना थाय छे, अस्पृष्ट थती नथी अने प्रमाणे छे दिशाओमां पणु तेजनी स्पृष्ट (स्पर्शित) थयेली न्ने अवलासन आदि क्रिया

एवावभामनादिप्रिया मत्रति । गौतम पृच्छति—'अयुहीवे णं मत्ते ! दीवे सूरिया केवइयं खेच उडुं तवति, केवइयं खेच अहे तवति, केवइयं खेच तिरियं तवति ?' हे मदन्त ! जम्बूद्वीपे खल्ल द्वीपे सूर्यो कियत् सन्नम् ऊर्ध्वं तापयत्, कियत्तेषाम् अपस्तापयत् ? कियत्तेषां तिरियं तापयत् ? मगवावाइ—'गोयमा ! एगं जोगणसयं उडुं तवति, अट्टारस जोगणसयाइ ! अहे तवति सीयालीस जोगणसइस्साइ दोभि तेवहे जोगणसयाइ, एक्खीस च सट्ठिमाए जोगणस तिरियं तवति' हे गौतम ! एकं योजनसत्तम् ऊर्ध्वं तापयत् : स्वस्वविमानस्यापरि योजनसत्तप्रमाणस्यैव तापसप्रस्य भावात्, अष्टादश योजनसत्तानि अपस्तापयत्, तपारि सूर्यात् अष्टसु योजनसत्तेषु भूतलं वर्तते, भूतलाच्च योजनसइस्सेऽधो लोकाप्रामा भवन्ति, तपान् च सर्वेषामुदयोत्तनात्, सप्तसत्वारिंशद् योजनसइस्सानि, इ प्रियट्ठिः योजनसत्ते प्रियट्ठ्यधिकं योजनसत्तद्वयम् एकविंशतिं च पट्टिमागात्

अथ गौतम प्रभु से पेसा पूछते हैं (अयुहीवे णं मत्ते ! दीवे सूरिया केवइयं खेच उडुं तवति, केवइयं खेच अहे तवति, केवइयं खेच तिरियं तवति) हे मदन्त ! जम्बूद्वीप नामके द्वीप में दोनों सूर्य कितने प्रमाण क्षेत्र को ऊपर में तपाते हैं कितने प्रमाण क्षेत्र को नीचे में तपाते हैं, और कितने प्रमाणक्षेत्र को तिरछे में तपाते हैं ? उत्तर में प्रभु कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! (एगं जोगणसयं उडुं तवति, अट्टारसजोगणसयाइ, अहे तवति सीयालीस जोगणसइस्साइ दोभि तेवहे जोगणसए एक्खीसं च सट्ठिमाए जोगणस तिरियं तवति) ये दोनों सूर्य ऊंचे में एक सौ योजन प्रमाणक्षेत्र को तपाते हैं, नीचे में आठारह सौ योजन प्रमाणक्षेत्र को तपाते हैं और तिरछे में ४७२६३ योजन और एक योजन के ६० भागों में से २१ भागप्रमाणक्षेत्र को तपाते हैं। अपने

जीतम स्वामीने प्रभु—(अयुहीवे णं मत्ते ! दीवे सूरिया केवइयं खेच उडुं तवति, केवइयं खेच अहे तवति, केवइयं खेच तिरियं तवति ?) हे मदन्त ! जम्बूद्वीप नामके द्वीप में दोनों सूर्य ऊपर डेटली क्षेत्रों में तपाते हैं ? नीचे डेटली क्षेत्र में तपाते हैं ? अने डेटली तिरछा क्षेत्र में तपाते हैं ?

महावीर प्रभुने उत्तर—(गोयमा !) हे जीतम ! (एगं जोगणसयं उडुं तवति, अट्टारसजोगणसयाइ अहे तवति, सीयालीस जोगणसइस्साइ दोभि तेवहे जोगणसए एक्खीसं च सट्ठिमाए जोगणस तिरियं तवति) ते अने सूर्य ऊंचे १०० योजन प्रमाण क्षेत्र में तपाते हैं, नीचे १८० योजन क्षेत्र में तपाते हैं अने ४७२६३२१६० योजन प्रमाण तिरछा क्षेत्र में तपाते हैं यादपोताना विमानधी उत्तरमा भागमां १०० योजन प्रमाण क्षेत्र में, 

योजनस्य तिर्यक् तापयतः, एतच्चसर्वोत्कृष्टदिवसे चक्षुःस्पर्शीपेक्षयाऽवसेयम्, अथ सूर्यवक्तव्यवतानिरूपणानन्तरं सामान्येन ज्योतिष्कवक्तव्यतां प्ररूपयति — 'अंतो णं भंते । माणुसुत्तरस्स पव्वयस्स जे चंदिमस्सरियग्गहगणणक्खत्ततारारूवा, ते णं भंते । देवा किं उड्डोववन्नगा ?' हे भदन्त ! मानुषोत्तरस्य मनुष्यलोकसीमाकारकस्य पर्वतस्य अन्तः अभ्यन्तरे ये चन्द्रग्रहगण-नक्षत्रतरारूपादेवाः सन्ति हे भदन्त ! ते खलु देवाः किम् ऊर्ध्वोपपन्नगाः ? ऊर्ध्वलोकोत्पन्ना भवन्ति ? भगवानाह—'जहा जीवाभिगमे तद्देव निरवसेसं जाव उक्को-

अपने विमान के ऊपर एक सौ योजन प्रमाण ही तापक्षेत्र है अतः ऊपर में सूर्य का तापक्षेत्र एक सौ योजन प्रमाण कहा गया है । सूर्य से आठ सौ योजन तक नीचे में भूतल है—भूतल से एक हजार योजन में अधोलोकग्राम है । इन सब को उद्योतित करने से यहां नीचे में सूर्य का तापक्षेत्र १८ सौ योजन प्रमाण कहा गया है । तथा जो तिरछे में सूर्य का तापक्षेत्र कहा गया है वह सर्वोत्कृष्ट दिवसमें चक्षुःस्पर्शी की अपेक्षा से कहा गया है । अब सूर्यविषयक वक्तव्यता के निरूपण के अनन्तर सूत्रकार सामान्य रूप से ज्योतिष्कों की वक्तव्यता की प्ररूपणा करते हैं—इसमें गौतम ने प्रभु से ऐसा पूछा है—(अंतो णं भंते ! माणुसुत्तरस्स पव्वयस्स जे चंदिमस्सरियग्गहगणणक्खत्त-तारारूवा, तेणं भंते ! देवा किं उड्डोववन्नगा) मानुषोत्तर पर्वत के जो चन्द्र, सूर्य ग्रहगण, नक्षत्र और तारारूप देव हैं—हे भदन्त ! वे देव क्या ऊर्ध्वलोकमें उत्पन्न हुए हैं ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(जहा जीवाभिगमे तद्देव

तेथी उपर सूर्यं तु तापक्षेत्र १०० योजन प्रमाण उड्डेवाभां आणुं छे सूर्यंथी आहसे योजन सुधी नीचे भूतल छे अने भूतलथी १०० योजन नीचे अधो-लोकग्राम छे सूर्यं ते अन्नेने उद्योतित करे छे तेथी तेमनुं तापक्षेत्र नीचे १८०० योजन प्रमाण उड्डु छे, तथा सूर्यं तु जे तिरछु तापक्षेत्र उड्डु छे, ते सर्वोत्कृष्ट दिवसमा चक्षुःस्पर्शीनी अपेक्षाये उड्डुं छे, आ रीते सूर्यं नी वक्तव्यतानुं निरूपणु करीने उवे सूत्रकार ज्योतिषिडोनी प्ररूपणु करे छे, आ विषयने अनुलक्षीने गौतम स्वामी महावीर प्रभुने नीचे प्रमाणे प्रश्न पूछे छे—“अ तोणं भंते ! माणुसुत्तरस्स पव्वयस्स जे चंदिमस्सरियग्गहगणणक्खत्त-तारारूवा, तेणं भंते ! देवा किं उड्डोववन्नगा ?) हे भदन्त ! मानुषोत्तर पर्वतना जे चन्द्र, सूर्य, ग्रहगण, नक्षत्रा अने ताराइप देवा छे, तेज्जा थु उर्ध्वलोकमां उत्पन्न थयेला छे ?

सेण छम्मासा' हे गौतम ! यया जीवामिगमसूत्रे प्रतिपादित तथैव जघन्येन एक समयम्, उत्कर्षेण पट्ट मासा, तथा चोक्त जीवामिगमे गृत्रे—' कप्पोववन्नगा, विमाणोववन्नगा, चारोववन्नगा, चारट्टिइया, गइरइया, गइसमावन्नगा ! गोयमा ! ते ण देवा नो उट्ठोववन्नगा, नो फण्णोववन्नगा, विमाणोववन्नगा, चारोववन्नगा' फल्पोपपन्नकाः विमानोपपन्नकाः, चारोपपन्नकाः चरस्थितिकाः, गतिरतिकाः, गतिसमापन्नका ! हे गौतम ते खलु देवा चन्द्राद्याः पञ्च ज्योतिष्का नो उट्ठोपपन्नकाः, नो कल्पोपपन्नका, अपितु विमानोपपन्नका, चारोपपन्नका—ज्योतिष्कचरणोपलक्षितक्षेत्रोपपन्नाः भवन्ति, नो चारस्थितिकाः, चारो ज्योतिष्कामवस्थानक्षेत्रम्, नो नैव चारे स्थितिर्येषांते तथा, अत एव गतिरतिका, अतएव

निरयसेस—जाघ उट्ठोसेण छम्मासा) हे गौतम ! जीवामिगमसूत्र में कहा गया है उसी प्रकार से यहां पर भी सम्पूर्णरूप से जानना चाहिये। यावत्—उपपातखिरह काल जघन्य से एक समय का और उत्कृष्ट से छह मास का है। सो ही जीवामिगमसूत्र में कहा गया है—(कप्पोववन्नगा, विमाणोववन्नगा, चारोववन्नगा, चारट्टिइया, गइरइया, गइसमावन्नगा ! गोयमा ! तेणं देवा नो उट्ठोववन्नगा नो कप्पोववन्नगा, विमाणोववन्नगा, चारोववन्नगा) हे गौतम ! ये चन्द्रादिक पांच ज्योतिष्क देव उट्ठोपपन्नक चर्चलोक में उत्पन्न नहीं हुए हैं, न फल्पोपपन्नक—कल्पोमें उत्पन्न नहीं हुए हैं, किन्तु—विमानोपपन्नक हैं, चारोपपन्नक हैं—ज्योतिष्क चरणोपलक्षित क्षेत्रोत्पन्न हैं। ये चारस्थितिय—ज्योतिष्कोके अवस्थानक्षेत्ररूप चारमें स्थिति पाठे नहीं हैं। अतएव ये गतिरतिक और इसीलिये ये गतिसमापन्नक हैं।

महावीर प्रबुने उत्तर—(महा जीवामिगमे तथैव निरयसेस—जाघ उट्ठो सेणं छम्मासा) हे गौतम ! आ विषयणी जेवी प्रपञ्जा एवाजिगमसूत्रमां इयवाभां आवी छे जेवी ए प्रपञ्जा अर्द्धा पञ्च संपूर्णं इये समज्जीवी ' उपपात विरहकाण जघन्यणी अपेक्षाजे (ज्योतिष्कां ज्योतिष्कां) ज्येष्ठ समयने अने वधारेभां वधारे छ मासने छे " अर्द्धा सुधीनु समस्त धयन अर्द्धेण इरुं जेठंजे एवाजिगम सूत्रमा आ विषयने अनुवक्षीने नीशे प्रमासे कहुं छे—

कप्पोववन्नगा, विमाणोववन्नगा चारोववन्नगा, चारट्टिइया गइरइया गइसमावन्नगा ! गोयमा ! तेणं देवा नो उट्ठोववन्नगा नो कप्पोववन्नगा विमाणोववन्नगा चारोववन्नगा) हे गौतम ! ते चन्द्रादिक पांच ज्योतिष्क देव उट्ठोपपन्नकां उत्पन्न यथा नथी कल्पोमां उत्पन्न यथा नथी परन्तु विमानोपपन्नक छे चारोपपन्नक छे—ज्योतिष्क चरणोपलक्षित क्षेत्रोत्पन्न छे तेज्ये चारस्थितिक ज्योतिष्कोकां अवस्थान क्षेत्ररूप चारमां स्थितिवान्छा—नथी तेथी तेज्ये जति रतिक अने गतिसमापन्नक छे

च गतिसमापन्नका इति भावः । गौतमः पृच्छति—‘बहिया णं भंते ! माणुसुत्तरस्स जहा जीवाभिगमे जाव इंदट्टाणे णं भंते ! केवइयं कालं उववाएणं विरहिए पणत्ते’ हे भदन्त ! मानुपोत्तरस्य मनुष्यलोकसीमाकारकस्य पर्वतस्य बाह्याः बहिप्रदेशस्थिता-
 चन्द्रादयो देवाः यथा जीवाभिगमे जीवाभिगमसूत्रे उक्तं यावत्—इन्द्रस्थानं खलु भदन्त ! कियन्तं कालम् उपपातेन विरहितं प्रज्ञप्तम् ? यावत्करणात्—‘जीवा-
 भिगमसूत्रमेवं द्रष्टव्यम्—“ जे चंदिमसूरियगहगणनक्खत्तारारूवाते णं भंते ! देवा किं उड्डोववन्नगा ? गोयमा ! ते णं देवा नो उड्डोववन्नगा, नो कप्पोववन्नगा, विमाणोववन्नगा, नो चारोववन्नगा, चारट्टिइया, नो गइरइया, नो गइसमावन्नगा ” इत्यादि । ‘ इंदट्टाणे णं भंते ! केवइयं कालं विरहिए उववाएणं ?

अब गौतम स्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(बहिया णं भंते ! माणु-
 सुत्तरस्स जहा जीवाभिगमे जाव इंदट्टाणे णं भंते ! केवइयं कालं उव-
 वाएणं विरहिए पणत्ते) हे भदन्त ! मानुष्योत्तर पर्वत के बहिः प्रदेश
 में स्थित चन्द्रादिक देव—चन्द्र, सूर्य, ग्रहगण, नक्षत्र, तारारूप ये सब
 उर्ध्वलोक में उत्पन्न हुए हैं ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(जहा
 जीवाभिगमे) हे गौतम ! जैसा जीवाभिगम सूत्र में कहा गया है वैसा
 जानना चाहिये । जीवाभिगम सूत्र में इस विषय में क्या कहा गया है ?
 इसके लिये कहते हैं कि—(जे चंदिम, सूरिय, गहगण, नक्खत्त—तारा-
 रूवा, तेणं भंते ! देवा किं उड्डोववन्नगा ? गोयमा ! तेणं देवा नो उड्डो-
 ववन्नगा, नो कप्पोववन्नगा, विमाणोववन्नगा, नो चारोववन्नगा, चारट्टि-
 इया, नो गइरइया, नो गइसमावन्नगा) वहां ऐसा कहा गया है । अब

इसे गौतम स्वामी भडावीर प्रभुने ज्येवे प्रश्न पूछे छे के—(बहिया णं
 भंते ! माणुसुत्तरस्स जहा जीवाभिगमे जाव इंदट्टाणेणं भंते ! केवइयं कालं उव-
 वाएणं विरहिए पणत्ते ?) छे भदन्त ! मानुषे तरे पर्वतनी भडारना प्रदेशभां
 रडेला चन्द्रादिके देव—चन्द्र, सूर्य, अइगणु नक्षत्रे अने ताराओ थु उर्ध्व-
 लोकभां उत्पन्न थयेला छे ?

तेनो उत्तर आपता भडावीर प्रभु कडे छे—“ जहा जीवाभिगमे ” छे
 गौतम ! आ विषयनु समस्त कथन जीवाभिगम सूत्रभा कथा प्रभाणु समज्जु.
 ते सूत्रभां आ विषयने अनुलक्षीने नीचे प्रभाणु कथन थयुं छे—

(जे चंदिम सूरिय, गहगण, नक्खत्त, तारारूवा, तेणं भंते ! देवा किं
 उड्डोववन्नगा ? गोयमा ! तेणं देवा नो उड्डोववन्नगा, नो कप्पोववन्नगा, विमाणो-
 ववन्नगा, नो चारोववन्नगा, चारट्टिइया, नो गइरइया, नो गइसमावन्नगा)

मगधानाह—'गोयमा ! जहण्णेणं एके समयं उक्कोसेण छम्मासा' हे गौतम ! इन्द्रस्थानं स्वच्छं अपोयेने एक समयम् उपपातेन विरहितं भवति, उन्कोसे पद्मासाः पण्मासपर्यन्तम् उपपातविरहितं भवति । अन्ते गौतम सर्वं सत्यापयति— 'सेव मंते ! सेव मंते !' हे भदन्त ! तदेवं भवदुक्तं सत्यमेव, हे भदन्त ! भवदुक्तं सत्यमेवेति ॥ सू० ६ ॥

इति श्री-निश्चविक्रयात्, अगदल्लम्-प्रसिद्धवाचक = पञ्चदशमापाकम्, तल्लित्तफलापासापक-प्रविशुद्धगणपथनैकप्रन्यनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्रीशाहृषमपतिकोल्हापुरराजप्रदत्त - 'जैनशास्त्राचार्य' - पद्मभूषित-कोल्हापुरराजगुरु-बालमहाशारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिनाकर-पूज्यश्री-यासीलालप्रतिविधिधियायां श्रीमगधतीसूत्रस्य प्रमेयचन्द्रिकाख्यायां व्याख्यायाम् अष्टसप्तकस्य अष्टमोद्देशका समाप्तः ॥ ८-८ ॥

गौतमस्वामी-प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(इन्द्राणेण भते ! केषइय काळं विरहिए, उववाएणं) हे भदन्त ! इन्द्रस्थान इन्द्रके उत्पात से कितने समय तक विरहित रहता है, उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! इन्द्रस्थान, इन्द्र के उत्पाद से, (जहण्णेण एके समयं उक्कोसेणं छम्मासा) कम से कम ? समयतक और अधिक से अधिक छह मास तक विरहित रहता है । अथ अन्त में गौतमस्वामी प्रभु के वचन में प्रमाणता स्वीकार करते हुए (सेव मंते ! सेव मंते ! सि) ऐसा कहते हैं कि हे भदन्त ! आप के द्वारा कहा गया यह सत्य विषय सर्वथा सत्य है—हे भदन्त ! सर्वथा सत्य है । इस प्रकार कह कर वे गौतम यासत् अपने स्थान पर बैठ गये ॥ सू० ६ ॥

॥ आठवां उद्देशक समाप्त ॥

॥ इने गौतम स्वामी भदावीर, प्रभुने पूछे छे ठे—(इन्द्राणेणं भते ! केषइय काळं विरहिए उववाएणं ?) हे भदन्त ! इन्द्रस्थान इन्द्रके उत्पातसे कितने समय तक विरहित रहे छे ?

॥ भदावीर प्रभुने उत्तर—'गोयमा ! जहण्णेणं एक समयं उक्कोसेणं छम्मासा' हे गौतम ! इन्द्रस्थान इन्द्रके उत्पातसे आठमां आठ माससमय सुधी अने पधारेमां पधारे छे मास सुधी विरहित रहे छे 'सेव मंते ! सेव मंते ! सि' इने भदावीर प्रभुने वचनेमां भदा व्याप्त करता गौतम स्वामी इहे छे ठे ठे लह उ ! आपना बोध प्रतिपादित या समस्त विषय सर्वथा सत्य छे हे भदन्त ! आपनी बात पथाय छे अथ प्रभावे इहीने प्रभुने पद्वु ! नभस्कार इरीने गौतम स्वामी पानाने स्थाने धिशी मथा सू० ६

॥ आठवां उद्देशक समाप्त ॥ ८-८ ॥

नवमोद्देशकः प्रारभ्यते—

अष्टमशतके नवमोद्देशकस्य संक्षिप्तविषयविवरणम् ।

बन्धवक्तव्यता, विस्त्रसाबन्धः, अनादिविस्त्रसाबन्धः, धर्मास्तिकाय अनादि विस्त्रसादेशबन्धः, अनादिविस्त्रसाबन्धस्य कालः, सादिविस्त्रसाबन्धः, बन्धनप्रत्ययिकबन्धः, भाजनप्रत्ययिकबन्धः, परिणामप्रत्ययिकबन्धः, प्रयोग-बन्धः, आलापनबन्धः, आलीनबन्धः, श्लेषणाबन्धः, उच्चयबन्धः, समुच्चय-बन्धः, संहननबन्ध, देशसंहननबन्धः, सर्वसंहननबन्धः, शरीरबन्धः, पूर्वप्रयोग-प्रत्ययिकबन्ध, प्रत्युत्पन्नप्रयोग प्रत्ययिकबन्धः, शरीरप्रयोगबन्धः, औदारिकशरीर-प्रयोगबन्धः, एकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबन्धः, औदारिकशरीरप्रयोगबन्धः कस्य

आठवे शतक के नववां उद्देशक

अष्टमशतक के इस नौवें उद्देशक में जो विषय कहा गया है उसका विवरण संक्षेप से इस प्रकार है—बंधविषयक वक्तव्यता, सादि विस्त्रसा बंध और अनादि विस्त्रसा बंध कथन अनादि विस्त्रसा बंधके प्रकारों का कथन धर्मास्तिकाय के अनादि विस्त्रसा देशबंध होता है ऐसा कथन अनादि विस्त्रसा बंधके कालका कथन सादि विस्त्रसा बंध के प्रकारों का कथन बन्धनप्रत्ययिक बंध, भाजनप्रत्ययिक बंध, परिणामप्रत्ययिक बंध इन के प्रकारों का कथन परिणामप्रत्ययिक बंध, प्रयोग बंध, आलापन बंध, आलीनबंध, श्लेषणबंध, उच्चयबंध, समुच्चयबंध, संहननबंध, देशसंहननबंध, सर्वसंहननबंध, शरीरबंध, पूर्वप्रयोगप्रत्ययिकबंध, प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिकबंध, शरीरप्रयोगबंध, औदारिक शरीरप्रयोगबंध, एकेन्द्रि-

आठमा शतकनो नवमो उद्देशक प्रारंभ

आठमा शतकना नवमा उद्देशकमा नो विषयतुं निरूपणं करवासां आठुं छे तेतुं संक्षिप्त विवरणु नीचे प्रमाणु छे—

बंध विषयक वक्तव्यता, सादि विस्त्रसाबंध अने अनादि विस्त्रसाबंधतुं कथन. अनादि विस्त्रसाबंधना प्रकारतुं प्रतिपादन धर्मास्तिकायनो अनादि विस्त्रसा देशबंध थाय छे अतुं कथन अनादि विस्त्रसाबंधना कालतुं कथन, सादि विस्त्रसा बंधना प्रकारतुं कथन बंधन प्रत्ययिक बंध, भाजन प्रत्ययिक बंध अने परिणाम प्रत्ययिक बंध, प्रयोग बंध, आलापन बंध, आलीन बंध, श्लेषणा बंध, उच्चय बंध, समुच्चय बंध, संहनन बंध, देशसंहनन बंध, सर्वसंहनन बंध, शरीर बंध, पूर्वप्रयोगप्रत्ययिक बंध, प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक बंध, शरीर प्रयोग बंध, औदारिक शरीर प्रयोग बंध, एकेन्द्रि-

कर्मण उदयात् भवतीति मञ्जोचरम्, एकेन्द्रियौदारिकप्रयोगबन्धः, मनुष्यौ-
 दारिकशरीरप्रयोगबन्धः, औदारिकशरीरप्रयोगबन्धकालः, एकेन्द्रिय, पृथिवी-
 कायिकः, औदारिकशरीरबन्धस्यान्तरकालः, एकेन्द्रियः पृथिवीकायिक एकेन्द्रिया,
 पञ्चेन्द्रियतिर्यग् औदारिकशरीरबन्धस्यान्तरम्, एकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबन्ध-
 स्यान्तरम्, पृथिवीकायिकौदारिकशरीरबन्धस्यान्तरम्, औदारिकशरीरस्य सर्व-
 बन्धक-देशबन्धकालबन्धकानाम् अल्पबहुत्वप्रकल्पिता, वैक्रियशरीरप्रयोगबन्धः,
 वायुकायिकैकेन्द्रियशरीरप्रयोगबन्धो भवति ? तद्विन्नेकेन्द्रियशरीरप्रयोगबन्धो
 भवतीति मन्त्रः ! वैक्रियशरीरप्रयोगबन्धः कस्य कर्मणः उदयात् भवतीति मन्त्रो

यौदारिकशरीरप्रयोगबन्ध इत सब बंधों का कथन औदारिक शरीर
 प्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ऐसा प्रश्न और इसका उत्तर
 एकेन्द्रियौदारिकप्रयोगबन्ध, पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबन्ध मनुष्यो
 दारिक शरीरप्रयोगबन्ध, औदारिकशरीरप्रयोगबन्धकाल, एकेन्द्रिय,
 पृथिवीकायिक, औदारिकशरीरबन्ध का अन्तरकाल, एकेन्द्रिय, पृथिवी
 कायिक एकेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियतिर्यग् औदारिक शरीरबन्ध का अन्तर,
 एकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोगबन्ध का अन्तर, पृथिवीकायिकौदारिक
 शरीरबन्धका अन्तर, इत सबका कथन औदारिक शरीरके सर्वबन्धक,
 देशबन्धक और अबन्धकों के अल्प बहुत्व का कथन वैक्रिय शरीरप्र
 योगबन्ध के प्रकार कथन एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयोगबन्ध वायुकायिक
 एकेन्द्रिय शरीरप्रयोगबन्ध होता है या इससे निम्न एकेन्द्रियशरीरप्रयो

जध, एकेन्द्रियौदारिक शरीर प्रयोग बंध, आ जधा बंधितु प्रतिपादन आ
 उदयकर्म भुं' छे ' औदारिक शरीर प्रयोग बंध, क्या कर्मना उदयधी वाव
 छे, " जेवो प्रश्न जने तेना उत्तर—

एकेन्द्रियौदारिक प्रयोग बंध, पञ्चेन्द्रियौदारिक शरीर प्रयोग बंध,
 मनुष्यौदारिक शरीर प्रयोग बंध, औदारिक शरीर प्रयोगबन्धकाल, एकेन्द्रिय,
 पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियतिर्यग् औदारिक शरीर बन्ध अन्तर, एके-
 न्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बन्ध अन्तर जने पृथिवीकायिक औदारिक शरीर
 बन्ध अन्तर, आ जधानु कथन आ उदयकर्म करवाभां आनु छे औदारिक
 शरीरना सर्वबन्धक देशबन्धक जने जन्धेना अल्प बहुत्व जन्ध-
 वैक्रिय शरीर प्रयोगबन्धना प्रमाणु कथन एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीर प्रयोगबन्ध,
 वायुकायिक एकेन्द्रिय शरीर प्रयोगबन्ध केव छे तेनाथी निम्न (गुदा

तरम्, वायुकायिकवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धः, नैरयिकवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धः, तिर्यग्योनिकवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धः, देशबन्धः, सर्वबन्धश्च, वैक्रियशरीरप्रयोगबन्धकालः, वायुकायिकवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धकालः, रत्नप्रभानैरयिकवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धकालः, वैक्रियशरीरप्रयोगबन्धस्यान्तरम्, वायुकायिकवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धस्यान्तरम्, तिर्यक्पञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धस्यान्तरम्, वायुकायिकवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धस्यान्तरम्, रत्नप्रभानारकवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धस्यान्तरम्, असुरकुमारा नागकुमाराः यावत् सहस्रारदेवाः, आनतदेववैक्रियशरीरप्रयोगबन्धस्यान्तरम्, ग्रैवेयककल्पातीताः, अनुत्तरीपपातिकाः, एतेषामन्तरकालः । एतेषां वैक्रियशरीरस्य देशबन्धक - सर्वबन्धका - ऽबन्धकविषयेऽल्पबहुत्ववक्तव्यता, आहारकशरीरप्रयोगबन्धः, मनुष्यवर्जितानाम् आहारकशरीरप्रयोग-

गबन्ध होता है ? ऐसा प्रश्न, वैक्रियशरीरप्रयोगबंध किस कर्म के उद्घ से होता है ऐसा प्रश्न, और इसका उत्तर वायुकायिक एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयोगबन्ध के संबंध में प्रश्न नैरयिक वैक्रिय शरीरप्रयोगबन्ध, तिर्यग्योनिक वैक्रिय शरीरप्रयोगबंध, इनके संबंध में प्रश्न और उत्तर वैक्रियशरीरप्रयोगबन्ध देशबन्ध है कि सर्वबन्ध है इस विषय में प्रश्न और उत्तर वैक्रियशरीरप्रयोगबन्ध के काल का कथन वायुकायिक के वैक्रियशरीरप्रयोगबंध के काल का कथन रत्नप्रभा नैरयिक के वैक्रिय शरीरप्रयोगबंध का काल कथन वैक्रिय शरीरप्रयोगबंध का अन्तर-वायुकायिक वैक्रिय शरीरप्रयोग बंध का अन्तर कथन तिर्यक् पंचेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयोगबंध का अन्तर असुरकुमार, नागकुमार यावत् सहस्रार देवों में सर्वबन्ध, देशबन्ध के अन्तर का कथन आनतदेवलोक के

प्रकारने।) अकेन्द्रिय शरीर प्रयोगबंध होय छे ? अवेो प्रश्न अने तेने उत्तर. " वैक्रिय शरीर प्रयोगबंध कया कर्मना उद्घथी थाय छे ? " अवेो प्रश्न अने तेने उत्तर. वायुकायिक अकेन्द्रिय वैक्रिय शरीर प्रयोगबंधने विषे प्रश्न. नैरयिक वैक्रियशरीरप्रयोगबंध, अने तिर्यग्योनिक वैक्रिय शरीर प्रयोगबंध विषयक प्रश्न अने उत्तर. वैक्रिय शरीर प्रयोगबंध देशबंध छे के सर्वबंध छे, अवेो प्रश्न अने उत्तर. वैक्रिय शरीर प्रयोगबंधना कालनुं कथन, वायुकायिकना वैक्रिय शरीर प्रयोगबंधना कालनुं कथन' रत्नप्रभा नैरयिकेना वैक्रिय शरीर प्रयोगबंधना कालनुं कथन, वैक्रिय शरीर प्रयोग बंधना अंतरनुं कथन, वायुकायिक वैक्रिय शरीर प्रयोगबंधना अंतरनुं कथन, तिर्यक् पंचेन्द्रिय वैक्रिय शरीर प्रयोगबंधना अंतरनुं कथन, असुरकुमार, नागकुमार, यावत् सहस्रार देवोमां सर्वबंध अने देशबंधना अंतरनुं कथन,

मन्वो भवति न वेतिमन्मोचरम्, आहारकशरीरप्रयोगबंधः कस्य कर्मणः उदयात्
 भवतिमशन, देशबंधः, सर्वबंधः, आहारकशरीरप्रयोगबन्धस्य कालः अन्तरं च,
 देशबन्धक-सर्वबंधका-बन्धकानामल्पबहुत्वबन्धकव्यव्यता । तैजसशरीरप्रयोगबन्धः,
 एकेन्द्रिय, यावत् पर्याप्तसर्वार्थसिद्धः । तैजसशरीरप्रयोगबन्धः कस्य कर्मण उदयात्
 भवति ? देशबन्धः, सर्वबंधः वर्तते न वा ? सर्वबन्धो नास्ति, तैजसशरीरप्रयोग
 बंधकालः, तैजसशरीरप्रयोगबन्धस्यान्तरम्, कार्मणशरीरप्रयोगबंधः, ज्ञानावर
 णीयकार्मणशरीरप्रयोगबन्धः कस्य कर्मण उदयात् भवति । इति मशनः । वर्तना

देवों के वैक्रिय शरीरप्रयोगबंध का अन्तरं कथन प्रैवेयक कल्पतीत,
 अनुत्तरोपपातिक इनके अल्प बहुत्व की बन्धकव्यता आहारक शरीरप्र
 योग बंध के प्रकार के विषय में प्रश्न मनुष्यसिद्धि के आहारक
 शरीर प्रयोगबंध होता है या नहीं होता है ऐसा प्रश्न और इसका
 उत्तर आहारक शरीर प्रयोगबंध किस कर्म के उदय से होता है ऐसा
 प्रश्न-देशबंध, सर्वबंध, आहारक शरीर प्रयोगबंध का काल, अन्तर,
 देशबंधक, सर्वबंधक और अमचकी की अल्पबहुत्वबन्धकव्यता तैजस
 शरीर प्रयोगबंध, एकेन्द्रिय यावत् पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध तैजस शरीर
 प्रयोगबंध किस कर्म के उदय से होता है ? देशबंध और सर्वबंध है
 या नहीं ? सबबंध नहीं है । तैजसशरीरप्रयोगबंध काल-तैजसशरीरप्र
 योगबंध का अन्तरं कार्मणप्रयोग बंध ज्ञानावरणीय कार्मणशरीर
 प्रयोगबंध किस कर्म के उदय से होता है ऐसा प्रश्न दर्शनावरणीय

आगत देवताकना देवाना वैक्रिय शरीर प्रयोगबंधना अतरं कथन प्रैवेयक
 कल्पतीत अने अनुत्तरोपपातिकना अल्प-बहुत्वनी बन्धकव्यता, आहारक शरीर
 प्रयोगबंधना प्रकार विषयो प्रश्न मनुष्य सिद्धिना लोको अहारक शरीरप्रबंध
 थाय छे छे नहीं, जेवो प्रश्न अने तेना उत्तर अहारक शरीर प्रयोगबंध
 क्या कर्मना उदयधी थाय छे जेवो प्रश्न अने तेना उत्तर

देशबंध, सर्वबंध, आहारक शरीर प्रयोगबंधना काल, अन्तर, तथा
 देशबंधक, सर्वबंधक अने अमचकी की अल्पबहुत्वबन्धकव्यता तैजस
 शरीर प्रयोगबंध एकेन्द्रिय यावत् पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध पश्चान्तना तैजस शरीर
 प्रयोगबंध क्या कर्मना उदयधी थाय छे ? देशबंध अने सर्वबंध छे छे
 नहीं ? सबबंध नहीं. तैजस शरीर प्रयोगबंधना काल अने तैजस शरीर
 प्रयोगबंधना अन्तरं कथन. कार्मण प्रयोगबंध-ज्ञानावरणीय कार्मण शरीर
 प्रयोगबंध क्या कर्मना उदयधी थाय छे जेवो प्रश्न-दर्शनावरणीय काल

वरणीयकार्मणशरीरप्रयोगबन्धः, सातावेदनीयम्, असातावेदनीयम्, मोहनीयम्, नारकायुष्म, तिर्यग्योनिकायुष्म, मनुष्यायुष्म, देवायुष्म, शुभनाम, अशुभनाम, उच्चगोत्रम्, नीचगोत्रम्, अन्तरायः, ज्ञानावरणीयकर्मणः देशबन्धः सर्वबन्धो वा ? ज्ञानावरणीयकार्मणशरीरप्रयोगबन्धस्य कालः, ज्ञानावरणीयकार्मणशरीरप्रयोगबन्धस्यान्तरम्, देशबन्धकस्याऽवन्धकस्याल्पबहुत्वम्, आयुःकर्मणो देशबन्धकस्यावन्धकस्य चाल्पबहुत्वम्, औदारिकशरीरस्य सर्वबन्धैः सह वैक्रियशरीरबन्धसम्बन्धः, आहारकशरीरबन्धसम्बन्धः, तैजसशरीरसम्बन्धः, देशबन्धकः, अबन्धको वा ? कार्मणशरीरसम्बन्धः, औदारिकशरीरस्य देशबन्धेन सह वैक्रियशरीरसम्बन्धः, वैक्रियशरीरसर्वबन्धैः सह औदारिकशरीरसम्बन्धः, देशबन्धैः सह

कार्मणशरीरप्रयोगबन्ध, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मोहनीयनारकायुष, तिर्यग्योनिकायुष, मनुष्यायुष, देवायुष, शुभनाम, अशुभनाम, उच्चगोत्र, नीचगोत्र, अन्तराय इनके प्रयोगबन्ध के संबंध में प्रश्न और उत्तर । ज्ञानावरणीय कर्म का देशबन्ध होता है या सर्वबन्ध होता है ? ऐसा प्रश्न और इसका उत्तर ज्ञानावरणीय कार्मणशरीरप्रयोग का बन्ध काल ज्ञानावरणीयकार्मणशरीर प्रयोगबन्ध का अन्तर देशबन्धक का अबन्धक का अल्पबहुत्व-आयुःकर्म के देशबन्धक का और अबन्धक का अल्पबहुत्व औदारिक शरीर के सर्वबन्धों के साथ वैक्रियशरीर बन्ध का संबंध आहारक शरीरबन्ध का सम्बन्ध तैजसशरीरसंबन्ध, देशबन्धक अथवा अबन्धक कार्मणशरीरसंबन्ध औदारिकशरीर के देशबन्ध के साथ वैक्रियशरीर संबन्ध वैक्रियशरीर के सर्वबन्धों के साथ औदारिक शरीर

शरीर प्रयोगबन्ध, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मोहनीय, नारकायुष, तिर्यग्योनिकायुष, मनुष्यायुष, देवायुष, शुभनाम, अशुभनाम, उच्चगोत्र, नीचगोत्र, अन्तरायना प्रयोगबन्ध विषयक प्रश्न अन्ते तेभना उत्तर.. ज्ञानावरणीय कर्मणो देशबन्ध थाय छे के सर्वबन्ध थाय छे, अथवा प्रश्न अन्ते तेना उत्तर ज्ञानावरणीय कर्मणु शरीर प्रयोगने बन्धकाण-ज्ञानावरणीय कर्मणु शरीर प्रयोगबन्धनु अन्तर, देशबन्धक अन्ते सर्वबन्धकनु अल्पबहुत्व आयुःकर्मना देशबन्धक अन्ते अबन्धकनु अल्पबहुत्व औदारिक शरीरना सर्वबन्धोनी साथे वैक्रिय शरीर बन्धने संबन्ध, औदारिक शरीरबन्धने संबन्ध, तैजस शरीरबन्धने संबन्ध, देशबन्धक अथवा अबन्धक कर्मणु शरीर संबन्ध. औदारिक शरीरना देशबन्धनी साथे वैक्रिय शरीर संबन्ध, वैक्रिय शरीरना सर्वबन्धोनी साथे औदारिक शरीरने संबन्ध, देशबन्धोनी साथे औदारिक

औदारिकशरीर-पञ्चसङ्घः, आहारकशरीरसर्वसङ्घः सह औदारिकशरीरसङ्घ-
सङ्घः, आहारकशरीरदेशसङ्घः सह औदारिकशरीरसङ्घसङ्घः, तेजसशरीर-
देशसङ्घः सह औदारिकशरीरसङ्घः, औदारिकशरीर देशसङ्घः सर्वसङ्घः
वा ? वैक्रियशरीरं सङ्घः अङ्घः वा, कर्मशरीरं सङ्घः अङ्घः वा ! देश-
सङ्घः, शरीरस्य देशसङ्घः सर्वसङ्घः आहारकशरीरसङ्घसङ्घः कथ्यतेति ।

अष्टमादेशकाते शूर्यबन्द्रादिज्योतिष्कार्या वक्तव्यता प्ररूपिता, सा च
बैलसिद्धीरूपा, अतो बैलसिद्धं प्रायोगिकं च बन्धं प्रतिपिपादयिष्यन् नममोदेशक-
मारमते—‘ कश्चिद्देवं मते ! ’ इत्यादि ।

मूलम्—कश्चिद्देवं मते ! धंधे पण्यसे ? गोयमा ! दुविद्दे
धंधे पण्यसे, स जहा—पयोगधंधे य वीससाधधे य ॥सू० १॥

छाया—कतिपिषः सखु मन्त ! धन्धः प्रहसतः ? गौसम ! द्विषिषो धन्धः
प्रहसतः, तपसा—प्रयोगधन्धः, विलसाधन्धः ॥ सू० १ ॥

का संबध देशसङ्घो के साथ औदारिक शरीरसङ्घ का संबध आहारक
शरीर के सर्वसङ्घो के साथ औदारिक शरीर सङ्घ का संबध आहारक
शरीर के देशसङ्घ के साथ औदारिक शरीरसङ्घ का संबध तेजसशरीर
के देशसङ्घ के साथ औदारिक शरीर का संबध औदारिक शरीर
देशसङ्घ है वा सर्वसङ्घ है ? वैक्रियशरीर सङ्घ है अथवा अङ्घ सङ्घ
है—कर्मशरीर सङ्घ है वा अङ्घ सङ्घ है ? देशसङ्घ है अथवा अङ्घसङ्घ
है ? कर्मशरीरके देशसङ्घकोके साथ औदारिक शरीर सङ्घका संबध
शरीरके देशसङ्घ, सर्वसङ्घ और अङ्घ सङ्घ इनके अल्पबहुत्वका कथन ।
' कश्चिद्देवं मते ! धंधे पण्यसे ? ' इत्यादि ।

सुप्रार्थ—(कश्चिद्देवं मते ! धंधे पण्यसे) हे भदन्त ! संबध कितने

शरीर सङ्घने संबध, आहारक शरीरना सर्वसङ्घनी साथ औदारिक शरीर
सङ्घने संबध, तेजस शरीरना देशसङ्घनी साथ औदारिक शरीरने संबध
औदारिक शरीर देशसङ्घ छे के सर्वसङ्घ छे ? वैक्रिय शरीरसङ्घ छे के
अङ्घ छे ? कर्मस शरीरसङ्घ छे के अङ्घ छे ? देशसङ्घ छे के
अङ्घ छे ? कर्मस शरीरना देशसङ्घनी साथ औदारिक शरीर सङ्घने
संबध, शरीरना देशसङ्घ, सर्वसङ्घ अने अङ्घसङ्घ अल्पबहुत्व कथन-
(कश्चिद्देवं मते ! धंधे पण्यसे ?) इत्यादि—

सुप्रार्थ—(कश्चिद्देवं मते ! धंधे पण्यसे ?) हे भदन्त ! संबध केरबा

टीका—‘कइविहे णं भंते ! वधे पण्णत्ते?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! कतिविधः खलु बन्धः पुद्गलादिविषयः सम्बन्धः प्रज्ञप्तः ? भगवानाह—‘ गोयमा ! दुविहे वंधे पण्णत्ते, तं जहा—पयोगवधे य, वीससावधे य ’ हे गौतम ! द्विविधबन्धः प्रज्ञप्तः, तद्यथा—प्रयोगबन्धश्च, विस्रसावन्धश्च, तत्र जीवप्रयोगकृतः प्रयोगबन्धः, स्वभावसम्पन्नो विस्रसावन्धोऽत्रसेयः—इत्याशयः ॥ सू० १ ॥

प्रकार का कहा गया है ? (गोयमा) हे गौतम ! (दुविहे व धे पण्णत्ते—तं जहा—पयोगवधे य, वीससा वंधे य) बंध दो प्रकार का कहा गया है ।

जैसे—एक प्रयोगबध, दूसरा विस्रसा वध—

टीका—आठवें उद्देशक के अन्त में सूर्य चन्द्र आदि ज्योतिष्कदेवों की वक्तव्यता प्ररूपित हुई हैं । यह वक्तव्यता वैश्वसिकी रूप होती है । इसलिये वैश्वसिक और प्रयोगबंध को प्रतिपादन करने की इच्छा से सूत्रकार ने इस नौवें उद्देशक का प्रारंभ किया है । इसमें गौतमने प्रभु से ऐसा पूछा है—(कइविहे णं भंते ! वधे पण्णत्ते) हे भदन्त ! पुद्गलादिविषयक सम्बन्धरूप बन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? इस के उत्तर में प्रभु कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! (दुविहे व धे पण्णत्ते) पुद्गलादिविषयक सम्बन्धरूप बंध दो प्रकार का कहा गया है—(तं जहा) जो इस प्रकार से है—(पयोगवधे य, वीससावंधे य) एक प्रयोगबन्ध, और दूसरा विस्रसावन्ध जीवके प्रयोगसे जो बंध होता है—वह प्रयोग बन्ध है, और जो बन्ध स्वभाव से होना है वह विस्रसावंध है ॥ सू० १ ॥

प्रकारना क्ख्या छे ? (गोयमा ! दुविहे व धे पण्णत्ते—त जहा—पयोगवधे य वीससावंधे य) हे गौतम ! जधना नीचे प्रमाणे जे प्रकार क्ख्या छे—(१) प्रयोग बध अने (२) विस्रसावंध

टीका—आठमा उद्देशकने अन्ते सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिष्क देवोनी वक्तव्यतानी प्ररूपणा करवामा आवी छे ते वक्तव्यता वैश्वसिकी डोय छे तेथी वैश्वसिक अने प्रयोगबधतु प्रतिपादन करवानी उपाधी सूत्रकारे आ नवमां उद्देशकने प्रारंभ कर्यो छे. गौतम स्वामी आ विषयने अनुलक्षीने भडावीर प्रभुने ओयो प्रश्न पूछे डे “ कइ विहेण भंते ! वधे पण्णत्ते ? ” हे भदन्त ! पुद्गलादिविषयक सम्बन्धरूप बंध कितने प्रकारने क्ख्या छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—(गोयमा !) हे गौतम ! (दुविहे व धे पण्णत्ते) पुद्गलादिविषयक सम्बन्धरूप बंध दो प्रकारने क्ख्या छे “ त जहा ” जे प्रकारे नीचे प्रमाणे छे—(पयोगवधे य, वीससावंधे य) (१) प्रयोगबंध अने (२) विस्रसावंध अन्तः प्रयोगधी जे बंध थाय छे, ते बंधने प्रयोग बंध क्ख्या छे. अने जे बंध स्वभावशी थाय छे, ते बंधने विस्रसाबंध क्ख्या छे. ॥ सू० १ ॥

विज्ञप्तापन्धवक्तव्यता ।

यथासक्यन्यायाधरणेन प्रथमं प्राप्तमपि प्रयोगार्थं परित्यज्य सूचीकृताह्न्यापं
पथाऽऽपत्तिपाय वा भाधित्य पथात्पठितमपि विज्ञप्तापन्धं प्ररूपयितु
प्रस्तौति—'वीससा षधे णं भते । इत्यादि ।

मूलम्—वीससावधे णं भते ! कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा !
दुविहे पण्णत्ते, त जहा—साइए वीससावधे, अणाइए वीससा
वधे य । अणाइए वीससावधे णं भते ! कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा !
तिविहे पण्णत्ते, त जहा—धम्मत्थिकाय अन्नमन्नअणाइय
वीससावधे, अधम्मत्थिकाय — अन्नमन्नअणाइयवीससावधे,
आगासत्थिकायअन्नमन्नअणाइयवीससावधे । धम्मत्थिकाय
अन्नमन्नअणाइयवीससावधे णं भते ! किं देसवधे, सव्व
वधे ? गोयमा ! देसवधे, नो सव्ववधे, एव चेव अधम्मत्थि
कायअन्नमन्नअणाइयवीससावधे वि, एवमागासत्थिकाय
अन्नमन्नअणाइयवीससावधे वि । धम्मत्थिकायअन्नमन्न
अणाइय वीससावधे णं भते ! कालओ केवच्चिर होइ ?
गोयमा ! सव्वद्धम्, एव अधम्मत्थिकाय, एव आगासत्थिकाय
साइयवीससावधे णं भते ! कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा !
तिविहे पण्णत्ते, त जहा—वधणपच्चइए, भायणपच्चइए,
परिणामपच्चइए । से किं त वधणपच्चइए ? ' वधण
पच्चइए जण्णपरमाणुपुग्गलानं दुपपसियाणं, सियपसियाणं,
जाव दसपपसियाणं, सखेज्जपपसियाणं, असखेज्जपपसियाणं,
अणंतपपसियाणं ग्वघाणं, वेमायनिद्धयाए वेमायलुक्ख
याए, वेमायनिद्धलुक्खयाए वधणपच्चए णं वध, तमुप्पज्जइ

जहन्नेण एकं समयं उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं, से तं वंधण-
पच्चइए, से किं तं भायणपच्चइए ? भाजणपच्चइए जणं जुञ्ज-
सुरा जुन्नगुल जुन्नतंदुलाणं भायणपच्चइए णं वंधे समुप्पज्जइ,
जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जं कालं, से तं भायण-
पच्चइए । से किं तं परिणामपच्चइए ? परिणामपच्चइए जणं
अवभाणं, अवभक्खलाणं जहा तइयसए जाव असोहाणं परि-
णामपच्चइए णं वंधे समुप्पज्जइ, जहण्णेणं एकं समयं,
उक्कोसेण छम्मासा, से तं परिणामपच्चइए, से तं साइय-
वीससावंधे, से तं वीससावंधे ॥ सू० २ ॥

छाया—विस्त्रसावन्धः खलु भदन्त ! कतिविधः प्रज्ञप्तः ? गौतम ! द्विविधः
प्रज्ञप्तः, तद्यथा—मादिको विस्त्रसावन्धः, अनादिको विस्त्रसावन्धश्च । अनादिको विस्त्र-
सावन्धः खलु भदन्त ! कतिविधः प्रज्ञप्तः ? गौतम ! त्रिविधः प्रज्ञप्तः तद्यथा—धर्मा-

विस्त्रसावन्धवक्तव्यता

‘ वीससावंधे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ?) इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(वीससावंधे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते) हे भदन्त विस्त्र-
सावंध कितने प्रकार का कहा है ? (गोयमा) हे गौतम ! (दुविहे पण-
त्ते) विस्त्रसावन्ध दो प्रकार का कहा गया है । (तं जहा) जो इस प्रकार
से हैं (साइयवीससावंधे, अणाइय वीससावंधे य) एक सादि विस्त्रसा
वंध और दूसरा अनादि विस्त्रसावंध (अणाइय वीससावंधे णं भंते !
कइविहे पण्णत्ते) हे भदन्त ! अनादिविस्त्रसावंध कितने प्रकार का कहा
गया है ? (गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते) हे गौतम ! अनादि विस्त्रसावंध

विस्त्रसावंधनी पक्षत्व्यता—

“ वीससा वंधे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ? ” इत्यादि—

सूत्रार्थ—(वीससा वंधे णं भंते ! कइ विहे पण्णत्ते ?) हे भदन्त !
विस्त्रसावंधना डेटला प्रकार कइया छे ? (गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते—तं जहा) हे
गौतम ! विस्त्रसावंधना नीचे प्रमाणे जे प्रकार कइया छे—(साइय वीससा वंधे,
अणाइ य, वीससा वंधे य) (१) सादि विस्त्रसा वंध अने (२) अनादि विस्त्रसा
वंध. (अणाइय वीससा वंधे णं भंते ! कइ विहे पण्णत्ते ?) हे भदन्त ! अनादि
विस्त्रसा वंधना डेटला प्रकार कइया छे ? (गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते—तं जहा)

स्विका योन्यानादिक्विस्त्रसायध, अधर्मास्तिकाया यो यानादिक्विस्त्रसायधः,
आकाशास्तिकायान्योन्यानादिक्विस्त्रसायधः, धर्मास्तिकायान्यो यानादिक्वि
स्त्रसायध खलु मद्दत्त ! किं दक्षयधः सर्वधन्यः ? गौतम ! देसवधः, न सर्व
धन्य, एव मेव अधर्मास्तिकायान्योन्यानादिक्विस्त्रसायधोऽपि, एवम् आकाशास्ति
कायान्योन्यानादिक्विस्त्रसायधोऽपि । धर्मास्तिकायान्यो यानादिक्विस्त्रसायधः

तीन प्रकार का कहा गया है। (त जहा) जो इस प्रकार से है (धम्म
स्विकाय अन्नमन्न अणाइय वीससायधे, अधम्मस्विकाय अन्नमन्न अणा
इय वीससायधे, आगामस्विकाय अन्नमन्न अणाइय वीससायधे)
धर्मास्तिकाय का अयोन्व अनादि विस्त्रसायध, अधर्मास्तिकाय का
अयोन्व अनादि विस्त्रसायध एव आकाशास्तिकाय अन्योन्य अनादि
विस्त्रसायध (धम्मस्विकाय अन्नमन्न अणाइय वीससायधे ण भवे । किं
देसवधे, सव्वधे) हे मद्दत्त ! धर्मास्तिकाय का अयोन्व अनादि विस्त्र
सायध देशधध रूप है या सर्वधध रूप है ? (गोयमा ! देसवधे, नो सव्व
धधे) हे गौतम ! धर्मास्तिकाय का अन्योन्य अनादि विस्त्रसायध देशधध
रूप है, सर्वधध रूप नहीं है। (एव येव अधम्मस्विकाय अन्नमन्न अणाइय
वीससायधे वि एवमागामस्विकाय अन्नमन्न अणाइय वीससायधे वि)
इसी तरह से अधर्मास्तिकाय का अयोन्व अनादि विस्त्रसायध भी
जानना चाहिये और आकाशास्तिकाय का अन्योन्य अनादि विस्त्रसायध

हे गौतम ! अनादि विस्त्रसायधना नीधे प्रभावे तज्जु प्रकार ठह
छे— (धम्मस्विकाय अन्नमन्न अणाइय वीससायध अधम्मस्विकाय अन्नमन्न अणा
इय वीससायधे, आगामस्विकाय अन्नमन्न अणाइय वीससायधे) (१) धर्मा
स्तिकायने अ योन्व अनादि विस्त्रसायध, (२) अधर्मास्तिकायने अ योन्व
अनादि विस्त्रसायध अने (३) आकाशास्तिकायने अ योन्व अनादि विस्त्रसायध
(धम्मस्विकाय अन्नमन्न अणाइय वीससायधे ण भवे । किं देसवधे सव्वधधे ?)
हे मद्दत्त ! धर्मास्तिकायने अ योन्व अनादि विस्त्रसायध देशधध रूप छे हे
सव्वधध रूप छे ? (गोयमा ! देसवधे, नो सव्वधधे) हे गौतम ! धर्मास्ति
कायने अ योन्व अनादि विस्त्रसायध देशधध रूप छे सव्वधध रूप नहीं
(एव येव अधम्मस्विकाय अन्नमन्न अणाइय वीससायधे वि एवमागामस्विकाय
अन्नमन्न अणाइय वीससायधे वि) अ / प्रभावे अधर्मास्तिकायने अ योन्व
अनादि विस्त्रसायध विरे तज्जु समज्जु आकाशास्तिकायने अ योन्व अनादि
विस्त्रसायध विरे तज्जु अज्जु प्रभावे अधधधु (धम्मस्विकाय अन्नमन्न अणा

खलु भदन्त ! कालतः कियच्चिरं भवति?, गौतम ! सर्वाद्दाम् । एवम् अधर्मास्तिकायः, एवम् आकाशास्तिकायः, सादिकविश्वसाम्बन्धः खलु भदन्त ! कतिविधः प्रज्ञप्तः ? गौतम ! त्रिविधः प्रज्ञप्तः, तद्यथा-बन्धप्रत्ययिकं, भाजनप्रत्ययिकं, परिणामप्रत्ययिकम् । तत् किं तत् बन्धनप्रत्ययिकम्, बन्धनप्रत्ययिकं, यत् खलु परमाणुपुद्गलानां द्विप्रदेशिकानां त्रिप्रदेशिकानां, यावत् दशप्रदेशि-

भी । (धम्मत्थिकायअन्नमन्नअणाइयवीससावधे णं भन्ते ! कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ! धर्मास्तिकायका अन्योन्य अनादि विश्वसा बंध काल की अपेक्षा से कबतक रहता है ? (गोयमा ! सव्वद्धं) हे गौतम ! यह बंध काल की अपेक्षा से सर्वकाल रहता है । (एवं अधम्मत्थिकाए, एवं आगासत्थिकाए) इसी तरह से अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय का अन्योन्य अनादि विश्वसा बंध जानना चाहिये । (साइयवीससा वधे णं भन्ते ! कइविहे पणत्ते ?) हे भदन्त ! सादि विश्वसावध कितने प्रकार का कहा गया है ? (गोयमा) हे गौतम ! (तिविहे पणत्ते) सादि विश्वसाबंध तीन प्रकार का कहा गया है । (तं जहा) जो इस प्रकारसे है-(बंधणपच्चइए, भायणपच्चइए, परिणामपच्चइए) बंधनप्रत्ययिक, भाजनप्रत्ययिक, परिणामप्रत्ययिक (से किं तं बंधणपच्चइए) हे भदन्त ! वह बन्धनप्रत्ययिक सादिवन्ध क्या है ? (गोयमा) हे गौतम ! (बंधणपच्चइए जन्नं परमाणुपोग्गला दुपएसिया

इय वीससा वधे ण भन्ते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?) हे भदन्त ! धर्मास्तिकायने अन्योन्य अनादि विश्वसा अध काणनी अपेक्षाओ डेटला समय सुधी रडे छे ? (गोयमा ! सव्वद्धं) हे गौतम ! ते अधकाणनी अपेक्षाओ सर्वकाण रडे छे । (एवं अधम्मत्थिकाए एवं आगासत्थिकाए) ओए प्रमाणे अधर्मास्तिकाय अने अने आकाशास्तिकायना अन्योन्य अनादि अधना काणना विषयमा पणु समणु । (साइयविससावधे णं भन्ते ! कइविहे पणत्ते ?) हे भदन्त ! सादि विश्वसावध डेटला प्रकारने कइओ छे ?

(गोयमा ! तिविहे पणत्ते-तंजहा) हे गौतम ! सादि विश्वसा अधना नीये प्रमाणे त्रणु प्रकार कइओ छे—(बंधण पच्चइए, भायणपच्चइए, परिणाम पच्चइए) (१) अधन प्रत्ययिक, (२) भाजन प्रत्ययिक अने (३) परिणाम प्रत्ययिक । (से किं तं बंधणपच्चइए) हे भदन्त ! अधनप्रत्ययिक सादि अधतुं स्वइए डेवुं डोय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (बंधण पच्चइए जन्नं परमाणु पोग्गला दुपएसिया तपएसिया जाव दसपएसिया संखेजपएसिया असंखे-

कानां, सखपातप्रदेशिकानाम् प्रतंस्य तथदेशिकानाम् अनन्तप्रदेशिकानां स्वरूपानां विमाप्रस्निग्धतया, विमाप्ररुग्धतया विमाप्रस्निग्धरुग्धतया यद्यनप्रत्ययिकेन खलु यच्च समुत्पद्यत जययन एक समयम् उत्कर्षेण असख्येयं कालम्, तदेतन् यद्यनप्रत्ययिकम्, अयं किं तत् माजनप्रत्ययिकम् ? माजनप्रत्ययिकं यत् खलु जीर्णपुरा जीर्णगुह-जीणतण्डुलानां माजनप्रत्ययिकेन यच्च खलु समुत्पद्यत जययनेन

तिपएसिया जात्र दनपएसिया सखेज्जपएसिया असखेज्जपएसिया अण तपएसियाण खघाण वेमाया निद्वयाए, वेमायलुक्खए, वेमायनिद्वल्ल कखयाए यंघणपच्छइएणं यंचे समुत्पज्जइ) परमाणु द्विप्रदेशिक, त्रिप्रदेशिक, यावत् द्वाप्रदेशिक, सखपातप्रदेशिक, असखपातप्रदेशिक और अनन्तप्रदेशिक परमाणु पुद्गलो स्फूर्धो का विषम स्निग्धता के द्वारा, विषम मरुत्ताके द्वारा, एव स्निग्धतारुग्धताके द्वारा यद्यनप्रत्ययिकं यच्च होता है (जहन्नेणं एव समयं उल्लोसेण असखेज्ज काल-से तं यंघणपच्छइए) यह यद्यनप्रत्ययिकं यच्च जययन से एक समय तक और उत्कृष्ट से असखपात कालतक रहता है। इस तरह से यह यद्यनप्रत्ययिकं यच्च है। (से किं तं मायणपच्छइए) हे भदन्त ! यह माजनप्रत्ययिकं यच्च क्या है ? (मायणपच्छइए जणं जुम सुरा जुम गुल्लुत्ततुलाणं मायणपच्छइएणं यंचे समुत्पज्जइ) एक माजन में रम्बी हुई पुरानी मदिरा का पुराने गुड़ का और पुराने चावलों का जो एक पिण्ड बन जाता है यह माजन

रुग्धपएसिया अण तपएसियाण खघाण वेमाया निद्वयाए वेमायलुक्खयाए वेमाय निद्वल्लकखयाए यंघणपच्छइएणं यंचे समुत्पज्जइ) द्विप्रदेशिक त्रिप्रदेशिक, इध प्रदेशिक यद्यनानां सख्यात् प्रदेशिक असख्यात् प्रदेशिक अने अनन्त प्रदेशिक परमाणु पुद्गल स्फूर्धो विषम स्निग्धता द्वारा, विषम रुग्धता द्वारा अने विषम स्निग्धता रुग्धता द्वारा यद्यन प्रत्ययिकं यच्च यावत् है (जहन्नेणं एक समय, उल्लोसेणं असखेज्ज काल-से तं यंघणपच्छइए) ते यद्यन प्रत्ययिकं यच्च लोछाभां लोछे लोके समयं सुधी अने वधारेभां वधारे असख्यात् काण सुधी रहे छे यद्यन प्रत्ययिकं यच्चनु आवु स्वइए छे

(से किं तं मायणपच्छइए) हे भदन्त ! माजन प्रत्ययिकं यच्च तं तं स्वइए यावत् छे ? (मायणपच्छइए जणं जुम सुरा जुम गुल्लुत्ततुलाणं मायणपच्छइएणं यंचे समुत्पज्जइ) लोके पात्रभां शशी भूकेत्ता लुनी भदिसानो लुना जेणानो अने लुना योणानो ने लोके पिकं लनी जय छे, तेनुं नाम माजन प्रत्ययिकं

અન્તર્મુહૂર્તમ્, ઉત્કર્ષેણ સંખ્યેય કાલમ્, તદેતત્ ભાજનપ્રત્યયિકમ્, અથ કિં તત્ પરિણામપ્રત્યયિકમ્ ? પરિણામપ્રત્યયિકં યત્ સ્વલુ અભ્રાણામ્ અભ્રવૃક્ષાણામ્ યથા તૃતીયશતકે યાવત્ અમોઘાનાં પરિણામપ્રત્યયિકઃ સ્વલુ બન્ધઃ સમુત્પદ્યને, જઘન્યેન એકં સમયમ્ ઉત્કર્ષેણ પદ્મામાઃ, તદેતત્ પરિણામપ્રત્યયિકમ્, સ એપ્ સાદિક-વિસ્રસાવન્ધઃ, સ એપ્ વિસ્રસાવન્ધઃ ॥ સૂ૦ ૨ ॥

પ્રત્યયિક બંધ છે. (જહન્નેણં અંતો મુહુત્તં ઉત્કોસેણં સંલેજ્જં કાલં) યહ બંધ જઘન્ય સે એક અન્તર્મુહૂર્ત ઓર ઉત્કૃષ્ટ સે સંખ્યાત કાલતક રહના છે. (સે ત્તં આયણપચ્ચહૈ) ઇસ તરહસે યહ ભાજનપ્રત્યયિક બધ છે. (સે કિં તં પરિણામપચ્ચહૈ) હે ભદન્ત ! વહ પરિણામ પ્રત્યયિક બંધ કયા છે ? (પરિણામપચ્ચહૈ જન્નં અઠ્ઠાણં અઠ્ઠમરુક્ષાણં જહા તતિયસૈ જાવ અમોહાણં પરિણામપચ્ચહૈણં વધે સમુપ્જજહ-જહ્ણેણં એકં સમયં ઉત્કોસેણં છમ્માસા-સે ત્તં પરિણામપચ્ચહૈ-સે ત્તં સાહ્ય વીસસા બધે -સે ત્તં વીસસા બધે) મેઘોં કા, અભ્રવૃક્ષો-વૃક્ષાકાર મેઘોં કા, જૈસા તૃતીયશતક સેં કહા ગયા છે યાવત્ અમોઘોં કા પરિણામપ્રત્યયિક બન્ધ ઉત્પન્ન હોતા છે. યહ બધ જઘન્ય સે એક સમય તક ઓર ઉત્કૃષ્ટ સે હહ માસતક રહતા છે. ઇસ તરહ સે યહ પરિણામપ્રત્યયિક બધ કહા ગયા છે. ઇસ ભેદ કથન સે સાદિવિસ્રસા બધ ઓર વિસ્રસાવધ કથિત હો જાતા છે.

બંધ છે (જહ્ણેણં અંતોમુહુત્તં ઉત્કોસેણં સંલેજ્જં કાલં) આ બંધ ઓછામાં ઓછો એક અન્તર્મુહૂર્ત સુધી અને વધારેમાં વધારે સખ્યાત કાળ સુધી રહે છે (સે ત્તં આયણપચ્ચહૈ) ભાજન પ્રત્યયિક બધનુ એ પ્રકારનું સ્વરૂપ છે (સે કિં તં પરિણામપચ્ચહૈ) હે ભદન્ત ! પરિણામ પ્રત્યયિક બધનું કેવું સ્વરૂપ છે ? (પરિણામપચ્ચહૈ જન્નં અઠ્ઠાણં અઠ્ઠમરુક્ષાણં જહા તતિયસૈ જાવ અમોહાણં પરિણામપચ્ચહૈણં વધે સમુપ્જજહ-જહ્ણેણં એકં સમયં, ઉત્કોસેણં છમ્માસા-સે ત્તં પરિણામ પચ્ચહૈ-સે ત્તં સાહ્ય વીસસા બધે-સે ત્તં વીસસા બધે) મેઘોનો, અભ્રવૃક્ષોનો (વૃક્ષાકારે દેખાતા મેઘોનો), ત્રીજા શતકમાં કદા પ્રમાણે યાવત્ અમેઘોનો પરિણામ પ્રત્યયિક બધ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બધ ઓછામાં ઓછો એક સમય સુધી અને વધારેમાં વધારે છ માસ સુધી રહે છે. પરિણામ પ્રત્યયિક બધનું સ્વરૂપ આ પ્રકારનું છે આ પ્રમાણે ભેદોનું કથન કરવાથી સાદિ વિસ્રસાબધ અને વિસ્રસાવધનું કથન થઈ જાય છે

टीका—'वीससाव घेण भते ! कइविहे पणसे?' गौतम पृच्छति-हे मयन्त !
 विस्रसावघ विस्रसाया स्वभावेन सम्पन्नो यः यः विस्रसायन्धः स्वच्छ कतिविधः
 मयन्त ? मगवानाह—'गोयमा ! दुविहे पणसे ' हे गौतम ! विस्रसायन्धो द्विविधः
 मयन्त , ' त जहा—साइपविस्रसावघे, अणाइप वीससावघे य ' तथा—सादिक
 विस्रसावघः, अनादिक विस्रसावघश्च, तत्र आदिना सद्धिः सादिको विस्रसायन्धो
 व्यपदिश्यते, आदिना रद्धितोऽनादिको विस्रसावघ उच्यते, गौतमः पृच्छति-

टीकार्थ—यथासंख्यन्याय को आश्रय करके सूत्रकार को प्रथमप्राप्त
 प्रयोगवच का कथन करना चाहिये था-पर ऐसा न करके जो सूत्रकार ने
 पश्चात् पठित मी विस्रसा वघ का कथन किया है वह सूचीकटाइन्याय
 को आश्रित करके किया है। इसमें गौतम ने प्रश्न से ऐसा पूछा है-
 (वीससा वघे ण भते ! कइविहे पणसे) हे मयन्त ! विस्रसावघ
 किन्ने प्रकार का कहा गया है ? जो यः स्वभाव से होता है-वह
 विस्रसावघ है। इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं-' गोयमा ' हे गौतम !
 (दुविहे पणसे) विस्रसावघ दो प्रकार का कहा गया है (त जहा) जो
 इस प्रकार से हैं-(साइययिमसावघे, अणाइपविस्रसावघे य) एक
 सादिक विस्रसावघ और दूसरा अनादिक विस्रसावघ जो स्वभाविक
 वघ विस्रसावघ आदिनहित होता है-यह सादिकविस्रसावघ है।
 प्रारम्भरहित जो वघ है-वह अनादिकविस्रसा वघ है। अथ गौतमस्यामी

टीकार्थ—यथासंख्यन्यायने आश्रय लधने सूत्रकारे पठेवा प्रथमप्राप्त
 निरूपण करतुं लोभतुं चतुं पण जेवु न करता सूत्रकारे ने विस्रसावघतुं
 निरूपण करुं छे ते सूचीकटाइ न्यायने आश्रित करीने करवायां आ युं छे
 तेमा गौतम स्वामी मद्भावीर प्रभुने जेवो प्रश्न पूछे छे छे—

(वीससावघे ण भते ! कइ विहे पणसे ?) हे मयन्त ! विस्रसा वघ
 कइसा प्रकारने कह्यो छे ? (ने वघ स्वभावधी थाय छे ते लधने
 विस्रसा वघ कहे छे)

मद्भावीर प्रभुने उत्तर— ' गोयमा ! " हे गौतम ! (दुविह पणसे)
 विस्रसा वघना के प्रकार कहा छे त जहा ते प्रकार नीचे प्रभावे छे-
 (साइप विस्रसावघे अणाइपविस्रसा वघ य) (१) सादिक विस्रसा वघ
 अने (२) अनादिक विस्रसा वघ ने स्वभाविक वघ (विस्रसा वघ) आदि
 मदिन हाय छे तेने सादिक विस्रसा वघ कहे छे प्रारम्भ रहित ने वघ
 छ तने अनादिक विस्रसा वघ कहे छे

‘अणाइयवीससावधे णं भंते ! कइविहे पणत्ते ?’ हे भदन्त ! अनादिकविस्त्रसावन्धः
 खलु कतिविधः प्रज्ञप्तः, भगवानाह—‘गोयमा ! तिविहे पणत्ते ’ हे गौतम ! अना-
 दिकविस्त्रसावन्धस्त्रिविधः प्रज्ञप्तः, ‘ त जहा —धम्मत्थिकायअन्नमन्नअणाइय-
 वीससावधे, ’ तद्यथा—धर्मास्तिकायान्योन्यानादिकविस्त्रसावन्धः, धर्मास्तिकायस्य
 अन्योन्यं प्रदेशानां परस्परेण यः अनादिको विस्त्रसावन्धः स धर्मास्तिकायान्यो-
 न्यानादिकविस्त्रसावन्धः, ‘ अधम्मत्थिकाय अन्नमन्नअणाइयवीससावधे ’ अधर्मा-

प्रभु से ऐसा पूछते हैं (अणाइय वीससावधे णं भंते ! कइविहे पणत्ते)
 हे भदन्त ! जो अनादिकविस्त्रसावध होता है वह कितने प्रकार का कहा
 गया है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा !) हे गौतम ! (तिविहे
 पणत्ते) अनादिकविस्त्रसावध तीन प्रकार का कहा गया है । (तं जहा)
 जो इस प्रकार से है—(धम्मत्थिकाय अन्नमन्न अणादीय वीससावधे)
 धर्मास्तिकाय अन्योन्यादिक विस्त्रसावध—धर्मास्तिकाय के प्रदेशों का
 जो परस्पर में अनादिकाल से स्वाभाविक बंध हो रहा है—वह धर्मास्ति-
 काय अन्योन्यादिकविस्त्रसावध है । यह तो प्रकट ही किया जा चुका
 है कि जो बंध स्वाभाविक जीव के प्रयोग विना होता है वह स्वाभा-
 विक बंध—विस्त्रसावध है । धर्मास्तिकाय के प्रदेशों का जो बंध परस्पर
 में चला आ रहा है वह जीव प्रयोगकृत नहीं है—वह तो अनादिकाल
 से ही ऐसा हुआ है—अतः धर्मास्तिकाय के प्रदेशों के इस प्रकार के
 परस्पर बंध को अनादि कालसे स्वाभाविक होने के कारण धर्मास्ति-

गौतम स्वामीने प्रश्न—(अणाइय वीससावधे णं भंते ! कइविहे पणत्ते ?)
 हे भदन्त ! ने अनादि विस्त्रसावध छे, तेना डेटला प्रकार कइया छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (तिविहे पणत्ते)
 अनादि विस्त्रसावध त्रणु प्रकारने डोय छे. ‘ तजहा ” ने प्रकारे नीये
 प्रमाणे छे—(धम्मत्थिकायअन्नमन्नअणादीयवीससावधे) धर्मास्तिकाय अन्यो-
 न्यानादिक विस्त्रसावध धर्मास्तिकायना प्रदेशाने ने परस्परमा अनादि
 डणथी स्वाभाविक बंध थरु रह्यो डोय छे, तेने धर्मास्तिकाय अन्योन्यानादिक
 विस्त्रसावध कडे छे जे वात तो पडेला प्रकट करवामा आवी युद्धी छे डे
 ने बंध जवना प्रयोग विना स्वाभाविक रीते न थाय छे, ते स्वाभाविक
 बंधने विस्त्रसावध कडे छे धर्मास्तिकायना प्रदेशाने ने बंध परस्परमा
 आव्यो आवे छे ते जव प्रयोगकृत छेतो नथी, ते तो अनादि डणथी न
 जेधु जनेलु छे. तेथी धर्मास्तिकायना प्रदेशाना आ प्रकारे परस्पर बंधने
 अनादि डणथी स्वाभाविक डोवाने डारणे “ धर्मास्तिकाय अन्योन्य अनादिक

સ્તિકાયાસ્ય અપોન્ય પ્રદેશાનાં પરસ્પરેણ યોડનાદિકો વિભ્રસાવધઃ સોઽધર્માસ્તિકાયાન્યોન્યાનાદિકવિભ્રસાવધઃ, 'આગામત્થિકાય અન્નમન્ન અણાદીયવીસસાવધે' આકાશાસ્તિકાયાસ્ય અન્યોન્ય પ્રદેશાનાં પરસ્પરેણ ય અનાદિકો વિભ્રસાવધઃ સ આકાશાસ્તિકાયાન્યોન્યાનાદિકવિભ્રસાવધઃ । ગૌતમઃ પૃષ્ઠતિ- ' ધમ્મત્થિકાય અન્નમન્ન અણાદીયવીસસાવધે ણ મંતે ! કિં વેસવધે, સમ્બવધે ? ' હે મદન્ત ! ધર્માસ્તિકાયામ્યોન્યાનાદિકવિભ્રસાવધઃ સ્વહુ કિં વેશવધા મવતિ ? વેશાપેક્ષયા બન્નો વેશવધઃ, યથા કટ્ટે સર્જૂરપપ્રાદીનાં સયોજનમ્ ? કિમ્વા સર્વવધો મવતિ ? સર્વો

કાય અન્યોન્યાનાદિક વિભ્રસાવધ કહા ગયા છે । (અધમ્મત્થિકાય અન્નમન્નઅણાદીયવીસસાવધે) દુસરા ૨ અધર્માસ્તિકાય અન્યોન્યાનાદિકવિભ્રસાવધ ઓર તીસરા(આગામત્થિકાય અન્નમન્ન અણાદીયવીસસાવધે) આકાશાસ્તિકાય અપોન્યાનાદિકવિભ્રસાવધ । અથ ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન સે યેમા પૂછસે છે—(ધમ્મત્થિકાય અન્નમન્ન અણાદીયવીસસાવધે ણ મંતે ! વેસવધે, સમ્બવધે) હે મદન્ત ! ધર્માસ્તિકાય અન્યોનાદિક વિભ્રસાવધ કયા વેશવધરૂપ હોતા છે, યા સર્વવધરૂપ હોતા છે । કટ્ટ વડાઈ મેં જિસ પ્રકાર સે જ્વરૂર કે પશુવિકોં કા સયોજન-સવધ હોમા છે વહ વેશવધ છે—વહ વેશવધ-સર્વ આગોં મેં નહીં હોતા છે કુહ ૨ આગોં મેં હોતા છે—इसलिये इसे वेशापेक्ष होने से वेशवध कहा गया है । नीर और क्षीर के वध की तरह जो वध होता है वह सर्ववध है । यह वध सर्वात्मा से होता है । इस वध में परस्पर में पशुओं का आपस में

વિભ્રસાવધ' કહેવામાં આવ્યો છે । (અધમ્મત્થિકાય અન્નમન્નઅણાદીયવીસસાવધ) અનાદિક વિભ્રસાવધનો બીજો પ્રકાર અધર્માસ્તિકાય અન્યોન્યાનાદિક વિભ્રસાવધ છે અને ત્રીજો પ્રકાર (આગામત્થિકાય અન્નમન્ન અણાદીયવીસસાવધે) આકાશાસ્તિકાય અન્યોન્યાનાદિક વિભ્રસાવધ છે ।

ગૌતમ સ્વામીનો પ્રશ્ન— ' ધમ્મત્થિકાય અન્નમન્ન અણાદીયવીસસાવધે ણ મંતે ! કિં વેસવધે, સમ્બવધે ? ' હે મદન્ત ! ધર્માસ્તિકાય અન્યોન્યાનાદિક વિભ્રસાવધ શુ વેશવધ રૂપ હોય છે, કે સર્વવધ રૂપ હોય છે ? અટ્ટાઈમાં જે રીતે જ્વરૂરના પાન આદિનુ સયોજન થાય છે, તે સયોજન (સવધ) વેશવધ રૂપ હોય છે આ વેશવધ સર્વ આજોમાં થતો નથી, પણ કાઈ કાઈ આજોમાં થાય છે આ રીતે તે વધ વેશાપેક્ષ હોવાથી તેને વેશવધ કહ્યો છે નીર અને ક્ષીરના વધ જેવો જે વધ હોય છે તેને સર્વવધ કહ્યો છે આ વધ સર્વાત્માથી થાય છે આ વધમાં પશુઓનુ પરસ્પરમા સંબંધવધ વધ છે ।

त्मना वन्धः सर्ववन्धो यथानीरक्षीरयोर्वन्धः परस्परमिश्रणम्? , भगवानाह—'गोयमा ! देशवन्धे, नो सव्ववन्धे ' हे गौतम ! धर्मास्तिकायस्य प्रदेशानां परस्परसंस्पर्शेन व्यवस्थितत्वाद्देशवन्ध एव, न पुनः सर्ववन्धः, तत्र हि एकस्य प्रदेशस्य प्रदेशान्तरैः सर्वथा वन्धे अन्योन्यान्तर्भावेन एकप्रदेशत्वमेव स्यात् नासंख्येयप्रदेशत्वमिति भावः, ' एवं चेव अधम्मत्थिकायअन्नमन्नअणाइयवीससावधे वि ' एवमुक्तरीत्या चैव अधर्मास्तिकायान्योन्यानादिकविस्त्रसावन्धेऽपि देशवन्ध एव भवति, नो सर्ववन्धः,

सम्मिश्रण हो जाता है। उत्तर में प्रभु कहते हैं (देशवन्धे, नो सव्ववन्धे) हे गौतम !—धर्मास्तिकाय अन्योन्यानादिक विस्त्रसावन्धमें देशवन्ध होता है, सर्ववन्ध नहीं होता है। क्यों कि धर्मास्तिकाय के प्रदेश आपस में एक दूसरे प्रदेश को स्पर्श करके व्यवस्थित रहते हैं। इसलिये धर्मास्तिकाय में जो प्रदेशों का अन्योन्य वन्ध माना गया है वह देशवन्ध रूप ही माना गया है। यदि इन प्रदेशों का वन्ध उसमें सर्ववन्धरूप माना जावे तो ऐसी स्थिति में जितने भी प्रदेश उस धर्मास्तिकाय में हैं वे सब आपस में एक दूसरे में सर्वथा अन्तर्भूत हो जाने के कारण उन प्रदेशों में एकरूपता के आजाने के कारण एक प्रदेशता ही आवेगी अतः धर्मद्रव्य में जो सिद्धान्तकारों ने असख्यात प्रदेशता कही है वह नहीं बन सकेगी। (एवं चेव अधम्मत्थिकाय अन्नमन्न अणादीय वीससावन्धे वि) इसी तरह से अधर्मास्तिकाय अन्योन्यानादिक विस्त्रसा वन्ध में भी देशवन्ध ही होता है, सर्ववन्ध नहीं होता है। (एवमागासत्थिकाय अन्नमन्न

गौतम स्वामीना प्रश्नने उत्तर आपना भडावीर प्रभु कडे छे—“ देश वधे, नो सव्ववन्धे ” हे गौतम ! धर्मास्तिकाय अन्योन्यादिक विस्त्रसा अधर्मां देशवन्ध थाय छे, सर्ववन्ध थतो नथी, कारणे के धर्मास्तिकायना प्रदेशो परस्पर ऐक भीज प्रदेशने स्पर्श करीने व्यवस्थित रहे छे तेथी धर्मास्तिकायमां ने प्रदेशोना अन्योन्य अध मानवामा आव्यो छे, ते देशवन्ध इपे न मानवामा आव्यो छे जे तेमा ते प्रदेशोना अध सर्ववन्ध इपे मानवामा आवे तो ते धर्मास्तिकायमां नेटला प्रदेशो छाय ते अधा प्रदेशो अरस्परस—ऐकभीजनी साथे सर्वथा अन्तर्भूत थथे नवाने कारणे ते प्रदेशोमां ऐकइपता आवी नवाने लीधे ऐक प्रदेशता न आवी नथे तेथी ऐवी परिस्थिति जली थथे के धर्मद्रव्यमा सिद्धांतकारोने ने असख्यात प्रदेशता कडी छे, ते सबवी शकथे नडीं।

(एवं चेव अधम्मत्थिकाय अन्नमन्नअणादीयवीससावधे वि) ऐन प्रभाणे अधर्मास्तिकाय अन्योन्यानादिक विस्त्रसा अधर्मां पणु देशवन्ध न थाय

‘एवमागासत्थिकाय अक्षममअणादीपयीमसाय धे वि’ एवमुक्तीत्यैव आकाशास्त्रिकाया योन्यानादिकविस्रसायन्वोऽपि देशस्य एव भवति, नो सर्वत्रयः इति भावः, गौतम पुच्छति-‘धम्मत्थिकाय अक्षममअणादीपयीससाय धे ण मते ! कालो केवच्चिरं होइ ?’ हे भवन्त ! धर्मास्त्रिकायान्यो यानादिकविस्रसाय ष सल्ल कालो कालापसया कियच्चिरं भवति?, अगतानाह-‘गायमा ! सव्वद्द’ हे गौतम ! धर्मास्त्रिकाया यो यानादिकविस्रसायन्व ? कालापसया सर्वादां सर्वकालं मपयीत्यर्थः ‘एव अक्षमत्थिकाए, एइं आगासत्थिकाए’ एरम् उक्तीत्यैव अक्षमोस्त्रिकायान्योन्यानादिकविस्रसाय षोऽपि कालापसया सर्वकाल भवति, एवं तथैव आकाशास्त्रिकायान्यो यानादिकविस्रसाय षोऽपि कालापसया सर्वकाल भवति । गौतमः पुच्छति-‘साइयवीससाय धे ण मते ! कइदिहे पण्णत्ते ?’ हे भवन्त !

अणादीपयीससाय धे वि) और इसी तरह से-उक्तीति के अनुसार आकाशास्त्रिकाय अ-यो-यानादिक विस्रसाय ध में भी देशत्रय ही होता है, सर्वत्रय नहीं होता है। अब गौतमस्वामी प्रश्न से पूछते हैं-(धम्मत्थिकाय अक्षमम अणादीपयीससाय धे ण मते ! कालो केवच्चिरं होइ) हे भवन्त ! धर्मास्त्रिकाय अन्यो-यानादिक विस्रसाय ष काल की अपेक्षा कथतक रहता है ? उत्तर में प्रश्न कहते हैं (सव्वद्द) हे गौतम ! धर्मास्त्रिकाय अन्यो-यानादिक विस्रसाय ष काल की अपेक्षासे सब काल कहता है। (अक्षमत्थिकाए एव आगासत्थिकाए) इसी तरह से अक्षमोस्त्रिकाय अ-यो-यानादिकविस्रसाय ष सपकाल रहता है-आकाशास्त्रिकाय अन्यो-यानादिक विस्रसाय ध में कालकी अपेक्षा सर्वकाल रहता है। अब गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं (साइय विससाय धे ण

छे-सबत्रय धतो नथी एवमागासत्थिकाय अक्षममअणादीपयिससाय धे वि” अने जेए प्रभावे आकाशास्त्रिकाय अ योन्यानादिक विस्रसाय षधर्माय पण्ण देशत्रय एव साय छे सबत्रय धतो नथी.

हे गौतम स्वामी भद्राचरि प्रश्नने जेवे प्रश्न पूछे छे क “धम्मत्थिकाय अक्षममअणादीपयीससाय धे ण मते ! कालो केवच्चिरं होइ ?” छे भवन्त ! धर्मास्त्रिकाय अन्यो-यानादिक विस्रसाय ष कालनी अपेक्षाजे कथां सुधी रहै छे ? भद्राचरि प्रश्नने उत्तर-“सव्वद्द” छे गौतम ! धर्मास्त्रिकाय अन्यो-यानादिक विस्रसाय ष कालनी अपेक्षाजे सबकाल रहै छे “अक्षमत्थिकाए एव आगासत्थिकाए” जे / प्रभावे अक्षमोस्त्रिकाय अ योन्यानादिक विस्रसाय ष पण्ण कालनी अपेक्षाजे सर्वकाल रहै छे

सादिकविस्रसावन्धः खलु आदिना सहितः सादिको यो विस्रसावन्धः स तथा, कतिविधः प्रज्ञप्तः ? भगवानाह—‘ गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते ’ हे गौतम ! सादिक विस्रसावन्धस्त्रिविध प्रज्ञप्तः, ‘ तं जहा-बंधण पच्चइए, भायणपच्चइए, परिणाम-पच्चइए ’ तद्यथा—वन्धप्रत्ययिकः, भाजनप्रत्ययिकः, परिणामप्रत्ययिकश्च, तत्र वध्यतेऽनेनेति वन्धन विवक्षितस्निग्धतादिको गुणः स एव प्रत्ययो हेतुर्यत्र स वन्धन प्रत्ययिकः, एवं भाजनमाधारः प्रत्ययो यत्र स भाजनप्रत्ययिकः, तथैव परिणामो रूपान्तरप्राप्तिः प्रत्ययो यत्र स परिणामप्रत्ययिकः इति भावः, गौतमः पृच्छति—

भंते । कइविहे पण्णत्ते) हे भदन्त ! सादिकविस्रसावंध कितने प्रकार का कहा गया है । इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (तिविहे पण्णत्ते) सादिक विस्रसावंध तीन प्रकार का कहा गया है । (तं जहा) जो इस प्रकार से है—(बंधणपच्चइए, भायणपच्चइए परिणामपच्चइए) वधनप्रत्ययिक, भाजनप्रत्ययिक और परिणामप्रत्ययिक (वध्यते अनेन इति बंधन) इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसके द्वारा बांधा जाय वह बंधन है ऐसा वधन विवक्षित स्निग्धता आदिगुण होता है । वही जिस बंध में हेतु होता है वह बंधनप्रत्ययिक सादिक विस्रसावंध है । भाजन नाम आधार का है । यह आधार जिस बंध में हेतु-कारण होता है वह भाजनप्रत्ययिक सादिक विस्रसावंध है । रूपान्तर प्राप्ति का नाम परिणाम है । यह परिणामान्तरप्राप्ति जिस सादिक विस्रसावंध में हेतु होती है वह परिणामप्रत्ययिक सादिक विस्रसावंध है । अब गौतम

गौतम स्वाभीना प्रश्न—(साइय वीससा व वे ण भते ! कइविहे पण्णत्ते ?)

हे भदन्त ! सादिक विस्रसा अंध डेटला प्रकारनो कह्यो छे ?

महावीर प्रभुनेो उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतमा ! “ तिविहे पण्णत्ते वंजहा ” सादिक विस्रसा अंधना नीचे प्रमाणे त्रयु प्रकार छे—(वधणपच्चइए भायणपच्चइए, परिणामपच्चइए,) (१) अधन प्रत्ययिक, लाजन प्रत्ययिक अने (२) परिणाम प्रत्ययिक.

(वध्यते अनेन इति वन्धनं) आ व्युत्पत्ति प्रमाणे नेना द्वारा अध-वामा आवे ते अधन छे, अेषु अधन णेसु अगण करवामां आवशे ते स्निग्धता आदि गुणो छे ते गुणो ञ् णे अधना कारणरूप डोय छे, ते अधने अधन प्रत्ययिक सादिक विस्रसा अध कडे छे लाजन अेटले आधार आ आधार णे अधमां कारणरूप डोय छे, तेने लाजन प्रत्ययिक सादिक विस्रसा अंध कडे छे. परिणाम अेटले रूपान्तर प्राप्ति. ते परिणामान्तर

‘સે કિં સં વંધનપચ્ચદ્વૈ ?’ હ મદન્ત ! અય કિં સ વંધનપત્યયિક સાદિ વચ ઉચ્ચસે? મગધાનાહ—‘વંધનપચ્ચદ્વૈ જ જ પરમાણુપુમાલાણં દુપવસિયાણ, તિપવસિયાણં જાવ દસપવસિયાણં સલ્લેજ્જપવસિયાણ, અણતપવસિયાણ મંતે! સ્વમાણં’ હે ગૌતમ ! વંધનપત્યયિક સાદિવચ — યત્ સ્વલ્લ પરમાણુપુત્રલાના ટિપવેત્તિકાનાં, ત્રિપ્રદેશિકાનાં યાચ્ચત્ત્વત્તુઃપચ્ચપટ્સપ્પાટ નવરૂપવેશિકાનામ્ ‘સલ્લપયમવેશિકાનામ્’, અસમ્યયમવેશિકાનામ્ અનન્તવેશિકાનાં સ્કન્ધાનામ્ ‘વેમાયનિદ્ધયાણ, વેમાયલ્લુક્કયાણ, વેમાયનિદ્ધલુક્કયાણ વંધનપચ્ચદ્વૈ ણં વધે સમુપ્પજ્જમ્,

પ્રમ્મુ સે એસા પૂછસે હૈ—‘સે કિં ત વંધનપચ્ચદ્વૈ ?’ હે મદન્ત ! વહ વચ નપત્યયિક સાદિ વચ કયા વહલામા હૈ ? ઉચ્ચાર મેં પ્રમ્મુ કહસે હૈ—‘વંધનપચ્ચદ્વૈ જ જ પરમાણુપોગ્ગલા દુપવસિયા, તિયવવસિયા, જાવ દસવવસિયા, સલ્લેજ્જવવસિયા, અસલ્લેજ્જવવસિયા, અણતવવસિયા ણ મંતે ! સ્વમાણં’ હે ગૌતમ ! વંધનપત્યયિક સાદિવચ વહ હૈ જો પરમાણુ પુત્રલોં કા, ત્રિ પ્રદેશિકોં કા, ત્રિપ્રદેશિકોં કા, યાચ્ચત્ત્વાર, પાંચ, છહ સાત, આઠ, નૌ, વધા, પ્રદેશિકોં કા, સમ્યાતપ્રદેશિકોં કા, અસમ્યાતપ્રદેશિકોં કા, અનન્તપ્રદેશિકોં કા અર્પાત્ત્ એસે પરમાણુ પુત્રલસ્કન્ધોં કા—(વેમાયનિદ્ધયાણ, વેમાયલ્લુક્કયાણ વેમાયનિદ્ધલુક્કયાણ) વિષમ સ્તિગ્ધતા શુણ કે દ્વારા—વિષમ હૈ માત્રા જિનમ્મેં એસી જો સ્તિગ્ધતા, ઇસ વિષમ્પાંશ સ્તિગ્ધતા કે દ્વારા, વિષમ્પાંશસ્ફુતતા કે દ્વારા, વિષમ્પાંશસ્તિગ્ધતા ઓર સ્ફુતતા જન ઘોનોં કે દ્વારા ઉત્પન્ન હોતા હૈ ! યહ વંધન પત્ય

પ્રાપ્તિ એ સાદિક વિષમ્પા જાંધમા ઠાણુરૂપ હોય છે તેને પરિણામ પત્યયિક સાદિક વિષમ્પા જાંધ હોય છે

હવે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર પ્રશ્નને એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે—(સે કિં ત વંધનપચ્ચદ્વૈ ?) હે મદન્ત ! તે જ વંધન પત્યયિક સાદિ જાંધ કેને હોય છે ?

મહાવીર પ્રશ્નને ઉત્તર—(વંધનપચ્ચદ્વૈ સં જ પરમાણુવોગ્ગલા દુપવસિયા, તિપવસિયા જાવ દસવવસિયા, સલ્લેજ્જવવસિયા અસલ્લેજ્જવવસિયા અણ તવવસિયા ણ સ્વમાણં) હે ગૌતમ ! જ વંધન પત્યયિક સાદિ જાંધ તે છે કે જે ત્રિપ્રદેશિક, ત્રિપ્રદેશિક, અને દસપ્રદેશિક પર્યાન્તના પરમાણુ પુત્રલ સ્કન્ધાના, તથા અષ્ટમાત પ્રદેશિક અસષ્ટમાત પ્રદેશિક અને અનન્ત પ્રદેશિક પરમાણુ પુત્રલ સ્કન્ધાના (વેમાયનિદ્ધયાણ વેમાયલ્લુક્કયાણ, વેમાયનિદ્ધલુક્કયાણ) વિષમ સ્તિગ્ધતા શુણ દ્વારા (બીકાશના શુણ દ્વારા) જેમાં સ્તિગ્ધતાની માત્રા વિષમ છે એવી વિષમ્પાંશ સ્તિગ્ધતા દ્વારા, વિષમ્પાંશ સ્ફુતતા દ્વારા, વિષમ્પાંશ

जहण्णेणं एककं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं, सेत्तं वंघणपच्चइए' विमात्र-
स्निग्धतया-विपमा मात्रा यस्यां सा विमात्रा, सा चासौ स्निग्धता चेति विमात्र-
स्निग्धता तथा विपमांशस्निग्धतया, विमात्ररूक्षतया-विपमा मात्रा यस्यां सा तथा
विपमांशरूक्षतया, विमात्रस्निग्धरूक्षतया-विपमा मात्रा स्निग्धा रूक्षा च यस्यां सा
तथा, विपमांशस्निग्धरूक्षतया वन्धनप्रत्ययिकः खलु सादिवन्धः समुत्पद्यते
उत्पन्नो भवति, स च वन्धनप्रत्ययिकः सादिवन्धो जघन्येन एकं समयम्, उत्कर्षेण
असंखेयकालम् असंख्यातोत्सर्पिण्यवसर्पिणीरूप यावत् तिष्ठति, वन्धो हि विपम-
स्निग्धरूक्ष-णवतामेव पुद्गलानां भवति, न तु समस्निग्धरूक्षगुणवताम्,

यिक सादिवंध है। तात्पर्य कहनेका यह है कि "स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्धः" इस नियम के अनुसार जो द्विप्रदेशीपरमाणुपुद्गलस्कन्ध से लेकर अनन्तप्रदेशी पुद्गल परमाणुस्कन्धों तक जो आपस में स्निग्धरूक्षता के विपमांशों को लेकर दो आदि परमाणुओं का बंध हो रहा है होता है वह बंधनप्रत्ययिक सादिविन्नसाबंध है। यह बंध किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं कराया जाता है अतः विन्नसा-स्वाभाविक है। और जब भी स्निग्धता और रूक्षता या इन दोनों के विपमांश वाले दो आदि परमाणु मिलते हैं तभी यह बंध हो जाता है-इसलिये यह सादि है। एवं स्निग्धता आदिरूप निमित्त को लेकर यह संपन्न होता है-इसलिये बंधनप्रत्ययिक है। यह बंध (जहण्णेणं एककं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं) जघन्य से एक समय तक रहना है और उत्कृष्ट से असंख्यात-

स्निग्धता अने रूक्षता द्वारा उत्पन्न थाय छे अथा बंधने बंधन प्रत्ययिक सादि बंध कडे छे आ कथननु तात्पर्य नीचे प्रमाणे छे—

(स्निग्धरूक्षत्वाद् बधः) आ नियम अनुसार जे द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल स्कन्धथी लधने अनन्त प्रदेशी पर्यान्तना पुद्गल परमाणु स्कन्धानो परस्परमां स्निग्ध रूक्षताना विपमाशोनी अपेक्षाये जे बंध थछ रक्षो डोय छे, तेने बंधन प्रत्ययिक सादि विन्नसाबंध कडे छे आ बंध केछ व्यक्ति विशेष द्वारा क्शववामा आवतो नथी, तेथी आ बंध विन्नसा-स्वाभाविक डोय छे अने न्यारे स्निग्धता अने रूक्षता अथवा ते बन्नेना विपमाशावाणा जे आदि परमाणु भजे छे त्यारे आ बंध थाय छे, ते कारणे ते सादि बंध छे अने स्निग्धता आदि रूप निमित्तथी ते संपन्न डोय छे, तेथी तेने बंधन प्रत्ययिक कडे छे आ बंध (जहण्णेण एककं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्ज कालं) ओछामां ओछो अेक समय सुधी रडे छे अने अधिकमा अधिक असंख्यात

तथा चोक्तम्—“समनिद्रयाए वधो न होइ, समलुक्त्वयाए वि न होइ,
वेमायनिद्रलुक्त्व-सणेण वधो उ स्वभाण ”

छाया—समस्निग्धतया वन्धो न भवति, समरूपतयाऽपि न भवति,
विनाप्रस्निग्धरूपत्वेन वधस्तु स्कन्धानाम्, इति ।

अथमाद्यप —समगुणस्निग्धस्य समगुणस्निग्धेन परमाणुद्वयशुकादिना वन्धो
न भवति, समगुणरूपस्यापि समगुणरूपेण वधो न भवति, अपि तु यदा विपमा
मात्रा तदा भवति वन्धः, विपममात्रा चेत्यम्—

काल तक घना रहता है । अर्थात् अमरक्यात उत्सर्पिणी अथसर्पिणीकाल
तक यह नष्ट नहीं होता है । मो ही कहा है—(समनिद्रयाए वधो न
होइ, समलुक्त्वयाए वि न होइ, वेमायनिद्रलुक्त्व-सणेण वधो उ स्वभाण)
समगुणस्निग्धवाले पुद्गलपरमाणुओं का समगुणस्निग्धवाले पुद्गलपरमा
णुओंके साथ, वध नहीं होता है । समगुणरूपवाले पुद्गलपरमाणुओंका
समगुणरूपतावाले पुद्गल परमाणुके साथ वध नहीं होता है । परन्तु जब
इनकी विपममात्रा रहती है तभी वध होता है । पौद्गलिक स्वरूप की
उत्पत्ति उसके अथयधमून परमाणु आदि के पारस्परिक सयोगमात्र से
नहीं होती, इसके लिये सयोग के निश्चय जो अपेक्षित होता है—वही
यहां प्रकट किया जा रहा है । स्वरुधों की उत्पत्ति के लिये स्निग्धता-
विषनापन और रुक्षता-सम्भापन गुण का होना आवश्यक है जब ये
दोनों आपस में मिलते हैं—तभी वध-एकत्वपरिणाम होता है । सम
मात्र में यदि ये दोनों गुण हैं तो वध नहीं होता है । वध होने के लिये

हाण सुधी हायम शदे छे ज्येदे के असम्भवत उत्सर्पिणी हाण पर्यन्त ते
नष्ट यतो नथी ज्ये वात नीधेना सुत्रांश द्वाग प्रकट हनी छे—(समनिद्रयाए
वधो न होइ, समलुक्त्वयाए वि न होइ, वेमाय निद्रलुक्त्व-सणेण वधो उ स्वभाण)
समगुण-स्निग्धतावाणा पुद्गल परमाणुज्येना समगुण स्निग्धताणा पुद्गल पर
माणुज्ये साथे वध यतो नथी समगुण रुक्षतावाणा पुद्गल परमाणुज्येना
समगुण रुक्षता वाणा पुद्गल परमाणुज्येनी साथे वध यतो नथी परन्तु ज्येदे
तेमनी विषम मात्रा ज्ये छे त्येदे व तेमने वध थाव छे पौद्गलिक स्वरुधनी
उत्पत्ति तेना अथयध रूप परमाणु आदिना परस्परना सयोग मात्रा व
थनी नथी, ते भाटे सयोग उपरान्त ज्येनी अत्र परटे छे ज्येन अहीं प्रकट
हवाभां आणु छे स्वरुधनी उत्पत्तिने भाटे स्निग्धता (थीहाश) ज्येने रुक्ष
ताणा शुभ दोवा ते आवश्यक दोव छे ज्येदे ते ज्येने अथेन्यभां भजे छे

“ निद्धस्स निद्धेण दुयाहिण्ण, लुक्खस्स लुक्खेण दुयाहिण्ण,
निद्धस्स लुक्खेण उवेइ वधो, जहन्धवज्जो विसमो समो वा ॥१॥ ”

स्निग्धस्य स्निग्धेन द्विकाधिकेन, रूक्षस्य रूक्षेण द्विकाधिकेन ।

स्निग्धस्य रूक्षेण उपैति बन्धः, जघन्यवर्जो विषमः समो वा । इति ।

तदुपसंहरति-स एष बन्धनप्रत्ययिको बन्धः प्ररूपितः । गौतमः पृच्छति-

‘ से किं तं भायणपच्चडए ? ’ अथ, हे भदन्त ! किं स भाजनप्रत्ययिको नाम

इन गुणों की विषममात्रा सापेक्षित होती है । वह त्रिषममात्रा इस प्रकार से कही गई है । जैसे—“ निद्धस्स निद्धेण ” इत्यादि ।

इस का तात्पर्य यह है कि-स्निग्ध का दो गुना अधिक स्निग्ध के साथ बंध होता है । इसी प्रकार रूक्ष के भी दो गुने अधिकरूक्ष के साथ बन्ध होता है, जैसे पहलास्निग्ध एक गुना है तो दूसरा स्निग्ध तीनगुना से लेकर अधिक कितना ही होगा तो बंध होगा । एवं पहला स्निग्ध दो गुना हो तो दूसरा चार गुना तो कम से कम होना ही, इससे अधिक भले हो बन्ध हो जायगा किन्तु दो गुने से कम होगा तो बन्ध नहीं होगा । इसी प्रकार रूक्ष का रूक्ष के साथ के विषय में भी जान लेना चाहिये । स्निग्ध का रूक्ष के साथ जो बन्ध होता है वह जघन्य वर्ज करके होता है, जघन्य से एक गुणा लेना चाहिये । अर्थात् एक गुणें स्निग्ध का एक गुने रूक्ष के साथ बंध नहीं होगा इससे अधिक स्निग्ध रूक्ष का बंध हो जायगा चाहे वह विषम हो चाहे सम हो अर्थात् दोनों

त्यारे ञ् अथ थाय छे जे आ अन्ने शुष्णसम मात्रामा डोय तो अथ थतो नथी. अंध थवाने माटे अे शुष्णानी विषम मात्रानी आवश्यकता रडे छे. ते विषम मात्रा आ प्रमाणे डडेवामां आवी छे, जेभके—‘निद्धस्सनिद्धेण’ इत्यादि आ गाथानो सावार्थ नीचे प्रमाणे छे-स्निग्धनो अेगणा अधिक स्निग्धनी साथे अंध थाय छे. अे प्रमाणे इक्षनो पणु ते अे गणा अधिक करवाथी इक्षनी साथे अंध थाय छे जेभके पडेलु स्निग्ध अेक शुष्ण डोय तो भीष्णु स्निग्ध त्रणु गणाथी लधने गमे तेटवा गणु डशे तो पणु तेमनो अंध थशे. अने पडेलु स्निग्ध अेगणु डोय, तो भीष्णु ओछामां ओछुं चारगणु तो डोवुं ञ् जेधअे, अने चारगणाथी अधिक डोय तो पणु अंध थध ञ्शे, परन्तु अम-णाथी ओछुं डशे तो अंध थशे नडीं अे प्रमाणे इक्षनो इक्षनी साथे अंध थवा विषे पणु समअवुं स्निग्धनो इक्षनी साथे जे अंध थाय छे, ते जघन्य वन् करीने थाय छे, जघन्यनी अपेक्षाअे (ओछामां ओछा) अेक गणा देवा जेधअे अेटले डे अेक गणा स्निग्धनो अेक गणा इक्षनी साथे अंध थतो नथी, तेथी अधिक स्निग्ध इक्षनो अंध थध ञ्शे-पत्री लले ते विषम

સાદિકવચઃ ? મગધાનાહ—‘ માયણપચ્ચઈ જ ણં જુમ્મસુરા જુમ્મગુલ-જુમ્મતંદુલાણં
માયણપચ્ચઈ ણ વ ઘે સમુપ્પજ્જહ, જહણ્ણેણ અતોમુહુત્ત, ઉક્કોસેણ સસેજ્જં કાર્લં
સેષ માયણપચ્ચઈ ’ હે ગૌતમ ! માજનપત્યયિકો વ ઘ-’યત્ સલ્લ જીર્ણસુરા-
જીર્ણગુહ-’જીર્ણતણ્ણાનાં માજનપત્યયિક’ સલ્લ વ ઘ સમુત્પચ્ચતે, તત્ર જીર્ણસુરાયાઃ
સ્ત્યાનીમવનરુક્ષણો વ ઘ, જીર્ણગુહસ્ય જીર્ણતણ્ણાનાં વ ઘ પિણ્ઠો મક્કલસણો
વંચઃ, સ વ માજનપત્યયિકો વ ઘઃ મધન્યેન અન્તર્મુહૂર્તમ્, ઉત્કર્ષેણ સંસુયેયં કાર્લં

રાશિ ઘિપમ હો અથવા સમ હો જૈસે-ઘિપમ-ઈઘર દો અથવા ત્રીન
આદિ ઘર પાંચ છ આદિ હો તો વ ઘ હો જાયગા, સમ-ઈઘર દો ઘર
ત્રી દો, કિન્તુ એક ગુને કે સાથ વ ઘ નહીં હોગા । ક્યોં કિ ઘે જઘન્ય
(એક) ગુણ ઘાલે દોનોં હોને સે અવદ્વદ્ધા મેં હી રહતે હેં ।

અથ ગૌતમસ્વામી પ્રશ્નસે પેસા પૂછતે હેં-(સે કિં ત માયણપચ્ચઈ)
હે મદન્ત ! માજનપત્યયિક સાદિવચ્ચ કયા હે ? હસકે ઉત્તર મેં પ્રશ્ન
કહતે હેં-(માયણપચ્ચઈ જ ણં જુમ્મસુરા જુમ્મગુલ જુમ્મ તંદુલાણં માય-
ણપચ્ચઈ ણં વ ઘે સમુપ્પજ્જહ જહણ્ણેણ અતો મુહુત્ત ઉક્કોસેણ સસેજ્જં
કાર્લં-સે-સ માયણપચ્ચઈ) હે ગૌતમ ! માજનપત્યયિક વ ઘ વહ હે
જો પુરાની સુરા મેં, પુરાના ગુહમેં ઓર પુરાને તદુલોં મેં હોતા હે । અર્પતિ
એક માજન મેં મર કર જય યે પવાર્ય રઘવ દિયે જાતે હેં ઓર વહુત
સમંયતક રસે રહતે હેં-તય યે પિણ્ઠીમૂત ઘન જાતે હેં । હસ પિણ્ઠીમૂત

દોષ કે સમ દોષ-એટલે કે બન્ને રાશિ ઘિપમ દોષ કે સમ દોષ, તો પણ
બધ થશે. જેમકે-ઘિપમ પહેલામાં બે, ત્રણ આદિ બને બીજામાં ચાર, પાંચ,
છ આદિ દોષ તો બધ થઈ જશે સમની અપેક્ષાએ પહેલામાં બે બને
બીજામાં પણ બે દોષ તો પણ બધ થઈ જશે પરન્તુ એક ગણાને એક
જણાની સાથે બધ થશે નહીં, કારણ કે તેઓ બ ને બોલામા બોલ (એક)
ગુણવાળા દોષથી અબદ્દ દશામાં જ રહે છે

ગૌતમ સ્વામીનો પ્રશ્ન-(સે કિં ત માયણપચ્ચઈ) કે અન્ત !
ભાજન પ્રત્યયિક સાદિ બધ કેને કહે છે ?

મહાવીર પ્રશ્નનો ઉત્તર-(માયણપચ્ચઈ જ ણં જુમ્મસુરા જુમ્મગુલ જુન્ન
તદુલ્લાણં માયણપચ્ચઈ ણ વ ઘે સમુપ્પજ્જહ) હે ગૌતમ ! ભાજન પ્રત્યયિક
બધ એ છે કે જે પુરાણા મહિરામાં, ગુના ગોળમાં બને ગુના આખામાં
ધાય છે એટલે કે એક પાત્રમાં ભરીને ત્યારે બા પદાર્થોની લાંબા સમય
મુખી રાખવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ પિંકશ્પ બની વાધ છે આ રીતે પિંક

तिष्ठति, स एष भाजनप्रत्ययिको बन्धः प्ररूपितः । गौतमः पृच्छति—' से किं तं परिणामपञ्चइए ? ' हे भदन्त ! अयं किं स परिणामप्रत्ययिको नाम बन्धः ? भगवानाह—' परिणामपञ्चइए जं णं अब्भाणं अब्भरुक्खाणं जहा तइयसए जाव अमोहाणं परिणामपञ्चइए णं वंधे समुप्पज्जइ ' हे गौतम ! परिणामप्रत्ययिको बन्धः—यत् खलु अभ्राणां भेधानाम् अभ्रवृक्षाणाम् अभ्रात्मकवृक्षाणाम् यथा तृतीय-शतके सप्तमोद्देशके प्रतिपादितानाम् यावत् अमोघानाम्, यावत्पदेन-वक्ष्यमाण-पदानां संग्रहः—सन्ध्यानाम्, गन्धर्वनगराणाम् आकाशे व्यन्तरकृतनगराकारपरिण-

घनने में कारण उनका भाजन में भर कर रख देना है। अतः इस प्रकार का यह पिपडीभूत होने रूप बंध भाजनप्रत्ययिक कहा गया है। इस बंध का जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त का है और उत्कृष्ट काल संख्यातकाल रूप है। अर्थात् कम से कम यह बंध एक अन्तर्मुहूर्त तक रहता है और अधिक से अधिक संख्यातकाल तक रहता है।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(से किं तं परिणामपञ्चइए) हे भदन्त ! परिणामप्रत्ययिक बंध क्या है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! परिणामप्रत्ययिक बंध वह है (जं णं अब्भाणं अब्भरुक्खाणं जहा ततियसए जाव अमोहाणं परिणामपञ्चइए णं वंधे समुप्पज्जइ) जो तृतीयशतक के सप्तम उद्देशक में प्रतिपादित अभ्रों (वादलों) की, अभ्रवृक्ष आदिकों की रूपान्तर प्राप्तिरूप होता है। यहाँ (यावत्) शब्द से इस तृतीयशतक के सप्तम उद्देशक में कहे गये पाठ

इय ण्णी ळवानुं डारणु ते लाजनमां (पात्रमां) तेमने लरी राण्णया ते छे. तेथी आ प्रकारना पिंडलूत ण्णी ळवा इय णधने लाजनप्रत्ययिक डडे छे. (जहनेणं अंतोमुहुत्त च्कोसेण संखेज्जकाल से तं भायणपञ्चइए) आ णधना ओछांमां ओछो डण अन्तर्मुहूर्ताने आने वधारेमां वधारे संख्यातकालने डाय छे. ओटवे डे आ णंध ओछांमां ओछो ओके अन्तर्मुहूर्त सुधी रडे छे आने वधारेमां वधारे संख्यातकाल सुधी रडे छे

गौतम स्वामीने प्रश्न—(से किं तं परिणामपञ्चइए ?) हे भदन्त ! परिणाम प्रत्ययिक बंध केवे डाय छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—(गोयमा !) हे गौतम ! परिणाम प्रत्ययिक बंध ते छे डे (ज ण अब्भाणं अब्भरुक्खणं जहा तइयसए जाव अमोहाणं परिणामपञ्चइए ण वंधे समुप्पज्जइ) त्रीण शतकना सातमा उद्देशकमां प्रतिपादित ओओनी (वाडोनी) आने अभ्रवृक्ष आडिकोनी र्पांतर प्राप्तिरूप डाय छे,

तानाम्, उत्क्रापातानाम्, विशिदाहानां दक्षमानमहानगरप्रकाशसदृशानाम्, गर्जितानां, विद्युत्पातानाम्, पांशुवृष्टीनाम्, यूषानाम्-स्वंभाकारमेघानाम्, यक्षोरीतानाम्, घूमिकानाम्, महिकानाम्, रजःउद्घातानाम्, चन्द्रोपरागाणाम्, सूर्योपरागाणाम्, चन्द्रपरिवेपाणाम्, सूर्यपरिवेपाणाम्, प्रतिचन्द्राणाम्, प्रतिसूर्याणाम्, इन्द्रधनुषाम्, उदकमस्त्यकपिहसितानाम्, तथा-भ्रमोघानाम् सूर्यस्योदयास्तसमये सजातानां पूर्वपश्चिमायतरेस्वारूपाणाम् परिणामप्रत्ययिकः, परिणामो रूपान्तरमाप्तिः, तस्मत्प्रत्ययिकस्त्वभिमित्तको षन्व परिणामप्रत्ययिको षन्व खलु समुत्पद्यते, स च परिणामप्रत्ययिको षन्वः-‘जहण्णेणं एकं समवं उक्तौसेण छम्मासा’ षन्वनेन एक समयम् उत्कर्षेण यह मासान् तिष्ठति, ‘सेचं परिणामपन्चइए’ स एव उपर्युक्त परिणामप्रत्ययिको षन्व उच्यते, ‘सेचं साइपवीससाब्वे’ स एव उप-

का समग्रह दुभा है-स र्घ्यानाम्, गघर्बनगराणाम्-आकाशे व्यन्तरकृतनगराकारपरिणतानाम्, उत्क्रापातानाम्, विशिदाहानाम्, दक्षमानमहानगरप्रकाशसदृशानाम्, गर्जितानां, विद्युत्पातानाम्, पांशुवृष्टीनाम्, यक्षोरीसामाम्, घूमिकानाम्, महिकानाम्, रजःउद्घातानाम्, चन्द्रोपरागाणाम्, सूर्योपरागाणाम्, चन्द्रपरिवेपाणाम्, सूर्यपरिवेपाणाम्, प्रतिचन्द्राणाम्, प्रतिसूर्याणाम्, इन्द्रधनुषाम्, उदकमस्त्यकपिहसितानाम्” इस पाठ का अर्थ यहीं पर लिखा गया है अतः वहीं से जान लेना चाहिये। इस परिणामप्रत्ययिक षन्व का जय-पकाल एक समय मात्र और उत्कृष्टकाल छहमास का है। (से च साइपवीससाब्वे) इस प्रकार से यह पूर्वोक्तरूप में कहा गया सादिकविरलता षन्व है। अब अन्त में

“ वावत् ” पदवी अर्द्धी त्रीन् यत्कना सातथां उरेशकथां क्वित नीशेन पाठने अकंषु कश्चामां आन्थे छे—

(सम्ब्यानाम् गघर्बनगराणाम् आकाशे व्यन्तरकृतनगराकारपरिणतानाम् उत्क्रापातानाम् विशिदाहानाम्, दक्षमानमहानगरप्रकाशसदृशानाम्, गर्जितानाम्, विद्युत्पातानाम्, पांशुवृष्टीनाम् यक्षोरीप्राणाम्, घूमिकानां, महिकानां, रजःउद्घातानाम्, चन्द्रोपरागाणाम् सूर्योपरागाणाम्, चन्द्रपरिवेपाणाम्, सूर्यपरिवेपाणाम्, प्रतिचन्द्राणाम्, प्रतिसूर्याणाम् इन्द्रधनुषाम् उदकमस्त्यकपिहसितानाम्”

आ सूत्रपाठने अथ त्यां आपवाभां आन्थे छे तो निराशुकोले त्यांवी वांवी देवे। आ परिव्याम प्रत्ययिक अभने कोछाभां कोछे। अज कोके सभबने। अने वधापेभां वधापे छ भासने। कोय छे (से च साइपवीससाब्वे) आ प्रधाश्नु-पूर्वोक्त इपनु सादिक विरलता अभनु इत्यप छे सूत्रने

युक्तः सादिकविस्रसावन्धो व्यपदिश्यते । अन्ते विस्रसावन्धनिगमयन्नाह—‘ सेत्तं वीससाबंधे ’ स एष उक्तरीत्योपदर्शितः विस्रसावन्धोऽवसेयः ॥ सू० २ ॥

प्रयोगबन्धवक्तव्यता

सूचीकटाहन्यायेन पश्चात्पठितमपि विस्रसावन्धं प्रथमं प्ररूप्य प्रथमपठितं प्रयोगबन्धं प्ररूपयितुं प्रस्तौति—‘ से किं तं ’ इत्यादि ।

मूलम्—से किं तं प्रयोगबंधे ? प्रयोगबंधे तिविहे पण्णत्ते ? तं जहा—अणाइए वा अपज्जवसिए, साइए वा अपज्जवसिए, साइए वा सपज्जवसिए, तत्थ णं जे से अणाइए अपज्जवसिए, से णं अट्टण्हं जीवमज्झपएसा णं, तत्थ वि णं तिण्हं२ अणाइए अपज्जवसिए, सेसाणं साइए, तत्थ णं जे से साइए अपज्जवसिए, से णं सिद्धाणं, तत्थ णं जे से साइए सपज्जवसिए से णं चउठ्विहे पण्णत्ते, तं जहा—आलावणबंधे, अल्लियावणबंधे, सरीरबंधे, सरीरप्पयोगबंधे । से किं तं आलावणबंधे ? आलावणबंधे जं णं तणभाराण वा, कट्टभाराण वा, पत्तभाराण वा, पलालभाराण वा, वेल्लभाराण वा, वेत्तलया वागवरत्तरज्जुवल्लिकुसदब्भमाइएहिं, आलावणबंधे समुप्पज्जइ, जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं संखेज्जं कालं, सेत्तं आलावणबंधे । से किं तं अल्लियावणबंधे ? अल्लियावणबंधे चउठ्विहे पण्णत्ते, तं जहा—लेसणाबंधे, उच्चयबंधे, समुच्चयबंधे, सहणणाबंधे । से किं तं लेसणाबंधे, लेसणाबंधे जं णं कुड्डाणं,

सूत्रकार विस्रसाबंधका निगमन करते हुए कहते हैं कि (से त्तं वीससाबंधे) उक्त रीतिके अनुसार विस्रसाबंधका कथन किया गया है ॥सू०२॥

अन्ते सूत्रकार विस्रसा अंधनुं निगमन करता उडे छे डे (से त्तं वीससा बंधे) आ प्रकरबुधां वल्लुंया प्रभावेतुं विस्रसा अंधनुं स्वइय छे ॥ सू० २ ॥

कौटिमाण, खभाण, पासायाण, कट्टाण, चम्माण, घडाण,
 पडाण, कडाण, लुहाचिक्खिल्लसिलेसलक्खमहुसित्थमाइएहिं
 लेसणएहिं वधे समुप्पज्जइ, जहण्णेण अतोमुहुत्त उक्कोसेण
 सखेज्ज काल, से च लेसणा वधे । से किं त उच्चयवधे ?
 उच्चयवधे ज ण तणरासीण वा कट्टरासीण वा, पत्त
 रासीण वा, तुसरासीण वा, मुसरासीण वा, गोमयरासीण
 वा, अवगररासीण वा, उच्चचे णं वधे समुप्पज्जइ, जहण्णेण
 अतोमुहुत्त, उक्कोसेण सखेज्ज काल, से च उच्चयवधे । से
 किं त समुच्चयवधे ? समुच्चयवधे ज ण अगडतडागनई
 दहवावीपुक्खरिणीदीहिया ण, गुजालियाण, सराण, सरपति
 याण, सरसरपतियाण, विलपतियाण, देवकुल सभापव्वथूम
 खाइयाण, फलिहाण, पागारहालगचरियदारगोपुरतोरणाण,
 पासायघरसरणलेणआवणाण, सिंघाढगतियच्चउक्कच्चच्चर
 चठम्भुह महापहमाईण लुहाचिक्खिल्लसिलेससमुच्चपण
 वधे समुप्पज्जइ, जहण्णेण अतोमुहुत्त उक्कोसेण सखेज्ज काल,
 से च समुच्चय वधे । से किं त साहणणावधे ? साहणणावधे
 वुविहे पण्णत्ते, त जहा देससाहणणावधे य, सव्वसाहणणा
 वधे य, से किं त देससाहणणावधे ? देससाहणणावधे जं
 ण सगडरहजाणजुग्गगिल्लियिल्लिसीयसदमाणियालोही
 लोहकडाहकहुच्छुअ सणसयणखमभडमचोवगरणमाईण
 देससाहणणावधे समुप्पज्जइ, जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसे

णं संखेज्जं कालं, सेत्तं देससाहणणा वंधे । से किं तं सव्वसाह-
 णणावंधे ? सव्वसाहणणावंधे से णं खीरोदगमाईणं, से त्तं
 सव्वसाहणणावंधे, से त्तं साहणणावंधे, से त्तं अल्लियावण-
 वंधे । से किं तं सरीरवंधे ? सरीरवंधे दुविहे पणत्ते, तं जहा-
 पुव्वप्पओगपच्चइए य, पडुप्पन्नपओगपच्चइए य । से किं तं
 पुव्वप्पओगपच्चइए ? पुव्वप्पओगपच्चइए जं णं नेरइयाणं
 संसारत्थाणं सव्वजीवाणं तत्थ तत्थ तेसु तेसु कारणेसु
 समोहणमाणाणं जीवप्पएसाणं वंधे समुप्पज्जइ, से त्तं पुव्व-
 प्पओगपच्चइए । से किं तं पडुप्पन्नप्पओगपच्चइए ? पडुप्प-
 न्नप्पओगपच्चइए जं णं केवलनाणिस्स अणगारस्स केवलि-
 समुग्घाएणं समोहयस्स ताओ समुग्घायाओ पडिनियत्तेमाणस्स
 अंतरामंथे वट्टमाणस्स तेयाकम्माणं वंधे समुप्पज्जइ, किं कारणं ?
 ताहे से पएसा एगत्तिकिया भवंति त्ति, से त्तं पडुप्पन्नप्पओग-
 पच्चइए, से त्तं सरीरवंधे । से किं तं सरीरप्पओगवंधे ? सरीर-
 प्पओगवंधे पंचविहे पणत्ते, तं जहा-ओरालियसरीरप्पओगवंधे,
 वेउत्ठियसरीरप्पओगवंधे, आहारगसरीरप्पओगवंधे, तेयासरीरप्प-
 ओगवंधे कम्मासरीरप्पओगवंधे । ओरालियसरीरप्पओगवंधे णं
 भंते ! कइविहे पणत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पणत्ते, तं जहा-
 एगिंदियओरालियसरीरप्पओगवंधे, बेदियओरालियसरीरप्प-
 ओगवंधे, जाव-पंचिदिय ओरालियसरीरप्पओगवंधे, एगिंदिय
 ओरालियसरीरप्पओगवंधे णं भंते ! कइविहे पणत्ते ? गोयमा !



पञ्चविहे पण्णत्ते, त जहा-पुठविकाइय एर्गिदिय ओरालिय
 सरीरप्पओगवधे । एव एएण अभिलावेण भेदो जहा ओगाइण-
 संठाणे ओरालियसरीरस्स तहा भाणियव्वो जाव पउज्जत्त-
 गब्भवक्कतियमणुस्सपच्चिदियओरालियसरीरप्पओगवधे य,
 अपज्जत्तगब्भवक्कतियमणुस्सपच्चिदियओरालियसरीरप्पओग-
 वधे य, ओरालियसरीरप्पओगवधे णं भते ! कस्स
 कम्मस्स उदएणं ? गोयमा ! वीरियसजोग सइव्वयाए पमाय
 पच्चया कम्म च जोग च भव च, आउय च, पहुच्च ओरा-
 लियसरीरप्पओगनामकम्मस्स उदएणं ओरालियसरीर-
 प्पओगवधे । एर्गिदियओरालियसरीरप्पओगवधे णं भते !
 कस्स कम्मस्स उदएण ? एव चेव । पुठविकाइयएर्गिदिय
 ओरालियसरीरप्पओगवधे एव चेव, एव जाव वणस्सइ
 काइया, एव वेइदिया, एव तेइदिया, एव चउरिदियतिरिक्ख
 जोणियओरालियसरीरप्पओगवधे एव चेव । पच्चिदिय
 ओरालियसरीरप्पओगवधेणं भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ?
 गोयमा ! वीरियसजोग-सइव्वयाए पमाय-जाव-आउय
 पहुच्च पच्चिदियओरालियसरीरप्पओगनामाए कम्मस्स
 उदएणं, तिरिक्खपच्चिदियओरालियसरीरप्पओगवधे एव
 चेव । मणुस्सपच्चिदियओरालियसरीरप्पओगवधे ण भते !
 कस्स कम्मस्स उदएणं ? गोयमा ! वीरियसजोगसइव्वयाए
 पमादपचया जाव-आउय च पहुच्च मणुस्सपच्चिदियओरा-

लियसरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं मणुस्सपंचि-
दियओरालियसरीरप्पओगबंधे ॥ सू० ३ ॥

छाया—अथ कः प्रयोगबन्धः ? प्रयोगबन्धस्त्रिविधः प्रज्ञप्तः, तद्यथा-अना-
दिको वा अपर्यवसितः, सादिको वा अपर्यवसितः, सादिको वा सपर्यवसितः, तत्र
खलु यः सोऽनादिकः अपर्यवसितः, स खलु अष्टानां जीवमध्यप्रदेशानाम्, तत्रापि
खलु त्रयाणां त्रयाणाम् अनादिकः अपर्यवसितः, शेषाणां सादिकः, तत्र खलु यः

प्रयोगबंधवक्तव्यता

‘से किं तं पओगबंधे ?’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(से किं तं पओगबंधे) हे भदन्त ! प्रयोगबंध का क्या
स्वरूप है ? (पओगबंधे तिविहे पणत्ते) हे गौतम ! प्रयोगबंध तीन
प्रकार का कहा गया है । (तं जहा) प्रयोगबंध के वे तीन प्रकार ये हैं—
(अणाइए वा अपज्जवसिए, साइए वा अपज्जवसिए, साइए वा सपज्ज-
वसिए) अनादिअपर्यवसित, सादिअपर्यवसित, और सादिसपर्यवसित
(तत्थ णं जे से अणाइए अपज्जवसिए, से णं अट्टण्हं जीव मज्झपएसाणं)
इनमें जो अनादि अपर्यवसित प्रयोगबंध है वह जीव के आठ मध्यप्रदेशों
का होता है । (तत्थ वि णं तिण्हं तिण्हं अणाइए अपज्जवसिए) इन आठ-
प्रदेशों में भी तीन तीन प्रदेशों का जो बंध है वह अनादि अपर्यवसित
बंध है । (सेसाणं साइए) बाकी के सर्व प्रदेशों का सादि सपर्यवसित

प्रयोगबंधवक्तव्यता—

“से किं तं पओगबंधे ? इत्यादि—

सूत्रार्थ—(से किं तं पओगबंधे ?) हे भदन्त ! प्रयोग बंधनું स्वरूप
केकुं छे ? (पओगबंधे तिविहे पणत्ते) हे गौतम ! प्रयोगबंध त्रय प्रकारे
कथी छे. (तंजहा) ते त्रय प्रकारे नीचे प्रभाषे छे—

(अणाइए वा अपज्जवसिए, साइए वा अपज्जवसिए, साइए वा सपज्जवसिए)
(१) अनादि अपर्यवसित (२) सादि सपर्यवसित अने (३) सादि अपर्यवसित.
(तत्थ णं जे से अणाइए अपज्जवसिए से णं अट्टण्हं जीवमज्झपएसाणं) तेभांथी
जे अनादि अपर्यवसित प्रयोग बंध छे, ते एवना आठ मध्यप्रदेशोना डोय
छे. (तत्थ वि णं तिण्हं तिण्हं अणाइए अपज्जवसिए) ते आठ प्रदेशोभां पक्ष
जे त्रय त्रय प्रदेशोना बंध डोय छे, ते अनादि अपर्यवसित बंध डोय
छे. (सेसाणं साइए) बाकीना सर्व प्रदेशोना सादि सपर्यवसित बंध डोय

સ સાદિકા અપર્યાવસિત સ સ્વચ્છ સિદ્ધાનામ્, તપ સ્વચ્છ યા સ સાદિકા સર્વવેદ-
 સિતઃ, સ સ્વચ્છ વધુર્વિષ પ્રહત્, સઘયા-આલાપનવન્ધઃ, આલીનવન્ધઃ, સરીરવન્ધઃ,
 સરીરમયોગવપઃ, અય કઃ સઆલાપનવન્ધઃ? આલાપનવપો યઃ સ્વચ્છ ત્વમારાણા
 ષા, કાષ્ટમારાણા ષા, પત્રમારાણા ષા, પલાલમારાણા ષા, વેલ્લ (પલ્લવ) મારાણા
 ષા, વેપ્રલતા વલ્ક-ચરત્રા રજ્જુ-વલ્લી-કુસ-વર્માદિમિઃ આલાપનવન્ધઃ સમુપ્પજ્જહે

વંધ છે. (તત્થ ણં જે સે સાહપ અપર્યાવસિત્ત સે ણં સિદ્ધાણં) સાદિ અપ-
 ર્યાવસિત્ત વંધ સિદ્ધ ઝીવ કે પ્રવેશોં કા છે. (તત્થ ણ જે સે સાહપ સપ
 વ્જવસિત્ત સે ણં ચઙ્ચિદ્દે પળ્લસે) इनमें जो सादि सपर्यावसित बंध
 है वह चार प्रकार का कहा गया है. (तं जहा) जो इस प्रकार से है
 —(आलापनबंधे, अहियावणबंधे, सरीरबंधे, सरीरमयोगबंधे) ?
 आलापनबंध, २ आलीनबंध, ३ शरीरबंध, ४ शरीरमयोगबंध. (से किं
 तं आलापनबंधे) हे भदन्त ! आलापनबंधका क्या स्वरूप है ? (आला-
 पणबंधे जं ण तणमारण वा, कट्टमारण वा, पत्तमारण वा, पलालमा-
 राण वा, वेल्लमारण वा, वेत्तलया-वाग-वरत्त-रज्जु-वह्नि-कुस-वग्गमा,
 इपहिं आलापणबंधे समुप्पज्जह) हे गौतम ! आलापनबंध यह है-जो वृण
 के गहों को, काष्ठ के गहों को, पत्र के गहों को पलालके बोझों को,
 बेलोंके बोझों के, वेंत से-छत्ता से, छाल से, चरत्रा से, रस्सी से,

ઉ (તત્થ ણ જે સાહપ અપર્યાવસિત્ત સે ણ સિદ્ધાણં) સિદ્ધ છવના પ્રવેશોના
 બંધ સાદિ અપર્યાવસિત્ત ઠેાક છે (તત્થ ણ જે સે સાહપ અપર્યાવસિત્ત સે ણં
 ચઙ્ચિદ્દે પળ્લસે-વહ્હા) તેમાંના એ સાદિ અપર્યાવસિત્ત બંધ છે, તેના નીચે
 પ્રમાણે આર પ્રકાર છે—(આલાપનવંધે, અહિયાવણવંધે, સરીરવંધે, સરીરમયોગવંધે)
 (૧) આલાપન બંધ, (૨) આલીન બંધ, (૩) શરીર બંધ અને (૪) શરીર
 પ્રયોગ બંધ (સે કિં તં આલાપનવંધે) હે ભદન્ત ! આલાપન બંધનું સ્વરૂપ
 કેવું ? (આલાપનવંધે જ ણં તણમારણ વા, કટ્ટમારણ વા, પત્તમારણ વા,
 પલાલમારણ વા, વેલ્લમારણવા વેત્તલયાવાગ-વરત્ત-રજ્જુ-વહ્નિ-કુસ વગ્ગમાઇપહિં
 આલાપનવંધે સમુપ્પજ્જહ) હે ગૌતમ ! આલાપન બંધ તે છે કે જે ઘાસના
 જાશને, લાકડાંના જાશને, ખાનના જાશને, ખાન-ચરદિત પરાળની ગાંધડીને, લતા-
 જોના જાશને, લતાજોધી, છાલોધી, યામ્બુની ઠોરીધી, ચલુ આદિની ઠોરીધી,
 ઠેાળ વેલ્લધી, નિમ્બળ દલોધી અને સંમૂળ દલોધી બાંધવાધી યાજ છે એટલે
 કે ઘાસ વગેરેના જાશને લતા આદિ વડે જે બાંધવાનું યાજ છે, તેને આલા

जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कर्षेण संख्येयं कालम्, स एष आलापनबन्धः। अथ कः स आलीनबन्धः ? आलीनबन्धश्चतुर्विधः प्रज्ञप्तः, तद्यथा—श्लेषणाबन्धः, उच्चयबन्धः, समुच्चयबन्धः, संहननबन्धः, अथ कः स श्लेषणाबन्धः ? श्लेषणाबन्धो यत् खलु कुड्यानां कूटानां कुट्टिमानाम्, स्तम्भानाम्, प्रासादानाम्, काष्ठानाम्, चर्मणाम्, घटानाम्, पटानाम्, कटानाम्, सुधाकर्दमलश्लेषलाक्षा-मधु-सिक्थादिभिः श्लेषणैः बन्धः समुपपद्यते, जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम् उत्कर्षेण संख्येयं कालम्, स एष

किसी बेल से, कुश अथवा डाम वगैरह से बांधने से होता है। अर्थात् घास वगैरहके गट्टेको बेलतकी बेल आदि से जो बांधना है वह आलापन बंध है। (जहण्णेणं अंतोमुहूर्तं, उक्कोसेणं संखेज्जकालं) इस आलापन बंध का काल जघन्यसे एक अन्तर्मुहूर्त का है और उत्कृष्ट से संख्यात कालका है अर्थात् यह बंध कमसे कम रहे तो अन्तर्मुहूर्त तक रहता है, और अधिक से अधिक संख्यातकाल तक रहता है। (से तं आलावण बंधे) यही आलापन बंध का स्वरूप है। (से किं तं अल्लियावणबंधे) हे भदन्त ! आलीन बंध का क्या स्वरूप है ? (अल्लियावणबंधे चउव्विहे पणत्ते) हे गौतम ! आलीन बंध चार प्रकार का कहा है—(तं जहा) जो इस प्रकार से है—(लेसणाबंधे, उच्चयबंधे, समुच्चयबंधे, साहणणाबंधे) ? श्लेषणाबंध, २ उच्चयबंध, ३ समुच्चयबंध और ४ संहननबंध (से किं तं लेसणाबंधे) हे भदन्त ! श्लेषणाबंध का क्या स्वरूप है ? (लेसणाबंधे जं णं कुड्ढाणं, कोट्टिमाणं, खंभाणं, पासायाणं, कट्टाणं, चम्माणं, घडाणं, पडाण, कडाणं, छुहाचिक्खिल्लसिलेसलक्ख महुसित्थ माइएहिं लेसणएहिं बंधे समुप्पज्जइ) हे गौतम ! श्लेषणा बंध वह है जो भित्तियों का, मणिप्रस्तर जडित भूमियों का, खंभों का,

पन बंध कडे छे (जहण्णेण अंतोमुहूर्तं, उक्कोसेणं संखेज्जकालं) आ आलापन बंध आछामां आछो आक अंतमुहूर्तं सुधी अने वधारेमां वधारे संध्या तकाण सुधी रडे छे (से तं आलावणबंधे) आलापन बंधतुं अेषुं स्वरूप छे। (से किं तं अल्लियावणबंधे ?) हे भदन्त ! आलीन बंधतुं स्वरूप केषु छे ? (अल्लियावणबंधे चउव्विहे पणत्ते-तं जहा) हे गौतम ! आलीन बंधना नीशे प्रभाणे चार प्रकार छे—(लेसणाबंधे, उच्चयबंधे, समुच्चयबंधे, साहणणाबंधे) (१) श्लेषणा बंध, (२) उच्चय बंध, समुच्चय बंध अने (४) संहनन बंध। (से किं तं लेसणाबंधे ?) हे भदन्त ! श्लेषणा बंधतुं केषुं स्वरूप छे ? (लेसणाबंधे जं णं कुड्ढाणं, कोट्टिमाणं, खंभाणं, पासायाणं, कट्टाणं, चम्माणं, घडाण, पडाण कडाण छुहाचिक्खिल्लसिलेसलक्खमहुसित्थमाइएहिं लेसणएहिं बंधे समुप्पज्जइ) हे गौतम ! श्लेषणाबंध ते छे के के दीवादीतं। मणिप्रस्तरं

श्लेषणापन्थाः, अथ कः स उच्चयबन्धः ? उच्चयबन्धो यः सख तुभराशीनां वा, काष्ठराशीनां वा, पत्रराशीनां वा, तुपराशीनां वा, भुसराशीनां वा, गोमयराशीनां वा, भवकरराशीनां वा, उच्चयस्वेन बन्धः समुपपद्यते, अघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्क र्बेण संख्येये कालम्, स एव उच्चयबन्धः, अथ कः स समुच्चयबन्धः ? समुच्चय-

प्रासादो का, काष्ठो का, खमडे का, घडो का, पटो का बझो का और चट्टाईयो का घूना, कर्दम, पञ्जलेप, लाक्षा, मोम इसके द्वारा परस्पर में जुड़ जाना होता है। (अहण्णेण अंतोमुहूर्तं, उक्कोसेण संख्येज्ज कालं) यह बंध जघन्य से अन्तर्मुहूर्ततक और उत्कृष्ट से सख्यातकाल तक रहता है। (से सं खेसणाप धे) यही श्लेषणा यध का स्वरूप है। (से किं त उच्चयधे) हे भदन्त ! उच्चयधका क्या स्वरूप है ? (उच्चय ध धे जं णं तणरासीण वा, कट्टरासीण वा, पत्तरासीण वा, तुसरासीण वा, सुसरासीण वा, गोमयरासीण वा, भवगररासीण वा, उच्चयसेण धधे समुपपज्जइ) तृणराशि का, काष्ठराशि का, पत्रराशि का, तुपराशि का, भूसा की राशि का, गोपर के ढेर का, कूडा के ढेर का जो उच्चयधने से बंध होता है, वह उच्चयध ध है। (अहण्णेण अंतो मुहूर्तं, उक्कोसेण संख्येज्जं कालं) यह बंध जघन्य से अन्तर्मुहूर्ततक और उत्कृष्ट से

अग्नि भूमिधेनु, स्तधेनु, प्राशाडोनु हाडेनु चामधनु, धउज्जेनु, वधेनु अने अगध्धेनु घूना, धीज्जं, पञ्जलेप धाध अने भीलु धाध पत्तपर धाधे जेधध अन्धेनु अने धे (अहण्णेण अंतोमुहूर्तं उक्कोसेण संख्येज्जं कालं) अथ अंधे जेधधं जेधधे जेध अन्तर्मुहूर्तं सुभी अने वधधेधं वधधे सख्यातकालं सुभी रहे धे (से त खेसणाप धे) स्तधेनु अंधेनु अथ प्राशाडु स्वरूप धे

(से किं त उच्चयधधे ?) हे भदन्त ! उच्चयध जघन्य स्वरूप में है ? (उच्चयधधे ध ध तणरासीण वा, कट्टरासीण वा, पत्तरासीण वा, तुसरासीण वा, सुसरासीण वा, गोमयरासीण वा, भवगररासीण वा, उच्चयसेण धधे समुपपज्जइ) धाधना धज्जानो, धाधना धज्जानो, पञ्जना धज्जानो, तुपना धज्जानो, भुसना (पराणना) धज्जानो, धाधना धज्जानो, धधधना धज्जानो अथ धाधनी अथेधधे जेधधे ते पधधेना आपधधं धधधेधे धे धधे धध धे, तेने उच्चयध धधे धे धे धे। (अहण्णेण अंतोमुहूर्तं, उक्कोसेण संख्येज्जं कालं) अथ धधेधधं जेधधे जेध अन्तर्मुहूर्तं सुभी अने वधधे-

बन्धो यत् खलु अगड (अवट) तडाग नदी हृद् वापी दीर्घिकाणां गुञ्जालिकानां सरसां सरःपङ्क्तिकानाम्, सरःसरःपङ्क्तिकानाम्, विलपङ्क्तिकानाम्, देवकुलसभा-पर्व-स्तूप-खातिकानाम्, परिखाणाम्, प्राकाराद्यालक-चरिक-द्वार-गोपुर-तोरणानाम्, प्रासाद-गृह-शरण-लयनापणानाम्, शृङ्गाटक-त्रिक-चतुष्क - चत्वर - चतुर्मुख - महापथादीनां सुधाकर्दमल्लेपसमुच्चयेन बन्धः

संख्यातकालतक रहता है। (से तं उच्चयबन्धे) यही उच्चय बन्ध का स्वरूप है। (से किं तं समुच्चयबन्धे) हे भदन्त ! समुच्चय बन्धका क्या स्वरूप है ? (समुच्चयबन्धे जं णं अगडतडाग-नदी-दह वावी-पुष्करिणी दीहिया गुंजालियाणं, सराणं, सरपंतियाणं, सरसरपंतियाणं, विलपंतियाणं, देवकुल-सभापव्व-थूमखाइणं फरिहाणं पागाराद्यालगचरिय दार गोपुरतोरणाणं, पासायघर सरणलेण आवणाणं, सिंघाडग तिय-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह-महापहमाइणं-छुहा-चिक्खिल्ल सिलेस समुच्चएणं बन्धे समुप्पज्जइ) हे गौतम ! कुंओ, तालाव, नदी, द्रह, वापी, पुष्करिणी, दीर्घिका, गुंजालिका, सरोवर, सरोवरपङ्क्ति, सरःसर पङ्क्ति, विलपङ्क्ति, देवकुल सभा, प्याऊ, स्तूप, खाईयां परिघ, कोट, अटारियां, चरिक, द्वार, गोपुर, तोरण, प्रासाद, चर, शरण, बाजार, शृङ्गाटकमार्ग, त्रिकमार्ग, चतुष्कमार्ग, चत्वर, चतुर्मुखमार्ग,

रेमां वधारे स'भ्यातकाण सुधी रडे छे. (से तं उच्चयबन्धे) उच्चय बन्धनुं भेषुं स्वइप छे.

(से कि तं समुच्चयबन्धे ?) हे भदन्त ! समुच्चय बन्धनुं भेषुं स्वइप छे ?

(समुच्चय बन्धे जं णं अगडतडागनदीदहवावी, पुष्करिणी दीहियाणं गुंजालियाण, सराणं,, सरपंतियाणं, सरसरपंतियाणं, विलपंतियाणं, देवकुल-सभा पव्व-थूम खाइयाणं फरिहाणं, पागाराद्यालगचरियदारगोपुरतोरणाणं पासायघर सरणलेणआवणाण, सिंघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह-महापहमादीणं-छुहा-चिक्खिल्ल सिलेस समुच्चएणं बन्धे समुप्पज्जइ)

हे गौतम ! कुंवा, तालाव, नदी, द्रह (दूंड), वापी, पुष्करिणी, दीर्घिका; गुंजालिका, सरोवर, सरोवर पङ्क्ति, सर सर पङ्क्ति (महासरोवर श्रेणी), विल पङ्क्ति, देवकुल, सभा, प्याऊ (डवाडो), स्तूप, आइयो, परिघ, कोट, अटारीयो (प्रासादना उर्वर लाग), चरिका (नगर अने दुर्गना मध्यवर्ती लाग), द्वार, गोपुर (नगर द्वार), तोरण, प्रासाद, घर, शरण (स्थानविशेष), क्षेत्र (गृह विशेष), अजार, शृङ्गाटक मार्ग, त्रिक मार्ग चतुष्क मार्ग, चत्वर मार्ग,

समुत्पद्यते, अथन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कर्षेण सख्येयं काळम्, स एव समुत्प-
 यन्व्या; अथ का स संहननवध ? सहननवन्धो द्विविधः मङ्गला, उत्पन्ना-
 देशसंहननवधश्च, सर्वसंहननवन्धश्च अथ कः स देशसंहननवन्ध ? देशसंहननवन्धो
 यत् स्वच्छ चक्रदरययानपुग्यगिह्लिचिह्लिचिह्लिकारुपन्दसानिका लोही लोहकटा
 कङ्कुष्ठाऽऽसन-शयन-स्त्रम्म-भाण्डा-ऽमत्रोपकरणादीनां देशसंहननवन्धः सः

महापथमार्गं, राजमार्गं इत्यादि का चूना द्वारा कीचड़ द्वारा और
 इलेष के समुच्चय द्वारा जो बंध होता है वह समुच्चय बंध है।
 (अहण्णेर्ण अंतोमुहूर्त, सकोसेर्ण सखेज्जकाळ) यह बंध अथन्य से
 अन्तर्मुहूर्त तक और उत्कृष्ट से संख्यातकाल तक रहता है। (से किं तं साहज्यावधे)
 इस प्रकार से यह समुच्चयबंध का स्वरूप है। (से किं तं साहज्यावधे) हे भदन्त ! साहज्यावधे का क्या स्वरूप है ?
 (साहज्यावधे बुधिये पण्णसे) हे गौतम ! साहज्यावधे दो प्रकार का
 कहा गया है। (त अह्हा) जो इस प्रकार से है—(देशसाहज्यावधे च
 सम्बसाहज्यावधे च) ? देशसाहज्यावधे, २) सर्वसाहज्यावधे (से किं
 तं देशसाहज्यावधे) हे भदन्त ! देशसाहज्यावधे का क्या स्वरूप है ?
 (देशसाहज्यावधे जं णं सगह-रह-जाण-जुग्ग-गिह्लि-चिह्लि-सीय-
 सद्दमाणिपा, लोही-लोहकटाह-कङ्कुष्ठाऽऽसनसयण संम भदमत्तोवग-
 रणमाईर्ण देशसाहज्यावधे समुत्पद्यजह्) हे गौतम ! चाकट, रथ, घान,
 पुग्यघाहम-घोडागाडी, गिह्लि-हाथी की अंबाडी, चिह्लि-बन्गी शिबिका

समुत्पद्यते भाव' महापथ (राजमार्ग), उत्पन्नाना चूना द्वारा, प्रियं च काळं अने
 स्वैय (व्यवहय) ना समुच्चय द्वारा से अंध बांध से ते अंधने समुच्चय अंध
 कहे से (अहण्णेर्ण अंतो मुहूर्त, सकोसेर्ण सखेज्जकाळ) आ अंध जोजभां जोजभां
 जोज अंतर्मुहूर्त सुधी अने पधारिभां पधारि सम्बन्धात्तज सुधी रहे से। (से
 तं समुच्चयवधे) आ प्रकृतं समुच्चय अंधनु स्वरूप से (से किं तं साह-
 ज्यावधे ?) हे भदन्त ! सहनन अंधनु स्वरूप हेतु से ? (साहज्यावधे
 बुधिये पण्णसे-त अह्हा) हे गौतम ! सहनन अंधना नीचे प्रभावे से प्रकृत
 से—(देशसाहज्यावधे च, सम्बसाहज्यावधे च) (१) देश सहनन अंध अने
 (२) सर्व सहनन अंध। (से किं तं देशसाहज्यावधे ?) हे भदन्त ! देश
 सहनन अंधनु हेतु स्वरूप से ? (देशसाहज्यावधे च णं सगह-रह-जाण-जुग्ग-
 गिह्लि, चिह्लि सीय-सद्दमाणिपा लोही-लोहकटाह, कङ्कुष्ठा-आसनसयण संम भद-
 मत्तोवगणमाईर्ण देशसाहज्यावधे समुत्पद्यजह्) हे गौतम ! १५२ (अह्हा)
 रथ, घान, पुग्य वाहंत (घोडागाडी), चिह्लि (हाथी की अंबाडी), चिह्लि

स्पद्यते, जघन्येन अत्तमुर्हृतम्, उत्कर्षेण संख्येयं कालम्, स एष देशसंहननबन्धः,
अथ कः स सर्वसंहननबन्धः? सर्वसंहननबन्धः स खलु क्षीरोदकादीनाम्, स एष
सर्वसंहननबन्धः, स एष संहननबन्धः, स एष आलीनबन्धः। अथ कः स शरीर-

एवं स्यन्दमानी-पुरुष प्रमाणवाहनविशेष, तवा कडाही, करछी, आसन,
शयन, स्तंभ, भाण्ड, पात्र, तथा और भी नानाप्रकार के उपकरणादि
पदार्थों का जो संबंध होता है वह देशसंहननबंध है। (जहण्णेणं अंतो-
मुहुत्तं उक्कोसेणं संखेज्जं कालं) यह बंध जघन्य से एक अन्तमुर्हृत तक
रहता है और उत्कृष्ट से संख्यातकालतक रहता है। (से त्तं देससा-
हणणाबंधे) इस प्रकार से यह देशसंहननबंध का स्वरूप है। (से किं
त्तं सव्वसाहणणाबंधे) हे भदन्त! सर्वसंहननबंध का क्या स्वरूप है?
(सव्वसाहणणाबंधे-से णं खीरोदगमाहणं से त्तं सव्वसाहणणाबंधे)
हे गौतम! दूध और पानी आदि पदार्थों का जो बंध है वह सर्वसंहनन
बंध है। यही सर्वसंहननबंध का स्वरूप है। इस प्रकार से यहां तक
(से त्तं साहणणाबंधे, से त्तं अल्लियावणबंधे) सादि सपर्यवसित बंधके
चार प्रकारों में से द्वितीय प्रकाररूप आलीनबंध का कथन संहननबंध
का कथन करने पर हो जाता है। (से किं त्तं सरीरबंधे) हे भदन्त!
सादि सपर्यवसितबंध का जो तृतीय भेद शरीरबंध है उसका क्या

(अंग्गी), शिभिका (पादभी), स्यन्दभादिका (पुरुष प्रमाण वाहन विशेष),
तांवाडो, कडाही, करछी, आसन, शयन, स्तंभ, भांड, पात्र, तथा भीम विविध
प्रकारना उपकरणादि पदार्थोना ने बंध थाय छे, ते बंधने देश संहनन बंध
के छे। (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं संखेज्जं कालं) आ संहनन बंध
आआमां आओ अेक अंतमुहुत्तं सुधी अने वधारेमां वधारे संध्यातकाण
सुधी रहे छे (से त्तं देससाहणणाबंधे) आ प्रकारत्तं-देश संहनन बंधत्तं
स्वरूप छे (से किं त्तं सव्वसाहणणाबंधे?) हे भदन्त! सर्व संहनन बंधत्तं
स्वरूप केवुं छे? (सव्वसाहणणा बंधे-से णं खीरोदगमाहणं से त्तं सव्वसाहणणा
बंधे) हे गौतम! दूध अने पाणी आदि पदार्थोना ने बंध थाय छे ते
बंधत्तं नाम सर्वसंहनन बंध छे. आ प्रकारत्तं संहनन बंधत्तं स्वरूप छे.
आ अही सुधीमां (से त्तं साहणणा बंधे, से त्तं अल्लियावणबंधे) सादि
सपर्यवसित बंधना चार प्रकारोमांथी भीम प्रकार रूप आलीन बंधत्तं कथन-
संहनन बंधत्तं निरूपण थध न्वाथी पूरं थाय छे.

(से किं त्तं सरीरबंधे?) हे भदन्त! सादि सपर्यवसित बंधने ने
त्रीने शरीरबंध नामने। केद छे, तेत्तं केवुं स्वरूप छे?

યઃ ? શરીરબંધો દ્વિવિધઃ મહત્તઃ, તથા—પૂર્વપ્રયોગપ્રત્યયિકમ પ્રતિપક્ષપદમ-
પ્રત્યુપિત્તમ્ અથ કાઃ સ પૂર્વપ્રયોગપ્રત્યયિક ? પૂર્વપ્રયોગપ્રત્યયિકો યઃ સ્વસ્તુ નૈ-
યિકાણાં સંસારસ્થાનાં સર્વજીવાનાં તમ્ તમ્ તેષુ તેષુ કારણે સમવદન્ત્યમાનાનાં
જીવમદેશાનાં ધન્વઃ સમુપપદ્યતે, સ પ્વ પૂર્વપ્રયોગપ્રત્યયિકા, અથ કાઃ સ પ્રત્યુત્પન્ન-
પ્રયોગપ્રત્યયિકા ? પ્રત્યુત્પન્નપ્રયોગપ્રત્યયિકો યઃ સ્વસ્તુ કેવલજ્ઞાનિનોજ્ઞાનગારસ્વ

સ્વરૂપ છે ? (શરીરબંધે કુવિદે પળ્લસે) છે ગૌતમ ! શરીરબંધ દો પ્રકાર
કા કહા ગયા છે । (તં જહા) જો હસ તરહ સે છે—(પુલ્કવ્વયોગપચ્ચ
હૃદ ય, પદ્મવ્વપ્પમ્મોગપચ્ચહૃદ ય) પૂર્વ પ્રયોગપ્રત્યયિક શરીરબંધ ઓર
પ્રત્યુત્પન્નપ્રયોગપ્રત્યયિકશરીરબંધ । (સે કિં તં પુલ્કવ્વયોગપચ્ચહૃદ) છે
મદન્ત ! પૂર્વપ્રયોગપ્રત્યયિકશરીર બંધ કા કયા સ્વરૂપ છે ? (પુલ્કવ્વપ્પમ્મો-
ગપચ્ચહૃદ જં ણં નેરુદ્ધયાણં સંસારસ્થાણ સમ્બજીવાણ તત્થ તત્થ તેસુ
તેસુ કારણેસુ સમોદ્ધમાણાણં જીવપ્પપ્સાણં વંધે સમુપ્પજ્જહ) છે ગૌત-
મ ! જો ઇમ ઇન કારણોં કે હોને પર સમુદ્ધાત કરતે હુદ નૈરયિક પર્વ
સર્વસંમારી જીવોં કે જીવ પ્રવેશોં કા જો યદ્દ હોતા છે વહ પૂર્વપ્રયોગપ્ર-
ત્યયિકશરીરબંધ છે । (સે ત્ત પુલ્કવ્વયોગપચ્ચહૃદ) યહી પૂર્વપ્રત્યયિક
શરીર બંધ કા સ્વરૂપ છે । (સે કિં તં પદ્મવ્વપ્પમ્મોગપચ્ચહૃદ) છે મદન્ત
પ્રત્યુત્પન્નપ્રયોગપ્રત્યયિક યદ્દ કા કયા સ્વરૂપ છે ? (પદ્મવ્વપ્પમ્મોગપચ્ચ-
હૃદ જં ણં કેવલ્લનાગિસ્સ ળ્ણગારસ્સ કેવલ્લિસમુદ્ધાપ્પણ સમોદ્ધપ્પસ્સ

(શરીરબંધે કુવિદે પળ્લસે—તજ્જહ) છે ગૌતમ ! શરીરબંધના નીચે
પ્રમાણે બે પ્રકાર છે—(પુલ્કવ્વયોગપચ્ચહૃદ ય, પદ્મવ્વપ્પમ્મોગપચ્ચહૃદ ય)
(૧) પૂર્વપ્રયોગ પ્રત્યયિક શરીરબંધ અને (૨) પ્રત્યુત્પન્ન પ્રયોગ પ્રત્યયિક શરીર
બંધ (સે કિં તં પુલ્કવ્વયોગપચ્ચહૃદ ?) છે મદન્ત ! પૂર્વપ્રયોગ પ્રત્યયિક
શરીરબંધનું કૈવુ સ્વરૂપ છે ?

(પુલ્કવ્વયોગપચ્ચહૃદ જં ણં નેરુદ્ધયાણં સંસારસ્થાણં સમ્બજીવાણં તત્થ
તત્થ તેસુ તેસુ કારણેસુ સમોદ્ધમાણાણં જીવપ્પપ્સાણં વંધે સમુપ્પજ્જહ) છે
ગૌતમ તે તે ક્ષેત્રેભાં તે તે કારણેા ઉપત્ત વચાથી (સમુદ્ધવાતના કારણરૂપ
વેદના આદિ કારણેા ઉદ્ભવે ત્યારે) સમુદ્ધવાત કરતા એવા નારક અને સર્વ
સંસારી એવાના એવપ્રદેશોના બે બંધ યાજ છે તે બંધને પૂર્વપ્રયોગ પ્રત્ય-
યિક શરીરબંધ કહે છે (સે ત્ત પુલ્કવ્વયોગપચ્ચહૃદ) પૂર્વપ્રત્યયિક શરીરબંધ
એવુ સ્વરૂપ છે (સે કિં તં પદ્મવ્વપ્પમ્મોગપચ્ચહૃદ ?) છે મદન્ત ! પ્રત્યુત્પન્ન
પ્રયોગ પ્રત્યયિક બંધનું કૈવુ સ્વરૂપ છે ?

केवलिसमुद्घातेन समवहतस्य तस्मात् समुद्घातात् प्रतिनिवर्तमानस्य अनतरा मन्याने वर्तमानस्य तैजसकार्मणयोः बन्धः समुत्पद्यते, किं कारणम् ? तदा तस्य प्रदेशा एकत्वीकृता भवन्ति इति, स एष प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिकः, स एष शरीरबन्धः, अथ कः स शरीरप्रयोगबन्धः ? शरीरप्रयोगबन्धः पञ्चविधः प्रज्ञप्तः ? तद्यथा—

ताओ समुग्घायाओ पडिचिन्तेमाणस्स अंतरामंथे वट्टमाणस्स तेयाकम्माणं बधे समुप्पज्जह) हे गौतम ! केवलिसमुद्घात से समुद्घात करते हुए और फिर पीछे उससे फिरते हुए केवली के मंथान अवस्था में रहते समय तैजस और कार्मण शरीर का जो बंध होता है वह प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिक बंध है। (किं कारणं) हे भदन्त ! तैजस और कार्मणशरीर के बंध होने में वहां क्या कारण है ? (ताहे से पएसा एगत्तीया भवन्ति, त्ति) हे गौतम ! उस समय केवली के आत्मप्रदेश संघात को प्राप्त होते हैं। इस कारण से उस केवली के तैजस और कार्मण शरीर प्रदेशों का बंध होता है। (से त्तं पडुप्पन्नप्पओगपच्चइए) यही प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिक बंध का स्वरूप है (से त्तं सरीरबधे) इस तरह से शरीरबंध का स्वरूप कहा। (से किं तं सरीरप्पओगबधे) हे गौतम ! शरीरप्रयोगबंध का क्या स्वरूप है (सरीरप्पओगबधे पंचविहे पणत्ते) हे गौतम ! शरीरप्रयोगबंध पांच प्रकार का कहा गया है। (तं जहा) जो इस प्रकार से है—(ओरालियसरीरप्पओगबधे) १ औदारिक शरीर

(पडुत्पन्नप्पओग पच्चइए जं णं केवलिसानिस्स अणगारस्स केवलिसमुग्घाएणं समोहयस्स ताओ समुग्घायाओ पडिचिन्तेमाणस्स अंतरामंथे वट्टमाणस्स तेयाकम्माणं बधे समुप्पज्जह) हे गौतम ! केवलि समुद्घात द्वारा समुद्घात करता अने त्थारभाद ते समुद्घातमांथी पाछा करती वधते मंथान अवस्थाभां रडेती वधते केवलीने ने तैजस अने कार्मण शरीरने अंध थाय छे, ते अंधने प्रत्युत्पन्न प्रयोगप्रत्ययिक अंध कडे छे (किं कारणं ?) हे भदन्त ! तैजस अने कार्मण शरीरने अंध थवाभां त्या शुं कारण डोय छे ? (ताहे से पएसा एगत्तीगया भवन्ति, त्ति) हे गौतम ! ते सभये केवलीना आत्मप्रदेशो संघात पाये छे ते कारणे ते केवली तैजस अने कार्मण शरीरने अंध करे छे (से त्तं पडुप्पन्नप्पओगपच्चइए) अने प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक अंधनुं स्वरूप छे (से त्तं सरीरबधे) आ प्रकारे अर्की शरीरअंधना स्वरूपनुं प्रतिपादन पूरं थाय छे

(से किं तं सरीरप्पओगबधे ?) हे भदन्त ! शरीर प्रयोग अंधनुं स्वरूप केनुं छे ? (सरीरप्पओगबधे पंचविहे पणत्ते—तं जहा) हे गौतम ! शरीर प्रयोग अंधना नीचे प्रमाणे पांच प्रकार कहे छे—(ओरालियसरीरप्पओग-

औदारिकशरीरप्रयोगवन्धः, वैक्रियशरीरप्रयोगवन्धः, आहारकशरीरप्रयोगवन्धः, तैजसशरीरप्रयोगवन्धः, कामणशरीरप्रयोगवन्धः । औदारिकशरीरप्रयोगवन्धः सल्लु मदन्त ! कतिविध प्रश्न ? गौतम ! पञ्चविध प्रश्नः' तद्यथा—एकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवन्धः, द्वीन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवन्धः, यावत्—पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवन्धः । एकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवन्धः सल्लु मदन्त ! कतिविधः प्रश्नः !

प्रयोगवन्धः, (वेदव्यिप्रसरीरप्पओगवधे) २ वैक्रियशरीरप्रयोगवन्धः, (आहारकशरीरप्पओगवधे) ३ आहारकशरीरप्रयोगवन्धः, (तेषासरीरप्पओगवधे), ४ तैजसशरीरप्रयोगवन्धः और (कम्मासरीरप्पओगवधे) ५ कामणशरीरप्रयोगवन्धः (ओरालियशरीरप्पओगवधे ण भंते । कइविहे पण्णत्ते) हे भवन्त ! औदारिकशरीरप्रयोगवन्धः कितने प्रकार का कहा गया है ? (गोयमा ! पञ्चविहे पण्णत्ते) हे गौतम ! औदारिकशरीरप्रयोगवन्धः पांच प्रकार का कहा गया है । (तं जहा) जैसे एगिदिय ओरालिय सरीरप्पओगवधे, पेदियओरालियसरीरप्पओगवधे, जाव पंचिदिय ओरालियसरीरप्पओगवधे) एकेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगवन्धः, द्वीन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगवन्धः, यावत् पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीरप्रयोग वन्धः । (एगिदियओरालियसरीरप्पओगवधे ण भंते ! कइविहे पण्णत्ते) हे भवन्त ! एकेन्द्रिय औदारिक शरीरप्रयो-

वधे (१) औदारिक शरीर प्रयोग वन्धः, (वेदव्यिप्रसरीरप्पओगवधे) (२) वैक्रिय शरीर प्रयोग वन्धः (आहारकशरीरप्पओगवधे) (३) आहारक शरीर वन्धः, (तेषासरीरप्पओगवधे) (४) तैजस शरीर प्रयोग वन्धः अने (कम्मा सरीरप्पओगवधे) (५) कामण शरीर प्रयोग वन्धः ।

(ओरालियसरीरप्पओगवधे ण भंते ! कइविहे पण्णत्ते ?) हे भवन्त ! औदारिक शरीर प्रयोग वन्धः कितने प्रकार के हैं ?

(गोयमा ! पञ्चविहे पण्णत्ते—तजहा) हे गौतम ! औदारिक शरीर प्रयोग वन्धः—नीचे प्रभावे पांच प्रकार के हैं—(एगिदिय ओरालियसरीरप्पओगवधे) पेदियओरालियसरीरप्पओगवधे जाव पंचिदियओरालियसरीरप्पओगवधे) (१) एकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग वन्धः, (२) द्वीन्द्रिय औदारिकशरीर प्रयोग वन्धः (३) त्रैन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग वन्धः, (४) चतुरिन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग वन्धः अने (५) पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग वन्धः । (एगिदिय ओरालिय सरीरप्पओगवधे ण भंते ! कइविहे पण्णत्ते ?)

गौतम । पञ्चविधः प्रज्ञप्तः, तद्यथा-पृथिवीकाधिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबंधः, एवम् एतेन अभिलापेन भेदो यथा अत्रगाहनासंस्थाने औदारिकशरीरस्य तथा भणितव्यः, यावत् पर्याप्तकर्मव्युत्क्रान्तिकमनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवन्धश्च, अपर्याप्तकर्मव्युत्क्रान्तिकमनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवन्धश्च । औदारिकशरीरप्रयोगवन्धः खलु भदन्त ! कस्य कर्मण उदयेन? गौतम ! वीर्यसयोगसद्द्रव्यतया,

गबंध कितने प्रकार का कहा गया है ? (गोयमा) हे गौतम ! (पंचविहे पणन्ते) पांच प्रकार का कहा गया है । (तं जहा) जो इस प्रकार से है- (पुढविकाइयएगिदियओरालियसरीरप्पओगबंधे एवं एएणं अभिलापेणं भेदो जहा ओगाहणसंठाणे ओरालियसरीरस्स तहा भाणियव्वो) पृथिवीकाधिक एकेन्द्रिय औदारिक शरीरप्रयोग बंध इस तरह से इस अभिलापद्वारा जैसा “ अवगाहना संस्थान ” पद में औदारिक शरीर का भेद कहा गया है वैसा यहां पर कहना चाहिये (जाव पज्जत्तगवभवकंतियमणुस्सपंचिदिय ओरालिय सरीरप्पओगबंधे य, अपज्जत्तगवभवकंतियमणुस्सपंचिदियओरालियसरीरप्पओग जाव बंधे य) यावत् पर्याप्तकर्मजननुष्यपंचेन्द्रियऔदारिक शरीरप्रयोगबंध और अपर्याप्तकर्मजननुष्यपंचेन्द्रियऔदारिक शरीरप्रयोगबंध । (ओरालियसरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं) हे भदन्त ! औदारिकशरीरप्रयोगबंध किस कर्म के उदय से होता है ? (गोयमा)

हे भदन्त ! एकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंध केटला प्रकारनो कइयो छे ?

(गोयमा ! पंचविहे पणन्ते-तंजहा) हे गौतम ! तेना नीचे प्रभाणु पांच प्रकार कइया छे- (पुढविकाइयएगिदियओरालियसरीरप्पओगबंधे एवं एएणं अभिलापेणं भेदो जहा ओगाहणसंठाणे ओरालियसरीरस्स तहा भाणियव्वो) पृथ्वीकाधिक एकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंध, आ प्रकारे आ अभिलाप द्वारा “ अवगाहना संस्थान ” पदमां औदारिक शरीरना जेवा लेहो कडेवामां आण्था छे, जेवा लेहो अही पथु कडेवा लेधजे.

(जाव पज्जत्तगवभवकंतिय मणुस्स पंचिदिय ओरालिय सरीरप्पओगबंधे य, अपज्जत्तगवभवकंतियमणुस्स पंचिदिय ओरालियसरीरप्पओग जाव बंधे य) यावत् “ पर्याप्त कर्मजननुष्य पंचेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंध अने अपर्याप्त कर्मजननुष्य पंचेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंध. ” (ओरालिय सरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ?) हे भदन्त ! औदारिक शरीर प्रयोग बंध क्या कर्मना उदयथी थाय छे ?

प्रमादप्रत्ययात्, कर्मयोगश्च मन्त्रश्च आयुष्कश्च पतीत्य च औदारिकशरीरप्रयोगनाम
कर्मण उदयेन औदारिकशरीरप्रयोगबन्धः । एकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबन्धः क्लृप्त
भवन्त ! कस्य कर्मण उदयेन ! एवमेव, पृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोग
बन्धः एवमेव, एवं यावत् वनस्पतिकायिकाः, एवं द्वीन्द्रियाः, एवं त्रीन्द्रियाः, एवं
चतुरिन्द्रियविर्यग्योनिकौदारिकशरीरप्रयोगबन्धः, एवमेव पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्र

हे गौतम ! (बीरियस्रजोगसहस्रव्याप्य प्रमादपञ्चव्या कर्मन् च जोगन् च
मर्षन् च आठयन् च पञ्चञ्च ओरालियसरीरप्रयोगनामकम्मस्स उदयणं
ओरालियसरीरप्रयोगबन्धे) जीवन्ती सवीर्यता, सयोगता, सद्रव्यता
से प्रमादरूप कारण से, कर्म, योग, मन्त्र, और आयुष्क को आश्रित
करके औदारिकशरीरप्रयोग नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीरप्र-
योगबन्ध होता है । (एगिंदिय ओरालियसरीरप्रयोग बन्धे ण भते ! कस्स
कम्मस्स उदयणं) हे भवन्त ! एकेन्द्रिय औदारिक शरीरप्रयोगबन्ध किस
कर्म के उदय से होता है ? (एव मेव) हे गौतम ! इसी तरह से होता
है । (पुडविकहाइयपगिंदिय ओरालियसरीरप्रयोगबन्धे एवं मेव) पृथि-
वीकायिक एकेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध भी इसी तरह से होता
है । (एवं जाव वणत्सइकाइया एवं वेइदिया, एव तेइदिया, एवं
चठरिंदिया-तिरिक्खजोणियपचिंदियओरालियसरीरप्रयोगबन्धे एवं
मेव) यावत् वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध, तथा
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चौरिन्द्रिय तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय औदारिक

(गोयमा !) हे गौतम ! (बीरियस्रजोग, सहस्रव्याप्य प्रमादपञ्चव्या कर्मन् च
जोगन् च मर्षन् च आठयन् च पञ्चञ्च ओरालिय सरीरप्रयोग नाम कम्मस्स उदयणं
ओरालियसरीरप्रयोग बन्धे) जीवन्ती सवीर्यता, सयोगता, सद्रव्यता, प्रमाद
इय कारणधी, कर्म, योग, मन्त्र, और आयुष्कने आश्रित करके औदारिक शरीर
प्रयोग नाम कर्मन् उदयधी औदारिक शरीरप्रयोग बन्ध थाव्ठे (एगिंदिय
ओरालिय सरीरप्रयोग बन्धेण भते ! कस्स कम्मस्स उदयणं ?) हे भवन्त ! एके-
न्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बन्ध तथा कर्मना उदयधी थाव्ठे ?

(एव मेव) हे गौतम ! औदारिक शरीरप्रयोग बन्धे एवी शीते थाव्ठे
हे तेवी शीते च आ जव थाव्ठे (पुडविकहाइय पगिंदिय ओरालिय सरीर
प्रयोगबन्धे एवं मेव) पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बन्ध
भवन्त एवी शीते थाव्ठे (एवं जाव वणत्सइकाइया, एव वेइदिया, एवं तेइ-
दिया, एव चठरिंदिया) तिरिक्खजोणियपचिंदियओरालियसरीरप्रयोगबन्धे
एवं मेव) वनस्पतिकायिक पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बन्धे

योगवन्धः खलु भदन्त ! कस्य कर्मण उदयेन ? गौतम ! वीर्यसयोगसद्द्रव्यतया प्रमाद यावत् आयुष्कं प्रतीत्य पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मण उदयेन, तिर्यक्पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवन्धः एवमेव, मनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवन्धः खलु भदन्त ! कस्य कर्मण उदयेन ? गौतम ! वीर्यसयोगसद्द्रव्यतया प्रमादप्रत्ययात् यावत्

शरीरप्रयोगवन्ध भी इसी तरहसे होता है। (पंचिन्द्रियओरालियसरीरप्पओगवन्धे णं भन्ते ! कस्स कम्मस्स उदएणं) हे भदन्त ! पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीरप्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (वीरियसजोगसद्द्रव्याए पमाय जाव आउयं पडुच्च पंचिन्द्रिय ओरालिय सरीरप्पओगनामकम्मस्स उदएणं, तिरिक्खपंचिन्द्रिय ओरालिय सरीरप्पओगवन्धे एवं चैव) जीव की वीर्यता, सयोगता, सद्रव्यता से, प्रमादरूप कारण से, कर्म, योग, भव एवं आयुष्य को आश्रय करके औदारिक शरीरप्रयोग नामकर्म के उदय से पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीरप्रयोगवन्ध होता है। इसी तरह से तिर्यक् पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीरप्रयोगवन्ध होता है। (मणुस्सपंचिन्द्रिय ओरालिय सरीरप्पओगवन्धे णं भन्ते ! कस्स कम्मस्स उदएणं) हे भदन्त ! मनुष्य पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीरप्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (वीरियसजोगसद्द्रव्याए पमादपच्चया जाव आउयं च पडुच्च

तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अने पञ्चेन्द्रिय तिर्यक् योनिः औदारिक शरीर प्रयोग वन्ध पण्ये षीते थाय छे.

(पंचिन्द्रियओरालिय सरीरप्पओगवन्धे णं भन्ते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ?) हे भदन्त ! पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग वन्ध कया कर्म्मना उदयथी थाय छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (वीरियसजोगसद्द्रव्याए पमाय जाव आउयं पडुच्चपंचिन्द्रियओरालियसरीरप्पओगनामकम्मस्स उदएणं, तिरिक्खपंचिन्द्रिय ओरालियसरीरप्पओगवन्धे एवं चैव) एवानी वीर्यता, सयोगता अने सद्रव्यताथी, प्रमादरूप कारणे, कर्म्म, योग, भव अने आयुष्कने आश्रित करीने औदारिक शरीर प्रयोग नाम कर्म्मना उदयथी पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग वन्ध थाय छे पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग वन्ध पण्ये थाय छे.

(मणुस्सपंचिन्द्रियओरालियसरीरप्पओगवन्धे णं भन्ते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ?) हे भदन्त ! पञ्चेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोग वन्ध कया कर्म्मना उदयथी थाय छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (वीरियसजोगसद्द्रव्याए पमादपच्चया जाव आउयं च पडुच्च

आयुष्क च प्रतीत्य मनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मण उदयेन मनुष्य
पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगश्च ॥ सू० ३ ॥

टीका—‘ से किं त पमोगबंधे ? ’ गौतम पृच्छति — हे भवन्त !
अथ क्व कतिविधः स प्रयोगश्च मह्यतः ? भगवानाह—‘ पमोगबंधे त्रिविधे
पण्यसे ’ हे गौतम ! प्रयोगश्च त्रिविधः मह्यतः ‘ तं अहा—अपञ्चवसिप वा
अपञ्चवसिप, साहप वा अपञ्चवसिप, साहप वा सपञ्चवसिप ’ तथा

मणुस्सपञ्चिदियओराळिपसरीरप्पमोगनामकम्मस्स उदपणं मणुस्स
पञ्चिदियसरीरप्पमोगबंधे) जीव की प्रीयता, सयोगता, सद्रूपता,
प्रमादरूपहेतु—इनसे कर्म, योग, अथ एव आयुष्क को लेकर के मनु,
प्यपंचेन्द्रिय-औदारिक शरीरप्रयोग नामकर्म के उदय से मनुष्यपञ्चेन्द्रिय
औदारिक शरीरप्रयोग यथा होता है ।

टीकार्थ—श्री कटाह न्याय से पश्चात् पठित भी बिम्बसाबंध का
प्ररूपण करके सूत्रकार अथ प्रयोगश्च की प्ररूपणा कर रहे हैं—इसमें
गौतम ने प्रश्न से ऐसा पूछा है—‘ से किं तं पमोगबंधे—पमोगबंधे त्रिविधे
पण्यसे ’ हे भवन्त ! प्रयोगश्च कि जिसका स्वरूप बिम्बसाबंध से निश्च
है क्या है—अर्थात्—प्रयोगबंध किन्ते प्रकार का है ? इसके उत्तर में सूत्र
कहते हैं—हे गौतम ! प्रयोगश्च तीन प्रकार का है—‘ त जहा ’ जो इस
तरह से है—‘ अणाहप वा अपञ्चवसिप, साहप वा अपञ्चवसिप, साहप

वाठय च पण्यसे मणुस्सपञ्चिदिय ओराळिप सरीरप्पमोग नामकम्मस्स उदपणं
मणुस्स पञ्चिदिय ओराळिप सरीरप्पमोगबंधे) अर्थात् प्रीयता, सयोगता,
सद्रूपता अने प्रमादरूप हेतुसही कर्म, योग, एव अने आमुष्केने आश्रित
करिने मनुष्य पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग नाम कर्मना उदयसही मनुष्य
पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग लभ जाय छे

टीका—इस प्रमाणे जणुत्वा प्रयोगलभनी मह्यतया पण्यसे वही जेपटी
हवी, परन्तु ‘ सुधी कटाह न्यायने ’ अनुसरीने पश्चात् पठित बिम्बसा बंधनी
मह्यतया पण्यसे करवाभा जावी छे कवे ; सूत्रकार प्रयोगलभनी नीयना प्रमो
त्तरा द्वारा मह्यतया करे छे—

गौतम स्वामीने प्रश्न—(से किं तं पमोगबंधे ?) के भवन्त ! (विच
रवही कित जेवा प्रयोग लभतुं स्वर्ण हेतु छे ? जेठे के प्रयोगलभना
कटवा प्रकार छे ?

महावीर मणुने उत्तर—(पमोगबंधे त्रिविधे पण्यसे—त जहा) के गौतम !
प्रयोगलभना नीयने प्रमाणे जणुत्वा प्रकार छे—(अणाहप वा अपञ्चवसिप, साहप वा

अनादिको वा अपर्यवसितः, सादिको वा अपर्यवसितः सादिको वा सपर्यवसितः, तत्र जीवव्यापारेण जीवप्रदेशानाम् औदारिकादिशरीरपुद्गलानां च बन्धः प्रयोगबन्धः तस्य, च चत्वारो विकल्पा भवन्ति, तथाहि—अनादिकम् अपर्यवसितम् १, अनादिकं सपर्यवसितम् २, सादिकम् अपर्यवसितम् ३, सादिकं सपर्यवसितम् ४, किन्त्वत्र तेषु चतुर्षु त्रय एव विकल्पाः अनादिकसपर्यवसितरूपद्वितीयविकल्पवर्जिताः संभवन्ति, तत्र प्रथमभङ्गोदाहरणायह—‘तत्थ णं जे से’ इत्यादि । तेषु च असंग्घात प्रदेशिकजीवस्य ये अष्टौ मध्यप्रदेशाः सन्ति तेषाम् अनादिको-अपर्यवसितो बन्धो भवति, यतो हि यदापि जीवः केवलिसमुद्घातसमये समग्रलोकं व्याप्य तिष्ठति तदापि असौ तथाविधायामेव स्थितौ तिष्ठति, अन्येषां पुनर्जीवप्रदेशानां

वा सपञ्जवसिए ” १ अनादि अपर्यवसित, २ सादिअपर्यवसित, और सादिसपर्यवसित, जीव के व्यापार से जीवप्रदेशों का और औदारिकादिशरीरपुद्गलों का जो बंध है वह प्रयोगबंध है । इसके चार विकल्प होते हैं—अनादि अपर्यवसित १, अनादि सपर्यवसित २, सादिअपर्यवसित ३, और सादिसपर्यवसित ४, किन्तु इन चार विकल्पों में से यहां तीन ही विकल्प बनते हैं—अनादि सपर्यवसितरूप द्वितीय विकल्प नहीं बनने से छोड़ दिया गया है । प्रथम भंग को उदाहरण द्वारा समझाने के लिये सूत्रकार कहते हैं—‘ तत्थ णं जे से ’ इत्यादि, असंग्घात प्रदेशों वाले जीव के जो आठ मध्य के प्रदेश हैं, उनका अनादि अपर्यवसित बंध होता है । क्योंकि जिस समय केवली भगवान् केवलि समुद्घात करते हैं उस समय वे समग्रलोक को व्याप्त करलेते हैं—परन्तु वे मध्यप्रदेश उनके उसी स्थिति में रहते हैं—उनमें कोई विपरिवर्तन नहीं

अपञ्जवसिए, साइए वा सपञ्जवसिए) (१) अनादि अपर्यवसित, (२) सादि अपर्यवसित अने (३) सादि सपर्यवसित. एवना व्यापारथी एवप्रदेशोना अने औदारिकादि शरीर पुद्गलानो जे अंध थाय छे, तेने प्रयोगबंध कडे छे. तेना आर विकल्प थाय छे—(१) अनादि अपर्यवसित, (२) अनादि सपर्यवसित, (३) सादि अपर्यवसित अने (४) सादि सपर्यवसित परन्तु आ आर विकल्पोभाथी अही त्रण विकल्प जे अने छे, अनादि सपर्यवसित ३ य भीजे विकल्प अनतो नथी, तेथी उपर सुगण त्रण प्रकार पडे छे. हवे पडेवा भंगने उदाहरण द्वारा समझववाने माटे सूत्रकार कडे छे के “ तत्थ णं जे से ” इत्यादि, असंग्घात प्रदेशोवाणा एवना जे आठ मध्यप्रदेशो छे, तेमने अनादि अपर्यवसित अंध थाय छे, कारण के जे समये डेवली लगवान डेवली समुद्घात करे छे, ते समये तेओ समग्र लोकने व्याप्त करी वे छे परन्तु तेमना ते मध्यप्रदेशो ओज स्थितिमां रहे छे—तेमां काम प्रकृत...

विपरिवर्तमानत्वाभास्ति अनादिकोऽपर्यवसितो बन्धः, तत्स्थापना चेयम् [४/४]
 एतेषामुपरि अन्येऽपि चत्वारः एवमेतेऽष्टौ मनन्तीत्यभिप्रायेणाह—' तत्त्वं णं वे से
 अणाइए अपञ्जवसिए, से णं अट्टहं जीवमज्जपएसाणं' तत्रापि त्रियु उपर्युक्तविशेषेषु
 अपि खलु यः तस्य जीवस्य अनादिकोऽपर्यवसितो बन्धः स खलु अष्टानां जीव
 मध्यप्रदेशानां भवति । एवं रीत्या समुदायतोऽष्टानां बन्धः प्रतिपादितः, अथ तेषु एकै
 केन आत्मप्रदेशेन सह यावतां परस्परं बन्धो भवति तदर्थमित्युमाह—' तत्त्वं णं
 तिण्हं तिण्हं अणाइए, अपञ्जवसिए, सेसाणं साइए ' तत्रापि तेज्वपि अष्टसु जीव-
 प्रदेशेषु मध्ये खलु त्रयाणां त्रयाणाम् एकैकेन सह अनादिकोऽपर्यवसितो बन्धः
 अनादिरनन्तो बन्ध इत्यर्थो वर्तते, तथाहि—पूर्वोक्तरीत्याऽवस्थितानामष्टानामुपरि
 तनप्रतरस्य यः कश्चिदेकः प्रदेशो विवक्षितः तस्य, पार्श्ववर्तिनी द्वौ प्रदेशौ एकआपोष-
 र्थित्येवंरीत्या एते त्रयः सम्बध्यन्ते, दोषस्त्वेकः उपरितनः, यत्रावस्तना न सम्बध्यन्ते

होता है—अन्य प्रदेशों में विपरिवर्तन होता है, इसलिये अमादि अपर्यवसितयः जीव के आठ मध्यप्रदेशों के सिवाय अन्यप्रदेशों में नहीं होता है । उनकी स्थापना इस प्रकार से है—[४/४] इनके ऊपर और भी चार प्रदेश हैं इस तरह समुदाय की अपेक्षा से इन आठ प्रदेशों का बन्ध प्रतिपादित हुआ है । अथ उनमें से एक एक आत्मप्रदेश के साथ जितने प्रदेशों का परस्पर बन्ध होता है—इस बात को दिखाने के लिये सूत्रकार कहते हैं—' तत्त्वं णं तिण्हं तिण्हं अणाइए, अपञ्जवसिए ' सेसाणं साइए ' उन आठ प्रदेशों में भी तीन तीन प्रदेशों का एक एक प्रदेशके साथ अनादि—अपर्यवसित अनादि अनन्त बन्ध है । पूर्वोक्तरीति के अनुसार अवस्थित उन आठ प्रदेशों में से उपरितनप्रतरका जो कोई एक विवक्षित प्रदेश है—उस विवक्षित प्रदेशका, अपने पासके दो प्रदेशों

अन्य प्रदेशों का विपरिवर्तन साथ ही तभी अनादि अपर्यवसित बन्ध स्थापना आठ मध्यप्रदेशों सिवायने अन्य प्रदेशों में तभी तेमनी स्थापना का प्रभावे समझनी—[४/४] तेमनी उपर जीवित पञ्च चार प्रदेश हैं, आठ गीते समुदायनी अपेक्षासे आठ प्रदेशोंने बन्ध प्रतिपादित किये हैं एवं तेमनी जेक जेक प्रदेशोंने परस्पर बन्ध साथ ही ते वात प्रकट करवाने भाटे सूत्रकार कहे हैं—(तत्त्वं णं तिण्हं तिण्हं अणाइए अपञ्जवसिए, सेसाणं साइए) ते आठ प्रदेशोंमां पञ्च त्रय त्रय प्रदेशोंने जेक जेक प्रदेशोंनी साथ अनादि अपर्यवसित (अनादि अनन्त) साथ ही पूर्वोक्त गीत प्रभावे अवस्थित (बोधवायेवा वदेवा) ते आठ प्रदेशोंमांभी उपरितन प्रतरने के भाँडे जेक अमुक प्रदेश हैं—ते अमुक प्रदेशोंने, पीतानी भासेना के प्रदेशोंनी साथ जने

दूरवर्तित्वेन व्यवहितत्वात्, एवमधस्तनप्रतरापेक्षयापि इति बोध्यम्, शेषाणाम् मध्यमाष्टभ्योऽन्येषां जीवप्रदेशानां सादिरपर्यवसितः सपर्यवसितो वा बन्धो भवति विपरिवर्तमानत्वात्, इति प्रथमो विकल्पो व्याख्यातः, 'अनादिः सपर्यवसितः' इति द्वितीयो विकल्पस्तु नेह संभवति अनादिसंबद्धानाम् अष्टानां जीवप्रदेशानाम् विपरिवर्तमानत्वेन बन्धस्य अनादि सपर्यवसितत्वाद्नुपपत्तेः। अथ तृतीयं विकल्पमु-

के साथ और नीचे के एक प्रदेश के साथ इस तरह से इन तीन प्रदेशों के साथ अनादि अनन्त संबन्धरूप बंध है। ऊपर का एक प्रदेश और नीचे के तीन इस के साथ संबन्ध नहीं हैं। क्यों कि ये उससे दूरवर्ती होने के कारण व्यवहित होते हैं। इसी तरह से अधस्तन (नीचे की) प्रतर की अपेक्षा से भी जानना चाहिये। इसी कारण तीन २ प्रदेशों का अनादि अनन्तरूप बंध कहा गया है। इन मध्यम आठ प्रदेशों से अतिरिक्त और जो जीवप्रदेश हैं—उनका सादिअपर्यवसित, या सादि-सपर्यवसित बंध है। क्यों कि इनमें विपरिवर्तन होता है। इस प्रकार से प्रथमविकल्प के विषय में यह स्पष्टीकरण है। "अनादि सपर्यवसित" ऐसा जो द्वितीयविकल्प है वह इन जीव के मध्य आठ प्रदेशों में संभवित नहीं होता है। क्यों कि ये आठ प्रदेश अविपरिवर्तमान हैं—इस कारण इनमें अपर्यवसितता होने के कारण सपर्यवसितता नहीं बनती है—अतः अनादि अपर्यवसित बंध में अनादि सपर्यवसितता नहीं

नीचेना अेक प्रदेशानी साथे—आ रीते ते त्रषु प्रदेशोनी साथे अनादि अनन्त संभंधरूप बंध छे। उपरना अेक प्रदेशानी साथे अने नीचेना त्रषु प्रदेशोनी साथे तेना संभंध नथी, कारण के तेअो तेनाथी इर होय छे। तेथी तेमनी साथे तेना संभंध होतो नथी। अेअ प्रमाणे अधस्तन (नीचेनी) प्रतरनी अपेक्षाअे पषु समन्तुं। अेअ कारणे त्रषु त्रषु प्रदेशोना अनादि अनन्तरूप कह्यो छे आ मध्यम आठ प्रदेशो सिवायना भीअ के अुवप्रदेशो छे तेमनो सादि अपर्यवसित, अथवा सादि सपर्यवसित बंध होय छे, कारण के तेअोमां विपरिवर्तन थाय छे।

आ प्रमाणे पढेला विकल्पनुं स्पष्टीकरण करीने सूत्रकार "अनादि सपर्यवसित रूप गीला विकल्पनुं स्पष्टीकरण करे छे—अनादि सपर्यवसित रूप के गीले विकल्प छे ते अे अुवोना आठ मध्यप्रदेशोमां संलवित थतो नथी, कारण के ते आठ प्रदेशो अविपरिवर्तमान छे, ते कारणे तेमनामा अपर्यवसितता होवने दीधे सपर्यवसितता संलवी शक्ती नथी तेथी अनादि अपर्यवसित बंधमा अनादि सपर्यवसितता होती नथी। अने

दाहरति-‘ तत्पण जेसे साइए अपज्जवसिए, से ण सिद्धानं ’ तत्र त्रिपु उपर्युक्तेषु विकल्पेषु खलु यस्तस्य जीवप्रदेशस्य सादिक अपर्यवसितो बन्ध स खलु सिद्धानं भवति, तथा च सिद्धानां सादिरपर्यवसितो जीवप्रदेशश्च। शैलेभ्यवस्थायां सस्या फ्लिप्रदेशानां सिद्धत्वेऽपि चलनामावात् अथ चतुर्थं विकल्प समेद प्ररूपयति-
 ‘ तत्प ण जे से साइए सपज्जवसिए, से ण चउत्विहे पण्णत्ते ’ तत्र उपपुक्तेषु त्रिपु विकल्पेषु खलु यस्तस्य जीवप्रदेशस्य सादिकः सपर्यवसितो बन्धो भवति, स खलु चतुर्विध प्रकृतः, ‘ तं जहा-आलापणबंघे, अस्त्रियावणयघे, सरीरबघे, सरीरप्य भोगवघे’ तदप्या-आलापनबघः१, आलीनबन्धः२, शरीरबन्धः३, शरीरमयोगबघः४,

भाती है। अब सूत्रकार तृतीय विकल्प के विषय में कथन करते हुए उदाहरण प्रदर्शित करते हैं-‘ तत्प णं जे से साइए-अपज्जवसिए, सेण सिद्धानं ’ इन तीन उपर्युक्त विकल्पों में जो जीवप्रदेश का सादिअपर्यवसितबध है वह सिद्धों के होता है। क्यों कि शैलेशी अवस्था में स्थापित जीवप्रदेशों का सिद्ध अवस्था हो जाने पर फिर पर्यवसान नहीं होता है वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इसलिये सादिअपर्यवसित बन्ध सिद्धों के होता है। अब सूत्रकार चौथे विकल्प का भेद सहित निरूपण करते हैं-‘ तत्पणं जे से साइए सपज्जवसिए, से णं चउत्विहे पण्णत्ते ’ उपर्युक्त विकल्पों में जीवप्रदेश का सादिसपर्यवसित बध है वह चार प्रकार का कहा गया है-‘ तं जहा ’ जैसे-‘ आलापणबंघे, अस्त्रियावण बघे, सरीरबघे, सरीरप्यभोगवघे ’ आलापनबन्ध, आलीनबध, शरीर

विकल्पानुं प्रतिपादन करवाने भाटे उदाहरण आवे छे-

(तत्प णं जे से साइए अपज्जवसिए, से णं सिद्धानं) उपर्युक्त प्रथम विकल्पोभांता ने एव प्रदेशने सादि अपर्यवसित एव भध छे, ते सिद्ध एवे करे छे कारण के शैलेशी अवस्थाभां स्थापित एव प्रदेशोनुं सिद्ध अवस्थानी प्राप्ति यथा पथी शरीथी पर्यवसान भुनुं नथी पण तेज्जा ने स्थितिभा डोय जेव स्थितिभां कायम रहे छे तेथी सिद्धो द्वारा ए सादि अपर्यवसित (अनत) भध बाध छे उवे सूत्रकार योथा विकल्पानु वेदरहित प्रतिपादन करे छे-(तत्प णं जे से साइए सपज्जवसिए, से णं चउत्विहे पण्णत्ते) उपर्युक्त चार विकल्पोभांथी ने एवप्रदेशने सादि अपर्यवसित भध छे, तेना चार प्रकार छे (तं जहा) ने चार प्रकार नीचे प्रभावे छे-

- (आलापनबघे अस्त्रियावणबघे शरीरबघे सरीरप्यभोगवघे) (१)
- आलापनबध (२) आलीनबध (३) शरीर बध जने (४) शरीरप्रयोगबध

तत्र आलाप्यते आलीनं क्रियते एभिरित्यालापनानि रज्ज्वादीनि, तैस्तृणादीनां वन्धः आलापनवन्धः१, एवम् द्रव्यस्य द्रव्यान्तरेण श्लेषादिना आलीनीकरणरूपो-
वन्धः आलीनवन्धः२, तथा 'सरीरवन्धे' इति समुद्घाते सति विस्तारितसंको-
चितजीवप्रदेशसम्बन्धविशेषणवशात् तैजसादिशरीरप्रदेशानां सम्बन्धविशेषः
शरीरवन्धः, केचित्तु तत्र शरीरिणः समुद्घाते विक्षिप्तजीवप्रदेशानां संकोचने वन्धः
शरीरवन्ध इति मन्यन्ते३, 'सरीररूपभोगवन्धे' इति, एवं शरीरस्य औदारिकादेः
प्रयोगेण वीर्यान्तरायक्षयोपशमादि जनितव्यापारेण वन्धः तत्पुद्गलोपादान, शरीर-
रूपस्य वा प्रयोगस्य वन्धः शरीरप्रयोगवन्ध इत्यर्थः४। गौतमः पृच्छति—'से किं तं
आलावणवन्धे ?' हे भदन्त ! अथ कः कतिविधः स आलापनवन्धः प्रज्ञप्तः ?

बंध और शरीरप्रयोगवध रस्सी आदि द्वारा जो तृण आदि घास वगै-
रह का बांधना है, वह आलापनबंध है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के
साथ जो श्लेषरूपमें बंध होता है वह आलीनबंध है। समुद्घात अवस्था
में विस्तारित और संकोचित जीवप्रदेशों के संबन्धवशात् से तैजसादि
शरीरप्रदेशों का जो संबन्धविशेष है वह शरीर-बंध है। अथवा कोई
ऐसा भी मानते हैं कि समुद्घात करने पर वे विक्षिप्त जीव प्रदेशों को
संकुचित करने में जो बंध है वह शरीरि बंध है। 'सरीररूपभोगवन्धे'
औदारिक आदि शरीर के प्रयोग से—वीर्यान्तराय के क्षयोपशमादि से
जनित व्यापार से—शरीर पुद्गलों को ग्रहण करने रूप जो बंध है वह
शरीरप्रयोगवन्ध है। अथवा शरीररूप प्रयोग का जो बंध है वह शरीर-
प्रयोगबंध है। अब गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(से किं तं

दोरी आदि वडे के घास आदिने भाधवु तेनुं नाम आलापन बंध छे अेक
द्रव्यनेा भील द्रव्यनी साथे के श्लेषरूपे बंध थाय छे, तेनुं नाम आलीन
बंध छे समुद्घात अवस्थाभां विस्तारित अने संकोचित जीव प्रदेशोना सम्ब-
धने कारणे तैजस आदि शरीर प्रदेशोना के संबन्ध विशेष छे, तेनुं नाम
शरीरबंध छे अथवा कोछ अेवु पष्पु माने छे के समुद्घात करवाभा आवे
त्यारे अमुक जीव प्रदेशोने संकुचित करवाभा के बंध थाय छे, ते बंधने
शरीरबंध कडे छे (सरीररूपभोगवन्धे) औदारिक आदि शरीरना प्रयोगथी
वीर्यान्तरायना क्षयोपशम आदि द्वारा जनित व्यापारथी—शरीरपुद्गलोने अकल्प
करवा रूप के बंध थाय छे, तेने शरीर प्रयोग बंध कडे छे—अथवा शरीर
रूप प्रयोगोने के बंध छे तेनुं नाम शरीर प्रयोग बंध छे

इवे सूत्रकार आलापन बंध आदिनुं विस्तारपूर्वक समन्तये छे.

गौतमस्वामीने प्रश्न—(से किं तं आलावणवन्धे ?) के भदन्त ! आलापन

मगधानाह- 'आलाषणवधे ज न तणमाराण वा, कट्टमाराण वा, पत्तमाराण वा, पल्लमाराण वा, वेल्लमाराण वा, वेत्तवयाशागवरत्तज्जुवल्लिकुसदम्ममादिपहि आलाषणवधे समुप्पज्जइ' ; आलापनवन्धो यत् खलु दृष्यमाराणां वा, काट्टमाराणां पत्तमाराणां वा, पल्लमाराणां वा, धान्यरहितमृणपुञ्जमाराणामित्यर्थ, वेत्तमाराणां वा' प्रवालमाराणामित्यर्थ प्रवालनाचको वैश्वीयो वेत्तशब्दः, वप्रलता-वल्क परत्रा-रज्जु-वस्त्री कुश दर्भादयः, तत्र वेत्तलता मञ्जवंशकम्पा, वल्कः वल्कल-त्वचा, वस्त्रा-वर्ममयीरज्जुः, रज्जुस्रणादिमयी बद्धी प्रपुण्यादिका, कुशा निर्मूलदर्मा, दर्मास्तु समूला, आदिष्वंशश्रीवरादीनां परिग्रहस्तैरित्यर्थः आलापनवन्धः समुत्पद्यते, मत्रि, स च आलापनवन्ध 'जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कासेण सखेज्ज काल' जघन्येन

आलाषणवधे) हे भदन्त ! आलापनवध किमने प्रकार का है ? उत्तर में प्रश्न कहते हैं- (आलाषणवधे ज न तणमाराण वा, कट्टमाराण वा, पत्तमाराण वा, पल्लमाराणां वा, वेल्लमाराण वा, वेत्तवयाशागवरत्त रज्जुवल्लिकुसदम्ममादिपहि आलाषणवधे समुप्पज्जइ) हे गौतम ! तृण भारों का घास के गह्वों का, कोंठ के भारों का-लकड़ियों के गह्वों का, पत्र भारों का-पत्तों की गठरियों का, धान्यरहित पल्ल के भारों का अर्थात् चा-घरहित मृणपुञ्ज-सुसा की गठरियों का, लताओं की गठरियों का, अथवा-कोपलों की गठरियों का; जो बेल की छालों से, फलों से, घरघा-घर्म की बनी हुई रस्सियों से, शान भादि की बनी हुई-डोरियों से, निर्मूलदर्मों से, समूलदर्मों से एवं फपडों की पगियों से जो घांपना होता है यह आलापनवध है । यह आलापनवध 'जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कासेण सखेज्ज, काल-से त आलाषणवधे' कम से कम अन्तमुहुत्त तक रहता है, और अधिक से अधिक सख्यातकालतक

अधनु स्वह्य केवुं ॥

महावीरभुने उत्तर-(आलापनवधे ज न तणमाराण वा कट्टमाराण वा, पत्तमाराण वा पल्लमाराण वा वेत्तमाराण वा वेत्तवयाशागवरत्त रज्जुवल्लिकुसदम्म मादिपहि आलाषणवधे समुप्पज्जइ) हे गौतम ! घासनी प्रांसदीज्जाने, काष्ठना कासने, धान्नी कांसदीने लताज्जोनी गांसदीज्जाने, अथवा कोपडोनी गांस दीज्जाने के नेतरनी छासोधी, लताज्जोधी आभडानी डोरोधी, शबुना टोरासोधी नि पूण इतोधी समूण इतोधी अने कपडाना धाना सिहरसोधी लोपवाम आवे छे तेने आलापन वध कडे छे, ते आलापन वध (जहण्णं अतोमुहुत्त उक्कासेण संखेज्जकाल) कोलाभां कोसे अतमुहुत्त, सुधी अने वधा

अन्तर्गृहीतम्, उत्कर्षेण संख्येयं कालं तिष्ठति पश्चात् विध्वंसं प्राप्नोति । से तं आलावणबन्धं स एष आलापनबन्धः प्रज्ञप्तः । अथ आलीनबन्धमाह—‘ से किं तं अल्लियावणबन्धे ? ’ हे भदन्त ! अथ कः कृतिविधः आलीनबन्धः प्रज्ञप्तः ? भगवानाह—‘ अल्लियावणबन्धे चउव्विहे पण्णत्ते ’ हे गौतम ! आलीनबन्धश्चतुर्विधः प्रज्ञप्तः, ‘ तं जहा—लेसणाबन्धे, उच्चयबन्धे, समुच्चयबन्धे, साहणणाबन्धे ’ तद्यथा—श्लेषणाबन्धः, उच्चयबन्धः, समुच्चयबन्धः संहननबन्धश्च, तत्र श्लेषणा—श्लेषद्रव्येण द्रव्ययोः संयोजनं, तद्रूपो बन्धः श्लेषणाबन्धः १, एवम् उच्चयः—ऊर्ध्वं चयनं राशीकरणं, तद्रूपो बन्धः उच्चयबन्धः २, तथा सं०सङ्गतः उच्चयापेक्षया विशिष्टतरः उच्चयः समुच्चयः, तद्रूपो बन्धः समुच्चयबन्धः ३, एवं संहननम्—अवयवानां संघातनं समूहः

रहता है । इसके बाद वह नष्ट हो जाता है । ऐसा कथन आलापनबन्ध के विषय में तीर्थकरादिकों ने किया है । अब आलीनबन्ध का क्या स्वरूप है इस विषय में गौतमस्वामी प्रभु से पूछते हैं—‘ से किं तं अल्लियावणबन्धे ’ हे भदन्त ! आलीनबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? उत्तर में प्रभु कहने हैं—‘ अल्लियावणबन्धे चउव्विहे पण्णत्ते ’ हे गौतम ! आलीनबन्ध चार प्रकार का कहा गया है—‘ तं जहा ’ जैसे—‘ लेसणाबन्धे, उच्चयबन्धे, समुच्चयबन्धे, साहणणाबन्धे ’ श्लेषणाबन्ध, समुच्चयबन्ध और संहननबन्ध दो द्रव्यों का आपसमें किसी श्लेषपदार्थ से जोड़ना इसका नाम श्लेषणाबन्ध है, राशी करनेरूप जो बन्ध होता है वह उच्चयबन्ध है । उच्चय की अपेक्षा जो विशिष्टतर उच्चय है वह समुच्चयबन्ध है । अवयवों का जो समूह है वह संहननबन्ध है । अर्थात् अवयवों

में वधारे सभ्यात् क्षण सुधी रडे छे. त्यार भाद नाश पामे छे (से तं आलावणबन्धे) एवु कथन आलापन बन्ध विषे तीर्थकरादिकेओ क्युं छे.

गौतमस्वामीने प्रश्न—(से किं तं अल्लियावणबन्धे ?) डे भदन्त ! आलीनबन्धनुं स्वरूप केवु छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—(अल्लियावणबन्धे चउव्विहे पण्णत्ते), डे गौतम ! आलीनबन्धना चार प्रकार छे (तजहा) ते प्रकारेनी नीचे प्रमाणे छे—(लेसणाबन्धे, उच्चयबन्धे, समुच्चयबन्धे साहणणाबन्धे,) (१) श्लेषणा बन्ध, (२) उच्चयबन्ध (३) समुच्चयबन्ध अने (४) संहननबन्ध.

जे पदार्थेने ओक भीतनी साथे केछ श्लेषपदार्थ पठे जेडावे तेनुं नाम श्लेषणा बन्ध छे राशी (ढगवे) करवा रूप जे बन्ध थाय छे तेनुं नाम उच्चय बन्ध छे. उच्चयना कर्ता पशु विशिष्टतर जे उच्चय छे तेनुं नाम

तद्रूपो वचः सहननवन्ध अवयवानां समूहरूपेण बन्ध इत्यर्थः । गौतम पृच्छति-
 'से किं तं छेसणाबन्धे' हे मद्दत्त ! अयं कः कतिविधः स 'छेसणाबन्ध'
 प्रपन्तः ? मगवानाह- 'छेसणाबन्धे जंणं कुड्डाणं, कोट्टिमाणं, खमाणं, पासायाणं,
 पट्ठाणं, चम्माणं, घट्ठाणं, पट्ठाणं कट्ठाणं सुहाचिक्खित्तल्लसिलेसल्लकल्लमहुसित्त्यमा
 एहिं छेसणएहिं धरे समुप्पज्जइ' 'छेसणाबन्धे' यत् खलु कूटपानां मिषीनां,
 कुट्टिमानां मणिप्रस्तरखचितभूमिनाम्, स्वम्मानाम् स्थाणुनाम्, स्थूणारूपाणाम्,
 मासादानाम् हर्म्यविशेषाणाम्, काष्ठानाम्, चर्मणाम्, घटानाम्, पटानाम्, बद्धा
 णाम् कटानाम् सस्तराणाम्, सुधाचिक्खित्तुल्लसिलेसल्लकल्लमधुसिक्कयादिभिः, तत्र सुधा
 'घूना' इतिमापापसिद्धा, विदितल्ल कर्ममः श्लेषो बन्धलेप लाक्षा-अतुःमधुसि
 क्यम् मदनम्, मोम'इति मापापसिद्धम्भादि, शब्दात् गुग्गुलु राल-लल्पादिपरि
 ग्रहस्तै, श्लेषैः परस्परसंयोजकैः बन्धः समुत्पद्यते, स च श्लेषणाबन्धः 'अह

का समूहरूप से जो बंधन है वह सहननबन्ध है । इन्हीं आलीनबन्ध
 प्रकारों के विषय में प्रश्न से गौतम पूछते हैं- 'से किं तं छेसणाबन्धे'
 हे मद्दत्त ! छेसणाबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? उत्तर में प्रश्न
 कहते हैं- 'छेसणाबन्धे जंणं कुड्डाणं कोट्टिमाणं, खमाणं, पासायाणं, कट्टाणं
 चम्माणं, घट्टाणं, पट्टाणं, कट्टाणं, सुहाचिक्खित्तल्लसिलेसल्लकल्लमहुसि
 त्त्यमाइएहिंयन्धे समुप्पज्जइ' हे गौतम ! भीतों का अधवा कूट-पर्वतों
 की शिलारोंका, कुट्टियों-मणिप्रस्तर खचितभूमियों-का, अधवा स्थाणुओं
 का, प्रामादों-पनिकों के मकानों का, लकड़ियों का, चमड़े का, पट्टोंका
 परोषत्नोंका कट्टों-कट्टाईकोंका सुधा-घूनासे, कीचड़ से, श्लेष-घनश्लेष
 से, लाक्षा-लाससे, मधुसिक्कमोम से, तथा गुग्गुलु, राल खलु आदि

समुच्चय बन्ध छे अवयवोना ने समूह छे तेनु नाम सहनन बन्ध छे
 ज्येत्थे हे अवयवोना समूह इपि ने जन्धन छे, ते सहनन बन्ध छे,

द्वे सूत्रकार आलीन बन्धना आरे प्रदर्शितुं उदाहरणों द्वारा स्थली
 इत्यु द्वे छे- गौतमस्वाग्धीने प्रश्न- (से किं तं छेसणाबन्धे) हे मद्दत्त !
 श्लेषणा बन्धु स्वइय हेतु छे ? तेना उत्तर आपत्ता महावीर प्रश्नु कहे छे हे-
 (छेसणाबन्धे जंणं कुड्डाणं, कोट्टिमाणं, खमाणं, पासायाणं कट्टाणं, चम्माणं
 घट्टाणं, पट्टाणं, कट्टाणं, सुहाचिक्खित्तल्लसिलेसल्लकल्लमहुसित्त्यमाइएहिं छेसणएहिं धरे
 समुप्पज्जइ) हे गौतम ! भीताने अधवा पर्वताना शिखराने, कुट्टिमोने,
 (मणिप्रस्तर खचित भूमियोने) स्थाने अधवा स्थाणुओने प्रामादोने
 (पनिकोना मकानोने) काष्ठोने, चर्मणोने, घट्टणोने, पट्टोने, जने समूह
 षणोने घूनाधी, भाटीधी, श्लेष (वज्रश्लेष) धी, लाजधी, भीसुधी, राजधी,

ण्णं अंतोमुहूर्त्तं, उक्तोसेणं संखेज्जं कालं, से तं लेसणाबंधे ' जघन्येन अन्तमुहूर्त्तम्, उत्कर्षेण संख्येयं कालं तिष्ठति, स एष श्लेषणाबन्धः प्रज्ञप्तः । गौतमः पृच्छति—' से किं तं उच्चयबंधे ' हे भदन्त ! अथ कः कतिविधः स उच्चयबन्धः प्रज्ञप्तः ? भगवानाह—' उच्चयबंधे जं णं तणरासीण वा, कट्टरासीण वा, पत्तरासीण वा, तुसरासीण वा, भुसरासीण वा, गोमयरासीण वा, अवगररासीण वा उच्चत्तेणं बंधे समुप्पज्जइ ' हे गौतम ! उच्चयबन्धो यत् खलु तणरासीणां वा घासपुञ्जानां, काष्ठरासीणां वा; पत्तरासीणां वा, तुपरासीणां वा, तुसरासीणां वा,

से, लेप करने पर जो सुधा आदि का उनके साथ श्लेषणरूप संबंध होता है वह श्लेषणाबंध है । यह श्लेषणा संबंधरूप बंध जघन्य से एक अन्तमुहूर्त्ततक और उत्कृष्ट से संख्यातकाल तक उन दोनों का आपस में बना रहता है । इसके बाद वह नियम से विनष्ट हो जाता है ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से पूछते हैं—(से किं तं उच्चयबंधे) हे भदन्त ! सादि सपर्यवसित बंध के भेद आलान बंध का भेद जो उच्चयबंध है वह कितने प्रकार का कहा गया है ? अर्थात् यह उच्चयबंध क्या है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(उच्चयबंधे जं णं तणरासीण वा, कट्टरासीण वा, पत्तरासीण वा, तुसरासीण वा, भुसरासीण वा, गोमयरासीण वा, अवगररासीण वा, उच्चत्तेणं बंधे समुप्पज्जइ) हे गौतम ! घास का जो ऊँचा ढेर लगा दिया जाता है, काष्ठों का जो ऊँचा ढेर लगा दिया जाता है, पत्तों का जो ऊँचा ढेर लगा दिया जाता

सरेस आदिथी लेप करवाथी युना आदिने तेमनी साथे जे श्लेषणरूप संबंध थाय छे, ते श्लेषणाम्बध कडेवाय छे. आ श्लेषणु संबंध रूप अथ ओछामां ओछो ओक अन्तमुहूर्त्त सुधी अने वधारेमां वधारे संख्यातकाल सुधी ते अन्नेमा अरस्परसनी अंदर टकी रहे छे, त्थार भाद ते नियमथी जे नष्ट थए जय छे.

गौतमस्वामीने प्रश्न—(से किं तं उच्चयबंधे ?) हे भदन्त ! सादि सपर्यवसित बंधना आदीनबंध नामना प्रकारने जे उच्चयबंध नामने भीजेवेद छे, तेनु स्वल्प केवुं छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—(उच्चय बंधे जं णं तणरासीण वा, कट्टरासीण वा, पत्तरासीण वा, तुसरासीण वा, भुसरासीण वा, गोमयरासीण वा, अवगररासीण वा, उच्चत्तेणं बंधे समुप्पज्जइ) हे गौतम ! घासने जे छियो ढगदो छियो ढगदो करवामा आवे छे, दाकडाने जे छियो ढगदो करवामा आवे छे, पानने करवामा आवे छे तुषेने जे छियो ढगदो करवामा आवे छे.

गोमयराशीनां वा, भवकरराशीनां कचवपुञ्जानां, उच्चत्वेन ऊर्ध्वं चयनेन बन्धु
समुत्पद्यते, स उच्चपबन्धः 'ब्रह्मणेर्ण अतोमुहुच, उत्क्रोसेण संखेज्ज कालं, सेच
उच्चययधे' अद्यपेन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कर्षेण संख्येय कालं विप्रति, स एव उच्च
ययन्धः प्रज्ञप्तः । गौतम पृच्छति—' से किं सं समुच्चययधे ? ' हे भद्रन्त ! अथ
कः कतिविधः स समुच्चययधः प्रज्ञप्तः? भगवानाह—' समुच्चययधे बंधं षड् भगव
तभाग-नदी-द्रव-वापी-पुष्करिणी-दीर्घियाणं, गुंजालियाण, सराणं, सरपतियाण,
सरसरपतियाणं, बिलपतियाणं' हे गौतम ! समुच्चययधो यत्स्वच्छ भगव(भगवत् रूप)
तभाग-नदी-द्रव-वापी-पुष्करिणी-दीर्घिकाणा गुंजालिकानाम् गोलाकारपुष्करिणी-

है, तुपों का जो ऊँचा ढेर लगा दिया जाता है, सुसा का जो ऊँचा ढेर
लगा दिया जाता है, गोमय (गोबर) का जो ऊँचा ढेर लगा दिया
जाता है, कूबा-कचड़ा का जो ऊँचा ढेर लगा दिया जाता है, इस ढेर
में जो उन पदार्थों का आपस में सबधरूप बंध है वह उच्चय बंध है ।
यह उच्चयबंध जघन्य से एक अन्तर्मुहूर्त तक और उत्कृष्ट से सस्यात्
काल तक रहता है—इसके बाद यह नष्ट हो जाता है ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्न से समुच्चययध के विषय में पूछते हैं—(से
किं त समुच्चययधे) हे भद्रन्त समुच्चययध कितने प्रकार का होता है
अर्थात् समुच्चययध का क्या स्वरूप है ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं—
(समुच्चययधे ज ण भगवतभाग नदी द्रव वापी, पुष्करिणी, दीर्घि
याणं गुंजालियाणं, सराणं, सरपतियाणं, बिलपतियाणं) हे गौतम !
भगवत् रूप, तभाग-तालाव, नदी, द्रव-द्रव, वापी, पुष्करिणी, दीर्घिका,

ना ने छिन्ना इज्जे इश्वामां आवे छे जेअर (छात्र) ना ने छिन्ना इज्जे
इश्वामां आवे छे इश्वर पुअने ना ने छिन्ना इज्जे इश्वामां आवे छे, ते इज्जेअ
रहेत्ता ते पद्दधेना परस्परना अअधे इध ने अध छे, तेने उच्चय अंध
हहे छे आ उच्चय अंध जेअधामां जेअ जेअ अतर्मुहूर्त मुधी अने पधा
शमां पधारे सञ्जातजाण मुधी रहे छे, त्वाएवाह ते नष्ट यध अथ छे इवे
जौतम स्वामी भद्रापीर भन्तुने समुच्चय अंध विरे जेवे प्रश्न पूछे छे ई—

(से किं त समुच्चय यधे ?) हे भद्रन्त ! समुच्चय अंधं षड् षडु
स्वयं छे ?

भद्रापीर भन्तुने उत्तर—(समुच्चय यधे अं ण भगव तभाग-नदी-द्रव
वापी, पुष्करिणी, दीर्घियाण गुंजालियाणं, सराणं, सरपतियाणं, सरसरपति
याणं, बिलपतियाणं) हे जौतम ! इवा, तलाव, नदी, द्रव (द्रव-द्रव) वाप,

नाम्, सरसां-सरोवराणाम्, सरःपंक्तिकानाम्-सरोवरश्रेणीनाम्, सरःसरःपङ्क्ति-
कानाम् महासरोवरश्रेणीनाम्, विलपङ्क्तिकानाम्-जलभृतगर्तश्रेणीनाम्, 'देव-
कुल-सभा-पञ्चभूम-खाइयाण फलिहाणं पागार-डालग चरिय-दार-गोपुरतोरणाणं'
देवकुल-सभा-पर्व-स्तूप-खातिकानाम्, परिखानाम्- 'खाई' इति प्रसिद्धानाम्,
प्राकार-अट्टालक-चरिका-द्वार-गोपुर-तोरणानाम् तत्र प्राकारः=दुर्गः, अट्टालकः=
प्रसादोर्ध्वभागः, चरिका=नगरदुर्गयोर्मध्यवर्तीमार्गः, द्वारं सामान्यद्वारम्, गोपुरम्-
नगरद्वारम्, तोरणं-विवाहोत्सवप्रसङ्गे पताकासहितरचितद्वारभागविशेषः तेषाम्,
'पासाय-घर-सरण-लेण-आवणाणं, सिंघाडग-तिय-चउक्कचच्चर-चउम्मुह-महापह-
माईणं, लुहाचिक्खिल्लसिलेससमुच्चरणं वंधे समुप्पज्जइ' प्रासाद-गृह-शरणलय-
नाऽऽपणानाम्, तत्र प्रासादो=राजभवनम्, गृहम्, शरणं=स्थानविशेषः, यात्रिकाणां
निवासस्थानमिति भावः, लयनम् पर्वतवर्ती=गृहविशेष आपणः=हृद्इतिप्रसिद्धः,

गुञ्जालिका, गोलाकार पुष्करिणी, सरोवर, सर.पंक्ति, सरः सरः पंक्ति,
अर्थात् महासरोवरश्रेणी, विलपंक्ति, (देवकुल) इत्यादि, देवकुल, सभा
प्याऊ, स्तूप, खातिका परिघ, प्राकार-दुर्ग, अट्टालिका-प्रासाद का उर्ध्व-
भाग, चरिका-नगर और दुर्गका मध्यवर्तीमार्ग, द्वार, गोपुर-नगर द्वार
तोरण-विवाह के प्रसंग पर पताका सहित रचित द्वार का भागविशेष
(पासायघर) इत्यादि, प्रासाद-राजभवन, घर, शरण-स्थानविशेष,
लेण-गृहविशेष, आपण-बाजार, श्रृङ्गाटकाकारमार्गविशेष, त्रिकमार्ग
चतुष्कमार्ग, चत्वरमार्ग, चतुर्मुखमार्ग और राजमार्ग, इन सब स्थान
विशेषोंका चूना द्वारा, कचरा द्वारा और श्लेष-वज्रलेप के समुच्चय
द्वारा जो बंध होता है वह समुच्चयबंध है। श्लेषणाबंध में और समु-
च्चयबंध में इतना ही अन्तर है कि उस बंध की अपेक्षा यह बंध चूना

पुष्करिणी, दीर्घिका, गुण्डलिका (गोलाकार पुष्करिणी), सरोवर, सर.पंक्ति,
सर.सर पंक्ति (महासरोवरनी श्रेणी), अट्टालिका, "देवकुल" इत्यादि
देवकुल, सभा, प्याऊ (डवाडा), स्तूप, खातिका, परिघ, प्राकार (दुर्ग),
अट्टालिका (प्रासादने उर्ध्वभाग-अट्टालिका), चरिका (नगर अने दुर्गने मध्य-
वर्ती मार्ग), द्वार, गोपुर (नगरद्वार), तोरण, "पासाय घर" इत्यादि
प्रासाद (राजभवन), घर, शरण (स्थान विशेष), लेण (गृह विशेष),
आपण (बाजार), श्रृङ्गाटकाकार मार्ग, त्रिक मार्ग, चतुष्क मार्ग, चत्वर मार्ग,
चतुर्मुख मार्ग अने राजमार्ग, आ अर्थात् स्थान विशेषने चूना द्वारा, कचरा
द्वारा अने श्लेष-वज्रलेपना समुच्चय द्वारा जे बंध थाय छे, तेने समुच्चय
बंध कहे छे. श्लेषणा बंध अने समुच्चय बंधमा अट्टालिका जे तक्षवत छे छे

तेषाम्, मृद्गाटक-भिक-वृष्ण-वत्वर-वर्तुस्त्र-महापयादीनाम्, सुधा चिस्त्रि
 श्लेषाणां विष्णुद्रव्याणां समुच्चयेन समुच्छ्रायेण बन्धः समुपपद्यते, तत्र शृङ्गाटकम्
 त्रिकोणाकारकलविशेषमदधस्त्रिपथमार्गविशेषः, अथतसर्वं स्पष्टम् स च समुच्च-
 यबन्धः- 'जहण्येणं अतोमुद्भूत उक्तोसणं संखेज्जं कालं, सेचं समुच्चयबन्धे' अथ-
 न्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कर्षेण सख्येयं कालं विष्टुति, स एव समुच्चयबन्धः प्रकृत
 इति आलीनबन्धस्य तृतीयो भेदः । गौतम पृच्छति- 'से किं तं साहणणाबधे ?'
 हे भद्रन्त ! अथ क कतिविधं स सहननबन्धः प्रकृतः ? भगवानाह- 'साह
 णणाबन्धे दुचिहे पणसे' सहननबन्धो द्विविधः प्रकृतः, 'तं जहा-देससाहणणा-

आदि के समुच्चय से साध्य होता है और इच्छेपणा बंध में चूना बौ
 रह के समुच्चय की विषयता नहीं होती है-अर्थात् इच्छेपणाबंध दो
 पदार्थों को चिपकाने रूप है और समुच्चयबंध कूप आदि पदार्थों को
 चूना आदि द्वारा पोताने रूप है । उच्चयबंध में पदार्थों की राशि करना
 विषयित है और इसमें राशि करना विषयित नहीं है । यह समुच्चय
 बंध (जहण्येण अतोमुद्भूत उक्तोसणं संखेज्जं कालं से च समुच्चयबन्धे
 जघन्य से एक अन्तर्मुहूर्ततक रहता है, और उत्कृष्ट से संस्पृष्ट काल
 तक रहता है । इसके बाद नियम से यह नष्ट हो जाता है । इस तरह
 से यह समुच्चयबंध का स्वरूप है ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं- (से किं तं साहणणाबधे)
 हे भद्रन्त ! सहननबंध किसने प्रकार का कहा गया है ? उत्तर में प्रश्न
 कहते हैं- (साहणणाबधे दुचिहे पणसे) हे गौतम ! सहननबंध दो

ते लघनी अपेक्षाजे वा लघ चूना आदिना समुच्चयधी साध्य याव उ.
 श्लेषधा लघनां चूना बजेरेना समुच्चयधी आवश्यक्ता श्लेषी नधी । ज्येष्ठे हे
 श्लेषधा लघं वि पद्येति शोभात्वा रूपं दाय उ जने समुच्चय लघं रूप
 आदि पद्येति चूना आदि द्वारा दीपय रूप दाय उ उच्चय लघनां पद्य
 येनी राशि करवानी अपेक्षा श्लेषे उ, समुच्चय लघनां राशि करवानी आव
 श्यक्ता श्लेषी नधी वा समुच्चय लघं (जहण्येणं अतोमुद्भूत उक्तोसणं संखेज्जं
 कालं से च समुच्चयबन्धे) ज्येष्ठानां ज्येष्ठे । ज्येष्ठ अतर्मुहूर्त सुधी जने
 अधिकं अधिकं संध्यातकज सुधी श्लेषे उ, त्पारणाहे ते अवश्य नाश याये
 उ समुच्चय लघेन वा प्रकाशु श्लेषे उ

इवे गौतम स्वामी सहनन लघं विषे भद्रापीर प्रश्नने ज्येष्ठे प्रकृत
 उ हे- (से किं तं साहणणा बधे ?) हे भद्रन्त ! सहनन लघं उचु स्वरूप
 उ ? ज्येष्ठे हे तेना श्लेषा प्रकार उ ?

बंधेय, सव्वसाहणणाबंधे य' तद्यथा-देशसंहननबन्धश्च, सर्वसंहननबन्धश्च, तत्र देशेन देशेस्य संघातीभवनरूप (एकीभवनरूप) संहननलक्षणो बन्धः सम्बन्धः शकटाङ्गादीनामिवेति देशसंहननबन्धः, एवं सर्वेण सर्वस्य संहननरूपसङ्घीभवनलक्षणो बन्धः सम्बन्धो नीरक्षीरादीनामिव सर्वसंहननबन्धः, गौतमः पृच्छति-'से किं तं देस साहणणाबंधे ?' भदन्त ! अथ कः खलु स देशसंहननबन्धः प्रज्ञप्तः ? ' देससाहणणाबंधे जं णं सगड रह जाण जुग्ग गिल्लि थिल्लि सीयसंदमाणिया लोही-लोहकडाह-कडुच्छुयाऽऽसण सयण-खंभ-भंडमत्तोवगरणमाईणं देससाहणणा-

प्रकार का कहा गया है-जो इस तरह से है-(देस साहणणाबंधे य सव्वसाहणणा बंधे य) एक देश संहननबंध और दूसरा सर्व संहनन बंध किसी एक वस्तु के अपने एक देश से किसी दूसरी वस्तु के एक देश के साथ परस्पर में संबंधित होना इसका नाम एक देश संहनन बंध है । जैसे शकट-गाड़ी आदि के अवयवों में होता है । सर्वरूप से दूसरे द्रव्य के साथ संबंधित होना इसका नाम सर्व संहननबंध है । जैसे-दुध और पानी में होता है । सर्व संहननबंध में दोनों पदार्थ आपसमें एक मेक हो जाते हैं-और देशसंहननबंध में ऐसा नहीं होता है । इसी बात को गौतम प्रभु से पूछते हैं-(से किं तं देससंहणणा बंधे) हे भदन्त ! देशसंहनन बंध क्या है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं-(देससंहणणा बंधे जं णं सगड रहजाणजुग्गगिल्लिथिल्लिसीय संदमाणिया

मडावीर प्रभुनेो उत्तर-(साहणणा बंधे दुविहे पण्णत्ते-तंजहा) हे गौतम ! संहनन बंधना नीचे प्रमाणों से प्रकार है-(देससाहणणा बंधे य, सव्वसाहणणाबंधे य) (१) देशसंहनन बंध अने (२) सर्वसंहनन बंध के। एक वस्तुना एक देश (अंश)ने। भील वस्तुना एक देशनी साथे आपसमां संबध थवो, तेनुं नाम एक देशसंहनन बंध छे. जेम के गाडी आदिना अवयवोमां अबुं अने छे. सर्व रूपे भील द्रव्यनी साथे संबधित थवुं तेनुं नाम सर्वसंहनन बंध छे, जेम के दूध अने पालूमां अबुं अबध थाय छे. सर्व संहनन बंधमा अने पदार्थ आपसमां एक-रूप थर्ध नय छे. देशसंहननमां अबधमां अबुं अनतुं नथी. अब्ब वातनुं वधु स्पष्टीकरब्बु नीचेना प्रश्नोत्तर द्वारा करवामा आव्युं छे

गौतमस्वामीने प्रश्न-(से किं तं देससंहणणा बंधे) हे भदन्त ! देशसंहनन बंधनुं स्वरूप केवु छे ? तेनेो उत्तर आपता मडावीर प्रभु ंकडे छे के-(देससंहणणा बंधे जं णं सगडरहजाणजुग्गगिल्लिथिल्लिसीयसंदमाणिया लोही,

षष्ठे समुप्यज्जह' हे गौतम ! देशसहननघ'त्रो यत् स्वच्छ शकट रथ-यान-युग्यगिच्छि
 यिच्छि-शिविका-स्पन्दमानिका लोही-छोहकटाहकहृच्छुकाऽसन-शयन-स्तम्भ-
 भाण्डाऽमप्रोपकरणादीनां दक्षसहननबन्ध समुत्पद्यते, तत्र युग्यं गोच्छदेशे प्रसिद्धो
 हस्तद्वयप्रमाणवेदिकायुक्तो जम्पानविशेषः, गिरिद्धः-गमपृष्ठास्तप रणविशेषः,
 'अवाढी' इति मापाप्रसिद्धः, यिल्लिः घोटकद्वययुक्तो यानविशेषः 'बग्गी' इतिमापा-
 प्रसिद्धः, शिविका-कूटा कारेणाच्छादितो जम्पानविशेषः, स्पन्दमानिका वा-पुरुषप्रमा-
 माणो जम्पानविशेष, छोही-व्यञ्जनपचन भाजनविशेषः, छोहकटाहो भाजनविशेषः,
 कहृच्छुकाः दर्शीपदवार्यः परिवेषणपाप्रविशेषः, भाण्डम् मृन्मयभाजनम्, अमत्र

लोही लोहकटाह कहृच्छुचय आसणसयण स्वमभडमत्तोवगरहमार्द्धणं देस
 सहणणाषष्ठे समुप्यज्जह) हे गौतम ! शकट, रथ, यान, युग्य, गिच्छि,
 यिच्छि, शिविका, स्पन्दमानिका, लोही, लोहकटाह, करणी, आसन,
 शयन, स्तम्भ, भाण्ड तथा और भी अनेक प्रकार के जो उपकरणसो
 इनका जो सत्रघ होता है वह देशसहननन यत्र है । गोच्छदेशप्रसिद्ध
 हस्तद्वय प्रमाणवेदिका से युक्त जो जम्पानविशेष है उसका नाम युग्य
 है, जिसे आज की भाषा में रिक्सागाडी कहते हैं । अंवाडी का नाम
 गिच्छि है । दो घोडों से युक्तयानविशेषका नाम-जिसे भाषा में 'बग्गी'
 कहते हैं यिल्लि है । कूटाकार से आच्छादित जम्पानविशेष पुरुषप्रमाण
 होता है उसका नाम स्पन्दमानिका है । व्यञ्जनको पकानेका जो भाजन
 विशेष होता है उसका नाम छोही-तथा है, लोहकटाह-छोहेकी कटाही
 का नाम है । जिससे दाल आदि पदार्थ परोसे जाते हैं उसका नाम

छोहकटाहकहृच्छुचयमासणसयणस्वमभडमत्तोवगरणमार्द्धणं देससहणणा षष्ठे समु
 प्यज्जह) हे गौतम ! शकट (गाडु) रथ, यान, युग्य, गिच्छि, यिच्छि,
 शिविका, स्पन्दमानिका, तावट, ढोढ कडाही, कडली, आसन, शयन, स्तम्भ
 भांड तथा भील विविध प्रकारना उपकरणो ने सत्रघ होय छे, ते देश
 सहनन यत्र छे जेस्य देशप्रसिद्ध, जे ढाष प्रमाण वेदिकायी शकट जे
 वाहनविशेष छे, तेने (युग्य) कह्ये छे, (जेने ढालमा रिखा कह्ये छे (गिरिद्ध)
 ज्येठवे अवाढी (यिच्छि) ज्येठवे जे घोटक नोदेसी आडी जम्पया जग्गी,
 (शिविका) ज्येठवे पावपी पुरुषप्रमाण् भ्यानाने स्पन्दमानिका कह्ये छे (लोही)
 शाक वजरे पकाववानी तपीने कह्ये छे, ढोढानी कडाहीने (ढोढ कटाह) कह्ये
 छे जेना पटे हाण आदि पदार्थ पिरसवामा आवे छे, तेने कडली (कहृच्छुचय)

भाजनविशेषः, उपकरणं नानाप्रकारकं तदन्योपकरणम्, अन्यत्सर्वं स्पष्टम् । स च देशसंहननबन्धः—' जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जं कालं, सेत्तं देससाहणणाबंधे ' जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कर्षेण संख्येयं कालं तिष्ठति, स एष देशसंहननबन्धः प्रज्ञप्तः । गौतमः पृच्छति—से किं तं सव्वसाहणणाबंधे ? ' हे भदन्त ! अथ कः कस्तावत् स सर्वसंहननबन्धः प्रज्ञप्तः, भगवानाह—' सव्वसाहणणाबंधे से णं खीरोदगमाईणं, सेत्तं सव्वसाहणणाबंधे, सेत्तं साहणणाबंधे, सेत्तं अल्लियावणबंधे ' हे गौतम ! सर्वसंहननबन्धः स खलु क्षीरोदकादीनां सर्वेण-सर्वस्य सङ्घातीभवनलक्षणसंहननबन्धः सम्वन्धः सर्वसंहननबन्धः । स एष उपर्युक्तः सर्वसंहननबन्धो बोध्यः, सः एष संहननबन्धः प्रज्ञप्तः, स एष उपर्युक्तीत्या प्रति-

कडुच्छय-करछली है । मिट्टी के पात्र का नाम भाण्ड है । भाजनविशेष का नाम अमत्र है—इसे भाषा में कुर्वा कहते हैं । तथा इनसे अतिरिक्त और भी जो उपकरण हैं—ये सब देश संहननबंध का समग्र रहने का (जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जं कालं) जघन्य से अंतर्मुहूर्त का है और उत्कृष्ट से संख्यात कालका है । इसके बाद यह बंध नष्ट हो जाता है ।

अथ गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(से किं तं सव्वसाहणणा बंधे) हे भदन्त ! सर्व संहनन बंध क्या है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—हे गौतम ! (सव्वसाहणणा बंधे से णं खीरोदगमाईणं—से त्तं सव्वसाहणणा बंधे) दूध और पानी में जो एकभावरूप बंध संबन्ध है वह सर्व संहनन बंध है । इसी तरह का सर्वसंहनन बंध और भी पदार्थों में होता है । इस प्रकार से यह सर्वसंहनन बंध का स्वरूप है । इन दोनों

कडे છે. માટીના પાત્રોને લાંડ કહે છે. અને શકેરા (ચપણિયા) ને (અમત્ર) કહે છે. તથા આ સિવાયના બીજાં પણ જે વિવિધ ઉપકરણો છે, તે દેશ સંહનન બંધથી યુક્ત હોય છે—આ દેશ સંહનન બંધ (જહણ્ણેણં અંતોમુહુત્તં ઉક્કોસેણં સંખેજ્જં કાલં) ઝાઠામાં ઝાઠો અતર્મુહૂર્ત સુધી અને વધારેમાં વધારે સખ્યાતકાળ સુધી રહે છે ત્યાર બાદ તે બંધ નષ્ટ થઈ જાય છે.

ગૌતમ સ્વામીનો પ્રશ્ન—“ સે કિં તં સવ્વસાહણણા બંધે ? ” હે ભદન્ત ! સર્વસંહનન બંધનું સ્વરૂપ કેવું છે ?

મહાવીર પ્રભુનો ઉત્તર—“ સવ્વસાહણણા બંધે સે ણં સ્વીરોદગમાઈણં સે ત્તં સવ્વસાહણણાબંધે ” હે ગૌતમ ! દૂધ અને પાણીમાં જે એકત્વ ભાવ રૂપ બંધ સંબંધ છે, તે સર્વસંહનન બંધ છે. સર્વસંહનન બંધનું એવું સ્વરૂપ છે. સંહનન બંધના બંને પ્રકારોનું કથન પૂરું થવાથી સંહનન બંધનું

પાલિત, આલીનબન્ધ:શ્લેષણાદિષતુર્મેદયુક્ત: પ્રજ્ઞપ્ત: । ગૌતમ । પૂચ્છતિ-‘ સે
 કિં તં સરીરબંધે ? ’ હે મદન્ત ! અય ક: કતિવિષ: સ શરીરબન્ધ: પ્રજ્ઞપ્ત: ।
 ‘ મગવાનાહ-‘ સરીરબંધે દુભિદ્દે પળ્લસે ’ શરીરબન્ધો દ્વિવિધ: મજ્ઞપ્ત: ‘ ત મહા-
 પુચ્છપ્પમોગપચ્ચરૂપ ય, પહુપ્પમ્મપ્પમોગપચ્ચરૂપ ય ’ સઘયા-પૂર્વપ્રયોગપ્રત્યયિકબ્ધ,
 પ્રત્યુત્પન્નપ્રયોગપ્રત્યયિકપૂર્વ પ્રાવહાલાસેવિત:-પ્રયોગ: જીવન્યાપારો વેદના
 કપાયાદિસમુદ્ધાતરૂપ: પ્રત્યય: કારણં યન્ન શરીરબન્ધે સ ઇષ પૂર્વપ્રયોગપ્રત્યયિકો
 વચ્ચ, ઇવં પ્રત્યુત્પન્ન: અપ્રાપ્તપૂર્વો વર્તમાન: પ્રયોગ: કેષલિસમુદ્ધાતસક્કણન્યાપાર:

સહનન વધ કે કપન હો જાને પર સહનન-વધ કા કપન, સમાસ હો
 જાતા હૈ । હસ પ્રકાર આલીન વધ અપને શ્લેષણાવધ-આદિ ચાર મેદો
 સે કથિત કિયા જા શુકા હૈ ।

અય ગૌતમસ્વામી પ્રશ્નુ સે પેસા પૂછતે હૈ-(સે કિં ત સરીરબંધે)
 હૈ મદન્ત !, સાદિ સપર્યવસિત વધ કા તૃતીય મેદ જો શરીર વધ હૈ
 વહ કિત્તને પ્રકાર કા કહા ગયા હૈ ? હસકે ઇત્તર મેં પ્રશ્નુ કહતે હૈ-
 (સરીરબંધે દુભિદ્દે પળ્લસે) હૈ ગૌતમ ! શરીર વધ વો પ્રકાર કા કહા
 ગયા હૈ (તં જહા) જૈસે (પુચ્છપમોગપચ્ચરૂપ ય, પહુપ્પમ્મપ્પમોગપચ્ચરૂપ
 ય) પૂર્વપ્રયોગપ્રત્યયિક ઓર પ્રત્યુત્પન્નપ્રયોગપ્રત્યયિક જિસ શરીર વધ
 મેં પૂર્વકાલ મેં આસેવિત પ્રયોગ-જીવ વ્યાપાર-વેદના-કપાય આદિ
 સમુદ્ધાતરૂપ જીવ વ્યાપાર કારણ હોતા હૈ વહી પૂર્વપ્રયોગપ્રત્યયિક વધ
 હૈ । અપ્રાપ્તપૂર્વ કેષલિ સમુદ્ધાતરૂપ વર્તમાનપ્રયોગ જિસ શરીર વધ મેં

કપન આદી સમાસ યાવ છે આ પ્રમાણે આલીન બંધના શ્લેષણાબંધ આદિ
 ચાર મેદોનું કપન આદી સમાસ યાવ છે

હવે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર પ્રશ્નુને જોવા પ્રશ્ન પૂછે છે કે-“ સે કિ
 ત સરીરબંધે ? ” હે મદન્ત ! સાદિ સપર્યવસિત બંધનો જે શરીર બંધ
 નામનો જે ત્રીજો મેદ છે, તેનું સ્વરૂપ કેવું છે ? અથવા શરીર બંધના
 કેટલા પ્રકાર હતા છે ?

મહાવીર પ્રશ્નુને ઉત્તર-(સરીરબંધે દુભિદ્દે પળ્લસે-ત જહા) હે ગૌતમ !
 શરીર બંધના નીચે પ્રમાણે બે પ્રકાર હતા છે-(પુચ્છપમોગપચ્ચરૂપ, પહુ
 પહુપ્પમોગપચ્ચરૂપ ય, (૧) પૂર્વપ્રયોગ પ્રત્યયિક અને (૨) પ્રત્યુત્પન્ન પ્રયોગ
 પ્રત્યયિક જે શરીર બંધમાં પૂર્વકાળમાં સેવનામાં આવેલ પ્રયોગ-છર વ્યાપાર
 વેદના, કપાય આદિ સમુદ્ધાત રૂપ છર વ્યાપાર કારણરૂપ હોય છે તે બંધને
 પૂર્વપ્રયોગ પ્રત્યયિક બંધ કહે છે આપણે પૂર્વ કેવલિ સમુદ્ધાત રૂપ વર્તમાન

પ્રત્યયો યત્ર સ એવ પ્રત્યુત્પન્નપ્રયોગપ્રત્યયિક इत्यर्थः गौतमः पृच्छति—‘ से किं तं पुंस्वप्पओगपच्चइए ? ’ हे भदन्त ! अथ कः किंस्वरूपः स पूर्वोक्तः पूर्वप्रयोग-प्रत્યयिकः प्रज्ञप्तः ? भगवानाह—‘ पुंस्वप्पओगपच्चइए जं णं नेरइयाणं, संसारव-त्थाणं सव्वजीवाणं, तत्थ तत्थ तेसु तेसु कारणेसु समोहणमाणाणं जीवप्पएसाणं बंधे समुप्पज्जइ, सेत्तं पुंस्वप्पओगपच्चइए ’ हे गौतम ! पूर्वप्रयोगप्रत્યयिको यत् खलु नैरयिकाणाम् , संसारावस्थानानाम् , सर्वजीवानाम् तत्र क्षेत्रेषु इत्यर्थः, एतेन समुद्घातकरणक्षेत्राणां बाहुल्यमुक्तम् , तेषु तेषु कारणेषु, एतेन समुद्घातकार-

कारण होता है वही प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिक बंध है। इसी बात को गौतम प्रभु से पूछते हैं—(से किं तं पुंस्वप्पओगपच्चइए) हे भदन्त ! जो शरीर बन्ध पूर्वप्रयोगप्रत्ययिक होता है उसका क्या स्वरूप है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(पुंस्वप्पओगपच्चइए जं णं नेरइयाणं संसार वत्थाणं सव्वजीवाणं तत्थ तत्थ तेसु तेसु कारणेसु समोहणमाणाणं जीवप्पएसाणं बंधे समुप्पज्जइ, से त्तं पुंस्वप्पओगपच्चइए) हे गौतम ! जो उन उन क्षेत्रोंमें, उन उन कारणों के होने पर—समुद्घात के कारणभूत वेदना आदि कारणोंके होने पर—समुद्घात करते समय—शरीर से बाहर जीवप्रदेशों को निकालने-रूप समुद्घात करते समय, नैरयिक एवं सर्व संसारी जीवों के जीवप्रदेशों का जो बंध रचनादि विशेष होता है वह पूर्वप्रयोगप्रत्ययिक शरीर बंध है। “ तत्र तत्र क्षेत्रेषु ” ऐसा जो यहां पर कहा गया है उससे समुद्घात करने के क्षेत्रोंकी बहुलता कही गई

પ્રયોગ જે શરીર બંધમાં કારણરૂપ હોય છે, તે શરીર બંધને પ્રત્યુત્પન્ન પ્રયોગ પ્રત્યયિક શરીર બંધ કહે છે

એજ વાત ગૌતમ સ્વામી આ પ્રશ્ન દ્વારા પ્રભુને પૂછે છે—“ સે કિં તં પુંસ્વપ્પઓગપચ્ચઈએ ? ” હે ભદન્ત ! જે શરીર બંધ પૂર્વપ્રયોગ પ્રત્યયિક હોય છે, તેનું કેવું સ્વરૂપ છે ?

મહાવીર પ્રભુને ઉત્તર—(પુંસ્વપ્પઓગપચ્ચઈએ જં ણ નેરइयाणं સંસાર વત્થાણં સવ્વજીવાણં તત્થ તત્થ તેસુ તેસુ કારણેસુ સમોહણમાણાણં જીવપ્પએસાણં બંધે સમુપ્પજ્જઈ, સે ત્તં પુંસ્વપ્પઓગપચ્ચઈએ) હે ગૌતમ ! તે તે ક્ષેત્રમાં તે તે કારણો ઉદ્ભવવાને કારણે સમુદ્ઘાતના કારણરૂપ—વેદના આદિ કારણોના હોવાથી સમુદ્ઘાત કરતી વખતે—શરીરની બહાર જીવપ્રદેશોને કાઢવારૂપ સમુદ્ઘાત કરવાના સમયે, નારક અને સર્વ સંસારી જીવોના જીવપ્રદેશોને જે બંધ (રચનાદિ વિશેષ) થાય છે, તેને પૂર્વપ્રયોગ પ્રત્યયિક શરીર બંધ કહે છે. “ તત્ર તત્ર ક્ષેત્રેષુ ” આ સૂત્રાંશ દ્વારા સમુદ્ઘાત કરવાના ક્ષેત્રોની બહુલતા

પાદિત, આલીનવધ-શ્લેષણાદિઘટુર્મેદયુક્તઃ મદ્ગ્નતઃ । ગૌતમ । પૂછતિ-‘ સે કિં તં સરીરવધે ? ’ હે મદન્ત ! અથ કઃ કતિવિષઃ સ શરીરવન્યઃ મદ્ગ્નતઃ ! ‘ મગધનામ-’ સરીરવધે દુવિદ્દે પળ્લત્તે ’ શરીરવન્યો ઢિવિષઃ મદ્ગ્નત ‘ ઠ જહા-પુચ્ચપ્પમોગપચ્ચરૂપ ય, પહુપ્પભવ્વમોગપચ્ચરૂપ ય ’ તથવા-પૂર્વપ્રયોગપ્રત્યયિક્કથ, પ્રત્યુત્પન્નપ્રયોગપ્રત્યયિક્કથ પૂર્વ પ્રાક્કાલાસેવિત-પ્રયોગઃ જીવ્યાપારો વેદના ક્ષમાયાદિસમુદ્ધાતરૂપઃ મત્યય કારણં યત્ર શરીરવધે સ એવ પૂર્વપ્રયોગપ્રત્યયિક્કો વન્યઃ, એવં પ્રત્યુત્પન્ન અપ્રાપ્તપૂર્વો વર્તમાન પ્રયોગઃ કેવલિસમુદ્ધાતલક્ષણવ્યાપાર

સહનન વધ કે કપન હો જાને પર સંહનન-વધ કા કપન સમાપ્ત હો જાતા હૈ । હસ પ્રકાર આલીન વધ અપને શ્લેષણાવધ-આદિ ચાર મેદોં સે કથિત કિયા જા ચુકા હૈ ।

અય ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન સે એસા પૂછતે હિં-(સે કિં ત સરીરવધે) હે મદન્ત !, સાદિ સપર્યવસિત વધ કા તૃતીય મેદ જો શરીર વધ હૈ વહ કિતને પ્રકાર કા કહા ગયા હૈ ? હસકે ઇસર મેં પ્રશ્ન કહતે હિં-(સરીરવધે દુવિદ્દે પળ્લત્તે) હે ગૌતમ ! શરીર વધ વો પ્રકાર કા કહા ગયા હૈ (તં જહા) જૈસે (પુચ્ચપ્પમોગપચ્ચરૂપ ય, પહુપ્પભવ્વમોગપચ્ચરૂપ ય) પૂર્વપ્રયોગપ્રત્યયિક્ક ઓર પ્રત્યુત્પન્નપ્રયોગપ્રત્યયિક્ક જિસ શરીર વધ મેં પૂર્વકાલ મેં આસેવિત પ્રયોગ-જીવ વ્યાપાર-વેદના-ક્ષમાય આદિ સમુદ્ધાતરૂપ જીવ વ્યાપાર કારણ હોતા હૈ વહી પૂર્વપ્રયોગપ્રત્યયિક્ક વધ હૈ । અપ્રાપ્તપૂર્વ કેવલિ સમુદ્ધાતરૂપ વર્તમાનપ્રયોગ જિસ શરીર વધ મેં

કપન આદી સમાપ્ત થાય છે આ પ્રમાણે આલીન વધના શ્લેષણાવધ આદિ ચાર મેદોંનું કથન આદી સમાપ્ત થાય છે

હવે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર પ્રશ્નને જવાબ પ્રશ્ન પૂછે છે કે-“ સે કિં ત સરીરવધે ? ” હે મદન્ત ! સાદિ સપર્યવસિત વધનો ને શરીર વધ નામનો ને ત્રીજો મેદ છે, તેનું સ્વરૂપ કેવું છે ? અથવા શરીર વધના કેટલા પ્રકાર કહા છે ?

મહાવીર પ્રશ્નનો ઉત્તર-(સરીરવધે દુવિદ્દે પળ્લત્તે-સજહા) હે ગૌતમ ! શરીર વધના ત્રીજે પ્રમાણે બે પ્રકાર કહા છે-(પુચ્ચપ્પમોગપચ્ચરૂપ, પહુપ્પભવ્વમોગપચ્ચરૂપ ય, (૧) પૂર્વપ્રયોગ પ્રત્યયિક્ક અને (૨) પ્રત્યુત્પન્ન પ્રયોગ પ્રત્યયિક્ક ને શરીર વધમાં પૂર્વકાળમાં સેવવામાં આવેલ પ્રયોગ-જીવ વ્યાપાર વેદના, ક્ષમાય આદિ સમુદ્ધાત રૂપ જીવ વ્યાપાર કારણરૂપ કહેવ છે તે વધને પૂર્વપ્રયોગ પ્રત્યયિક્ક વધ કહે છે અપ્રાપ્ત પૂર્વ કેવલિ સમુદ્ધાત રૂપ વર્તમાન

प्रत्ययो यत्र स एव प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिक इत्यर्थः गौतमः पृच्छति—‘ से किं तं पुञ्जप्रयोगपञ्चइए ? ’ हे भदन्त ! अथ कः किंस्वरूपः स पूर्वोक्तः पूर्वप्रयोग-प्रत्ययिकः प्रज्ञप्तः ? भगवानाह—‘ पुञ्जप्रयोगपञ्चइए जं णं नेरइयाणं, संसारव-त्थाणं सव्वजीवाणं, तत्थ तत्थ तेसु तेसु कारणेसु समोहणमाणाणं जीवप्पएसाणं वंधे समुप्पज्जइ, सेत्तं पुञ्जप्रयोगपञ्चइए ’ हे गौतम ! पूर्वप्रयोगप्रत्ययिको यत् खलु नैरयिकाणाम्, ससारावस्थानानाम्, सर्वजीवानाम् तत्र क्षेत्रेषु इत्यर्थः, एतेन समुद्घातकरणक्षेत्राणां बाहुल्यमुक्तम्, तेषु तेषु कारणेषु, एतेन समुद्घातकार-

कारण होता है वही प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिक बंध है। इसी बात को गौतम प्रभु से पूछते हैं—(से किं तं पुञ्जप्रयोगपञ्चइए) हे भदन्त ! जो शरीर बन्ध पूर्वप्रयोगप्रत्ययिक होता है उसका क्या स्वरूप है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(पुञ्जप्रयोगपञ्चइए जं णं नेरइयाणं संसार वत्थाणं सव्वजीवाणं तत्थ तत्थ तेसु तेसु कारणेसु समोहणमाणाणं जीवप्पएसाणं वंधे समुप्पज्जइ, सेत्तं पुञ्जप्रयोगपञ्चइए) हे गौतम ! जो उन उन क्षेत्रोंमें, उन उन कारणों के होने पर—समुद्घात के कारणभूत वेदना आदि कारणोंके होने पर—समुद्घात करते समय—शरीर से बाहर जीवप्रदेशों को निकालने रूप समुद्घात करते समय, नैरयिक एवं सर्व संसारी जीवों के जीवप्रदेशों का जो बंध रचनादि विशेष होता है वह पूर्वप्रयोगप्रत्ययिक शरीर बंध है। “ तत्र तत्र क्षेत्रेषु ” ऐसा जो यहाँ पर कहा गया है उससे समुद्घात करने के क्षेत्रोंकी बहुलता कही गई

प्रयोग के शरीर अंधमां कारणरूप होय छे, ते शरीर अंधने प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक शरीर अंध कडे छे.

अब बात गौतम स्वामी आ प्रश्न द्वारा प्रभुने पूछे छे—“ से किं तं पुञ्जप्रयोगपञ्चइए ? ” हे भदन्त ! के शरीर अंध पूर्वप्रयोग प्रत्ययिक होय छे, तेनुं केवुं स्वइय छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—(पुञ्जप्रयोगपञ्चइए जं णं नेरइयाणं संसार वत्थाणं सव्वजीवाणं तत्थ तत्थ तेसु तेसु कारणेसु समोहणमाणाणं जीवप्पएसाणं वंधे समुप्पज्जइ, सेत्तं पुञ्जप्रयोगपञ्चइए) हे गौतम ! ते ते क्षेत्रमां ते ते कारणे उद्भववाने कारणे समुद्घातना कारणरूप—वेदना आदि कारणेना होवाथी समुद्घात करती वधते—शरीरनी अडार अवप्रदेशेने कठवाइय समुद्घात करवाना समये, नारक अने सर्व संसारी एवोना अवप्रदेशेनेने के अंध (रचनादि विशेष) थाय छे, तेने पूर्वप्रयोग प्रत्ययिक शरीर अंध कडे छे “ तत्र तत्र क्षेत्रेषु ” आ सूत्रांश द्वारा समुद्घात करवाना क्षेत्रानी अह

पादित, आलीनबधःश्लेपणादिघतुर्मेदयुक्तः प्रहृष्य । गौतम
 किं तं सरीरबधे ? ' हे मदन्त । अयं कः कतिविधः स गरी-
 ' मगवानाह- ' सरीरबधे दुविहे पण्णत्ते ' शरीरबधो द्विविध-
 पुष्पप्रयोगपञ्चइयं य, पशुपुष्पप्रयोगपञ्चइयं य ' तद्यथा-
 मृत्युत्वमप्रयोगप्रत्ययिकश्च पूर्व मान्कालासेचितः-प्रयोग
 कथायादिसमुद्घातरूपः प्रत्ययः कारणं यत्र शरीरबधे रा-
 बन्धः, एवं मृत्युत्वमः अप्राप्तपूर्वो वर्तमानः प्रयोग के

सहनन बध के कथन हो जाने पर सहनन-
 जाता है । इस प्रकार आलीन बध अपने दू-
 से कथित किया जा चुका है ।

अयं गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा प्र-
 हे मदन्त !, सादि सपर्यवसित बध-
 वह कितने प्रकार का कहा गया है
 (सरीरबधे दुविहे पण्णत्ते) हे गौत-
 मगवा हे (त जहा) जैसे (पुष्पप्रयो-
 य) पूर्वप्रयोगप्रत्ययिक और प्र-
 में पूर्वकाल में आसेचित प्रयो-
 समुद्घातरूप जीव व्यापार का-
 है । अप्राप्तपूर्व केवल समुद्-

कथन नहीं समझ थाय छे
 आर खेहेतु कथन नहीं था

द्वे औतम स्वामी

तं सरीरबधे ? " हे गौत

नामने ने त्रीन्ने वेद

हेदथा प्रकार कहा छे ?

महावीर भुनेने छे

शरीर बधना नीचे प्र

पुष्पप्रयोगपञ्चइयं य,

प्रत्ययिक ने शरीर ब

वेदना, कथाय आदि

पूर्वप्रयोग प्रत्ययिक

केवलनागिस्स अणगारस्स केवलिसमुग्घाएणं समोह्यस्स ताओ समुग्घायाओ पडिनियत्तेमाणस्स अंतरामंथे वट्टमाणस्स तेयाकम्माणं वंधे समुप्पज्जइ' हे गौतम ! प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिको यत् खलु केवलज्ञानिनः अनगारस्य केवलिसमुद्घातेन दण्ड-कपाट-मंथनकरणान्तरपूरणलक्षणैः समुपहतस्य समवघातं प्राप्तस्य विस्ता-

अब गौतमस्वामी प्रभु से प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिक बंध के विषय में पूछते हैं—(से किं तं पडुप्पन्नप्पओगपच्चइए) हे भदन्त ! प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिक बंध का क्या स्वरूप है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(पडुप्पन्नप्पओगपच्चइए जं णं केवलनागिस्स अणगारस्स केवलि समुग्घाएणं समोह्यस्स ताओ समुग्घायाओ पडिनियत्तेमाणस्स अंतरामंथे वट्टमाणस्स तेयाकम्माणं वंधे समुप्पज्जइ) हे गौतम ! केवलि समुद्घात द्वारा समुद्घात करते हुए और फिर उस समुद्घातसे पीछे फिरते समय जो मंथान में रहने पर केवलि अनगार के तैजस और कार्मणशरीर का बंध होता है वह प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिक बंध है । तात्पर्य कहने का यही है कि वर्तमानकाल में केवलि समुद्घातरूप जीव व्यापार से हुआ जो तैजस कार्मणशरीर का बंध है वह प्रत्युत्पन्नप्रयोग प्रत्ययिक बंध है । केवलज्ञानी अनगार जब किसी कारणवशकेवलिसमुद्घात करते हैं—दण्ड, कपाट और मंथान करने के बाद उसके अन्तर को पूरण करने रूप, लोकपूरण समुद्घात से समवहत होते हैं—अर्थात्

इसे गौतम स्वामी प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक बंधना विषयमां मडावीर प्रभुने आ प्रभाण्णे पूछे छे—(से किं तं पडुप्पन्नप्पओगपच्चइए ?) हे भदन्त ! प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक बंधनुं केवुं स्वइए छे ?

मडावीर प्रभुने। उत्तर—(पडुप्पन्नप्पओगपच्चइए जं णं केवलनागिस्स अणगारस्स केवलिसमुग्घाएणं समोह्यस्स ताओ समुग्घायाओ पडिनियत्तेमाणस्स अंतरामंथे वट्टमाणस्स तेयाकम्माणं वंधे समुप्पज्जइ) हे गौतम ! केवलि समुद्घात द्वारा समुद्घात करता जेवा अने त्थारभाह ते समुद्घातमाथी पाछा इरवाने समथे मंथनमां रडेती वधते केवली अणुगारने जे तैजस अने कार्मण शरीरने। बंध थाय छे, ते बंधने प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक बंध कडे छे. आ कथनने। भावार्थ नीचे प्रभाण्णे छे—

वर्तमानकालमां समुद्घात इए एवव्यापार द्वारा थयेदी जे तैजस कार्मण शरीरने। बंध छे, ते प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक बंध छे. केवजज्ञानी अणुगार न्यारे डैह डारणे समुद्घात करे छे—दण्ड, कपाट अने मंथन कर्था भाह तेना अतरने पूरण करवाइए, लोकपूरण समुद्घातथी समवहत थाय छे.

પાનાં વેદનાદીનાં ગાહુલ્ય પ્રતિપાદિતમ્ , સમુદ્ગ્રહન્યમાનાનામ્—શરીરાદ્ વહિ જીવ પ્રદેશપદ્મપરુક્ષણ સમુદ્ગ્રાત ગચ્છતાં જીવપ્રદેશનાં ધન્વઃ રચનાદિવિશેષઃ સમુત્પ-
 ઘટે । અન્ન શ્વરીરબન્ધપ્રસાધે જીવપ્રદેશનામિત્યભિધાનમસજ્જતમ્ इति નાશ્ચક્ષુનીયમ્
 'તદપસ્તાવેડપિ " તાસ્થ્યાત્ તદ્વપવદેશ " इतिન્યાયમાશ્રિત્ય તસ્ય જીવપ્રદે-
 શાશ્રિતતૈવસકાર્મણશ્ચરીરપ્રદેશનામિત્યર્થાત્ ' શરીરબન્ધઃ ' इति, પશ્ચાન્તરે ઇ
 સમુદ્ગ્રાતેન વિસિપ્ય સક્રોચિતાનામ્પસર્જનીકૃતતૈજસાદિશ્ચરીરપ્રદેશનાં જીવપ્રદે-
 શનામવેષિ ધોધ્યમ્ , સ યપ ઉપર્યુક્તઃ પૂર્વપયોગપ્રત્યયિકો ધન્વઃ પ્રહ્લપ્તઃ । ગૌતમઃ
 પૂચ્છતિ—' સે કિં સં પદ્મપ્પભવ્યભોગપન્ચરૂપ ? ' એ મદન્ત । અય કઃ કિંસ્વરૂપ
 સ મધુરાભવ્યભોગપ્રત્યયિકો બન્ધઃ ? ' અગધાનાહ—' પદ્મપ્પભવ્યભોગપન્ચરૂપ સં જ

હૈ । તથા " તેપુ તેપુ કારણેપુ " ઇસ પદ દ્વારા સમુદ્ગ્રાતકે કારણ વેદના
 આદિકોં કી પહુલતા કહી ગઈ હૈ । યદ્વા પર એસી આર્હાંકા નહીં કરની
 આશ્રિયે કિ યહાં શરીર બન્ધ પ્રસ્તાવ કે સમય મેં જીવપ્રદેશોં કા કપન
 અસગત હૈ—ક્યોં કિ શરીર બન્ધ પ્રસ્તાવમેં ખી " તાસ્થ્યાત્ તદ્વપવદેશા "
 ઇસ નિયમ કો આશ્રિત કરકે જીવપ્રદેશાશ્રિત તૈજસ ધૌર કાર્મણ
 શરીરોં કે પ્રદેશોં કો લિયા ગયા હૈ । ઇસસે પેસા નિષ્કર્પ નિકલતા હૈ
 કિ વેદના આદિ સમુદ્ગ્રાતરૂપ જીવ કે વ્યાપાર નિમિત્ત સે હુઆ જીવ
 પ્રદેશાશ્રિત તૈજસ કાર્મણ શરીર કા બન્ધ, વહ પૂર્વપયોગપ્રત્યયિક બન્ધ
 હૈ । " શરીર બન્ધ " ઇસ પશ્ચાન્તર મેં તો સમુદ્ગ્રાત સે પ્રદેશોંકો વિહાર
 કરકે પુન ઇન્હોં ઘિલ્લરે હુપ જીવ પ્રદેશોં કા કિ જિનમેં તૈજસાદિ
 શરીરપ્રદેશ ગૌણરૂપ કિયે ગયે હૈં જો બન્ધ હૈ વહ શરીરબન્ધ હૈ ।

અકટ કરવામાં આવેલ છે તથા " તેપુ તેપુ કારણેપુ " આ સુત્રાંશ દ્વારા વેદના
 આદિ સમુદ્ગ્રાતના કારણેની બહુલતા અકટ કરવામાં આવી છે અહીં બેવી
 આશંકા કરવી બેધએ નહીં કે અહીં શરીરબન્ધ પ્રસ્તાવને સમયે જીવપ્રદેશોં
 કપન અસગત છે, કારણ કે શરીરબન્ધ પ્રસ્તાવમાં પણ " તાસ્થ્યાત્ તદ્વપવદેશ "
 આ નિયમને આધારે જીવપ્રદેશાશ્રિત તૈજસ અને કાર્મણ શરીરના પ્રદેશોને
 લેવામાં આવ્યા છે તેથી બે વાત સિદ્ધ થાય છે કે વેદના આદિ સમુદ્ગ્રાત
 રૂપ જીવના વ્યાપારને કારણે થયેલો જીવપ્રદેશાશ્રિત તૈજસ અને કાર્મણ શરી-
 રનો બન્ધ, પ્રયોગ પ્રત્યયિક બન્ધ જ છે " શરીરબન્ધ " આ પશ્ચાન્તરમાં તે
 તે સમુદ્ગ્રાતથી પ્રદેશોને વિષેની નાખીને કરીથી તે વિખસયેલા જીવ પ્રદેશોને
 કે જેમાં તૈજસ આદિ શરીર પ્રદેશ ગૌણરૂપ કરાયા છે—જે બન્ધ છે તેજ
 નામ શરીર બન્ધ છે

केवलनागिस्स अणगारस्स केवलिसमुग्घाएणं समोहयस्स ताओ समुग्घायाओ पडिनियत्तेमाणस्स अंतरामंथे वट्टमाणस्स तेयाकम्माणं वंधे समुप्पज्जइ' हे गौतम ! प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिको यत् खलु केवलज्ञानिनः अनगारस्य केवलिसमुद्घातेन दण्ड-कपाट-मंथनकरणान्तरपूरणलक्षणेन समुपहतस्य समवघातं प्राप्तस्य विस्ता-

अब गौतमस्वामी प्रभु से प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिक बंध के विषय में पूछते हैं—(से किं तं पडुप्पन्नप्पओगपच्चइए) हे भदन्त ! प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिक बंध का क्या स्वरूप है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(पडुप्पन्नप्पओगपच्चइए जं णं केवलनागिस्स अणगारस्स केवलि समुग्घाएणं समोहयस्स ताओ समुग्घायाओ पडिनियत्तेमाणस्स अंतरामंथे वट्टमाणस्स तेयाकम्माणं वंधे समुप्पज्जइ) हे गौतम ! केवलि समुद्घात द्वारा समुद्घात करते हुए और फिर उस समुद्घातसे पीछे फिरते समय जो मंथान में रहने पर केवलि अनगार के तैजस और कर्मणशरीर का बंध होता है वह प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिक बंध है । तात्पर्य कहने का यही है कि वर्तमानकाल में केवलि समुद्घातरूप जीव व्यापार से हुआ जो तैजस कर्मणशरीर का बंध है वह प्रत्युत्पन्नप्रयोग प्रत्ययिक बंध है । केवलज्ञानी अनगार जब किसी कारणवशकेवलिसमुद्घात करते हैं—दण्ड, कपाट और मंथान करने के बाद उसके अन्तर को पूरण करने रूप, लोकपूरण समुद्घात से समवहत होते हैं—अर्थात्

इवे गौतम स्वामी प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक बंधना विषयमां भडावीर प्रभुने आ प्रभाणु पूछे छे—(से किं तं पडुप्पन्नप्पओगपच्चइए ?) हे भदन्त ! प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक बंधतुं केवुं स्वइए छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—(पडुप्पन्नप्पओगपच्चइए जं णं केवलनागिस्स अणगारस्स केवलिसमुग्घाएणं समोहयस्स ताओ समुग्घायाओ पडिनियत्तेमाणस्स अंतरामंथे वट्टमाणस्स तेयाकम्माणं वंधे समुप्पज्जइ) हे गौतम ! केवलि समुद्घात द्वारा समुद्घात करता जेवा अने त्यारभाह ते समुद्घातमाथी पाछा इरवाने-सभये मंथनमां रडेती वधते केवली अणुगारने जे तैजस अने कर्मणु शरीरनेो बंध थाय छे, ते बंधने प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक बंध कडे छे. आ कथननेो भावार्थ नीचे प्रभाणु छे—

वर्तमानकालमां समुद्घात रूप अव्यापार द्वारा थयेदो जे तैजस कर्मणु शरीरनेो बंध छे, ते प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक बंध छे. केवलज्ञानी अणुगार न्यारे केह धारणु समुद्घात करे छे—दण्ड, कपाट अने मंथन कर्थां भाह तेना अंतरने पूरणु करवाइए, लोकपूरण समुद्घातथी समवहत थाय छे.

रितजीवमदेशस्य तस्मात् समुद्रघातात् प्रतिनिवर्तमानस्य प्रवेशान् संहरता, समुद्रघातात् प्रतिनिवर्तमानत्वञ्च पञ्चमादिषु अनेकेषु समयेषु समवति अतो विवि नष्टि-अन्तरामन्ये वर्तमानस्येति, तथा च निवर्तनक्रियायाः अन्तरा मध्येऽवस्थितस्य पञ्चमसमये इत्यर्थे, यद्यपि पष्ठादिसमयेषु अपि तैजसादिशरीरसंघाताः समुत्पद्यते तथापि अभूतपूर्वतया पञ्चमसमये एवासां भवति, शेषेषु तु भूतपूर्वत्वैवेति सूचयितुम् ' अन्तरा मये वदमाणस्त ' इत्युक्तम्, तैजसकार्मणयो शरीरयोः

मूल शरीर को म छोड़कर अपने आत्मप्रवेशों को शरीरसे पाहर निकालते हैं और उन्हें विस्तारित करते हैं, जय वे पूर्णरूप से विस्तृत हो चुकते हैं-लोकपूरण समुद्रघात कर चुकते हैं-इस के बाद वे विस्तारित उन आत्मप्रवेशों को पीछे संहरत करते हैं। दण्ड, कपाट, मंथान और लोकपूरण इनके करने में ४ समय लगते हैं और पांचवें समय में समुद्रघात से निवृत्त होते, वे जय मथानमें वर्तमान होते हैं-तब उस समय जो इनके तैजस और कार्मण शरीर का बंध होता है वह प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिक बंध है। यहां जो पांचवें समय में होने वाले तैजस और कार्मण बंध का प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिक बंध कहा है-सो उसका कारण यह है कि यह बंध यहां अभूतपूर्व ही होता है-यद्यपि पष्ठादि समयों में भी तैजस आदि शरीरों का संघात होता है, पर वह यहां विवक्षित नहीं हुआ है क्योंकि यह अभूतपूर्व नहीं होता है-भूतपूर्व होता है। इसी बातको सूचित करने के लिये (अन्तरा मये वदमाणस्त) ऐसा कहा है।

अच्छे के भुज शरीरने छाठथा विना पीताना आत्मप्रवेशीने लकार कडे छे जने तेभने विस्तारित करे, छे न्यारे ते पूरुं इपी विस्तारित बंध लय छे लोकपूरण समुद्रघात करी चुके छे-त्यारे तेजो ते विस्तारित आत्मप्रवेशीने पाछा संहरत (संकुचित) करी ले छे दंड कपाट, मंथान जने लोकपूरण जे लघु करवायां पार समय लागे छे, जने पांचमां समये समुद्रघातमांभी निवृत्त यदा जेवा तेजो न्यारे मंथानमां वर्तमान (रहैला) होय छे, त्यारे तेभना तैजस जने कार्मण शरीरने के लय घाय छे, ते प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक लय छे जहाँ के पांचमां समयमां बनार तैजस जने कार्मण लयने प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक लय कछो छे, तेनु करणु जे छे के लय लय त्वां अभूतपूर्व होय छे, जे के छुना आदि समयोमां पयु तैजस आदि शरीरने संघात होय छे पयु जहाँ तेना कश्चैण करवायां आन्यो नभी करणु के ते अभूतपूर्व होतो नभी पयु भूतपूर्व होय छे जेवा वातने सूत्रकारे " अन्तरा मये वदमाणस्त " आ सूत्राय द्वारा प्रकट करी छे

बन्धः संघातः समुत्पद्यते । गौतमः पृच्छति—‘ किं कारणं ? ’ तत्र किं कारणम् ?
 को हेतुः ?, भगवानाह—‘ ताहे से पएसा एगतीगया भवन्ति—त्ति, सेत्तं पडुप्पन्नप्प-
 ओगपच्चइए, सेत्तं सरीरबंधे ’ हे गौतम ! तदा समुद्घातनिवृत्तिकाले तस्य केव-
 लिनः प्रदेशा जीवप्रदेशाः एकत्वं गताः संघातमापन्ना भवन्ति, तदनुवृत्त्या च तैज-
 सादिशरीरप्रदेशानां बन्धः समुत्पद्यते, शरीरिवन्ध इति पक्षान्तरे तु तैजसकार्मणा-
 श्रयभूतत्वात् तैजसकार्मणाः शरीरिदेशास्तेषाम् बन्धः समुत्पद्यते इत्यत्रसेयम्,
 स एष उपर्युक्तः प्रत्युत्पन्न प्रयोगप्रत्ययिकस्वृतीयो बन्धः प्रज्ञप्तः । अथ सादिसपर्य-

गौतम पुनः प्रभु से ऐसा ही पूछते हैं कि ‘ तत्थ किं कारणं ’ हे भदन्त !
 पंचमसमय में ही वर्तमान केवली के तैजस और कार्मण शरीर का बंध
 होता है—इसमें क्या कारण है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—‘ गोयमा !
 से पएसा एगतीगया भवन्ति ’ हे गौतम ! समुद्घात से निवृत्तकाल में
 उस केवली के जीवप्रदेश संघातरूप हो जाते हैं—अर्थात्—समुद्घात
 काल में विखरे हुए आत्मप्रदेश समुद्घात से निवृत्त होते समय एक-
 चित्त हो जाते हैं—सो इन्हीं आत्मप्रदेशों का अनुसरण करके तैजस
 आदि शरीरप्रदेशों का उनके बंध होता है । “ शरीरिवध ” इस पक्षा-
 न्तर में “ तात्स्थ्यात् तद्व्यपदेशः ” के अनुसार तैजस और कार्मण के
 आश्रयभूत होने से शरीर—आत्मा के प्रदेशों को तैजस कार्मणरूप कह
 दिया गया है सो उनका बंध होता है । इस तरह से यह प्रत्युत्पन्नप्रयो-
 गप्रत्ययिक कर्मबंध का स्वरूप कहा । अब सादि सपर्यवसित बंध का

गौतम स्वाभीनो प्रश्न—“ तत्थ किं कारणं ? ” हे भदन्त ! पांचोंमां
 समयमां न वर्तमान (स्थित) केवलीने तैजस अने कार्मणु शरीरने अंध
 थवानुं कारणं शुं छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—(गोयमा ! से पएसा एगतीगया भवन्ति) हे
 गौतम ! समुद्घातमांथी निवृत्त थती वण्णते ते केवलीना एवप्रदेशो संघात
 इय थधं नय छे अएट्ठे के समुद्घात काले विपरयेत्ता आत्मप्रदेशो समुद्घ
 धातमांथी निवृत्त थती वण्णते अकन्नित थधं नय छे—अए आत्मप्रदेशानुं
 अनुसरणु करीने तेरुने तैजस आदि शरीर प्रदेशानो अंध थाय छे. “ शरीर
 बंध ” आ पक्षान्तरमा “ तात्स्थ्यात् तद्व्यपदेशः ” ना अनुसार तैजस अने
 कार्मणुना आश्रयभूत होवाथी शरीरी आत्माना प्रदेशाने तैजस कार्मणु इय
 कडेवामां आण्ण्ये अने तेमने अंध थाय छे, अएवुं कडेवामां आण्ण्युं छे.
 अत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक अंधनुं स्वरूप आ प्रकारनुं छे.

वसितस्य चतुर्थमेदेषु चतुर्थमेदमाह—' से किं तं ' इत्यादि । गौतम पृच्छति—' से किं तं सरीरप्यभोगवधे ? ' हे भवन्त ! अयं कः किंस्वरूप कतिविधः स सरीर प्रयोगवध ? भगवानाह—' सरीरप्यभोगवधे पंचविधे पण्यते ' हे गौतम ! सरीर प्रयोगवन्धः पञ्चविधः प्रकृतः ' तं जहा—ओरालियसरीरप्यभोगवधे, वेडम्बिय सरीरप्यभोगवधे, आहारगसरीरप्यभोगवधे, वेयासरीरप्यभोगवधे, ' तद्यथा—औदारिक सरीरप्रयोगवन्धः, वैक्रियशरीरप्रयोगवन्धः, आहारकशरीरप्रयोगवन्धः, तैजसशरीरप्रयोगवन्धः, कार्मणशरीरप्रयोगवन्धः । गौतमः पृच्छति—' ओरालिय सरीरप्यभोगवधे णं नते ! कइविधे पण्यते ? ' हे भवन्त ! औदारिकशरीरप्रयोग वन्धः कतिविधः प्रकृतः ? भगवानाह—' गोयमा ! पचविधे पण्यते ' हे गौतम !

श्रीधर मेइ जो शरीरप्रयोगवध है वसके विषय में गौतम प्रश्न से पूछते हैं—' से किं तं सरीरप्यभोगवधे ' हे भवन्त ! शरीरप्रयोग वध किनने प्रकार का कहा गया है ? उत्तर में प्रश्न कहते हैं—' सरीरप्यभोग वधे पंचविधे पण्यते ' हे गौतम ! शरीरप्रयोगवध पांच प्रकार का कहा गया है । ' तं जहा ' जो इस प्रकार से है—' ओरालियसरीरप्यभोगवधे, वेडम्बियसरीरप्यभोगवधे, आहारगसरीरप्यभोगवधे, वेयासरीरप्य भोगवधे, कम्मासरीरप्यभोगवधे ' औदारिकशरीरप्रयोगवध, वैक्रिय शरीरप्रयोगवध, आहारकशरीरप्रयोगवध तैजस शरीरप्रयोगवध और कार्मणशरीरप्रयोगवन्ध ।

' अयं गौतमस्वामी औदारिकशरीरप्रयोगवध के विषय में प्रश्न से पूछते हैं—' ओरालियसरीरप्यभोगवधे णं नते ! कइविधे पण्यते हे भवन्त ! औदारिकशरीरप्रयोगवध किनने प्रकार का कहा गया है ?

इवे सादि अपधं वसित लधने शरीर प्रयोग लध नामने के शेषे लेइ छे तेना विवे गौतम स्वामी नीचे प्रभावे प्रश्न पूछे छे—' से किं तं सरीरप्यभोगवधे ? ' हे भवन्त ! शरीर प्रयोग लधनु स्वरूप कइ छे ?

भक्तवीर प्रश्नने उत्तर—(सरीरप्यभोगवधे पचविधे पण्यते—तं जहा " हे गौतम ! शरीर प्रयोग लधना नीचे प्रभावे पांच प्रकार कइ छे—

(ओरालियसरीरप्यभोगवधे, वेडम्बियसरीरप्यभोगवधे, आहारगसरीर प्यभोगवधे, वेयासरीरप्यभोगवधे कम्मासरीरप्यभोगवधे) (१) औदारिक शरीर प्रयोग लध, (२) वैक्रिय शरीर प्रयोग लध, (३) आहारक शरीर प्रयोग लध, (४) तैजस शरीर प्रयोग लध जने (५) कार्मण शरीर प्रयोग लध । इवे गौतम स्वामी औदारिक शरीर प्रयोग लध विवे भक्तवीर प्रश्नने ज्ञा प्रभावे प्रश्न पूछे छे—' ओरालियसरीरप्यभोगवधे णं नते ! कइविधे

औदारिकशरीरप्रयोगबन्धः पञ्चविधः प्रज्ञप्तः, ' तं जहा-एगिंदियओरालियसरीर-
 प्पओगबन्धे, वेदियओरालियसरीरप्पओगबन्धे, जाव पंचिंदियओरालियसरीरप्प-
 ओगबन्धे ' तद्यथा-एकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबन्धः, द्वीन्द्रियौदारिकशरीर-
 प्रयोगबन्धः, यावत्-त्रीन्द्रियचतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबन्धः, गौतमः
 पृच्छति-' एगिंदियओरालियसरीरप्पओगबन्धेणं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ? ' हे
 भदन्त ! एकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबन्धः खलु कतिविधः प्रज्ञप्तः ? भगवानाह-
 ' गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते ' हे गौतम ! एकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबन्धः
 पञ्चविधः प्रज्ञप्तः, ' तं जहा-पुढविककाइयएगिंदिय ओरालियसरीरप्पओगबन्धे ' "

उत्तर में प्रभु करते हैं-' गोयमा ' हे गौतम औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध
 ' पंचविहे पण्णत्ते ' पांच प्रकार का कहा गया है । ' तं जहा ' जो इस
 प्रकार से है-' एगिंदियओरालियसरीरप्पओगबन्धे, वेइंदिय ओरालिय-
 सरीरप्पओगबन्धे, जाव पंचिंदिय ओरालियसरीरप्पओगबन्धे ' एकेन्द्रिय
 औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध, वेइन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध, ते इन्द्रिय
 औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध, चौ इन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध और
 पंचेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं-' एगिंदियओरालियसरीर-
 प्पओगबन्धे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ' हे भदन्त ! जो एकेन्द्रिय औदा-
 रिकशरीरप्रयोगबन्ध है-वह कितने प्रकार का कहा गया है ? प्रभु उत्तर
 में कहते हैं-' गोयमा ' है गौतम । एकेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध
 ' पंचविहे पण्णत्ते ' पांच प्रकार का कहा गया है । ' तं जहा ' जैसे-

पण्णत्ते ? " हे भदन्त ! औदारिक शरीर प्रयोग बन्ध केटला प्रकारने कइयो छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—" गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते-तंजहा " हे

गौतम ! औदारिक शरीर प्रयोग बन्धना नीचे प्रमाणे पांच प्रकार कइयो छे—

" एगिंदियओरालियसरीरप्पओगबन्धे, वेइंदियओरालियसरीरप्पओगबन्धे, जाव
 पंचिंदिय ओरालियसरीरप्पओगबन्धे " (१) एकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग
 बन्ध, (२) द्वेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बन्ध, (३) त्रेन्द्रिय औदारिक
 शरीर प्रयोग बन्ध, (४) चतुरिन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बन्ध अने (५)
 पंचेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बन्ध.

गौतम स्वामीने प्रश्न—एगिंदिय ओरालिय सरीरप्पओग बन्धेणं भंते !
 कइ विहे पण्णत्ते ? हे भदन्त ! एकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बन्ध
 केटला प्रकारने छे ?

तद्यथा पृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरमयोगवन्व, ' एवं एरण भमिलावेणं मेदो जहा ओगाहणसठाणे ओरालियसरीरस्स तथा माणियब्बो ' एवरीत्वा एनेन पृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरमयोगव घविपयकेण भमिलापेन मेदा-अप्कायिकादिमेदो यथा प्रहापनाया एकविंशतितम पदे अत्रगाहनसस्थाने औदारिकशरीरस्य प्रतिपादितः तथाऽप्रापि भणितव्यः ' जाय पज्जत्तगन्मवक्कतिय मणुस्सर्पविंदियओरालियसरीरप्पमोगवधे य, अपज्जत्तगन्मवक्कतियमणुस्स जात्तपविंदिय ओरालिय सरीरप्पमोगवधे य ' यावत्-अप्कायिक तेजस्कायिक-वायुकायिक-वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगः, विकलेन्द्रिय तिर्येणो-

' पुढविककाइय एगिंदियओरालियसरीरप्पमोगवधे ' पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगवध ' एवं एणं भमिलावेणं मेदो जहा जहा ओगाहणसठाणे ओरालिय सरीरस्स तथा माणियब्बो ' इसपृथिवीकायिक एकेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगवध विवयक भमिलाप से अप्कायिकादि का मेदु जैसा प्रहापना के २१ वें पद अत्रगाहनासंस्थान में औदारिकशरीर का कहा गया है वैसा यहाँ पर भी कहना चाहिये- ' जाय पज्जत्तगन्मवक्कतियमणुस्सर्पविंदिय ओरालियसरीरप्पमोगवधे य ' यावत् पर्याप्त गर्भज मनुष्यपंचेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगवध ' यहाँ तक यहाँ यावत् चान्द से-" अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक इन एकेन्द्रिय जीवों के-औदारिकशरीरप्रयोगवध का, विकलेन्द्रिय के औदारिकशरीरप्रयोगवध का, पंचेन्द्रियतिर्ये-

भक्षणीर भलुने। उत्तर—" गोयमा । " के औत्तम ! (पचविहे पञ्जले तजहा) ओकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग लभना नीचे प्रभावे पांच प्रकार कहा है—(पुढविककाइय पणिवियओरालियसरीरप्पमोगवध) पृथ्वीकायिक ओकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग लभ (एवं एणं भमिलावेणं मेदो जहा ओगाहणसठाणे ओरालियसरीरस्स तथा माणियब्बो) प्रहापना सूत्रना २१ भां अत्रगाहन संस्थान पदभां पृथ्वीकायिक ओकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग लभ विवयक भमिलाप द्वारा अप्कायिक आदि वेदोनु वेदुं कथन करवाभां आणुं छे वेदुं लकीं पणुं कहेदुं ओउंके (जाय पज्जत्तगन्मवक्कतिय मणुस्स पचिविय ओरालियसरीरप्पमोगवधे य, " पर्याप्त अलभ मनुष्य पंचेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग लभ ' सुधीनुं कथन लकीं अकलुं करुं लकीं (जाय) (यावत्) पदधी अप्कायिक तेजस्कायिक, वायुकायिक, वने वनस्पतिकायिक ओकेन्द्रिय लभेना औदारिक शरीर प्रयोग लभने, विकलेन्द्रियना औदारिक शरीर प्रयोग लभने, पंचेन्द्रिय तिर्येणैकिक औदारिक शरीर प्रयोग लभने,

निकर्षाप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबन्धश्च, अपर्याप्तक गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्य—यावत् पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबन्धश्च विज्ञेयः, गौतमः पृच्छति—‘ओरालियसरीररूपओगबन्धे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ?’ हे भदन्त ! औदारिकशरीरप्रयोगबन्धः खलु कस्य कर्मण उदयेन भवति ? भगवानाह—‘गोयमा ! वीरियसजोगसहव्वयाए पमादपच्चया, कम्मं च जोगं च, आउयं च पडुच्च ओरालियसरीररूपओगनामकम्मस्स उदएणं ओरालियसरीररूपओगबन्धे’ हे गौतम ! वीर्यसयोगसद्द्रव्यतया—वीर्यं वीर्यान्तरायक्षयादिकृता शक्तिः, योगाः मनप्रभृतयः, योगैः सह वर्तते इति सयोगः, सन्ति विद्यमानानि द्रव्याणि

रगोनिक औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध का, पर्याप्तक गर्भज मनुष्य पंचेन्द्रिय के औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध का, अपर्याप्तकगर्भज मनुष्यपंचेन्द्रिय के औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध का ग्रहण हुआ है। अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—‘ओरालियसरीररूपओगबन्धेणं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ?’ हे भदन्त ! औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘वीरिय सजोग सहव्वयाए पमादपच्चया कम्मं च, भवं च, आउयं च पडुच्च ओरालियसरीररूपओग नाम कम्मस्स उदएणं ओरालियसरीररूपओगबन्धे’ सवीर्यता, ‘सयोगता, सद्द्रव्यता से तथा प्रमादरूप कारण से कर्म, योग, भव और आयुष्य को आश्रित कर जीव को औदारिकशरीरप्रयोग नाम कर्म के उदय होने पर औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध होता है। वीर्यान्तरायकर्म के क्षयोपशमादि से जन्य शक्ति का नाम वीर्य है

पर्याप्तक गर्भज मनुष्य पञ्चेन्द्रियना औदारिक शरीर प्रयोग बन्धने तथा अपर्याप्तक गर्भज मनुष्य पञ्चेन्द्रियना औदारिक शरीर प्रयोग बन्धने अद्वय करवामां आवेल छे.

गौतमस्वामीने। प्रश्न—(ओरालियसरीररूपओगबन्धे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ?) हे भदन्त ! औदारिक शरीर प्रयोग बन्ध कया कर्मना उदयथी थाय छे ?

महावीर प्रभुने। उत्तर—“गोयमा !” हे गौतम ! (वीरिय सजोग सहव्वयाए पमादपच्चया, कम्मं च, भवं च, आउयं च, पडुच्च ओरालिय सरीररूपओगनामकम्मस्स उदएणं ओरालियसरीररूपओगबन्धे) सवीर्यता, सयोगता अने सद्द्रव्यताथी तथा प्रमादरूप कारणे कर्म, योग, भव अने आयुष्यने आश्रित करीने एवना औदारिक शरीर प्रयोग नामकर्मने उदय थवाथी औदारिक शरीर प्रयोग बन्ध थाय छे. वीर्यान्तराय कर्मना क्षयोपशमादि द्वारा

तथाविषपुद्गला यस्य जीवस्यासौ सद्द्रव्यः, धीर्यमथान सयोगो धीर्यसयोगः, स चासौ सद्द्रव्यश्च तस्य भावस्तथा धीर्यसयोगसद्द्रव्यतया-सधीर्यतया, सयोग-तया, सद्द्रव्यतया च जीवस्य, तथा प्रमादमस्ययात् प्रमादलक्षणकारणात्, तथा 'कर्म च' एकेन्द्रियजात्यादिकमुदयवर्ति 'योग च' काययोगादिकम्, 'मव च' अनुभूयमानम् तिर्यग्मवाविकम् 'आयुष्यञ्च' उदयवर्तितिर्यगायुष्कादिकम्, प्रतीत्य-आभित्य कर्म-योग-मवायुष्कापेक्षया इत्यर्थे औदारिक-शरीरप्रयोगानामर्चणः औदारिकशरीरप्रयोगसम्पादक यन्नाम तस्य कर्मण उ-येन औदारिकशरीरप्रयोगश्चो भवतीति भावः। गौतमः पृच्छति-' एगिदियओरालियसरीओरालियसरीरप्यभोगवधे ण मते ! फस्स कम्मस्स उदपण ' हे भदन्त ! एके

और इस धीर्य से युक्तता का नाम सधीर्यता है। एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक समस्त जीवों के तरतमादिरूप में सधीर्यता है। मन, वचन और काय इनके व्यापार का नाम योग है-इस योग से युक्तता का नाम सयोगता है। तथाविष पुद्गलों का नाम द्रव्य है। इस द्रव्य से युक्तता का नाम सद्द्रव्यता है। विकषा, कषाय आदि का नाम प्रमाद है। उदयवर्ती एकेन्द्रिय जाति आदि कर्म, काययोग, अनुभूयमान तिर्यञ्च आदि भव और उदयवर्ती तिर्यगायुष्क आदि आयुष्क हैं। जीव जय इन सधीर्यता आदि से युक्त होता है और कर्म योग आदि के वशावर्ती होता है-तब उसके औदारिकशरीरसम्पादक नामकर्म के उदय में औदारिकशरीरप्रयोगय च होता है।

अथ गौतमस्वामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं-' एगिदियओरालियसरी रप्यभोगवधेणं मते ! फस्स कम्मस्स उदपण ' हे भदन्त ! एकेन्द्रिय

अथ शक्तिनु नाम धीर्यं च अने ते धीर्यधी मुह्यतवानु नाम सधीर्यता च। एकेन्द्रियधी एधने पञ्चेन्द्रिय धर्तन्तना समस्त एवोभं तरतमादि (वधारे, एनाधी पञ्च वधारे) इधे सधीर्यता देव च मन, वचन अने कायना व्यापार (प्रवृत्ति) ने योग कहे च ते योगधी मुह्यतवाने सयोगता कहे च तथाविष पुद्गलानु नाम द्रव्यं च अने ते द्रव्यधी मुह्यतवानु नाम सद्द्रव्यता च विकषा, कषाय आदिनु नाम प्रमाद च उदयवर्ती एकेन्द्रिय जाति आदि कर्म, कर्म योग, आदिमोच, अनुभूयमान तिर्यञ्च आदि भव, अने उदयवर्ती तिर्यगायुष्क आदि आयुष्क च एव न्यारे आ सधीर्यता आदिधी मुह्यत यव च, अने कर्म, योग आदिने अधीन यव च, त्वारे औदारिक शरीर सम्पादक नाम कर्मना उदयधी तेना दाथा औदारिक शरीर प्रयोग जय यव च

औतम स्वामीने प्रश्न—(एगिदियओरालियसरीरप्यभोगवधे ण मते !

न्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबन्धः खलु कस्य कर्मणः उदयेन भवति ? भगवानाह—
 ' एवं चेव ' हे गौतम ! एवं चैवोक्तरीत्या वीर्यसयोगसद्रव्यतया प्रमादप्रत्य-
 यात्, कर्म - योग - भवायुष्कापेक्षया एकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगनामकर्मण
 उदयेन एकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबन्धो भवतीति भावः । तथैव ' पुढविककाइय-
 एगिदियओरालियसरीरप्पओगबन्धे, ' एवं चेव ' पृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिक-
 शरीरप्रयोगबन्धः एवं चैव-उत्तरीत्यैव पृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोग-
 नामकर्मणः उदयेन भवतीति भावः, ' एवं जाव वणस्सइकाइया ' एवं तथैव
 यावत् अपूकायिक-तेजस्कायिक-वायुकायिक-वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियौदारिक-
 शरीरप्रयोगबन्धाः वीर्यमयोगाद्यायुष्कान्तापेक्षया अपूकायिक-तेजस्कायिक-
 वायुकायिक-वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगनामकर्मणासुदयेन भवतीति

औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध जीवके कित्त कर्मके उदय से होना है ? उत्तर
 प्रभु कहते हैं ' गोयमा ' हे गौतम ! ' एवंचेव ' अभी जो सवीर्यता
 आदि कहे गये हैं—सवीर्यता, सयोगता, सद्रव्यता, प्रमादप्रत्ययिक, कर्म,
 योग, भव और आयुष्क तो इनकी अपेक्षा से एकेन्द्रिय औदारिक-
 शरीर सम्पादक नाम कर्म के उदय में इस जीव के एकेन्द्रिय औदारिक-
 शरीरप्रयोगबन्ध होता है । इसी तरह से पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय औदा-
 रिकशरीरप्रयोगबन्ध पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोग नाम-
 कर्म के उदय में होता है । ' एवं जाव वणस्सइकाइया ' इसी तरह से
 अपूकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय
 औदारिक शरीरप्रयोगबन्ध सवीर्यता, सयोगता आदि आयुष्कान्त की

कसकम्मस्स उदणं ?) डे लहन्त ! अकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बन्ध
 क्या कर्मना उदयथी थाय छे ?

तेने उत्तर आपता प्रभु डडे छे डे—“ गोयमा ! ” डे गौतम ! “ एवं
 चेव ” सवीर्यता, सयोगता, सद्रव्यता, प्रमाद प्रत्यय, कर्म, योग, भव अने
 आयुष्कनी अपेक्षाअे अकेन्द्रिय औदारिक शरीर सम्पादक नाम कर्मने उदय
 थाय त्याडे एव अकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बन्ध करे छे अेव प्रमाणे
 पृथ्वीकायिक अकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बन्ध पृथ्वीकायिक अकेन्द्रिय
 औदारिक शरीर प्रयोग नाम कर्मने उदयथी थाय छे “ एवं जाव वणस्सइ
 काइया ” अेव प्रमाणे अपूकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक अने वनस्पति
 कायिक अकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बन्ध पणु सवीर्यता, सयोगता आदिथी
 लधने आयुष्क पर्यन्तनानी अपेक्षाअे अपूकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक अने

मात्रः, 'एव वेद्दिया, एवं तेद्दिया, एवं चउरिन्द्रियतिरिक्खजोगिया ओरालियसरीरप्पओगबधे' एवमुक्त्वा तस्या द्वीन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवचः, त्रीन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवचः, एव चतुरिन्द्रिय तिर्यग्योनिकौदारिकशरीरप्रयोगवचोऽपि वीर्यसयोगाघायुष्कान्तापेक्षया द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-तिर्यग्योनिकौदारिकशरीरप्रयोगनामकर्मणा मुदयेन भवति । गौतमः पृच्छति-'पंचिन्द्रिय ओरालियसरीरप्पओगबधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएण ?' हे मइन्त ! एवो द्वीन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवचः खल्ल कएण कर्मण उदयेन भवति ?, मगबानाह-

अपेक्षा से अपृकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग नाम कर्मों के उदय में होते हैं। (एवं वेद्दिया, एवं तेद्दिया, एवं चउरिन्द्रियतिरिक्खजोगिया ओरालियसरीरप्पओगबधे) इसी प्रकार से द्वीन्द्रिय औदारिक शरीरप्रयोगवच, त्रीन्द्रिय औदारिक शरीरप्रयोगवच, चतुरिन्द्रिय औदारिक शरीरप्रयोगवच और तिर्यग्योनिक औदारिक शरीर प्रयोगवच ये सब प्रयोगवच भी सवीर्यता, सयोगता आदि आयुष्ककी अपेक्षासे द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तिर्यग्योनिक औदारिक शरीर सम्पादक नामकर्मके उदयसे होते हैं।

अथ गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(पंचिन्द्रिय ओरालियसरीरप्पओगबधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएण) हे मइन्त ! जो पंचेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग वच है वह किस कर्म के उदय से होता

अने वनस्पतिकायिक ज्येष्ठेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग नाम कर्मना उदयधी याव उ (एवं वेद्दिया, एवं तेद्दिया एवं चउरिन्द्रियतिरिक्खजोगिया ओरालियसरीरप्पओगबधे) ज्येष्ठ प्रभावे द्वीन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग वच, त्रीन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग वच, चतुरिन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग वच, अने चतुरिन्द्रिय तिर्यग्योनिक औदारिक शरीर प्रयोग वच पण सवीर्यता, सयोगता आदिधी उदये आशुक्क पवन्तना कारव्हेणी अपेक्षाजे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तिर्यग्योनिक औदारिक शरीर सम्पादक नाम कर्मना उदयधी याव उ

इवे गौतम एवाभी भइवीर प्रश्नने ज्येष्ठे प्रश्न पूछे उ क—“पंचिन्द्रिय ओरालियसरीरप्पओग बधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएण ?” उ मइन्त ! इया कर्मना उदयधी पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग वच याव उ ?

‘ गोयमा ! वीरियसजोगसद्व्ययाए पमायजावआउयं पडुच्च पंचिदिय-
ओरालियसरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं ’ हे गौतम ! वीर्यसयोगसद्व्य-
तया सवीर्यतया, सयोगतया, सद्व्यतया, प्रमादप्रत्ययात् यावत्—कर्म च, योगञ्च,
भावञ्च, आयुष्क च प्रतीत्य आश्रित्य तेषामपेक्षया पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोग-
नाम्नः कर्मणः उदयेन पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोबन्धो भवति, एवं—‘ तिरिक्ख-
पंचिदियओरालियसरीरप्पओगवधे एवं चेव ’ तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीर-
प्रयोगन्धः एवञ्चैव—उक्तरीत्यैव, वीर्यसयोगादिभवायुष्कान्तापेक्षया तिर्यग्योनिक-
पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगनामकर्मण उदयेन भवति । गौतमः पृच्छति—‘ मणुस्स
पंचिदियओरालियसरीरप्पओगवधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ’ हे भदन्त !

है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (वीरियसजोगसद्व्य-
याए पमाय जाव आउयं पडुच्च पंचिदियओरालियसरीरप्पओगनाम
कम्मस्स उदएणं) पंचेन्द्रिय जीव के सवीर्यता, सयोगता, सद्व्यता से
तथा प्रमाद कारण से, यावत्—कर्म, योग, भाव और आयुष्क इनको
आश्रित करके अर्थात् इनकी अपेक्षा से और पंचेन्द्रिय औदारिक शरीर
प्रयोग नामकर्म के उदय से पंचेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग का बंध
होता है । इसी तरह से (तिरिक्खपंचिदियओरालिय सरीरप्पओगवधे
एवं चेव) इसी तरह से सवीर्यता, सयोगता आदि भवायुष्कान्त की
अपेक्षा से एवं तिर्यग्योनिक पंचेन्द्रिय औदारिक शरीर सम्पादक नाम-
कर्म के उदय से तिर्यग्योनिक पंचेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग
बंध होता है ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(मणुस्सपंचिदिय ओरा-
लियसरीरप्पओगवधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं हे भदन्त ! मनुष्य

भङ्गावार प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (वीरियसजोग
सद्व्ययाए पमाय जाव आउयं पडुच्च पंचिदिय ओरालिय सरीरप्पओग नाम
कम्मस्स उदएणं ” पंचेन्द्रिय जीवनी सवीर्यता, सयोगता अने सद्व्यताथी
तथा प्रमादना कारणथी कर्म, योग, भाव अने आयुष्कनी अपेक्षाअने अने
पंचेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग नाम कर्मना उदयथी पंचेन्द्रिय औदारिक
शरीर प्रयोग बंध थाय छे अथ प्रमादु “ तिरिक्खपंचिदियओरालिय-
सरीरप्पओगवधे एवं चेव ” सवीर्यता, सआयुता, सद्व्यता, प्रमादना
कारणथी कर्म, योग, भाव अने आयुष्कनी अपेक्षाअने अने तिर्यग्योनिक
पंचेन्द्रिय औदारिक शरीर सम्पादक नाम कर्मना उदयथी तिर्यग्योनिक पंचे-
न्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंध थाय छे.



मनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगश्च स्वल् कस्य कर्मण उदयेन भवति ? मयं-
 चानाह—‘ गोयमा । धीरियसजोगसद्भव्याए पमादपञ्चया माव आउयं च पडुच
 मणुस्सपञ्चिदियओरालियसरीरप्पओगनामाए कम्मरस उदपणं मणुस्सपञ्चिदिय-
 ओरालियसरीरप्पओगवंधे ’ हे गौतम । धीर्यसयोगसद्भव्यतया सवीर्यतया सपोग-
 तथा सद्भव्यतया प्रमादप्रत्ययात्—यावत् कर्म च योगश्च, मपञ्च, आयुष्कञ्च
 प्रतीत्य आधित्य तदपेक्षयेत्यर्थं मनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगनामकर्मण उद-
 येन मनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगश्चो भवतीति भाव ॥ सू० ३ ॥

औदारिकशरीरप्रयोगश्च चक्रव्यगा ।

गौतम पृच्छति—‘ ओरालियसरीर ’ इत्यादि ।

मूढम्—ओरालियसरीरप्पओग वधेण भते ! किं देसवधे, सठवधे ?
 गोयमा ! देसवधे वि, सठवधे वि, एगिदिय ओरालियसरीरप्पओग
 वधेण भते ! किं देसवधे, सठवधे ? एव चेव, एव पुठविकाइया,
 एव जाव मणुस्सपञ्चिदियओरालियसरीरप्पओगवधेण भते ! किं

पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीरप्रयोगश्च किस कर्म के उदय से होता है ?
 इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (धीरियसजोग
 सद्भव्याए पमादपञ्चया जाव आउयं च पडुच मणुस्सपञ्चिदिय ओरा-
 लिय सरीरप्पओगनामकम्मरस उदपणं मणुस्स पञ्चिदिय ओरालिय
 सरीरप्पओगवंधे) मधीर्यता से मयोगता सद्भव्यता से तथा प्रमादरूप
 कारण से, यावत्—कर्म, योग, भव और आयुष्य की अपेक्षा से मनुष्य
 पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीर सम्पादक नामकर्म के उदय से मनुष्यपञ्चे-
 न्द्रिय औदारिक शरीरप्रयोगश्च होता है ॥ सू० ३ ॥

गौतम स्थाभीने प्रश्न—(मणुस्स पञ्चिदिय ओरालियसरीरप्पओग वधेण
 भते ! कसस कम्मरस उदपणं ?) हे गौतम ! क्या कर्मना उदयधी मनुष्य
 पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग लभ भाव छे ?

महावीर प्रश्नोत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (धीरिय सजोग
 सद्भव्याए पमाद पञ्चया जाव आउयं च पडुच मणुस्स पञ्चिदियओरालिय
 सरीरप्पओग नाम कम्मरस उदपणं मणुस्स पञ्चिदिय ओरालियसरीरप्पओग
 वंधे ” सवीर्यताधी, सपोगताधी, सद्भव्यताधी तथा प्रमादरूप कारणसे, यावत्
 कर्म, योग, भव अने आयुष्यकी अपेक्षासे अने मनुष्य पञ्चेन्द्रिय औदारिक
 शरीर सम्पादक नाम कर्मना उदयधी मनुष्य पञ्चेन्द्रिय औदारिक शरीर
 प्रयोग लभ भाव छे ॥ सू० ३ ॥

देसबंधे, सव्वबंधे ? गोयमा ! देसबंधे वि, सव्वबंधे वि, ओरा-
लियसरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?
गोयमा ! सव्वबंधे एककं समयं, देसबंधे जहण्णेणं एककं समयं
उक्कोसेणं तिननिपलिओवमाइं समयूणाइं, एगिंदियओरालिय-
सरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ? गोयमा !
सव्वबंधे एककं समयं, देसबंधे जहण्णेणं एककंसमयं उक्कोसे-
णं बावीसं वास सहस्साइं समयूणाइं, पुढविकाइयएगिंदिय
पुच्छा, गोयमा ! सव्वबंधे एककं समयं, देसबंधे जहण्णेणं
खुड्ढागभवग्गहणं तिसमयऊणं, उक्कोस्सेणं बावीसं वाससहस्साइं
समयूणाइं, एवं सव्वेसिं सव्वबंधो एककं समयं, देसबंधो
जेसिं नत्थि वेउव्वियसरीरं तेसिं जहण्णेणं खुड्ढागभवग्गहणं
तिसमयऊणं, उक्कोस्सेणं जा जस्स ठिई सा समयूणा कायव्वा,
जेसिं पुण अत्थि वेउव्वियसरीरं तेसिं देसबंधो जहण्णेणं एककं
समयं, उक्कोस्सेणं जा जस्स ठिई सा समऊणा कायव्वा, जाव
मणुस्साणं देसबंधे जहण्णेणं एककं समयं, उक्कोस्सेणं तिननि
पलिओवमाइं समयऊणाइं । ओरालियसरीरबंधंतरे णं भंते !
कालओ केवच्चिरं होइ ? गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहण्णेणं
खुड्ढागभवग्गहणं तिसमयऊणं, उक्कोस्सेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं
पुव्वकोडिसमयहियाइं, देसबंधंतरं जहण्णेणं एककं समयं, उक्कोस्से-
णं तेत्तीसं सागरोवमाइं तिसमयाहियाइं । एगिंदियओरालिय०
पुच्छा, गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहण्णेणं खुड्ढागभवग्गहणं,

तिसमयऊणं, उक्कोसेणं वावीस वाससहस्साइ समयाहियाई,
 देसवधतर जहण्णेणं एकक समय, उक्कोसेणं अतोमुहुत्त ।
 पुढविकाइयएगिदिय० पुच्छा, गोयमा ! सव्ववधतर जहेव
 एगिदियस्स तहेव भाणियव्व, देसवधतर जहण्णेणं एकक
 समय, उक्कोसेणं तिस्सि समया जहा पुढविकाइयाणं एव
 जाव चउरिदियाण वाउक्काइयवज्जाण, नवर सव्ववधतर
 उक्कोसेणं जा जस्स ठिई सा समयाहिया कायवा, वाउ
 क्काइयाण सव्वबंधतरजहण्णेण खुद्दागभवग्गहण तिसमयऊणं,
 उक्कोसेण तिस्सि वाससहस्साइ समयाहियाइ, देसवधतरं जह
 ण्णेणं एकक समय, उक्कोसेण अतोमुहुत्त, पच्चिदियतिरिक्ख
 जोणियओरालियपुच्छा सव्वबंधतर जहण्णेणं खुद्दागभव
 ग्गहणं तिसमयऊण, उक्कोसेणं पुव्वकोढी, समयाहिया, देस
 वधंतर जहा एगिदियाण तहा पच्चिदियतिरिक्खजोणियाणं, एव
 मणुस्साणवि निरवसेस्स भाणियव्व जाव उक्कोसेणं अतोमुहुत्त ।
 जीवस्स णं भंते ! एगिदियत्ते, णोएगिदियत्ते, पुणरवि एगिदियत्ते
 एगिदियओरालियसरीरप्पओगबंधतरं कालओ केषच्चिर
 भवइ ? गोयमा ! सव्ववधतर जहण्णेण दो खुद्दागभवग्गह
 णाई तिसमयऊणाइ, उक्कोसेण दो सागरोवम सहस्साई सखे
 जवासमब्भहियाई, देसवधतर जहण्णेण खुद्दागभवग्गहणं
 समयाहिय, उक्कोसेण दो सागरोवमसहस्साई सखेच्चवासमब्भ
 हियाइ, जीवस्स णं भंते ! पुढविकाइयत्ते, णो पुढविकाइयत्ते,

पुणरवि पुढविकाइयत्ते, पुढविकाइयएगिंदियओरालियसरीर-
 प्पओगबंधंतरं कालओ केवच्चिरं होइ ? गोयमा ! सव्वबंधंतरं
 जहणणेणं दो खुड्ढागभवग्गहणाइतिसमयऊणाइं उक्कोसेणं
 अणंतं कालं अणंता उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ
 अणंता लोगा असंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा, ते णं पोग्गलपरियट्ठा
 आवलियाए असंखेज्जइभागो, देसबंधंतरं जहणणेणं खुड्ढाग-
 भवग्गहणं समयाहियं, उक्कोसेणं अणंतं कालं जाव आवलियाए
 असंखेज्जइभागो, जहा पुढविकाइयाणं एवं वणस्सइकाइयव-
 ज्जाणं जाव मणुस्साणं, वणस्सइकाइयाणं दोन्नि खुड्ढाइं, एवं
 चेव उक्कोसेणं असंखिज्जं कालं, असंखिज्जाओ उस्सप्पिणी
 ओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेज्जा लोगा, एवं देसबं-
 धंतरंपि उक्कोसेणं पुढवीकालो, एएसि णं भंते ! जीवाणं
 ओरालियसरीरस्स देसबंधगाणं सव्वबंधगाणं, अबंधगाण य,
 कयरे कयरेहिंतो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा
 जीवा ओरालियसरीरस्स सव्वबंधगा, अबंधगा विसेसा-
 हिया, देसबंधगा असंखेज्जगुणा ॥ सू०४ ॥

छाया—औदारिकशरीरप्रयोगवन्धः खलु भदन्त ! किं देशवन्धः, सर्वबंधः ?
 गौतम ! देशवन्धोऽपि सर्ववन्धोऽपि, एकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवन्धः खलु

औदारिकशरीरप्रयोगवन्ध वक्तव्यता

‘ओरालियसरीरप्पओगबंधेणं भंते !’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(ओरालियसरीरप्पओगबंधेणं भंते ! किं देसबंधे, सव्व-

औदारिकशरीरप्रयोगबंध वक्तव्यता—

सूत्रार्थ—ओरालियसरीरप्पओगबंधे णं भंते ! किं देसबंधे, सव्वबंधे ?

मदन्त । किं देशवन्धः सर्ववन्धः ? एवं चैव, एवं पृथिवीकायिकाः, एवं यावत्
मनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवन्धं खलु मदन्त । किं देशवन्धः, सर्ववन्धः ?
गौतम । देशवन्धोऽपि सर्ववन्धोऽपि । औदारिकशरीरप्रयोगवन्धं खलु मदन्त ।

यधे ' हे मदन्त । औदारिकशरीरप्रयोगवन्धं में उसका देशवन्ध होता है
या सर्ववन्ध होता है ? (गोपमा) हे गौतम । (देशवन्धे वि सन्धवन्धे वि)
औदारिकशरीरप्रयोगवन्धं में उसका देशवन्ध भी होता है और सर्व
वन्ध भी होता है । (एगिदिय ओरालिय सरीरप्यओगवन्धेणं मत्ते । किं
देशवन्ध, सन्धवन्धे ?) हे मदन्त । एकेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगवन्धं
में उसका देशवन्ध होता है या सर्ववन्ध होता है ? (एव चैव) हे
गौतम । औदारिकशरीरप्रयोगवन्धं की तरह एकेन्द्रिय औदारिक
शरीरप्रयोगवन्धं में उसका देशवन्ध भी होता है और सर्ववन्ध भी होता
है । (एव पुदधिकार्या एव जाव) इसी तरह से पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय
औदारिकशरीरप्रयोगवन्धं भी देशवन्धरूप भी होता है, और सर्ववन्धरूप
भी होता है । इसी तरह से अप्कायिक आवि औदारिकशरीरप्रयोग
वन्धं भी देशवन्धरूप और सर्ववन्धरूप होता है । (मणुस्स पथिदियओरा-
लिय सरीरप्यओगवन्धेणं मत्ते । किं देशवन्धे सन्धवन्धे) हे मदन्त ।
मनुष्यपञ्चेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगवन्धं क्या देशवन्धरूप होता है या
सर्ववन्धरूप होता है ? (गोपमा) हे गौतम । (देशवन्धे वि सन्धवन्धे वि)
मनुष्यपञ्चेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगवन्धं देशवन्धरूप भी होता है और

हे मदन्त । औदारिकशरीरप्रयोगवन्धं में तेना देशवन्ध थाय उ हे
सर्ववन्ध थाय उ ? (गोपमा) हे गौतम । (देशवन्धे वि, सन्धवन्धे वि)
औदारिकशरीरप्रयोगवन्धं में तेना देशवन्ध पण थाय उ अने सर्ववन्ध
पण थाय उ (एगिदियओरालियसरीरप्यओगवन्धेणं मत्ते । किं देशवन्धे,
सन्धवन्धे ?) हे मदन्त । एकेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगवन्धं में तेना देश
वन्ध थाय उ, हे सर्ववन्ध थाय उ ? (एव चैव) हे गौतम । औदारिक
शरीरप्रयोगवन्धं की तरह एकेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगवन्धं में तेना
देशवन्ध पण थाय उ अने सर्ववन्ध पण थाय उ (एव पुदधिकार्या एव
जाव) अथ प्रमाणे पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगवन्धं पण
देशवन्ध इव पण होय उ अने सर्ववन्ध इव पण होय उ अथ प्रमाणे
अप्कायिक आवि औदारिकशरीरप्रयोगवन्धं पण देशवन्ध इव पण होय
उ अने सर्ववन्ध इव पण होय उ

(मणुस्स पथिदियओरालियसरीरप्यओगवन्धेणं मत्ते । किं देशवन्धे
सन्धवन्धे ?) हे मदन्त । मनुष्यपञ्चेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगवन्धं देश

कालतः कियच्चिरं भवति ? गौतम ! सर्ववन्धः एकं समयं, देशवन्धो जघन्येन एकं समयम्, उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि समयोनानि, एकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोग-
वन्धः खलु भदन्त ! कालतः कियच्चिरं भवति ? गौतम ! सर्ववन्धः एकं समयम्,
देशवन्धो जघन्येन एकं समयम्, उत्कर्षेण द्वाविंशतिः वर्षसहस्राणि समयोनानि,
पृथिवीकायिकैकेन्द्रिय० पृच्छा ? गौतम ! सर्ववन्धः, एकं समयं देशवन्धो जघन्येन

सर्ववधरूप भी होता है । (ओरालियसरीरप्रयोगवधेणं भन्ते ! कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ! औदारिकशरीरप्रयोगवन्ध काल की अपेक्षा कितने कालतक रहता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्ववधे एकं समयं, देसवधे जहण्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं तिन्निपलिओवमाइं समयज्जाइं) सर्ववन्ध एक समयतक और देशवन्ध जघन्य से एक समयतक और उत्कृष्ट से एक समयन्यून तीनपल्योपम तक रहता है । (एगिंदिय ओरालियसरीरप्रयोगवधेणं भन्ते ! कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ! एकेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगवन्ध काल की अपेक्षा कितने कालतक रहता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्ववधे एकं समयं देसवधे जहण्णेणं एकं समयं उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साइं समयज्जाइं—पुढ-विकाइयएगिंदिय पृच्छा ? गोयमा ! सव्ववधे एकं समयं देसवधे जहण्णेणं खुड्ढागभवग्गहणं ति समयज्जाणं, उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साइं

अथ इप डोय छे, के सर्ववन्ध इप डोय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (देसवधे वि, सव्ववधे वि) अनुप्य पंचेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग अन्ध देशवन्ध इप पणु डोय छे अने सर्ववन्ध इप पणु डोय छे

(ओरालियसरीरप्रयोगवधेणं भन्ते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?) हे भदन्त ! औदारिक शरीर प्रयोग अन्ध कागनी अपेक्षाओ केटला काण सुधी रडे छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्ववधे एकं समयं, देसवधे जहण्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं तिन्निपलिओवमाइं समयज्जाइं) सर्ववन्ध ओक समय सुधी रडे छे, अने देशवन्ध ओछामां ओछे ओक समय सुधी अने वधारेभा वधारे त्रणु पल्योपम प्रमाणुकाण करता ओक समय न्यून सुधी रडे छे (एगिंदियओरालियसरीरप्रयोगवधेणं भन्ते ! कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ! एकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग अन्ध कागनी अपेक्षाओ केटला काण सुधी रडे छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्ववधे एकं समयं देसवधे जहण्णेणं एक समयं उक्को

शुक्लकर्मग्रहण भित्तमयोनम् उत्कर्षेण द्वारिञ्चति वर्षसहस्राणि समयोनानि, एवं सर्वे
 सर्वव्ययः एक समयम्, देशवधो येषां नास्ति वैक्रियशरीर तेषां जघन्यन शुक्लकर्म
 ग्रहण भित्तमयोनम्, उत्कर्षेण वा यस्य स्थितिः सा समयाज्ञा कर्तव्या येषां पुनरस्ति
 वैक्रियशरीर तेषां देशवधो जघन्येन एक समयं उत्कर्षेण वा यस्य स्थितिः सा समयोना
 कर्तव्या यावत् मनुष्याणां देशवधो जघन्येन एक समयम्, उत्कर्षेण श्रीणि पत्योपमानि

समयज्जाह एव सन्वेसि सम्बन्धो एकक समयं देशवधो जेसि नत्पि
 वेदव्ययसरीरं तेसि जहण्णेणं खुद्वागं भवगगहणं तिसमयज्जणं) एकै
 न्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोगबंध में सर्वबंध एक समयतक और देशबंध
 जघन्य से एक समयतक और उत्कृष्ट से एक समय कम २२ हजार
 वर्षतक रहता है। इसी तरह ऐसे यदि पूछा जावे कि पृथिवीकायिक
 एकेन्द्रिय का सर्वबंध काल कमतक का है और देशबंधकाल कमतक का
 है ? तो हे गौतम ! उसका उत्तर ऐसा है कि पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय का
 सर्वबंध काल एक समयतक का और देशबंध काल जघन्य से तीन
 समय कम शुक्लकर्मग्रहणपर्यन्त है तथा (एककोसेण) उत्कृष्ट से
 (बावीसं वाससहस्राह समयज्जाह) एक समयके २२ हजार वर्षतक
 का है। (एवं सन्वेसि सम्बन्धो एकक समयं, देशवधो जेसि नत्पि
 वेदव्ययसरीरं तेसि जहण्णेणं खुद्वागं भवगगहणं तिसमयज्जणं, एकको
 सेणं जा जस्स ठिई सा समयज्जाणा कायव्या जेसि पुण अत्पि वेदव्यय

गोपमा ! सम्बन्धे एक समयं, देशवधो जेसि नत्पि वेदव्ययसरीरं तेसि जहण्णेणं
 खुद्वागं भवगगहणं तिसमयज्जणं) एकैन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंधने
 सम्बन्धे एक समय सुधी अने देशबंध जोखामां जोखे जोक समय सुधी अने
 वधाहेमा वधाहे २२ हजार वर्ष कर्तां जोक न्यून समय सुधी रहे छे जोख प्रभावे
 जोक पृथ्वीमां आवे के पृथ्वीकायिक जोकेन्द्रियने सव अंधकार डेटवै छे अने
 देशबंधकाण डेटवै छे तो हे गौतम ! तेने उत्तर जेवे छे के पृथ्वीकायिक
 जोकेन्द्रियने सव अंधकार जोक समय सुधीने छे अने तेने देशबंधकाण
 जोखामां जोखि शुक्लकर्मग्रहणपर्यन्त छे तथा (एककोसेण) उत्कृष्ट (बावीसं
 वाससहस्राह समयज्जाह) वधाहेमां वधाहे लावीसु हत्तर वर्ष कर्तां जोक न्यून
 समय सुधीने छे (एवं सन्वेसि सम्बन्धो एकक समयं देशवधो जेसि नत्पि
 वेदव्ययसरीरं तेसि जहण्णेणं खुद्वागं भवगगहणं तिसमयज्जणं, एकको
 सेणं जा जस्स ठिई सा समयज्जाणा कायव्या जेसि पुण अत्पि वेदव्यय

समयोनानि । औरालिकशरीरवन्धान्तरं खलु भदन्त ! कालतः क्रियच्चिरं भवति ?
गौतम ! सर्ववन्धान्तरं जघन्येन क्षुल्लकभवग्रहणं त्रिमयोनम् , उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत्
सागरोपमानि पूर्वकोटिसमयाधिकानि, देशवन्धान्तरं जघन्येन एकं समयम् ,

सरीरं तेषि देसबंधो जहण्णेणं एककं समयं उक्कोसेणं जा जरस ठिई सां
समयऊणा कायव्वा) इसी तरह सर्वजीवोंका सर्वबंध काल एक समयका है
और देशबंधकाल जिनको वैक्रियशरीर नहीं है इनका जघन्य से तीन समय
कम क्षुल्लक भव ग्रहण पर्यन्त है और उत्कृष्ट से जिसकी जितनी आयुष्य-
स्थिति है उसमें से एक समय कमका है तथा जिनको वैक्रिय शरीर है
उनके देशबंध का काल जघन्य से एक समय का है उत्कृष्ट से जिसकी
जितनी आयुष्यस्थिति है उसमें से एक समय कम का है । (जाव मणु-
स्साणं देसबंधे जहण्णेण एककं समयं उक्कोसेणं तिसिपलिओवमाइं सम-
यऊणाइं) यावत् मनुष्यों का देशबंध काल जघन्य से एक समयतक
का और उत्कृष्ट से एक समय कम तीन पल्योपम तक का है । (ओरा-
लियसरीरवंधनरेण भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ! औदारिक
शरीर के बंध का अन्तराकाल की अपेक्षा कितना होता है ? (गोयमा)
हे गौतम ! (सव्ववंधंतरं जहण्णेणं खुड्डागं भवग्गहणं तिसमयऊण,
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं पुव्वकोटिसमयाहियाइं, देसवंधंतरं जह

भवग्गहणं तिसमयऊणं) अत्र प्रमाणे सर्वे ज्ञेयाने आच्छामां आच्छे देशबंधकाण
क्षुल्लक भवग्रहणं करतां त्रय-न्यून समयाने छे (उक्कोसेणं जा जरस ठिई सा समयऊणा
कायव्वा, जेसं पुण अत्यिवेउच्चियसरीरं तेषि देसबंधो जहण्णेणं एककं समयं
उक्कोसेण जा जरस ठिई सा समयऊणा कायव्वा) अने उत्कृष्ट (वधारेभा वधारे)
काण जेमनी जेटली आयुष्य स्थिति छे तेना करतां अेक आच्छा समयाने छे
अने जेमने वैक्रिय शरीर डोय छे ते ज्ञेयाना देशबंधाने काण आच्छामां
आच्छे अेक समयाने छे, अने जेमनी जेटली आयुष्यस्थिति छे, तेना करता
अेक आच्छा समयाने उत्कृष्ट देशबंध काण डोय छे

(जाव मणुस्साणं देसबंधे जहण्णेणं एककं समयं, उक्कोसेण तिसिपलि
ओवमाइं समयऊणाइं) यावत् मनुष्येना देशबंध काण आच्छामा आच्छे अेक
समय सुधीना अने वधारेभा वधारे त्रय पल्योपम प्रमाणे करतां अेक-न्यून
समय पर्यन्ताने छे (ओरालियसरीरवंधनरेण भंते ! कालओ केवच्चिरं
होइ ?) छे भदन्त ! औदारिक शरीर भंवतु अतर काणनी अपेक्षाअे डेटलु
डोय छे ? (गोयमा !) छे गौतम ! (सव्ववंधंतरं जहण्णेणं खुड्डागं भव-
ग्गहणं तिसमयऊण उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाइं पुव्वकोटिसमयाहियाइं

उत्कर्षण प्रयत्नित् सागरोपमानि, भिसमपाधिकानि, एकेन्द्रियौदारिकपृष्ठा ?
 गौतम ! सर्वधन्वान्तर जघन्येन क्षुल्लकमवग्रहण भिसमयोनम्, उत्कर्षेण द्वाविंशतिः
 वर्षसहस्राणि समपाधिकानि, देशधन्वान्तर जघन्येन एकं समयम्, उत्कर्षेण
 अन्तमुद्धर्तम्, पृथिवीकायिकैकेन्द्रियपृष्ठा ? गौतम ! सर्वधन्वान्तरं येष एक

ष्णेण एककं समय उक्कोसेणं तेसीस सागरोपमाहं तिसमपाहियाहं)
 सर्वधन का अंतर जघन्य से तीन समय कम क्षुल्लक भवग्रहणपर्यन्त
 है और उत्कृष्ट से एक समय अधिक और पूर्वकोटि अधिक तेतीस
 सागरोपम का है । तथा देशधन का अंतर जघन्य से एक समय का
 और उत्कृष्ट से तीन समय अधिक ३३ सागरोपम का है । (एगिदिय
 ओरालियपुष्ठा) हे भदन्त ! एकेन्द्रिय औदारिक शरीर के धन का
 अन्तर काल की अपेक्षा कितना है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सम्बध
 धन्तरं जहण्णेण सुव्वाग भवग्रहणं तिसमयऊर्णं उक्कोसेणं वावीस वास
 सहस्राहं समपाहियाह, देशधन्तरं जहण्णेण एकक समय उक्कोसेणं
 अतोमुद्धस्त) एकेन्द्रिय के औदारिक शरीर के सर्वधन का अंतर जघन्य
 से तीन समय कम क्षुल्लक भवग्रहणपर्यन्त है और उत्कृष्ट से एक
 समय अधिक २२ हजार वर्ष का है । देशधन का अंतर जघन्य से एक
 समय का है और उत्कृष्ट से एक अन्तमुद्धर्त का है । (पुडविकाह्यएगि
 दिय पुष्ठा) हे भदन्त ! पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय औदारिक शरीर के

सर्वधनं जहण्णेण एक समय उक्कोसेम तेसीस सागरोपमाह तिसमपा
 हियाह) सर्वधन अंतर ओछमा ओछु सुव्वाग भवग्रहणं कर्त्ता त्रय
 ओछे समय पर्यन्तं उ अने वधारेमा वधरे तेतीस सागरोपम कर्त्ता ओक
 पूर्वकोटि अने ओक समय अधिकं उ दाय उ तथा देशधनं अंतर ओछामा
 ओछु ओक समयं अने वधारेमा वधारे उ उ सागरोपम अने त्रय
 समयं दाय उ

(एगिदिय ओरालिय पुष्ठा) हे भदन्त ! एकेन्द्रिय औदारिक शरीर
 धन अंतरकाण्णी अपेक्षाजे हेतुं उ ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सम्बध धनं जहण्णेण सुव्वाग भवग्रहणं
 तिसमयऊर्णं उक्कोसेणं वावीस वाससहस्राहं समपाहियाह, देशधन्तरं
 जहण्णेण एकक समय उक्कोसेणं अतोमुद्धस्त) एकेन्द्रिय के औदारिक शरीर के
 सर्वधन अंतर ओछामा ओछु सुव्वाग भवग्रहणं कर्त्ता त्रय न्यून समय
 पर्यन्तं अने वधारेमा वधारे वावीस सागरोपम अने ओक समय पर्यन्तं
 उ देशधनं अंतर एक धन की अपेक्षाजे ओक समयं अने उत्कृष्टनी अने
 क्षाजे ओक अन्तमुद्धर्त उ (पुडविकाह्यएगिदिय पुष्ठा) हे भदन्त !

न्द्रियस्य तथैव भणितव्यम्, देशबन्धान्तरम् जघन्येन एकं समयम्, उत्कर्षेण त्रयः
समयाः यथा पृथिवीकायिकानाम्, एवं यावत्-चतुरिन्द्रियाणाम्, वायुकाय
वर्जितानाम्, नवरं सर्वबन्धान्तरम् उत्कर्षेण या यस्य स्थितिः सा समयाधिका

बन्धका अन्तर काल की अपेक्षा कितना है? (गोयमा) है गौतम !
पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय के औदारिक शरीर के बंध का अंतर (सर्व-
बंधंतरं जहेव एगिंदियस्स तहेव भाणियब्बं, देसबंधंतरं जहण्णेणं एककं
समयं उक्कोसेणं तिन्नि समया जहा पुढविककाइयाणं) सर्वबंध की
अपेक्षा से जैसा एकेन्द्रिय का सर्वबंध का अंतर कहा गया है वैसा है
और देशबंध का अंतर जघन्य से एक समय का और उत्कृष्ट से तीन
समय का है। जैसा पृथिवीकायिक जीव के औदारिक शरीर बंध का
अंतर कहा गया है उसी तरह से (एवं जाव चउरिंदियाणं वाउक्काइय-
वज्जाणं) यावत् चोइन्द्रिय जीवों तक के औदारिक शरीर बंध का
अन्तर वायुकायिक जीवों के औदारिक शरीर बंध के अन्तर को
छोड़कर जानना चाहिये (नवरं सर्वबंधंतरं उक्कोसेणं जा जस्स-
ठिई सा समयाहिया कायव्वा) पर यहां जो विशेषता है वह ऐसी है
कि यहां सर्वबन्ध का उत्कृष्ट अन्तर जिसकी जितनी आयुष्य स्थिति है
उसे एक समय अधिक करके कहना चाहिये। अर्थात् सर्वबंध का अन्तर

पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रियना औदारिक शरीरना षंधनुं अंतरकाणनी अपेक्षाअे
केटलु छे ?

(गोयमा!) हे गौतम ! पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रियना औदारिक शरीरना
षंधनुं अंतर (सर्वबंधंतरं जहेव एगिंदियस्स तहेव भाणियब्बं, देसबंध-
तरं जहण्णेणं एकक समयं उक्कोसेणं तिन्नि समया जहा पुढविककाइयाणं)
सर्वषंधनी अपेक्षाअे ऐकेन्द्रियना सर्वषंधना अंतर केटलु न् छे अने देश-
षंधनी अपेक्षाअे ते अंतर ओछाभां ओछु अेक समयनुं अने वधारेभां
वधारे त्रषु समयनुं छे. जेनी रीते पृथ्वीकायिक एवेना औदारिक शरीर
षंधनुं अंतर कडेवाभां आव्युं छे, (एवं चेव जाव चउरिंदियाणं वाउक्काइय
वज्जाणं) अेन प्रमाअे चतुरिन्द्रिय पर्यन्तना एवेना औदारिक शरीर षंधनुं
अंतर पषु समयनुं. पषु वायुकायिक एवेना औदारिक शरीर षंधना अंत-
रने ते प्रमाअे समयनुं जेधअे नही. अेटवे के वायुकाय सिवायना एवेना
शरीर षंधना अंतरने न् आ कथन दाशु पडे छे. (नवरं सर्वबंधंतरं
उक्कोसेणं जा जस्स ठिई सा समयाहिया कायव्वा) पषु अही अेटली न्

કર્તવ્ય, વાયુકાયિકાનામ્ સર્વથાન્તરં જવન્યેન ક્ષુલ્લકમવગ્રહણમ્ ત્રિસમયોનમ્
 ઉત્કર્ષણ પ્રીણિ સર્વસહસ્રાણિ સમયાધિકાનિ, દેશથાન્તર મધ્યેન એક સમયમ્
 ઉત્કર્ષણ અતર્ણુર્હૃતમ્, પચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકીદારિકપૃચ્છા ? સર્વથાન્તર જવ-
 ન્યન ક્ષુલ્લકમવગ્રહણમ્, ત્રિસમયોનમ્, ઉત્કર્ષેણ પૂર્વકોટી સમયાધિકા, વેશ

યદા ઉત્કૃષ્ટ સે એક સમયાધિક અપની ૨ આયુસ્થિતિ કે વરાવર હૈ ।
 (ઘાટકાકાઠયાણ સન્વયવંતર જહ્ણનેણ સુદ્ધાગમયગ્રહણં ત્રિસમયઝળં,
 વચ્કોસેણં તિભિવાસસહસ્તાહ સમયાહિયાહ, દેશવંતર જહ્ણનેણં પર્ક
 સમયં ઉચ્કોસેણ અતો મુદ્દુષા) વાયુકાયિક જીવોં કે ઔદારિકશરીર-
 થય કા સર્વથા કા અન્તર જવન્યની અપેક્ષા ત્રીન સમય કમ ક્ષુદ્રમય-
 ગ્રહણપર્યન્ત હૈ, ઔર ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષા એકસમય અધિક ત્રીન હજાર વર્ષ
 કા હૈ । વેશવથ કા અન્તર જવન્ય સે એક સમય કા ઔર ઉત્કૃષ્ટ સે
 એક અન્તર્મુહૂર્ત કા હૈ । (પંચેન્દ્રિયતિરિક્લજોણિય ઓરાલિયપુચ્છા) હૈ
 મદન્ત ! પંચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિક જીવોં કે ઔદારિકશરીરથય કા અન્તર
 કાલ કી અપેક્ષા સે કિનના હૈ ? (સન્વયવંતર જહ્ણનેણં સુદ્ધાગમયગ્ર-
 હણ ત્રિસમયઝળ, વચ્કોસેણં પુષ્કકોટી સમયાહિયા) હૈ ગૌતમ !
 પંચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિક જીવોં કે ઔદારિકશરીર કે સર્વથા કા અન્તર
 જવન્ય સે ત્રીનસમય કમ ક્ષુલ્લકમવગ્રહણપર્યન્ત ઔર ઉત્કૃષ્ટ સે એક

વિશેષતા છે કે અહીં સર્વથાનુ ઉત્કૃષ્ટ (વધારેમાં વધારે) અન્તર એવી
 એટલી આયુષ્ય સ્થિતિ છે તેના કરતાં એક અધિક સમયનુ સમયનુ એટલે
 કે સર્વથાનુ અન્તર અહીં ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ પાતપાતાની આયુસ્થિતિ કરતા
 એક અધિક સમયનુ છે (વાચકાકાઠયાણ સન્વયવંતર જહ્ણનેણં સુદ્ધાગ-
 મયગ્રહણ ત્રિસમયઝળ, વચ્કોસેણ તિભિવાસસહસ્તાહ સમયાહિયાહ વેશવ-
 વંતર જહ્ણનેણ એક સમયં ઉચ્કોસેણં અતોમુદ્દુષા) વાયુકાયિક એવોના
 ઔદારિક શરીરવંધના સર્વથાનુ અન્તર જવન્યની અપેક્ષાએ ક્ષુદ્ર ભવમહત્ત્વ
 કરતા ત્રણ ન્યૂન સમય પર્યન્તનુ અને ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ ત્રણ હજાર વર્ષ
 અને એક સમયનુ છે તેના વેશવથનુ જવન્ય અન્તર એક અન્તર્મુહૂર્ત છે

(પંચેન્દ્રિય તિરિક્લ જોણિય ઓરાલિય પુચ્છા) હૈ ભન્ત ! પંચેન્દ્રિય
 તિર્યગ્યોનિક ઔદારિક શરીર વંધનુ અન્તર ઠાળની અપેક્ષાએ કેટલું છે ?
 (સન્વયવંતર જહ્ણનેણં સુદ્ધાગમયગ્રહણં ત્રિસમયઝળ, વચ્કોસેણ પુષ્કકોટી
 સમયાહિયા) હૈ ગૌતમ ! પંચેન્દ્રિય તિર્યગ્યોનિક એવોના ઔદારિક શરીરના
 સર્વથાનુ અન્તર જવન્યની અપેક્ષાએ ક્ષુલ્લક ભવમહત્ત્વ કરતાં ન્યૂન સમય

बन्धान्तरं यथा एकेन्द्रियाणाम् तथा पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम्, एवं मनुष्याणामपि निरवशेषं भणितव्यम्, यावत्-उत्कर्षेण अन्तर्मुहूर्तम् । जीवस्य खलु भदन्त ! एकेन्द्रियत्वे नो एकेन्द्रियत्वे, पुनरपि एकेन्द्रियत्वे एकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवन्धान्तर कालतः क्रियच्चिरं भवति ? गौतम ! सर्ववन्धान्तरं जघन्येन द्वे क्षुल्लकभवग्रहणे त्रिसमयोने, उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्रे संख्येयवर्षसमभ्यधिके, देश-

समय अधिक पूर्वकोटिप्रमाण है । (देसबंधतरं जहा एगिंदियाणं-तहा पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं) देशबंध का अन्तर जैसा एकेन्द्रिय का कहा गया है उसी प्रकार से समस्त पंचेन्द्रियतिर्यच्चों का जानना चाहिये । (एवं मणुस्साण वि निरवसेसं भाणियच्चं जाव उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं) इसी तरह से मनुष्यों के भी औदारिक शरीर के बंध का-सर्वबंध का और देशबंध का अन्तर जानना चाहिये-यावत् उत्कृष्ट से वह अन्तर्मुहूर्त का है । (जीवस्स णं भंते । एगिंदियत्ते नो एगिंदियत्ते पुणरवि एगिंदियत्ते एगिंदिय ओरालियसरीरप्पओगवंधतरं कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ! कोई एक जीव एकेन्द्रियपर्याय में हो और वाद में वह एकेन्द्रिय सिवाय दूसरी कोई जाति में जावे, पुनः वहां से वह एकेन्द्रियपर्याय में आजावे ता ऐसी अवस्थामें एकेन्द्रिय औदारिकशरीरबंध का अंतर कालकी अपेक्षा कितना होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वबंधतरं जहण्णेणं दो खुड्डां भवग्गहणां तिसमयऊणां, उक्को-

पर्यन्तं अने उत्कृष्टनी अपेक्षाये पूर्वकोटि प्रमाणे कर्तां एक अधिक समयं छे. (देसबंधतरं जहा एगिंदियाणं-तहा पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं) देशबंधतु अंतरं नेवुं एकैन्द्रियं कथं छे, अत्र प्रकारे समस्त पंचेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम् (एवं मणुस्साणं वि, निरवसेसं भाणियच्चं जाव उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं) अत्र प्रमाणे मनुष्याणां पञ्च औदारिक शरीरबंधना सर्वबंध अने देशबंधतु अंतरं समञ्जसं " उत्कृष्टनी अपेक्षाये ते एक अन्तर्मुहूर्तं छे, " त्या सुधीनु समस्तं कथं ग्रहणं कर्तवुं. (जीवस्स णं भंते । एगिंदियत्ते नो एगिंदियत्ते पुणरवि एगिंदिय ओरालियसरीरप्पओगवंधतरं कालओ केवच्चिरं होइ ?) हे भदन्त ! कौन एक एव पडेतां एकैन्द्रिय पर्यायमां डोय, पणु त्थारमाइ ते एकैन्द्रिय सिवायनी कौन भीए पर्यायमां नय, अने इरी त्यांथी एकैन्द्रिय पर्यायमां पाछे आवी नय, तो एवी परिस्थितिमां एकैन्द्रिय औदारिक शरीरबंधतु अंतरं कान्नी अपेक्षाये कटवुं डोय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! सव्वबंधतरं जहण्णेण दो खुड्डां भवग्गहणां तिसमयऊणां,

बन्धान्तर जघन्येन ह्युल्लसकमवग्रहण समयाधिकम्, उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसासे
सख्येयवर्षाभ्यधिके जीरस्य । खलु मदत ! पृथिवीकायिकत्वे नोपृथिवी
कायिकत्वे, पुनरपि पृथिवीकायिकत्वे, पृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरमयोग-
बन्धान्तर कालतः कियन्चिरं भवति ? गौतम ! सर्वबन्धान्तर जघन्येन द्वे ह्युल्लसक

सेणं दो सागरोपमसहस्राह संखेज्जवासमम्भहियाहं) सर्वबन्ध का
अन्तर जघन्य से तीन समय कम दो ह्युल्लसकमवग्रहणपर्यन्त, और
उत्कृष्ट से सख्यात वर्ष अधिक दो हजार सागरोपम का होता है ।
(देखे घन्तर जइण्णेणं खुद्दाग भवगंणं समयाहियं, उक्कोसेणं दो
सागरोपमसहस्राहं संखेज्जवासमम्भहियाहं) तथा देशरूप का अन्तर
जघन्य से एक समय अधिक ह्युल्लसकमवग्रहण, और उत्कृष्ट से सख्यात
वर्ष अधिक दो हजार सागरोपम का होता है । (जीवस्स ण भते !
पुडविकाइयत्ते नो पुडविकाइयत्ते पुणरपि पुडविकाइयत्ते पुडविकाइयत्ते
गिदियं औरालियं सरीरप्पभोगव घन्तरं कालो केवच्चिरं होइ) हे मर्त !
कोई जीव पृथिवीकाय की पर्याय में हो और वाद में वह वहां से मर
कर पृथिवीकाय को छोड़कर अन्य पर्याय में बला जावे और फिर वही
जीव पृथिवीकाय में आकर जन्म धारण करे, तो ऐसी स्थिति में
पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय औदारिक शरीर बन्ध का अन्तर काल की अपेक्षा

उक्कोसेण दो सागरोपमसहस्राह संखेज्जवासमम्भहियाहं) सर्वबन्धनु अन्तर
जघन्येन अपेक्षाये (ज्जात्तामां ज्जात्ता) वे ह्युल्लसक भवग्रहणु कस्तां त्रस
न्तु समय पर्यन्तनु अने उत्कृष्टनी अपेक्षाये (नधारेमां नधारे) वे उन्तर
सागरोपम कस्ता संख्यात अधिक वर्षनु होय ते (देस वपत्तरजइण्णेण
खुद्दाग भवगंणं समयाहियं, उक्कोसेण दो सागरोपमसहस्राह संखेज्जवास
मम्भहियाहं) तथा देशरूपनु अन्तर जघन्येन अपेक्षाये ह्युल्लसक भवग्रहणु
कस्ता जेह अधिक उभयन्तु अने उत्कृष्टनी अपेक्षाये वे उन्तर सागरोपम
कस्ता संख्यात अधिक वर्षनु होय ते ।

(जीवस्स ण भते ! पुडविकाइयत्ते नो पुडविकाइयत्ते पुणरपि पुडविकाइयत्ते
पुडविकाइयत्ते गिदियं औरालियं सरीरप्पभोगव घन्तरं कालो केवच्चिरं होइ !)
हे मर्त ! कोई जीव पृथिवीकाय की पर्याय में हो (त्याज्जात्ता त्वाधी
भरीने ते पृथ्वीकाय सिवांघनी होइ जीए पर्यायमां उत्पत्त माय, अने र्वाधी
भरीने हरीथी ते पृथ्वीकायमां जन्म वे, तो जेवी स्थितिमां पृथ्वीकायिक
एकेन्द्रिय औदारिक शरीरबन्धनु अन्तर कालनी अपेक्षाये कटुं होय ते ।

भवग्रहणे त्रिसमयोने, उत्कर्षे अनन्तं कालम्, अनन्ता उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः कालतः, क्षेत्रतः अनन्ता लोकाः, असंख्येयाः पुद्गलपरावर्ताः, ते खलु पुद्गलपरावर्ताः आवलिकायाः असंख्येयभागः, देशबन्धान्तर जघन्येन क्षुल्लकभवग्रहणं समयाधिकम्, उत्कृष्टेन अनन्तं कालं यावत्-आवलिकायाः असंख्येयभागः, यथा पृथिवीकायिकानाम्, एवं वनस्पतिकायिकवर्जानाम् यावत्-मनुष्याणाम्, वनस्पतिकायिकानां द्वे क्षुल्लके, एवं चैव उत्कृष्टेन असंख्येयं कालम्, असंख्याता

कितना होता है ?। (गोयमा) हे गौतम ! (सर्वबंधतरं जहण्णेणं दो खुड्ढाईं भवगहणाईं, तिसमयऊणाईं उक्कोसेणं अणंतं कालं अणंता उत्सर्पिणीओसर्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा असंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा, ते णं पोग्गलपरियट्टा आवलियाए असंखेज्जइभागो) सर्वबन्ध का अन्तर यहां जघन्य से तीन समय कम दो क्षुल्लकभवग्रहणपर्यन्त है और उत्कृष्ट से काल की अपेक्षा अनन्तकाल-अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणीरूप है, क्षेत्र की अपेक्षा अनन्तलोक-असंख्य पुद्गलपरावर्तरूप है और यह पुद्गलपरावर्त आवलिका के असंख्यातवें भाग प्रमाण जितना है। (देसबंधतरं जहण्णेणं खुड्ढागभवगहणं समयाहियं, उक्कोसेणं अणंतं कालं जाव आवलियाए असंखेज्जइभागो) तथा देशबंध का अंतर जघन्य से समयाधिक क्षुल्लकभव ग्रहण और उत्कृष्ट से अनन्तकाल यावत् आवलिका का असंख्यातवें भाग प्रमाण है। (जहा पुढवि-

(गोयमा!) हे गौतम ! (सर्व बंधतरं जहण्णेणं दो खुड्ढाईं भवगहणाईं, तिसमयऊणाईं, उक्कोसेणं अणंतं कालं अणंता उत्सर्पिणीओसर्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा असंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा, ते णं पोग्गलपरियट्टा आवलियाए असंखेज्जइभागो) अथवा एवमा सर्वबंधतुं अंतरं जघन्यनी अपेक्षाये षे क्षुल्लक लवग्रहणं कर्तानं त्रयं न्यून समयतुं अने उत्कृष्टनी अपेक्षाये अनंतकाल-अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणीरूपं छे, क्षेत्रनी अपेक्षाये अनंतलोक-असंख्य पुद्गल परावर्तरूपं छे अने ते पुद्गल परावर्त आवलिकाना असंख्यातमां लागप्रमाणं नेटला छे (देसबंधतरं जहण्णेणं खुड्ढागभवगहणं समयाहियं, उक्कोसेणं अणंतं कालं जाव आवलियाए असंखेज्जइ भागो) तथा देशबंधतुं अंतरं जघन्यनी अपेक्षाये क्षुल्लक लवग्रहणं कर्तानं अेकं अधिकं समयतुं अने उत्कृष्टनी अपेक्षाये अनंतकाल-यावत् आवलिकाना असंख्यातमां लागप्रमाणं छे. (जहा पुढविककाइयाणं एव वणस्सइकाइयवज्जाणं जाव मणु-

उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः फाल्गुः, क्षेत्रत असख्याता लोका, एव देशवन्धान्तरमपि
उत्कृष्टेन पृथिवीकालः । एतेषां स्वलु भदन्त ! जीवानाम् औदारिकशरीरस्य देश-
धन्वकाना सर्वधकानाम् अवधकानां च कतरे कतरेभ्यो यावत् विशेषाधिका वा !

फकाइयाणं एव घणस्सइ काइयवउजाण जाव मणुस्साणं, घणस्सइकाइ
याणं दोन्नि खुडाई-एय चेष उक्कोसेण असखेज्ज काल, असखेज्जाओ
उत्सर्पिणीओ सपिणीओकालओ खेसओ अमखेज्जा लोका एवं
देसय धंतरंपि उक्कोसेण पुढविकालओ) जैसा पृथिवीकायिकों के सबध
में कहा गया है वसी तरह से धनस्पतिकायिक जीवों के सिवाय वाष्पी
के यावत् मनुष्यतक के जीवों के विषय में भी जानना चाहिये । धन
स्पतिकायिकों के सर्वध का अन्तर जघन्य से काल की अपेक्षा तीन
समय कम दो क्षुल्लकमवप्रमाण और उत्कृष्ट से असख्यातकाल-
असख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रमाण है । तथा क्षेत्र की अपेक्षा
असख्यात लोक प्रमाण है । इसी तरह से देशध का भी अन्तर जघन्य
से समपाधिक क्षुल्लकमवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट से पृथिवीकायिक
का स्थितिकाल (असख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी) तक जानना चाहिये
(एएसि णं अंते ! जीवाण ओराळिय सरीरस्स देसय धगाण सव्वधध
गाण अवधगाण य कयरे कयरेहितो जाव विसेसाहिया वा) है भदन्त !
इन औदारिक शरीर के देशधकों में, सर्वधकों एव अवधकों में कौन

स्साण, घणस्सइकाइयाण दोन्नि खुडाई-एव चेष उक्कोसेण अवधिव्र काल
असखिव्रओ उत्सर्पिणीओसपिणीओ कालओ क्षेत्रओ असखेज्जा लोका-एव
इसवधतरंपि उक्कोसेण पुढविकालओ) जैसा पृथ्वीकायिकों के विषय में ऊपर
आओ है जैसा व धनस्पतिकायिकों के सिवाय मनुष्य पर्यन्त
लोका के विषय में सबध धनस्पतिकायिकों के सर्वध अन्तर काल की
अपेक्षा में लोकाओं को लोकाओं से क्षुल्लक मवग्रहण प्रमाण करता है मनु
धन अने वधारे में वधारे असख्यात काल-असख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी
प्रमाण है तथा क्षेत्र की अपेक्षा में असख्यात लोकप्रमाण है जैसा प्रमाण
देशध अन्तर सबध लोकाओं को लोकाओं से क्षुल्लक मवग्रहण करता है अथि
समय प्रमाण अने वधारे में वधारे पृथ्वीकायिकों के स्थितिकाल प्रमाण (अस
ख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रमाण) है जैसा समस्त वेद (एएसि
ण संते ! जीवाण ओराळियशरीरस्य देसय धगाण सव्वधधगाण अवधगाण य
कयरे कयरे हितो जाव विसेसाहिया वा ?) है भदन्त ! आ औदारिक शरी
रका देशधके अवधके अने अवधके में कौन कौन करता वधारे है,

ગૌતમ !-સર્વસ્તોકા જીવા ઔદારિકશરીરસ્ય સર્વવન્ધકાઃ, અવન્ધકાઃ વિશેષાધિકાઃ, દેશવન્ધકાઃ અસંખ્યેયપશુનાઃ ॥ સૂ૦ ૪ ॥

ટીકા—‘ઓરાલિયસરીરપ્પઓગવંધે ણં મતે ! કિં દેસવંધે ? સવ્વવંધે ?’ હે મદન્ત ! ઔદારિકશરીરપ્રયોગવન્ધઃ સ્વલુ કિં દેશવન્ધો ભવતિ, આહોસ્વિત્ સર્વવન્ધો ભવતિ ? મગવાનાહ—‘ગોયમા ! દેસવંધે વિ, સવ્વવંધે વિ’ હે ગૌતમ ! ઔદારિકશરીરપ્રયોગવન્ધઃ દેશવન્ધોઽપિ ભવતિ, સર્વવન્ધોઽપિ ભવતિ, તત્ર યથા અપૂયઃ ઘૃતાદિસ્નેહપરિપૂરિતતપ્પતાપિકાયામ્ પ્રક્ષિપ્તઃ સન્ પ્રથમસમયે ઘૃતાદિસ્નેહં ગૃહ્ણાત્પેવ, શેષેષુ તુ સમયેષુ ગૃહ્ણાતિ વિસૃજતિ ચ, એવમ્ અયં જીવો યદા પ્રાક્તનં શરીરં વિહાય અન્યદ્

જીવ કિન જીવોં સે યાવત્ વિશેષાધિક હૈં ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (સવ્વત્યોવા જીવા ઓરાલિયસરીરસ્સ સવ્વવ ધગા, અવ ધગા વિસેસાહિયા દેસ વંધગા અસંખેજ્જગુણા ’ સબ સે કમ ઔદારિક શરીરકે સર્વવંધક જીવ હૈં, इनकी अपेक्षा अवंधक जीव विशेषाधिक हૈं और इनकी अपेक्षा देशवन्धक जीव असंख्यात गुणित हૈं ।

ટીકાર્થ—ગૌતમ પૂછતે હૈં—‘ ઓરાલિયસરીરપ્પઓગવંધે ણં મતે ! કિં દેસવંધે, સવ્વવંધે ’ હે મદન્ત ! ઔદારિક શરીરપ્રયોગવંધ દેશવંધ રૂપ હોતા હૈ ? યા સર્વવંધરૂપ હોતા હૈ ? ઇસકે ઉત્તરમૈં પ્રશ્ન કહતે હૈ— ‘ ગોયમા ’ હે ગૌતમ ! ‘ દેસવંધે વિ સવ્વવંધે વિ ’ ઔદારિક શરીરપ્રયોગવંધ દેશવંધરૂપ મી હોતા હૈ, ઓર સર્વવંધરૂપ મી હોતા હૈ । જૈસે પુઆ ઘૃતાદિસે પૂરિત તપી હુઈ કઢાહીમૈં જવ ઢાલા જાતા હૈ તવ વહ પ્રથમ સમયમૈં ચારોં ઓરસે ઘૃતાદિકકો ગ્રહણ હી કરતા હૈ, શેષ સમયોંમૈં

યાવત્ વિશેષાધિક છે ? (ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (સવ્વત્યોવા જીવા ઓરાલિય સરીરસ્સ સવ્વવ ધગા, અવંધગા, વિસેસાહિયા દેસવ ધગા અસંખેજ્જગુણા) ઔદારિક શરીરના સર્વવંધક હોવો સૌથી ઓછાં છે, તેમના કરતા અવંધક હોવો વધારે છે, અને અવંધક કરતાં દેશવંધક હોવો અસંખ્યાતગણા છે

ગૌતમ સ્વામી મહાવીર પ્રશ્નને એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે (ઓરાલિય સરીરપ્પઓગવંધે ણં મતે ! કિં દેસવંધે, સવ્વવંધે ?) હે મદન્ત ! ઔદારિક શરીર પ્રયોગ વંધ દેશવંધ હોય છે કે સર્વવંધ હોય છે ?

મહાવીર પ્રશ્નને ઉત્તર—“ ગોયમા ! દેસવંધે વિ સવ્વવંધે વિ ” હે ગૌતમ ! ઔદારિક શરીર પ્રયોગ વંધ દેશવંધરૂપ પણ હોય છે અને સર્વવંધરૂપ પણ હોય છે જેમકે માલપુઆ, પુરી આદિને ઘી આદિથી પૂરેપૂરી તપ થયેલી તવીમાં જ્યારે નાખવામાં આવે છે, ત્યારે પ્રથમ સમયમા તે તે

સુદ્ધાતિ, તદા પ્રથમસમયે ઉત્પત્તિસ્થાનગતાન્ શરીરપ્રાયોગ્યપુત્રલાન્ સુદ્ધાત્યેવ શ્વેતં પ્રથમસમયાપેક્ષયા સર્વવપ્થ, તતો દ્વિતીયાદિપુ સમયેપુ તાન્ સુદ્ધાતિ, ત્રિસુત્તિ ચેત્યેષ દ્વિતીયાદિસમયાપેક્ષયા દેશવપ્થઃ, તથા ચ એવમૌદારિકસ્ય દેશવન્થોડ્પ્યસ્તિ, સર્વવન્થોડ્પ્યસ્તિ, ઇતિમાથઃ । ગૌતમઃ પૂચ્છતિ—‘એર્ગિદિયમોરાક્રિયસરીરપ્પઓગવપ્થેણ મંતે । કિં દેશવપ્થે, સન્થવપ્થે ?’ હે મદન્ત । એકેન્દ્રિયૌદારિકશરીરપ્રયોગવન્થ’ ત્વલ્લુ કિં દેશવન્થો મથતિ ? કિં યા સર્વવપ્થો મથતિ ? મગલાનાહ—‘એવં વેવ’ હે ગૌતમ ! એવઠ્ઠેવ ઠત્તૌદારિકશરીરપ્રયોગવન્થવદેવ એકેન્દ્રિયૌદારિકશરીર

સસે ગ્રહણ મી કરતા હૈ ઓર ઊઠતા મી હૈ । ઇસી તરહ સે જવ યહ ઝીલ પહિલે શરીર કો ઊઠ કરકે દુસરે શરીર કો ગ્રહણ કરતા હૈ, તથ યહ પ્રથમ સમયમેં ઉત્પત્તિ સ્થાનગત શરીરયોગ્ય પુત્રલોં કો તો કેબલ ગ્રહણ હી કરતા હૈ, ઇસ તરહ પ્રથમ સમય કી અપેક્ષા યહ ઝો ગ્રહણ કરતા હૈ યહ સર્વવપ્થ હૈ । યાદ મેં દ્વિતીયાદિક સમયોં મેં યહ ઠન્હે ગ્રહણ મી કરતા હૈ ઓર ઊઠતા મી હૈ—ઇસ તરહ સે ઝો ગ્રહણ કરના ઓર ઊઠના હૈ યહ દ્વિતીયાદિ સમયોં કી અપેક્ષા દેશવપ્થ હૈ । તથા ચ—ઇસ તરહ સે યહ ઔદારિકકા દેશવપ્થ મી હોતા હૈ ઓર સર્વવપ્થ મી હોતા હૈ । અથ ગૌતમ પ્રશ્નસે એસા પૂછતે હૈ—‘એર્ગિદિય મોરાક્રિય સરીરપ્પઓગવપ્થેણ મંતે । કિં દેશવપ્થે, સન્થવપ્થે’ હે મદન્ત । એકેન્દ્રિય ઔદારિક શરીર પ્રયોગવપ્થ દેશવપ્થ ઠરુપ હોતા હૈ યા સર્વવપ્થરુપ

વી આદિને ગ્રહણ કરે જ છે પણ પછીના સમયોમાં તેને ગ્રહણ કરે છે પણ અર્થ અને ઊંચે છે પણ અર્થ એજ પ્રમણે ત્યારે એવ પહેલા શરીરને ઊંચીને બીજા શરીરને ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે તે પ્રથમ સમયે ઉત્પત્તિ સ્થાનગત શરીરયોગ્ય પુત્રલોને તો અવસ્થા ગ્રહણ કરે જ છે, આ રીતે પ્રથમ સમયની અપેક્ષાએ તે જે ગ્રહણ કરે છે તે સર્વવપ્થરુપ હોય છે ત્યારબાદ દ્વિતીયાદિ સમયોમાં તે તેમને ગ્રહણ પણ કરે છે અને ઊંચે છે પણ અર્થ. આ રીતે જે ગ્રહણ કરવા અને ઊંચવાનુ થાય છે તે દ્વિતીયાદિ સમયની અપેક્ષાએ દેશવપ્થરુપ છે આ રીતે આ ઔદારિકનેા દેશવપ્થ પણ થાય છે અને સર્વવપ્થ પણ થાય છે

હવે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર પ્રશ્નને જોવા પ્રશ્ન પૂછે છે કે—(એર્ગિદિય મોરાક્રિયસરીરપ્પઓગવપ્થેણ મંતે । કિં દેશવપ્થે, સન્થવપ્થે ?) હે મદન્ત । એકેન્દ્રિય ઔદારિક શરીર પ્રયોગવપ્થ શુ દેશવપ્થરુપ હોય છે, કે સર્વવપ્થરુપ હોય છે ?

प्रयोगबन्धोऽपि देशबन्धोऽपि भवति, सर्वबन्धोऽपि भवतीति भावः, 'एवं पुढ्वीका-
इया, एवं जाव' एवमुक्तौदारिकशरीरप्रयोगबन्धवदेव पृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिक-
शरीरप्रयोगबन्धोऽपि देशबन्धोऽपि भवति, सर्वबन्धोऽपि च भवति, एवं तथैव
यावत् अप्कायिक-तेजस्कायिक-वायुकायिक-वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियविकलेन्द्रिय-
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकौदारिकशरीरप्रयोगबन्धा देशबन्धाः अपि भवन्ति, सर्वबन्धाः
अपि भवन्ति, इति भावः । गौतमः पृच्छति—'मणुस्सपंचिंदियओरालियशरीरप्पओ-
बंधेणं भंते ! किं देसबंधे, सव्वबंधे ?' हे भदन्त ! मनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीर-
प्रयोगबन्धः खलु किं देशबन्धो भवति ? सर्वबन्धो वा भवति ? भगवानाह—'गोयमा !

होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—' एवं चेव ' हे गौतम ! औदा-
रिक शरीरप्रयोगबन्धकी तरह से एकेन्द्रिय औदारिक शरीरबन्ध भी
देशबन्ध रूप भी होता है और सर्वबन्धरूप भी होता है । ' एवं पुढ्वि-
काइया एवं जाव ' उक्त औदारिक शरीर प्रयोगबन्ध की तरह ही पृथि-
वीकायिक एकेन्द्रिय औदारिकशरीरप्रयोग बन्ध भी देशबन्धरूप और
सर्वबन्धरूप होता है । इसी तरह से यावत्-अप्कायिक, तेजस्कायिक,
वायुकायिक, वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय तिर्य-
ग्योनिक इन जीवों के भी औदारिक शरीरप्रयोगबन्ध देश बन्धरूप
भी होते हैं, और सर्वबन्धरूप भी होता है । अब गौतमस्वामी
पूछते हैं—' मणुस्सपंचिंदिय ओरालिय शरीरप्पओगबंधेणं भंते ! किं
देसवचे ' हे भदन्त ! मनुष्यपंचेन्द्रिय का जो औदारिकशरीरप्रयोग
बन्ध है वह क्या देशबन्धरूप होता है या सर्वबन्धरूप होता है इसके

महावीर प्रभुने उत्तर—“ एवं चेव ” हे गौतम ! औदारिक शरीर प्रयोग
बन्धनी जेम अकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बन्ध पणु देशबन्ध इप पणु
डोय छे अने सर्वबन्ध इप पणु डोय छे “ एवं पुढ्विक्काइया एवं जाव ”
औदारिक शरीर प्रयोग बन्धनी जेम पृथ्वीकायिक अकेन्द्रिय औदारिक शरीर
प्रयोग बन्ध पणु देशबन्ध इप अने सर्वबन्ध इप डोय छे अणु प्रमाणु
अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक अकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, अने पञ्चेन्द्रिय
तिर्यग्योनिक जिवेना औदारिक शरीर प्रयोगने बन्ध पणु देशबन्ध इप पणु
डोय छे अने सर्वबन्ध इप पणु डोय छे.

गौतम स्वामीने प्रश्न—(मणुस्स पंचिंदिय ओरालिय शरीरप्पओगबन्धेणं
भंते ! किं देसबंधे, सव्वबंधे ?) हे भदन्त ! मनुष्य पञ्चेन्द्रियने जे औदा-
रिक शरीर प्रयोग बन्ध छे, ते शुं देशबन्ध इप डोय छे, के सर्वबन्ध इप डोय छे ?

‘વેસવધે વિ, સન્વવધે વિ’ હે ગૌતમ ! મનુષ્યવચ્ચેન્દ્રિયૌદારિકશરીરપ્રયોગવ્યવસ્થા
 વેશવધોઽપિ મવતિ, સર્વવધોઽપિ મવતિ ગૌતમઃ પૂચ્છતિ ‘ઓરાલિયસરીરપ્રયોગવધે
 ણં મતે ! કાલઓ કેવલચિરં હોઃ ?’ હે મદન્ત ! ઔદારિકશરીરપ્રયોગવધ્ય સ્વ
 કાલત્વ કાલાપેખયા કિવચિરં મવતિ ? મગવાનાહ—‘ગોયમા ! સન્વવધે એક સમય,
 વેસવધ અહળ્ણેણ એક સમય, ઉક્ષોસેણ તિભિ પલિઓવમાહ સમયઙ્ગાહ’ હે
 ગૌતમ ! ઔદારિકશરીરપ્રયોગવધસ્ય સર્વવધ એક સમયં મવતિ, ઉપર્યુક્તાપૂ
 ણ્યાતેનૈવ તત્સર્વવધસ્યેકસમયત્વાત્, તસ્ય વેશવધ્યસ્તુ વધયેન એક સમયં

ઉત્તર મેં પ્રશ્ન કહતે હૈ—‘ગોયમા’ હે ગૌતમ ! ‘વેસવધે વિ, સન્વવધે
 વિ’ મનુષ્ય વચ્ચેન્દ્રિય કા જો ઔદારિક શરીરપ્રયોગવધ હૈ વહ વેશવધ
 રૂપ મી હોતા હૈ ઔર સર્વવધરૂપ મી હોતા હૈ । અવ ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન
 સે વેસા પૂછતે હૈ—‘ઓરાલિય સરીરપ્રયોગવધ ણં મતે ! કાલઓ કેવ
 ચિરં હોઃ’ હે મદન્ત જો ઔદારિક શરીરપ્રયોગવધ હૈ, વહ કાલકી
 અવેક્ષા કયતક રહતા હૈ ? ઉત્તર મેં પ્રશ્ન કહતે હૈ—‘ગોયમા ! સન્વવધે
 એક સમયં, વેસવધે અહળ્ણેણ એક સમય, ઉક્ષોસેણ તિભિ પલિઓવ
 માહ સમયઙ્ગાહ’ હે ગૌતમ ! ઔદારિક શરીરપ્રયોગવધ કા સર્વવધ
 એક સમયતક હોતા હૈ । ઔર વેશવધ અહળ્ણ્ય સે એક સમયતક ઔર
 ઉક્ષુષ્ટ સે એક સમય કમ ત્રીન પર્યોપમ તક હોતા હૈ । તારપર્ય ઇસ
 કા વહ હૈ—જેસે પુષ્પા જવ ઘૂતાદિ સે ખરી હુઈ કઢાહી મેં વકને કે લિયે
 ચાલા જાતા હૈ—તવ વહ પ્રથમ સમય મેં તો કેવલ ઘૂતાદિ કા શોષણ

મહાવીર પ્રશ્નનો ઉત્તર—(ગોયમા ! વેસવધે વિ, સન્વવધે વિ) હે
 ગૌતમ ! મનુષ્ય વચ્ચેન્દ્રિયનો જે ઔદારિક શરીર પ્રયોગ બધ છે તે રેશ
 બધ રૂપ પણ હોય છે અને સર્વબધ રૂપ પણ હોય છે

ગૌતમ સ્વામીનો પ્રશ્ન—(ઓરાલિયસરીરપ્રયોગવધે ણ મતે ! કાલઓ કેવ
 ચિરં હોઃ ?) હે મદન્ત ! જે ઔદારિક શરીર પ્રયોગ બધ છે, તે કાળની
 અવેક્ષાએ કયા સુધી રહે છે ?

મહાવીર પ્રશ્નનો ઉત્તર—(ગોયમા ! સન્વવધે એક સમય, વેસવધે અહ
 ળ્ણેણ એક સમય, ઉક્ષોસેણ તિભિ પલિઓવમાહ સમયઙ્ગાહ) હે ગૌતમ !
 ઔદારિક શરીર પ્રયોગ બધનો સર્વબધ એક સમય સુધી રહે છે અને તેનો
 રેશબધ બોખામાં બોખે એક સમય સુધી અને વધારેમાં વધારે ત્રણ વધારે
 પ્રથમ કરતાં એક ન્યૂન સમય પવન્ત રહે છે આ કમનનો ભાગ્યશૂનીય
 પ્રમાણે છે—જેમ ઉગતા ધી આદિથી ભરેલી ઠંડાદીમાં માટપુખા, પૂરી વજેર
 તાખવામાં આવે ત્યારે પ્રથમ સમયે તે તે ધી આદિનું શોષણ કરે છે,

भवति, तथाहि—यदा वायुर्मनुष्यादिर्वा वैक्रियं कृत्वा परित्यज्य च, पुनरौदारिकस्य एकं समयं सर्वबन्धं कृत्वा पुनस्तस्य देशबन्धं कुर्वन् एकममयानन्तरं त्रियते तदा जघन्येन एकं समयम् अस्य देशबन्धो भवतीति भावः, अथ च उत्कृष्टेन त्रीणि-पल्योपमानि समयोनानि देशबन्धो भवति, तथाहि—औदारिकशरीरिणां त्रीणि-

ही करता है—बाकी के समयों में वह उसका शोषण भी करता है और उसे छोड़ता भी है—इसी तरह प्रथम समय में जीव अपने द्वारा गृहीत पूर्व शरीर को छोड़कर उत्पत्ति स्थानगत शरीरपुद्गलों को ग्रहण ही करता है और शेष समयों में वह उन पुद्गलों को ग्रहण भी करता है और उन्हें छोड़ता भी रहता है—इस तरह से केवल ग्रहण करने का जो एक समयरूप काल है वही सर्वबंध का काल है और ग्रहण करने तथा छोड़नेका जो काल है वह देशबंध का काल है। यह देशबंध का काल जघन्य से तो एक समयरूप है—क्यों कि जब वायुकायिक एकेन्द्रिय जीव या मनुष्य आदि पंचेन्द्रिय जीव वैक्रिय करके और उसे छोड़ करके पुनः औदारिकके केवल एक समय वाछे सर्वबंध को करता है और फिर देशबंध को करता है—इस तरह से करता हुआ वह जब मर जाता है तब वह इसका देशबंध एक समयका जघन्य से होता है। और उत्कृष्ट से जो इसका देशबंध एक समय कम तीन पल्योपम का कहा गया है वह औदारिकशरीर वालों की तीनपल्य की उत्कृष्ट स्थिति

परन्तु आधीना समयोमां ते तेनु शोषणं पणु करे छे अने तेने छोडे पणु छे, अणु प्रमाणे एव प्रथम समये पोताना द्वारा गृहीत पूर्वशरीरने छोडीने उत्पत्ति स्थानगत शरीर पुद्गलोने अडणु न करे छे अने आधीना समयोमां ते (एव) ते पुद्गलोने अडणु पणु करे छे अने छोडे पणु छे आ रीते देवल अडणु करवानो नु अेक समयरूप काण छे, अणु सर्वबंधनो काण छे अने अडणु करवा तथा छोडवानो नु काण छे, ते देशबंधनो काण छे ते देशबंधनो काण नुधन्यनी अपेक्षाअे (अेटले के आंछामां आंछे) अेक समयनो छे—कारणु के न्यारे वायुकायिक अेकेन्द्रिय एव अथवा मनुष्य आदि पंचेन्द्रिय एव वैक्रिय करीने अने तेने छोडीने करी औदारिकना देवल अेक समयवाणो सर्वबंध करे छे अने पछी देशबंध करतो करतो न्यारे ते मरी जाय छे, त्यारे तेना ते देशबंध नुधन्यनी अपेक्षाअे अेक समयनो छेय छे, तेना देशबंधनो उत्कृष्ट काण त्रणु पल्योपम करता अेक न्यून समय प्रमाणु छेडवानुं कारणु नीअे प्रमाणु छे— शरीरवाणानी त्रणु पल्योपमनी उत्कृष्ट

पत्योपमानि उत्कर्षेण स्थितिर्बर्तत, तेषु च प्रथमसमये सर्वबन्धको भवति, अत्र एवोत्कर्षत समयन्यूनानि त्रीणिपत्योपमानि औदारिकशरीरिणां देशबन्धकालो भवतीति माव । गौतम पृच्छति—' एगिंदियओरालियसरीरप्पओगपधेण मंते । कालओ केवच्चिर होइ ? ' हे भदन्त । एकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबन्धः सस कालतः कालापेक्षया कियच्चिर भवति ? मगधानाह—' गोयमा । सन्धये एकं समय देसधये जहन्नेण एक समय उच्चोसेण बावीस वाससहस्साइं समयपणाइं हे गौतम ! एकेन्द्रियौदारिक शरीरप्रयोगबन्धस्य सर्वबन्धः एक समय भवति,

को लेकर कहा गया है, क्यों कि औदारिक शरीर वालों की उत्कृष्टस्थिति तीनपत्योपम की होती है। इसमें जो एक समय कम किया गया है उसका कारण यह है कि जो प्रथम समय में सर्वबंधक ही होता है और सर्वबंध का काल एक समय का है अतः एक समय कम तीनपत्योपम की स्थितिवाला औदारिक शरीर वालों का देशबंधकाल उत्कृष्ट से है—यह बात सच जाती है।

अथ गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(एगिंदिय ओरालिय सरीरप्पओगपधे ण मंते । कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ! एकेन्द्रिय औदारिक शरीरप्रयोगबंध काल की अपेक्षा से कबतक होता है। इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं—' गोयमा ' हे गौतम ! (सन्धये एकं समय देसधये जहन्नेण एकं समय उच्चोसेण बावीस वाससहस्साइं समयपणाइं) एकेन्द्रिय औदारिक शरीरप्रयोग बंध का सर्वबंध एक समयतक होता है और इसका देशबंध जघन्य से एक समयतक और

स्थिति होय छे आ तसु पत्योपमभाषी जेक समय जेओ करवानुं करसु जे छे ते एव प्रथम समयभां सर्वबंधक छे होय छे, अने सर्वबंधने कण जेक समयने छे आ जेक समयनी जसुतरी औदारिक शरीरवाजाना देशबंध कणभां भती नथी तेही औदारिक शरीरवाजा एवेने देशबंध कण उत्कृष्टनी अपेक्षाजे तसु पत्योपम कण करतां जेक न्यून समय प्रमाणु कही छे

गौतम स्वामीने प्रश्न—' एगिंदिय ओरालिय सरीरप्पओगपधे ण मंते । कालओ केवच्चिरं होइ ? ' हे भदन्त ! जेकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंध कणनी अपेक्षाजे क्वां सुधी रहे छे ? उत्तर—' गोयमा ! ' हे गौतम ! (सन्धये एकं समय देसधये जहन्नेण एकं समय उच्चोसेण बावीसवास सहस्साइं समयपणाइं) जेकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंधने सर्वबंध जेक समय सुधीने होय छे अने तेने देशबंध जेओभां जेओ जेक समयने

तस्य देशवन्धस्तु जघन्येन एकं समयं भवति, उत्कृष्टेन तु द्वाविंशतिः वर्षसहस्राणि समयन्यूनानि भवति, तत्र औदारिकशरीरवायुश्च वैक्रियं गतः सन् पुनरौदारिकप्रतिपत्तौ सर्ववन्धको भूत्वा, देशवन्धकश्चैकं समयं भूत्वा मृतः, इत्येवं जघन्येन एकं समयं देशवन्धः, अथ च उत्कर्षेण एकेन्द्रियाणां द्वाविंशतिवर्षसहस्राणि स्थितिः तत्रासौ प्रथमसमये सर्ववन्धकः, शेषेषु समयेषु देशवन्धको भवति, इत्येवं समयन्यूनानि द्वाविंशतिवर्षसहस्राणि उत्कर्षतः एकेन्द्रियाणां देशवन्धकाल इति भावः, गौतमः पृच्छति—‘पृथ्विसाहयएगिदियपुच्छा’ हे भदन्त ! पृथिवीकायिकायिकैके-

उत्कृष्ट से एक समय कम २२ हजार वर्ष तक होता है। इसका तात्पर्य ऐसा है कि कोई औदारिक शरीर वाला जीव या वायुकायिक जीव वैक्रिय करके पुनः औदारिक शरीर की प्रतिपत्ति के समय में एक समय वाले सर्वबंध का कर्त्ता होकर और जघन्य से एक समय वाले देशबंध का कर्त्ता होकर मर जाता है तो ऐसी हालत में वह औदारिक शरीरबंध का जघन्य से एक समय वाले देशबंध को करने वाला है ऐसा माना जाता है—और उत्कृष्ट से जो देशबंध का इसका काल एक समयन्यून २२ हजार वर्ष का कहा गया है वह एकेन्द्रिय जीव की २२ हजार वर्ष की स्थिति को लेकर कहा गया है। क्यों कि एकेन्द्रिय जीव की उत्कृष्ट स्थिति २२ वर्ष की कही गई है। उसमें यह जीव प्रथम समय में सर्वबंधक होता है—शेष समयों में देशबंधक होता है। इस तरह से एकेन्द्रियों का देशबंध का काल उत्कृष्ट से एक समय कम २२

अने वधादेमां वधादे २२००० वर्षं कर्तां एकं न्यून समयेना डोय छे. आ कथनने लावार्थं नीचे प्रमाणे छे—कौं औदारिक शरीरवाणे एव अथवा वायुकायिक एव वैक्रिय करीने पुनः औदारिक शरीरनी प्राप्तिने समये एक समयवाणे सर्वबंध करीने अने जघन्यनी अपेक्षाये देशबंध करीने भरषु पावे तो एवी स्थितिमां ते औदारिक शरीरबंधना जघन्यनी अपेक्षाये एक समयवाणा देशबंधने कर्ता गणुय छे, अने उत्कृष्टनी अपेक्षाये तेना देशबंध काण ने २२ हजार वर्षं कर्तां एकं न्यून समय प्रमाणे कथो छे ते एकैन्द्रिय एवनी २२ हजार वर्षनी स्थितिनी अपेक्षाये कथो छे, कारणे छे एकैन्द्रिय एवनी उत्कृष्ट स्थिति २२ हजार वर्षनी कही छे. ते २२००० वर्षमाना प्रथम समयमां ते एव सर्वबंधक डोय छे, अने पाडीना समयमां देशबंधक डोय छे. आ रीने एकैन्द्रिय एवोना देशबंधने काण उत्कृष्टनी अपेक्षाये (वधादेमा वधादे) २२००० वर्षं कर्तां एकं समय न्यून कडेवामा आव्ये छे

न्द्रियपृच्छा, तथा च पृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबध कालः कि
 यन्धिरं भवतीति प्रश्न, भगवानाह— 'गोयमा ! सन्धयधे एकं समय, देशधे
 जहण्णेण खुइडागमवग्गहण तिसमयऊण, उक्कोसेण पावीस वाससहस्ताईं सम-
 ऊणाईं' हे गौतम ! पृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगबधस्य सर्ववन्धा
 एक समय भवति, तस्य देशबन्धस्तु जघन्यन तिसमयन्पून झुल्लकमवग्गहणधत्तं
 भवति, उक्कूप्तेन तु द्वाविंशतिवर्षैसहस्राणि समयन्यूनानि भवति, तत्र औदारिक
 शरीरिणां जघन्येन झुल्लकमवग्गहण जीवित भवति, तथा चोक्तम्—

“ दोभि सयाईं नियमा, छप्पभाइ पमाणभो हौंति ।

आवलिपमाणेण खुइडागमवग्गहणमेयं ॥ १ ॥

इजार वर्ष का कहा गया है। अथ गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं
 'पुढबिक्काइय एगिंविंय पुच्छा' हे भवन्त ! पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय के
 औदारिक शरीरप्रयोगबध काल की अपेक्षा कितना है ? तो इसके
 उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(गोयमा)—हे गौतम ! (सन्धयधे एक समय,
 देशधे जहण्णेण खुइडागमवग्गहण तिसमयऊण, उक्कोसेण पावीस
 वाससहस्ताईं समयऊणाइ) पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय के औदारिक
 शरीर प्रयोगबध का सर्वबध एक समय तक होता है और इसका
 देशबध जघन्यसे तीन समय कर्म झुल्लकमवग्गहणपर्यंत होता है, और
 उक्कूप्ते से एक समय कम २२ हजार वर्ष तक का होता है। वही
 औदारिक शरीरधारों का जघन्य से झुल्लकमवग्गहण पर्यंत जीवितकाल
 है—सो ही कहा है—(दोभि सयाईं) इत्यादि। इन गाथाओं का तात्पर्य

गौतम स्वामीने प्रश्न—(पुढबिक्काइयएगिंविंय पुच्छा) हे भवन्त ! पृथि-
 विकायिक एकेन्द्रिय औदारिक शरीर बधना काण केउवा डोय छे ?

भदावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (सन्धयधे एक
 समय, देशधे जहण्णेण खुइडागमवग्गहण तिसमयऊण, उक्कोसेण पावीस
 वाससहस्ताईं समयऊणाइ) पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग
 बधना सब बधने काण जेक समबने छे, जने तेना देशबधने काण जेजभा
 जेछे झुल्लक अवधदणु करतां त्रु न्यून समय पधन्तने डोय छे जने
 बधारेभां वधारे काण पावीस डेअर वध करतां जेक न्यून समय पधन्तने
 डोय छे अर्द्ध औदारिक शरीरधाराने अवितकाण जेजभां जेछे झुल्लक
 अवधदणु पर्यन्तने उछो छे जेव वात “ दोभि सयाईं ” इत्यादि गाथाभां
 उडेवाभां आवेक छे ते गाथाजने आवाय नीधे प्रभावे छे—

पणसद्विसहस्राङ्, पंचेव सयाइ तह य छत्तीसा ।

खुड्डागभवग्रहणा इवन्ति अंतोमुहुत्तेणं ॥ २ ॥

सत्तरस भवग्रहणा, खुड्डागा हुंति आणुवाणंमि ।

तेरस चैव सयाइ, पंवाणउयाइं अंसाणं ॥ ३ ॥

छाया— द्वेशते निययात् पट्पञ्चाशत् प्रमाणतो भवन्ति ।

आवलिकाप्रमाणेन क्षुल्लकभवग्रहणमेतत् ॥ १ ॥

पञ्चपष्टिसहस्राणि, पञ्चैव शतानि, तथा च पट्त्रिंशत् ।

क्षुल्लकभवग्रहणानि भवन्ति अन्तर्मुहूर्तेन ॥ २ ॥

सप्तदश भवग्रहणानि, क्षुल्लकानि भवन्ति आनप्राणेषु ।

त्रयोदश चैव शतानि, पञ्चनवतिरंशानाम् ॥ ३ ॥

इत्यादिरीत्योक्तलक्षणस्य (६५५३६) पट्त्रिंशदधिकपञ्चशतोत्तर-पञ्चपष्टि-सहस्रसंख्यकस्य अन्तर्मुहूर्तगतस्य क्षुल्लकभवग्रहणराशे त्रिसप्तत्यधिकसप्तशतोत्तर-त्रिसहस्रलक्षणेन ३७७३, अन्तर्मुहूर्तगतोच्छ्वासराशिना भागे हते सति या लब्धिः सप्तदशरूपा भवति सा एकत्र श्वासोच्छ्वासे क्षुल्लकभवग्रहणपरिमाणं भवति, यो हि अवशेषः (१३९५) पञ्चनवत्यधिकत्रयोदशशतरूपो भवति स अंशराशिः, तथा च

ऐसा है—एक एक मुहूर्त में ६५५३६ पे सठ हजार पांचसो छत्तीस क्षुल्लक भव होते हैं, सूक्ष्मनिगोद के अभिप्राय से, वादरनिगोद प्रत्येक वनस्पति चारस्थावर द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय आदिके क्षुल्लक भवकमशः बड़े बड़े होते हैं। अपनी कायजाती आदि की अपेक्षा से छोटे भव को क्षुल्लक भव समझना चाहिये। और एक एक मुहूर्त में ३७७३ श्वासोच्छ्वास होते हैं। इन ६५५३६ में ३७७३ का भाग देने से जा १३९५ आते हैं यह अंश राशि है और लब्धिरूप जो १७ आते हैं वे एक श्वासोच्छ्वास में क्षुल्लक भवग्रहण का परिमाण हैं। अर्थात् एक

એક મુહૂર્તમાં ૬૫૫૩૬ ક્ષુલ્લક ભવ થાય છે, સૂક્ષ્મ નિગોદની અપેક્ષાએ બાદર નિગોદ, પ્રત્યેક વનસ્પતિ, ચાર સ્થાવર, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય આદિના ક્ષુલ્લક ભવ ક્રમશઃ મોટા મોટા થતા બન્ય છે પોતાની કાય, બાદર નિગોદની અપેક્ષાએ નાના ભવને ક્ષુલ્લક ભવ કહે છે પ્રત્યેક મુહૂર્તમાં ૩૭૭૩ શ્વાસોચ્ચ્વાસ થાય છે. આ ૬૫૫૩૬ ને ૩૭૭૩ વડે ભાગવાથી જે ૧૭ ભાગલા આવે છે, તે એક શ્વાસોચ્ચ્વાસમાં ક્ષુલ્લક ભવગ્રહણનું પરિણામ છે. અને આ ભાગલાકારમાં જે ૧૩૯૫ વધે છે તે અશરાશિ છે એટલે કે એક શ્વાસોચ્ચ્વાસમાં ૧૭ ક્ષુલ્લક ભવ થાય જે અશોના ૩૭૭૩ દ્વારા ૧૭

૩૭૭૩+૬૫૫૩૬=૧૭૩૨૭૩
 પ્રિસપ્ત્યધિકસપ્તશ્વતોષર પ્રિસદ્વૈ સપ્તદશ શુલ્લકમવગ્રહાણિ મવતિ તેવામશ્વતી
 પચ્ચનવત્યધિકપ્રયોદશશ્વતીનિ અષ્ટાદશસ્વાપિ શુલ્લકમવગ્રહણસ્ય તન્ન મવન્તિ, તપ્ર યઃ
 પૃથિવીકાપિક્ષિસમયેન વિગ્રહેનાગતઃ સ તૃતીયસમયે સર્વશન્ધક, શોપેપુ સમ-
 વેપુ દેશશન્ધકો મૃત્વા આશુલ્લકમવગ્રહણ મૃતઃ, મૃતશ્ચ સન્ પ્રવિગ્રહેણ યદ્વા આમત
 સ્તદા સ સર્વશન્ધક એવ મવતીતિ, એવશ્ચ એ તે પ્રયો વિગ્રહસમયાસ્તૈર્ન્યૂન
 શુલ્લકમુચ્યતે તદમિત્રાયેર્ણૌવાહ-વૈશશન્ધો જઘાયેન શુલ્લકમવગ્રહણ પ્રિસમવ-
 ન્યૂનમ્ ઇતિ, ઉત્કૃષ્ટેન તુ દ્વાવિંશતિઃ વર્ષસહસ્રાણિ સમયોનાનિ, તાનિ તુ પૂર્વ પ્રભુ
 પિતાન્વેષેતિ ભાવઃ, 'એવ સર્વેસિ સન્વયયો એકકં સમય દેસવંધો જેસિ ઘેઝશ્વિય-

સ્વાસોચ્છવાસ મેં ૧૭, શુલ્લકમવ થોતે હૈં । જિન અશોં કે ૨૭૭૩
 ઘરા ૧૭ શુલ્લક મવ ગ્રહણ હોતે હૈં ઊન અંશોં કે જો ૧૩૧૫
 હૈં વે ૧૮ વે શુલ્લક મવ કા ગ્રહણ મી ઘઘાં પ્રારભ્ન હો જાતા
 હૈં । જો પૃથિવીકાપિક્ષિ જીવ ઘઘાં તીન ઘાલે મોઢે સે આયા હોતા
 હૈં, ઘહ તૃતીય સમય મેં સર્વય ઘક હૈં, શોષ સમયોં મેં ઘહ દેશવઘક
 હૈં । હસ તરહ દેશવ ઘકહોકર ઘહ શુલ્લક મવગ્રહતક મરતા રહતા
 હૈં જોર મરકર જપ ઘહ અધિગ્રહ સે ઘઘાં આયા હોતા હૈં । તઘ હી
 ઘહ સર્વ ઘઘવાસ હોતા હૈં । હસ તરહ સે જો તીન વિગ્રહ હૈં ઊઘોં
 સે ન્યૂન શુલ્લક મવ કહઘાતા હૈં । હસી અમિત્રાય સે " દેશવઘજઘન્ય
 સે તીન સમય ન્યૂન શુલ્લકમવ ગ્રહણતક હોતા હૈં " એસા કહઘા ગયા
 હૈં । તયા ઉત્કૃષ્ટ સે જો એક સમય કમ ૨૨ હજાર વર્ષ કા કાઠ હસકા
 કહઘા ગયા હૈં ઘહ તો પઘિલે હી સ્પષ્ટ કર દિયા ગયા હૈં ' એવ સર્વેસિ

શુલ્લક ભવગ્રહણુ ઘાય છે તે અશોની શેષ રૂપ ને ૧૩૬૫ છે, તે ૧૮ માં
 શુલ્લક ભવગ્રહણુના પ્રારભરૂપ હોય છે ને પૃથ્વીકાપિક્ષિ છત્ર ત્માં ત્રણવાળા
 મોઢાંથી (જળકિથી) આન્વો હોય છે તે ત્રીજા સમયમાં સર્વભંધક હોય છે,
 અને જાણીના સમયોમાં દેશભંધક હોય છે આ રીતે દેશભંધક થઈને તે
 શુલ્લક ભવગ્રહણુ પર્યાન્ત મરતો રહે છે, અને મરીને આરે તે અવિગ્રહ
 પ્રતિથી ત્માં આન્વો હોય છે ત્યારે જ તે સર્વભંધક હોય છે આ રીતે ને
 ત્રણ વિગ્રહ છે, તેમના કરતાં ન્યૂન શુલ્લક ભવ કહેવાય છે એવ કાશ્ય
 એવુ કહેવામાં આન્વુ છે કે દેશમઘ જઘન્યની અપેક્ષાએ શુલ્લક ભવગ્રહણુ
 કરતાં ત્રણ ન્યૂન સમય પર્યાન્તનો હોય છે તયા ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ ૨૨
 હજાર વર્ષ કરતાં એક ન્યૂન સમય પ્રમાણુ ને કાળ કહ્યો છે તેનું કાશ્ય તે
 આગળ પ્રકટ કરવામાં આન્વુ છે

शरीरं तेषिं जङ्घणेणं खुड्डागं भवग्गहणं तिसमयऊणं, उक्कोसेणं जा जस्स ठिई सा समयऊणा कायव्वा) एवं रीत्या सर्वेषां जीवानां सर्ववन्धः एकं समयं भवति, देशबन्धस्तु येषां वैक्रियशरीरं नास्ति तेषां जघन्येन त्रिसमयन्यूनं क्षुल्लकभवग्रहणपर्यन्तं भवति, उत्कृष्टेन तु या-यावती यस्य स्थितिः-आयुष्यकालो वर्तते सो तस्य समयोना कर्तव्या, एवञ्च अप्तेजोवनस्पतिद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणां जघन्येन त्रिसमयन्यूनक्षुल्लकभवग्रहणपर्यन्तं देशबन्धो भवति, एतेषां हि वैक्रियशरीराभावात्, वैक्रियशरीरे सति तु जघन्येन औदारिकशरीरदेशबन्धः पूर्वोक्तयुक्त्या एकसमयं

सर्ववन्धो एकं समयं देशबन्धो जेषिं नत्थि वेउव्वियशरीरं तेषिं जङ्घणेणं खुड्डागं भवग्गहणं तिसमयऊणं, उक्कोसेणं जा जस्स ठिई सा समयऊणा कायव्वा) इस तरह से सर्व जीवों के सर्ववन्ध एक समय तक होता है और देशबन्ध जिनके वैक्रिय शरीर नहीं है उनके जघन्य से तीन समयन्यून क्षुल्लक भवग्रहण पर्यन्त होता है और उत्कृष्ट से वह जिस जीवका जितना आयुष्यकाल है उसमें से एक समय कम करने पर उतना होता है। इस प्रकार अप्काय, तेजस्काय, वनस्पतिकाय दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चार इन्द्रिय जीवों के देशबन्ध जघन्य से तीन समय कम क्षुल्लकभवग्रहणपर्यन्त होता है। इन जीवों के वैक्रियशरीर नहीं होता है। वैक्रिय शरीरके होने पर तो औदारिक शरीरका देशबन्ध जघन्यसे पूर्वोक्त उक्तिके अनुसार एक समयतक होता है और उत्कृष्टसे अप्कायिक जीवोंके वह सर्ववन्ध के समय से न्यून ७हजार वर्षतक होता है

(एव सव्वेसि सव्ववधो एकं समयं देशबन्धो जेषिं नत्थि वेउव्विय शरीरं तेषिं जङ्घणेणं खुड्डागभवग्गहणं तिसमयऊणं, उक्कोसेणं जा जस्स ठिई सा समयऊणा कायव्वा) आ रीते सवे उव्वेनो सर्ववन्धो एक समय सुधीनो डोय छे, अने जेभने वैक्रिय शरीरने अभाव डोय छे जेवा उव्वेनो देशबन्ध काण जघन्यनी अपेक्षाजे त्रयु समय न्यून क्षुल्लक भवग्रहण पर्यन्तने डोय छे अने उत्कृष्टनी अपेक्षाजे ते उव्वेनो जेटवो आयुष्काण छे ते आयुष्काण करता जेक न्यून समय प्रमाणे डोय छे जेज प्रमाणे अप्काय, तेजस्काय, वनस्पतिकाय, द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय अने चतुरिन्द्रिय उव्वेनो देशबन्ध जघन्यनी अपेक्षाजे त्रयु समय न्यून क्षुल्लक भवग्रहण पर्यन्तने डोय छे, ते उव्वेनो वैक्रिय शरीर डोटुं नथी, वैक्रिय शरीरने अभाव डोय त्पारे तो औदारिक शरीरने देशबन्ध पूर्वोक्त कथन प्रमाणे जघन्यनी अपेक्षाजे जेक समयने अने उत्कृष्टनी अपेक्षाजे अप्कायिक उव्वेनो ते सर्ववन्धना समय

स्यात्, उत्कर्षेण तु अप्कायिकानां सप्तवर्षसहस्राणि स्थितिः तेजस्कायिकानां
 त्रयः अहोरात्राः, वनस्पतिकायिकानां दशवर्षसहस्राणि, द्वीन्द्रियाणां द्वादश वर्षाणि,
 त्रीन्द्रियाणामेकोनपञ्चाशत् अहोरात्रा , चतुरिन्द्रियाणां पणमासाः, अथ एव एतेषाम्
 उत्कृष्टतः सर्वेषु भसमयन्पूनी देशयन्धो मवति, इत्याशय, 'जेसि पुग अरिय वेउ
 वियसरीर तेसि देसवधो जहण्णेण एकक समय, उक्कोसेण जा जस्स ठिई सा
 समऊगा कायन्वा, जाव मणुस्साणं देसबंधे जहण्णेण एकक समयं, उक्कोसेण
 तिन्नि पलिभोवमाई समयऊगाई' येषां पुनर्जीवानाम् अप्पेज्जोवनस्पतिद्वित्रिचतुरि

तेजस्कायिक जीवों के यह एक समय कम तीन अहोरात्र तक होता है,
 वनस्पतिकायिक जीवों के यह एक समय दशहजार वर्षतक होता है,
 द्वीन्द्रिय जीवों के यह एक समयकम १२ वर्षतक होता है, त्रीन्द्रिय जीवों
 के यह एक समय कम ४० दिनराम तक होता है और चौरिन्द्रिय जीवों
 के यह छ मासतक होता है। इसीलिये ऐसा कहा गया है कि जिन
 जीवों के वैकिय शरीर नहीं होता है उनके यह देशवध उत्कृष्ट से एक
 समय कम अपनी २ आयुकाल तक होता है। (जेसि पुग अरिय वेउ
 वियसरीर तेसि देसवधो जहण्णेण एकक समयं, उक्कोसेण जा जस्स
 ठिई सा समयऊगा कायन्वा जाव मणुस्साणं देसबंधे जहण्णेण एकक
 समय, उक्कोसेण तिन्नि पलिभोवमाई समयऊगाई) अप्कायिक, तेज
 स्कायिक, वनस्पतिकायिक, दो इन्द्रिय, ते इन्द्रिय और चौरिन्द्रिय इन

३२५ ७००० वर्ष -यून डोय छे, तेजस्कायिक लोवाभां ते त्रय अहोरात्र
 (शत्रि द्विस्र) ३२५५ जेक समय -यून डोय छे, वनस्पतिकायिक लोवाभां ते
 इस ६४२२५ ३२५५ जेक -यून समय प्रमाखु डोय छे, द्वीन्द्रिय लोवाभां
 ते १२५ ३२५५ जेक -यून समय प्रमाखु डोय छे, त्रीन्द्रिय लोवाभां ते
 ४० दिन राव ३२५५ जेक -यून समय प्रमाखु डोय छे, चने चतुरिन्द्रिय
 लोवाभां ते छ मास ३२५५ जेक -यून समय पर्यन्त डोय छे तेथी न जेउ
 कडेवाभां आण्यु छे के " जे लोवाभां वैकिय शरीर डोतु नथी, ते लोवाभां
 ते देशवध वधारेभां वधारे ते इरेकना आणुआण ३२५५ जेक समय
 -यून डोय छे '

(जेसि पुग अरिय वेउ वियसरीर तेसि देसवधो जहण्णेण एकक समयं,
 उक्कोसेण जा जस्स ठिई सा समयऊगा कायन्वा जाव मणुस्साणं देसबंधे जह
 ण्णेण एकक समय उक्कोसेण तिन्नि पलिभोवमाई समयऊगाई) अप्कायिक,
 द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चने चतुरिन्द्रिय लोवाधी बिल, जेभने वैकिय

ન્દ્રિયભિન્નાનાં વૈક્રિયશરીરમસ્તિ તેષાં દેશબન્ધો જઘન્યેન એકં સમયં ભવતિ, ઉત્કૃષ્ટેન તુ યા યાવતી યસ્ય જીવસ્ય સ્થિતિરાયુષ્કકાલો વર્તતે સા તાવતી સ્થિતિઃ સમયોના સમયન્યૂના કર્તવ્યા, તથા ચ ઔદારિકશરીરિણો વાયવઃ પચ્ચેન્દ્રિય તિર્યચ્ચઃ મનુષ્યાશ્ચ વૈક્રિયશરીરિણઃ સન્તઃ, એતેષાં જઘન્યેન દેશબન્ધ એકં સમયમ્, ઉત્કૃષ્ટેન તુ વાયુનાં ત્રિણિ વર્ષસહસ્રાણિ સ્થિતિઃ, પચ્ચેન્દ્રિયતિરથાં મનુષ્યાણાં ચ પલ્યોપમત્રયમ્, એવ ચોત્કર્ષેણ એતેષાં દેશબન્ધસ્થિતિઃ સર્વબન્ધસમયન્યૂના ભવતીતિ વોધ્યમ્, ઉક્તાતિદેશેનમનુષ્યાણાં દેશબન્ધસ્થિતે લંબ્યત્વેઽપિ તેષામન્તિમતયા

જીવોં સે ભિન્ન જિન જીવોં કે વૈક્રિય શરીર હોતા હૈ અનેક ઔદારિક શરીર કા દેશબંધ જઘન્ય સે એક સમયતક હોતા હૈ ઔર ઉત્કૃષ્ટ સે જિતની જિસ જીવ કી સ્થિતિ હૈ ઉસમેં સે એક સમય કમ ઉતની સ્થિતિતક હોતા હૈ । હસ તરહ સે ઔદારિક શરીર વાલે જીવોં કે તથા વૈક્રિયશરીર વાલે વાયુ, પચ્ચેન્દ્રિયતિર્યચ ઔર મનુષ્યોં કે-ઔદારિક શરીર કા દેશબંધ જઘન્ય સે એક સમયતક હોતા હૈ ઔર ઉત્કૃષ્ટ સે વાયુકાયિક કે એક સમય કમ ત્રીનહજાર વર્ષ તક, પંચેન્દ્રિયતિર્યચ ઔર મનુષ્યોં કે એક સમય કમ ત્રીનપલ્યોપમતક હોતા હૈ । ક્યોં કિ વાયુકાયિક જીવોં કી ઉત્કૃષ્ટસ્થિતિ ત્રીન હજાર વર્ષ કી ઔર પંચેન્દ્રિયતિર્યચોં ઔર મનુષ્યોં કી ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રીનપલ્યોપમ કી હૈ । સો હસ અપની ૨ સ્થિતિ મેં સે સર્વબંધ કે કાલ કા એક સમય કમ કર દેને સે ઔદારિક શરીર કે દેશબંધ કા ઉત્કૃષ્ટ સમય હોતા હૈ । યથપિ હસ

શરીર હોય છે એવા જીવોના ઔદારિક શરીરનો દેશબંધ જઘન્યની અપેક્ષાએ એક સમયનો અને ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ જે જીવની જેટલી આયુષ્યસ્થિતિ હોય તેના કરતાં એક ન્યૂન સમય-પ્રમાણ હોય છે. આ રીતે ઔદારિક શરીરવાળા જીવોના તથા વૈક્રિય શરીરવાળા વાયુ, પચ્ચેન્દ્રિય તિર્યચ અને મનુષ્યના ઔદારિક શરીરનો દેશબંધ જઘન્યની અપેક્ષાએ એક સમયનો હોય છે, અને ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ વાયુકાયિકનો દેશબંધ ત્રણ હજાર વર્ષ કરતાં એક ન્યૂન સમય પ્રમાણ, અને પચ્ચેન્દ્રિય તિર્યચ અને મનુષ્યનો દેશબંધ ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ ત્રણ પલ્યોપમ કરતાં એક ન્યૂન સમય પ્રમાણ હોય છે કારણ કે વાયુકાયિકોની ઉત્કૃષ્ટ આયુસ્થિતિ ત્રણ હજાર વર્ષની છે અને પચ્ચેન્દ્રિય તિર્યચો અને મનુષ્યોની ઉત્કૃષ્ટ આયુસ્થિતિ ત્રણ પલ્યોપમની છે. તે દરેકની આયુસ્થિતિમાથી સર્વબંધ કાળનો એક સમય ઘાટ કરવાથી ઔદારિક શરીરનો દેશબંધનો ઉત્કૃષ્ટ સમય પ્રાપ્ત થાય છે. જો કે આ કથન દ્વારા મનુષ્યોના

साक्षादेव वामाह—यावत् मनुष्याणामित्यादि, तथा च यावत्कृणात् वायूनां पठवेन्द्रियतिरस्त्रां मनुष्याणां च देशप्रभो जघन्येन एकं समयं भवति, उत्कृष्टेन वायूनां प्रीणि वर्षसहस्राणि, पञ्चेन्द्रियतिरस्त्रा मनुष्याणां च सर्वेषु समयोनानि प्रीणिपत्न्योपमानि देशबन्धो भवतीति भावः, उक्तरीत्या औदारिकशरीरप्रयोगव्यस्य कालं प्ररूप्य यद्य तस्यैवान्तरं प्ररूपयित्वाह—“ओराखियसरीरप्यभोगवर्धतरे ण भंते । कालभो केवन्चिरं होइ ?” गौतमः पृच्छति हे भद्रन्त । औदारिकशरीरप्रयोग

कथन से मनुष्यों के औदारिक शरीर के देशव्यय की स्थिति लभ्य हो जाती है फिर श्रीजो सूत्रकार ने उसे “यावत् मनुष्याणाम्” ऐसा कहकर प्रकट किया है उसका कारण उनका अन्तिम कथन है। यहाँ “यावत्” पद से यही प्रकट की गई है कि वायुकायिकों के, पचेन्द्रियतिर्यञ्चों के और मनुष्यों के औदारिक शरीर का देशव्यय जघन्य से एक समय तक होता है और उत्कृष्ट से वह वायुकायिक जीवों के एक समयकम तीन हजार वर्षतक और पचेन्द्रियतिर्यञ्चों के तथा मनुष्यों के एक समयकम तीनपत्न्योपमतक होता है। उक्तरीति से औदारिक शरीरप्रयोगव्यय के काल की प्ररूपणा करके भय सूत्रकार उसके अन्तर की प्ररूपणा करते हैं—(ओराखिय सरीरप्यभोगवर्धतरे ण भंते । कालभो केवन्चिरं होइ) इसमें गौतम प्रश्न से ऐसा पूछ रहे हैं कि हे भद्रन्त । औदारिक शरीर प्रयोगव्यय का अन्तर काल की अपेक्षा कियने कालतक रहता है ? अन्तर

औदारिक शरीरव्यय देशव्यय की स्थिति प्रकट वर्ष लभ्य है, अर्थात् पञ्च सूत्रकार ने “यावत् मनुष्याणाम्” का प्रमाण देकर प्रकट करी है, तेनं कारण तेमनुं अन्तिम कथन है अर्थात् “यावत्” पदभी अत्र बात प्रकट करवाया जावी है के वायुकायिकों, पचेन्द्रिय तिर्यञ्चों अने मनुष्यों का औदारिक शरीर का देशव्यय का जघन्यव्यय अपेक्षाके अत्र समयने होय है, अने प्रीणि पदनी अपेक्षाके ते वायुकायिक लोकोमां ३००० वर्षं कर्ता अत्र अत्र समयने अने पचेन्द्रिय तिर्यञ्चों तथा मनुष्योंमां तत्र पत्न्योपमत कर्ता अत्र अत्र समयने होय है आ रीते औदारिक शरीर प्रयोग व्यय का जनुं निरूपण करीने दवे सूत्रकार तेना अन्तरनी प्ररूपणा करे है—

गौतम स्वामीने प्रश्न—“ओराखियसरीरप्यभोगवर्धतरे ण भंते । कालभो केवन्चिरं होइ ?” के अन्तर । औदारिक शरीर प्रयोग व्यय अन्तर का जनी अपेक्षाके काल का जनुं रवे है ? अन्तर अन्तरे विरह्यात्

बन्धान्तरं खलु कालतः कालापेक्षया क्रियच्चिरं भवति ? भगवानाह—‘गोयमा !
सर्ववधन्तरं जहण्णेणं खुद्धानं भवग्रहणं तिसमयऊणं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरो-
वमाइं पुव्वकोडीसमयाहियाइं’ हे गौतम ! औदारिकशरीरस्य सर्ववन्धान्तरं
जघन्येन तिसमयन्यूनं क्षुल्लकं भवग्रहणं भवति, उत्कृष्टेन तु त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमानि
पूर्वकोटी समयधिकानि सर्ववन्धान्तरं भवति, तत्र कथं तावत् जघन्येन सर्ववन्धा-
न्तरं तिसमयोनें क्षुल्लकभवग्रहणपर्यन्तं भवति ? इति चेदत्रोच्यते—तिसमयविग्र-
हेणौदारिकशरीरिषु आगतस्तत्र द्वौ समयौ अनाहारकस्तृतीयसमये सर्ववन्धकः

का मतलब विरहकाल से है औदारिक शरीर को एक बार ग्रहण करके
पुनः अन्य शरीर को ग्रहण करने के बाद उस औदारिक शरीर को
ग्रहण करने में जो काल का व्यवधान पड़ता है—उसका नाम विरहकाल
है। इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (सर्ववधन्तरं
जहण्णेणं खुद्धानं भवग्रहणं तिसमयऊणं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरो-
वमाइं पुव्वकोडिसमयाहियाइं) औदारिक शरीर के सर्ववध का अंतर
जघन्य से तीन समयक्रम क्षुल्लक भवग्रहणतक है, और उत्कृष्ट से
पूर्वकोटि समयधिक ३३ सागरोपम तक का है। यदि कोई यहाँ पर
ऐसा प्रश्न करे कि जघन्य से औदारिक शरीर के सर्ववध का अन्तर
तीन समय कम क्षुल्लकभवग्रहणपर्यन्त कैसे है ? तो इसका उत्तर ऐसा
है कि—कोई एक जीव तीन समय वाले विग्रह—माडे के द्वारा औदारिक
शरीर वालों में उत्पन्न हुआ वहाँ वह दो समय तक अनाहारक रहा

औदारिक शरीरने अेकवार अडणु करीने, त्थारमाड णीम शरीरने अडणु कर्या
पछी औदारिक शरीरने अडणु करवाभां अे ढाणतु अंतर (आंतरो) पडे अे,
ते ढाणतुं नाम विरहडाण अे.

भडावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” अे गौतम ! “ सर्व वधन्तरं
जहण्णेणं खुद्धानं भवग्रहणं तिसमयऊणं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं पुव्व-
कोडिसमयाहियाइं ” औदारिक शरीरना सर्ववधन्तु अंतर (विरहडाण)
जघन्यनी अपेक्षाअे क्षुल्लकभव अडणु करतां त्रणु समयन्यून समय पर्यन्तनुं
अे अने उत्कृष्टनी अपेक्षाअे उउ सागरोपम करता पूर्वकोटि अने अेक समय
आधक पर्यन्तनु अे

औदारिक शरीरना सर्ववधन्तु अंतर जघन्यनी अपेक्षाअे क्षुल्लक भव-
अडणु करतां त्रणु समय प्रमाणु न्यून कडेवातु कारणु नीअे प्रमाणु अे—

धारो अे ढेअे अेक अेव त्रणु समयवाणा विरह—माडा द्वारा औदारिक
शरीर वाणाअेभा उत्पन्न थयो अे. त्यां ते अे समय सुधी अनाहारक रथो

હુલ્લકમવં વ સ્થિત્વા મૃતઃ સન્ ઔદારિકશરીરિષ્વેત્રોત્પન્નઃ તપ્ર પ્રથમસમયે સર્વ-
વન્ધકો ભવતિ, તથા વ સર્વવન્ધસ્પાન્તર હુલ્લકમવો વિગ્રહગતસમયપ્રયન્યુનો ભવતિ,
ર્ષવં ક્વ સાષત્ પૂર્વકોટી સમયામ્પષિકા પ્રયશ્ચિશત્ સાગરોપમાનિ ઉત્કૃષ્ટેન
સર્વવન્ધાત્તર ભવતિ, ઇતિ વેદમ્નોચ્યતે-મનુષ્યાદિષુ અત્રિગ્રહેણ આગત, તપ્ર વ
પ્રથમસમયે ઇવ સર્વવન્ધકોમૃત્વા પૂર્વકોટિ વ સ્થિત્વા પ્રયશ્ચિશત્ સાગરોપમસ્તિ-
તિકો નૈરષિકઃ સર્વાર્થસિદ્ધકા વા મૃત્વા ત્રિસમયેન વિગ્રહેષ્ઠ ઔદારિકશરીરી
સમ્પન્ન, તપ્ર વિગ્રહસ્ય દ્વી સમયો અનાદારકસ્તૃતીયે વ સમયે સર્વવન્ધકઃ ઔદારિક-

ઔર તૃતીય સમય મેં ઇસને ઔદારિક શરીર કા સર્વવન્ધ ક્રિયા ઔર
હુલ્લકમવતક વહ વહાં રહા-યાદ્ મેં વહ વહાં સે મરા ઔર મર કર
ઔદારિક શરીર વાલોં મેં હી ઉત્પન્ન હુમા વહાં વહ પ્રથમ સમય મેં
સર્વવન્ધક હુઆ ઇસ તરહ સર્વવન્ધક કા અન્તરરૂપ હુલ્લકમવ ત્રીન સમય
સે ન્યૂન હોતા હૈ। યદિ પુન કોઈ ઇસી આદાંકા કરે કિ પૂર્વકોટિ સમ-
યાષિક ૨૩ સાગરોપમપ્રમાણ સર્વવન્ધક કા અન્તર કૈસે હોતા હૈ? તો
ઇમકા વક્તર ઇસા હૈ કિ કોઈ ઇક જીવ મનુષ્યાદિ પર્યાયોં મેં બિના
મોઢે કે બાકર ઉત્પન્ન હો ગયા-વહ વહાં પ્રથમ સમયમેં હી સર્વવન્ધક
બના ઔર સર્વવન્ધક યનકર વહ વહાં ઇક પૂર્વકોટિતક રહા-યાવમેં વહાં
સે મરકર તેત્રીસ માગરોપમપ્રમાણ સ્થિતિવાલા સસમનરક કા નારક
હુઆ યા સર્વાર્થસિદ્ધ કા અહમિન્દ્ર દેવ હુઆ-ફિર વહ વહા સે વ્યુત
હોકર ત્રીન સમયવાલે વિગ્રહ સે પુનઃ ઔદારિક શરીર ખારી હુમા-વહાં

અને ત્રીજે સમયે તેણે ઔદારિક શરીરને સર્વવન્ધ કર્યો અને હુલ્લકમવ
મુખી તે ત્યાં રહ્યો. ત્યારબાદ ત્યાંથી મરીને તે ઔદારિક શરીરવાળાઓમાં
ઉત્પન્ન થઈ ગયો. ત્યાં તે પ્રથમ સમયમાં સર્વવન્ધક થયેલ. આ રીતે સર્વ
વન્ધના અંતર ૩૫ હુલ્લકમવ ત્રણ સમય પ્રમાણ ન્યૂન થાય છે.

સર્વવન્ધનું ઉત્કૃષ્ટ અંતર ૩૩ સાગરોપમ કરતાં પૂર્વકોટિ સમયાષિક
કેવી રીતે થાય છે તે સૂત્રકારે નીચે બતાવ્યું છે—

કોઈ એક જીવ મનુષ્ય આદિ પર્ણિયામાં અવિશ્વદ અતિથી (મોઢા વિત્યો)
આવીને ઉત્પન્ન થઈ ગયો છે તે ત્યાં પ્રથમ સમયમાં સર્વવન્ધક બન્યો
અને સર્વવન્ધક બનીને તે ત્યાં પૂર્વકોટિ ઠાગ પશન્ત રહ્યો. ત્યારબાદ ત્યાંથી
મરીને તે તેત્રીસ સાગરોપમ પ્રમાણ સ્થિતિવાળો સાતમી નરકને નારક થયો
અથવા તો સર્વાર્થસિદ્ધને અહમિન્દ્ર દેવ થયો. પછી તે ત્યાંથી અવીને ત્રણ
સમયવાળા વિશ્વદથી પુનઃ ઔદારિક શરીરધારી થયો-અહીં વિશ્વદના બે સમય

शरीरस्यैव च यौ तौ द्वौ अनाहारसमयौ तयोरेकः पूर्वकोटीसर्वबन्धसमयस्थाने क्षिप्तस्ततश्च पूर्णा पूर्वकोटी जाता, एकश्च समयोऽतिरिक्तः, एवञ्च सर्वबन्धस्य सर्वबन्धस्य चोत्कर्षेणान्तरं पूर्वोक्ता पूर्वकोटी समयधिक त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि च भवति इति भावः । 'देसबन्धंतरं जहण्णेणं एक्कं समय उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं तिसमयाहियाइं' औदारिकशरीरस्य देशबन्धान्तरं जघन्येन एकं समयं भवति, उत्कृष्टेन तु त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि त्रिसमयाधिकानि भवति, तथा हि—देशबन्धको मृतः सन् अविग्रहेणैव उत्पन्नः, तत्र च प्रथमसमये एव सर्वबन्धको भवति, द्वितीयादिषु च समयेषु देशबन्धकः सम्पन्नः, तदेवं देशबन्धस्य देशबन्धस्य

विग्रह के दो समय तक वह अनाहारक रहा—और तृतीय समय में वह औदारिक शरीर का सर्वबंधक बना । औदारिक शरीर के ही जो वे दो अनाहार के समय हैं उनमें से एक समय सर्वबंध के समयरूप पूर्वकोटि के स्थान में डाल देने पर औदारिक शरीर के सर्वबंध, सर्वबंध का उत्कृष्ट से अन्तर एक समय अधिक एककोटिपूर्व युक्त ३३ सागरोपम का हो जाता है । (देसबंधंतरं जहण्णेणं एक्कं समयं उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोगमाइं तिसमयाहियाइं) औदारिक शरीर के देशबंध का अन्तर जघन्य से एक समय का होता है और उत्कृष्ट से तीन समय अधिक ३३ सागरोपम का होता है—यह इस तरह से होता है—कोई औदारिक शरीर का देशबंधक जीव मरा—और मर कर अविग्रहगति से ही वह उत्पन्न हुआ—वह वहां प्रथम समय में ही सर्वबंधक हो गया और द्वितीयादि समयों में वह देशबंधक हुआ—इस तरह से देशबंध देशबंध

सुधी ते अनाहारक रह्यो अने त्रीजे समये ते औदारिक शरीरने सर्वबंधक बन्यो. औदारिक शरीरना जे ते जे अनाहारना समय छे, तेमांथी अेक समय सर्वबंधना समयरूप पूर्व कोटिना स्थानमां नाणी देवाथी औदारिक शरीरने सर्वबंध उत्कृष्टनी अपेक्षाअे उउ सागरोपम प्रमाणु काण करता अेक पूर्व कोटि अने अेक समय प्रमाणु थथ न्य छे “देसबन्धंतरं जहण्णेणं एक्कं समय, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाइं तिसमयाहियाइं” औदारिक शरीरना देशबंधनु अंतर जघन्यनी अपेक्षाअे अेक समयनुं डाय छे अने उत्कृष्टनी अपेक्षाअे उउ सागरोपम करतां त्रयु अधिक समयनुं छे. आ कथनुं स्पष्टी-करणु नीअे प्रमाणु छे—

कोई अेक औदारिक शरीरने देशबंधक एव मरीने अविग्रह गतिथी उत्पन्न थतो डाय त्यारे ते त्या प्रथम समये तो सर्वबंधक बन्यो रह्यो छे पणु द्वितीय आदि समयोमा ते

चान्तर जययेन एकः समयो भवति सर्वेष्वसम्बन्धीति तात्पर्यम् एवं देशबन्धको-
 मृतः उत्पन्नश्च प्रयस्त्रिभुत्सागरोपमायुःसर्वार्थसिद्धादी, ततश्च च्युत्वा त्रिसमयेन
 विग्रहेण औदारिकशरीरी सम्पन्नः, तत्र च विग्रहस्य समयद्वयऽनाहारकस्त्वृत्तये च
 समये सर्वबन्धक ततो देशबन्धको ज्ञात, एवञ्च देशबन्धस्य शोक्त-
 र्पेण अन्तरं त्रिसमयाधिकानि प्रयस्त्रिभुत्सागरोपमाणि भवतीति भावः, उक्त
 रीत्यौदारिकशरीरबन्धस्य सामान्यतोऽन्तरस्युक्त्वाऽथ विशेषतस्तस्य तदाह-
 'एगिदियभोरालिय० पुच्छा' गौतम पृच्छति-हे मद्भन्त ! एकेन्द्रियोदारिक० पुच्छा
 तथा च एकेन्द्रियोदारिकशरीरबन्धचान्तर कालतः कियच्छिर भवतीति प्रश्नाः

का अन्तर जघन्य से एक समय का होता है इसी तरह से कोई देश
 बन्धक जीव मरा और ३३ सागरोपमप्रमाण घाले सर्वार्थसिद्ध आदि
 स्थानों में देश आदि की पर्याय से वह उत्पन्न हो गया वहाँ की आयु
 स्थिति समाप्त कर फिर वह वहाँ से च्युत हुआ और तीन समय युक्त
 मोड़ेवाली गति से वह औदारिक शरीर बाला हुआ वह विग्रह के दो
 समयों में अनाहारक रहा और तृतीय समय में वह सर्वार्थक हो गया
 पौद में देशबन्धक बन गया। इस तरह देशबन्ध देशबन्ध का उत्कृष्ट
 अन्तर-अन्तराल तीन समय अधिक ३३ सागरोपम का जाता है।
 उक्तरीति के अनुसार औदारिक शरीर बन्ध का सामान्य से अन्तराल
 प्ररूपित करके अथ सूत्रकार इसी अन्तराल को विशेषरूप से कहते हैं
 -इसमें गौतम ने प्रश्न से ऐसा पूछा है- (एगिदिय भोरालिय पुच्छा)

(ज्योत्सनां ज्योत्सु) अन्तर ज्येक समयेन ज्ञेयं च ज्येक प्रमाणे ज्ञेयं देश
 बन्धक एव भवत्यु पर्यायिने उक्त सागरोपम प्रमाणवाला सर्वार्थसिद्ध आदि
 स्थानोत्तमं देव आदिनी पर्यायिना उत्पन्नं यथै ज्ये, पञ्च त्वांती ज्योत्सुस्थिति
 समाप्त करिने ते त्वांती ज्योत्सुने त्रयु समभयुक्त पञ्चमतिथी ते औदा-
 रिक् शरीरवाजो ज्ये विग्रहना जे समभोमां ते ज्योत्सुकारक रथं जने त्रीन्व
 समभोमां ते सर्वार्थक यथै ज्ये जने त्वांती ज्ये देशबन्धक यथै ज्ये, आ
 रीते ते ज ने देशबन्धुं उत्कृष्ट अन्तर उक्त सागरोपमं करवां त्रयु ज्ये
 समय प्रमाण ज्योत्सु ज्ये ज्ये आ रीते औदारिक शरीर बन्धुं सामान्यतः
 अन्तर (अन्तराल) प्ररूपित करिने ज्ये सूत्रकार ज्ये अन्तरु विशेषरूपे
 प्रतिपादन करे ज्ये-

गौतम स्वामी महावीर प्रभुने ज्ये प्रश्न पूछे ज्ये " एगिदिय भोर-
 लिय पुच्छा " ज्ये मद्भन्त ! ज्येकेन्द्रिय एतना औदारिक शरीरना ज्ये अन्तर
 कालनी ज्ये ज्ये ज्ये ज्ये ?

भंगवानाह—' गोयमा । सव्ववधंतरं जहण्णेणं खुइडागं भवग्गहणं तिसमयऊणं, उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साइं समयाहियाइं ' हे गौतम ! एकेन्द्रियौदारिक-शरीरस्य सर्ववन्धान्तरं जघन्येन क्षुल्लकं भवग्रहणं तिसमयन्यूनं भवति उत्कृष्टेन द्वाविंशतिः वर्षसहस्राणि समयाधिकानि तस्य सर्ववन्धान्तरं भवति, तथा च तिसमयेन विग्रहेण पृथिव्यादिषु आगतः, तत्र च विग्रहस्य समयद्वयमनाहारकस्तृ-तीये च समये सर्ववन्धकस्तत्तद्विषमयोर्न क्षुल्लकं भवग्रहणं स्थित्वा मृतः अविग्रहेण च यदोत्पद्य सर्ववन्धक एव भवति तदा एकेन्द्रियौदारिकशरीरस्य सर्ववन्धस्य चान्तरं जघन्येन तिसमयोर्न क्षुल्लकभवग्रहणपर्यन्तं भवति, एवम् अविग्रहेण

भदन्त ! एकेन्द्रिय जीव के औदारिक शरीर बंध का अन्तर काल की अपेक्षा कितना है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! (सव्ववंधंतरं जहण्णेणं खुइडागं भवग्गहणं तिसमयऊणं, उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साइं समयाहियाइं) एकेन्द्रिय औदारिक शरीर का सर्वबंधान्तर जघन्य से तो तिसमयन्यून क्षुल्लकभवग्रहणरूप है और उत्कृष्ट से वह समयाधिक २२ हजार वर्ष का है। यह इस तरह से होता है—कोई जीव तीन समयवाली विग्रहगति से पृथिव्यादिकों में उत्पन्न हुआ—विग्रह के दो समयतक वहां अनाहारक रहा और तृतीय समय में वह सर्वबंधक हुआ—इसके बाद वह तीन समय कम क्षुल्लक भवतक वहां रहकर मरा, और मर कर अविग्रहगति से विना मोड़े वाली गति से—वह जब उत्पन्न होकर सर्वबंधक ही होता है, तब एकेन्द्रिय औदारिक

भडावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा । ” हे गौतम ! (सव्ववंधंतरं जह-ण्णेणं खुइडाग भवग्गहणं तिसमयऊणं, उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साइं समयाहियाइं) एकेन्द्रिय औदारिक शरीरतुं सर्वबंधान्तरं जघन्येन अपेक्षाये क्षुल्लकं लवग्रहणं कर्तां त्रयु न्यून समय प्रमाणे छे अने उत्कृष्टेन अपेक्षाये २२ हजार वर्षं कर्तां एक अधिक समय प्रमाणे छे, तेतुं स्पष्टीकरणं नीचे प्रमाणे कर्वाभां आयुं छे—कैथं एव त्रयु समयवाणी विशदगतिथी पृथ्वीकाय आदि एकेन्द्रिय एवोभां उत्पन्न थये छे ते विशदना ये समय सुधी त्यां अनाहारक रह्यो अने त्रीजे समये सर्वबंधक थये। त्यारणाद क्षुल्लकं लव कर्तां त्रयु आछा समय पर्यन्त ते त्या रह्योने भरषु पाभ्ये, अने भर्योने अविग्रह गतिथी—सोड विनानी गतिथी उत्पन्न थयेने न्यारे ते सर्वबंधक ज होय छे, त्यारे एकेन्द्रिय औदारिक शरीरना पूर्वात्ता सर्वबंध अने डरेना सर्वबंधतुं अन्तरं—ये सर्वबंधो वर्येतुं अन्तरं—(अन्तराल) जघन्यनी

पृथिवीकायिकेषु भागत् प्रथमे एव समये सर्वव्यवहस्ततो द्वाविंशति वर्षसहस्राणि
समपोनानि स्थित्वा त्रिसमयया विप्रहृगत्या अन्येषु पृथिव्यादिपूतपदाः, तत्र च
समयद्वयमनाहारको भूत्वा तृतीयसमये सर्वव्यवहस्त सम्पन्न, अनाहारकसमयद्वयात्
वैकः समयः समयोनेषु द्वाविंशतिवर्षसहस्रेषु उत्पूरणाय क्षित, तत्र च समयाधि
कानि द्वाविंशतिवर्षसहस्राणि एकेन्द्रियौदारिकाणां सर्वव्यवहयोरुत्कृष्टमन्तरं भव
तीति तात्पर्यम्, ' देसवधत्तर जहण्णेण एकं समय, उक्कोसेण अतोमुहुत्तं ' एके
न्द्रियौदारिकशरीरस्य देशवधान्तरं जघन्येन एक समयं भवति, उत्कृष्टेन अन्त
र्मुहूर्तम् भवति, तत्र एकेन्द्रियौदारिकशरीरदेशवधान्तरं जघन्येन एकं समयं यथा

शरीर के सर्ववध सर्ववध का अन्तराल जघन्य से तीन समय कम
छुल्लक भवग्रहणपर्यन्त होता है। इसी तरह अविग्रह से पृथिवीकायिकों
में आया हुआ जीव प्रथम समय में ही पहां सर्ववधक हो गया-और
वह वहां एक समय कम २२ हजार वर्ष रह कर तीन समय की विग्र
हगति से अन्यपृथिव्यादिकों में उत्पन्न हुआ-वह वहां दो समय तक
अनाहारक रहा और अनाहारक रहकर तृतीय समय में वह सर्ववधक
हो गया अनाहारकके दो समयों में का एक समय, एक समय कम २२
हजार वर्षों में उन्हें पूर्ण करनेके लिये प्रक्षिप्त कर दिया-इस तरह सम
याधिक २२ हजार वर्ष का एकेन्द्रिय जीवों के औदारिकों के दो सर्ववधों
में उत्कृष्ट से अन्तराल आ जाता है। (देशबंधतरं जहण्णेण एक्कं समयं
उक्कोसेण अतोमुहुत्तं) एकेन्द्रिय जीवों के औदारिक शरीर के देशबंध
का अन्तर जघन्य से एक समय का है और उत्कृष्ट से अन्तर्मुहूर्त का

अपेक्षाके सुखक अवशेषु करतां त्रय न्यून समय प्रभासु डोय छे आ रीते
अविग्रहकी पृथ्वीकायिकोंमें आवेत्ते एव प्रथम समयमां ज त्वां सर्ववधक
वध गयो-जने त्वां २२ हजार वर्ष करतां कोक न्यून समय रहने त्रय
समयनी विग्रहगतिभी ज-ज पृथ्वी-आदिमें उत्पन्न थयो त्वां ते के समय
सुभी अनाहारक रह्यो जने अनाहारक रहने त्रीके समये ते सर्ववधक वध
गयो. अनाहारकना के समयोभानि कोक समय, आवीस हजार वर्ष करतां
कोक पुन समयमां, तेने पूसु करवाने माटे नाणी देवामां (उभेस्थामां)
आवे तो के रीते कोकेन्द्रिय औदारिकना के सर्ववधोत्तुं अन्तराल (अतर)
उत्कृष्ट काजनी अपेक्षाके २२ हजार वर्ष करतां कोक न्यून समय प्रभासु आवी
लय छे (देशवधत्तरं जहण्णेण एक्कं समयं उक्कोसेण अतोमुहुत्तं) कोकेन्द्रिय
एवोना औदारिक शरीरना देववधोत्तुं अतर आछामा आछ कोक समयत्तुं


કશ્ચિદ્ દેશવન્ધકો મૃતઃ સન્ અવિગ્રહેણ સર્વવન્ધકો ભૂત્વા એકસ્મિન્ સમયે પુનર્દેશ-
વન્ધક એવ જાતઃ, એવં સતિ દેશવન્ધયોર્જઘન્યેન એકઃ સમયોઽન્તરં ભવતિ,
ઉત્કૃષ્ટેન અન્તર્મુહૂર્તમ્ યથા વાયુરૌદારિકશરીરસ્ય દેશવન્ધકઃ સન્ વૈક્રિયં ગતઃ
તત્ર ચાન્તર્મુહૂર્તમ્ સ્થિત્વા પુનરૌદારિકશરીરસ્ય સર્વવન્ધકો ભૂત્વા દેશવન્ધક એવ
જાતઃ, એવશ્ચ દેશવન્ધયોરુત્કૃષ્ટેણાન્તર્મુહૂર્તમન્તરં ભવતીતિ ભાવઃ, ગૌતમઃ પૃચ્છતિ—
' પુઢવિક્કાઙ્ગયેર્ગિન્દિય૦ પુન્છા' હે ભદન્ત ! પૃથિવીકાયિકૈકેન્દ્રિય૦ પૃચ્છા, તથા
ચ પૃથિવીકાયિકૈકેન્દ્રિયૌદારિકશરીરવન્ધાન્તરં કાલતઃ કિયચ્ચિરં ભવતિ ? ઇતિ
પ્રશ્નઃ, ભગવાનાહ—'ગોયમા ! સવ્વવંધંતરં જહેવ એર્ગિન્દિયસ્સ તહેવ ભાણિયવ્વં'

હૈ । જૈસે કોઈ દેશવંધક જીવ મરા ઓર મરકર વહ અવિગ્રહ સે સર્વ-
વંધક હોકર એક સમય મેં પુનઃ દેશવંધક હી હો ગયા ઇસ તરહ દેશવંધક
દેશવંધક મેં જઘન્ય સે એક સમય કા અન્તરાલ હો જાતા હૈ । કોઈ
વાયુકાયિક જીવ ઔદારિક શરીર કા દેશવંધક હોકર વૈક્રિય શરીર
કો પ્રાપ્ત હુઆ, ઓર વહાં વહ અન્તર્મુહૂર્ત તક રહકર પુનઃ ઔદારિક
શરીર કા સર્વવંધક હોકર દેશવંધક હી હો ગયા—ઇસ તરહ પહિલે દેશ-
વંધ મેં ઓર ઇસ દેશવંધ મેં અન્તર્મુહૂર્ત કા ઉત્કૃષ્ટ સે અન્તરાલ પડુ ગયા ।

અવ ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન સે એસા પૂછતે હૈં—(પુઢવિક્કાઙ્ગયેર્ગિન્દિય-
પુચ્છા) હે ભદન્ત ! પૃથિવીકાયિક એકેન્દ્રિય કૈ ઔદારિક શરીર વંધ કા
અન્તર કાલ સે કિતના હોતા હૈ । ઇસકે ઉત્તર મેં પ્રશ્ન કહતે હૈં (ગોયમા)
હે ગૌતમ ! (સવ્વવંધંતરં જહેવ એર્ગિન્દિયસ્સ તહેવ ભાણિયવ્વં) સર્વવંધ

અને અધિકમાં અધિક અંતર્મુહૂર્તનું હોય છે, આ કથનનું સ્પષ્ટીકરણ નીચે
પ્રમાણ છે—જેમકે કોઈ એક દેશવંધક જીવ મરણ પામે છે મરીને તે
અવિગ્રહગતિથી સર્વવંધક થઈને એક સમયમાં પુનઃ દેશવંધક જ થઈ ગયો
આ રીતે તે દેશવંધ અને આ દેશવંધની વચ્ચે આછામાં આછો એક સમ-
યનો આંતરો (અંતર) પડી જાય છે કોઈ વાયુકાયિક જીવ ઔદારિક શરીરનો
દેશવંધક થઈને વૈક્રિય શરીરને પ્રાપ્ત કરે છે, અને ત્યાં તે અંતર્મુહૂર્ત સુધી
રહીને ફરીથી ઔદારિક શરીરનો સર્વવંધક બનીને દેશવંધક જ બની ગયો
તો આ રીતે પહેલા દેશવંધ અને આ દેશવંધ વચ્ચે ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ
અન્તર્મુહૂર્તનો આંતરો પડી જાય છે

હવે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર પ્રશ્નને એવો પ્રશ્ન કરે છે કે—(પુઢવિક્કાઙ્ગયે
ર્ગિન્દિય પુચ્છા) હે ભદન્ત ! પૃથિવીકાયિક એકેન્દ્રિય જીવોના ઔદારિક શરીરના
વંધનું અંતરકાળની અપેક્ષાએ કેટલું હોય છે ?



હે ગૌતમ ! સર્વવંધાન્તરં યથા એકેન્દ્રિયૌદારિકશરીરસ્ય પ્રતિપાદિત તથૈવ પૃથિવી-
કાયિકૈકેન્દ્રિયૌદારિકશરીરસ્યાપિ પ્રતિપચ્ચવ્યમ્ , તથા ચ પૃથિવીકાયિકૈકેન્દ્રિયૌ
દારિકશરીરસ્ય સર્વવંધાન્તરં જઘન્યેન ત્રિસમયન્યૂન છુલ્લકં ભવત્પ્રહરં
ભવતિ, ઉત્કૃષ્ટેન એકસમયાધિકાનિ દ્વાર્વિશતિ-વર્ષસહસ્રાણિ । મૃતિ ઇતિમાણ-
'દેશવધ તરં જહણ્ણેણ એક સમય, ઉચ્ચકોસેણ તિષ્ઠિસમયા ' પૃથિવીકાયિકૈકેન્દ્રિયૌ
દારિકશરીરસ્ય વેશવંધાન્તરં જઘન્યેન એકસમયં ભવતિ, ઉત્કૃષ્ટેત પ્રીક્ સમયાત્
મૃતિ, તથાહિ-પૃથિવીકાયિકો દેશવંધકો મૃતઃ સન્ અવિગ્રહગત્યા પૃથિવીકાયિક-
કેપુ એનોત્પન્નઃ એક સમય ચ સર્વવંધકો મૃત્યા પુનર્દેશવંધકો જ્ઞાતઃ, તથા સદ્ધિ

કા અન્તર જેસા એકેન્દ્રિય કે ઔદારિક શરીર કા કહા જા શુકા હે ઇસી
તરહ સં પૃથિવીકાયિક એકેન્દ્રિય કે ઔદારિક કા મી વહ જામના
ચાહિયે । તથા ચ-પૃથિવીકાયિક કે ઔદારિક શરીર કા સર્વવંધાન્તર
જઘન્ય સે ત્રિસમયન્યૂન છુલ્લકમવગ્રહણરૂપ હૈ ઓર ઉત્કૃષ્ટ સે પૂર્વકોટિ
એક સમય અધિક યાઈમ હજાર વર્ષકી હૈ । (દેશવંધતરં જહણ્ણેણ
એક સમય, ઉચ્ચકોસેણ તિષ્ઠિ સમયા) પૃથિવીકાયિક એકેન્દ્રિય કે
ઔદારિક શરીર કે દેશવધ કા અન્તર જઘન્ય સે એક સમય કા ઓર
ઉત્કૃષ્ટ સે મીન સમય કા હોતા હૈ । જૈસે કોઈ પૃથિવીકાયિક જીવ
દેશવધક હોકર મરા ઓર અવિગ્રહગતિ સે વહ પૃથિવીકાયિકો મેં હી
ઉત્પન્ન હુઆ ઓર વહાં એક સમય તક સર્વવંધક હોકર પુનઃ દેશ
વધક હો ગયા-હસ તરહ સે દોનો દેશવધો મેં જઘન્ય સે એક-

મહાવીર પ્રશ્નને ઉત્તર—“ ગોયમા । ” હે ગૌતમ । (સહજવતર મહેવ

વગિ વિચારસ તહેવ માણિયવ્ય) સર્વવંધનુ અતર એવું એકેન્દ્રિયના ઔદારિક
શરીરનુ કહું છે, એવું જ પૃથ્વીકાયિકોના એકેન્દ્રિયોના ઔદારિક શરીરનુ પણ
સમજવું એટલે કે પૃથ્વીકાયિકોના ઔદારિક શરીરનું સર્વવંધાન્તર જઘન્યની
અપેક્ષાએ છુલ્લક મવગ્રહણ કરવા ત્રણ ન્યૂન સમયપ્રમાણ છે અને ઉત્કૃષ્ટની
અપેક્ષાએ ત્રણ સાગરોપમ કરતાં એક પૂર્વકોટિ અને એક સમય અધિક છે.
(દેશવંધતર જહણ્ણેણ એક સમય, ઉચ્ચકોસેણ તિષ્ઠિસમયા) પૃથ્વીકાયિક એકેન્દ્રિયના
ઔદારિક શરીરના દેશવધનુ અતર જ્ઞાતામાં જ્ઞાતુ એક સમયનુ અને
વધારેમાં વધારે ત્રણ સમયનુ હોય છે તેનુ સ્પષ્ટીકરણ એમકે કોઈ પૃથ્વી
કાયિક હવ દેશવધક થાને મરણ પામે છે, અને અવિગ્રહ ગતિથી તે
પૃથ્વીકાયિકમાં જ ઉત્પન્ન થયેા, અને ત્ય એક સમય મુખી સર્વવંધ વગ રહીને
પુનઃ દેશવધક થઈ જયેા. આ રીતે જ ને દેશવધો વચ્ચે જ્ઞાતામાં જ્ઞાતા

દેશબંધયોર્જઘન્યેન એકં સમયમ્ અન્તરં ભવતિ, એવં પૃથિવીકાયિકો દેશબંધકો મૃતઃ સન્ ત્રિસમયેન વિગ્રહેણ તેષ્વેવોત્પન્નઃ, તત્ર ચ સમયદ્વયમનાહારકસ્તૃતીય સમયે ચ સર્વબંધકો ભૂત્વા પુનર્દેશબંધકો જાતઃ, તથા સતિ ઉત્કર્ષેણ ત્રયઃ સમયાઃ દેશબંધયોરન્તરમિત્યાશયઃ ॥ અથાપ્કાયિકાદીનાં બંધાન્તરમાહ—‘ જહા પુઢવિક્કાહ્યાણં, એવં જાવ ચઙરિંદિયાણં, વાઙ્કાહ્યવજ્જાણં ’ યથા પૃથિવીકાયિકાનાં સર્વબંધાન્તર દેશબંધાન્તરશ્ચોક્તમ્ એવં તથૈવ યાવત્ વાયુકાયમુક્ત્વા ચતુરિન્દ્રિય-પર્યન્તં વત્કવ્યમ્—તથા ચ અપ્કાયિક—તેજસ્કાયિક—વનસ્પતિ કાયિક—રૂપકેન્દ્રિય-

સમય કા અન્તરાલ આજાતા હૈ । હસી તરહ સે કોઈ પૃથિવીકાયિક જીવ દેશબંધક હોકર મરા ઓર મરકર વહ તીન સમયવાલે વિગ્રહ સે પૃથિવીકાયિકોં મેં હી ઉત્પન્ન હો ગયા—વહાં વહ દો સમય તક અનાહારક ઓર તૃતીયસમય મેં સર્વબંધક હોકર પુનઃ દેશબંધક હો ગયા—હસ તરહ સે ઉત્કૃષ્ટરૂપ સે દોનોં દેશબંધોં કા અન્તરાલ તીન સમય કા આજાતા હૈ । અવ સૂત્રકાર અપ્કાયિક આદિ કે ઓરાદિક શરીર કે અન્તર કા કથન કરતે હૈ—(જહા પુઢવિક્કાહ્યાણં, એવં જાવ ચઙરિંદિયાણં વાઙ્કાહ્યવજ્જાણં) વે હસ સૂત્રદ્વારા કહતે હૈ કિ જિસ પ્રકાર સે પૃથિવીકાયિકોં કા સર્વબંધાન્તર ઓર દેશબંધાન્તર કહા હૈ હસી તરહ સે યાવત્—અપ્કાયિક, તેજસ્કાયિક, વનસ્પતિકાયિક હન એકેન્દ્રિય જીવોં કે ઔદારિક શરીર કા સર્વબંધાન્તર કા કથન જઘન્ય ઓર ઉત્કૃષ્ટરૂપ સે કર લેના ચાહિયે । હસી તરહ સે હીન્દ્રિય,

એક સમયનો આંતરો પડી જાય છે એજ પ્રમાણે કોઈ પૃથ્વીકાયિક જીવ દેશબંધક થઈને મરણ પામે છે, અને મરીને તે ત્રણ સમયવાળી વિગ્રહગતિથી પૃથ્વીકાયિકોમાં જ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, ત્યાં તે બે સમય સુધી આનાહારક રહે છે અને તૃતીય સમયમાં સર્વબંધક થઈને પુનઃ દેશબંધક થઈ જાય છે, તે આ પરિસ્થિતિમાં બંને દેશબંધ વચ્ચેનું ઉત્કૃષ્ટ અંતર ત્રણ સમય પ્રમાણે આવી જાય છે

હવે સૂત્રકાર અપ્કાયિક આદિના ઔદારિક શરીરના અન્તરનું નિરૂપણ કરે છે—(જહા પુઢવિક્કાહ્યાણં, એવં જાવ ચઙરિંદિયાણં વાઙ્કાહ્યવજ્જાણં) એવી રીતે પૃથ્વીકાયિકોનું સર્વબંધાન્તર અને દેશબંધાન્તર કહેવામાં આવ્યું છે, એજ પ્રમાણે અપ્કાયિક, તેજસ્કાયિક અને વનસ્પતિકાયિક એકેન્દ્રિય જીવોના ઔદારિક શરીરના સર્વબંધાન્તર અને દેશબંધાન્તરનું કથન જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટની ત્રીન્દ્રિય અપેક્ષાએ કરણુ બેધએ. એજ પ્રમાણે હીન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિય

-દ્વોન્દ્રિય ત્રીન્દ્રિય ચતુરિન્દ્રિયાણાં વક્તવ્યમ્, તથા ચ અપ્કાયિકાનાં જપન્યેન સર્વથાન્તર ત્રિસમયોનં છુલ્લકમથ ગ્રહણમ્, ઉત્કૃષ્ટેન તુ સમયાધિકાનિ સત્તર્પ સહસ્રાણિ, દેશથાન્તર તુ વ્યથેન એકઃ સમયાઃ, ઉત્કૃષ્ટેન તુ પ્રયાઃ સમયાઃ, एवं वायुकायिकमितानि तेजस्कायिकादीनामपि बोध्यम्, किन्तु उक्तमेव विशेषमाह - 'नवरं सव्यवधतरं उक्कोसेण जा जस्स ठिई सा समयाधिया कायव्वा' नवरं पृथिवीकायिकापेक्षया विशेषस्तु सर्ववन्धान्तरम् उत્कृष्टेन या यावती यस्य स्थितिः आयुष्यकालो वर्तते सा तावती स्थितिः समयाधिका कर्तव्या स्वकीया स्वकीया स्थितिः समयाधिका वक्तव्या यथा प्रदर्शितैव, पूर्वमतिदेशे 'वाउका

ત્રીન્દ્રિય ઔર ચતુરિન્દ્રિય જીવોંકે મી ઔદારિક શરીરકા જગન્ય ઔર ઉત્કૃષ્ટ રૂપ સે સર્વવન્ધાન્તર ઔર દેશવન્ધાન્તર કા કથન કર હેના વ્રાહિયે । તથા ચ અપ્કાયિક જીવોંકે ઔદારિક શરીર કા સર્વવન્ધાન્તર કમ સે કમ ત્રીન સમય ન્યૂન છુલ્લકમથ ગ્રહણપર્યન્તમ્ હૈ અધિક સે અધિક એક સમય અધિક ૭ હજાર થપ કા હૈ । દેશવન્ધાન્તર જથ ન્ય સે એક સમય કા ઔર ઉત્કૃષ્ટ સે ત્રીન સમય કા હૈ-હસી તરહ સે અન્તર વાયુકાયિક જીવોંકો છોડકર તેજસ્કાયિક જીવોંકે મી જ્ઞાનના વ્રાહિયે । (નવર સવ્યવધતર વક્કોસેણ જા જસ્સ ઠિઈ સા સમયાધિયા કાયવ્વા) પરન્તુ સર્વવન્ધાન્તર મેં ઉત્કૃષ્ટ કી અપેક્ષા જો વિશેષતા હૈ થહ એસી હૈ-કિ જિતની જિસકી સ્થિતિ હૈ-ઉસ સ્થિતિ મેં એક ૨ સમય ઔર થડા દેના વ્રાહિયે-સો હમ પ્રકાર સે કરને સે સર્વવન્ધ કા તેજસ્કાયિક વ્રાદિ જીવોંકે અન્તર ઉત્કૃષ્ટ સે આજાતા હૈ । કૌન કૌન

એવેના પણ ઔદારિક શરીરનું જગન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ રૂપ સર્વવન્ધાન્તર અને દેશવન્ધાન્તરનું કથન કરી લેવું જોઈએ. જેમકે અપ્કાયિક એવેના ઔદારિક શરીરનું સર્વવન્ધાન્તર જોડામાં જોડા મુક્તક સવ્યવધતર કરતાં ત્રણ મૂલ સમય પ્રમાણ છે, અને વધારેમાં વધારે ૭ ૦૦ વર્ષ કરતાં એક અધિક સમય પ્રમાણ છે. દેશવન્ધાન્તર જોડામાં જોડા એક સમયનું અને વધારેમાં વધારે ત્રણ સમયનું છે. વાયુકાયિક એવેને ઠાઠી હથને તેજસ્કાયિકોમાં પણ એજ પ્રમાણે સર્વવન્ધાન્તર અને દેશવન્ધાન્તર સમજવું. (નવર સવ્યવધતર વક્કોસેણ જા જસ્સ ઠિઈ સા સમયાધિયા કાયવ્વા) પણ સર્વવન્ધાન્તરમાં ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ નીચે મુજબ વિશેષતા છે-જેની જેટલી આયુષ્યસ્થિતિ હોય, તે આયુષ્યસ્થિતિમાં એક એક સમય વધારી દેવાથી તેજસ્કાયિક વ્રાદિ એવેના સર્વવન્ધાન્તરને ઉત્કૃષ્ટ કાળ આવી જાય છે. કયા જોન્દ્રિય એવની

इयवज्जाणं ' इत्युक्त्वा वायुबन्धान्तरे विलक्षणता सूचिता, तामेवाह—
 ' वाउक्काइयाणं सव्वबंधंतरं जहण्णेणं खुड्डागभवग्गहणं तिसमयऊणं, उक्कोसेणं
 तिन्नि वाससहस्साइं समयाहियाइं ' वायुकायिकानां सर्वबन्धान्तरं जघन्येन क्षुल्ल-
 कभवग्रहणं तिसमयोनम् उत्कृष्टेन त्रीणि वर्षसहस्राणि समयाधिकानि सर्वबन्धान्तरं
 भवति, ' देसबंधंतरं जहण्णेणं एककं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं ' वायुकायि-
 कानां देशबन्धान्तरं च जघन्येन एकं समयं भवति, उत्कृष्टेन तु अन्तर्मुहूर्तं भवति,
 उत्कर्षेण अन्तर्मुहूर्तं कथमिति चेदत्रोच्यते—वायुरौदारिकशरीरस्य देशबन्धकः सन्
 यदा वैक्रियबन्धमन्तर्मुहूर्तं कृत्वा पुनरौदारिकसर्वबन्धसमयानन्तरमौदारिकदेश-
 बन्धं करोति तदा अन्तर्मुहूर्तं देशबन्धान्तरं भवतीत्याशयः । गौतमः पृच्छति—
 ' पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणियओरालिउपुच्छा ' हे भदन्त ! पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकौ

एकेन्द्रिय जीवों की-कितनी २ स्थिति है यह बात पहिले प्रकट ही कर
 दी गई है । (वाउक्काइयाणं सव्वबंधंतरं जहण्णेणं खुड्डागभवग्गहणं
 तिसमयऊणं, उक्कोसेणं तिन्निवाससहस्साइं समयाहियाइं) वायुका-
 यिक जीवों का सर्वबंधान्तर जघन्य से तीन समयकम् क्षुल्लकभवग्र-
 हण पर्यंत है और उत्कृष्ट से समयाधिक तीन हजार वर्ष का है ।
 (देसबंधंतरं जहण्णेणं एककं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं) वायुकायिक
 जीवोंका देशबंधान्तर जघन्यसे एक समयका और उत्कृष्टसे एक अन्त-
 र्मुहूर्त का होता है । उत्कृष्टसे यहां देशबंधान्तर अन्तर्मुहूर्तका कैसे है ?
 उत्तर—औदारिक शरीर का देशबंधक हुआ वायुकायिक जीव
 जब वैक्रियबंध अन्तर्मुहूर्ततक करके पुनः औदारिक के सर्वबंधान्तर
 के बाद औदारिक का देशबंध करता है उस समय अन्तर्मुहूर्त का
 देशबंधान्तर होना है ।

કેટલી સ્થિતિ છે, તે વાત પહેલા પ્રકટ કરવામાં આવેલ છે. (વાઉક્કાઇયાણં
 સવ્વબંધંતરં જહણ્ણેણં ખુડ્ડાગભવગ્ગહણં તિસમયઊણં, ઉક્કોસેણં તિન્નિ વાસ-
 સહસ્સાઈં સમયાહિયાઈં) વાયુકાયિક જીવોનું સર્વબંધાન્તર ઓછામાં ઓછું
 ક્ષુલ્લક ભવગ્રહણ કરતા એક અધિક સમય પ્રમાણુ છે. (દેસબંધંતરં જહણ્ણેણં
 એકક સમય, ઉક્કોસેણં અંતોમુહુત્તં) વાયુકાયિક જીવોનું દેશબંધાન્તર ઓછામાં
 ઓછું એક સમયનું અને વધારેમાં વધારે અંતર્મુહૂર્તનું હોય છે અહીં
 ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ દેશબંધાન્તર કેવી રીતે અંતર્મુહૂર્તનું છે ?

ઉત્તર—ઔદારિક શરીરનો દેશબંધક બનેલો વાયુકાયિક જીવ બન્યાને
 અંતર્મુહૂર્ત સુધી કરીને પુનઃ ઔદારિકના સર્વબંધાન્તર પાદ ઔદારિકનો
 દેશબંધ કરે છે, તે સમયે અંતર્મુહૂર્તનું દેશબંધાન્તર થાય છે.

વારિકપૃચ્છા, તથા ચ પચ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકૌદારિકશરીરસ્ય ઘષાતર કાલત ક્રિપશિરં ભવતિ ? इति प्रश्नः, मंगयानार-‘ सञ्चवंधतरं जहण्णेण खुइडागमव माहणं तिसमयऊण, उक्कोसेण पुब्बकोडी समयाहिया ’ हे गौतम ! पचेन्द्रिय- तिर्यग्योनिकौदारिकशरीरस्य सर्ववधान्तर जपन्वेन सुल्लकमवग्रहणं तिसमयोन भवति, उत्कण्ठेन तु पूर्वकोटी समयाधिका तस्य सर्ववघातर भवति, तयारि- पचेन्द्रियतिर्यग् अविग्रहगत्योत्पन्नं सन् प्रथमसमये एव सर्ववधकः, एत समयोर्ना पूर्वकोटीं स्थित्वा विग्रहगत्या तिसमयात्मिक्या तेष्वेवोत्पन्नः, तत्र च समयद्वय

अथ गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(पचिदियतिरिक्खवजो णिय ओरालिय पुच्छा) हे भदन्त ! पचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक जीव के औदारिक शरीर के घ घ का अन्तर काल की अपेक्षा से किना है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(सञ्चवधतरं जहण्णेण खुइडागमवगमाहणं तिसमयऊण, उक्कोसेण पुब्बकोडी समयाहिया) हे गौतम ! पचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक जीव के औदारिक शरीर के सर्ववध का अन्तर जपन्व से तीन समय कम सुल्लकमव ग्रहण पर्यन्त है और उत्कृष्ट से एक समय अधिक एक फोटि पूर्व का है । इस विषय में ऐसा समझना चाहिये—कोई जीव पचेन्द्रियतिर्यग्यपर्याय में अविग्रहगति से उत्पन्न हुआ सो वह उत्पन्न होते ही प्रथम समय में सर्ववधक हो गया—और वह एक समय कम पूर्वकोटितक वहाँ रहा बाद में वहाँ से मर कर तीन समयवाली विग्रहगति से वह वनमें ही उत्पन्न हो गया—यहा दो समय

હેવે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર પ્રભુને એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે— (પચિદિયતિરિક્ખવજોણિય ઓરોલિય પુચ્છા) હે ભદન્ત ! પચેન્દ્રિય તિર્યગ્ય યોનિક જીવના ઔદારિક શરીરના બધનુ અતરકાળની અપેક્ષાએ કેટલું છે ? મહાવીર પ્રભુને ઉત્તર—(સચ્ચવધતરં જહણ્ણેણ સુહુડાગમવગમાહણ તિસમયઊણ, ઉક્કોસેણ પુબ્બકોડી સમયાહિયા) હે ગૌતમ ! પચેન્દ્રિય તિર્યગ્ય યોનિક જીવના ઔદારિક શરીરના સર્વવધનુ અતર જપન્વની અપેક્ષાએ સુલ્લક વગરનું કમ સમય પ્રમાણ છે, અને ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ એક ફોટિ પૂર્વ કરતાં એક અધિક સમય પ્રમાણ છે આ કથનનુ સ્પષ્ટીકરણ નીચે પ્રમાણે છે—કોઈ જીવ પચેન્દ્રિય તિર્યગ્ય પર્યાયમાં અવિગ્રહગતિથી ઉત્પન્ન થયો છે, ઉત્પન્ન થતાં જ પ્રથમ સમયે તે સર્વવધક સર્વજાત છે, અને તે પૂર્વ ફોટિ કરતાં એક ન્યૂન સમય પર્યન્ત ત્યાં રહે છે, ત્યારબાદ ત્યાંથી મરીને ત્રણ સમયવાળી વિગ્રહગતિથી તે તેમાં જ (પચેન્દ્રિય તિર્યગ્યોમાં જ) ઉત્પન્ન થઈ જાય છે ત્યાં બે સમય સુધી અનાહારક સ્થિતિ પૃત્વીય સમયમાં

અનાહારકઃ સન્ તૃતીયે સમયે સર્વવન્ધકઃ સમ્પન્નઃ, અનાહારકસમયદ્વયસ્યૈકઃ સમયઃ સમયોનાયાં પૂર્વકોટયાં તત્પૂરણાર્થે ક્ષિપ્તઃ એકસ્ત્વધિકઃ, ઇતિ ઉત્કૃષ્ટેન સમયાધિકા પૂર્વકોટી સર્વવન્ધાન્તરં ભવતિ, ઇતિ ભાવઃ, 'દેસવંધંતરં જહા ઇગિન્દિયાણં તહા પંચિન્દિય તિરિક્લજોણિયાણં' દેશવન્ધાન્તરં તુ યથા એકેન્દ્રિયાણામુક્તં તથા પંચેન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિકાનામપિ વક્તવ્યમ્, તથા ચ જઘન્યેન એકં સમયં ભવતિ, યથા દેશવન્ધકો મૃતઃ સર્વવન્ધસમયાનન્તરં દેશવન્ધકો જાતઃ ઇત્યેવં દેશવન્ધાન્તરં જઘન્યેન એકં સમયમ્ ઉત્કર્ષેણ અન્તર્મુહૂર્તં યથા ઔદારિકશરીરી દેશ-

તક અનાહારક રહક્રુર તૃતીય સમય મેં વહ સર્વવધક વના । અનાહાર અવસ્થા કે દો સમયોં મેં સે એક સમય, સમય હીન પૂર્વકોટિ મેં ઉસે પૂરો કરને કે લિયે મિલા દિયા ઓર એક વચ્ચા રહા-સો હસ તરહ સે સર્વવધ કા અન્તર ઉત્કૃષ્ટ સે યહાં એક સમય અધિક પૂર્વકોટિ કા આજાતા હૈ-(દેસવંધંતરં જહા ઇગિન્દિયાણં તહા પંચિન્દિય તિરિક્લજોણિયાણં) દેશવંધ કા અન્તર જૈસા એકેન્દ્રિય જીવોં કા કહા ગયા હૈ વૈસા હી પંચેન્દ્રિયતિર્યંચોં કા ભી જાનના યાહિયે । એકેન્દ્રિય જીવોં મેં ઔદારિક શરીર કા દેશવંધાન્તર જઘન્ય સે એક સમય કા ઓર ઉત્કૃષ્ટ સે અન્તર્મુહૂર્ત કા કહા ગયા હૈ । ઊસી પ્રકાર સે યહાં પર ભી જાનના યાહિયે । જૈસે કોઈ દેશવંધક મરા ઓર વહ સર્વવંધકે એક સમય કે યાદ દેશવંધક હો ગયા-હસ તરહ સે તો દેશવંધ કા જઘન્ય સે અન્તર એક સમય કા હોતા હૈ । તથા કોઈ ઔદારિક શરીરી દેશવંધક હોકર

તે સર્વવંધક બની ગયો છે અનાહારક અવસ્થાના એ સમયોમાંથી એક સમય, સમયહીન (એક સમયની ન્યૂનતાવાળા) પૂર્વકોટિકાળમાં તેને પૂરો કરવાને માટે એળવી દેવામાં આવ્યો અને એક સમય બાકી રહ્યો. આ રીતે સર્વવંધનું ઉત્કૃષ્ટ અંતર અહીં પૂર્વકોટિ કરતાં એક અધિક સમયનું આવી જાય છે (દેસવંધંતરં જહા ઇગિન્દિયાણં તહા પંચિન્દિયતિરિક્લજોણિયાણં) દેશવંધનું અંતર જેવું એકેન્દ્રિય જીવોનું કહ્યું છે, એવું જ પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોનું પણ સમજવું એકેન્દ્રિય જીવોમાં ઔદારિક શરીરનું દેશવંધાન્તર જઘન્યની અપેક્ષાએ એક સમયનું અને ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ અંતર્મુહૂર્તનું કહ્યું છે. એજ પ્રમાણે અહીં પણ સમજવું હવે તેનું સ્પષ્ટીકરણ આપવામાં આવે છે-જેમ કે કોઈ દેશવંધક મરીને સર્વવંધના એક સમય બાદ દેશવંધક થઈ જાય, તો આ રીતે દેશવંધનું અંતર જઘન્યની અપેક્ષાએ એક સમયનું થાય છે. તથા કોઈ ઔદારિક શરીરી દેશવંધક થઈને વિક્ષિયાને પ્રાપ્ત કરે છે

ક વચ સન વૈદિયં પ્રતિપદ્મ , તથાન્તર્મૂર્તે સ્વિત્વા પુનરૌદારિકશરીરી માતઃ તથ
 ય પ્રથમસમય સર્વધન્વકો દ્વિતીયાદિપુ હુ દેશયયકઃ, इत्येवं देशययप्रकारकपेन
 અન્તર્મૂર્તમ તરમિતિ વાત્પર્યમ્ , एषमेव मनुष्याणामपि षोष्पमित्याह- ' एवं
 મણુસ્તાણ વિ નિરવસેસં માણિયલ્લ જાવ ઝકોસેણં અંતોમુદ્ધુસં ' एवं पञ्चेन्द्रियतिर्य
 ગ્યાનિકપ્રવેવ મનુષ્યાણામપિ નિરવશેપ સર્વ મણિતલ્લ્યં ષક્ત્ય યાવત્-સર્વધ ધા-
 ન્તર જઘ યન હુલ્લકમયપ્રદર્શનં ત્રિસમયોન મવસિ, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी समपापिका,
 દેશયધાન્તરન્તુ યયન્યેન ઇકં સમય મવસિ, उत्कृष्टेण अतर्मुर्तं મનવીતિ માચા ।
 અર્પૌદારિકધન્વાન્તર મકારાન્તરેણ આહ- 'जीवस्त णं मते । एतिदियसे, जोएति

વિક્રિયા કો પ્રાપ્ત હુઆ ઓર મહ ઘઘાં ઇક અન્તર્મૂર્ત તક રહકર પુનઃ
 ઔદારિક શરીરી હો ગયા ઘઘાં પર ઘઘ પ્રથમ સમય મેં સર્વધ ષક
 હુઆ ઓર દ્વિતીયાદિ સમયોં મેં દેશયયક હુઆ-इस प्रकार से इन
 દોનોં દેશયયોં મેં અન્તર વલ્કૂષ્ટ સે ઇક અન્તર્મૂર્ત કા હોતા હૈ । (एवं
 મણુસ્તાણ વિ નિરવસેસ માણિયલ્લ જાવ ઝકોસેણં અંતોમુદ્ધુસં) પંચ
 ન્દ્રિયતિર્યગ્યોનિક જીવોં કો તરહ મનુષ્યોં કે ઘી સમસ્તરૂપ સે ઇસા
 હી કયન જાનના ઘાહિયે । યાવત્-यहां-सर्वध धान्तर अधन्य से तीन
 સમય કમ હુલ્લક મયપ્રદર્શનંત હૈ ઓર વલ્કૂષ્ટ સે ઇક સમય પૂર્વ
 કોટિકપ્રમાણ હૈ । तथा देशयधान्तर जघय से एक समय का है और
 वलकृष्ट से अन्तर्मुर्तका है ।

अप औदारिकयय के अन्तर को सूत्रकार प्रकारान्तर से
 दिखाने हैं-इसमें गौतम ने प्रभु से ऐसा पूछा है-(जीवस्त णं मते !

अने ते त्यां लोके अतर्मुर्तं पदन्त रक्षीने पुन. औदारिक शरीरी यर्ध लय
 છે તો ત્યાં તે પ્રથમ સમયમાં સર્વધ ષક થયે હોય છે અને દ્વિતીયાદિ
 સમયોંમાં દેશયયક થયે હોય છે આ પ્રકારે તે અને દેશયયક વચ
 ઉલ્કૂષ્ટની અપેક્ષાએ લોક અન્તર્મૂર્તનુ અતર પટે છે (एवं मणुसाण वि
 નિરવસેસં માણિયલ્લ જાવ ઝકોસેણં અંતોમુદ્ધુસં) પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ યોનિદેહી
 નેમ મનુષ્યોંનુ કથન પવ્ સ પૂર્વે કૃતુ લોકલે એટલે કે અહીં સર્વ ધાન્તર
 લોણમાં લોણુ સુલ્લક મયપ્રદર્શ કરતાં પવ્ ન્યૂન સમય પ્રમાણ છે અને ઉલ્કૂષ્ટની
 અપેક્ષાએ પૂર્વ કોટિકાગ કરતાં લોક અધિક સમય પ્રમાણ છે તથા દેશયધાન્તર
 લોણમાં લોણુ લોક સમયનુ અને વમારેમાં વધારે અન્તર્મૂર્તનુ છે

હવે ઔદારિક ધંધના અતરને સૂત્રકાર બીજી રીતે પ્રકટ કરે છે—
 ગૌતમ રજાતીનો પ્રશ્ન—(जीवस्त णं मते ! एतिदियसे, जो एतिदियसे

दियत्ते, पुनरवि एगिदियत्ते एगिदियओरालियसरीरप्पओगवंधंतरं कालओ केवच्चिरं होइ ?' गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! जीवस्य खलु एकेन्द्रियत्वे नो एकेन्द्रियत्वे-द्वीन्द्रियत्वाद्वा पुनरेकेन्द्रियत्वे सति एकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवन्धान्तरं कालतः कालापेक्षया कियच्चिरं भवति ? भगवानाह- ' गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहण्णेणं दो खुड्डागभवग्गहणाइं तिसमयऊणाइं, उक्कोसेणं दो सागरोवमसहस्साइं, संखेज्जवासमव्वभहियाइं ' हे गौतम ! जीवस्य तथाविधे पुनरेकेन्द्रियत्वे एकेन्द्रियौदारिक शरीरस्य सर्ववन्धान्तरं जघन्येन द्वे क्षुल्लकभवग्रहणे तिसमयोने भवति उत्कु-

एगिदियत्ते, णो एगिदियत्ते पुनरवि एगिदियत्ते एगिदियओरालिय-सरीरप्पओगवंधंतरं कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ! कोई जीव एकेन्द्रिय पर्याय में हो और फिर वह मरकर द्वीन्द्रियादिकों में चला जाय और फिर वहां से मरकर पुनः एकेन्द्रिय हो जावे-ता ऐसी स्थिति में एकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग के वध में अन्तरकाल की अपेक्षा कितना पड़ता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (सव्वबंधंतरं जहण्णेणं दो खुड्डागभवग्गहणाइं तिसमयऊणाइं, उक्कोसेणं दो सागरोवमसहस्साइं ' संखेज्जवासमव्वभहियाइं) जो जीव पहिले एकेन्द्रियपर्याय में था और फिर एकेन्द्रियपर्याय को छोड़कर अन्य पर्याय में जन्म धारण करने के बाद पुनः एकेन्द्रिय पर्याय में आ गया-तो ऐसी स्थिति में उसके औदारिक शरीर का सर्ववन्धान्तर जघन्य से तीन समय कम दो क्षुल्लक भवग्रहणपर्यन्त होता

पुनरवि एगि दियत्ते एगि दिय ओरालिय सरीरप्पओग व धंतरं कालओ केवच्चिरं होइ ?) हे भदन्त ! कोइ ओक एव ओकेन्द्रिय पर्यायमां उत्पन्न थयेत्तो डोय, त्याथी भरीने ते एव ओकेन्द्रिय सिवायनी (द्वीन्द्रिय आदि) अन्य पर्यायमां उत्पन्न थाय, अने त्याथी भरीने इरीथी ओकेन्द्रिय पर्यायमां उत्पन्न थई जय, तो ओवी स्थितिमां औदारिक शरीर प्रयोगना बंधमां केत्ता काणतुं अतर पडे छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (सव्वबंधंतरं जहण्णेण दो खुड्डागभवग्गहणाइं तिसमयऊणाइं, उक्कोसेण दो सागरोवमसहस्साइं ' संखेज्जवासमव्वभहियाइं) ने एव पडेत्ता ओकेन्द्रिय पर्यायमां हुतो, अने पडी ओकेन्द्रिय पर्यायने छोडीने कोइ अन्य पर्यायमां उत्पन्न थई गयेो डोय, अने त्यारआइ इरीथी ओकेन्द्रिय पर्यायमा उत्पन्न थई जय, तो ओवी स्थितिमां तेना औदारिक शरीरतुं सर्ववन्धान्तर जघन्यनी अपेक्षाओ त्रयु समय न्यून क्षुल्लक भवग्रहण पर्यन्ततुं डोय छे अने उत्पन्ननी अपेक्षाओ जे हन्तर साग-

प्टेन तु द्वे सागरोपमसहस्रे सरुययवर्षसमभ्यधिके भवति, तथाहि—एकेन्द्रिय
स्त्रिममयया विग्रहगत्या उत्पन्नः, तत्र च द्वौ समयौ अनाहारको भूत्वा तृतीयसमये
सर्वेषु कृत्वा तदून क्षुल्लकमवग्रहणं स्थित्वा मृतः सन् अनेकेन्द्रियेषु क्षुल्लक-
मवग्रहणमेष जीवित्वा मृतः सन् अविग्रहेण पुनरैकेन्द्रियेणैव उत्पद्य सर्वेष्वन्वको
घातः, एवञ्च जीवस्य पुनरैकेन्द्रियत्वे सति सर्वेष्वयोरन्तरम् मघन्येन मितम-
योने द्वे क्षुल्लकमवग्रहणे भवति, उत्कृष्टेन तु अविग्रहेण एकेन्द्रियः समुत्पन्नाः, तत्र
च प्रथमममये सर्वेष्वन्वको भूत्वा द्वाविंशति वर्षसहस्राणि जीवित्वा मृतस्यैवापि

है और उत्कृष्ट से सख्यातवर्ष अधिक दो हजार सागरोपम होता है।

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है—कोई जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें
तीन समयवाली विग्रहगति से उत्पन्न हुआ, वहाँ वह दो समय तक
अनाहारक रहकर तृतीय समय में औदारिक शरीर का सर्वेष्व करके
दो समय कम क्षुल्लकमव ग्रहण तक रहा और फिर मरकर वह द्वीन्द्रि-
यादिकों में उत्पन्न हो गया सो वहाँ पर भी वह क्षुल्लकमवग्रहणतक
ही जीवित रहा—बाद में वहाँ से मरकर वह अविग्रहगति से पुनः एके-
न्द्रिय पर्याय में ही उत्पन्न हो गया—इस तरह इन दोनों सर्वेष्वों का
अन्तर जघन्य से तीन समय कम दो क्षुल्लक मवग्रहण का होता है।
तथा उत्कृष्ट से जो अन्तर कहा गया है वह इस प्रकारसे कहा गया है
कोई जीव अविग्रहगतिसे एकेन्द्रिय पर्यायमें उत्पन्न हुआ—वहाँ वह प्रथम
समयमें वर्षेष्वक होकरके २२ हजार वर्षतक जीवित रहा और फिर मरा

शेषम इत्यां सम्भवात् अधिक वर्षानुं डोष छे आ कथननुं स्पष्टीकरण
नीचे प्रमाणे छे—

जेभके कौं छे एव एकेन्द्रिय पर्यायमां त्रयु समयवाणी विग्रहगतिथी
उत्पन्न याम छे त्यां ते जे समय अनाहारक रहीने तृतीय समयमां औदारिक
शरीरनेः सर्वेष्व करीने जे समय न्यून क्षुल्लक अवग्रहण पर्यन्त रह्यो त्यां
जाइ त्यांथी भरीने ते द्वीन्द्रियादिकेमां उत्पन्न यध जये। त्यां पण ते क्षुल्लक
अवग्रहण पर्यन्त ए अचित रह्यो—त्यारजाइ ते त्यांथी भरीने अनिग्रहगतिथी
पुनः एकेन्द्रिय पर्यायमां उत्पन्न यध जये। आ रीते आ जन्ने सव लथी
वय्येनु अतर लघन्यनी अपेक्षाजे त्रयु समय न्यून जे क्षुल्लक अवग्रहणनुं
यध जाय छे तथा उत्कृष्टनी अपेक्षाजे जे अतर कहुं छे तेनुं स्पष्टीकरण
नीचे प्रमाणे समजनुं—

कौं एव अनिग्रहगतिथी एकेन्द्रिय पर्यायमां उत्पन्न यधे। त्यां ते
प्रथम समये सर्वेष्वक यधने २२ हजार वर्ष सुधी एजे। त्यारजाइ भरीने

केषु चोत्पन्नः, तत्र च संख्यातवर्षाभ्यधिकसागरोपमसहस्रद्वयरूपाम् उत्कृष्टत्रस-
कायिकायस्थितिम् अतिवाद्य एकेन्द्रियेऽवेवोत्पद्य सर्ववन्धको जातः, इत्येवं सर्व-
वन्धयोरन्तरमुत्कृष्टेन संख्येयवर्षाभ्यधिके द्वे सागरोपमसहस्रे भवति, सर्ववन्ध
समयहीन एकेन्द्रियोत्कृष्टमवस्थितेऽसकायस्थितौ प्रक्षेपणेऽपि संख्यातस्थानानां
संख्यातभेदत्वेन संख्यातवर्षाभ्यधिकत्वस्यान्यादत्त्वात्, ' देसबंधंतरं जहण्णेणं
खुड्ढागं भवग्गहणं समयाहियं, उक्कोसेणं दो सागरोवमसहस्ताइं संखेज्जवासम-
व्हियाइं ' जीस्यैकेन्द्रियत्वे नोएकेन्द्रियत्वे पुनरेकेन्द्रियत्वे एकेन्द्रियोदारिक-

मरकर वह त्रसकायिकों में उत्पन्न हुआ, वहाँ संख्यातवर्ष अधिक, दो
हजार सागर तक की उत्कृष्ट त्रसकायिकों की कायस्थिति में रहा-वाद
में उसे समाप्त कर वह पुनः एकेन्द्रियो में ही उत्पन्न होकर सर्ववन्धक
हुआ इस प्रकार इन पूर्वापर दो सर्वबंधों में उत्कृष्ट अन्तर संख्यातवर्ष
अधिक दो हजार सागर का होता है। सर्वबंध के समय से हीन एके-
न्द्रियजीवोत्कृष्ट अवस्थिति को त्रसकाय की कायस्थिति में प्रक्षिप्त कर
देने पर भी उसमें संख्यातवर्षाधिकता के आने में कोई बाधा नहीं
आती है। क्यों कि संख्यातस्थानों के संख्यात भेद होते हैं। (देसबंध-
तरं जहण्णेणं खुड्ढागं भवग्गहणं समयाहियं उक्कोसेणं दो सागरोवम
सहस्ताइं संखेज्जवासमव्हियाइं) कोई एक जीव पहिले एकेन्द्रिय
पर्याय में था, वह वहाँ से मरकर दो इन्द्रियादिकों में उत्पन्न हो गया
फिर वहाँ से मरकर वह एकेन्द्रिय पर्याय में आगया-सो वहाँ पर उसके

ते त्रसकायिकेभ्यो उत्पन्न भवति. त्यां ये छन्दर सागरोपम करता संख्यात
अधिक वर्षप्रमाणे त्रसकायिकेभ्यो उत्कृष्ट कायस्थितिमां ते रक्षो, त्यांथी मरीने
ते पुन एकेन्द्रियेभ्यो उत्पन्न भवति सर्ववन्धक गन्थे आ प्रमाणे आ
पूर्वापर सर्वबंधोनी वर्ये उत्कृष्ट अंतर ये छन्दर सागरोपम करतां संख्यात
वर्ष अधिकतुं पडे छे सर्वबंधना समयथी हीन एकेन्द्रिय एवोत्कृष्ट अव-
स्थितिने त्रसकायनी कायस्थितिमा भेजवी देवा छता पणु तेमा संख्यात वर्षनी
अधिकता आववाभां केरि बाधा आवती नथी कारणु के संख्यात स्थानोना
संख्यात लेद डोय छे (देसबंधंतरं जहण्णेण खुड्ढाग भवग्गहणं समयाहियं
उक्कोसेणं दो सागरोवमसहस्ताइ संखेज्जवासमव्हियाइं) केरि एक एव
पडेवा एकेन्द्रिय पर्यायमा छतो, त्यांथी मरीने ते द्वीन्द्रियेभ्यो उत्पन्न भव
गथे, वणी त्यांथी मरीने ते द्वीन्द्रियेभ्यो उत्पन्न भव गथे, तो एवी
परिस्थितिमा तेना औदारिक शरीर प्रयोगनु ये देशबंधान्तर डोय छे, ते

शरीरप्रयोगस्य देशवन्धान्तरं जघन्येन क्षुल्लकं भवग्रहणं समयाधिकं भवति, उत्कृष्टेन द्वे सागरोपमसाहस्रे सख्येयवपान्यधिके भवति, तथाहि—एकेन्द्रियो देशवन्धकः सन् भूत्वा द्वीन्द्रियादिषु क्षुल्लकमवग्रहणम् अनुभूय अविग्रहेण चागत्य प्रथम समये सर्ववन्धको भूत्वा द्वितीये समये देशवन्धको भवति, एवञ्च देशवन्धात्पर जघन्येन सर्ववन्धसमयाधिकं क्षुल्लकमवग्रहणं भवति, उत्कृष्टेन तु सर्ववन्धात्पर पदेन देशवन्धान्तरमुक्तम् ।

अथ पृथिवीकायिकवन्धान्तरं प्ररूपयति—'जीवस्स ज मंते ! पुढबिक्काइ यत्ते, णोपुढबिक्काइयत्ते, पुणरवि पुढबिक्काइयत्ते पुढबिक्काइयत्तेपिग्गिदियओराल्लिय सरीरप्पभोगवत्तरं काळओ केवच्चिरं भवइ ?' गौतमः पृच्छति—इं मन्त ।

भौतिक शरीरप्रयोग का जो देशवन्धान्तर होता है वह जघन्य से एक समय अधिक क्षुल्लकमवग्रहणपर्यन्त होता है और उत्कृष्ट से संख्यातवर्ष अधिक दो हजार सागरोपम का होता है । इसका तात्पर्य ऐसा है—कोई देशवन्धक एकेन्द्रिय जीव मरकर द्वीन्द्रियादिकों में क्षुल्लकमवग्रहण तक रहा और फिर वह वहाँ से मरकर अविग्रह गति से पुनः एकेन्द्रियों में आ गया तो प्रथम समयमें यहाँ सर्ववन्धक होकर वह द्वितीयादि समयों में देशवन्धक—हो गया इस तरह से देशवन्धका अन्तर जघन्य से सर्ववन्धसमयाधिक क्षुल्लकमवग्रहण पर्यन्त हुआ और उत्कृष्ट से सर्ववन्ध के प्रवर्धित अन्तर की तरह देशवन्ध का अन्तर संख्यात वर्षाधिक दो सागरोपम का कहा गया है । (जीवस्स ज मंते ! पुढबिक्काइ यत्ते, णोपुढबिक्काइयत्ते पुणरवि पुढबिक्काइयत्ते प्पिग्गिदिय ओराल्लिय सरीर

वन्धवन्धी अपेक्षाके लोक समय अधिक क्षुल्लक भवन्नदण्य परन्तु दोष ७, जने उत्कृष्णी अपेक्षाके वि हजार सागरोपम कर्ता संख्यात अधिक वर्ष दोष ७ ज्ञा कथनेना भावाय जेवो ७ इ—इस देशवन्धक एकेन्द्रिय लय भरीने द्वीन्द्रिय आदिकेमां क्षुल्लक भवन्नदण्य परन्तु एके जने त्याही भरीने अनिबद्धगतिथी पुनः एकेन्द्रियोमां जन्म पारण करे तो प्रथम समयमां त्यां ते सवलधक यथे जने द्वितीयादि समयमां देशवन्धक बध ज्ये ज्ञा शीते देशवन्धतु अतर जघन्यनी अपेक्षाके क्षुल्लक भवन्नदण्य कर्ता जेक अधिक समय परन्तु यथुं जने उत्कृष्णी अपेक्षाके सवलधतु जेटहुं अतर जतावन्धमां ज्ञाणुं ७ जेटहुं देशवन्धतु पणुं अतर भाय ७ जेटही के उत्कृष्णी अपेक्षाके ते अतर वि सागरोपम कर्ता संख्यात अधिक वर्ष प्रमाण भाय ७

(जीवस्स ज मंते ! पुढबिक्काइयत्ते णोपुढबिक्काइयत्ते पुणरवि पुढबिक्काइयत्ते प्पिग्गिदियओराल्लियसरीरप्पभोगवत्तरं काळओ केवच्चिरं भवइ ?) के मन्त ।

जीवस्य खलु पृथिवीकायिकत्वे, नो पृथिवीकायिकत्वे अप्कायिकत्वादौ, पुनरपि पृथिवीकायिकत्वे सति पृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगवन्धान्तरं कालतः कालापेक्षया कियच्चिरं भवति ? भगवानाह—‘गोयमा ! सर्ववन्धन्तरं जहण्णेणं दो खुड्डागाइं भवग्गहणाइं तिसमयऊणाइं, उक्कोसेणं अणंतं कालं, अणंता उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ कालओ’ हे गौतम ! जीवस्य तथाविधे पुनः पृथिवीकायिकत्वे सति पृथिवीकैकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगस्य सर्ववन्धान्तरं जघन्येन द्वे क्षुल्लके भवग्रहणे तिसमयन्यूने भवति उत्कृष्टेन तु अनन्तं कालम्, अनन्ता उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः कालतः कालापेक्षया भवति ‘खेत्तओ अणंता लोगा असंखेज्जा पोग्गलपरि-

पप्रओगवन्धन्तरं कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ! कोई एक जीव पृथिवीकायिकों में था, सो वहां से मरकर वह फिर पृथिवीकायिक नहीं हुआ अन्यत्र उसका जन्म हुआ, अब वह यहां से मरकर फिर पृथिवीकायिक हो गया—तो ऐसी स्थिति में पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय औदारिक शरीर प्रयोग के बंध का अन्तर काल की अपेक्षा से कितना होता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (सर्ववन्धन्तरं जहण्णेणं दो खुड्डाइं भवग्गहणाइं तिसमयऊणाइं, उक्कोसेणं अणंतं कालं अणंता उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ कालओ) ऐसी स्थिति में उसके औदारिक शरीर का सर्ववन्धान्तर जघन्य से तीन समय कम दो क्षुद्रभवग्रहण का होता है और उत्कृष्ट से अनन्तकाल का—अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल का होता है । यह तो काल की अपेक्षा से कहा गया है (खेत्तओ अणंता लोगा, असंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा) क्षेत्र की अपेक्षा से अन-

कोई एक जीव पृथ्वीकायिक पर्यायमा उत्पन्न थयो इतो त्यांथी मरीने ते पृथ्वीकाय सिगयनी इधं अन्य पर्यायमां उत्पन्न थर्थ गयो, अने त्यांथी मरीने इरीथी ते पृथ्वीकायिकेमा उत्पन्न थर्थ गयो, तो अत्री स्थितिमां पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगवधनुं अंतरकाणनी अपेक्षाये केटलु डोय छे ?

भडापीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (सर्ववन्धन्तरं जहण्णेणं दो खुड्डागं भवग्गहणाइं तिसमयऊणाइं, उक्कोसेणं अणंतं कालं, अणंता उस्सप्पिणी ओसप्पिणीओ कालओ) अत्री स्थितिमा तेना औदारिक शरीरनुं सर्ववन्धान्तरं जघन्यनी अपेक्षाये ये क्षुल्लकं अवग्रहणं करता तेषु न्यून समय प्रमाणु डोय छे अने उत्कृष्टनी अपेक्षाये अनन्तकाणनुं—अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काणनुं डोय छे आ कथनं तो काणनी अपेक्षाये कथुं छे (खेत्तओ अणंतालोगा, असंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा) क्षेत्रनी अपेक्षाये ते

यद्वा 'क्षेत्रापेक्षया अनन्ता लोकाः, असख्येया पुद्गलपरिवर्ताः, पृथिवी कायिकैकेन्द्रियादारिकशरीरमयोगस्य सर्वपन्धान्तरमुत्कृष्टेन भवति, 'तेज पोमात् परिपटा आबलियाए असखेज्जइमागो' ते खलु पुद्गलपरिवर्ता आबलिकाया असख्येयमागो भवति अत्र च (उत्कृष्टेन अनन्त कालम्) इत्यत्र कालानन्तत्वं घनस्पतिकायस्थितिकालापेक्षया योध्यम्, अनन्तकालविगजनार्थमुक्तम्—'अनन्ता उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः' इति, तस्यानन्तस्य कालस्य समयपु उत्सर्पिण्यवसर्पिणीव समयैरपह्रियमाणेषु अनन्ता उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यो भवन्ति इति, इदं च कालापेक्षयोक्तम्, क्षेत्रापेक्षया तु 'अनन्ता लोका' इत्युक्तम्, अपमर्षः—तस्यानन्तकालस्य समयेषु लोकाकाशैरपह्रियमाणेषु अनन्ता—लोका भवन्ति, तत्र स्थित्यन्त पुद्गल

न्तलोक असख्यात पुद्गल परावर्तरूप होता है। (ते णं पोग्गलपरियटा आबलियाए असखेज्जइमागो) वे पुद्गल परावर्त आबलिका के असख्यात भाग प्रमाण होते हैं। यहाँ उत्कृष्ट से जो अनन्तकाल रूप समय कहा गया है वह घनस्पति काय की स्थितिकाल की अपेक्षा से कहा गया है। उस अनन्त काल को किस रूप से लेना चाहिये इसके लिये 'यह काल अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणीरूप यहाँ लेना चाहिये' ऐसा कहा गया है। क्योंकि अनन्तकाल के समयों में अनन्त उत्सर्पिणी और अनन्त अवसर्पिणी हो जाती हैं। यह कथन काल की अपेक्षा से किया गया है। "अनन्तलोका" ऐसा कथन क्षेत्र की अपेक्षा से किया गया है। क्योंकि लोकाकाशों से अपह्रियमाण उन अनन्तकाल के समयों में अनन्तलोक आ जाते हैं। यद्वा कितने पुद्गलपरावर्त होते हैं? इस प्रश्न के

अन्तर अनन्तलोक—अत्र अन्त पुद्गल परावर्त रूप होता है (तेज पोमात् परिपटा आबलियाए असखेज्जइमागो) ते पुद्गल परावर्त आबलिकाना अस अन्त भाग प्रमाण होता है अर्थात् उत्कृष्ट की अपेक्षा से जो अनन्त काल रूप समय कहा है, ते घनस्पतिकायना स्थितिकाल की अपेक्षा से कहा है ते अनन्तकालने केवल रूप अखण्ड इतने लोकाके ते अतापवा भाटे अत्रुं इहेवामां आनुं है 'ते काल अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणीरूप अर्थात् समयान्ते' अत्रुं है अनन्तकालना समयोभां अनन्त उत्सर्पिणी अने अनन्त अवसर्पिणी यत् अत्र है आ कथन काल की अपेक्षा से इतना आनुं है 'अनन्ता लोका' आ कथन क्षेत्र की अपेक्षा से इतना आनुं है, अत्रुं है लोकाकाशो अपह्रिय भाग ते अनन्त कालना समयोभां अनन्तलोक आवी अत्रुं है त्वां इतना पुद्गल परावर्त थाय है ?

પરાવર્તાઃ ભવન્તિ ? इति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाह-असंख्येयाः पुद्गलपरावर्ताः, पुद्गल-
परावर्तलक्षणन्तु-दशभिः कोटीकोटिभिः अद्वापल्योपमानायेकं सागरोपमं, दशभि-
सागरोपमकोटीकोटिभिस्तसर्पिणी, अवसर्पिण्यपि एवमेव, अनन्ताः ताः उत्सर्पि-
ण्यवसर्पिण्यः पुद्गलपरावर्त, पुद्गलपरावर्तानामेवासंख्यातत्वनियमनायाह-आवलि-
काया असंख्येयभागः इति, 'देसबंधंतरं जहण्णेणं खुड्ढागभवग्गहणं समयाहियं,
उक्कोसेणं अणंतं कालं जाव आवलियाए असंखेज्जइभागो' जीवस्य तथाविधे
पुनरपि पृथिवीकायिकत्वे पृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरप्रयोगस्य देशवन्धान्तर
जघन्येन क्षुल्लकभवग्रहणं समयाधिकं भवति, उत्कृष्टेन अनन्तं कालं यावत् अनन्ता

उत्तरमें "असंख्येयाः पुद्गलपरावर्ताः" ऐसा कहा गया है। पुद्गलपरावर्तका
स्वरूप इस प्रकार से है-

दश कोटीकोटि अद्वापल्योपम का एक सागरोपम काल होता
है। दश कोटीकोटि सागरोपम काल की एक अवसर्पिणी होती
है और इतने ही काल की एक उत्सर्पिणी होती है। ऐसी अनन्त
उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी हो जावें तब एक पुद्गलपरावर्तकाल
होता है। पुद्गलपरावर्तों में असंख्यातता के नियमन के लिये "आव-
लिकाया असंख्येयभागः" ऐसा कहा है। (देसबंधंतरं जहण्णेणं खुड्ढा-
गभवग्गहणं, समयाहियं, उक्कोसेणं अणंतं कालं जाव आवलियाए
असंखेज्जइभागो) यहां देशबंध का अन्तर जघन्य से क्षुद्रभवग्रहणपर्यन्त
होता है, और उत्कृष्ट से अनन्त काल का होता है इस अनन्त काल में
अनन्त उत्सर्पिणी और अनन्त अवसर्पिणी आ जाती हैं। यह कथन काल

આ પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે કહ્યું છે કે "અસંખ્યેયાઃ પુદ્ગલપરાવર્તાઃ" પુદ્ગલ
પરાવર્તનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે-દસ કોટાકોટિ અર્ધા પલ્યોપમનો એક સાગ-
રોપમ કાળ થાય છે દસ કોટાકોટિ સાગરોપમ કાળની એક અવસર્પણી
થાય છે અને એટલા જ કાળની એક ઉત્સર્પિણી થાય છે. એવી અનંત ઉત્સ-
ર્પિણી અને અવસર્પિણી વ્યતીત થઈ જાય ત્યારે એક પુદ્ગલ પરાવર્ત કાળ
થાય છે. પુદ્ગલ પરાવર્તોમાં અસંખ્યાતતાના નિયમનને માટે આ પ્રમાણે
કહેવામાં આવ્યું છે-(આવલિકાયા અસંખ્યેયભાગઃ)

(દેસબંધંતરં જહણ્ણેણં કુદ્ધાગભવગ્ગહણં સમયાહિયં, ઉક્કોસેણ અણંતં કાલ
જાવ આવલિયાએ અસંખેજ્જઇ ભાગો) અહીં દેશબંધનું અંતર જઘન્યની અપે-
ક્ષાએ ક્ષુદ્ર ભવગ્રહણ કરતાં એક અધિક સમય પ્રમાણે હોય છે, અને ઉત્કૃષ્ટની
અપેક્ષાએ અનંતકાળનું હોય છે આ અનંતકાળમાં અનંત ઉત્સર્પિણી અને
અનંત અવસર્પિણી કાળ આવી જાય છે. આ કથન કાળની અપેક્ષાએ કરવામાં

उत्सर्पिष्यवसर्पिष्यः कावसाः, क्षेत्रतः अनन्ता लोका, असन्धेयाः पुद्गलपरावर्ती,
 ते स्वच्छ पुद्गलपरावर्ती आवलिकाया असंस्मयेयमागो भवति तत्र देशबन्धान्तर
 अघन्येन समयाधिक ध्रुल्लकमवग्रणं यया-पृथिवीकायिको देशबन्धकः सन् स्रुत
 पृथिवीकायिकेषु ध्रुल्लकमवग्रहण स्थित्वा मृतः सन् पुनरपि अविग्रहेण पृथिवी-
 कायिकेष्वेवोत्पत्तौ, तत्र च सर्वषड्धसमयानन्तरं देशबन्धको जात, एवं रीत्या
 सर्वबन्धसमयेनाधिकमेक ध्रुल्लकमवग्रहणं देशबन्धयोरन्तर भवति इति भावः,
 उत्कृष्टेन तु सर्वषडात्तरदेव देशबन्धान्तरस्यापि उक्तमेव, 'जहापुडविष्काइयाण
 एष षणस्सइकाइयवज्जाग आव मणुस्साण' यया पृथिवीकायिकानां सर्वबन्धा-

की अपेक्षा से है-क्षेत्र की अपेक्षा से अनन्त लोक, असंख्यान पुद्गलप-
 रावर्त होते हैं। ये अमरूयात् पुद्गलपरावर्त आवलिका के असंखयात्तबे
 भाग प्रमाण होते हैं। यहाँ देशबन्ध का जो अन्तर अघन्य से एक समय
 अधिक ध्रुल्लकमवग्रहणपर्यन्त कहा गया है-वह इस प्रकार से है-कोई
 पृथिवीकायिक जीव देशबन्धक होकर मरा और पृथिवीकायिकों में ही
 ध्रुल्लकमवग्रहण तक रहा और फिर यहाँ से मी मर कर वह पुनः
 अविग्रहगति से पृथिवीकायिकों में ही उत्पन्न हुआ-यहाँ सर्वबन्ध के
 समय के बाद वह देशबन्धक हो गया-इस रीति से सर्वबन्ध के समय
 से अधिक एक ध्रुल्लकमवग्रहणरूप दो देशबन्धों में अन्तराल होता है।
 तथा उत्कृष्ट से जो यहाँ देशबन्ध का अन्तर कहा गया है वह सर्वबन्ध
 के अन्तर की तरह से ही कहा गया है। यह सर्वबन्ध का अन्तर प्रकट
 ही किया जा चुका है। (जहापुडविष्काइयाणं एष षणस्सइकाइयवज्जागं

आन्धुं उ क्षेत्रनी अपेक्षाजे ते अतर अनततोः-असंख्यात् पुद्गल परावर्त
 इय क्षेत्र उ ते असंख्यात् पुद्गल परावर्त आवलिकाना असंख्यात्तमा जात्र
 प्रमाण क्षेत्र उ अर्थां देशबन्धनु अतर अघन्यनी अपेक्षाजे ध्रुल्लक मवग्रहणं
 इत्यां ज्येक अधिक समयनु ने कहेवामा आन्धुं उ, तेनुं स्थलीकस्व नीष
 प्रभावे उ-काल पृथ्वीकायिक एव देशबन्धक यथि मरत्य पायेः अने पृथ्वी
 कायिकानां ध्रुल्लक मवग्रहणं पर्यन्त रह्ये अने इरीषी त्वाथी पणु मरीने
 ते पुन. अविग्रहगतिथी पृथ्वीकायिकानां उत्पत्त जयेः अर्थां सर्वबन्धना
 समय जात ते देशबन्धक यथ जयेः आ रीते ज देशबन्धो वस्तिनुं अतर
 सर्वबन्धना समयथी अधिक ज्येक ध्रुल्लक मवग्रहणरूप जाय उ तथा अर्थां
 देशबन्धनुं ने उत्कृष्ट अतर आन्धुं उ ते सर्वबन्धना अतर नेट्ठं ए आष
 वामां आन्धुं उ आ सर्वबन्धनु अतर आभण प्रकट करवामां आन्धुं उ
 "जहापुडविष्काइयाणं, एष षणस्सइकाइयवज्जागं आव मणुस्साण" ने प्रभावे

न्तरं देशवन्धान्तरं चोक्तम् एवं तथैव वनस्पतिकाधिकवर्णाणां यावत् अष्कायिकानां तेजस्कायिकानां वायुकायिकानां विकलेन्द्रियाणां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोनिकानाम्, मनुष्याणां चापि औदारिकशरीरप्रयोगस्य सर्ववन्धान्तरं देशवन्धान्तरं चावसेयमित्यर्थः किन्तु 'वणस्सइकाइयाणं दोन्नि खुड्डाइं, एवं चेव, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं असंखिज्जाओ उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेज्जा लोगा वनस्पतिकायिकानामौदारिकशरीरप्रयोगस्य सर्ववन्धान्तरं जघन्येन द्वे क्षुल्लके भवग्रहणे एवं चैव - त्रिसमयोने भवति, तथाहि - वनस्पतिकायिकस्त्रिसमयेन विग्रहेणोत्पन्नः तत्र च विग्रहस्य समयद्वयमनाहारकस्तृतीये च समये सर्ववन्धको भूत्वा क्षुल्लकमवं च जीवित्वा पुनः पृथिव्यादिषु क्षुल्लकमवमेव स्थित्वा पुनरविग्रहेण वनस्पतिकायिकेषु एवोत्पन्नः प्रथमसमये च सर्ववन्धकोऽसा-

जाव मणुस्साणं) जिस तरह से पृथिवीकायिकों का सर्ववन्धान्तर और देशवन्धान्तर कहा गया है उसी तरह से वनस्पतिकायिकों को छोड़कर यावत्-अष्कायिकों के, तेजस्कायिकों के, वायुकायिकों के, विकलेन्द्रियों के, पंचेन्द्रियतिर्यग्गोनिकों के और मनुष्यों के औदारिक शरीर प्रयोग के सर्ववन्धान्तर और देशवन्धान्तर को जानना चाहिये। किन्तु (वणस्सइकाइयाणं दोन्नि खुड्डाइं, एवं चेव उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं, असंखिज्जाओ उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेज्जा लोगा) वनस्पतिकायिक जो जीव हैं उनके औदारिक शरीरप्रयोग का सर्ववन्धान्तर जघन्यसे तीन समय कम दो क्षुल्लकभवग्रहणपर्यन्त होता है और वह इस प्रकार से होता है-जैसे कोई वनस्पतिकायिक जीव तीन समय वाले विग्रह से उत्पन्न हुआ वहां वह विग्रह के दो समयों में अनाहारक रहा और तीसरे समय में उसने औदारिक शरीर का

पृथ्वीकायिकेणुं सर्ववन्धातरं अने देशवन्धान्तरं कडेवामां आण्युं छे, अणुं प्रमाणे वनस्पतिकायिके सिवायना मनुष्य पर्यन्तना-अट्टये के अप्कायिक, तेजस्कायिक, विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तिर्यग्गोनिक अने मनुष्येना औदारिक शरीर प्रयोगना सर्ववन्धनुं अने देशवन्धनुं अतरं समणुं. परन्तु (वणस्सइकाइयाणं दोन्नि खुड्डाइं, एवं चेव उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं, असंखिज्जाओ उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेज्जा लोगा) वनस्पतिकायिक एवेना औदारिक शरीर प्रयोगना सर्ववन्धनुं जघन्य अंतरं ये क्षुल्लक भवग्रहण कृता न्यून समयनुं डोय छे तेनु स्पष्टीकरण नीचे प्रमाणे छे-अमके कथं वनस्पतिकायिक एव त्रयु समयवाणी विग्रहगतिथी उत्पन्न थये, त्यां ते विग्रहना ये समयोमा अनाहारक रथो अने तीने समये तेणु औदारिक शरी-

વિતિ જગન્નેન સર્વવન્ધપોક્ષિસમયોને દ્વે ક્ષુલ્લકમવગ્રહણે મન્તરં મવતિ,
 શ્નિમાયઃ ઉત્કૃષ્ટેન ધુ સઘવન્ધાન્તરમ્ અસરપાતં કાલમ્ , તમેવાહ-મ્
 રૂપાતા ઉત્સર્પિણ્યવસર્પિણ્ય કાલત્ કાલાપેક્ષયા ધોધ્યાઃ, ક્ષેત્રતઃ ક્ષેત્રાપેક્ષયા ધુ
 અસમ્યેયા લોકાઃ ધોધ્યાઃ, ' એવ દસર્વંતરંપિ ઉત્કોસેણ પુઠ્ઠિકાલો ' એવ યથા
 પૃથિવ્યાદીનાં દેહવધાન્તર મધન્નેન સમયાધિકં ક્ષુલ્લકમવગ્રહણમુકત તૈથૈવ યવ

સર્વવધ ક્રિયા-ઇસ તરહ સઘ વધક શોકર વહ ઘર્ષાં ક્ષુલ્લક મવગ્રહ
 ણપર્યન્ત જીવિત રહા-પાદ મેં વહ પુનઃ પૃથિવ્યાદિકોં મેં ક્ષુલ્લકમવગ્ર
 હણપર્યન્ત જીવિત રહા-ફિર યહાં સે મરકર વહ અવિગ્રહગતિ સે
 ઘનસ્પતિકાધિકોં મેં શી ઉત્પન્ન હો ગયા ઓર ઘર્ષાં વહ પ્રથમ સમય મેં
 શી સર્વવધક યવ ગયા-ઇસ તરહ સે પહિલે સર્વવધક મેં ઓર ઇત
 સઘ વધક મેં અંતર જગન્ન્ય સે ત્રીન સમય કમ ઘો ક્ષુલ્લકમવગ્રહણ કા
 આ જાતા હૈ । તથા ઉત્કૃષ્ટ સે સર્વવધ કા અંતર અસમ્યાતકાલ કા
 હોતા હૈ યહી યાત (ઉત્કોસેણ અસસ્વેજ્જં વાલં) આદિ સૂત્રપાઠ દ્વારા
 વ્યક્ત કી હૈ-ઉત્કૃષ્ટ સે અંતર અસમ્યાત ઉત્સર્પિણી મવસર્પિણીકાલ
 કા હોતા હૈ-એસા જો યહ કથન હૈ વહ કાલ કી અપેક્ષા સે હૈ એસા
 જાનના ચાહિયે । તથા-ક્ષેત્ર કી અપેક્ષા સે જો સર્વવધ કા ઉત્કૃષ્ટ
 અંતર હોતા હૈ-વહ અસમ્યાતલોકપ્રમાણ હોતા હૈ । (યથ દેસવધેતરં પિ
 ઉત્કોસેણ પુઠ્ઠિકાલો) જિસ તરહ સે પૃથિવ્યાદિકોં કા દેશવધાન્તર
 જગન્ન્ય સે સમયાધિક ક્ષુલ્લકમવગ્રહણ કહા ગયા હૈ ઇસી તરહ સે

એનો સર્વવધ કથો-આ રીતે સર્વવધક ઘટને તે ત્યાં મુલક ભવમહત્વ પર્વત
 દ્વિવિત વધો. ત્યારબાદ તે પુનઃ પૃથ્વીકાય આદિકોં મુલક ભવમહત્વ પર્વત
 દ્વિવિત રહ્યો-પછી ત્યાંથી મરીને તે અવિમહત્વવિધી વનસ્પતિશાખિકોં અ
 ઉત્પન્ન થઈ ગયો અને ત્યાં તે પ્રથમ સમયમાં જ સર્વવધક ઘટ ગયો. આ
 રીતે પહેલાં સર્વવધ અને આ સર્વવધની વચ્ચે વધ-વધની અપેક્ષાએ તે
 મુલક ભવમહત્વ કરતા ત્રણ ન્યૂન સમયનું અંતર પડી બધ છે તથા સર્વ
 અધનુ વધારેમાં વધારે અંતર અસમ્યાત કાળનું હોય છે, એ વાત " ઉત્કો
 સેણ અસતોઘં કાલં " ઉત્સર્પિણી સૂત્રપાઠ દ્વારા અમ્લ કરવામાં આવી છે ઉત્કો
 ળની અપેક્ષાએ જે અસમ્યાત ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી કાળનું અંતર કહેવામાં
 આનું છે તે કથન કાળની અપેક્ષાએ કરવામાં આનું છે એમ સમજવું
 શક્યની અપેક્ષાએ જે સર્વવધનું ઉત્કૃષ્ટ અંતર છે, તે અસમ્યાત લોકપ્રમાણ
 હોય છે (યથ દેસવધેતરં પિ ઉત્કોસેણ પુઠ્ઠિકાલો) જે પ્રમાણે પૃથ્વીકાયા
 ક્રિયા દેશવધનું અંતર વધ-વધની અપેક્ષાએ મુલક ભવમહત્વ કરતાં એ

स्पतेरपि औदारिकशरीरप्रयोगस्य देशवन्धान्तरं जघन्येन समयाधिकं क्षुल्लकभव-
ग्रहणं बोध्यम्, उत्कृष्टेन तु वनस्यते देशवन्धान्तरं पृथिवीकालः पृथिवीकायिक-
स्थितिकालोऽसंख्यातावसर्पिणीरूपो बोध्यः, अथौदारिकदेशवन्धकादीनामल्पबहु-
त्वादिप्ररूपणायाह—‘एएसि णं भंते ! जीवाणं ओरालियसरीरस्स देसबंधगाणं
सव्वबंधगाणं, अबंधगाण य कयरे कयरेहिं तो जाव विसेसाहिया वा ?’ हे भदन्त !
एतेषां खलु पूर्वोक्तानां जीवानाम् औदारिकशरीरस्य देशवन्धकानां सर्ववन्धकानाम्
अवन्धकानां च कतरे कतरेभ्यो यावत् अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका
वा सन्ति ? इति प्रश्नः, भगवानाह—‘गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा ओरालियसरी-

वनस्पति का भी औदारिक शरीरप्रयोग का देशवन्धान्तर जघन्य से
समयाधिक क्षुल्लकभवग्रहण कहा गया है। तथा उत्कृष्ट से वनस्पति
के औदारिकशरीरप्रयोग का देशवन्धान्तर पृथिवीकायिक का स्थिति-
काल जितना जानना चाहिये। यह स्थितिकाल असंख्यात उत्सर्पिणी
और असंख्यात अवसर्पिणीरूप होता है।

अब सूत्रकार औदारिकशरीरप्रयोग के देशबंधादिकों की अल्पव-
हुता की प्ररूपणा करते हैं—इसमें गौतम ने प्रभु से ऐसा पूछा है—
(एएसि णं भंते ! जीवाणं ओरालियसरीरस्स देसबंधगाणं सव्वबंध-
गाणं अबंधगाण य कयरे कयरेहिं तो जाव विसेसाहिया वा) हे भदन्त !
इन पूर्वोक्त औदारिक शरीर के देशबंधकों में, सर्वबंधकों में और
अवन्धकों के बीचमें कौन किनसे यावत्—अल्प हैं, कौन किन से बहुत
हैं, और कितने बराबर हैं, और कौन किनकी अपेक्षा से विशेषाधिक

अधिक समयनु कहुं छे, अण प्रमाणे वनस्पतिकायना औदारिक शरीर प्रयो-
गना देशबंधनु अतर पणु क्षुल्लक भवग्रहणु करतां अण अधिक समय प्रमाणु
समजणु तथा वनस्पतिकायिकेना औदारिक शरीर प्रयोगनु उत्कृष्ट देशबंधा-
न्तर पृथिवीकायिकेना स्थितिकाण नेटलु अण समजणु ते स्थितिकाण असंख्यात
उत्सर्पिणी अने अवसर्पिणी इप डोय छे डवे सूत्रकार औदारिक शरीर प्रयो-
गना देशबंधादिकेनी अल्प बहुतानु निइपणु करे छे—

आ विषयने अनुदक्षिने गौतम स्वामी भड वीर प्रभुने अणो प्रश्न पूछे
छे के—(ए एसि णं भंते ! जीवाणं ओरालियसरीरस्स देसबंधगाणं सव्वबंधगाणं
अवंधगाणं य कयरे कयरेहिं तो जाव विसेसाहिया वा ?) हे भदन्त ! आ
पूर्वोक्त औदारिक शरीरना देशबंधकेमा, सर्वबंधकेमां केणु केना करतां अल्प
छे, केणु केना करता अणिक छे, केणु केनी परापर छे, अने केणु केना
करता विशेषाधिक छे ?

रस्स सव्यवधगा, अवधगा विसेसाहिया, देसबंधगा असखेज्जगुणा ' हे गौतम ! सर्वस्तोकाः जीवाः औदारिकशरीरस्य सर्ववन्धका भवन्ति, तेषामुत्पत्तिमये एव मात्रात्, अवन्धका विशेषाधिकाः विग्रहगत्या सिद्धत्वाद्वा च तेषां सदमात्रेण सर्ववधकापेक्षया विशेषाधिकत्वात्, देशवन्धकास्तु असक्यातगुणा भवन्ति, देशवन्धकालस्यासक्यातगुणत्वात् ॥ सू० ४ ॥

वैक्रियशरीरप्रयोगवन्धकपता ।

औदारिकशरीरप्रयोगवध प्ररूप्य वैक्रियशरीरप्रयोगवन्धं प्ररूपयति—'वेठं चिय' इत्यादि ।

मूलम्—वेउठ्विय सरीरप्पओगवधे ण भते ! कइविहे पणणत्ते गोयमा ! टुविहे पणणत्ते, त जहा—एग्गिदियवेउठ्वियसरीरप्पओगवधे य, पच्चिदियवेउठ्वियसरीरप्पओगवधे य । जइ एग्गिदियवेउठ्वियसरीरप्पओगवधे किं वाउक्काइयएग्गिदियसरीरप्पओगवधे य अवाउक्काइयएग्गिदियसरीरप्पओगवधे य ? एव एएण अभिलावेण जहा ओगाहण-सठाणे वेउठ्विय

हैं ? उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (सन्वययोवा जीवा ओरालिय सरीरस्स सम्बधघगा, अवधगा विसेसाहिया, देसबंधगा असखेज्जगुणा) औदारिक शरीर के सर्ववधक जीव सप से कम हैं—क्यों कि ऐसे जीव उत्पत्ति के समय में ही होते हैं। अवधक जीव इनकी अपेक्षा विशेषाधिक हैं, क्यों कि विग्रहगति में और सिद्धत्व आदि में इनका सद्भाव होता है। तथा देशवधक जीव असंग्यातगुणित हैं। क्यों कि देशवध का काल असक्यातगुणा होता है ॥ सू० ४ ॥

भद्रावीर भुने। उत्तर—'गोयमा।' हे गौतम ! (सन्वययोवा जीवा ओरालियसरीरस्स सम्बधघगा, अवधगा विसेसाहिया देसबंधगा असखेज्जगुणा) औदारिक शरीरना सर्ववधक एवे। सौधी ज्ञाणां उ। कालु के ज्ञेवां एवे। उत्पत्तिना समये ए। दोय उ। अवधक एव सर्ववधकः इति। विशेषाधिक उ, कालु के विग्रह-प्रतिभां अने सिद्धत्व आदिभिं तेने। सद्भाव दोय उ। देय अवधक एव अवधकः इति। असक्यातगुणां दोय उ, कालु के देशवधेने। काल असक्यातगुणा दोय उ ॥ सू० ४ ॥

सरीरभेओ तहा भाणियव्वो जाव-पज्जत्तसव्वट्टुसिद्धअणुत्तरो-
ववाइय -- कप्पाईय -- वेमाणिय -- देवपंचिंदियवेउव्वियसरीरप्प-
ओगबंधे य अप्पज्जत्तसव्वट्टुसिद्धअणुत्तरोववाइय जाव पओग-
बंधे य । वेउव्वियसरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स
उदएणं ? गोयमा ! वीरियसजोगसहव्वयाए जाव आउय वा,
लद्धिं वा पडुच्च वेउव्वियसरीरप्पओगनामाए कम्मस्स
उदएणं वेउव्वियसरीरप्पओगबंधे वाउक्काइयएगिंदिय
वेउव्वियसरीरप्पओगबंधे पुच्छा ? गोयमा ! वीरियसजोग-
सहव्वयाए चेव जाव लद्धिं च पडुच्च वाउक्काइयएगिंदिय-
वेउव्विय जाव बंधे । रयणप्पभापुढविनेरइयपंचिंदियवेउव्विय-
सरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? गोयमा !
वीरियसजोगसहव्वयाए जाव आउयं वा पडुच्च, रयणप्पभा-
पुढविनेरइयपंचिंदिय जाव बंधे । एवं जाव अहे सत्तमाए ।
तिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरपुच्छा, गोयमा ! वीरिय
सजोगसहव्वयाए चेव जाव लद्धिं च पडुच्च जहा वाउ-
क्काइयाणं । मणुस्सपंचिंदियवेउव्वियसरीरप्पओगबंधे एवं
चेव । असुरकुमार--भवणवासिदेवपंचिंदियवेउव्वियसरीरप्प-
ओगबंधे जहा रयणप्पभापुढविनेरइया । एवं जाव थणिय-
कुमारा । एवं वाणमंतरा, एवं जोइसिया । एवं सोहम्मकप्पो-
वगया वेमाणिया । एवं जाव अच्चुय--गेवेज्ज-कप्पाईया वेमां-
णिया एवं चेव । अणुत्तरोववाइय कप्पाईया वेमाणिया एवं

चेव । वेदवियसरीरप्पओगवधे ण भते ! किं देसवधे, सव्ववधे ?
 गोयमा ! देसवधे वि, सव्ववधे वि । वाउक्काइय एगिंदिय० एव
 च्चेव । रयणप्पभापुढविनेरइया एव चेव । एव जाव, अणुत्तरो
 ववाइया । वेदवियसरीरप्पओगवधे ण भते ! कालओ केव
 च्चिचर होइ ? गोयमा ! सव्ववधे जहण्णेण एकक समय, उक्को-
 सेणं दो समया, देसवधे जहण्णे ण एकक समय, उक्कोसेणं
 तेत्तीस सागरोवमाइ समयूणाइ । वाउक्काइयएगिंदियवेद
 वियपुच्छा, गोयमा ! सव्ववधे एकक समय, देसवधे जहण्णेण
 एकक समय, उक्कोसेणं अतोमुहुत्त । रयणप्पभापुढविनेर
 इयपुच्छा, गोयमा ! सव्ववधे एकक समय, देसवधे जहण्णेण
 दसवाससहस्साइ तिसमयऊणाइ, उक्कोसेणं सागरोवम समऊणं,
 एव जाव अहेसत्तमा, नवर देसवधे जस्स जा जहन्निया ठिई,
 सा तिसमयूणा कायव्वा, जस्स जा उक्कोसा सा समयूणा ।
 पविंदियतिरिक्खजोणियाण, मणुस्साण य जहा वाउक्काइयाणं
 असुरकुमार-नागकुमार० जाव अणुत्तरोववाइयाणं जहा
 नेरइयाण, नवर जस्स जा ठिई सा भाणियव्वा, जाव अणुत्तरो
 ववाइयाणं सव्ववधे एकक समय, देसवधे जहण्णेण एकक
 तीस सागरोवमाइ तिसमयूणाइ, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ,
 समयूणाइ । वेदवियसरीरप्पओगवधतर णं भते ! कालओ
 केवच्चिचर होइ ? गायमा ! सव्ववधतर जहण्णेणं एकक समय,
 उक्कोसेण अणतं काल, अणताओ जाव आवलियाए असंखे

जड़भागो । एवं देसबंधंतरं पि । वाउक्काइयवेउव्विय
 सरीरपुच्छा, गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्को-
 सेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइ भागं, एवं देसबंधंतरं पि । तिरि-
 क्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरप्पओगबंधंतरं पुच्छा, गोयमा !
 सव्वबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडीपुहुत्तं,
 एवं देसबंधंतरं पि मणुस्सस्स वि ॥ सू० ५ ॥

छाया—वैक्रियशरीरप्रयोगवन्धः खलु भदन्त ! कतिविधः प्रज्ञप्तः ? गौतम !
 द्विविधः प्रज्ञप्तः, तद्यथा—एकेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगवन्धश्च, पञ्चेन्द्रियवैक्रिय-
 शरीरप्रयोगवन्धश्च, यदि एकेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगवन्धः किं वायुकायिकैकेन्द्रिय-
 शरीरप्रयोगवन्धश्च, अवायुकायिकैकेन्द्रियशरीरप्रयोगवन्धश्च ? एवम् एतेन अभि-

॥ वैक्रियशरीरप्रयोगवक्तव्यता ॥

‘वेउव्वियसरीरप्पओगवधेणं भंते ! कइविहे पणत्ते ?’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(वेउव्वियसरीरप्पओगवधेणं भंते ! कइविहे पणत्ते) हे
 गौतम ! वैक्रियशरीरप्रयोगवन्ध कितके प्रकारका कहा गया है ? (गोयमा)
 हे गौतम ! (दुविहे पणत्ते) वैक्रियशरीरप्रयोगवन्ध दो प्रकारका कहा गया
 है । (तं जहा) जो इस प्रकार से है (एगिंदियवेउव्वियसरीरप्पओगवधे
 य, पंचिंदिय वेउव्वियसरीरप्पओगवधे य) एकेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्र-
 योगवन्ध और पंचेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगवन्ध (जइ एगिंदिय वेउव्विय
 सरीरप्पओगवधे किं वाउक्काइय एगिंदियसरीरप्पओगवधे य, अवा-

—: वैक्रियशरीरप्रयोगवक्तव्यता :—

(वेउव्वियसरीरप्पओगवधे णं भंते ! कइविहे पणत्ते) इत्यादि—

सूत्रार्थ—(वेउव्वियसरीरप्पओगवधे णं भंते ! कइविहे पणत्ते ?) हे
 गौतम ! वैक्रिय शरीर प्रयोग वन्ध कितके प्रकारका कहा है ? (गोयमा !)
 हे गौतम ! (दुविहे पणत्ते) वैक्रिय शरीर प्रयोग वन्ध दो प्रकारका कहा है ।
 (तंजहा) जो इस प्रकार से है—(एगिंदिय वेउव्वियसरीरप्पओग-
 वधे य, पंचिंदियवेउव्वियसरीरप्पओगवधे य) (१) एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयोग
 वन्ध अने (२) पंचेन्द्रियवैक्रिय शरीर प्रयोग वन्ध (जइ एगिंदियवेउव्विय-
 सरीरप्पओगवधे किं वाउक्काइयएगिंदिय सरीरप्पओगवधे य)

चेष । वेउव्वियसरीरप्पओगवधे ण भते । किं देसवधे, सव्ववधे ?
 गोयमा ! देसवधे वि, सव्ववधे वि । वाउक्काइय एग्गिदिय० एव
 चेष । रयणप्पभापुडविनेरइया एव चेष । एव जाव, अणुत्तरो
 ववाइया । वेउव्वियसरीरप्पओगवधे ण भते । कालओ केव
 च्चिचर होइ ? गोयमा ! सव्ववधे जहण्णेण एक्कं समय, उक्को
 सेणं दो समया, देसवधे जहण्णे ण एक्क समय, उक्कोसेणं
 तेत्तीस सागरोवमाइ समयूणाइ । वाउक्काइयएग्गिदियवेउ
 व्वियपुच्छा, गोयमा ! सव्ववधे एक्क समय, देसवधे जहण्णेण
 एक्क समय, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्त । रयणप्पभापुडविनेर
 इयपुच्छा, गोयमा ! सव्ववधे एक्क समय, देसवधे जहण्णेण
 दसवाससहस्साइ तिसमयऊणाइ, उक्कोसेणं सागरोवम समऊणं,
 एव जाव अहेसत्तमा, नवर देसवधे जस्स जा जहन्निया ठिई,
 सा तिसमयूणा कायव्वा, जस्स जा उक्कोसा सा समयूणा ।
 पच्चिदियतिरिक्खजोणियाण, मणुस्साण य जहा वाउक्काइयाणं
 असुरकुमार-नागकुमार० जाव अणुत्तरोववाइयाणं जहा
 नेरइयाण, नवर जस्स जा ठिई सा भाणियव्वा, जाव अणुत्तरो
 ववाइयाणं सव्ववधे एक्क समय, देसवधे जहण्णेण एक्क
 तीस सागरोवमाइ तिसमयूणाइ, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ,
 समयूणाइ । वेउव्वियसरीरप्पओगवधतर णं भते । कालओ
 केवच्चिचर होइ ? गोयमा ! सव्ववधतर जहण्णेणं एक्क समय,
 उक्कोसेण अणतं काल, अणताओ जाव आवलियाए असंखे

जड़भागो । एवं देसबंधंतरं पि । वाउक्काइयवेउव्विय
 सरीरपुच्छा, गोयमा ! सवबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्को-
 सेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइ भागं, एवं देसबंधंतरं पि । तिरि-
 व्वजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरप्पओगबंधंतरं पुच्छा, गोयमा !
 सवबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडीपुहुत्तं,
 एवं देसबंधंतरं पि मणुस्सस्स वि ॥ सू० ५ ॥

छाया—वैक्रियशरीरप्रयोगवन्धः खलु भदन्त ! कतिविधः प्रज्ञप्तः ? गौतम !
 द्विविधः प्रज्ञप्तः, तद्यथा—एकेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगवन्धश्च, पञ्चेन्द्रियवैक्रिय-
 शरीरप्रयोगवन्धश्च, यदि एकेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगवन्धः किं वायुकायिकैकेन्द्रिय-
 शरीरप्रयोगवन्धश्च, अवायुकायिकैकेन्द्रियशरीरप्रयोगवन्धश्च ? एवम् एतेन अभि-

॥ वैक्रियशरीरप्रयोगवक्तव्यता ॥

‘वेउव्वियसरीरप्पओगबंधेणं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ?’ इत्यादि ।
 सूत्रार्थ—(वेउव्वियसरीरप्पओगबंधेणं भंते ! कइविहे पण्णत्ते) हे
 गौतम ! वैक्रियशरीरप्रयोगबंध कितके प्रकारका कहा गया है ? (गोयमा)
 हे गौतम ! (दुविहे पण्णत्ते) वैक्रियशरीरप्रयोगवन्ध दो प्रकारका कहा गया
 है । (तं जहा) जो इस प्रकार से है (एगिंदियवेउव्वियसरीरप्पओगबंधे
 य, पंचिंदिय वेउव्वियसरीरप्पओगबंधे य) एकेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्र-
 योगबंध और पंचेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगबंध (जइ एगिंदिय वेउव्विय
 सरीरप्पओगबंधे किं वाउक्काइय एगिंदियसरीरप्पओगबंधे य, अवा-

—: वैक्रियशरीरप्रयोगवक्तव्यता :—

(वेउव्वियसरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते) इत्यादि—

सूत्रार्थ—(वेउव्वियसरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ?) हे
 गौतम ! वैक्रिय शरीर प्रयोग बंध केटला प्रकारनो कह्यो छे ? (गोयमा !)
 हे गौतम ! (दुविहे पण्णत्ते) वैक्रिय शरीर प्रयोग बंध छे प्रकारनो कह्यो छे.
 (तंजहा) जे जे प्रकारे नीचे प्रमाण्णे छे—(एगि दिय वेउव्वियसरीरप्पओग-
 बंधे य, पंचिंदियवेउव्वियसरीरप्पओगबंधे य) (१) एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयोग
 बंध अने (२) पंचेन्द्रियवैक्रिय शरीर प्रयोग बंध (जइ एगिंदियवेउव्विय-
 सरीरप्पओगबंधे किं वाउक्काइय एगिंदिय सरीरप्पओगबंधे य, अवाउक्काइय

भाषेन यथा अवगाहनसंस्थाने वैक्रियशरीरमेदस्त्वया मणितन्व्यो यावत् पर्याप्तः
 सर्वार्थसिद्धानुत्तरोपपातिककल्यातीतकषैमानिकदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगवच-
 श्च, अपर्याप्तसर्वार्थसिद्धानुत्तरोपपातिक—यावत्—प्रयोगवन्वश्च । वैक्रियशरीर
 प्रयोगवन्वः खलु मदन्त ! कस्य कर्मण उदयेन ? गौतम ! वीर्यसयोगसवृद्धस्यतवा
 यावत् आयुष्य वा लब्धि वा मतीत्य वैक्रियशरीरप्रयोगनाम्न कर्मणः उदयन
 वैक्रियशरीरप्रयोगवच, वायुकायिकैकेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगवन्वः पृच्छा गौतम !

उक्त्वाह्यपिर्गदियसरीरप्रयोगवचे य) हे मदन्त ! यदि एकेन्द्रिय वैक्रिय-
 शरीरप्रयोगवच है तो क्या वह वायुकायिक एकेन्द्रिय शरीरप्रयोगवच
 है या भवायुकायिक वायुकायिक निम्न एकेन्द्रिय शरीरप्रयोगवच है ?
 (परं एषण अभिलाषेणं जहा ओगाहणसठाणे वेडम्बियसरीरमेदो
 तहा भाणियब्धो) हे गौतम ! इस तरह से इस अभिलाष द्वारा जैसा
 भवगाहनासंस्थान पद में वैक्रिय शरीर का भेद कहा गया है वैसा ही
 कहना (जाय पञ्चससम्बद्धसिद्ध अनुत्तरोववाह्य कर्पाह्य भेमाणिय
 देवपञ्चिदियवेडम्बियसरीरप्रयोगवचे य अपञ्चससम्बद्धसिद्ध अनुत्त
 रोववाह्य जाय वओगवचे य) यावत् पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपा-
 तिककल्यातीत वैमानिक देव पञ्चेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयोगवच और
 अपर्याप्तसर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक यावत् वैक्रिय शरीरप्रयोगवच
 (वेडम्बिय सरीरप्रयोगवचे णं मते ! कस्स कम्मस्स उदयण) हे मदन्त !
 वैक्रिय शरीरप्रयोगवच किस कर्म के उदय से होता है ? (गोपमा) हे

पिर्गदियसरीरप्रयोगवचे य ?) हे मदन्त ! वे एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीर प्रयोग
 वच है, ते शु वायुकायिक एकेन्द्रिय शरीर प्रयोग वच है, वे भवायुकायिक
 (वायुकायिकयो निम्न) एकेन्द्रिय शरीर प्रयोग वच है ? (परं एष णं
 अभिलाषेणं जहा ओगाहणसठाणे वेडम्बियसरीरमेदो तहा भाणियब्धो) हे
 गौतम ! आ गति आ अभिलाष द्वारा जैसा अवगाहन संस्थानपदमां वैक्रिय
 शरीरमा वेद कहाँ है, जैसा व उदेवा लेधजे. (जाय पञ्चससम्बद्धसिद्ध
 अनुत्तरोववाह्यकर्पाह्य भेमाणियवेडम्बियसरीरप्रयोगवचे य)
 अपञ्चससम्बद्धसिद्ध अनुत्तरोववाह्य जाय वओगवचे य) यथास सर्वार्थ
 सिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्यातीत वैमानिक देवपञ्चेन्द्रिय वैक्रिय शरीर प्रयोग
 वच, जने अपर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्यातीत वैमानिक देवपञ्च
 द्रिय वैक्रिय शरीर प्रयोग वच, अर्थां मुधीन उदयन प्रपण उदय (वेडम्बिय
 सरीरप्रयोगवचे णं मते ! कस्स कम्मस्स उदयण ?) हे मदन्त ! जवा उदयन
 उदयधी वैक्रिय शरीर प्रयोगवच वाच है ? (गोपमा !) हे गौतम !

वीर्यसयोगसद्द्रव्यतया चैव यावत् लब्धिं च प्रतीत्य वायुकायिकैकेन्द्रियवैक्रिय यावत् बन्धः, रत्नप्रभापृथिवी नैरयिकपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धः खलु भदन्त ! कस्य कर्मणः उदयेन ? गौतम ! वीर्यसयोगसद्द्रव्यतया यावत् आयुष्यं वा प्रतीत्य रत्नप्रभापृथिवी नैरयिकपञ्चेन्द्रिय—यावत् बन्धः, एवं यावत् अधःसप्तम्याः तिर्यग्यो- निकपञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीरपृच्छा ? गौतम ! वीर्यसयोगसद्द्रव्यतया चैव यावत् लब्धिं

गौतम ! (वीरियसजोग सहव्वयाए जाव आउयं वा लब्धिं वा पडुच्च वेउव्वियसरीरप्पओग नाम कम्मस्स उदएणं वेउव्वियसरीरप्पओग- वंधे) सवीर्यता, सयोगता, सद्रव्यता से पहिले की तरह यावत् लब्धि को आश्रित करके वैक्रिय शरीरप्रयोग नाम कर्म के उदय से वैक्रिय शरीरप्रयोगबंध होता है । (वाउक्काइय एगिंदिय वेउव्विय सरीरप्प- ओगबंधे पुच्छा) हे भदन्त ! वायुकायिक एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयो- गबंध किस कर्म के उदय से होना है ? (गोयमा) हे गौतम ! (वीरिय सजोगसहव्वयाए चैव जाव लब्धिं च पडुच्च वाउक्काइय एगिंदिय वेउव्विय जाव बंधे) सवीर्यता, सयोगता, सद्रव्यता से पहिले की तरह यावत् लब्धि को आश्रित करके वायुकायिक एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयोगनाम कर्म के उदय से यावत् वैक्रिय शरीरप्रयोगबंध होता है । (रयणप्पभा पुढवि नेरइय पंचिंदिय वेउव्विय सरीरप्पओगबंधेणं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं) हे भदन्त ! रत्नप्रभापृथिवी नैरयिक पंचेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्र-

(वीरियसजोगसहव्वयाए जाव आउयं वा लब्धिं वा पडुच्च वेउव्वियसरीरप्प- ओग नाम कम्मस्स उदएणं वेउव्वियसरीरप्पओगबंधे) सवीर्यता, सयोगता अने सद्रव्यताथी, आगण क्ख्हा प्रभाण्णेना लब्धिं पर्यन्तना कारण्णेने आश्रित करीने वैक्रिय शरीर प्रयोग नाम कर्मना उदयथी वैक्रिय शरीर प्रयोग बंध थाय छे । (वाउक्काइय एगिं दिय वेउव्विय सरीरप्पओगबंधे पुच्छा) हे भदन्त ! वायुकायिक एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीर प्रयोग बंध कथा कर्मना उदयथी थाय छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (वीरिय, सजोग सहव्वयाए चैव जाव लब्धिं च पडुच्च वाउक्काइय एगिं दिय वेउव्विय जाव बंधे) सवीर्यता, सयोगता अने सद्रव्यताथी आगण क्ख्हा प्रभाण्णे लब्धिपर्यन्तना कारण्णेने आश्रित करीने वायुकायिक वैक्रिय- शरीर प्रयोगनाम कर्मना उदयथी वायुकायिक एकेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगबंध थाय छे (रयणप्पभा पुढवि नेरइय पंचिं दिय वेउव्वियसरीरप्पओगबंधेणं भंते ! कस्सकम्मस्स उदएणं ?) हे भदन्त ! रत्नप्रभापृथ्वी नैरयिक पंचेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगबंध कथा कर्मना उदयथी थाय छे ?

च मतीत्य यथा वायुकाविकानाम्, मनुष्यपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगवत् एवञ्च ।
अमुरकुमारमवनवासिदेषपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगवत् यथा रत्नममापृथिवी-
नैःपिका, एवं यावत् स्वनिष्ठकुमाराः, एव वाजव्यन्तराः, एव न्याठिपिका,
एव सौषर्मकल्पोपवन्नका वैमानिकाः, एव यावत् अच्युत-प्रैवेयक-कल्पार्तिता वैम-
निकाः एव वैव । अनुत्तरोपपातिककल्पातीठा वैमानिका, एव वैव । वैक्रियशरीर

योगवत् किस कर्म के उदय से होता है? (गोपमा) हे गीतम !
(धीरियसजोगसहस्ययाए जाय भाउय वा पदुन्च रयणप्पभापुइवि नेरइए
पनिंदिय जाउ पचे) सवीयता, सयोगता और सहस्यता से यावत्
आयुःक को आश्रय करके रत्नप्रमापृथिवी नैरयिक पचेन्द्रिय शरीरप्रयोग
नाम कर्मके उदयसे यावत् वैक्रिय शरीरप्रयोगका वध होता है । (एव जाय
अहे सत्तामाए) इमी तरह से नीचे मातर्यो पृथिवीतक जानना चाहिये।
(मिरिक्वजोगिय पनिंदिय येउच्चियसरीरपुष्ठा) हे भदन्त ! निर्गम
योनिक्पंचेन्द्रियशरीरप्रयोगवत् किस कर्म के उदय से होता है? (गो
पमा) हे गीतम ! (धीरियसजोगसहस्ययाए येय रदि ए पदुय जहा
याउक्काइयाण मणुस्सप निन्दिय येउच्चियसरीरप्यओगवत् एव वैव,
अमुरकुमार मयणयासिदयपनिंदिय पउच्चियसरीरणओगवत्, जहा
रयणप्पभापुइवीनेरइया, जाय धणियकुमारा एव वाजवन्तरा, एव जो
सिगा एव मोहम्मकप्योयगता येमाणिपा एव जाय अच्युत गेवउउ
कल्पार्इया येमाणिपा, एव येय, अणुरारोययाइयकल्पार्इया येमाणिपा

(गोपमा) हे गीतम ! (धीरिय, सजोग, सहस्ययाए जाउ भाउय वा
पदुन्च सहस्यमापुइवि नेरइए पनिंदिय जाउ पचे) सवीयता अयोगता अने
सहस्यतापी यावत् आयुःकने आश्रिय इमीने रत्नप्रमा पृथ्वी नैःपिक पचेन्द्रिय
वैक्रियशरीरप्रयोग वत् यावत्

प्रयोगवन्धः खलु भदन्त ! किं देशवन्धः, सर्ववन्धः ? गौतम ! देशवन्धोऽपि, सर्ववन्धोऽपि, वायुकायिकैकेन्द्रियः एवं चैव, रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकाः एवं चैव ।

एवं चैव) सवीर्यता, सयोगता, और सद्द्रव्य से पूर्वकी तरह जैसा वायुकायिकों में कहा गया है उसी तरह से यहां पर भी जानना चाहिये इसी तरह से अनुप्यपंचेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगवन्ध भी जानना चाहिये । असुरकुमार भवनवासी देवपंचेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगवन्ध भी रत्नप्रभापृथिवीके नैरयिक जीवोंकी तरहसे जानना चाहिये । इसी तरह से यावत् स्तनितकुमारों तक जानना चाहिये । इसी तरहसे वानव्यन्तर, ज्योतिषिक, सौधर्मकल्पोपपन्नक वैमानिक यावत् अच्युत तक जानना चाहिये । अवेयक कल्पातीत वैमानिकोंको भी इसी तरहसे जानना चाहिये । तथा अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत वैमानिक देवोंको भी इसी तरहसे जानना चाहिये । (वेडव्वियसरीरप्पओगवंधे ण भत्ते ! किं देसवंधे सव्ववंधे) हे भदन्त ! वैक्रियशरीरप्रयोगवन्ध क्या देशवन्धरूप होता है या सर्ववन्धरूप होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (देसवंधे वि सव्ववंधे वि वैक्रियशरीरप्रयोगवन्ध देशवन्धरूप भी होता है और सर्ववन्ध रूप भी होता है । (वाडक्काइय एगिंदिय एवं चैव, रयणप्पभापुढविनेरइया एवं चैव, एवं

ठाना विषयमां जेवुं कथन आगण करवामा आण्युं छे, जेवुं ज कथन तिर्थं. यथेनिक पचेन्द्रिय वैक्रिय शरीर प्रयोगवन्धना विषयमां पणु समज्जुं. जेज प्रमाणे मनुष्य पचेन्द्रिय वैक्रिय शरीर प्रयोगवन्ध विषे पणु जणुवु असुरकुमार-भवनवासी देवपचेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगवन्धनु कथन रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकोना वैक्रिय शरीर प्रयोगवन्धना कथन प्रमाणे समज्जुं जेज प्रमाणे स्तनितकुमारो पर्यन्तना भवनपति देवो विषे समज्जुं जेज प्रमाणे वानव्यन्तर, ज्योतिषिक, सौधर्मकल्पोपपन्नक वैमानिकथी लधने अच्युत पर्यन्तना कल्पोपपन्नक वैमानिक देवो विषे समज्जुं, अवेयक कल्पातीत वैमानिकानुं कथन पणु जेज प्रमाणे समज्जुं तथा अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत वैमानिकानुं पणु जेवुं ज कथन समज्जुं (वेडव्वियसरीरप्पओगवंधे ण भत्ते ! किं देसवंधे वि सव्ववंधे वि ?) हे भदन्त ! वैक्रिय शरीर प्रयोगवन्ध शुं देशवन्धरूप होय छे, के सर्ववन्धरूप होय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (देसवंधे वि, सव्ववंधे वि) वैक्रिय शरीर प्रयोगवन्ध, देशवन्धरूप पणु होय छे अने सर्ववन्धरूप पणु होय छे (वाडक्काइय एगिंदिय एवं चैव, रयणप्पभा पुढवि नेरइया एवं चैव, एवं

પ્વં યાવત્ અનુસરીપપાતિકા , વૈક્રિયશરીરપ્રયોગમપ ચલુ મદ્ત ! કાઠ્ઠ
 ક્રિયસ્થિર ભવતિ ? ગૌતમ ! સર્વવપો જઘન્યેન એક સમયમ્ , ઠલ્કુપ્ટેન દ્વી સમયો,
 દેશ્યવપો જઘન્યેન એક સમયમ્ , ઠલ્કુપ્ટેન પ્રયક્ષિશત્ સાગરોપમાનિ સમયોનાનિ,
 વાયુકાયિકૈકેન્દ્રિય વૈક્રિયમ ૦ પુચ્છા ? ગૌતમ ! સર્વવન્ધઃ એક સમયમ્, વેશ્યવપો
 નઘન્યન એક સમયમ્ , ઠલ્કુપ્ટેન અન્તર્મૂહર્તમ્ । રત્નપ્રમાપૃથિવીનૈરયિકપુચ્છા ?

આઘ અણુસરોપવાદ્યા) ઠસી તરહ સે વાયુકાયિક એકેન્દ્રિય વૈક્રિય
 શરીરપ્રયોગમ ઘ તથા રત્નપ્રમાપૃથિવીનૈરયિક વૈક્રિય શરીરપ્રયોગમ ઘ
 મી જાનના વાહિયે । ઠસી તરહ કા કથન યાઘત્ અનુસરોપપાતિક દેવો
 તક જાનના વાહિયે । (વેશ્યવિયસરીરપ્પઓગમ ઘે ન મતે ! કાલઓ
 કેઘષ્ચિરં દ્દાઠ) હે મદ્ત ! વૈક્રિયશરીર પ્રયોગમ ઘ કાલ કી અપેક્ષા
 કયતક હોતા હે । (ગોપમા) હે ગૌતમ ! (સમ્બવ ઘે જહણ્ણેણ એકક સમય
 ઠલ્કોસેણં દો સમયા, વેસવ ઘે જહણ્ણેણ એકક સમયમ્ ઠલ્કોસેણં તેસીસ
 માગરોચમાઠ સમયઝ્ઞાઠ) સર્વવ ઘ-વૈક્રિયશરીરપ્રયોગ કા સર્વવ ઘ
 જઘન્ય સે એક સમય તક ઓર ઠલ્કુપ્ટ સે દો સમયતક હોતા હે । વેશ-
 ઘ ઘ ઝઘ-પ સે એક સમયતક ઓર ઠલ્કુપ્ટ સે તેસીસસાગર તક હોતા હે ।
 (વાઠકાઠ્ઠય ઇગિંદિયવેઠવિય પુચ્છા) હે મદ્ત ! વાયુકાયિક એકેન્દ્રિય
 વૈક્રિયશરીરપ્રયોગમ ઘ કાલ કી અપેક્ષા કયતક હોતા હે ? (ગોપમા)
 હે ગૌતમ ! (સમ્બવ ઘે એક સમયમ્, વેસવ ઘે જહણ્ણેણ એકક સમયમ્ ઠલ્કો

પવ આઘ અણુસરોપવાદ્યા) એજ પ્રમાણે વાયુકાયિક એકેન્દ્રિય વૈક્રિય શરીરપ્રયોગ
 ઠમ તથા રત્નપ્રમાપૃથિવી નરયિક વૈક્રિય શરીર પ્રયોગઠમ દેશ્ય ઘ રૂપ ધજ
 દોય છે અને સર્વઠમ રૂપ ધજ દોય છે અનુસરોપપાતિક દેવો પર્યંતના
 સમસ્ત ઠવેના વૈક્રિય શરીર પ્રયોગઠમ વિષે ધજ એજ પ્રમાણે સમજવુ
 (વેશ્યવિયસરીરપ્પઓગમ ઘે ન મતે ! કાલઓ વેશ્ચિરં દ્દાઠ) હે મદ્ત !
 વૈક્રિય શરીર પ્રયોગઠમ કાળની અપેક્ષાએ કયાં મુખી રહે છે ? (ગોપમા) ।
 હે ગૌતમ ! (સમ્બવ ઘે જહણ્ણે ન એક સમય ઠલ્કોસેણ સોસમયા, વેસવ ઘે
 જહણ્ણેણ એક સમયમ્ ઠલ્કોસેણ તેસીસ માગરોચમાઠ સમયઝ્ઞાઠ) વૈક્રિય શરીર
 પ્રયોગને સઠ ઠમ એઠામાં એઠા એક સમય મુખી અને વધારેમાં વધારે
 એ સમય મુખીને દોય છે દેશ્ય ઠમ એઠામાં એઠા એક સમય મુખીને
 અને વધારેમાં વધારે ઠઠ સાધરોપમ પ્રમાણ કાળ કરનાં એક પૂન સમય
 મુખીને દોય છે (વાઠકાઠ્ઠય ઇગિંદિય વેશ્ચિય પુચ્છા) હે મદ્ત ! વાયુકાયિક
 એકેન્દ્રિય વૈક્રિયશરીર પ્રયોગ ઠમ કાળની અપેક્ષાએ કયાં મુખી રહે છે ?
 (ગોપમા) । હે ગૌતમ ! (સમ્બવ ઘે એક સમય, વેસવ ઘે જહણ્ણે

गौतम ! सर्वबन्धः एकं समयम् , देशबन्धो जघन्येन दशवर्षसहस्राणि त्रिसमयो-
नानि, उत्कृष्टेन सागरोपमं समयोनम् , एवं यावत् अधःसप्तमी, नवरं देशबन्धो या
यस्य जघन्यिका स्थितिः सा त्रिसमयोना कर्तव्या, यस्य या उत्कर्षा सा समयोना,
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां मनुष्याणां च, यथा वायुकायिकानाम् । असुरकुमार-
नागकुमार यावत् अनुत्तरौपपातिकानां यथा नैरयिकाणाम्, नवरं यस्य या स्थितिः
सा भणितव्या, यावत् अनुत्तरौपपातिकानां सर्वबन्धः एकं समयम् , देशबन्धो

सेणं अंतोमुहुत्तं) वायुकायिक एकेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोग का सर्वबंध
एक समयतक और देशबंध जघन्य से एक समयतक तथा उत्कृष्ट से
अन्तर्मुहूर्त तक होता है । (रयणप्पभापुढविनेरइय पुच्छा) हे भदन्त !
रत्नप्रभापृथिवी के नैरयिकों के वैक्रियशरीरप्रयोगबंध काल की अपेक्षा
कबतक होता है ? (गोयमा-सव्वबधे एकं समयं देसवधे जहणणेणं
दसवाससहस्साइं तिसमयऊणाइं) हे गौतम ! इनके शरीरप्रयोग का
सर्वबंध एक समयतक होता है । देशबंध जघन्य से तीन समय कम
दशहजार वर्षतक होता है । और (उक्कोसेणं) उत्कृष्ट से (सागरोवमं
समयऊणं-एवं जाव अहेसत्तमा नवर देसवधे जस्स जा जहणिया
ठिई, सा तिसमयऊणा कायव्वा, जस्स सा उक्कोसा सा समयऊणा
पचिदियतिरिक्खजोणियाण मणुस्साण य जहा वाउक्काइयाणं असुरकु-
मार नागकुमार जाव अणुत्तरोववाइयाणं जहा नेरइयाणं, नवरं जा

एकं समयं उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं) वायुकायिक ऐकेन्द्रिय वैक्रिय शरीर प्रयोगने
सर्वबंध ऐक समय सुधीने अने देशबंध ओछामा ओछो ऐक समय
सुधीने अने वधारेमा वधारे अन्तर्मुहूर्त सुधीने डोय छे.

(रयणप्पभा पुढवि नेरइय पुच्छा) हे भदन्त ! रत्नप्रभा पृथ्वीना नार
केने वैक्रियशरीरप्रयोगबंध काणनी अपेक्षाअे कथां सुधी रहि छे ? (गोयमा !
सव्वबधे एकं समयं, देसवधे जहणणेण दसवाससहस्साइं तिसमयऊणाइं) हे
गौतम ! तेभना वैक्रियशरीरप्रयोग सर्वबंध ऐक समय सुधीने डोय छे.
देशबंधने जघन्य काण दस हजार वर्ष प्रमाणु काण करतां त्रलु न्यून समय
पर्यन्तने डोय छे, अने (उक्कोसेणं) देशबंधने वधारेमा वधारे काण
(सागरोवमं समयऊणं) सागरोवम प्रमाणु काण करता ऐक न्यून समय
सुधीने डोय छे (एवं जाव अहे सत्तमा-नवर देसवधे जस्स जा जहणिया
ठिई, सा तिसमयऊणा कायव्वा-जस्स सा उक्कोसा सा समयऊणा, पचि दियतिरि-
क्खजोणियाण मणुस्साण य जहा वाउक्काइयाणं, असुरकुमार नागकुमार जान

अधन्येन एकत्रिंशत् सागरोपमानि त्रिसमयोनानि, उत्कर्षणं त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानि समयोनानि, वैक्रियशरीरप्रयागवचान्तरं खलु मद्दन्त ! काल्पः कियच्चिरं भवति ?

जस्म ठिई सा भाणियब्बा-जाव अणुसरोववाइयाण-मग्गवघे एक्कं समय, वेसयघे जहण्णेण एक्कतीस सागरोवमाइं तीसमयऊणाइं एक्को सेणं तेसीस सागरोवमाइं समयऊणाइं) एक समय कम एक सागरोपम तक होता है। इसी तरह से यावत् सातवीं पृथिवीतक जानना चाहिये। परन्तु देशजभमें जिसकी जितनी अधन्य स्थिति होती है उसमेंसे तीन समय कम करना चाहिये। और यावत् जिसकी जितनी उत्कृष्टस्थिति हो-उसमें से भी एक २ समय कम करना चाहिये। पंचेन्द्रिय तिर्यक् और मनुष्य इनको घायुकायिककी तरह जानना चाहिये। असुरकुमार नागकुमार यावत् अनुसरोपपातिक इनको नारक की तरह जानना चाहिये। परन्तु जिनकी जो स्थिति है वह कहनी चाहिये। यावत् अनुसरोपपातिक देवों का सर्वत्र एक समय का और देशज अधन्य से तीन समय कम ३१ सागरोपम तक का होता है तथा उत्कृष्ट से वह एक समय न्यून ३३ सागरोपम का होता है। (वेदविषयसरीरपयोगवचतरं ण भंते ! काल्पो केवच्चिरं होइ) हे मद्दन्त ! वैक्रियशरीर के

अणुसरोववाइयाण बह्व नेखयाण, नशर चा वरस ठिई सा भाणियब्बा जाव अणुसरोववाइयाण-सम्बघे एक्कं समय, वेसयघे जहण्णेण एक्कतीस सागरोवमाइं त्रिसमयऊणाइं एक्को सेणं तेसीस सागरोवमाइं समयऊणाइं) कोव प्रभाषे सातवीं नरक सुधीना नारक विषे पद्य समञ्जसु परन्तु देशजभने काण कडेवी वजते नेनी नेटवी अधन्य स्थिति होय छे तेभांशी त्रय समय कोळां इत्था कोळ्ळे अने नेनी नेटवी उत्कृष्ट स्थिति होय तेभांशी पद्य कोळ, कोळ समय कोळां करवे कोळ्ळे. पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक अने मनुष्येणा वैक्रिय शरीरप्रयोगेणा काण वासुधाविकाना ते काण प्रभाषु समञ्जसे असुरकुमार, नागकुमार अने अनुसरोपपातिक पर्वन्तना वैक्रियशरीर प्रयोगे भाभने काण नारकेणा ते काणना प्रभाषे व समञ्जसे. पद्य विशेषता कोटवी व छे हे नेमनी नेटवी स्थिति होय ते कडेवी कोळ्ळे यावत् अनुसरोपपातिक देवोणा वैक्रिय शरीरप्रयोगेणा सवणध कोळ समवने। अने देशज अधन्यकाणनी अपेक्षाको ३१ सागरोपम इत्तां त्रय न्यून समवने। होय छे अने उत्कृष्ट काणनी अपेक्षाको ३३ सागरोपम इत्तां कोळ न्यून समवने। होय छे (वेदविषयसरीरपयोगवचतरं ण भंते ! काल्पो केवच्चिरं होइ) हे मद्दन्त !

गौतम ! सर्वबन्धान्तरं जघन्येन एकं समयम् , उत्कर्षेण अनन्तं कालम् अनन्ता यावत् आवलिकाया असंख्येयभागः, एवं देशबन्धान्तरमपि । वायुकायिकवैक्रियः शरीरपृच्छा, गौतम ! सर्वबन्धान्तरं जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम् , उत्कर्षेण पल्योपमस्य असंख्येयभागम् , एवं देशबन्धान्तरमपि, तिर्यग्योनिकपञ्चन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोग-

प्रयोगबन्ध का अन्तर काल की अपेक्षा कितना है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सर्वबन्धन्तरं जघण्णेण एकं समयं उत्क्रोसेण अणन्तं कालं अणन्ताओ जाव आवलियाए असंखेज्जइ भागो-एवं देसबन्धन्तरेवि) वैक्रियशरीर के प्रयोग का सर्वबन्धान्तर जघन्य से एक समय का और उत्कृष्ट से अनन्तकाल-अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी यावत् आवलिका के असंख्यातवें भागके समयतुल्य-असंख्यपुद्गलपरावर्तनका होता है । इसी तरहसे देशबन्धान्तर भी जानना चाहिये । (वाउक्कायवेउव्वियसरीरपुच्छा) हे भदन्त ! वायुकायिकके वैक्रिय शरीरके प्रयोगबन्धका अन्तर-कालकी अपेक्षा कितना है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सर्वबन्धन्तरं जघण्णेण अन्तोमुहुत्तं, उत्क्रोसेण पलिओवमस्स असंखेज्जइ भागं, एवं देसबन्धन्तरे वि) वायुकायिक वैक्रिय शरीर प्रयोग के सर्वबन्ध का अन्तर जघन्य से अन्तर्मुहूर्त का है और उत्कृष्ट से पल्योपम का असंख्यातवां भाग प्रमाण है । इसी तरह से देशबन्ध का अन्तर भी जानना चाहिये । (तिरिक्खजोणिय पंचिन्द्रियवेउव्वियसरीरप्पओगबन्धन्तरं पुच्छा) हे भदन्त !

वैक्रियशरीरना प्रयोग भन्धनुं अन्तरकाणनी अपेक्षाये केटलुं डोय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सर्वबन्धन्तरं जघण्णेण एकं समयं, उत्क्रोसेण अणन्तकालं, अणन्ताओ जाव आवलियाए असंखेज्जइ भागो-एवं देसबन्धन्तरे वि) वैक्रियशरीरना प्रयोगनुं सर्वबन्धान्तर ओछामां ओछुं ओक समयनु अने पधारेमां पधारे अन्तकाण-अन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी यावत् आवलिकाना असंख्यातमा लागना समय पराभर-असंख्य पुद्गल परावर्तननुं डोय छे. ओज्ज प्रमाणे देश बन्धान्तर पणु समयनु (वाउक्काय वेउव्विय सरीरपुच्छा) हे भदन्त ! वायुकायिकना वैक्रियशरीरना प्रयोगभन्धनु अन्तर काणनी अपेक्षाये केटलुं छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सर्वबन्धन्तरं जघण्णेण अन्तोमुहुत्तं, उत्क्रोसेण पलिओवमस्स असंखेज्जइ भागं, एवं देसबन्धन्तरे वि) वायुकायिक वैक्रियशरीरप्रयोगभन्धना सर्वबन्धनुं जघन्य अन्तर ओक अन्तरमुहूर्तनु अने उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमना असंख्यातमा लाग प्रमाण छे. ओज्ज प्रमाणे देश-बन्धनुं अन्तर पणु समयनु (तिरिक्खजोणिय पंचिन्द्रिय वेउव्वियसरीरप्पओ

पश्चात्तरपृच्छा, गौतम ! सर्ववधान्तर जघन्यन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कर्षण पूर्व कोटीपृथक्त्वम्, एव दशनन्वान्तरमपि, मनुष्यस्यापि ।

टीका—‘ वेदधियसरीरप्यभोगवधे ण भते ! कश्चिहे पण्णसे ? ’ गौतम ! पृच्छति—हे मद्दन्त ! वैक्रियशरीरप्रयोगवधः खलु कथिविधः मत्तः ? मगधानार ‘ गोयमा ! दुविहे पण्णसे ’ हे गौतम ! वैक्रियशरीरप्रयोगवधो द्विविधः मत्तः

तिर्यच योनिक पञ्चेन्द्रिय के वैक्रियशरीर का प्रयोगवधान्तर काल की अपेक्षा से कितना है ? (गोयमा) हे गौतम ! (मध्यपघतर जहण्णेण अंतोमुहुत्त उक्कोसेण पुष्पकोटिपुहुत्त एव देसपघतरं पि) तिर्यच योनिक पञ्चेन्द्रिय के वैक्रिय शरीर का सर्ववधान्तर जघन्य से अन्तर्मुहूर्त का और उत्कृष्ट से एककोटिपूर्वपृथक्त्व का है । इसी तरह से देशवधान्तर भी जानना चाहिये ।

टीकार्थ—औद्यारिक शरीर प्रयोग की प्ररूपणा करके अब सूत्रकार वैक्रिय शरीरप्रयोगवध की प्ररूपणा करते हैं—इसमें गौतम ने प्रश्न से ऐसा पूछा है कि—(वेदधियसरीरप्यभोगवधे ण भते ! कश्चिहे पण्णसे) हे मद्दन्त ! वैक्रिय शरीरप्रयोगवध कितने प्रकार का कहा गया है ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! वैक्रिय शरीरप्रयोगवध (दुविहे पण्णसे) दो प्रकार का कहा गया है । (त जहा)

गवधतर पृच्छा) के मद्दन्त ! तिर्यचयोनिक पञ्चेन्द्रियना वैक्रिय शरीरानो जघान्तर काण केट्ठा क्खो छे ? (गोयमा !) के गौतम ! (सम्बधधतर जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुष्पकोटिपुहुत्त एव देसपघतरं पि) तिर्यच योनिक पञ्चेन्द्रिय औद्यारिक शरीर प्रयोगनु सर्ववधान्तर ज्जात्तामा ज्जात्त अन्तर्मुहूर्तंनु अने वधानेमां वधाने ज्जेक कोटिपूर्वपृथक्त्वंनु छे ज्जेव प्रभात्ते देशवधान्तर पक्ष समञ्जनु (एव मणुस्से पि) ज्जेव प्रभात्ते मनुष्यना वैक्रिय शरीरना जघान्तर काण विधे पक्ष समञ्जनु

टीकार्थ—औद्यारिक शरीरप्रयोगवधनी प्ररूपणा करीने अब सूत्रकार वैक्रियशरीर प्रयोगवधनी प्ररूपणा नीधे प्रभात्ते करे छे आ विषयने जनुत्त कीने गौतम स्वामी मद्दावीर प्रश्नने ज्जेवो प्रश्न पूछे छे के (वेदधियसरीर प्यभोगवधे ण भते ! कश्चिहे पण्णसे ?) के मद्दन्त ! वैक्रियशरीर प्रयोगवधना केट्ठा प्रकाश क्खो छे ?

मद्दावीर प्रश्नने उत्तर—(दुविहे पण्णसे—संज्ञा) के गौतम ! वैक्रियशरीर प्रयोगवधना नीधे प्रभात्ते जे प्रकाश क्खो छे—(पगिदिय वेदधिय सरीर

‘तं जहा-एगिंदियवेउव्वियसरीरप्पओगवंधे य, पंचिंदियवेउव्वियसरीरप्पओगवंधे य’ तद्यथा-एकेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगवन्धश्च, पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगवन्धश्च, तत्र वायुकायिकापेक्षया ‘एकेन्द्रिवैक्रियशरीरप्रयोगवन्धः’ इत्युक्तम्, वायुभिन्नै केन्द्रियाणां वैक्रियशरीराभावात्, अथ च पञ्चेन्द्रियतिर्यग्मनुष्यदेवनैरयिकापेक्षया च पञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगवन्धः’ इत्युक्तम्, तद्भिन्नानां पञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीर-प्रयोगवन्धाभावात् । गौतमः पृच्छति-‘जइ एगिंदियवेउव्वियसरीरप्पओगवंधे किं वाउक्काइयएगिंदियसरीरप्पओगवंधे य ? अवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीर-प्पओगवंधे य ?’ हे भदन्त ! यः खलु एकेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगवन्धः उक्तः

जो इस प्रकार से है-(एगिंदिय वेउव्वियसरीरप्पओगवंधे य, पंचिंदिय वेउव्वियसरीरप्पओगवंधे य) एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयोगवंध और पंचेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगवंध यहां जो “ एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयोगवंध ” ऐसा कहा गया है-सो वह वायुकायिक जीवों की अपेक्षा लेकर कहा गया है । क्यों कि इन जीवों के वैक्रिय शरीरप्रयोगवंध होता है । इनके सिवाय अन्य एकेन्द्रिय जीवों में यह नहीं होता है । तथा दूसरा जो भेद कहा गया है वह पंचेन्द्रिय जीवों की अपेक्षा लेकर कहा गया है । क्यों कि यह उन जीवों में होता है । अर्थात् यह वैक्रिय शरीरप्रयोगवंध पंचेन्द्रियों में पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चों के, मनुष्यों के, देवों के और नारक जीवों के होता है ।

अब गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं-(जइ एगिंदिय वेउव्वियसरीरप्पओगवंधे किं वाउक्काइयएगिंदिय सरीरप्पओगवंधे य, अवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरप्पओगवंधे य) हे भदन्त ! यहाँ जो

प्पओगवंधे य, पंचिंदिय वेउव्वियसरीरप्पओगवंधे य) (१) अकेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगवंध अने (२) पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगवंध अर्ही के “ अकेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगवंध ” नामने। पड़ेवे। प्रकार कइयो छे ते वायुकायिक लुवोनी अपेक्षाअे कडेवाभा आव्यो छे, कारणु के वायुकायिक लुवो वैक्रियशरीर प्रयोगवंध करे छे, वायुकायिक सिवायना अन्य अकेन्द्रिय लुवो ते वैक्रियशरीर प्रयोगवंध करता नथी। पीले के भेद कइयो छे ते पञ्चेन्द्रिय लुवोनी अपेक्षाअे कइयो छे, कारणु के पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चो, मनुष्यो, देवो अने नारके वैक्रियशरीर प्रयोगवंध करता होय छे.

इवे गौतमस्वामी मडावीर प्रलुने अवे। प्रश्न पूछे छे के-(जइ एगि-दियवेउव्वियसरीरप्पओगवंधे, कि वाउक्काइयएगिंदियसरीरप्पओगवंधे य वाउक्काइय एगिंदिय वेउव्वियसरीरप्पओगवंधे य) हे भदन्त ! अर्ही के अकेन्द्रिय वैक्रिय

स किं वायुकायिकैकत्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगश्च ? किं वा अवायुकायिकैकेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगश्चो भवति ? मगधानाह—‘ एव एण अभिलाषम जहा ओगाहणसठाणे वेउच्चियसरीरमेदो वहा माणियच्चो ’ हे गौतम ! एवरीत्या एतेन एव पक्षोक्तेन अभिलाषक्रमेण यथा प्रज्ञापनायाम् अवगाहनासंस्थाने एकविंशतितमे पदे वैक्रियशरीरस्य मेदो निरूपितस्तथा अप्रापि मणितव्य तथा च एकेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगश्चो वायुकायिकस्यैव एकेन्द्रियस्य भवति, नो अवायुकायिकस्य पृथिवीकायिकादरेकेन्द्रियस्यत्यर्थं, ‘ जाव पउजस्तसव्वहुसिद्धअणुत्तरोववाइयकप्पाईयवेमाणियदेवपंविदियवेठच्चियसरीरप्पभोगघे य अपज्जसव्वहुसिद्धअणुत्तरोववाइय जाव पभोगघे य ’ यावत्—पर्याप्तपञ्चन्द्रियसिपग्गोनिरुमनुव्य—

एकेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगश्च कहा गया है वह वायुकायिक एकेन्द्रिय जीवका वैक्रिय शरीरप्रयोगश्च कहा गया है या अन्य एकेन्द्रिय जीवोंका वैक्रियशरीरप्रयोगश्च कहा गया है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं— (एव एण अभिलाषेणं जहा ओगाहणामठाणे वेउच्चियसरीरमेदो वहा माणियच्चो) हे गौतम ! इस पूर्वपक्षोक्त अभिलाषक्रम से जैसा प्रज्ञापना में अवगाहनासंस्थान में २१ वें पद में वैक्रिय शरीर का मेद कहा गया है उसी तरह से यहाँ पर भी यह कह लेना चाहिये। तथा च एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयोगश्च वायुकायिक एकेन्द्रिय जीव के ही होना है अवायुकायिक एकेन्द्रिय पृथिवीकायिक भादि जीवों के नहीं होना है। (जाव पउजस्त सव्वहुसिद्ध अणुत्तरोववाइयकप्पाईय वेमाणिय देवपंविदिय वेउच्चियसरीरप्पभोगघे य, अप्पज्जस्त सव्वहुसिद्ध अणु

शरीर प्रयोगश्च इत्येते तं शु वायुकायिक एकेन्द्रिय एवेनो वैक्रियशरीर प्रयोगश्च इत्येते तं अन्य एकेन्द्रिय एवेनो वैक्रियशरीर प्रयोगश्च इत्येते ? महावीर प्रभुने उत्तर—एव एण अभिलाषेणं जहा ओगाहणा सठाणे वेउच्चियसरीरमेदो वहा माणियच्चो) हे गौतम ! आ पूर्वोक्त अभिलाषायां शब्द शरीर प्रज्ञापना सूत्रना अवगाहना संस्थान इव २१ वेदवीसमा पदमां वैक्रियशरीरना वेदोनु वेपु इयन इत्थामां आभुं उ, एवेण प्रमात्ते अही पव तेनु इयन इत्थु एववे एम हे—एकेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगश्च वायुकायिक एकेन्द्रिय एवेण इत्थे उ, पृथ्वीकायिक भादि अवायुकायिक एकेन्द्रिय एवेण इत्था नथी. (जाव पउजस्त सव्वहुसिद्ध अणुत्तरोववाइयकप्पाईय वेमाणिय देवपंविदियवेउच्चियसरीरप्पभोगघे य, अप्पज्जस्त सव्वहुसिद्ध अणुत्तरोववाइ य जाव पभोगघे य) आ सूत्रपाठ सुधी तां ते इयन इत्थामां आभुं उ

नैरयिकवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धो भवति, एवं पर्याप्तकसर्वार्थसिद्धानुत्तरोपयातिक-
कल्पातीतकवैमानिकदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धश्च भवति, अपर्याप्तक-
सर्वार्थसिद्धानुत्तरोपयातिक—यावत्—कल्पातीतकवैमानिकदेवपञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर-
प्रयोगबन्धश्च । गौतमः पृच्छति—‘वेउव्वियसरीरप्पओगवंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स
उदएणं ? ’ हे भदन्त ! वैक्रियशरीरप्रयोगबन्धः खलु कस्य कर्मणः उदयेन भवति ?
भगवानाह—‘ गोयमा ! वीरियसजोगसहव्वयाए जाव आउयं वा लद्धिं वा पडुच्च
वेउव्वियसरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं वेउव्वियसरीरप्पओगवंधे ’ हे
गौतम ! वीरियसयोगसद्द्रव्यतया, सवीर्यतया, सयोगतया, सदद्रव्यतया चेत्यर्थः
यावत् प्रमादप्रत्ययात् कर्म च, योगं च, भवं च, आयुष्यं वा, लब्धिं वा वैक्रिय-
करणलब्धिमित्यर्थः प्रतीत्य आश्रित्य एतेषामपेक्षया वैक्रियशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मणः

सरोववाह्य जाव पओगवंधे य) यह कथन यहां इस सूत्रपाठ तक है
सो यहां पर भी यह कथन इस सूत्र पाठ तक ग्रहण करना चाहिये ।
तात्पर्य इस कथन का ऐसा है—कि वैक्रिय शरीरप्रयोगबंध पर्याप्तक
पंचेन्द्रिय तिर्यचों के, मनुष्यों के पर्याप्तक अपर्याप्तक नैरयिकों के, देवों
के यावत् पर्याप्तकसर्वार्थसिद्धों के, अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध देवों के होता है ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(वेउव्वियसरीरप्पओ-
गवंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं) हे भदन्त ! वैक्रिय शरीरप्रयो-
गबंध किस कर्म के उदय से होता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा)
हे गौतम ! (वीरिय सजोग सहव्वयाए जाव आउयं वा लद्धिं वा पडुच्च
वेउव्वियसरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं वेउव्वियसरीरप्पओगवंधे)
सवीर्यता, सयोगता, सद्व्यता, से तथा यावत् आयु एवं लब्धि के

तो अही पणु आ सूत्रपाठ पर्यन्तनु कथन ग्रहणु करवु नोर्धये. आ कथननुं
तात्पर्यं एवुं छे के वैक्रियशरीरप्रयोगबंध पर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्यचो, मनु
ष्यो, पर्याप्तक, अपर्याप्तक नारको, देवो अने पर्याप्तक सर्वार्थ सिद्ध देवो तथा
अपर्याप्तक सर्वार्थ सिद्ध देवो पर्यन्तना पंचेन्द्रिय भवेो करे छे

हुवे गौतम स्वामी महावीर प्रभुने एवो प्रश्न पूछे छे के—(वेउव्विय-
सरीरप्पओगवंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ?) हे भदन्त ! क्या कर्मना
उदयथी वैक्रियशरीर प्रयोगबंध थाय छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—(गोयमा) हे गौतम ! (वीरियसजोगसहव्व-
याए जाव आउय वा लद्धि वा, पडुच्च वेउव्वियसरीरप्पओगनामाए कम्मस्स
उदएणं वेउव्वियसरीरप्पओगबंधे) सवीर्यता, सयोगता अने सद्व्यताथी, तथा
प्रभादने कारणे, कर्म, योग, भव, आयु अने लब्धिने आधारे तथा वैक्रिय-

उदयेन वैक्रियशरीरप्रयोगबधो भवतीति भावः, एतच्च वायुकायिकपञ्चेन्द्रिय
 तिर्यग्योनिकमनुष्यानपेक्षोक्तम्, तेन वायुकायिकादिषु वैक्रियशरीरबधस्य कार
 णतया लङ्घि वक्ष्यति, नैरयिकद्वेषु तु लङ्घि विहायैव वीर्यसयोगसद्द्रव्यतापीवेव
 वैक्रियशरीरबधस्य कारणतया वक्ष्यतीति बोध्यम्, गौतम पृच्छति- 'वाउक्का
 इयपरिगिदियवेउञ्चियसरीरप्पभोगबधेपुच्छा ?' हे भदन्त ! वायुकायिकैकेन्द्रिय-
 वैक्रियशरीरप्रयोगबधपृच्छा, तथा च वायुकायिकैकेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगबध
 षस्य कर्मण उदयेन भवति ? इति भदन्तः, भगवानाह- 'गोयमा ! वीरियसजोग-
 सद्द्रव्ययाप चेव जाव छद्धि च पद्दुञ्च वाउक्काइयपरिगिदियवेउञ्चियजावबधे'

आश्रय से और वैक्रियशरीरप्रयोग नामकर्म के उदय से वैक्रियशरीर
 प्रयोगबध होता है। यहा यावत् शब्द से (प्रमादप्रत्ययात्, कर्म च, योगं
 च, भय च) इस पूर्वोक्त पाठ का संग्रह हुआ है। यहाँ पर इतनी बिशे-
 पता जाननी चाहिये-वायुकायिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक और मनुष्य
 इनमें वैक्रिय शरीर बध की कारण भूत सवीर्यता, सयोगता, सद्रव्यता
 आदि लङ्घि पर्यन्त सब बातें हैं। तथा नैरयिकों एव देवों में वैक्रिय
 शरीरबध की कारणभूत लङ्घि को छोड़कर सवीर्यता, सयोगता, आदि
 सब बातें हैं। इस विषय को सूत्रकार आगे कहेंगे।

अथ गौतमस्वामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं-(वाउक्काइयपरिगिदियवे
 उञ्चियसरीरप्पभोगबधे पुच्छा) हे भदन्त ! वायुकायिक एकेन्द्रिय
 वैक्रिय शरीरप्रयोगबध किस कर्म के उदय से होता है ? इसके उत्तर में
 प्रश्नु कहते हैं-(गोयमा) हे गौतम ! (वीरियसजोगसद्द्रव्ययाप एव चेव

शरीरप्रयोग नाम कर्मना उदयधी वैक्रियशरीर प्रयोगबध याव छे "जाव
 (यावत्)" पद्यी के सूत्रपाठने श्रद्धेषु इरवाभां ज्ञान्थे छे तेने ज्झी
 उञ्चिये छरीने ज्झ इरवाभां ज्ञान्थे छे) ज्झी ज्जेट्ठी च विरीयता सभ-
 वानी छे छे वायुकायिक पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक मनुष्येभां वैक्रियशरीरबधना
 कारण इय सवीर्यता सयोगता, सद्रव्यता आदि लङ्घि पर्यन्तनु ज्झु छे
 तथा नारहे। ज्जने देवेभां वैक्रियशरीरबधना कारण इय लङ्घि सिन्धमनु-
 सवीर्यता, सयोगता आदि ज्झु केव छे ज्जा विषयनु क्कमन सूत्रकार ज्ञान्ज करेथे-

गौतमस्वामीने। प्रश्न-(वाउक्काइयपरिगिदियवेउञ्चियसरीरप्पभोगबधे पुच्छा)
 के भदन्त ! वायुकायिक एकेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगबध क्या कर्मना
 उदयधी याव छे ?

भद्वीर भद्वने उत्तर-(गोयमा !) के गौतम (वीरियसजोगसद्द्रव्य-
 याप एव चेव जाव छद्धि पद्दुञ्चवाउक्काइय परिगिदिय वेउञ्चिय जाव बधे) सवी-

हे गौतम ! वीर्यसयोगसद्द्रव्यतया चैव यावत् प्रमाद प्रत्ययात्, कर्म च, योगं च, भवं च, आयुष्यं च लब्धिं च प्रतीत्य आश्रित्य वायुकायिकैकेन्द्रियवैक्रिय-यावत्-शरीरप्रयोगान्मः कर्मणः उदयेन वायुकायिकैकेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोग-बन्धो भवतीति भावः । गौतमः पृच्छति-‘रयणप्पभापुढविनेरइय पंचिदिय वेउव्विय-सरीरप्पओगवंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ?’ हे भदन्त ! रत्नप्रभापृथिवी-नैरयिकपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धः खलु कस्य कर्मणः उदयेन भवति भगवानाह-‘ गोयमा ! वीरियसजोगसद्द्रव्याए जाव आउयं वा पडुच्च रयण-प्पभापुढवि-जाव-बंधे, एवं जाव अहेसत्तमा ’ हे गौतम ! वीर्यसयोगसद्द्रव्यतया यावत् प्रमादप्रत्ययात् कर्म च योगं च भवं च आयुष्यं वा प्रतीत्य आश्रित्य रत्नप्रभा

जाव लब्धिं पडुच्च वाउकायएगिंदिय वेउव्विय जाव बंधे) सवीर्यता, सयोगता, सद्रव्यता, इनसे तथा यावत्-प्रमाद प्रत्यय से, कर्म, योग, भव, आयुष्य और लब्धि इनकी अपेक्षा से और वायुकायिक एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयोग नामकर्म के उदय से वायुकायिक एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयोगबंध होता है ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं (रयणप्पभापुढविनेरइय-पंचिदिय वेउव्वियसरीरप्पओगवंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं) हे भदन्त ! रत्नप्रभापृथिवी नैरयिक पञ्चेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयोगबंध किस कर्म के उदय से होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं-(गोयमा) हे गौतम ! (वीरियसजोगसद्द्रव्याए जाव आउयं च रयणप्पभापुढवी जावबंधे-एवं जाव अहे सत्तमा) सवीर्यता, सयोगता, सद्रव्यता से यावत्-प्रमाद प्रत्यय से, कर्म, योग, भव एवं आयुष्य की अपेक्षा से

र्यता, सयोगता अने सद्रव्यताथी तथा प्रमाद प्रत्ययथी, कर्म, योग, भव, आयुष्य अने लब्धिनी अपेक्षाअने अने वायुकायिक अकेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोग नाम कर्मना उदयथी वायुकायिक अकेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगबंध थाय छे

गौतमस्वामीने। प्रश्न-(रयणप्पभा पुढविनेरइय पंचि दिय वेउव्वियसरी-रप्पओगवंधे णं भंते ! कस्सकम्मस्स उदएणं ?) छे भदन्त ! रत्नप्रभा पृथ्वी नैरयिक पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगबंध कथा कर्मना उदयथी थाय छे ।

भडावीर प्रभुने। उत्तर-(गोयमा !) छे गौतम ! (वीरियसजोगसद्द्रव्याए जाव आउयं च पडुच्च रयणप्पभा पुढवी जाव बंधे-एवं जाव अहे सत्तमा) सवीर्यता, सयोगता अने सद्रव्यताथी, प्रमाद प्रत्ययथी (प्रमादने धारणे), कर्म, योग, भव अने आयुष्यनी अपेक्षाअने तथा रत्नप्रभा पृथ्वी नैरयिक

पृथिवी-यावत्-नैरयिकपठचेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मणः उदयेन रत्न-
प्रमापृथिवीनैरयिकपठचेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धो भवतीति भावः । एवं यावत्
शर्कराप्रमा-वालुकाप्रमा-पट्टप्रमा - धूमप्रमाः- तमःप्रमा - तमस्तमःप्रमाऽपः-
सप्तमीपर्यन्तपृथिवीनैरयिकपठचेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मणः उदयेन
शर्कराप्रमादिपृथिवीनैरयिकपठचेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धो भवतीति तात्पर्यम् ।
गौतमः पृच्छति-‘ तिरिक्खजोगियपचिंदियवेठब्बियसरीरपुच्छा ’ हे भदन्त !
तिर्यग्योनिकपठचेन्द्रियवैक्रियशरीरपुच्छा, तथा च तिर्यग्योनिकपठचेन्द्रियवैक्रिय-
शरीरप्रयोगबन्धो कस्य कर्मणः उदयन भवति ? इति प्रश्नः, महावक्त्रोपनिषद्-‘ गोयमा ।
वीरिय सयोगसद्व्ययाए बहा वाठक्काइयाणं ’ हे गौतम ! धीर्य सयोग सद्व्ययता

तथा रत्नप्रमापृथिवी नैरयिको पञ्चेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयोग नामकर्म
के उदय से रत्नप्रमापृथिवीगत नैरयिक पञ्चेन्द्रिय वैक्रिय शरीरप्रयो-
गबन्ध होता है । इसी तरह से-शर्कराप्रमा, वालुकाप्रमा, पट्टप्रमा,
धूमप्रमा, तमस्तम प्रमा इन पृथिवीयों सबकी नैरयिक पञ्चेन्द्रियवैक्रिय-
शरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से शर्कराप्रमा आदि पृथिवीगत नैरयिक
पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगबन्ध होता है ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से पूछते हैं-(तिरिक्खजोगिय पचिंदिय
वेठब्बियसरीरपुच्छा) हे भदन्त ! तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीर
प्रयोगबन्ध किसकर्म के उदय से होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते
हैं-(गोयमा) हे गौतम ! (धीरियसयोगसद्व्ययाए जहा वाठक्काइया
णं) जिस प्रकार सवीर्यता, सयोगता, सद्व्ययता, प्रमादप्रत्ययता, कर्म,

पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोग नाम कर्मना उदयेन रत्नप्रमागत नैरयिक पञ्चे-
न्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगबन्धो भावः, एवं यावत् शर्कराप्रमा, वालुकाप्रमा,
पट्टप्रमा, धूमप्रमा, तमस्तम प्रमा, तमःप्रमा, तमस्तमःप्रमाऽपः-
सप्तमीपर्यन्तपृथिवीनैरयिकपठचेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मणः उदयेन
शर्कराप्रमादिपृथिवीनैरयिकपठचेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धो भवतीति तात्पर्यम् ।

गौतमस्वामीने प्रश्नः-(तिरिक्खजोगियपचिंदियवेठब्बियसरीरपुच्छा)
हे भदन्त ! तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगबन्धो कस्य कर्मणा उद-
येन भवति ?

महावक्त्रोपनिषद् प्रभुने उत्तरः-(गोयमा !) हे गौतम ! (धीरियसयोगसद्व्य-
याए जहा वाठक्काइयाणं) जे प्रकार सवीर्यता सयोगता, सद्व्ययता, प्रमादप्र-
त्ययता, कर्म, योग एवं आयुष्य जने तद्विधनी अपेक्षाजे जने ते प्रकरना

प्रमादप्रत्ययात् कर्म च, योगं च, भवं च, आयुष्यं च लब्धिं च प्रतीत्य तथाविध-
प्रयोगनामकर्मोदयेन यथा वायुकायिकानां वैक्रियशरीरप्रयोगबन्धः उक्तस्तथैव
वीर्यादिलब्ध्यन्तापेक्षया तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मणः
उदयेन तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धो भवतीति भावः, 'मणुस्स-
पंचिदियवेउव्वि० एवं चेव' मनुष्यपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धोऽपि एवं
चेव-पूर्वोक्तवायुकायिकरीत्यैव वीर्यसयोगसद्द्रव्यतया प्रमादप्रत्ययात् कर्म च, योगं
च, भवं च; आयुष्यं च, लब्धिं च प्रतीत्य मनुष्यपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगनाम्नः
कर्मणः उदयेन भवतीति भावः, 'असुरकुमारभवनवासिदेवपंचिदियवेउव्वियं-
सरीरप्पओगबन्धे जहा रयणप्पभापुह्विनेरइया' असुरकुमारभवनवासिदेवपञ्चेन्द्रिय-
वैक्रियशरीरप्रयोगबन्धो यथा रत्नप्रभापृथिवी नैरयिकपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोग-
बन्धः वीर्यसयोगसद्द्रव्यतया प्रमादप्रत्ययात् कर्म च, योगं च, भवं च,

योग, भव, आयुष्य एवं लब्धि इन सब की अपेक्षा से तथा तथाविध-
नामकर्म के उदय से वायुकायिक एकेन्द्रिय के वैक्रियशरीरप्रयोगबन्ध
कहा गया है, उसी प्रकारसे इन्हीं सब पूर्वोक्त बातोंसे तथा तिर्यग्योनिक
पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगनामकर्मके उदय से तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय
वैक्रियशरीरप्रयोगबन्ध होता है-ऐसा जानना चाहिये। (मणुस्सपंचिदिय
वेउव्विय० एवं चेव) इसी तरह से अर्थात् वायुकायिकरीति के अनु-
सार ही मनुष्यपञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगबन्ध भी सवीर्यता, सयोग-
ता, सद्द्रव्यता आदि पूर्वोक्त कारणों से, तथा मनुष्य पञ्चेन्द्रिय वैक्रिय
शरीरप्रयोग नामकर्म के उदय से होता है। (असुरकुमार भवनवासि-
देवपंचिदियवेउव्वियसरीरप्पओगबन्धे जहा रयणप्पभापुह्विनेरइया)
असुरकुमारभवनवासिदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धरत्नप्रभा पृ-

नाम कर्मना उदयथी वायुकायिक ऐकेन्द्रिय शरीरप्रयोगबन्ध थाय छे, ऐञ्
प्रकारे ऐञ् पूर्वोक्त सवीर्यता आदिनी अपेक्षाये तथा तिर्य्ययोनिक पञ्चे
न्द्रिय वैक्रियप्रयोग नाम कर्मना उदयथी तिर्य्ययोनिक पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर
प्रयोगबन्ध थाय छे ऐञ् समञ्जुं. (मणुस्स पंचिदिय वेउव्विय० एवं चेव)
ऐञ् प्रभाणे-वायुकायिके प्रभाणे मनुष्य पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगबन्ध
पञ्च सवीर्यता, सयोगता, सद्द्रव्यता, आदि पूर्वोक्त कारणोथी तथा मनुष्य
पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोग नाम कर्मना उदयथी थाय छे. (असुरकुमारभ-
वनवासि देवपंचिदिय वेउव्वियसरीरप्पओगबन्धे जहा रयणप्पभापुह्वी नेरइया)
असुरकुमार लवनवासि देवपञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगबन्ध पृथ्वी

પૃથિવી-યાવત્-નૈરયિકપૃથ્વેન્દ્રિયવૈક્રિયશરીરપ્રયોગનામ્નઃ કર્મણઃ ઉદયેન રત્ન-
 પ્રમાપૃથિવીનૈરયિકપૃથ્વેન્દ્રિયવૈક્રિયશરીરપ્રયોગબદ્ધો મવતીતિ માત્ત્વઃ । એવં યાસ્ત્
 શર્કરાપ્રમા-વાલુકાપ્રમા-પદ્મપ્રમા - ધૂમપ્રમાઃ- તમ પ્રમા - તમસ્તમઃપ્રમાડખા-
 સપ્તમીપર્યન્તપૃથિવીનૈરયિકપૃથ્વેન્દ્રિયવૈક્રિયશરીરપ્રયોગનામ્નઃ કર્મણઃ ઉદયેન
 શર્કરાપ્રમાદિપૃથિવીનૈરયિકપૃથ્વેન્દ્રિયવૈક્રિયશરીરપ્રયોગબદ્ધો મવતીતિ સાત્યર્થેષુ ।
 ગૌતમઃ પૃચ્છતિ- ' તિરિક્ત્વજોષિયપંચિદિયથેઽઙ્ગિયસરીરપુચ્છા ' હે મન્ત ।
 તિર્યગ્યોનિકપૃથ્વેન્દ્રિયવૈક્રિયશરીરપુચ્છા, તથા ચ તિર્યગ્યોનિકપૃથ્વેન્દ્રિયવૈક્રિય-
 શરીરપ્રયોગબદ્ધ કસ્ય કર્મણઃ ઉદયેન મવતિ ? इति પ્રશ્નઃ, મગનાનાહ- ' ગોપમા ।
 વીરિય સયોગસદ્ધ્યયાપ્ જહા વાઙ્કલાદ્યાણં ' હે ગૌતમ ! વીર્ય સયોગ સવ્દ્રવ્યતા

તથા રત્નપ્રમાપૃથિવી નૈરયિકો પૃથ્વેન્દ્રિય વૈક્રિય શરીરપ્રયોગ નામકર્મ
 કે ઉદય સે રત્નપ્રમાપૃથિવીગત નૈરયિક પૃથ્વેન્દ્રિય વૈક્રિય શરીરપ્રયો
 ગબદ્ધ હોતા હૈ । હસી તરહ સે-શર્કરાપ્રમા, વાલુકાપ્રમા, પદ્મપ્રમા,
 ધૂમપ્રમા, તમસ્તમઃ પ્રમા હન પૃથિવિયો સપ્તમી નૈરયિક પૃથ્વેન્દ્રિયવૈક્રિ-
 યશરીરપ્રયોગનામકર્મ કે ઉદય સે શર્કરાપ્રમા આદિ પૃથિવીગત નૈરયિક
 પંથેન્દ્રિય વૈક્રિયશરીરપ્રયોગબદ્ધ હોતા હૈ ।

અવ ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન સે પૂછતે હૈ- (તિરિક્ત્વજોષિય પંચિદિય
 થેઽઙ્ગિયસરીરપુચ્છા) હે મન્ત । તિર્યગ્યોનિક પૃથ્વેન્દ્રિયવૈક્રિયશરીર
 પ્રયોગબદ્ધ કિસકર્મ કે ઉદય સે હોતા હૈ ? હસકે ઉત્તર મેં પ્રશ્ન કહતે
 હૈ- (ગોપમા) હે ગૌતમ । (વીરિયસયોગસદ્ધ્યયાપ્ જહા વાઙ્કલાદ્યા
 ણ) જિસ પ્રકાર સવીર્યતા, સયોગતા, સવ્દ્રવ્યતા, પ્રમાદપ્રત્યયતા, કર્મ,

પૃથ્વેન્દ્રિય વૈક્રિયશરીર પ્રયોગ નામ કર્મના ઉદયથી રત્નપ્રમાગત નૈરયિક પૃથ્વે
 ન્દ્રિય વૈક્રિયશરીર પ્રયોગબદ્ધ થાય છે, જ્યેષ્ઠ પ્રમાણે શર્કરાપ્રમા, વાલુકાપ્રમા,
 પદ્મપ્રમા, ધૂમપ્રમા તમસ્તમઃ પ્રમા, વગેરે પૃથ્વી સભ્યો નાશક પૃથ્વેન્દ્રિય
 વૈક્રિયશરીર પ્રયોગ નામ કર્મના ઉદયથી શર્કરાપ્રમા આદિ પૃથ્વીગત નૈરયિક
 પૃથ્વેન્દ્રિય વૈક્રિયશરીર પ્રયોગબદ્ધ થવું થાય છે

ગૌતમસ્વામીનો પ્રશ્ન- (તિરિક્ત્વજોષિય પંચિદિયથેઽઙ્ગિયસરીરપુચ્છા)
 હે મન્ત । તિર્યગ્યોનિક પૃથ્વેન્દ્રિય વૈક્રિયશરીર પ્રયોગબદ્ધ કયા કર્મના ઉદ
 યથી થાય છે ?

મહાવીર પ્રશ્નનો ઉત્તર- (ગોપમા ।) હે ગૌતમ । (વીરિયસયોગસદ્ધ્ય
 યાપ્ જહા વાઙ્કલાદ્યાણં) જે પ્રકારે સવીર્યતા સયોગતા, સવ્દ્રવ્યતા, પ્રમાદપ્ર-
 ત્યયતા, કર્મ, યોગ, અવ આગમ્ય અને તલિધની અપેક્ષાએ અને તે પ્રકારે

प्रमादप्रत्ययात् कर्म च, योगं च, भवं च, आयुष्यं च लब्धि च प्रतीत्य तथाविध-
 प्रयोगनामकर्मोदयेन यथा वायुकायिकानां वैक्रियशरीरप्रयोगवन्धः उक्तस्तथैव
 वीर्यादिलब्ध्यन्तापेक्षया तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मणः
 उदयेन तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगवन्धो भवतीति भावः, 'मणुस्स-
 पंचिदियवेउन्वि० एवं चेव' मनुष्यपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगवन्धोऽपि एवं
 चैव-पूर्वोक्तवायुकायिकरीत्यैव वीर्यसयोगसद्द्रव्यतया प्रमादप्रत्ययात् कर्म च, योगं
 च, भवं च, आयुष्यं च, लब्धि च प्रतीत्य मनुष्यपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगनाम्नः
 कर्मणः उदयेन भवतीति भावः, 'असुरकुमारभवनवासिदेवपंचिदियवेउन्विय-
 सरीररूपओगबंधे जहा रयणप्पभापुढविनेरइया' असुरकुमारभवनवासिदेवपञ्चेन्द्रिय-
 वैक्रियशरीरप्रयोगवन्धो यथा रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोग-
 वन्धः वीर्यसयोगसद्द्रव्यतया प्रमादप्रत्ययात् कर्म च, योगं च, भवं च,

योग, भव, आयुष्य एवं लब्धि इन सब की अपेक्षा से तथा तथाविध-
 नामकर्म के उदय से वायुकायिक एकेन्द्रिय के वैक्रियशरीरप्रयोगबंध
 कहा गया है, उसी प्रकारसे इन्हीं सब पूर्वोक्त बातोंसे तथा तिर्यग्योनिक
 पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगनामकर्मके उदय से तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय
 वैक्रियशरीरप्रयोगबंध होता है-ऐसा जानना चाहिये। (मणुस्सपंचिदिय
 वेउन्विय० एवं चेव) इसी तरह से अर्थात् वायुकायिकरीति के अनु-
 सार ही मनुष्यपञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगबंध भी सवीर्यता, सयोग-
 ता, सद्द्रव्यता आदि पूर्वोक्त कारणों से, तथा मनुष्य पञ्चेन्द्रिय वैक्रिय
 शरीरप्रयोग नामकर्म के उदय से होता है। (असुरकुमार भवनवासि-
 देवपंचिदियवेउन्वियसरीररूपओगबंधे जहा रयणप्पभापुढविनेरइया)
 असुरकुमारभवनवासिदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगबंधरत्नप्रभा पृ-

नाम कर्मना उदयथी वायुकायिक एकेन्द्रिय शरीरप्रयोगबंध थाय छे, एके
 प्रकारे एके पूर्वोक्त सवीर्यता आदिनी अपेक्षाये तथा तिर्यग्योनिक पञ्चे
 न्द्रिय वैक्रियप्रयोग नाम कर्मना उदयथी तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर
 प्रयोगबंध थाय छे एके समन्वुं. (मणुस्स पंचिदिय वेउन्विय० एवं चेव)
 एके प्रमाणे-वायुकायिके प्रमाणे मनुष्य पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगबंध
 पणु सवीर्यता, सयोगता, सद्द्रव्यता, आदि पूर्वोक्त कारणेथी तथा मनुष्य
 पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोग नाम कर्मना उदयथी थाय छे (असुरकुमारभ-
 वणवासि देवपंचिदिय वेउन्वियसरीररूपओगबंधे जहा रयणप्पभापुढवी नेरइया)
 असुरकुमार भवनवासि देवपञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगबंध रत्नप्रभा पृथ्वी

आयुष्य च प्रतीत्य तथाविधवैक्रियशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मण उदयेन प्रतिपादित-
 स्तद्यव प्रतिपत्तव्यः विज्ञेय इत्यर्थः, ' एव जाव धणियकुमारा, एव पाणमंतरा,
 एव जोइसिया ' एव यावत् सुवर्णकुमार-नागकुमार-विष्णुकुमाराग्निकुमारोदधि
 कुमार-पवनकुमार-द्वीपकुमार-दिक्कुमार-स्तनितकुमारमचनपतिपञ्चेन्द्रियदेववैक्रि
 यशरीरप्रयोगवन्धः एवं वानव्यन्तरदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगवन्धः, एव
 ज्योतिषिकदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगवन्धः धीर्यसयोगसद्वृष्यतया प्रमाद-
 प्रत्ययात् कर्म च, योगं च, भव च, आयुष्य च प्रतीत्य तथाविधसुवर्णकुमारादि
 ज्योतिषिकदेवान्तपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगनाम्न कर्मणः उदयेन मचतीति भाषः,
 ' एवं सोहम्मकण्ठोषगया वेमाणिमा, एवं जाव अन्नुयगेवेवज कप्याईया वेमा-

पिबी नैरयिक पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगवन्ध की तरह सचीर्यता,
 सयोगता, सद्वृष्यतासे प्रमादरूप कारण से, कर्म, योग, भव, आयुष्य
 की अपेक्षा से तथा तथाविध वैक्रिय शरीरप्रयोगनामकर्मके उदय से
 होता है। (एव जाव धणियकुमारा, एव पाणमंतरा, एव जोइसिया)
 इसी प्रकार से यावत्-सुवर्णकुमार, नागकुमार, विष्णुकुमार, अग्नि
 कुमार, उदधिकुमार, पवनकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार, स्तनितकु
 मार, इन सब भवनपतिर्षो का भवनपतिदेव पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर
 प्रयोगवन्ध, वानव्यन्तरदेवपञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगवन्ध, ज्योतिषिक
 देव पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगवन्ध, सचीर्यता, सयोगता, सद्वृष्यता
 से, प्रमादरूप कारण से, कर्म, योग, भव और आयुष्य के
 आश्रय से, तथा तथाविध सुवर्णकुमारादि ज्योतिषिकदेवान्तपञ्चेन्द्रिय
 वैक्रियशरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से होता है। (एवं सोहम्मकण्ठोष

नैरयिक पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगवन्धनी जेभ सचीर्यता, सयोगता सद्र
 व्यता, प्रमाद रूप कारण, कर्म, योग, भव अने आयुष्यनी अपेक्षासे तथा
 तथाविध (ते प्रकारना) वैक्रियशरीरप्रयोग नाम कर्मना उदयधी याव छे

(एवं जाव धणियकुमारा एवं पाणमंतरा, एवं जोइसिया) ज्ये प्रमाद
 सुवर्णकुमार, नागकुमार, विष्णुकुमार, अग्निकुमार, उदधिकुमार पवनकुमार
 द्वीपकुमार दिक्कुमार अने स्तनितकुमार, ज्ये भवनपति देवानो भवनपतिदेव
 पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगवन्ध, तथा वानव्यन्तर देवपञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर
 प्रयोगवन्ध, तथा ज्योतिषिक देवपञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोगवन्ध पक्ष सची-
 र्यता, सयोगता, सद्वृष्यता प्रमादरूप कारण कर्म योग, भव अने आयुष्यना
 आश्रयनी अपेक्षासे, अने तथाविध- (सुवर्णकुमारादी लक्षणे ज्योतिषिक पञ्
 चाना देवपञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोग) नाम कर्मना उदयधी याव छे (एवं

णिया, एवं चैव अणुत्तरोववाह्यकप्पाईया वैमाणिया एवं चैव ' एवं पूर्वोक्त-
रीत्या सौधर्मकल्पोपपन्नकानां वैमानिकानाम्, एवं यावत्-ईशान-सनत्कुमार-
माहेन्द्र-ब्रह्मलान्तक-शुक - सहस्रार-नतप्राणता - ऽरणाऽ-च्युत - नवग्रैवेयक-
कल्पापीतानां वैमानिकानाम्, एवञ्चैव पूर्वोक्तरीत्यैव अनुत्तरौपपातिककल्पाती-
तनां वैमानिकानाम् एवं चैव पूर्वोक्तरीत्यैव वैक्रियशरीरप्रयोगबन्धो वीर्यसयोग-
सद्द्रव्यतया प्रमादप्रत्ययात् कर्म च, योगं च, आयुष्यं च प्रतीत्य तथाविध सौध-
र्मादिदेवपञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मण उदयेन भवतीत्यवधेयम्, गौतमः
पृच्छति- ' वेडन्वियसरीरप्रयोगबन्धे णं भंते ! किं देसबन्धे, सव्वबन्धे ? ' हे
भदन्त ! वैक्रियशरीरप्रयोगबन्धः खलु किं देशबन्धो भवति ? किं वा सर्वबन्धो भवति ?

गया वैमाणिया, एवं जाव अञ्चुयगेवेज्जकप्पाईया वैमाणिया, एवं
चैव अणुत्तरोववाह्यकप्पाईया, वैमाणिया एवं चैव) इसी तरह से
सौधर्मकल्पोपपन्नक वैमानिकदेवों का, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म,
लान्तक, शुक, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इन कल्पोप-
पन्नक वैमानिक देवों का, नवग्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक देवों का,
अनुत्तरौपपातिककल्पातीत वैमानिक देवों का, वैक्रियशरीरप्रयोगबन्ध
सवीर्यता, सयोगता, सद्द्रव्यता से, प्रमादरूप कारण से, कर्म, योग,
भव और आयुष्य इन की अपेक्षा से, और तथाविध सौधर्मादि देव
पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से होता है ।

अब गौतमस्वामी प्रश्न से पूछते हैं-(वेडन्वियसरीरप्रयोगबन्धे णं
भंते ! किं देसबन्धे, सव्वबन्धे) हे भदन्त ! वैक्रियशरीरप्रयोगबन्ध क्या

चैव अणुत्तरोववाह्यकप्पाईया वैमाणिया एवं चैव) ओ७ प्रमाणे सौधर्मकल्पो-
पपन्नक वैमानिक देवेनो, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लान्तक, शुक,
सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण्य अने अच्युत, ओ कल्पोपपन्नक वैमानिकेनो
नवग्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक देवेनो, अने अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत
वैमानिक देवेनो वैक्रियशरीरप्रयोग बन्ध पणु सवीर्यता, सयोगता, सद्द्रव्यता
प्रमादरूप कारण, कर्म, योग, लव अने आयुष्य रूप कारणेनी अपेक्षाओ अने
तथाविध-ते ते प्रकारना-सौधर्मादि देवपञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर प्रयोग नाम
कर्मना उदयधी थाय छे.

इवे गौतमस्वामी महावीर प्रश्नने ओवे प्रश्न पूछे छे के-(वेडन्विय
सरीरप्रयोगबन्धे णं भंते ! किं देसबन्धे, सव्वबन्धे ?) हे भदन्त ! वैक्रियश-

મગધનાહ-‘ગોયમા ! દેસબંધે વિ સન્નબંધે વિ’ હ ગૌતમ ! વૈક્રિયશરીરમયોગવંબો
 દેશબંધસ્વરૂપોઽપિ સર્વબંધસ્વરૂપોઽપિ ભવતિ । ‘વાતસ્કાહ્યપર્ગિવિય૦ એવ ચેવ,
 રમણપ્પમાપુઢવિનેરહયા એવ ચેવ, એવં જાન અણુસરોવવાહયા’ વાયુકાયિકૈકેન્દ્રિય
 શરીરમયોગવંબઃ એવચ્ચેવ દેશબંધોઽપિ ભવતિ, સર્વબંધોઽપિ ભવતિ, એવ રત્ન
 પ્રમાપૃથિત્રીનેરયિકવચ્ચેન્દ્રિયવૈક્રિયશરીરમયોગવંબઃ એવ ચૈવ દેશબંધોઽપિ સર્વ
 બંધોઽપિ ભવતિ, એવ રીત્યા યાવત્ શર્કરામમાપૃથિવ્યાપચ।સમ્પત્તી પૃથિવ્યસ્ત
 નૈરયિક-મવનવતિ-જાનબ્યન્તર-ગ્યોતિપિકૃત્વૈમાનિક-નવપ્રૈવેયક-કરપાતીવાતુષ-
 રોપપાતિકૃત્વૈવચ્ચેન્દ્રિયવૈક્રિયશરીરમયોગવંબો દેશબંધોઽપિ ભવતિ સર્વબંધોપ્રિ,

દેશબંધરૂપ કોના છે યા સર્વબંધરૂપ હોતા છે ? ઉત્તર મેં પ્રશ્ન કહતે હૈ-
 (ગોયમા) છે ગૌતમ ! વૈક્રિયશરીરમયોગવંબ (દેસબંધે વિ સન્નબંધે વિ)
 દેશબંધરૂપ મી હોતા છે ઓર સર્વબંધરૂપ મી હોતા છે ।

(વાતસ્કાહ્યપર્ગિવિય એવ ચેવ, રમણપ્પમાપુઢવિનેરહયા એવ ચેવ,
 એવ જાન અણુસરોવવાહયા અય ગૌતમપ્રશ્નસે એસા પૂછતે હૈ- છે મવન !
 વાયુકાયિક એકેન્દ્રિય વૈક્રિયશરીરમયોગવંબ દેશબંધરૂપ હોતા છે યા સર્વ
 બંધરૂપ હોતા છે ? હસકે ઉત્તર મેં પ્રશ્ન કહતે હૈ- છે ગૌતમ ! વાયુકાયિક
 એકેન્દ્રિય વૈક્રિયશરીરમયોગવંબ દેશબંધરૂપ મી હોતા છે ઓર સર્વબંધરૂપ
 મી હોતા છે । રત્નપ્રમાપૃથિવો નૈરયિકવંચેન્દ્રિય વૈક્રિયશરીરમયોગવંબ
 મી હસી પ્રકાર કા હોતા છે । તય-શર્કરામમાપૃથિવો સે છેકર તમસ્તમા

શરીર પ્રયોગબંધ શુ દેશબંધરૂપ હોય છે, કે સર્વબંધરૂપ હોય છે ?
 મહાવીર પ્રશ્નને ઉત્તર-(ગોયમા !) છે ગૌતમ ! વૈક્રિયશરીર પ્રયોગ
 બંધ (દેસબંધે વિ, સન્નબંધે વિ) દેશબંધરૂપ પણ હોય છે અને સર્વબંધ
 રૂપ પણ હોય છે

(વાતસ્કાહ્ય પર્ગિવિય એવ ચેવ, રમણપ્પમા પુઢવિ નેરહયા એવ ચેવ એવ જાન
 અણુસરોવવાહયા) ગૌતમસ્વામીનેા પ્રશ્ન-કે કાદ-તા વાયુકાયિક એકેન્દ્રિય વૈક્રિયશરીર
 પ્રયોગબંધ શુ દેશબંધરૂપ હોય છે કે સર્વબંધરૂપ હોય છે ? મહાવીરપ્રશ્ન કહે છે કે
 છે ગૌતમ ! વાયુકાયિક એકેન્દ્રિય વૈક્રિયશરીર પ્રયોગબંધ દેશબંધરૂપ પણ હોય છે
 અને સર્વબંધરૂપ પણ હોય છે એવ પ્રમાણે રત્નપ્રમા પૃથ્વી નૈરયિક વચ્ચેન્દ્રિય વૈક્રિ-
 યશરીર પ્રયોગબંધ પણ દેશબંધરૂપ પણ હોય છે અને સર્વબંધરૂપ પણ હોય છે

गौतमः पृच्छति—‘ वेदविव्यसरीरप्पओगवंधे णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ? ’
 हे भदन्त ! वैक्रियशरीरप्रयोगवन्धः खलु कालतः कालापेक्षया क्रियच्चिरं भवति ?
 भगवानाह—‘ गोयमा ! सव्ववंधे जहण्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं दो समया ’
 हे गौतम ! वैक्रियशरीरप्रयोगस्य सर्ववन्धो जघन्येन एकं समयं भवति, उत्कृष्टेन
 द्वौ समयौ भवति, तत्र वैक्रियशरीरिषु उत्पद्यमानो लब्धितो वा तत्कुर्वन् एकं समयं

सातवीं पृथिवीतक के नारकों का वैक्रियशरीरप्रयोगवंध, भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक, वैमानिक, नवग्रैवेयक, अनुत्तरौपपातिक देव इन सबका वैक्रियशरीरप्रयोगवंध भी देशवंधरूप भी होता है और सर्ववंधरूप भी होता है ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(वेदविव्यसरीरप्पओग-
 वंधे णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ! वैक्रियशरीरप्रयोग-
 वंध काल की अपेक्षा से कबतक रहता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—
 (गोयमा) हे गौतम ! (सव्ववंधे जहण्णेणं एकं समयं उक्कोसेणं दो
 समया) वैक्रियशरीरप्रयोग का सर्ववंध जघन्य से एक समय तक
 रहता है और उत्कृष्ट से दो समयतक रहता है । कोई जीव वैक्रियश-
 रीरधारियों में उत्पन्न हो जाय तब या लब्धि से वह उसे बनावे तब

तथा शर्कराप्रला पृथ्वीथी लधने तमस्तमा नामनी सातमी पृथ्वीपर्यन्तना
 नारकाना वैक्रियशरीर प्रयोगवंधना विषयमां पणु ओञ्ज प्रमाणे समञ्जुं.
 भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक वैमानिक नवग्रैवेयकगत, अने अनुत्तरौपपा-
 तिक देवानो वैक्रियशरीर प्रयोगवंध पणु देशवंध इय पणु डोय छे अने
 सर्ववंध इय पणु डोय छे.

इवे गौतमस्वामी भडावीर प्रभुने ओवे। प्रश्न पूछे छे डे—(वेदविव्यस-
 रीरप्पओगवंधे ण भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?) डे भदन्त ! वैक्रियशरीर
 प्रयोगवंध जाननी अपेक्षाओे कथां सुधी रहे छे ?

भडावीर प्रभुने। उत्तर—(सव्ववंधे जहण्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं दो
 समया) डे गौतम ! वैक्रियशरीर प्रयोगने। सर्ववंध ओाछामां ओाछे ओेक
 समय सुधी अने वधारेमा वधारे ओे समय सुधी रहे छे,

आ कथनतुं स्पष्टीकरणु नीओे प्रमाणे छे—डोय एव वैक्रियशरीरधारीओेमा
 उत्पन्न थई नथ छे, अथवा तो लब्धि द्वारा न्यारे ते तेतुं निर्माणु करे छे.



सर्वबन्धको भवति, इत्येव रीत्या वैक्रियशरीरप्रयोगस्य एक समयं जपन्त्येन सर्वबन्धो बोध्यः, उत्कृष्टेन तु समयद्वय सर्वबन्धः यथा औदारिकशरीरवैक्रियतां प्रतिपद्यमान सर्वबन्धको भूत्वा मृत पुनर्नारियस्व दत्तस्व वा यदा माप्नोति तदा प्रथमतमये वैक्रियशरीरस्य सर्वबन्धको भवतीति कृत्वा वैक्रियस्य शरीरस्य सर्वबन्धकः उत्कृष्टेन समयद्वय भवति, 'देशबन्धे जहण्येण एक समय, उक्तोसेण चेत्सीस सागरोरमाइ समयऊणाइ' वैक्रियशरीरप्रयोगस्य देशबन्धो जपन्त्येन एक समय भवति, उत्कृष्टेन प्रयत्नित्वा सागरोपमानि समयोनानि तस्य देशबन्धो भवति, तत्र औदारिकशरीरि वैक्रियतां प्रतिपद्यमानः प्रथमतमये सर्वबन्धको भवति,

यह एक समय तक उसका सर्वबन्धक होता है। इस तरह जपन्त्य से वैक्रियशरीरप्रयोग का सर्वबन्ध जीव को एक समय तक होता है। और उत्कृष्ट से दो समय तक इस प्रकार से होता है कि कोई औदारिक शरीरधारी जीव वैक्रिय अद्यस्थावाला बनकर उसका सर्वबन्धक हुआ और मर गया—मरकर वह जिस समय नारक पर्याय या देवपर्याय को प्राप्त होता है तब वह प्रथम समय में वैक्रियशरीर का सर्वबन्धक होता है। इस तरह से वह उत्कृष्ट से दो समयतक वैक्रियशरीरप्रयोग का सर्वबन्धक कहा गया है। (देशबन्धे जहण्येण एक समय, उक्तोसेण चेत्सीस सागरोरमाइ समयऊणाइ) वैक्रियशरीरप्रयोग का देशबन्ध जपन्त्य से एक समयतक होता है और उत्कृष्ट से एक समयतक ३३ सागरोपम तक होता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है—कोई औदारिक शरीरधारी जाव वैक्रिय अद्यस्थावाला बना सो वह प्रथम

त्यारे ते ज्येष्ठ समस्य सुधी तेनो सर्वबन्धक रहे छे जा रीते एव ज्येष्ठार्थं ज्येष्ठे ज्येष्ठ समस्य सुधी वैक्रियशरीर प्रयोगेनो सर्वबन्ध करे छे एवे उत्कृष्ट के समबन्धुं स्पष्टीकरवु नीचे प्रमाद्ये समबन्धु—कौष्ठ औदारिक शरीरवाले एव वैक्रिय अद्यस्थावाला जन्मिने तेनो सर्वबन्धक बंधी जने मरी गये मरीने ल्यारे ते नारक पर्याय अथवा देव पर्यायने प्राप्त करे छे त्यारे ते प्रथम समबन्धं वैक्रियशरीरना सर्वबन्धक बोध्य छे जा रीते तेने उत्कृष्टनी अपेक्षाजे के समस्य सुधी वैक्रियशरीर प्रयोगेनो सर्वबन्धक कर्हो छे (देशबन्धे जहण्येण एक समय, उक्तोसेण चेत्सीस सागरोरमाइ समयऊणाइ) वैक्रियशरीरप्रयोगेनो देशबन्धेनो सर्वबन्धकाण ज्येष्ठ समस्येनो जने उत्कृष्टकाण उक्त सागरोपम कर्त्वा ज्येष्ठ न्यून समस्येनो कर्हो छे जा कथननुं नीचे प्रमाद्ये स्पष्टीकरवु समबन्धु—कौष्ठ औदारिक शरीरधारी एव वैक्रिय अद्यस्थावाले जन्मो तो ते प्रथम समबन्धं तेनो

द्वितीयसमये देशबन्धको भूत्वा मृतः इत्येवंरीत्या देशबन्धो जघन्येन एकं समयं भवति, उत्कृष्टेन तु त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानि समयोनानि—तथाहि देवेषु नैरयिकेषु चोत्कृष्टस्थितिपूतपद्यमानः प्रथमसमये वैक्रियशरीरस्य सर्वबन्धकः, ततः परं देशबन्धको भवति, अतः सर्वबन्धसमयोनानि त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि उत्कृष्टतो देशबन्ध इति भावः । गौतमः पृच्छति—‘ वाउक्काइयएगिंदियवेउन्वियपुच्छा ’ हे भदन्त ! वायुकायिकैकेन्द्रियवैक्रियपृच्छा, तथा च वायुकायिकैकेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धः कालतः कियच्चिरं भवतीति प्रश्नः, भगवानाह—‘ गोयमा ! सव्वबंधे

समय में उसका सर्वबंधक होता है । और द्वितीयादि समयों में देशबंधक होकर वह मर जाता है—इस प्रकार देशबंधक का समय जघन्य से एक समय का आता है । तथा उत्कृष्ट से जो इसका समय एक समय कम ३३ सागर का कहा गया है—सो वह इस प्रकार से है—३३ सागर प्रमाण की स्थितिवाले देवों में या नारकों में उत्पन्न हुआ जीव प्रथम समय में वैक्रियशरीर का सर्वबंधक होता है—बाद में वह देशबंधक होता है । इस तरह सर्वबंध का प्रथम समय कम ३३ सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति देशबंध की होती है ।

अथ गौतमस्वामी प्रभु से पूछते हैं—(वाउक्काइयएगिंदिय वेउन्विय पुच्छा) हे भदन्त ! वायुकायिक एकेन्द्रिय का वैक्रियशरीरप्रयोगबन्ध काल की अपेक्षा से कबतक होता है । इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—

सर्वबंधक डोय छे अने द्वितीय समयमां देशबंधक डोय छे, आ रीते द्वितीयादि समयमां देशबंधक थधने ते मरी जय छे आ रीते देशबंधने काण जघन्यनी अपेक्षाअे अेक समयने आवे छे. उत्कृष्टनी अपेक्षाअे देशबंधने समय उउ सागरोपम करतां अेक न्यून समयने अे कइयो छे तेलुं स्पष्टीकरण आ प्रमाणे छे. उउ सागरोपम प्रमाणनी स्थितिवाणा देवोमां अथवा नारकोमां उत्पन्न थयेवो एव प्रथम समये वैक्रियशरीरने सर्वबंधक डोय छे अने तयार भाद ते देशबंधक थाय छे. तेही सर्वबंधने अेक समय भाद करता देशबंधने उत्कृष्ट काण उउ सागरोपम करतां अेक न्यून समय प्रमाण आनी जय छे.

गौतमस्वामीने प्रश्न—(वाउक्काइय एगिंदियवेउन्वियपुच्छा) हे भदन्त ! वायुकायिक अेकेन्द्रियने वैक्रियशरीरप्रयोगबन्ध काणनी अपेक्षाअे कथां सुधी रहे छे ?



एकं समय देसबधे जहण्येण एकं समयं उक्कोसेण अतोमुहुत्त' हे गौतम । वायुकायिकेकेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगस्य सर्वषध एक समयम्, देशबन्धो जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन अन्तर्मुहूर्तं भवति, तत्र वायुरौदारिकशरीरी सन् वैक्रिय गतस्ततः प्रथमसमये सर्वषधको द्वितीयसमये च देशबन्धको मूत्सा घृत, स्थेवं जघन्येनैकोदेशबन्धसमयः, उत्कृष्टेन तु अन्तर्मुहूर्तम्, तथाहि-वैक्रियशरीरेण स एव यदाऽन्तर्मुहूर्तमाभ्रमास्ते तदोत्कर्षेण देशबन्धोऽन्तर्मुहूर्तम्, लघ्विवैक्रियशरीरिणो जीवतोऽन्तर्मुहूर्तात्परतो न वैक्रियशरीरावस्थानमस्ति, पुनरौदारिकशरीरस्यैवावस्थ-

(गोपमा) हे गौतम ! (सम्बन्धे एक समयं, देशबन्धे जहण्येण एक समय उक्कोसेण अंतोमुहुत्तं) वायुकायिक एकेन्द्रिय का जो वैक्रियशरीर होता है-उसके उसका सर्वषध एक समय का होता है-और देशबन्ध जघन्य से एक समय का और उत्कृष्ट से अन्तर्मुहूर्त का होता है। वायुकायिक जीव औदारिक शरीरवारी होता है परन्तु जय वह विक्रियवावाला बनता है तब उसके वैक्रियशरीर का सर्वषध एक समय का होता है-और देशबन्ध का समय जघन्य से एक समय का और उत्कृष्ट से अन्तर्मुहूर्त का होता है। अन्तर्मुहूर्त के होने का कारण यह है कि वायुकायिक जीव वैक्रियशरीर के साथ एक अन्तर्मुहूर्त तक ही रह सकता है-अधिक नहीं-क्यों कि जो जीव औदारिक शरीर के साथ लघ्विविक्रिया वाले होते हैं-वे उस से विक्रिया में अधिक एक अन्तर्मुहूर्त तक ही रहते हैं-इस से अधिक समय तक नहीं। इसके बाद तो वे

મહાવીર પ્રશ્નને ઉત્તર-(ગોપમા ! સમ્બન્ધે, એક સમય, દેશબન્ધે, જહણ્યેણ એક સમયં, ઉક્કોસેણ અતોમુહુત્ત) હે ગૌતમ ! વાયુકાયિક એકેન્દ્રિયના વૈક્રિયશરીર પ્રયોગને સર્વબધ એક સમયને ઢોલ છે અને દેશબન્ધ જાણામાં જોઈ એક સમયને અને વધારેમાં વધારે અન્તર્મુહૂર્તનો ઢોલ છે. વાયુકાયિક એવ ઔદારિકશરીરવારી ઢોલ છે, પણ બ્યારે તેઓ વિક્રિયાવાળા બને છે ત્યારે તેમના વૈક્રિયશરીરને સર્વબધ એક સમયને ઢોલ ઢોલ છે અને દેશબન્ધને જઘન્યકાળ એક સમયને અને ઉત્કૃષ્ટકાળ અન્તર્મુહૂર્તનો ઢોલ છે. દેશબન્ધને ઉત્કૃષ્ટકાળ એક અન્તર્મુહૂર્તનો કહેવાનું કારણ એ છે કે વાયુકાયિક એવ વૈક્રિય શરીર સાથે એક અન્તર્મુહૂર્ત મુખી જ રહી શકે છે-વધારે સમય રહી શકતા નથી, કારણ કે જે એવ ઔદારિક શરીરની સાથે લઘ્વિવિક્રિયાવાળા ઢોલ છે, તે છવે ને વિક્રિયામાં વધારેમાં વધારે એક અન્તર્મુહૂર્ત મુખી જ રહે છે-તેના કરતાં વધુ સમય રહેતા નથી. ત્યાર બાદ

प्रतिपत्तेः । गौतमः पृच्छति—‘ रयणप्पभापुढविनेरइयपृच्छा ’ हे भदन्त ! रत्न-
प्रभापृथिवीनैरयिकपृच्छा, तथा च रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीर-
प्रयोगबन्धः कालतः क्रियच्चिरं भवति ? भगवान्नाह—‘ गोयमा ! सव्ववधे एक्कं
समयं, देसवंधे जहण्णेणं दसवामसहस्साइं तिसमयऊणाइं, उक्कोसेणं सागरोवमं समयूणं’
हे गौतम ! रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकवैक्रियशरीरप्रयोगस्य सर्वबन्धः एकं समयं
भवति, देशबन्धस्तु जघन्येन दशवर्षसहस्राणि त्रिसमयोनानि, उत्कृष्टेन च सागरो-
पमं समयोनं भवति, तत्र त्रिसमयविग्रहेण रत्नप्रभायां जघन्यस्थितिको नैरयिकः

अवश्य ही औदारिक शरीर को ही प्राप्त कर लेते हैं । इससे देशबध का
उत्कृष्ट समय एक समय कम अन्तर्मुहूर्त का कहा गया है ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं कि—(रयणप्पभापुढवि
नेरइय पुच्छा) हे भदन्त ! रत्नप्रभापृथिवी गत नारकपञ्चेन्द्रिय के वैक्रिय
शरीर प्रयोगबन्ध का काल कितना है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा)
हे गौतम ! (सव्ववधे एक्कं समयं, देसवंधे जहण्णेणं दसवाससहस्साइं
तिसमयऊणाइं उक्कोसेणं सागरोवमं समयऊणं) प्रथमपृथिवी रत्नप्रभा-
गत नारक जीव का जो वैक्रियशरीर है—उसके सर्वबन्ध का काल एक
समय का है और इसका जो देशबध है—उसका जघन्य काल तीन समय
कम दश १० हजार वर्ष का है और उत्कृष्ट काल एक समय कम
एक सागरोपम का है । तीन समय कम दस हजार वर्ष का है । इसका
तात्पर्य ऐसा है—कोई जीव तीन समय की विग्रहगति से जघन्य स्थिति

तो तेजो अवश्य औदारिक शरीरने ज प्राप्त करी ले छे । तेथी देशबधने
उत्कृष्ट समय अन्तर्मुहूर्तने कळ्हा छे

हुवे गौतमस्वामी महावीर प्रभुने जेवे प्रश्न पूछे छे हे—(रयणप्पभा
पुढवि नेरइय पुच्छा) हे भदन्त ! रत्नप्रभा पृथ्वीगत नारक पञ्चेन्द्रियने
वैक्रियशरीर प्रयोगबन्ध काणनी अपेक्षाजे कथां सुधी रडे छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्ववधे एक्कं समय
देसवंधे जहण्णेणं दसवाससहस्साइं तिसमयऊणाइं, उक्कोसेणं सागरोवमं सम-
यऊणं) पडेही रत्नप्रभा पृथ्वीगत नारक जवना वैक्रियशरीरने सर्वबन्धने
काण जेक समयने छे अने तेना देशबधने जेजामां जेजे काण १० हजार
वर्ष करतां त्रयु समय न्यून छे अने उत्कृष्टकाण सागरोपम करतां जेक न्यून
समयप्रमाणु छे, तेने देशबन्ध जघन्य १० हजार वर्ष करतां त्रयु न्यून
समय प्रमाणु कडेवामां जाये छे तेवुं स्पष्टीकरषु नीये प्रमाणु छे—

समुत्पन्न, तत्र च समयद्वयमनाहारकस्तृतीये च समये सर्वबन्धकस्ततोवैक्रिय शरीरस्य देशबन्धकः, तदवभाषसमयप्रयन्तूनं वर्षसहस्रदशक जघन्येन देशबन्ध, उत्कृष्टेन तु समयोन सागरोपम मरुति, तथाहि-अधिग्रहेण रत्नप्रभायामुत्कृष्टस्थितिन्नो नारक समुत्पन्नः, तत्र च प्रथमसमये वैक्रियशरीरस्य सर्वबन्धकः, तत पर देशबन्धकः, तेन सर्वबन्धसमयोन सागरोपमम् उत्कर्षेण देशबन्ध, एवमेव सर्वत्र सर्वत्र एकसमय, देशबन्धश्च जघन्येन विग्रहसमयप्रयन्तूनः स्वस्व जघन्यस्थितिप्रभा

लेकर रत्नप्रभा पृथिवी में नारक की पर्याय में उत्पन्न हुआ-वहां वह दो समय तक अनाहारक रहा और तृतीय समय में सर्वबन्धक हो गया-पाद में वह वैक्रिय शरीरका देशबन्धक हुआ इस तरह से आदिके तीन समय कम दस हजार वर्षतक का जघन्य समय देशबन्ध का होता है। तथा प्रथम नरक में नारक की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की है-एक समय कम एक सागर का उत्कृष्टकाल देशबन्ध का है-इसका तात्पर्य ऐसा है कि कोई जीव प्रथम नरक में एक समयवाली अधिग्रहगति से उत्पन्न हुआ-और उत्पन्न होते ही वह वहां वैक्रियशरीर का सर्वबन्धक हो गया-पाद में देशबन्धक हुआ-इस तरह यह वहां सर्वबन्ध के समय से प्रथम नरक संघर्ष हीन एक सागरोपमतक रहा-अत यह एक समय कम एक सागरोपमकाल उत्कृष्ट से वैक्रियशरीर के देशबन्ध का होता है। जिस तरह से यहा पर देशबन्ध का काल जघन्य से तीन समय

काल एव तत्र समयनी विभक्तिसिद्धि जघन्यस्थिति वर्धने रत्नप्रभा पृथिवीमां नारकनी पर्यायमां उत्पन्न यथे ते त्वां वे समय मुधी अनाहारक शब्दे अने त्रीन् समयमां सवलधक यथं जये अने त्पारणां ते वैक्रियशरीरने देशबन्धक यथे। आ शीते शङ्खातना प्रजु समय जाह करवाधी देशबन्धने जघन्यभाज १० इस हजार वर्षं इत्यां प्रजु समय न्यून भाषी जय उ अने नरकमा नारकना देशबन्धने उत्कृष्टकाल जेक सामरोपम इत्यां जेक न्यून समय प्रभाजु जे इहेवाभा आन्ये उ, तत्र स्वप्तीकरण नीम प्रभाजु उ-काल एव प्रथम नरकमां जेक समयवागी अधिग्रहगतिषी उत्पन्न यथे। अने उत्पन्न यतां ज ते वैक्रियशरीरने सवलधक यथं जये अने त्पार जाह देशबन्धक यथे। आ शीते ते त्वां प्रथम नरकना जेक सामरोपमना समय इत्यां जेक न्यून समय पर्यन्त त्वां शब्दे-(सवलधने जेक समय जाह करवाधी आ समय प्राप्त याव उ) तेषी ज देशबन्धने उत्कृष्टकाल सामरोपम इत्यां जेक जेवाजा समय प्रभाजु शब्दे उ, जे शीते अदी देशबन्ध

णकोवक्तव्यः, उत्कर्षेण देशबन्धश्च सर्वबन्धसमयन्यूनस्वसोत्कृष्टस्थितिप्रमाणको वक्तव्य इत्यभिप्रायेणाह—‘ एवं जाव अहेसत्तमा, नवरं देसबंधे जा जस्स जहन्निया ठिई सा तिसमयऊणा कायव्वा, जस्स जा उक्कोसा सा समयूणा ’ एवं पूर्वोक्तरीत्यैव यावत्—शर्कराप्रभा—वालुकाप्रभा—पङ्कप्रभा—धूमप्रभा—तमःप्रभा—तमस्तमःप्रभाऽधः सप्तमीपृथिवीनैरयिकपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगस्य सर्वबन्धः एकं समयं भवति, नवरं विशेषस्तु देशबंधो यस्य नैरयिकजीवस्य या यावती जघन्यिका जघन्येन स्थितिरायुष्यकालः, सा त्रिसमयन्युना कर्तव्या, यस्य च या उत्कृष्टा स्थितिः सा समयोना कर्तव्या, तथैव प्रदर्शिता चेति भावः, पञ्चेन्द्रियतिर्यङ्मनुष्याणां वैक्रियसर्वबन्धः एकं समयं भवति, देशबन्धस्तु जघन्येन एकं समयम्, उत्कृष्टेन

कम दश १० हजार वर्ष का और उत्कृष्टकाल एक समय कम एक सागरोपम का कहा गया है—इसी तरह से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, और सप्तम इन सब नरकों में रहने वाले जीव के वैक्रिय शरीर का सर्वबंध काल एक समय और देशबंध का जघन्य काल तीन समय कम अपनी २ जघन्य आयु बराबर है और उत्कृष्ट देशबंध काल सर्वबंध के एक समय से कम अपनी २ उत्कृष्ट आयु बराबर है। इसी अभिप्राय को लेकर (एवं जाव अहे सत्तमा—नवरं देसबंधे जा जस्स जहन्निया ठिई सा तिसमयऊणा कायव्वा) ऐसा कहा गया है। पंचेन्द्रियतिर्यंच और मनुष्यों के वैक्रिय शरीर का सर्वबंध काल एक समय का और देशबंध काल जघन्य से एक समय का और उत्कृष्ट से अन्तर्मुहूर्त का होता है। यही बात सूत्रकार ने वायुकायिक जीवों के वैक्रिय

धने जघन्यकाण १० इस्स हुत्तर वर्षं करता त्रषु ओछा समयने अने उत्कृष्टकाण ओक सागरोपम करतां ओक न्यून समयने कइयो छे, ओज रीते णीळ' त्रीळ, ओथी, पायमी, छुटी अने सातमी नरकोमां रहनेनारा नारकोना वैक्रिय शरीरने सर्वबंधकाण ओक समयने अने देशबंधने जघन्यकाण तेमनी जेटली जघन्य आयु स्थिति होय तेना करतां त्रषु न्यून समय प्रमाण समजवे अने देशबंधने उत्कृष्टकाण जेमनी जेटली उत्कृष्ट आयु स्थिति तेना करतां ओक न्यून समय प्रमाण समजवे ओज वात सूत्रकारे (एवं जाव अहे सत्तमा—नवरं देसबंधे जा जस्स जहन्निया ठिई सा तिसमयऊणा कायव्वा) आ सूत्र द्वारा प्रतिपादन कयुं छे

पञ्चेन्द्रिय तिर्यंच अने मनुष्याना वैक्रियशरीरने सर्वबंधकाण ओक समयने अने देशबंधकाण ओछामा ओछो ओक समयने अने वधादेमां

अन्तर्मुहूर्तमित्यतिदेशेनाह—'पंचिदियतिरिक्त्वजोणियाणं, मणुस्ताणं य, जहा वाउ
 क्काइयाण' पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानाम्, मनुष्याणां च यथा वायुकायिकानां
 वैक्रियशरीरमयोगस्य सर्वबन्धः एक समय, देशबन्धस्तु जघन्येन एक समयम्
 उत्कर्षेण च अन्तर्मुहूर्तं भवति तथैव विज्ञेय इति भावः, 'असुरकुमार नागकुमार
 जाव अणुसरोववाइयाणं जहा नेरइयाण' असुरकुमार-नागकुमार-यावत्-सुपर्णकु
 मारादिभवनपति-वानव्यन्तर-ज्योतिषिक-पैमानिक नवग्रैवेयक देवानुसरोपपाति-
 कदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरमयोगस्य सर्वबन्धः देशबन्ध यथा नैरयिकाणां, वैक्रिय
 शरीरमयोगस्य सर्वबन्धः एकं समयं देशबन्ध जघन्येन दशवर्षसहस्राणि त्रिसप्त-

शरीर के सर्वबंध देशबन्ध के काल को लेकर इस (पंचिदिय तिरिक्त्व
 जोणियाणं मणुस्ताणं य जहा वाउक्काइयाण) सूत्र द्वारा प्रकट की है।
 जिस प्रकार से वायुकायिक जीवों के वैक्रिय शरीर का सर्वबंध काल
 एक समय का है और देशबंध का काल जघन्य से एक समय का और
 उत्कृष्टसे अंतर्मुहूर्तका है—उसी प्रकारसे पंचेन्द्रिय तिर्यग्यो और मनुष्यों
 के वैक्रिय शरीर का सर्वबंध काल और देशबंध काल जानना चाहिये।
 (असुरकुमारनागकुमार जाव अणुसरोववाइयाणं जहा नेरइयाणं)
 असुरकुमार, नागकुमार, यावत्-सुपर्णकुमार आदि भवनपति, वानव्य
 न्तर, ज्योतिषिक, पैमानिक नवग्रैवेयक देव, अनुसरोपपातिक देव, इन
 सब देवों का वैक्रिय शरीर का सर्वबंधकाल तथा देशबंधकाल जैसा
 नैरयिकों का कहा है वैसा ही यहाँ समझना चाहिये, उनमें उनका
 सर्वबंधकाल एक समय का, और देशबंधकाल जघन्य से अपनी अपनी

वधा अन्तर्मुहूर्तना डोष छे जेह वाउ सूत्रदारे (पंचिदियतिरिक्त्वजोणिया
 णं मणुस्ताणं य जहा वाउक्काइयाण) का सूत्र द्वारा प्रकट करी छे जेतदे के
 पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिके अने मनुष्येना वैक्रियशरीरना सबबंध अने देश
 बंधनेकाज वायुकायिकेना सबबंध अने देशबंध प्रभावे समजवे। जेतदेके
 तेमना वैक्रियशरीरने सबबंधकाज जेह समजने अने देशबंधकाज जघन्यनी
 अपेक्षाजे जेह समजने अने उत्कृष्टनी अपेक्षाजे अतमुहूर्तना डोष छे,
 जेह समजवे (असुरकुमार नागकुमार जाव अणुसरोववाइयाण जहा नेरइयाणं)
 असुरकुमार, नागकुमार सुपर्णकुमार आदि भवनपति, तथा वानव्यन्तर तथा
 ज्योतिषिके, पैमानिक देवे नवग्रैवेयकना देवे अने अनुसरोपपातिक देवाना
 वैक्रियशरीरने सबबंधकाज तथा देशबंधकाज नाशनेना वैक्रियशरीरना सब
 बंधकाज अने देशबंधकाज प्रभावे / समजवे—आगज तेमने (नाशनेने)
 सबबंधकाज जेह समजने अने देशबंधकाज जघन्यनी अपेक्षाजे जेहमुं जेतदे

યોનાનિ, ઉત્કૃષ્ટેન તુ સાગરોપમં समयोनं प्रतिपादितस्तथैव प्रतिपत्तव्यः किन्तु नैरयिकापेक्षया किञ्चिद् विशेषमाह—‘ नवरं जस्स जा ठिई सा भाणियव्वा जाव अणुत्तरोववाइयाणं, सव्वबंधे एकं समयं, देसबंधे जहण्णेणं एकत्तीसं सागरोवमाइं तिसमयऊणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं समयूणाइ ’ नवरं नैरयिकापेक्षया देवानां विशेषस्तु यस्य या यावती स्थितिः प्ररूपिता सा भणितव्या, यावत् असुर-कुमाराद्यनुत्तरौपपातिकानां वैक्रियशरीरप्रयोगस्य सर्वबन्धः एकं समयं भवति

जघन्य आयु के बराबर है अर्थात् जघन्य से तीन समय कम दश हजार वर्ष का तथा उत्कृष्ट से सर्वबन्ध के एक समय कम एक सागरोपम का है अर्थात् अपनी अपनी उत्कृष्ट आयु के बराबर है, ऐसा ही नैरयिक जीवों के वैक्रिय शरीर का सर्वबंधकाल और देशबंधकाल कहा गया है ‘नवरं’ परन्तु नैरयिक जीवों की अपेक्षा से जो विशेषता है वह इस प्रकार से है—(जस्स जा ठिई सा भाणियव्वा जाव अणुत्तरोववाइयाणं, सव्वबंधे एकं समयं, देसबंधे जहण्णेणं एकत्तीसं सागरोवमाइं, तिसमयऊणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं समयऊणाइं) जिसकी जितनी स्थिति कही गई है वह स्थिति असुरकुमारों से लेकर अनुत्तरौपपातिक देवों तक कहनी चाहिये, और इनके वैक्रिय शरीर के सर्वबंध और देशबंधकाल में इस प्रकार से लगानी चाहिये अर्थात् इनके वैक्रिय शरीर का सर्वबंधकाल एक समय का है और देशबंधकाल जघन्य से

जघन्य आयु होय तेददा जघन्य आयु करता त्रणु न्यून समय प्रमाण कक्षो छे अेटवे के जघन्यनी अपेक्षाअे १०७७७७७७ वर्ष करतां त्रणु न्यून समय प्रमाण अने उत्कृष्टनी अपेक्षाअे सर्वबंधने अेक समय भाद करतां, अे कसागरोपम प्रमाण काण करता अेक न्यून समय प्रमाण छे—अेटवे के पोतपोताना उत्कृष्ट आयुधनी भराभर छे, नारकाना सर्वबंधकाण अने देशबंधकाणविषे आ प्रमाण आगण कडेवामां आअुं छे परन्तु नारक अेवोना करतां असुरकुमारादिना वैक्रिय-शरीरना देशबंधकाण अने सर्वबंधकाणमां नीअे प्रमाण विशेषतां रडेवी छे—

“ नवरं जस्स जा ठिई सा भाणियव्वा जाव अणुत्तरोववाइयाणं, सव्वबंधे एकं समयं, देसबंधे जहण्णेणं एकत्तीसं सागरोवमाइं, तिसमयऊणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं समयऊणाइं ”

जेमनी अेटवी स्थिति कही छे ते स्थिति (असुरकुमाराथी लधने अनुत्तरौपपातिक देवो पर्यन्तना अेवोनी स्थिति) कडेवी जेधअे अने देशबंधकाणनुं कथन करती वणते देशबंधने जघन्यकाण ते दरेअनी ति

देशवचस्तु जघन्येन एकभिन्नत् सागरोपमानि त्रिसमयोनानि, उत्कृष्टेन तु प्रय-
 क्षिणत् सागरोपमाणि समयोनानि भवतीति भाव ।

उक्तरीत्या वैक्रियशरीरप्रयोगवचस्य कालं प्ररूप्य तस्यैवान्तरं प्ररूप-
 यति-‘ वेडम्बिय सरीरप्पओगवधंतर णं भत्ते । फाल्ढो केवधिर भवड ’ है

तीन समय कम इकतीस ३१ सागरोपम का है तथा उत्कृष्टकाल एक
 समय कम तेतीस ३३ सागरोपम का है । यहाँ एक समय कम, सर्व
 वचकाल का किया गया है और तीन समय कम तीन समयवाली
 विग्रहगतिके लिये कहे गये हैं । क्योंकि दो समयतक अनाहारक रहता
 है और तृतीय समय में यह सर्ववचक होता है । इसलिये इनके वैक्रिय
 शरीर के देशवचकाल को तीन समय कम एकतीस ३१ सागर का कहा
 गया है । क्यों कि जघन्य स्थिति आर अनुत्तर विमानों की एकतीस ३१
 सागर की है इससे आगे जघन्य स्थिति नहीं है । तथा उत्कृष्ट स्थिति
 तेतीस ३३ सागरोपम की है । इसलिये सर्ववच एक समय कम तेतीस
 ३३ सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति वैक्रिय शरीर के देशवच की कही
 गई है । इस तरह से वैक्रियशरीर प्रयोगवच के काल की प्ररूपणा
 करके इसके अन्तर की प्ररूपणा सूत्रकार कहते हैं-इसमें गौतम ने प्रसु
 से ऐसा पूछा है (वेडम्बियसरीरप्पओगवधंतर णं भत्ते ! फाल्ढो

इत्तां त्रय न्यून समय प्रभाष्य अने उत्कृष्टकाल उत्कृष्ट आधुस्थिति इत्तां
 ज्ये न्यून समय प्रभाष्य समयवे आ रीते अनुत्तरौपपातिक देवाना वैक्रिय
 शरीरने सर्ववचकाल ज्ये समयने थाय छे अने देशवधने जघन्य काल
 ३१ सागरोपम इत्तां त्रय न्यून समय प्रभाष्य अने उत्कृष्ट देशवधकाल ३३
 सागरोपम इत्तां ज्ये न्यून समय प्रभाष्य थाय छे अर्द्धां सर्ववधकालने
 ज्ये समय ज्येछे इत्तां आभ्यो छे, अने त्रय समयवाणी विग्रहगतिके
 त्रय समय ज्येछे इत्तां आभ्यो छे, इत्तं के ते जे समय सुधी अनाहार
 रहे छे अने तीन समये सर्ववधक यथं लय छे नथी न तेमना वैक्रिय
 शरीरने जघन्य देशवध काल ३१ सागरोपम इत्तां त्रय न्यून समय प्रभाष्य
 इत्तो छे इत्तं के अनुत्तरौपपातिक देवानी जघन्यस्थिति ३१ सागरोपमनी
 इत्ती छे तेमनी उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागरोपमनी देवाधी तेमना वैक्रियशरीरने
 देशवधने उत्कृष्टकाल ३३ सागरोपम इत्तां ज्ये न्यून समय प्रभाष्य इत्तो
 छे आ रीते वैक्रियशरीरप्रयोगवचना कालनी प्ररूपणा इत्तने दवे सूत्रकार
 तेना अन्तरनी प्ररूपणा नीयिना प्रभोत्तरा दास्य इत्तं छे-

भदन्त ! वैक्रियशरीरप्रयोगबन्धस्यान्तरं अन्तरालं खलु कालतः कालापेक्षया किय-
चिरं भवति ? भगवानाह—‘गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहन्नेणं एककं समयं उक्कोसेणं
अणंतं कालं, अणंताओ जाव आवलियाए असंखेज्जइ भागो, एवं देसबंधतरं पि ’ हे
गौतम ! वैक्रियशरीरप्रयोगस्य सर्वबन्धान्तरं जघन्येन एकं समयं भवति, उत्कृष्टेन
अनन्तं कालं भवति, एवम् अनन्ता यावत् उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः कालतः, क्षेत्रतः अनन्ताः
लोकाः, असंख्याताः पुद्गलपरिवर्ताः, ते खलु पुद्गलपरिवर्ताः आवलिकाया असं-

केवच्चिरं भवइ) हे भदन्त ! वैक्रिय शरीर का अन्तराल, काल की अपेक्षा
से कितना होता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम !
(सव्वबंधंतरं जहन्नेणं एककं समयं उक्कोसेणं अणंतं कालं अणंताओ
जाव आवलियाए असंखेज्जइ भागो, एवं देसबंधंतरं पि) वैक्रियशरीर
प्रयोग का सर्वबन्धान्तर जघन्य से एक समय का होता है और उत्कृष्ट
से अनन्तकाल का अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल का होता है ।
क्षेत्र की अपेक्षा अनंतलोक रूप असंख्यात पुद्गलपरावर्तरूप होता है—ये
पुद्गलपरावर्तरूप आवलिका के असंख्यात भाग के जितने समय होते हैं
उतने होते हैं । इसी तरह से वैक्रिय शरीर प्रयोग का देशबन्धान्तर भी
जघन्य से एक समय प्रमाण होता है, और उत्कृष्ट से अनंतकाल—अन-
न्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणीरूप होता है । क्षेत्र की अपेक्षा वह अनंतलोक
रूप होता है । इसमें असंख्यात पुद्गलपरावर्तन—हो जाते हैं । कोई

गौतम स्वामीने प्रश्न—“ वेउच्चियशरीरप्रयोगबंधतरं णं भंते । कालओ
केवच्चिरं भवइ ? ” हे भदन्त ! वैक्रियशरीरप्रयोगबंधतुं अंतर (विरुद्धाण)
काणनी अपेक्षाओ केटलु डोय छे ? भडावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे
गौतम ! “ सव्वबंधतरं जहन्नेणं एककं समयं, उक्कोसेणं अणंतं कालं अणंताओ
जाव आवलियाए असंखेज्जइ भागो, एवं देसबंधतरं पि ” वैक्रियशरीरप्रयोगतुं
सर्वबन्धान्तर ओछामां ओछुं ओक समयतुं अने वधारेमां वधारे अनंत-
काणतु—अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काणतु डोय छे क्षेत्रनी अपेक्षाओ ते
अनंतलोक रूप—असंख्यात पुद्गलपरावर्तन रूप डोय छे—ते पुद्गलपरावर्त आव-
लिकाना असंख्यात लागना जेटला समय थाय छे जेटला डोय छे. ओज
प्रमाणे वैक्रियशरीरप्रयोगतुं देशबन्धान्तर पणु ओछामां ओछुं ओक समय
प्रमाणे डोय छे अने वधारेमां वधारे अनंतकाण—अनंत उत्सर्पिणी
अवसर्पिणी रूप डोय छे. क्षेत्रनी अपेक्षाओ ते अनंत लोक रूप डोय छे. तेमां
असंख्यात पुद्गलपरावर्तन थय जय छे. कोथ ओदारिकशरीरधारीओवे वैक्रिय

रूपेयमागम, एव वैक्रियशरीरप्रयोगस्य देशबन्धान्तरमपि जघन्येन एक सम्य
 भवति, उत्कृष्टेन अनन्तं कालम्, अनन्ता उत्सर्पिष्यत्सर्पिष्या कामता, सप्त
 अनन्ता लोकाः, असंख्येयाः पुद्गलपरिवर्ता भवतीति भाव, तत्र औदारिकशरीरी
 वैक्रिय गत प्रथमसमये सर्वबन्धक, द्वितीये देशबन्धको भूत्वा मृतः सन् घेवेपु
 नैरयिकेषु वा वैक्रियशरीरिषु अविग्रहेणोत्पद्यमानः प्रथमसमये सबन्धको भवती
 त्येशरीत्या सर्वबन्धाध्वरम् एक समयम्, अथ च औदारिकशरीरी वैक्रिय गतो
 वैक्रियशरीरिषु वा देवादिषु समुत्पन्न, स च प्रथमसमये सर्वबन्धकोभूत्वा देशबन्ध
 च कृत्वा मृतः तदनन्तरमनन्तं कालम् औदारिकशरीरिषु वनस्पत्यादिषु स्थित्वा
 वैक्रियशरीरिषुत्पन्नः, तत्र च प्रथमसमये सर्वबन्धको जातः, तथा च सर्वबन्धको

औदारिक शरीरधारी विक्रियावस्था को प्राप्त हुआ सो वह प्रथम समय
 में वैक्रियशरीर का सर्वबन्धक होकर द्वितीय समय में देशबन्धक हुआ
 और मरकर फिर वह वैक्रियशरीरधारी देवों में या नैरयिकों में अवि
 ग्रह गति से उत्पन्न हो गया यहाँ वह प्रथम समय में सर्वबन्धक हुआ—
 इस रीति से पूर्व और सर्वबन्ध में अन्तर जघन्य से एक समय का
 होता है। और उत्कृष्ट अन्तर इस प्रकार से होता है—कोई औदारिक
 शरीरधारी जीव विक्रिया अवस्थावाला होकर वैक्रियशरीरधारी देवादिकों
 में उत्पन्न हुआ, वहाँ वह प्रथम समय में सर्वबन्धक होकर बाद में देवा
 बन्धक हुआ और मर गया—इसके बाद वह अन्तकाल तक औदारिक
 शरीरवाले वनस्पत्यादिकों में जन्म लेकर रहा बाद में यहाँ से मरकर
 वैक्रियशरीरवालों में उत्पन्न हो गया—वहाँ वह प्रथम समय में सर्वबन्धक
 हुआ—इस प्रकार से इन सर्वबन्ध में और पहिले के सर्वबन्ध में अन्तरात्

अवस्था प्राप्त करी, त्पार प्रथम समयमां ते वैक्रियशरीरना अवबन्धक यदने
 द्वितीय समयमां देशबन्धक भवे, अने भरिने करीषी ते वैक्रिय शरीरधारी
 देवोमां अथवा नारकोमां अविबद्ध जतिषी उत्पन्न कथं गये। त्मां ते प्रथम
 समयमां सर्वबन्धक रक्षी—आ रीते पहिले अवबन्धक अने आ सर्वबन्धक वक्षी
 अने समयनु अन्तर पठे छे अने उत्कृष्ट अन्तरनु स्पष्टीकरण आ प्रमाणे करी छे—

हाथ औदारिकशरीरधारी एव विक्रिया अवस्थावाला यदने वैक्रियशरीर
 धारी देवादिनां उत्पन्न भवे, त्मां ते प्रथम समयमां सर्वबन्धक यदने त्पार
 बाद देशबन्धक भवे। अने मरखु पाये। त्पार बाद ते अनन्तकाल सुधी
 औदारिकशरीरवाला वनस्पतिकाय आदिनां अथ अने रक्षी। त्पार बाद
 त्मां भरिने ते वैक्रियशरीरवाला उत्पन्न कथं भवे, त्मां ते प्रथम समयमां

रूपेण अनन्तं कालमन्तरं भवति, देशबन्धस्याप्येवमेव बोध्यम्, गौतमः पृच्छति—‘ वाउक्काइयवेउव्वियसरीरपुच्छा ? ’ हे भदन्त ! वायुकायिक वैक्रियशरीर-प्रयोगपृच्छा, तथा च वायुकायिकवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धान्तरं कालतः कियच्चिरं भवति ? भगवानाह—‘ गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं, एवं देसबंधंतरं पि ’ हे गौतम ! वायुकायिकवैक्रिय-शरीरप्रयोगस्य सर्वबन्धान्तरं जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पल्योपमस्य असं-ख्येयभागम्, एवं देशबन्धान्तरमपि जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पल्योपमस्य असंख्येयभागमवसेयम्, तत्र वायुरौदारिकशरीरी वैक्रियमापन्नः, तत्र च प्रथमसमये सर्वबन्धको भूत्वा मृतः, पुनर्वायुरेव जातः, तस्य चापर्याप्तकस्य वैक्रियशक्तिर्ना-

अनन्तकाल का होता है। देशबंध का भी अन्तराल इसी प्रकार से जानना चाहिये।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(वाउक्काइयवेउव्वियस-रीर पुच्छा) हे भदन्त। वायुकायिक वैक्रियशरीरप्रयोग के बंध का अंतरकाल से कितना होता है ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (सव्वबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओव-मस्स असंखेज्जइभागं एव देसबंधंतरं पि) वायुकायिक वैक्रियशरीरप्र-योग का सर्वबंधान्तर जघन्य से एक अन्तर्मुहूर्त का होता है और उत्कृ-ष्ट से पल्योपम के असंख्यातवें भागप्रमाण होता है। इसी तरह से इसका देशबंधान्तर भी जघन्य से अन्तर्मुहूर्त का होता है और उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। औदारिक शरीरी

सर्वबंधक थयो. आ शीते पडेवा सर्वबंध अने आ सर्वबंधनी वरये अनंत-
 काणतुं अंतर (अन्तराण) पडुयु देशबंधनुं अंतर पणु अेण प्रकारे समणुं.
 डवे/ गौतमस्वामी महावीर प्रभुने अेवे प्रश्न पूछे छे के “ वाउक्काइय-
 वेउव्वियसरीरपुच्छा ” छे लदन्त ! वायुकायिक वैक्रियशरीरप्रयोगना बंधनुं
 अंतर काणनी अपेक्षाअे केटेलु डोय छे ? तेनो उत्तर आपना महावीर प्रभु
 कडे छे के—“ गोयमा ” छे गौतम ! “ सव्वबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
 उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइ भागं, एवं देसबंधंतरं पि ” वायुकायिक वैक्रिय
 शरीर प्रयोगतुं सर्वबंधान्तर ओछामां ओछुं अेक अन्तर्मुहूर्ततुं डोय छे
 अने वधारेमां वधारे पद्योपमना असंख्यातमां लाग प्रमाणु डोय छे.
 अेण प्रमाणे तेतु देशबंधान्तर पणु ओछामां ओछुं अेक अन्तर्मुहूर्ततुं
 अने वधारेमा वधारे पद्योपमना असंख्यातमां लागप्रमाणु डोय छे. डवे
 आ कथनतुं स्पष्टीकरणु करवामां आवे छे—डोई औदारिकशरीरधारी वायुकायिक

विर्मवतीत्यन्तर्मुहूर्तमात्रेणासौ पर्याप्तको भूत्वा वैक्रियशरीरमारमठे, तत्र च स प्रथमसमये सर्वबन्धको जात इत्येव जघन्येन सर्वबन्धान्तरमन्तर्मुहूर्तम्, अथ च वायु रौदारिकशरीरी वैक्रियं गतः, तत्र प्रथमसमये च सर्वबन्धकस्ततो देशबन्धको भूत्वा सृष्टस्ततः परमौदारिकशरीरियु वायुपु पत्योपमासख्येयमागमतिबाह्यावश्यं वैक्रिय करोति, तत्र च प्रथमसमये सर्वबन्धकः, एव रीत्या उत्कर्षेण सर्वबन्धपोरन्तर पर्योपमस्य असख्येयमार्गं मन्तरीत्यास्य, देशबन्धस्यापि तथैव। गौतमः पुण्यति-
'तिरिक्त्वज्जोषियपंचिदियवेठन्वियसरीरप्यओयमबंधतरं पुञ्छा' इति भदन्त।
तिर्यग्योनिक्रपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरबन्धान्तरं कास्तः क्रियच्चिरं भवति ? इति पुञ्छा,

वायु जीव वैक्रिय को प्राप्त हुआ और वह प्रथम समय में सर्वबंधक हुआ और सर्वबंधक होकर वह मरकर वायुकाय में ही उत्पन्न हो गया। ऐसे इस जीवके अपर्याप्तावस्था में वैक्रियशक्ति प्रकट नहीं होती है। इसलिये अन्तर्मुहूर्त मात्र यह पर्याप्तक रहकर वैक्रियशरीर को प्रारंभ करता है। वह उस समय प्रथम समयमें सर्वबंधक होता है। इस तरह यहाँ सर्वबंध का अन्तर जघन्य से अन्तर्मुहूर्त का कहा गया है। उत्कृष्ट अन्तर इस प्रकार से आता है—भौदारिक शरीरधारी वायुकायिक जीव वैक्रिय को प्राप्त हुआ—सो वह प्रथम समय में सर्वबंध हुआ, और द्वितीय समय में देशबंधक हुआ देशबंधक होकर वह मर गया, इस के बाद वह भौदारिक शरीरवाले वायुकायिकों में पर्योपम के असंख्यतायें भाग को व्यतीतकर अवश्य ही वैक्रिय का निर्माण करता है। यहाँ वह प्रथम समय में सर्वबंधक होता है। इस रीति से पूर्व

एवे वैक्रियावस्था प्राप्तकरी जने ते प्रथम समवर्था सर्वबंधक यथे, जने सर्वबंधक यथा पथी भरीने ते वायुकायिकेभाम् च रूपत बंध अथे जेवा जे एव दाश अपर्याप्तावस्थाभां वैक्रियशक्ति प्रकट गती नथी तेथी अन्तर्मुहूर्तमात्र ते पर्याप्तक रद्दीने वैक्रियशरीरने प्राप्तक करे छे ते त्पारे प्रथम समवर्था सर्वबंधक देव छे आ रीते जर्दी सर्वबंधनु अन्तर जघन्यनी अपेक्षाजे अन्तर्मुहूर्तनु कर्षु छे एवे उत्कृष्ट अन्तर केवी रीते आवे छे ते प्रकट करवाभां आवे छे—कार्थ जेक भौदारिकशरीरधारी वायुकायिक एवे वैक्रिया वस्था प्राप्त करी त्पारे ते प्रथम समवर्था सर्वबंधक यथे जने द्वितीय समवर्था देशबंधक यथे, देशबंधक यधने ते भरी यथे, त्पारे भांड ते भौदारिकशरीरधारा वायुकायिकेभाम् पर्योपमता असंख्यातभां भागप्रभाष काल व्यतीत करीने अपरब भेदिवनु निर्भाव करे छे प्रथम समवर्था सर्वबंधक देव छे आ रीते आनया सर्वबंध जने यथा सर्वबंध वर्ये पर्योपमता

भगवानाह—‘ गोयमा ! सन्ध्वबंधतर जहण्णेणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी-
पुहुत्तं, एवं देसबंधतरपि, मणूसस्स वि’ हे गौतम ! तिर्यग्योनिकवैक्रियपञ्चेन्द्रिय-
शरीरप्रयोगस्य सर्वबन्धान्तरं जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं भवति, उत्कृष्टेन तु पूर्वकोटी-
पृथक्त्वम्, एवं रीत्यैव देशबन्धान्तरमपि जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं भवति, उत्कृष्टेन तु
पूर्वकोटीपृथक्त्वम्, एवं रीत्यैव देशबन्धान्तरमपि जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृ-
ष्टेन पूर्वकोटीपृथक्त्वं द्वाभ्यामारभ्य नवपूर्वकोटीपर्यन्तं भवति, एवमेव मनुष्य-
स्यापि वैक्रियशरीरप्रयोगस्य सर्वबन्धान्तरं जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन पूर्वकोटी
पृथक्त्वमवसेयम्, अत्र च पञ्चेन्द्रिय-तिर्यग्योनिको वैक्रियं गतः, तत्र च प्रथमं
समये सर्वबन्धकः, ततः परं देशबन्धकः अन्तर्मुहूर्तम् ततः औदारिकस्य

के सर्वबंध में और इस सर्वबंध में उत्कृष्ट से अन्तराल पत्योपम
के असंख्यातवें भागप्रमाण आता है। देशबंधका भी अन्तराल इसी
तरह से समझना चाहिये।

अत्र गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(तिरिक्खजोणियपंचिदिय
वेउव्विद्यसरीरप्पओगबंधतरं पुच्छा) हे भदन्त ! तिर्यग्योनिक पंचे-
न्द्रिय के वैक्रियशरीरबंधका अन्तर काल से कितना होता है। इसके
उत्तरमें प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (सन्ध्वबंधतरं जह-
ण्णेणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडीपुहुत्तं, एवं देसबंधतरं पि
मणूसस्स वि) तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगबंध का सर्व-
बंधान्तर जघन्य से एक अन्तर्मुहूर्त का होता है और उत्कृष्ट से
पूर्वकोटि पृथक्त्व का होता है। दो पूर्वकोटि से लगाकर नौ पूर्व
कोटितक की संख्या का नाम पूर्वकोटि पृथक्त्व है। इसी तरह से

असंख्यातमां लागप्रभाषु अन्तराल (अंतर) आवी ज्ञाय छे. देशबंधनुं
अंतराल भास ज्ञे ज प्रभाषे समजुं.

गौतमस्वामीने। प्रश्न—(तिरिक्खजोणिय पंचिदिय वेउव्विद्यसरीरप्पओगब-
ंधतरं पुच्छा) हे भदन्त ! तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियना वैक्रियशरीरप्रयोगबंधनु
अंतरालानी अपेक्षाजे केटुं डोय छे ?

महावीर प्रभुने। उत्तर—(सन्ध्वबंधतरं जहण्णेणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्व-
कोडीपुहुत्तं, एवं देसबंधतरपि, मणूसस्स वि) पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिकोना
वैक्रियशरीरबंधनुं सर्वबंधान्तर जघन्यनी अपेक्षाजे ज्ञेक अन्तर्मुहूर्तनुं अने
उत्कृष्टनी अपेक्षाजे पूर्वकोटि पृथक्त्वनुं डोय छे (जे पूर्वकोटिथी लधने
नव पूर्वकोटि सुधीनी संख्यात पूर्वकोटि पृथक्त्व डडे छे) जे...

સર્વબંધનો મૂલ્યા એક સમય દેશબંધનો પ્રાપ્ત, પુનરપિ ' વૈક્રિયં કરોમિ ' શ્વિ
 શ્રદ્ધાસમુત્પન્ના, પુનર્વૈક્રિયં કુર્વતઃ પ્રથમસમયે સર્વબંધઃ એવ રીત્યા બધન્યેન
 સર્વબંધાન્તરામન્તર્મુહર્તે મરતિ, અય વ પૂર્વકોટિપાયુ પચ્ચેન્દ્રિય તિર્યસ્વેવોત્પન્નઃ,
 પૂર્વબન્ધના સહ સત્તાષ્ટ ધા ધારાન્, તતઃ સત્તમે અષ્ટમે ધા મથે વૈક્રિય ગતઃ, તત્ર વ
 પ્રથમસમયે સર્વબંધં કૃત્વા દેશબંધં કરોતિ, શ્વિ ઉત્કૃષ્ટેન પૂર્વકોટીપૂષ્કલમ્
 સર્વબંધ્યાન્તર મરતિ, દેશબંધાતરસ્તુ સર્વબંધાન્તરાનુસારમેવ ધોષ્યમ્, એવ
 મનુષ્યપચ્ચેન્દ્રિયવૈક્રિયશરીરમયોગસ્વાપિ સર્વબંધાન્તરં દેશબંધાન્તરં ધાવસેયમ્,

મનુષ્ય કે ધી વૈક્રિયશરીરપ્રયોગ કા સર્વબંધાન્તર જઘન્ય સે અન્તર્મુહર્ત
 કા હોતા શ્વે ડત્કૃષ્ટ સે પૂર્વકોટિ પૂષ્કલ કા હોતા શ્વે । કોઈ પચ્ચે
 દ્વિય તિર્યગ્યોનિક ઝીઘ વૈક્રિય કો પ્રાપ્ત હુઆ-વહાં પ્રથમ મમયમેં વહ
 સર્વબંધક હુઆ, શ્વકે ધાવ અન્તર્મુહર્તતક દેશબંધક રહા ધાવ મેં ઔદ-
 રિકકા સર્વબંધ કરકે એક સમયતક દેશબંધક રહા-પુનઃ મેં " વૈક્રિય
 કર રહા હું " શ્વ પ્રકારકી ઉસકો શ્રદ્ધા વત્પન્ન હુઈ સો વૈક્રિયકરતે હુવ
 વહ પ્રથમ સમયમેં સર્વબંધક હુઆ । શ્વ રીતિસે કમસે કમ સર્વબંધકા
 અન્તર મન્તર્મુહર્તે કા હોતા શ્વે । ઝિસકી આયુ પૂર્વકોટિ કી હોતી શ્વે
 એસા ઝીઘ સાત ધા આઠ ધાર તક તિર્યગ્ય પચ્ચેન્દ્રિયમેં શ્વે વત્પન્ન હુઆ
 હોતા શ્વે । સાતઠે ધા આઠઠે મથ મેં જઘ વહ વૈક્રિયકો પ્રાપ્ત હોગ શ્વે
 તથ વહાં વહ પ્રથમ સમય મેં સર્વબંધ કરકે દેશબંધકરતા શ્વે । શ્વ
 તરહડરકૃષ્ટ સે સર્વબંધ કા અન્તરાલ એક પૂર્વકોટિ પૂષ્કલ કા હોતા

મનુષ્યોન્ના વૈક્રિયશરીર પ્રયોગનું સર્વબંધાન્તર જઘન્યની અધિક્ષાએ એક અન્ત
 મુહર્ત અને ઉત્કૃષ્ટની અધિક્ષાએ પૂર્વકોટિ પૂષ્કલવત્ હોય છે હવે આ
 કથનનું સ્વચ્છેદન કરતાં સૂત્રકાર કહે છે-કોઈ પચ્ચેન્દ્રિય તિર્યગ્યોનિક એવે
 વૈક્રિયાવસ્થા પ્રાપ્ત કરી, ત્યા પ્રથમ સમયમાં તે સર્વબંધક થયો, અને ત્યાર
 બાદ તે અન્તમુહર્ત પર્વન્ત દેશબંધક રહ્યો ત્યારબાદ ઔદારિકને સર્વબંધ
 કરીને એક સમય પર્વન્ત તે દેશબંધક રહ્યો કરી "હું વૈક્રિય કરી રહ્યો છું"
 આ પ્રકારની તેને શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ અને વૈક્રિય કરતાં કરતાં પ્રથમ સમયમાં
 તે સર્વબંધક થયો આ રીતે સર્વબંધનું અન્તર જોઈએ એવું અન્તમુહ
 ર્તનું આવે છે એવું આશુભ્ય પૂર્વકોટિ હોય છે એવો એવ સાત કે આઠ
 વખત સુધી તિર્યગ્ય પચ્ચેન્દ્રિયોમાં જ ઉત્પન્ન થતો હોય છે સાતમાં કે
 આઠમાં જઘન્ય ત્યારે તે વૈક્રિયાવસ્થા ધારી છે, ત્યારે ત્યાં તે પ્રથમ સમયમાં
 સર્વબંધ કરીને દેશબંધકરે છે. આ રીતે સર્વબંધનું ઉત્કૃષ્ટ અન્તર એક

जीवमाश्रित्य वैक्रियिक चतुर्विंशतिदण्डकगमनागमनविषयकप्रयोगबन्धवक्तव्यता ।
 मूलम्—जीवस्स णं भंते! वाउक्काइयत्ते, नोवाउक्काइयत्ते, पुणरवि वा-
 उक्काइयत्ते वाउक्काइयएगिंदियवेउद्वियसरीरप्पओगबंधंतरं पुच्छा,
 गोयमा ! सबबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं
 वणस्सइकालो । एवं देसबंधंतरं पि । जीवस्स णं भंते ! रयणप्पभा-
 पुढविनेरइयत्ते णोरयणप्पभापुढविनेरइयत्ते, पुणरवि रयण-
 प्पभापुढविनेरइयत्ते पुच्छा, गोयमा ! सबबंधंतरं जहण्णेणं
 दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमब्भहियाइं, उक्कोसेणं वणस्सइ-
 कालो देसबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं
 वणस्सइकालो । एवं जाव अहेसत्तमाए, नवरं जा जस्स
 ठिई जहण्णिथा सा सबबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तमब्भहिया
 कायवा, सेसं तं चेव । पंचिंदियतिरिक्खजोणियमणुस्साण
 य जहा वाउक्काइयाणं । असुरकुमार-नागकुमार-जाव- सहस्सार
 देवाणं, एएसिं जहा रयणप्पभापुढवीनेरइयाणं, नवरं सब-
 बंधंतरं जस्स जा ठिई जहन्निथा सा अंतोमुहुत्तमब्भहिया
 कायवा, सेसं तं चेव । जीवस्स णं भंते ! आणयदेवत्ते नोआ-
 णयदेत्ते पुणरवि आणयदेवत्ते पुच्छा गोयमा ! सबबंधंतरं जह-

है । देशबंध का अन्तराल भी सर्वबंध के अन्तराल की तरह ही होता है ऐसा जानना चाहिये । इसी तरहसे अनुष्यपञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीरप्रयोगका भी सर्वबन्धान्तराल और देशबन्धान्तराल जानना चाहिये ॥सू०५॥

पूर्वकैटिपृथक्त्वतु थाय छे देशबंधतु अन्तराल (अंतर) पणु सर्वबंधना अन्तराल प्रमाणे ञ समज्जुं अण्ण रीते भनुष्य पञ्चेन्द्रियता वैक्रियशरीर प्रयोगतु सर्वबंधान्तर अने देशबंधान्तर पणु समज्जु . ॥सू०५॥

ण्णेणं अट्टारससागरोवमाइ वासपुहुत्तमब्भहियाइ उक्कोसेणं अणतं
 काल वणस्सइकालो । देसवधंतरं जहण्णेणं वासपुहुत्तं,
 उक्कोसेणं अणतं काल वणस्सइकालो एव जाव अच्चुए,
 नवर जस्स जा जहण्णिया ठिई सा सधवधतरं जहण्णेणं वास-
 पुहुत्तमब्भहिया कायव्वा, सेस त चेव । गेवेज्जकप्पाईयं पुच्छा,
 गोयमा ! सधवधतरं जहण्णेणं धावीस सागरोवमाइ वासपुहुत्तं
 मब्भहियाइ, उक्कोसेणं अणतं काल वणस्सइकालो । देसवधंतरं
 जहण्णेणं वासपुहुत्तं, उक्कोसेणं वणस्सइकालो । जीवस्स ण भते !
 अणत्तरोववाइयं पुच्छा, गोयमा ! सधवधंतरं जहण्णेणं एक-
 तीस सागरोवमाइ वासपुहुत्तमब्भहियाइ, उक्कोसेणं सखेज्जाइ
 सागरोवमाइ । देसवधंतरं जहण्णेणं वासपुहुत्तं उक्कोसेणं सखे-
 ज्जाइ सागरोवमाइ । एएसि ण भते ! जीवाण वेउव्वियसरीरस्स
 देसवधगाणं सधवधगाणं, अवधगाणं य, कयरे कयरेहिंत्तो जाव
 विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा वेउव्वियसरीरस्स
 सव्ववधगा, देसवधगा असखेज्जगुणा, अवधगा अणतगुणा ॥सू०६॥

छाया—जीवस्य स्वच्छं मद्गन्त ! वायुकायिकत्वे नो वायुकायिकत्वे पुनरपि वायुका-
 यिकत्वे वायुकायिकैकेन्द्रियैकियस्कीरमयोगबन्धान्तरपुच्छा, गौतम ! सर्वबन्धान्तर-
 लभयेन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कर्षेण अनन्तं कालं वनस्पतिकालं, एवं देहबन्धान्तरं

सूत्रार्थ—(जीवस्स ण भते ! वाउकाइयसे नोवाउकाइयसे
 पुणरपि वाउकाइयसे वाउकाइय एगिंदिय वेउव्वियसरीरप्पओग
 वधंतरं पुच्छा) हे मद्गन्त ! कोई जीव वायुकायिक में हो और फिर
 मर कर वह वायुकायिक के सिवाय दूसरे जीवों में उत्पन्न हो जाय

सूत्रार्थ—(जीवस्य ण भते ! वाउकाइयसे नो वाउकाइयसे पुणरपि वाउकाइयसे वाउकाइय
 एगिंदिय वेउव्विय सरीरप्पओग वधंतरं पुच्छा) हे मद्गन्त ! कोई जीव वायुकायिक में हो
 और फिर मर कर वह वायुकायिक के सिवाय दूसरे जीवों में उत्पन्न हो जाय

मपि । जीवस्य खलु भदन्त ! रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकत्वे नोरत्नप्रभापृथिवीनैरयि-
कत्वे पुनरपि रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकत्वे पृच्छा, गौतम ! सर्वबन्धान्तरं जघन्येन दश-
वर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्ताभ्यधिकानि, उत्कर्षेण वनस्पतिकालः, देशबन्धान्तरं

और वह वहाँ से मरे और मर कर वह पुनः वायुकायिक में ही उत्पन्न
हो जावे-ऐसी स्थिति में उस वायुकायिक एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीर के
प्रयोगबन्ध का अन्तर काल की अपेक्षा कितना होता है ? (गोयमा) हे
गौतम ! (सव्वबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतकालं वण-
स्सइकालो, एवं देसबंधंतरं पि) इसस्थिति में ऐसे वायुकायिक जीव
का सर्वबंधान्तर जघन्य से अन्तर्मुहूर्त का होता है और उत्कृष्ट से अनंत
काल का होता है । यह अनंत काल वनस्पति काल की अपेक्षा से कहा
गया है । इसी तरह से देशबंधान्तर को भी जानना चाहिये । (जीवस्स
णं भंते ! रयणप्पभापुढविनेरइयत्ते णो रयणप्पभापुढविनेरइत्ते पुणरवि
रयणप्पभापुढविनेरइयत्ते पुच्छा) हे भदन्त ! कोई जीव रत्नप्रभापृथिवी
में नारक की पर्याय से उत्पन्न हो और वह फिर वहाँ से मरकर नारक
पर्याय के सिवाय अन्यपर्यायों में उत्पन्न हो जाय, और फिर वह वहाँ
से मरकर पुनः नारकपर्याय में उत्पन्न हो जाय-तो ऐसी स्थिति में ऐसे
नारकजीव के वैक्रिय शरीरप्रयोग के सर्वबन्ध का अन्तर काल की
अपेक्षा कितना होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! ऐसे नारक जीव के

थधं नयं छे अने त्याथी इरीने इरीथी वायुकायिकामांज उत्पन्न थधं नयं छे, तो
अेवी स्थितिमां ते वायुकायिक अेकेन्द्रिय वैक्रिय शरीरना प्रयोग बंधनुं अंतर
काणनी अपेक्षाअे डेट्ठुं डोयं छे ? (गोयमा ।) डे गौतम ! (सव्वबंधंतरं
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं वणस्सइकालो एव देसबंधंतरं पि)
अेवी स्थितिमां वायुकायिक एवनुं सर्वबन्धान्तरं ओछामां ओछुं अंतर्मु-
हूर्तनुं अने वधारेमां वधारे अनंतकाणनुं डोयं छे. आ अनंतकाण वनस्प-
तिकाणनी अपेक्षाअे ड्हो छे. अेज प्रभाणे देशबन्धान्तरनेा काण पणु सभ-
जवेा. (जीवस्स णं भंते ! रयणप्पभापुढवि नेरइयत्ते णो रयणप्पभापुढवि नेरइयत्ते
पुणरवि रयणप्पभापुढवि नेरइयत्ते पुच्छा) डे भदन्त ! डोयं एव रत्नप्रभा
पृथ्वीमां (पडेली नरकमां) नारकनी पर्याये उत्पन्न थयेा डोयं, त्याथी मरीने
ते नारकपर्याय सिवायनी डोयं, अन्य पर्यायमां उत्पन्न थधं नयं छे. अने
त्याथी मरीने इरीथी ते रत्नप्रभा पृथ्वीमां नारकनी पर्याये उत्पन्न थधं नयं
छे, तो अेवी स्थितिमां अेवा नारक एवना वैक्रिय शरीरप्रयोगना सर्वबंधनु
अंतरकाणनी अपेक्षाअे डेट्ठुं डोयं छे ? (गोयमा ।) डे गौतम ! अेवा

ण्णेणं अट्टारससागरोवमाइ वासपुहुत्तमब्भहियाइ उक्कोसेणं अणतं
 काल वणस्सइकालो । देसवधतर जहण्णेणं वासपुहुत्त,
 उक्कोसेणं अणत काल वणस्सइकालो एव जाव अच्चुप,
 नवर जस्स जा जहणिया ठिई सा सव्ववधतर जहण्णेणं वास
 पुहुत्तमब्भहिया कायव्वा, सेस त चेव । गेवेज्जक्कप्पाईयं पुच्छा,
 गोयमा ! सव्ववधतर जहण्णेणं षावीस सागरोवमाइ वासपुहुत्त
 मब्भहियाइ, उक्कोसेणं अणत काल वणस्सइकालो । देसवधतर
 जहण्णेण वासपुहुत्त, उक्कोसेणं वणस्सइ कालो । जीवस्स ण भते !
 अणुत्तरोववाइयं पुच्छा, गोयमा ! सव्ववधतर जहण्णेणं एक
 तीसं सागरोवमाइ वासपुहुत्तमब्भहियाइ, उक्कोसेणं सखेज्जाइ
 सागरोवमाइ । देसवधतर जहण्णेण वासपुहुत्त उक्कोसेण संखे
 ज्जाइ सागरोवमाइ । एएसि ण भते ! जीवाण वेउव्वियसरीरस्स
 देसवधगाण सव्ववधगाण, अवधगाण य, कयरे कयरेहिंतो जाव
 विसेसाहियावा ? गोयमा ! सव्वरथोषा जीवा वेउव्वियसरीरस्स
 सव्ववधगा, देसवधगा असखेज्जगुणा, अवधगा अणतगुणा ॥ सू० ६॥

छाया—जीवस्य स्वप्न मदन्त ! वायुकायिकत्वे नो वायुकायिकत्वे पुनरपि वायुका
 यिकत्वे वायुकायिकैकेन्द्रियैक्रियसरीरप्रयोगवपान्तरपुच्छा, गौतम ! सर्ववपान्तर
 नययेन अन्तर्गृह्णाम्, उत्कर्षेण अनन्त काल वनस्पतिकाल, एव देशवपान्तर

सुप्रार्थ—(जीवस्स ण भते ! वाउकाइयस्से नोवाउकाइयस्से
 पुणरधि वाउकाइयस्से वाउकाइय एगिंदिय वेउव्वियसरीरप्पओग
 वधतरं पुच्छा) हे भदन्त ! कोई जीव वायुकायिक में हो और फिर
 मर कर वह वायुकायिक के सिवाय दूसरे जीवों में उत्पन्न हो जाय

सुप्रार्थ—(जीवस्य ण भते ! वाउकाइयस्से नो वाउकाइयस्से पुणरधि वाउकाइयस्से वाउकाइय
 एगिंदिय वेउव्विय सरीरप्पओगवधतर पुच्छा) हे भदन्त ! केवल एव वायुकायिकोभा
 उत्पन्न यथे देव । त्वार्थी भरीने ते वायुकायिक सिवावती केवल अवधवर्थायमा उत्पन्न

मपि । जीवस्य खलु भदन्त । रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकत्वे नोरत्नप्रभापृथिवीनैरयिकत्वे पुनरपि रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकत्वे पृच्छा, गौतम । सर्वबन्धान्तरं जघन्येन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्ताभ्यधिकानि, उत्कर्षेण वनस्पतिकालः, देशबन्धान्तरं

और वह वहां से मरे और मर कर वह पुनः वायुकायिक में ही उत्पन्न हो जावे—ऐसी स्थिति में उस वायुकायिक एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीर के प्रयोगबंध का अन्तर काल की अपेक्षा कितना होता है? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतकालं वणस्सइकालो, एवं देसबंधंतरं पि) इसस्थिति में ऐसे वायुकायिक जीव का सर्वबंधान्तर जघन्य से अन्तर्मुहूर्त का होता है और उत्कृष्ट से अनंत काल का होता है । यह अनंत काल वनस्पति काल की अपेक्षा से कहा गया है । इसी तरह से देशबंधान्तर को भी जानना चाहिये । (जीवस्स णं भंते ! रयणप्पभापुढविनेरइयत्ते णो रयणप्पभापुढविनेरइत्ते पुणरवि रयणप्पभापुढविनेरइयत्ते पुच्छा) हे भदन्त ! कोई जीव रत्नप्रभापृथिवी में नारक की पर्याय से उत्पन्न हो और वह फिर वहां से मरकर नारक पर्याय के सिवाय अन्यपर्यायों में उत्पन्न हो जाय, और फिर वह वहां से मरकर पुनः नारकपर्याय में उत्पन्न हो जाय—तो ऐसी स्थिति में ऐसे नारकजीव के वैक्रिय शरीरप्रयोग के सर्वबन्ध का अन्तर काल की अपेक्षा कितना होता है? (गोयमा) हे गौतम ! ऐसे नारक जीव के

थं नय छे अने त्यांथी इरीने इरीथी वायुकायिकोभांण उत्पन्न थं नय छे, तो एवी स्थितिमा ते वायुकायिक एकेन्द्रिय वैक्रिय शरीरना प्रयोग बंधनुं अंतर काणनी अपेक्षाए केटुं डाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वबंधतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणत कालं वणस्सइकालो एवं देसबंधंतरं पि) एवी स्थितिमां वायुकायिक एवनुं सर्वबंधान्तर ओछाभां ओछुं अंतर्मुहूर्तनुं अने वधारेमां वधारे अनंतकाणनुं डाय छे. आ अनंतकाण वनस्पतिकाननी अपेक्षाए इहो छे. ओण प्रमाणे देशबंधान्तरना काण पणु समणवे। (जीवस्स णं भंते ! रयणप्पभापुढवि नेरइयत्ते णो रयणप्पभापुढवि नेरइयत्ते पुणरवि रयणप्पभापुढवि नेरइयत्ते पुच्छा) हे भदन्त ! कोई एव रत्नप्रभा पृथ्वीमां (पडेली नरकमां) नारकनी पर्याये उत्पन्न थयो डाय, त्यांथी मरीने ते नारकपर्याय सिवायनी कौं अन्त्य पर्यायमां उत्पन्न थं नय छे. अने त्यांथी मरीने इरीथी ते रत्नप्रभा पृथ्वीमां नारकनी पर्याये उत्पन्न थं नय छे, तो एवी स्थितिमा एवा नारक एवना वैक्रिय शरीरप्रयोगना सर्वबंधनुं अंतरकाणनी अपेक्षाए केटुं डाय

जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कर्षेण अनन्त काल वनस्पतिकाल, एव यान्तु अत्र प्रसक्त्या, नवर या यस्य स्थिति जघन्यिका सा सर्वेष्वध्वान्तरं जघन्येन अन्तर्मुहूर्ताग्न्यिका कर्तव्या, शेष तदेव, पञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोणिकमनुष्याणां च यथा वायुकायिका नाम्, असुरकुमार-नागकुमार-यावत् सहस्रारदेवानाम्, एतेषां यथा रत्नप्रमाप्यिधीनैरयिकाणां, नवर सर्वेष्वध्वान्तर यस्य या स्थितिः जघन्यिका सा अन्तर्मुहूर्त-

वैक्रिय शरीरप्रयोग के (सम्बन्धतर) सर्वेष्वध का अन्तर (जहण्येणं) जघन्य से (दसवाससहस्त्राह अतोमुहूर्तमग्निहियाह, एककोसेण घणस्सह कालो-देसवधतर जहण्येण अतोमुहूर्त) एक अन्तर्मुहूर्त अधिक दश हजार वर्ष का होता है और उत्कृष्ट से वनस्पति कालपर्यन्त होता है। तथा देशवध का अंतर जघन्य से एक अन्तर्मुहूर्त का होता है और (एककोसेण अणतकाल-यणस्सहकालो) उत्कृष्टसे अनन्तकालका-वनस्पति काल का होता है। (एव जाय अहे सप्तमाप-नवरं जा अस्स ठिहं जहणिया सा सम्बन्धतरं, जहण्येणं अतोमुहूर्तमग्निहिया कायवध सेस त चेव) इसी तरह नीचे सातवीं पृथिवीतक जानना चाहिये। परन्तु विशेषता ऐसी है कि जघन्य से सर्वेष्वध का अन्तर जिसनारक की जितनी जघन्य स्थिति है उतनी अन्तर्मुहूर्त अधिक जघन्य स्थिति प्रमाण जानना चाहिये। पाकी और सय कथन पूर्वोक्तानुसार जानना चाहिये। (पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणियमणुस्साण य जहा वाउफकाइयाणं

नारक एवमा वैक्रिय शरीर प्रयोगतु (सम्बन्धतर) सर्वेष्वध अन्तर (जहण्येणं) कोलाभां कोलु (दसवाससहस्त्राह अतोमुहूर्तमग्निहियाह, एककोसेण वणस्सह कालो-देसवधतर जहण्येण अतोमुहूर्त) इस ६००१ वर्ष करतां एक अधिक अन्तर्मुहूर्तुं डोय छे अने उत्कृष्टनी अपेक्षाजे (वधारेभां वधारे) वनस्पतिप्रमाण पर्यन्तु डोय छे तथा देशवधतु अन्तर कोलाभां कोलु एक अन्तर्मुहूर्तुं अने (एककोसेण) वधारेभां वधारे (अणंत काल वणस्सहकालो) अनन्तकालतु-वनस्पतिकालतु डोय छे (एव जाय अहे सप्तमाप-नवरं जा अस्स ठिहं जहणिया सा सम्बन्धतर, जहण्येणं अतोमुहूर्तमग्निहिया कायवध सेस त चेव) कोल प्रमाणे नीचे सातवीं पृथ्वी सुधीना विषे समज्जु पणु तेभां कोटली व विशेषता छे के सर्वेष्वधतु जघन्य अन्तर के नारकनी कोटली वध परस्थिति डोय छे कोटली वध-वस्थिति कस्ता अन्तर्मुहूर्त प्रमाण अधिक समज्जु पाकीनु समस्त कथन पूर्वोक्त कथन प्रमाणे व समज्जु पंचिन्द्रिय तिरिक्खजोणिय मणुस्साण य जहा वाउफकाइयाणं असुरकुमार नाग-

भ्यधिका कर्तव्या, शेषं तदेव, जीवस्य खलु भदन्त ! आनतदेवत्वे नो आनतदेवत्वे पुनरपि आनतदेवत्वे पृच्छा? गौतम! सर्वबन्धान्तरं जघन्येन अष्टादश सागरोपमाणि वर्षपृथक्त्वाभ्यधिकानि, उत्कर्षेण अनन्तं कालं वनरपतिकालः, देशबन्धान्तरं जघन्येन

असुरकुमार नागकुमार जाव सहस्सारदेवाणं एएसिं जहा रयणप्पभा-
पुढवि नेरइयाणं नवरं-सव्वबंधंतरं जस्स जा ठिई जहन्निया सा अंतो
मुहुत्तमव्वमहिद्या कायव्वा, सेसं-तं चेव) पंचेन्द्रियतिर्यचयोनिक् और
मनुष्य इनके सर्वबन्ध का अंतर वायुकायिक की तरह जानना चाहिये।
जिस तरह से रत्नप्रभा पृथिवी के नैरयिकों के विषय में कहा गया है
उसी प्रकार से असुरकुमार, नागकुमार यावत् सहस्सारदेवों के विषय
में भी जानना चाहिये। परन्तु विशेषता इतनी ही है इनके सर्वबन्ध
का अंतर जिनकी जितनी जघन्य स्थिति है उसे अन्तर्मुहूर्त अधिक
करलेना चाहिये। बाकी सब कथन पहिले की तरहसे ही जानना चाहि-
ये। (जीवस्स णं भंते। आणयदेवत्ते, णां आणयदेवत्ते पुच्छा) हे भदन्त !
आनतदेवलोक में उत्पन्न हुआ कोई देव वहांसे चक्कर आनतदेवलोक
के सिवाय अन्य जीवों में उत्पन्न हो जाय और फिर वहां से मरकर
पुनः आनतदेवलोक में देव हो जाय-तो ऐसीस्थिति में उस आनतदेव
के वैक्रियशरीर के प्रयोगबन्ध का अन्तर काल की अपेक्षा कितना है ?
(गोयसा!) हे गौतम ! (सव्वबंधंतरं जहण्णेणं अट्टारससागरोवमाइं

कुमार जाव सहस्सारदेवाणं एएसिं जहा रयणप्पभापुढवि नेरइयाणं-नवरं सव्व-
बंधंतरं जस्स जा ठिई जहन्निया सा अंतोमुहुत्तमव्वमहिद्या कायव्वा, सेसं तं चेव)
पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक् अने मनुष्यना सर्वबंधतुं अंतर वायुकायिकेना
सर्वबन्धान्तर प्रमाणे समञ्जुं. जे प्रमाणे रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकेना विष-
यमां कहुं छे. ओज प्रमाणे असुरकुमार, नागकुमार अने सहस्सार देवे पर्थ-
न्तना विषयमां समञ्जुं परंतु अहीं ओटली ज विशेषता छे के तेमना सर्व
बंधतुं अंतर जेमनी ओटली स्थिति छे, ते स्थिति करतां अन्तर्मुहूर्त प्रमाणे
अधिक समञ्जुं आकीतुं समस्त कथन पडेलांनी जेम ज समञ्जुं. (जीवस्स
णं भंते ! आणयदेवत्ते, णो आणयदेवत्ते० पुच्छा) हे भदन्त ! आनत देव-
लोकमां उत्पन्न थयेतो केध देव त्यांथी अथीने आनत देवलोक सिवायना
अन्य लोकांमां उत्पन्न थथ लय अने त्यांथी मरीने इरीथी आनत देवलोकमां
देव थथ लय, तो ओवी स्थितिमां ते आनत देवना वैक्रिय शरीरना प्रयोग
बंधतुं अंतरकाणनी अपेक्षाओ केटहुं डाय छे ? (गोयसा!) हे गौतम !



वर्षपृथक्त्वम्, उक्त्येव अनन्त काला, एव यावत् अच्युत, नवरं यस्य या जघ
 न्यिका स्थितिः सा सर्वघघान्तरं जघयेन वर्षपृथक्त्वाम्यधिकं कर्तव्या, छेप
 तदेव । त्रैवेयककल्पातीतक० पूच्छा, गौतम ! सर्वघघान्तरं जघयेन द्वाविंशतिः
 सागरोपमाणि वर्षपृथक्त्वाम्यधिकानि, ष्टकर्षेण अनन्तं कालं वनस्पतिकाला, दश-

वासपुहुत्समग्महियाह, उक्तोसेणं अणत कालं वणस्सहकालो, देसवधतरं
 जहण्णेणं वासपुहुत्स उक्तोसेणं अणत कालं वणस्सहकालो एव जाव
 अरुचुए, नवरं जा जस्स जहभिया ठिई सा सव्वबंधतरं जहण्णेण अह्ण
 रससागरोपमाह वासपुहुत्समग्महियाह कायव्वा, सेसं तं वेव) सर्वघघ
 का अन्तरं जघन्य से वर्षपृथक्त्व अधिक १८ सागरोपम का है और
 उत्कृष्ट से वनस्पतिकाल पर्यन्त है । तथा देशघघ का अंतरं जघन्य से
 वर्षपृथक्त्व, और उत्कृष्ट से वनस्पतिकाल जितना है । इस तरह से
 यावत् अच्युतदेवलोकतक जानना चाहिये । परन्तु सर्वघघ का अंतरं
 जघन्य से जिसकी जितनी स्थिति हो वह वर्षपृथक्त्व अधिक जाननी
 चाहिये—याकी सघ कथन पहिले की तरह जानना चाहिये । (गेवेज्ज
 कप्पाहयपुच्छा) हे भद्रंत ! त्रैवेयक कल्पातीत वैश्वियशरीरप्रयोगघघ
 का अन्तरकाल की अपेक्षा कितना है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्व
 घघतरं जहण्णेण यावीसं सागरोपमाहं वासपुहुत्समग्महियाहं कायव्वा,

(सव्वघघतरं जहण्णेणं अह्णरससागरोपमाहं वासपुहुत्समग्महियाहं, उक्तोसेणं
 अणत कालं वणस्सहकालो, देसवधतरं जहण्णेणं वासपुहुत्स, उक्तोसेणं अणत कालं
 वणस्सहकालो, एवं जाव अरुचुए, नवरं जा जस्स जहभिया ठिई सा सव्वबंधतरं
 जहण्णेण अह्णरससागरोपमाहं वासपुहुत्समग्महिया कायव्वा, सेसं तं वेव)
 सव्वलघघ अन्तरं जघन्यनी अपेक्षाके १८ सागरोपम कर्तव्यं वर्षपृथक्त्व
 अधिकं छे अने उत्कृष्टनी अपेक्षाके वनस्पतिकाल पर्यन्तं छे तथा देशघघ
 घनं जघन्य अन्तरं वर्षपृथक्त्व अने उत्कृष्ट अन्तरं वनस्पतिकाल के
 होय छे आ प्रभावेण कथनं अच्युत पर्यन्तना देवलोकेना देवा विरे पण
 समज्जु पण विशेषता केटही अ छे के सर्वलघघ जघन्य अन्तरं जघनी
 केटही स्थिति होय, ते स्थितिकाल कर्तव्यं वर्षपृथक्त्व अधिकं समज्जु आसिनुं
 समस्तं कथनं आनत देवता कथनं प्रभावे अ समज्जु (गेवेज्जकप्पाहं यपुच्छा)
 हे भद्रंत ! त्रैवेयक कल्पातीत वैश्विय शरीर प्रयोगघघ अन्तरकालनी अपे
 क्षाके केटहु छे ? (गोयमा ।) हे गौतम ! (सव्वघघतरं जहण्णेणं यावीसं

बन्धान्तर जघन्येन वर्षपृथक्त्वम् उत्कर्षेण वनस्पतिकालः जीवस्य खलु भदन्त ! अनुत्तरोपपातिकपृच्छा, गौतम ! सर्वबन्धान्तरं जघन्येन एकत्रिंशत् सागरोपमानि, वर्षपृथक्त्वाभ्यधिकानि, उत्कर्षेण संख्येयानि सागरोपमानि, देशबन्धान्तरं जघन्येन वर्षपृथक्त्वम् उत्कर्षेण संख्येयानि सागरोपमानि, एतेषां खलु भदन्त ! जीवानां वैक्रियशरीरस्य देशबन्धकानाम्, सर्वबन्धकानाम्, अबन्धकानां च कतरे

उक्कोसेणं अणंतकालं वणस्इकालो, देसबधंतरं जहण्णेणं वासपुहुत्तं, उक्कोसेणं वणस्इकालो) यहाँ सर्वबन्ध का अन्तर जघन्य से वर्षपृथक्त्व अधिक २० सागरोपम का है और उत्कृष्ट से वनस्पतिकाल जितना है । तथा देशबन्ध का अन्तर जघन्य से वर्षपृथक्त्व है और उत्कृष्ट से वनस्पतिकाल जितना है । (जीवस्स णं भंते ! अणुत्तरोववाइयपुच्छा) हे भदन्त ! अनुत्तरोपपातिक देव का वैक्रिय शरीरप्रयोगबन्ध काल की अपेक्षा कितना है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वबधंतरं जहण्णेणं एकतीसं सागरोवमाइं वासपुहुत्तमव्भहियाइं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं सागरोवमाइं) यहाँ सर्वबन्धका अन्तर जघन्यसे वर्षपृथक्त्व अधिक ३१ सागरोपमका है, और उत्कृष्टसे संख्यातसागरोपमका है । (देसबधंतरं जहण्णेणं वासपुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं सागरोवमाइं) देशबन्ध का अन्तर जघन्य से वर्षपृथक्त्व और उत्कृष्टसे संख्यात सागरोपमका है । (एएसिं णं भंते ! जीवाणं वेउन्वियसरीरस्स देसबधगाणं, सव्वबध-

सागरोवमाइं वासपुहुत्तमव्भहियाइं कायव्वा, उक्कोसेणं अणंतं कालं वणस्इकालो, देसबधंतरं जहण्णेणं वासपुहुत्तं, उक्कोसेणं वणस्इकालो) अही सर्वबधनुं जघन्य अंतर २२ भावीस सागरोपम करतां वर्षपृथक्त्व अधिक छे, अने उत्कृष्ट अंतर अनंतकाणनुं-वनस्पतिकाण नेटलु छे. तथा देशबधनुं जघन्य अंतर वर्षपृथक्त्वनुं छे अने उत्कृष्ट अंतर वनस्पतिकाण नेटलुं छे (जीवस्स णं भंते ! अणुत्तरोववाइय पुच्छा) हे भदन्त ! अनुत्तरोपपातिक देवना वैक्रियशरीरप्रयोग बधनु अंतरकाणनी अपेक्षाअे केटलुं छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वबधंतरं जहण्णेणं एकतीसं सागरोवमाइं वासपुहुत्तमव्भहियाइं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं सागरोवमाइं) अही सर्वबधनुं जघन्य अंतर ३१ सागरोपम प्रमाण काण करतां वर्षपृथक्त्व अधिक छे अने उत्कृष्ट अंतर संख्यात सागरोपमनुं छे. (देसबधंतरं जहण्णेणं वासपुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं सागरोवमाइं) देशबधनुं जघन्य अंतर वर्षपृथक्त्वनुं अने उत्कृष्ट अंतर संख्यात सागरोपमनुं छे.



कतरेभ्यो यावत्-विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः जीवा वैक्रियशरीरस्य सर्वधन्वकाः, वैश्वधन्वका असंख्येयगुणाः, अथघका अनन्तगुणाः,

टीका-अथ वैक्रियशरीरध्वान्तरमेव प्रकारान्तरेणाह 'जीवस्तम मंते । वाडकाइयसे, नो वाडकाइयसे, पुगरनि वाडकाइयसे वाडकाइय एगिदिय वेडञ्जियसरीरप्यओगवधतरं पुच्छा ?' हे भदन्त ! जीवस्य खलु वायुकायिककेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगध्वान्तरं कालवः कियन्धिरं भवति ? इति पृच्छा, मगवानाह-' गोयमा ।

गार्ण अथ घगाण य कयरे कयरेहिंतो जाव विसेसाहियावा) हे भदन्त ! इन वैक्रियशरीर के देशधक, सर्वधक, और अथधक जीवों में से कौन २ से जीव किन २ जीवों की अपेक्षा यावत् विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सर्वधयोवा जीवा वेडञ्जियसरीरस्य सख्यधगा वैश्वधगा असंखेजगुणा, अथधगा अणतगुणा) सब से कम वैक्रिय शरीर के सर्वधक जीव हैं । इनसे असख्यातगुणित देशधक जीव हैं । और इनसे अनन्तगुणित अथधक जीव हैं ।

टीकार्थ-अथ सूत्रकार वैक्रियशरीरध्वान्तर को ही प्रकारान्तर से प्रदर्शित करते हैं-इसमें गौतम प्रश्नसे ऐसा पूछा है-(जीवस्तम मंते । वाडकाइयसे, नो वाडकाइयसे, पुगरनिवाडकाइय एगिदिय वेडञ्जियसरीरप्यओगवधतरं पुच्छा) हे भदन्त ! जो जीव पड़िले वायुकायिक हो और वह मरकर वायुकायिक के सिवाय अन्य पृथिव्यादिकाय में प्रत्यभ

(एव सि ण मंते ! जीवाणं वेडञ्जियसरीरस्य वैश्वधगाण, सख्यधगाण, अथधगाण य कयरेकयरेहिंतो जाव विसेसाहिया वा ।) हे भदन्त ! वैक्रिय शरीरस्य देशधक, सर्वधक अने अथधक लोकोभां कया कया लोको कया कया लोको कयतां अथधकं ? त्वांशी लधने कया कया लोको कया कया लोको कयतां विशेषाधिकं छे, त्वां सुभीजुं प्रश्न सूत्र अथधकं कथं (गोयमा) हे गौतम ! (सख्यधयोवा जीवा वेडञ्जियसरीरस्य सख्यधगा वैश्वधगा अणतगुणा, अथधगा अणतगुणा) वैक्रियशरीरस्य सर्वधकं लथ शीशी ओठां 'दिय छे तेभन्य कयतां देशधकं लथ असंख्यातगुणां दिय छे अने देशधकं कयतां अथधकं लोको अणतगुणां दिय छे

इवे सूत्रधार वैक्रियशरीरध्वान्तरने ए प्रकारान्तरे (जीवस्तीने) प्रदर्शित करे छे

टीकार्थ-गौतमस्वामीने प्रश्न-(जीवस्त्वम मंते ! वाडकाइयसे वाडकाइयसे पुगरनिवाडकाइयसे, वाडकाइयसपतिदियवेडञ्जियसरीरप्यओगवधतरं पुच्छा) हे भदन्त ! ने लथ पदेतां वायुकायिकं दिय, पछी त्वांशी भरीने अथायुकायि

सन्ववधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं वणस्सइकालो ' हे गौतम । जीवस्य तथाविधे पुनरपि वायुकायिकत्वे सति वायुकायिकैकेन्द्रिय-वैक्रियशरीरप्रयोगस्य सर्वबन्धान्तरं जघन्येन अन्तमुहूर्तम्, उत्कृष्टेन अनन्तं कालं वनस्पतिकार्यरूपं भवति, तत्र च वायुवैक्रियशरीरं प्रतिपन्नः, तत्र च प्रथमसमये सर्वबन्धको भूया मृतः, ततः पृथिवीकायिकेषु उत्पन्नः, तत्रापि क्षुल्लकभवग्रहण-मात्रं स्थित्वा पुनर्वायुर्जातः तत्रापि कतिपयान् क्षुल्लकभवान् स्थित्वा वैक्रियं गतः,

हो जाय और वहां से फिर मरकर पुनः वायुकाय हो जावे तो ऐसी एकेन्द्रिय के वैक्रिय शरीरप्रयोगबन्ध का अंतर काल की अपेक्षा से कितना होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम । (सन्व-वधंतर जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं वणस्सइ कालो) कोई जीव वायुकायिक हो और वह मर कर पृथिव्यादिकायिकों में जन्म धारण करले और वहां से भी मरकर पुनः वह वायुकायिक हो जाय तो ऐसी स्थिति में उस वायुकायिक एकेन्द्रिय के वैक्रियशरीरप्रयोग का सर्वबन्धान्तर जघन्य से अन्तमुहूर्त का और उत्कृष्ट से अनन्तकाल का -वनस्पति के काल का होता है । जैसे कोई वायुकायिक जीव वैक्रिय शरीर को प्राप्त करने वाला हुआ वहां उसने प्रथम समय में वैक्रिय शरीर का सर्वबन्ध किया और फिर मर गया, सो मर कर वह पृथिवी-कायिकों में जाकर उत्पन्न हो गया वहां पर वह क्षुल्लकभवग्रहणरूप कालतक रहा और मर कर पुनः वायुकायिक में ही उत्पन्न हो गया—वहां पर भी वह कितनेक क्षुल्लकभव कालतक रहकर वैक्रिय शरीर को प्राप्त,


कामां (पृथ्वीकाय आदिकामा) उत्पन्न थए नय अने त्यांथी मरीने इरीथी वायुकायिकामां उत्पन्न थए नय, तो एवी परिस्थितिमां ते वायुकायिक ऐकेन्द्रियना वैक्रियशरीरप्रयोगबन्धनुं अन्तर काणनी अपेक्षाए केटलु डाय छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा । ” हे गौतम “ सन्ववधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं वणस्सइकालो ” केए एव पडेलां वायुकायिकामां उत्पन्न थयो डाय, त्यांथी मरीने इरीथी वायुकायिकामां उत्पन्न थए नय, तो एवी परिस्थितिमां ते वायुकायिक ऐकेन्द्रियना वैक्रियशरीरप्रयोगने सर्व-बन्धान्तर काण नयनी अपेक्षाए अन्तमुहूर्तने अने उत्कृष्टनी अपेक्षाए अनंत काणने वनस्पतिना काण नेटवी डाय छे. नेम के केए वायुकायिक एवे वैक्रियशरीरने सर्वबन्ध कर्यो, पछी त्यांथी मरीने ते पृथ्वीकायिकामां उत्पन्न थए गयो त्यां ते क्षुल्लक लवग्रहणरूप काण पर्यन्त रह्यो अने त्यार आड त्यांथी मरीने पुनः वायुकायिको उत्पन्न थए गयो. त्यां पणु केट-

एष च मयमसमये सर्वबन्धको जातः, एतच्च वैक्रियस्य सर्वेषामन्तरं बहयाः क्षुब्धक-
 मयाः, ते च बहवोऽप्यन्तर्मुहूर्तम्, अन्तर्मुहूर्ते बहूनां क्षुब्धकमयानां प्रतिपादितत्वात्,
 एतच्च सर्वबन्धान्तरं जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं भवति, अथ च वायुवैक्रियशरीरी मयन्
 सुतो घनस्पत्यादिषु अनन्त कालं स्थित्वा यदा पुनर्वैक्रियशरीरं लप्स्यते तदा उत्कृ-
 ष्टेन अनन्तं कालं घनस्पतिकालो भवति, एव रीत्यैव देशत्रयात्तस्मिन् जघन्येन
 अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन चानन्तं कालं भवति-घनस्पतिकाल, गौतम पृथ्वि-

ब्रह्मा-यथा प्रथम समय में वह उसका सर्वबंधक हुआ यहाँ पर वैक्रिय
 के सर्वबंध का अन्तर अनेक क्षुब्धकमयरूप रहा क्योंकि एक अन्तर्मुहूर्त
 में अनेक क्षुब्धकमय कहे गये हैं। अतः अनेक क्षुब्धकमयों का भी काल
 एक अन्तर्मुहूर्त होता है। इस तरह सर्वबंध का अन्तराल जघन्य से
 अन्तर्मुहूर्त है-और उत्कृष्ट से जो इसका काल घनस्पतिकालरूप कहा
 गया है सो वह इस प्रकार से है-वैक्रियशरीर घाला होता हुआ कोई
 जीव मरा और घनस्पति आदिकों में उत्पन्न हो गया वहाँ वह अनन्त
 कालतक रहा-अथ यह जहाँ से मर कर जब वायुकायिक होकर वैक्रिय
 शरीर को पावेगा-तब उस अवस्था में वायुकायिक एकेन्द्रिय के वैक्रिय
 शरीरप्रयोग के सर्वबंध का अन्तर उत्कृष्ट से इतना आ जावेगा इसी
 रीति के अनुसार ही देशबंध का अन्तर भी जघन्य से एक अन्तर्मुहूर्त
 का होता है और उत्कृष्ट से अनन्तकाल घनस्पतिकालरूप होता है।

एतच्च क्षुब्धकमयस्य कालं सुभी रक्षीते तेषु वैक्रियशरीरानी प्राप्तिं करी त्वां
 प्रथमं समयां ते तेना सवत्सरात् यथे-अथ वैक्रियानां सवत्सरात् अन्तरान्ते
 क्षुब्धकमयस्य रक्षुं, कश्चिद्-अन्तर्मुहूर्तं अनेक क्षुब्धकमय इत्यादि
 तेषु अनेकक्षुब्धकमये भवति अन्तर्मुहूर्तं अथवा कालं यायते अथ रीते
 आगता अने आ सर्वबंध बन्धना जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्तं आनी
 अन्तरे उवे तेना उत्कृष्टकालं घनस्पतिकालरूपं कवी रीते इहोते ते समया
 वामां आवेते-वैक्रियशरीरवाणे कालं अन्तर्मुहूर्तं एव भवति घनस्पतिकाल
 आदिदिग्भा उत्पन्न यथा जथे त्वां ते अनन्तकालं सुभी रक्षो. उवे त्वां
 भवति अथरे ते वायुकायिक यथे वैक्रियशरीरने प्राप्तिं करी त्वां-अ परिस्थि
 तिमां वायुकायिक अन्तर्मुहूर्तं वैक्रियशरीरप्रयोगं सवत्सरात् उत्कृष्टनी
 अपेक्षाये अन्तर्मुहूर्तं आनी अथरे अथरे देशबंधं जघन्य अन्तरं यत् अन्त
 अन्तर्मुहूर्तं अने देशबंधं उत्कृष्ट अन्तरं अनन्तकालरूपं-घनस्पतिकाल



‘जीवस्स णं भन्ते । रयणप्पभापुढविनेरइयत्ते, णोरयणप्पमापुढविनेरइयत्ते पुच्छा’ हे भदन्त । जीवस्य खलु रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकत्वे, नोरत्नप्रभापृथिवी नैरयिकत्वे, पुनरपि रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकत्वे सति रत्नप्रभापृथिवीवैक्रियशरीरप्रयोगबन्धान्तरं कालतः कालापेक्षया कियच्चिरं भवति ? इति पृच्छा, भगवानाह—‘गोयमा । सव्व-वंधंतरं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमव्वमहियाइं, उक्कोसेणं वणस्सइकालो’ हे गौतम ! तथाविधपृथिवीनैरयिकवैक्रियशरीरप्रयोगस्य सर्वबन्धान्तरं जघन्येन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्ताभ्यधिकानि भवति, उत्कृष्टेन तु वनस्पतिकालो भवति,

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—जीवस्स णं भन्ते । रयण-प्पभापुढविनेरइयत्ते, णो रयणप्पभापुढवि नेरइयत्ते पुच्छा) हे भदन्त । जीव रत्नप्रभा पृथिवी का नैरयिक हो—और धरकर वह उस रत्नप्रभा पृथिवी का नैरयिक रूप से पुनः उत्पन्न न हो—अन्य जगह उत्पन्न हो जावे और बाद में पुनः वह रत्नप्रभापृथिवी में ही उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति में उस रत्नप्रभापृथिवी गत उस नारक जीव के वैक्रिय शरीर का बन्धान्तर सर्वबन्धान्तर एवं देशबन्धान्तर काल की अपेक्षा कितना होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (सव्व-वंधंतरं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, अंतोमुहुत्तमव्वमहियाइं उक्कोसेणं वणस्सइकालो) ऐसी स्थिति में उस प्रथम रत्नप्रभा भूमिगत नारक जीव से वैक्रिय शरीर का सर्वबन्धान्तर जघन्य से अन्तर्मुहूर्त अधिक दश हजार वर्ष का होता है । इस का तात्पर्य ऐसा है कि यहाँ पर दश

इय थाय छे. डवे गौतमस्वामी मडावीर प्रभुने अवेो प्रश्न पूछे छे डे “ जीवस्स णं भन्ते । रयणप्पभा पुढवि नेरइयत्ते, णो रयणप्पभा नेरइयत्ते, पुच्छा ” डे भदन्त ! डेअं अेक एव रत्नप्रभापृथिवीमां नारकइये उत्पन्न थयेो डेय, त्यांथी भरीने ते रत्नप्रभा पृथ्वी सिवायनी डेअं अन्य जग्याअे उत्पन्न थं नय. अने त्यांथी भरीने इरीथी ते नारक एवना वैक्रियशरीरनुं सर्वांधा-न्तर काणनी अपेक्षाअे डेटलु डेय छे ?

मडावीर प्रभुनेो उत्तर—“ गोयमा ” डे गौतम ! “ सव्ववधंतरं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अतोमुहुत्तमव्वमहियाइं, उक्कोसेणं वणस्सइकालो ” अेथी स्थितिमां पडेवी रत्नप्रभा नामनी पृथ्वीना नारक एवना वैक्रियशरीरनेो सर्वांधान्तरकाण ओछामां ओछेो १० डुनर वर्षं करता अेक अधिक अन्तर्मुहूर्त प्रमाणु डेय छे अने वधारेमा वधारे वनस्पतिकाण प्रमाणु डेय छे, जघन्य सर्वांधा-न्तरकाण-१० डुनर वर्षं अने अेक अंतर्मुहूर्तनेो शा-माटे डह्ये छे ते डवे स्पष्ट करवामा आवे छे—रत्नप्रभा नारकमां नारकेनु जघन्य आयु १० डुनर

'दसवर्षं तरं जहण्येणं अतोमुहूर्त्तं, उक्थोसेणं अर्णत काल वणस्सइकालो, एष जाव अइसत्तमाप' देखवधान्तरं तु जघन्येन अन्तर्मुहूर्त्तम्, उत्कृष्णेन च अनन्तं काल वनस्पति कालः, तत्र रत्नप्रमा भैरविको दशवर्षसहस्रस्थितिक उत्पत्तौ सर्वं पञ्चकः, तत्र उद्भूतश्च गर्भजपञ्चेन्द्रियेषु अन्तर्मुहूर्त्तं स्थित्वा रत्नप्रमायां पुनरपि उत्पन्नः, तत्र च प्रथम समये सर्वपञ्चक, इत्येवं सर्वधन्वान्तरं जघयेन दश-

हजार वर्ष का जघन्य आयु है—सो दश हजार वर्ष का जो यह जघन्यायु है तत्प्रमाण यहाँ सर्वपञ्च का अंतर जघय जानना चाहिये।

अब रही अन्तर्मुहूर्त्त अधिक होने की बात—मो यह इस प्रकार से है—कि जैसे कोई जीव प्रथम पृथिवी का नारक उत्पन्न हुआ—यहाँ यह उत्पत्ति के प्रथम समय में सर्वपञ्चक हो गया बाद में वह यहाँ जघन्यायु प्रमाण रहा और यहाँ से निकलकर फिर यह गर्भजपञ्चेन्द्रियतिथीय पर्याय में एक अन्तर्मुहूर्त्तक जन्म धारण कर पुनः रत्नप्रमापृथिवी में ही नारक की पर्याय में उत्पन्न हो गया—यहाँ उत्पत्ति के प्रथम समय में वह वैक्रियशरीर का सर्वपञ्चक हो गया—इस तरह से उस पहिले के सर्वपञ्च में और इस अब के सर्वपञ्च होने में जघन्य से एक अन्तर्मुहूर्त्त अधिक दश हजार वर्ष का अन्तराल हो जाता है।

अब उत्कृष्ट से जो यहाँ अन्तर कहा गया है—सो यह इस प्रकार से है—कोई जीव रत्नप्रमापृथिवी में उत्पन्न हो गया और उत्पत्ति के प्रथम समय में वह वैक्रिय शरीर का सर्वपञ्चक हुआ यहाँ से

वर्षं तुं कालं च ते कालेषु त्वां सवर्षं जगत्तरं जघन्येणं अपेक्षाम् १०
 ६६११ वर्षं प्रमासु समन्वयु जेष्ठके पक्षे तेषां ज्येष्ठे अन्तर्मुहूर्त्तः। वधारा
 जतापवानु कालसु नीचैः प्रमासु च—जेष्ठके काले एव पठेतां रत्नप्रमा पृथ्वीमां
 उत्पन्नं ज्यो, त्वां ते उत्पत्तिना प्रथम समये सर्वपञ्चकं जघं गमे। त्वां
 भाव ते त्वां जघन्यासु प्रमासु (१० ६६११ वर्षं सुधी) इत्यां। पछी त्वांभी
 नीकण्ठिने जलज पञ्चेन्द्रियतिथीमां ज म धारसु कशने ज्येष्ठे अन्तर्मुहूर्त्तं
 अन्त रक्षो। त्वां भाव इरीषी रत्नप्रमा पृथ्वीमां ज नाश इपे उत्पन्नं जघं
 गयो—त्वां उत्पत्तिने प्रथम समये वैक्रियशरीरने। सर्वपञ्चकं जघं ज्यो। ज
 शीते पूवना सर्वपञ्चकं जघं जवेना सवर्षं जघन्येणं वप्ये ज्योत्समां ज्योत्स १०
 वर्षं जघने ज्येष्ठे अन्तर्मुहूर्त्तं जगत्तरं (अतर) पछी व्यव च जवे उत्कृष्ट
 सर्वपञ्चान्तरं वनस्पतिकाल प्रमासु केशी शीते वाच च ते समन्वयवामां जावे
 च—काले एव रत्नप्रमा पृथ्वीमां उत्पन्नं ज्यो जघने उत्पत्तिना प्रथम समयां

वर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्ताभ्यधिकानि भवति, अथ च रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकः उत्पत्तौ सर्ववन्धकः, तत उद्धृतश्चानन्तं कालं वनस्पत्यादिषु स्थित्वा पुनस्तत्रैवोत्पद्यमानः सर्ववन्धकः इत्येवमुत्कर्षेण सर्ववन्धान्तरालं वनस्पतिकालः, एवं रत्नप्रभानैरयिकः देशवन्धकः सन् मृतोऽन्तर्मुहूर्तमायुः, पञ्चेन्द्रियतिर्यक्तयोत्पद्य मृत्वा रत्नप्रभानैरयिकतयोत्पन्नः, तत्र च द्वितीयसमये देशवन्धकः, इत्येवं जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं देशवन्धान्तरम्, उत्कर्षेण तु अनन्तं कालं वनस्पतिकालो भवति,

निकलकर वह अनन्तकालतक वनस्पति आदि कों में रहा और फिर मरकर वह जब वैक्रिय शरीर को पावेगा-तब उसका उत्कृष्ट से वनस्पतिकालरूप अनन्तकाल होता है। इसी तरह से देशबंध का अन्तर भी जघन्य से अन्तर्मुहूर्त का है और उत्कृष्ट से अनन्तकाल का है।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं (एवं जाव अहे सत्तमाए) हे भदन्त ! शर्कराप्रभापृथिवी के नारक से लेकर सातवीं तमस्नमःप्रभा नारक जीव के वैक्रियशरीर का सर्ववन्धान्तर और देशवन्धान्तर काल की अपेक्षा से कितना है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं हे गौतम ! जैसे प्रथम पृथिवी के नारक के वैक्रियशरीर का सर्ववन्धान्तर और देशवन्धान्तर अभी २ प्रकट किया गया है उसी प्रकार से यहां पर भी जानना चाहिये। यहां सर्वबंध का अन्तर अन्तर्मुहूर्त अधिक दशहजार वर्ष का जघन्य से कहा गया है और उत्कृष्ट से वनस्पतिकालरूप अन-

७ वैक्रियशरीरने। सर्वबंधक थछ गये, त्यांधी नीकणीने ते अनंत काण सुधी वनस्पति आदिकांमां रह्यो, पुनः मरीने न्यारे ते वैक्रियशरीर प्राप्त करे छे, त्यारे तेने उत्कृष्ट सर्वबंधकाण वनस्पतिकादरूप अनंतकाणने थछ जाय छे. ७ प्रभाणु प्रथम रत्नप्रला पृथ्वीना नारकना वैक्रियशरीरना' देशबंधनुं जघन्य अंतर अतर्मुहूर्त प्रभाणु अते उत्कृष्ट अंतर अनन्तकाणनुं डोय छे. ७ वे गौतम स्वामी मडावीर प्रभुने अवे। प्रश्न करे छे के " हे भदन्त ! शर्कराप्रलाथी लछने सातमी तमस्तमा प्रभा पृथ्वी पर्यन्तना नारकना वैक्रियशरीरने। सर्वबंधान्तर अने देशबंधान्तर काण केटवो डोय छे ? तेने जवाण आपता मडावीर प्रभु कडे छे के " एवं जाव अहे सत्तमाए " पडेली रत्नप्रला पृथ्वीना नारकना वैक्रियशरीरने। सर्वबंधान्तर तथा देशबंधान्तर काण केटवो कडेवांमां आण्ये छे तेटवो ७ सर्वबंधान्तर अने देशबंधान्तर काण सातमी पृथ्वी पर्यन्तना नारकना वैक्रियशरीरने। समणवे। अही सर्वबंधनुं जघन्य अंतर १० हजार वर्ष करतां अेक अधिक अतर्मुहूर्त प्रभाणु

‘ देसवर्षंतरं जहण्येणं अंतोमुहुर्य, उक्कोसेणं अणंत काल वणस्सइकालो, एवं जाव अहेसवमाए ’ देसवर्षान्तरं तु अघयेन अंतमुहूर्तम्, उत्कृप्तेन च अनन्तं कालं वनस्पति काल, तत्र रत्नप्रमा भैरविको दशवर्षसहस्रस्यविकं उत्पद्यो सर्वं वषकः, तत्र उद्भूतश्च गर्भजपञ्चेन्द्रियेषु अन्तमुहूर्तं स्थित्वा रत्नप्रमायां पुनरपि उत्पन्नः, तत्र च प्रथम समये सर्ववषकः, इत्येवं सर्ववर्षान्तरं अघयेन दश

हजार वर्ष का अघन्य आयु है—सो दश हजार वर्ष का जो यह अघन्यायु है तत्प्रमाण यहाँ सर्ववषक का अंतर अघय जानना चाहिये।

अब रही अन्तमुहूर्त अधिक होने की बात—सो यह इस प्रकार से है—कि जैसे कोई जीव प्रथम पृथिवी का नारक उत्पन्न हुआ—वहाँ वह उत्पत्ति के प्रथम समय में सर्ववषक हो गया बाद में वह वहाँ अघन्यायु प्रमाण रहा और वहाँ से निकलकर फिर यह गर्भजपञ्चेन्द्रियतियैव पयाय में एक अन्तमुहूर्ततक जन्म धारण कर पुनः रत्नप्रमापृथिवी में ही नारक की पयाय में उत्पन्न हो गया—वहाँ उत्पत्ति के प्रथम समय में वह वैक्रियशरीर का सर्ववषक हो गया—इस तरह से उस पहिले के सर्ववषक में और इस अब के सर्ववषक होने में अघन्य से एक अन्तमुहूर्त अधिक दश हजार वर्ष का अन्तराल हो जाता है।

अब उत्कृष्ट से जो यहाँ अन्तर कहा गया है—सो यह इस प्रकार से है—कोई जीव रत्नप्रमापृथिवी में उत्पन्न हो गया और उत्पत्ति के प्रथम समय में वह वैक्रिय शरीर का सर्ववषक हुआ वहा से

वर्षं तु कोषे छे ते करखे त्वां सवणधनु अतर वषन्यनी अयेक्षामे १० हजार वर्ष प्रमाद्यु सभन्नु लोभजे पद्य तेमां कोक अन्तमुहूर्ताने वधारी जवाववानुं करखु नीजे प्रमाद्ये छे—जेम के कोक छव पडेतां रत्नप्रमा पृथिवीमां उत्पन्न भयो, त्वां ते उत्पत्तिना प्रथम समये सर्ववषकं सधं भवे। त्वां जाव ते त्वां अघन्यायु प्रमाद्यु (१० हजार वर्षं सुधी) रह्यो। पछी त्वांभी नीकणीने जर्जव पञ्चेन्द्रियतियैवामां जन्म धारखु करीने कोक अन्तमुहूर्तं पभन्त रह्यो। त्वां जाव करीधी रत्नप्रमा पृथिवीमां व नारक रूपे उत्पन्न सधं भयो—त्वां उत्पत्तिने प्रथम समये वैक्रियशरीरने। सर्ववषकं सधं भयो आ रीते पूवना सर्ववषकं अने छवेना सवणधनी वधे जोछामां जोछ १० वर्षं अने कोक अतमुहूर्तं अतराव (अतर), पछी जाय छे छवे उत्कृष्ट सर्ववर्षान्तर वनस्पतिकाल प्रमाद्यु देवी रीते दाय छे ते सभन्ववामां आवे छे—कोक छव रत्नप्रमा पृथिवीमां उत्पन्न भयो अने उत्पत्तिना प्रथम सभन्वामां

वर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्ताभ्यधिकानि भवति, अथ च रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकः उत्पत्तौ सर्ववन्धकः, तत उद्धृतश्चानन्तं कालं वनस्पत्यादिषु स्थित्वा पुनस्तत्रैवोत्पद्यमानः सर्ववन्धकः इत्येवमुत्कर्षेण सर्ववन्धान्तरालं वनस्पतिकालः, एवं रत्नप्रभानैरयिकः देशवन्धकः सन् मृतोऽन्तर्मुहूर्तमायुः, पञ्चेन्द्रियतिर्यक्तयोत्पद्य मृत्वा रत्नप्रभानैरयिकतयोत्पन्नः, तत्र च द्वितीयसमये देशवन्धकः, इत्येवं जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं देशवन्धान्तरम्, उत्कर्षेण तु अनन्तं कालं वनस्पतिकालो भवति,

निकलकर वह अनन्तकालतक वनस्पति आदि कों में रहा और फिर मरकर वह जब वैक्रिय शरीर को पावेगा-तब उसका उत्कृष्ट से वनस्पतिकालरूप अनन्तकाल होता है। इसी तरह से देशबंध का अन्तर भी जघन्य से अन्तर्मुहूर्त का है और उत्कृष्ट से अनन्तकाल का है।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं (एवं जाव अहे सत्तमाए) हे भदन्त ! शर्कराप्रभापृथिवी के नारक से लेकर सातवीं तमस्नमःप्रभा नारक जीव के वैक्रियशरीर का सर्ववन्धान्तर और देशवन्धान्तर काल की अपेक्षा से कितना है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं हे गौतम ! जैसे प्रथम पृथिवी के नारक के वैक्रियशरीर का सर्ववन्धान्तर और देशवन्धान्तर अभी २ प्रकट किया गया है उसी प्रकार से यहां पर भी जानना चाहिये। यहां सर्वबंध का अन्तर अन्तर्मुहूर्त अधिक दश हजार वर्ष का जघन्य से कहा गया है और उत्कृष्ट से वनस्पतिकालरूप अन-

७ वैक्रियशरीरनो सर्वबंधक थछ गयो, त्यांथी नीकणीने ते अनन्त काण सुधी वनस्पति आदिडोमां रह्यो, पुन' मरीने न्यारे ते वैक्रियशरीर प्राप्त करे छे, त्यारे तेनो उत्कृष्ट सर्वबंधकाण वनस्पतिकालरूप अनन्तकाणनो थछ न्य छे. ७ प्रभाष्ये प्रथम रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकना वैक्रियशरीरना देशबंधनुं जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त प्रभाष्य अते उत्कृष्ट अंतर अनन्तकाणनुं डाय छे. ८ वे गौतम स्वामी भडावीर प्रभुने जेवो प्रश्न करे छे के " हे भदन्त ! शर्कराप्रभाथी लघने सातमी तमस्तमा प्रभा पृथ्वी पर्यन्तना नारकना वैक्रियशरीरनो, सर्वबंधान्तर अने देशबंधान्तर काण डेटवो डाय छे ? तेनो जवाभ आपता भडावीर प्रभु कडे छे के " एवं जाव अहे सत्तमाए " पडेली रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकना वैक्रियशरीरनो सर्वबंधान्तर तथा देशबंधान्तर काण डेटवो कडेवामां आये छे तेटवो ७ सर्वबंधान्तर अने देशबंधान्तर काण सातमी पृथ्वी पर्यन्तना नारकना वैक्रियशरीरनो समजवो. अही सर्वबंधनुं जघन्य अंतर १० हजार वर्ष करतां जेक अधिक अंतर्मुहूर्त प्रभाष्य

एषमुक्तरीत्या यावत् सर्करामगा — धातुका ममाद्यव'सप्तमीपृथिवीनैरपि
 वैक्रियशरीरप्रयोगस्य सर्वधनान्तर जघन्येन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्ताभ्यपि
 कानि भवति, उत्कर्षेण तु धनस्पर्तिकाल, एवमेव देशधनान्तरमपि यथायोगं
 वक्तव्यम्, तदेवाह—'नवर जस्त जा ठिई जइणिया सा सव्वधंतंर जइण्णेणं
 अंतोमुहुत्तमग्महिधा कायव्वा—सेस त चेव' नवर विशेषस्तु या यावती यस्य स्थितिः
 जघन्यिका प्रपत्ता सा सर्वधनान्तरम् जघन्येन अन्तर्मुहूर्ताभ्यधिका कर्तव्या, अत्र
 तदेव पूर्ववदेव बोध्यम्, एष च सर्करामगादिपृथिवीषु जघन्येन स्थितिः क्रमेण
 एक, श्रीणि, सप्त, दश, सप्तदश, द्वाविंशतिश्च सागरोपमाणि इत्यवसेयम्, पंचविंश-

स्तकाल का कहा गया है। इसी प्रकार से देशव्यय का भी अन्तर कहा
 गया जानना चाहिये। परन्तु शकरा आदि नरकों में जो विशेषता है
 वह इस प्रकार से है—(जस्त जा ठिई जइणिया सा सव्वधंतंरं जइ
 ण्णेणं अंतोमुहुत्तमग्महिधा कायव्वा—सेस त चेव) प्रथम नरक में
 जघन्य स्थिति दश हजार वर्ष की है और उत्कृष्टस्थिति एक सागरोपम
 की है सो यह एक सागरोपम की स्थिति द्वितीयनरक में जघन्य है
 इसी तरह से द्वितीयनरक में तीन सागरोपम की उत्कृष्टस्थिति है सो
 यह स्थिति तीसरी नरक में जघन्य है। और तीसरी नरक में जो उत्कृष्ट
 स्थिति सात सागरोपम की है वह चौथी नरक में जघन्य है—चौथी नरक
 की दश सागरोपम की स्थिति पाचवीं नरक में जघन्य है—पांचवीं की
 उत्कृष्टस्थिति १७ सागरोपम की ६ ठीं नरक में जघन्य है—छठी नरक

અને ઉત્કૃષ્ટ અવતર અનત કાળનુ કહ્યું છે અને દેશવ્યય અવતર પણ
 એવુ જ કહ્યું છે પરન્તુ શકરા આદિ નરકોમાં નીચે પ્રમાણે વિશેષતા છે—
 “જાસ જા ઠિઈ જાઈણિયા સા સવ્વધંતરં જાઈણ્ણેણં અંતોમુહુત્તમગ્મહિધા કાયવ્વા—
 સેસં તં ચેવ” પહેલી નરકમાં જઘન્યસ્થિતિ દસ હજાર વર્ષની છે અને ઉત્કૃષ્ટ
 સ્થિતિ એક સાગરોપમની છે, પહેલી નરકની જે એક સાગરોપમની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ
 છે, તે બીજી નરકમાં જઘન્ય સ્થિતિ સમજવી—બીજી નરકમાં જે ત્રણ સાગરોપમની
 ઉત્કૃષ્ટસ્થિતિ છે, તે ત્રીજી નરકના નારકોની જઘન્યસ્થિતિ કૃષ છે ત્રીજી નર
 કમાં જે સાત સાગરોપમની ઉત્કૃષ્ટસ્થિતિ હોય છે, એટલા જ કાળ પરન્તની
 ચોથી નરકના નારકોની જઘન્યસ્થિતિ હોય છે ચોથી નરકમાં જે ૧૦
 સાગરોપમની ઉત્કૃષ્ટસ્થિતિ હોય છે, એટલા જ કાળની જઘન્યસ્થિતિ
 પાંચમી નરકમાં હોય છે પાંચમી નરકમાં ૧૭ સાગરોપમની ઉત્કૃષ્ટ-
 સ્થિતિ હોવાથી છઠી નરકમાં એટલી જ જઘન્યસ્થિતિ સમજવી છઠી

की उत्कृष्टस्थिति २२ सागरोपम की सातवीं नरक में जघन्यस्थिति है—
 तथा सातवीं नरक की उत्कृष्टस्थिति ३३ सागरोपम की है। इस तरह
 से नरक में जो जहाँ जघन्यस्थिति है वह वहाँ के नरक के वैक्रियशरीर
 का जघन्य से सर्वबंध की अन्तररूप है—जैसे द्वितीय नरक में जघन्य-
 स्थिति एक सागरोपम की है—सो इनमें एक अन्तर्मुहूर्त अधिक करलेना
 चाहिये—तथा च—द्वितीय नरक के नरक के वैक्रियशरीर का सर्वबंधा-
 न्तर जघन्य से अन्तर्मुहूर्त अधिक एक सागरोपम का है और उत्कृष्ट
 से वैक्रियशरीर का सर्वबंधान्तर वनस्पतिकालरूप अनन्तकाल का है।
 देशबंधान्तर भी इसी प्रकार से जानना चाहिये। तृतीय नरकादिकों में
 भी इसी प्रकार से वैक्रियशरीर का सर्वबंधान्तर और देशबंधान्तर
 उत्कृष्ट और जघन्य से जानना चाहिये—अर्थात् तृतीय नरक के
 वैक्रियशरीर का सर्वबंधान्तर जघन्य से अन्तर्मुहूर्त अधिक तीन
 सागरोपम का है और उत्कृष्ट से वनस्पतिकालरूप अनन्तकाल का है।
 इसी प्रकार से देशबंधान्तर भी जानना चाहिये। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ
 और सप्तम नरक के नरकों के वैक्रियशरीर के सर्वबंधान्तर के विषय
 में भी जघन्य और उत्कृष्टरूप से ऐसा ही अपनी २ जघन्यस्थिति में

नरकभां २२ सागरोपमनी उत्कृष्टस्थिति होवाथी सातमी नरकभां २२
 सागरोपमनी जघन्यस्थिति समञ्ची सातमी नरकनी उत्कृष्टस्थिति ३३ साग-
 रोपमनी छे. आ रीते जे नरकभा जेटली जघन्यस्थिति कड़ी छे तेना करतां
 ओक अन्तर्मुहूर्त वधारे ते नरकना नारकोना वक्रिय शरीरना सर्वबंधनुं जघन्य
 अंतर समञ्चुं जेभके थील नरकना नारकोनी जघन्यस्थिति ओक सागरो-
 पमनी छे तेथी तेमना वक्रिय शरीरना सर्वबंधान्तर काण जघन्यनी अपे
 क्षाओ ओक सागरोपमकाण करतां ओक अतर्मुहूर्त प्रमाणु अधिक समञ्चो,
 अने उत्कृष्ट सर्वबंधान्तरकाण वनस्पतिकाण इप अनंतकाणना समञ्चो
 देशबंधान्तर काण पणु ओज प्रमाणु समञ्चो. त्रील नरकना नारकोना वैक्रिय
 शरीरना सर्वबंधान्तर काण जघन्यनी अपेक्षाओ त्रणु सागरोपम अने ओक
 अन्तर्मुहूर्तना छे अने उत्कृष्टनी अपेक्षाओ वनस्पतिकाण इप अनंत-
 काणना छे ओज प्रमाणु देशबंधान्तर काण पणु समञ्चो. चौथी, पांचमी,
 छठी अने सातमी नरकना नारकोना सर्वबंधान्तर काण जघन्यनी अपेक्षाओ
 अनुकमे सागरोपम अने अतर्मुहूर्तना, १० सागरोपम अने अतर्मुहूर्तना
 १७ सागरोपम अने अतर्मुहूर्तना, २२ सागरोपम अने अतर्मुहूर्तना

तिरिक्त्वजोणियमणुस्साणं जहा घाउक्काइयाणं 'पञ्चेन्द्रियविर्यग्योनिकमनुष्याणां च वैक्रियशरीरप्रयोगस्य सर्वषधान्तरं देशबन्धान्तरं च यया वायुकायिकानां वैक्रियशरीरप्रयोगस्य सर्वषधान्तरं जघन्येन अन्तर्मुहूतम्, उत्कृष्टेण अनन्त कालं तथैवावसेयम्, 'असुरकुमार नागकुमार जाव सहस्सारदेवाण एपसिं जहा रयणप्पमा पुढविनेरइयाणं' असुरकुमार नागकुमारानां यावत् सुवर्णकुमारादिमघनपतिवानव्यन्तर-ज्योतिषिक-सौधर्मज्ञान सनत्कुमार माहेन्द्र-ब्रह्मलान्तक शुक्रसहस्सारदेवानाम् एतेषामेकमिच्छस्समयकानां दवत्वे नोदेवत्वे पुनर्देवत्वे सति असुरकुमारादिसहस्राणां

अन्तमुहूर्तं अधिक अधिक करके कहना चाहिये। इसके वैक्रियशरीर के देशबन्धक का अन्तर भी सर्वषध के अन्तर जैसा ही जानना चाहिये। (पञ्चिन्द्रियतिरिक्त्वजोणियमणुस्साणं य जहा घाउक्काइयाणं) जिस प्रकार से वायुकायिक एकेन्द्रिय जीव के वैक्रियशरीर प्रयोग का सर्वषधान्तर जघन्य से अन्तमुहूर्त प्रमाण कहा गया है और उत्कृष्ट से अनन्तकाल प्रमाण कहा गया है उसी प्रकार से पञ्चेन्द्रियविर्यग्योनि के और मनुष्यों के वैक्रियशरीरप्रयोग का सर्वषधान्तर जघन्य से अन्तमुहूर्त प्रमाण और उत्कृष्ट से अनन्तकालप्रमाण कहा गया है। इसी प्रकारसे इनके वैक्रियशरीरप्रयोग का देशबन्धक भी जानना चाहिये। (असुरकुमार नागकुमार जाव सहस्सारदेवाण एपसिं जहा रयणप्पमापुढविनेरइयाणं) असुरकुमार, नागकुमार, सुवर्णकुमार आदि मघनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक, सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म,

समञ्जो. तेमनो उत्कृष्ट सर्वलधान्तरं जण वनस्पति काणरूप अनन्तकालनो
समञ्जो, अने तेमना वैक्रिय शरीरनो देशबन्धान्तरं जण पणु सर्वलधान्तरं
जण नेटवेण समञ्जो.

“पञ्चिन्द्रियतिरिक्त्वजोणिय मणुस्साणं य जहा वाउक्काइयाणं” जेभ वाउ
कायिकाना वैक्रिय शरीरनो सर्वलधान्तरं जण ज्योत्सामां ज्योत्सो अतमुहूर्तनो
अने वधादेमां वधादे अनन्तकालनो कथो छे, जेव प्रभावे पञ्चेन्द्रिय विर्यग्यो
अने मनुष्याना वैक्रिय शरीर प्रयोगनो सर्वलधान्तरं जण ज्योत्सामां ज्योत्सो
अतमुहूर्तनो अने वधादेमां वधादे अनन्तकालनो समञ्जो. जेव प्रभावे
तेमना वैक्रिय शरीर प्रयोगनं देशबन्धान्तरं पणु समञ्जो

(असुरकुमार नागकुमार जाव सहस्सारदेवाण एपसिं जहा रयणप्पमा
पुढविनेरइयाणं) असुरकुमार नागकुमार, सुवर्णकुमार आदि मघनपति देवा
वानव्यन्तर देवा, तथा सौधर्म ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लान्तक,

नदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरप्रयोगस्य सर्वबन्धान्तरदेशबन्धान्तरं च यथा रत्नप्रभा पृथिवी नैरयिकाणां वैक्रियशरीरप्रयोगस्य सर्वबन्धान्तरजघन्येन दशवर्षसहस्राणि अन्तर्मुहूर्ताभ्यधिकानि, उत्कृष्टेन तु वनस्पतिकालरूपमनन्तकालं देशबन्धान्तरं च जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन अनन्तकालं वनस्पतिकालरूपं प्रतिपादितम् तथैव प्रतिपत्तव्यम्, किन्तु 'नवरं' सव्वबंधंतरे जस जा ठिई जहन्निया सा अंतो-

लान्तक, शुक्र, सहस्रार, इन देवों के वैक्रिय शरीर प्रयोग का सर्वबन्धान्तर और देशबन्धान्तर रत्नप्रभापृथिवी के नैरयिकों के वैक्रियशरीर के सर्वबन्धान्तर और देशबन्धान्तर की तरह जघन्य से अन्तर्मुहूर्त अधिक दश हजार वर्ष का और उत्कृष्ट से वनस्पति कालरूप अनंतकाल का कहा गया है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि कोई जीव इन पूर्वोक्त असुरकुमारादि सहस्रान्तदेवों में उत्पन्न हो जाय और वहां से फिर वह चव कर अन्य देव सिवाय पर्यायों में उत्पन्न हो जाय—पुनः वहां से मर कर देवपर्याय में उत्पन्न हो जाय तो ऐसी स्थिति में पहिले के वैक्रिय शरीर के सर्वबंध में और अब जो वहां पुनः उत्पन्न हुआ है उस वैक्रिय शरीर के सर्वबंध में जघन्य अंतर अन्तर्मुहूर्त अधिक दश हजार वर्ष का आता है और उत्कृष्ट से वनस्पतिकालरूप अनंत काल का आता है। इसी तरह से इनके वैक्रिय शरीर के देशबंध के अन्तराल के विषय में भी जानना चाहिये। किन्तु 'नवरं' यहाँ जो नारका पेक्षा से विशेषता

शुक्र अने सहस्रारना देवाना वैक्रिय शरीर प्रयोगानु सर्वबन्धान्तर अने देश बन्धान्तर रत्नप्रभा पृथ्वीना नारकोना वैक्रिय शरीरना सर्वबन्धान्तरनी जेम ओछामा ओछु १० डुजर वर्ष करतां ओक अंतर्मुहूर्त प्रमाणु वधारे छे अने वधारेमा वधारे वनस्पति काणरूप अनंतकाणनु छे

हुवे आ कथननु स्पष्टीकरणु करवामां आवे छे—कोछ एव पूर्वोक्त असुरकुमारथी लछने सहस्रार पर्यन्तना देवोमां उत्पन्न थछ जय, अने त्याथी स्ववीने कोछ अन्य पर्यायमां उत्पन्न थछ जय, वणी त्याथी मरीने इरीथी उपरोक्त देवपर्यायमां व उत्पन्न थछ जय, तो ओवी परिस्थितिमां पडेलाना वैक्रिय शरीरना सर्वबंध अने हुवेना वैक्रिय शरीरना सर्वबंधनी वच्चे जघन्यनी अपेक्षाओे दस डुजर वर्ष अने ओक अंतर्मुहूर्त प्रमाणु पडी जय छे, अने उत्कृष्टनी अपेक्षाओे वनस्पति काणरूप अनंतकाणनु अतर पडी जय छे. ओव प्रमाणु तेमना वैक्रिय शरीरना देशबंधनु अतराल (अतर) पणु सभजपु 'नवर' परन्तु नारको करतां अडी नीचे प्रमाणु विशेषता छे—

मुहुषमन्महिया कायव्वा सेस त चेव ' नम्र नैरयिकापेक्षयाविशेषस्तु यस्य या
 यावती स्थिति जघन्यिका जघन्यन वर्तते सा अन्तर्मुहूर्ताभ्यधिका कर्तव्या, श्रेयं तदेव
 नैरयिकवद्वय बोध्यम्, तथा चासुरकुमारादय सहस्रान्ता देवा उत्पत्तिसमये सर्व
 बन्धं कृत्वा स्वकीयां च जघयस्थितिमनुपालय पञ्चेन्द्रियतिर्यग्घु जघन्येन अन्त
 र्मुहूर्तायुष्मत्त्वेन समुत्पद्य मृत्वा च तेष्वेव सर्वपन्थका जाता, एव च तेषां वैक्रि
 यस्य जघन्य सर्वबन्धान्तरं जघन्या तत्स्थितिरन्तर्मुहूर्ताचिरा, वक्तव्या, उत्कृष्ट
 स्वनन्त फाल, यया रत्नप्रमानैरयिकाणामिति भावः, तत्र जघन्या स्थितिरसुरकुमा
 रादीनां व्यन्तराणां च दशवर्षसहस्राणि, ब्योतिष्काणां पल्पोपमाष्टमागः, सौषर्मा

है यह (सख्यव घमरे जस जा ठिई जहमिया सा अंतोमुहुत्तमन्महिया कायव्वा-सेस तं चेव) ऐसी है कि जिसकी जितनी जघयस्थिति है वह
 अन्तर्मुहूर्त अधिक करके कहनी चाहिये पाकी का और सय कयन नारक
 की तरह से ही जानना चाहिये। तथा च-असुरकुमार से लेकर सह
 स्रान्त देव उत्पत्तिसमय में सर्वबंध करके और अपनी २ जघयस्थिति
 को भोग करके पञ्चेन्द्रियतिर्यगों में उत्पन्न हो जायें और वहां अन्त
 र्मुहूर्ततक रह कर पाद में मरण करें-और पुनः उन्हीं देवों में उत्पन्न हो
 जायें। वहां ये सर्वबंधक टूट इस तरह उनके वैक्रिय शरीर का सबब
 यान्तर जघय से अन्तर्मुहूर्त अधिक उनकी जघय स्थिति प्रमाण होता
 है ऐसा जानना चाहिये। उत्कृष्ट अंतर जो अनन्त काल का कहा गया
 है यह रत्नप्रमाण नैरयिकों की तरह से कहा गया है। असुरकुमार
 आदिकों की और व्यन्तरों की जघयस्थिति द्वादश हजार वर्ष की है।

(सम्पत्तये जस जा ठिई जहमिया सा अंतोमुहुत्तमन्महिया कायव्वा
 सेसं तयेव) अर्थात् जेभनी जेट्ठी जघन्यस्थिति होय ते जघन्यस्थितिमां
 जेह अन्तमुहुत्त उभेरीने तेभना सवलधनुं जघन्य अंतर कहेतु नोडजे.
 जाडीतुं समस्त कयन नारकोना कयन प्रमाणे च समज्जु जेभके असुरकुमारकी
 तथेने सदन्वर पयल्लने कोडि देव उत्पत्ति समयमां सवलध करीने अने
 पानानी जघन्य आयुस्थितिने कोअवनि पञ्चेन्द्रिय तिप नेमां उत्पत्त यर्ष
 लय अने त्यां अन्तमुहुत्त मुपी रदीने भरण पापे भरीने ते जेव
 पूर्वोक्त देवोमां उत्पत्त यर्ष लय अने त्यां ते वैक्रिय शरीरने सवलध
 माय ते आ स्थितिमां तेना वैक्रिय शरीरनु जघन्य सर्वलघान्तर तेनी
 जघन्यस्थिति कर्ता जेह अन्तमुहुत्त प्रमाण वधारे आवी लय ते उत्पत्त
 अंतर जे अनतागतु कहेवाभा आणु ते रत्नप्रमाना नारकोनी जेभ
 कदेव मां आणु ते असुरकुमारकोनी अने वानवन्तरानी जघ यस्थिति

दिपु तु 'पलियमहियं दो सागर साहिया सत्त दस य चोदस य सत्तरस य' इत्यादि, गौतमः पृच्छति—' जीवस्स णं भंते ! आणयदेवत्ते णोआणयदेवत्ते पुणरवि आणय-देवत्ते हे भद-त ! जीवस्य खलु आनतदेवत्त्वे, नोआनतदेवत्त्वे आनतदेवभिन्नत्वे, पुनरपि आनतदेवत्त्वे सति आनतदेववैक्रियशरीरप्रयोगवन्धान्तरं कालतः कालापेक्षया

ज्योतिष्कों की जघन्य स्थिति पत्योपम के आठवें भागप्रमाण है । तथा सौधर्मादिकों में जघन्यस्थिति " पलियमहियं दो सागरसाहिया सत्तदस य चोदस य सत्तरस य" इस प्रकारसे है—पहिले देवलोक में एक पत्यो-पमकी, दूसरे देवलोकमें एक पत्योपमसे कुछ अधिक, तीसरे स्वर्ग दो सागरोपमकी, चौथे देवलोकमें दो सागरोपमसे अधिक, पांचवें देवलोकमें सात सागरोपम छठे स्वर्ग में दश सागरोपम सातवें स्वर्ग में चौदह सागरोपम आठवें स्वर्ग में सत्तरह सागरोपम नौवें में अठारह साग-रोपम दशवें में उन्नीस सागरोपम ग्यारहवें में जघन्यस्थिति बीससाग-रोपम और बारहवें में जघन्य स्थिति इक्कीस सागरोपम है ।

अब गौतमस्वामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं—(जीवस्स णं भंते ! आणय देवत्ते, णो आणय देवत्ते, पुणरवि आणयदेवत्ते पुच्छा) हे भदंत ! कोई जीव आनत स्वर्ग का देव हो जाय और वह वहां से चब कर आनत देवलोकसिवाय दूसरे देवलोकादि में चला जावे—तथा वहां से भी मर-कर वह पुनः आनतस्वर्ग का देव हो जाय तो ऐसी स्थिति में उस आनत

इस डेढर वर्षानी छे अने ज्योतिषिकेनी जघन्यस्थिति पत्योपमना आठमां भाग प्रमाणु छे तथा सौधर्म आदि कल्पेमा जघन्यस्थिति " पलियमहियं दो सागर साहिया सत्तदस य चोदस य सत्तरस य " आ प्रमाणु छे—पडेला देव-लोकमां अेक पत्योपमनी, णीणमा अेक पत्योपमथी वधारे, त्रीण देवलोकमां जे सागरोपमनी, चोथां जे सागरोपम करतां थोडी वधारे, पांचमां देव-लोकमां सात सागरोपमनी, छठ्ठमां पणु सात सागरोपमनी, सातमां देवलोकां १४ सागरोपमनी, आठमां १७ सागरोपमनी, नवमां १८ सागरोपमनी, दसमां १९ सागरोपमनी, अने अगियारमां देवलोकमां बीस सागरोपमनी छे

गौतम स्वामीने प्रश्न—“ जीवस्स णं भंते ! आणय देवत्ते, णो आणय-देवत्ते, पुणरवि आणयदेवत्ते पुच्छा ” डे लदन्त ! कोठे एव आनत देवलोकमा देवनी पर्याये उत्पन्न थेतो होय, पछी त्याथी न्यवीने आनत सिवायना अन्य देवलोकमां उत्पन्न थठं जय, पछी त्याथी मरीने इरीथी आनत देवलोकमां ज देवनी पर्याये उत्पन्न थठं जय तो जेवी स्थितिमां ते आनत देवना वैक्रिय शरीर प्रयोगनु अधान्तर काणनी अपेक्षाजे केटलु होय छे ?

क्रियन्विरं भवति ? इति पृच्छा, भगवानाह—' गोयमा । सन्वषधर्तरं जहण्णेण अट्टारस सागरोपमाइ वासपुट्टमम्महियाइ, उक्कोसेण अणत्तं काल वणस्सइफालो ' हे गौतम ! जीवस्य तथाचिवे पुनरपि आनतदेवत्वे सति आनतदेवत्वैक्रियशरीर प्रयोगस्य सर्वषघान्तरं जघन्येन भट्टादश सागरोपमानि वर्षपृषत्त्वाभ्यधिकानि उत्कृष्टेन अनन्त काल वनस्पतिकालरूप भवति, तथाचानतकल्पवासीदेवः उत्तमो सर्वषघकः, स चाष्टादशसागरोपमानि तत्र स्थित्वा तत्रश्रम्युतो वर्षपृषत्त्वं मनुष्येषु स्थित्वा पुनस्तत्रैवोत्पन्नः प्रथमसमये चासौ सर्वषघकः, इत्येष रीत्या सर्व

देवलोक के देव के वैक्रिय शरीरप्रयोग का पचान्तर काल की अपेक्षा कितना होता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (सन्वषधर्तरं जहण्णेण अट्टारससागरोपमाइ वासपुट्टमम्महियाइ उक्कोसेण अणत्तं काल वणस्सइफालो) कोई जीव आनत स्वर्ग का देव होकर पुनः अन्यत्र जन्म पाकर पुनः उसी आनत स्वर्ग का देव हो जाय तो ऐसी स्थिति में उसके वैक्रिय शरीर का सर्वषघान्तर जघन्य से वर्षपृषत्त्वं अधिक अटारह सागरोपम का होता है और उत्कृष्ट से वनस्पति कालरूप अनन्त काल का होता है । कोई जीव आनतकल्प का देव हुआ, वह प्रथम समय में वैक्रिय शरीर का सर्वषघक होकर वहाँ १८ सागरोपम तक रहा पाद में घड़ा से खर कर घणपृषत्त्वं तक मनुष्यपर्याय में रह कर पुनः उसी आनत देवलोक का देव हो गया और वह वहाँ प्रथम समय में वैक्रिय शरीर का सर्वषघक हुआ । इस तरह से पूर्व

भगवतीर भशुनेः उत्तर— ' गोयमा । ' हे गौतम ! ' सन्वषधर्तरं जहण्णं अट्टारससागरोपमाइ वासपुट्टमम्महियाइ, उक्कोसेणं अणत्तं कालं वणस्सइफालो ' कांथ एव आनत देवलोकां उत्पन्नं यदने त्याधीं यधने जन्म स्थले उत्पन्नं थाय अने त्याधीं भरीने क्षरीधीं आनत देवलोकां उत्पन्नं यधं जय, तो येनी परिस्थितिभां तेना वैक्रिय शरीरनु सर्वषघान्तरं जघन्येनी अपेक्षाजे १८ सागरोपम कर्ता अधिकं वायपृकत्व प्रभासु (निधीं यधने नव वर्षं पचन्तना समयने वणपृषत्त्वं प्रभासुकाण कडे छे) अने उत्कृष्टेनी अपेक्षाजे वनस्पतिकाल रूप आनतकाणनु दोष छे जेभके कांथ एव आनत कल्पभां देवनी परीये उत्पन्नं ययो ते प्रथम समयभां वैक्रिय शरीरने सर्वषघकं यधने त्या १८ सागरोपम पचन्तं रथी, पछी त्याधीं यधने वायपृकत्व पचन्तं मनुष्य पर्यायभां रदीने क्षरीधीं आनत देवलोकां देवनी परीये उत्पन्नं यधं जरी अने त्या प्रथम समयभां वैक्रिय शरीरने सर्वषघकं ययो जय

वन्धान्तरं जघन्येन अष्टादशसागरोपमाणि वर्षपृथक्त्वाधिकानि, अथ च स एव
 आनतदेवः तस्माच्च्युतोऽनन्तं कालं वनस्पत्यादिषु स्थित्वा पुनस्तत्रैवोत्पन्नः प्रथम-
 समये चासौ सर्ववन्धक इत्येवं सर्ववन्धान्तरम् उत्कृष्टेनानन्तं कालं भवतीति भावः,
 ' देसबंधंतरं जहण्णेणं वासपुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं वणस्सइकालो ' आनतदेव-
 वैक्रियशरीरप्रयोगस्य देशवन्धान्तरं जघन्येन वर्षपृथक्त्वम्, उत्कृष्टेन तु अनन्त कालं
 वनस्पतिकालरूपं भवति, तथा च आयतकल्पपीयोदेवो देशवन्धकः सन् च्युतो वर्ष-
 पृथक्त्व मनुष्यत्वमनुभूय पुनस्तत्रैव गतः, तस्य च सर्ववन्धान्तर देशवन्ध इत्येवं

के सर्वबंध में और अब के सर्वबंध में अन्तर जघन्य से वर्षपृथक्त्व
 अधिक अठारह सागरोपम का आ जाता है। उत्कृष्ट से सर्वबंध का
 अन्तर वनस्पति कालरूप जो कहा गया है उसका तात्पर्य ऐसा है कि
 आनतसे चक्र कर वही देव अनन्त काल तक वनस्पत्यादिकोंमें स्थित रहता
 है और फिर वहां से मर कर वही आनत स्वर्ग का देव हो जाता है इस
 तरह से उत्कृष्टरूप में वैक्रिय शरीर का सर्वबंधान्तर अनन्तकाल का
 हो जाता है। (देसबंधंतरं जहण्णेणं वासपुहुत्तं उक्कोसेणं अणंतं कालं
 वणस्सइ कालो) आनत देवलोकवासी देव के वैक्रिय शरीर प्रयोग का
 देशवन्धान्तर जघन्य से वर्षपृथक्त्व का होता है और उत्कृष्ट से वनस्पति
 कालरूप अनन्तकाल का होता है। तथा च—आनतकल्पवासीदेव देशव-
 धक फिर वहीं पर देव हुआ—सो प्रथम समय में वैक्रिय शरीर का

रीते पूर्वना सर्वबंध अने हुवेना सर्वबंधनी वच्चे १८ सागरोपम अने
 वर्षपृथक्त्व प्रमाणकाणु अंतर पडी नय छे. उत्कृष्टनी अपेक्षाम्मे अवे
 लवना सर्वबंधनु अंतर ने वनस्पतिकाल इप कहु छे तेनुं स्पष्टीकरण् आ
 प्रमाणे छे—आनत देवलोकमाथी व्यवीने ते लव अनतकाण सुधी वनस्पति
 काय आदिडेमा रडे छे अने त्याथी मरीने इरीथी आनत देवलोकमां देवनी
 पर्याये उत्पन्न थई नय छे आ रीते तेना वैक्रिय शरीरने उत्कृष्ट सर्वबंधा-
 न्तर काण अनंतकाणने थई नय छे. " देसबंधतर जहण्णेणं वासपुहुत्तं,
 उक्कोसेणं अणत कालं वणस्सइ कालो " आनत देवलोकना देवना वैक्रिय शरीर
 प्रयोगनु देशबंधान्तर ओछामा ओछु वर्षपृथक्त्व प्रमाणकाणुं अने वधारिमां
 वधारे वनस्पतिकाल इप अनतकाणुं डोय छे

आ कथननु स्पष्टीकरण् आ प्रमाणे समज्जुं—कोई आनत कल्पवासीदेव
 देशबंध थईने त्यानी स्थिति समाप्त करीने वर्षपृथक्त्व पर्यन्त मनुष्य पर्या-
 यमा रडे अने त्याथी मरीने आनत देवलोकमां न इरीथी उत्पन्न थई नय.

જઘન વર્ષપૂયક્ત્વ દ્વષ્ટાન્તરં મરુતિ, ઉત્કૃષ્ટેન તુ અનન્તકાલરૂપમુક્તમેષ,
 એવમેવ પ્રાણતારણાચ્યુતપ્રેયેષક્રાણામાપ વૈક્રિયસ્ય સર્વવધાન્તર દેષવધાન્તરં ષ
 ઘોષ્યમિત્યમિપ્રાયેણાહ—' એવ જાવ અચ્ચુણ, નવરં જસ્સ જા જહ્ણિણયા ઠિર્ઠિ સા
 સમ્બવંધંતર મહળ્ણેણ વાસપુહુતમમ્મહિયા કાયવા, સેસં ત વેવ' એવ પૂર્વોક્તરીત્યેષ
 યાવત્ પ્રાણતારણાચ્યુતવેવૈક્રિયશરીરમયોગસ્યાપિ સર્વવધાન્તરં, દેષવધાન્તરં
 ષ ઘોષ્યમ્, નવરમ્ આનતાપેક્ષમા વિશેષસ્તુ યસ્ય યા જઘન્યિકા સ્થિતિર્વર્તેતિ સા
 સર્વવધાન્તરં જઘન્યેન વર્ષપૂયક્ત્વાધિકા કર્તવ્યા, શ્લેષ તદેવ આનતપદેધેતિ માયઃ,

સર્વવધ કરકે વાદ મેં ઘહ દ્વિતીયાદિ સમયોં મેં દેશવધક વના-ઈસ
 તરહ સે પૂર્વ કે દેશવધ મેં ઓર અષ કે દેશવધ મેં અન્તર જઘન્ય સે
 વર્ષપૂયક્ત્વ કા ઓર ઉત્કૃષ્ટ સે અનન્તકાલ કા આ જાતા હૈ। ઈસી
 પ્રકાર સે પ્રાણત, આરણ, અચ્ચુત ઓર પ્રેયેષક ઈનકે દર્વોં કે મી વૈક્રિય
 શરીરકા સર્વવધાન્તર ઓર દેશવધાન્તર જાનના વ્હાહિયે। ઈસી વાતકો
 (એવ જાવ અચ્ચુણ, નવર જસ્સ જા જહ્ણિણયા ઠિર્ઠિ સા સમ્બવંધંતર
 જહ્ણેણ વાસપુહુતમમ્મહિયા સેસં ત વેવ) ઈસ મૂત્ર દ્વારા સૂત્રકાર ને
 વ્યક્ત કિયા હૈ-પૂર્વોક્ત રીતિ કે અનુસાર હી યાવત્ પ્રાણત, આરણ,
 અચ્ચુત, ઈન કલ્પવાસી દેવોં કે વૈક્રિય શરીર પ્રયોગ કા સર્વવધાન્તર
 ઓર દેશવધાન્તર જાનના વ્હાહિયે। આનત કી અપેક્ષા જો વિશેષતા હૈ
 ઘહ એસી હૈ કિ જિમકી યહાં જિતમી જઘન્યસ્થિતિ હૈ ઘહ સર્વવધ કે
 અતર મેં જઘન્ય સે વર્ષપૂયક્ત્વરૂપ સે અધિક કર લેની વ્હાહિયે। ઓર સવ

તાં પ્રથમ સમજમાં વૈક્રિયશરીરનો સર્વવધ કરીને તે દ્વિતીયાદિ સમયોમાં
 દેશવધક બની અષ છે આરીતે પૂવના દેશવધ અને હવેના દેશવધની વચ્ચે
 જઘન્યની અપેક્ષાએ વર્ષપૂયક્ત્વનું અને ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ અનત કાળનું
 અતર પડી અષ છે જેવ પ્રમાણે પ્રાણત આરણ અચ્ચુત અને પ્રેયેષકવાસી
 દેવોના પણ વૈક્રિયશરીરનું સર્વવધાન્તર અને દેશવધાન્તર સમજવું જેવ
 વાત સૂત્રકારે 'એવ જાવ અચ્ચુણ, નવર જસ્સ જા જહ્ણિણયા ઠિર્ઠિ સા સમ્બ
 વંધંતર મહળ્ણેણ વાસપુહુતમમ્મહિયા કાયવા સેસં ત વેવ' આ સૂત્રકાર
 દ્વારા પ્રકટ કરી છે અહીં સૂત્રકારે જે વાત પ્રકટ કરી છે કે આનત કરતા
 અહીં આ પ્રમાણે વિશેષતા સમજવી જોઈએ-જે દેવની નેટલી જઘન્ય સ્થિતિ
 હોય, તે જઘન્ય સ્થિતિ કરતાં વર્ષપૂયક્ત્વ પ્રમાણ અધિક સર્વવધાન્તર
 સમજવું જાઠીનું સમસ્ત કથન આનત દેવલોકના ભવોના કથન પ્રમાણે સમ

गौतमः पृच्छति—‘ गेवेज्जकप्पाईयपुच्छा ’ हे भदन्त ! त्रैवेयककल्पातीतपृच्छा ?
तथा च त्रैवेयककल्पातीतदेववैक्रियशरीरप्रयोगस्य बन्धान्तरं कालतः क्रियच्चिरं

कथनं यहाँ आनत की तरह से ही जानना चाहिये । तात्पर्य ऐसा है कि प्राणत आरण और अच्युत ये क्रमशः दशवें, ग्यारहवें और बारहवें देवलोक हैं—इनमें जघन्यस्थिति क्रमशः उन्नीस बीस और इक्कीस सागरोपम है । सो यही अपनी २ जघन्यस्थिति सर्वबंध के जघन्यरूप से अन्तर प्रकट करने में वर्षपृथक्त्व से अधिक करके कहनी चाहिये—जैसे प्राणतवासी देव प्रथम समय में वैक्रियशरीर का सर्वबंध करके वहाँ पर १९ सागरोपम तक रहा और बाद में जब वह वहाँ च्युत हुआ—तो वर्ष पृथक्त्व तक मनुष्यपर्याय में रहकर फिर प्राणत देवलोक का देव बना और प्रथम समय में वहाँ सर्वबंधक हो गया—तो ऐसी स्थिति में वहाँ अबके वैक्रियशरीर के सर्वबंध में और पहिले के सर्वबंध में अन्तर जघन्य से वर्षपृथक्त्व अधिक १९ सागरोपम का होता है—इसी तरह से अपनी २ जघन्यस्थिति को वर्षपृथक्त्व से अधिक करके जघन्य रूप से सर्वबंध का अन्तर आरण और अच्युत इन देवलोकों के देवों के वैक्रियशरीर के विषय में भी समझ लेना चाहिये । बाकी का सब कथन आनत देवलोक के देवों के वैक्रियशरीरप्रयोग के समान ही है ।

जब प्राणत, आरण अने अच्युत, ये अनुक्रमे दशमां, अगियारमां अने बारमां देवलोक छे, ते देवलोकना देवानी जघन्य स्थिति अनुक्रमे १९, २०, अने २१ सागरोपमनी छ्ठी छे—ते दरेकनी जघन्यस्थितिमां वर्षपृथक्त्व प्रमाणु काण उमेरवाथी ते दरेकना सर्वबंधतुं जघन्य अंतर आवी जय छे जेभ के प्राणतवासी देव प्रथम समयमा वैक्रियशरीरनेा सर्वबंध करीने १९ सागरोपम पर्यन्त त्या रह्यो त्याथी व्यपीने वर्षपृथक्त्व पर्यन्त मनुष्य पर्यायमां रह्यो, त्याथी मरीने करीथी प्राणत देवलोकमा देवनी पर्याये उत्पन्न थयो अने त्या प्रथम समयमां सर्वबंधक थर्ग गयो, तो आ रीते तेना पूर्वांन सर्वबंध अने डवेना सर्वबंधनी वच्चे १९ सागरोपम अने वर्षपृथक्त्व प्रमाणु जघन्य काणतुं अंतर पडी जशे आ रीते ज गणतरी करता आरण अने अच्युत देवलोकना देवोना वैक्रिय शरीरतुं जघन्य सर्वबंधान्तर अनुक्रमे २० सागरोपम अने वर्षपृथक्त्व प्रमाणु काणतु तथा २१ सागरोपम अने वर्षपृथक्त्व प्रमाणु काणतुं आवी जय छे भाडीतु समस्त कथन आनत देवलोकना देवोना वैक्रियशरीर प्रयोगना कथन प्रमाणु समजबु डवे गौतम स्वामी महावीर प्रभुने जेवो प्रश्न पूछे छे के—“ गेवेज्जकप्पाईय पुच्छा ” छे भदन्त ! त्रैवेयक कल्पातीत देवोना वैक्रिय

भवतीति मदन, मगधानाह—' गोयमा ! सध्वर्षधतर जहण्णेण बाधीस सागरोपमाई वासपुहुत्तमम्महियाइ उक्कोसेणं अणत्त काल वणस्सइकालो ' हे गौतम ! प्रैवेयक कल्पातीतदेवैक्रियशरीरमयोगस्य सर्वधन्वान्तर जघन्येन द्वाविंशति सागरोपमानि वर्षपृथक्त्वाधिकानि भवति, उत्कृष्टेन तु अनन्तं काल वनस्पतिकारुपरुप भवति, ' देसधधतरं जहण्णेण वासपुहुत्तं, उक्कोसेण वणस्सइकालो ' देसधधन्वान्तर च जघन्येन वर्षपृथक्त्तम्, उत्कृष्टेन वनस्पतिकारुपरुपमनन्त काल भवति । गौतमः पृच्छति—' जीवस्स ण मते ! अणुसरोववाइयपुच्छा ' हे मदन्त ! जीवस्य सत्त्वं

अथ गौतमस्वामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं—(गेवेज्ज कप्पाइयपुच्छा) हे मदन्त ! प्रैवेयक कल्पातीत देवों के वैक्रियशरीरप्रयोग का धधन्वान्तर काल की अपेक्षा से कितना है ? इसके उत्तर में प्रश्नु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (सध्वर्षधतरं जहण्णेण बाधीसं सागरोपमाइ वासपुहुत्तमम्महियाइ उक्कोसेण अणत्त काल वणस्सइकालो) प्रैवेयक कल्पातीत देवों के वैक्रियशरीरप्रयोग का सध्वर्षधन्वान्तर जघन्य से वर्षपृथक्त्वं अधिक २२ सागरोपम का है और उत्कृष्ट से अनन्त वनस्पतिकारुपरुप अनन्त काल का है । (देसधधतरं जहण्णेण वासपुहुत्तं, उक्कोसेणं वणस्सइकालो) तथा प्रैवेयक कल्पातीत देवों के वैक्रियशरीरप्रयोग का देशधधन्वान्तर जघन्य से वर्षपृथक्त्वरुप है और उत्कृष्ट से वनस्पतिकारुपरुप अनन्तकाल का है ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं— जीवस्स ण मते ! अणुसरोववाइयपुच्छा) हे मदन्त ! जो जीव अनुत्तर विमान में उत्पन्न

शरीर प्रयोगज्ज धधन्वान्तर भगनी अपेक्षाजे डेट्ठु डेव उ ? तेने उत्तर आप्ता महावीर प्रश्नु डेहे उ डे—' गोयमा ' डे गौतम ! ' सध्वर्षधतर जहण्णेण बाधीस सागरोपमाई वासपुहुत्तमम्महियाइ उक्कोसेण अणत्त काल-वणस्सइकालो ' प्रैवेयक कल्पातीत देवाना वैक्रियशरीर प्रयोगज्जुं सवधधन्वान्तर ज्जोछामां ज्जोछु २२ सागरोपम ज्जने वषपृथक्त्वं काल प्रमाज्जु उ, ज्जने वधारेभा वधारे अत्तर वनस्पतिकारुपरुप अनत्तकालज्जु उ " देसधधतरं जहण्णेण वासपुहुत्तं उक्कोसेणं वणस्सइकालो " तथा प्रैवेयक कल्पातीत देवाना वैक्रिय शरीर प्रयोगज्जुं देसधधन्वान्तर ज्जोछामां ज्जोछु वषपृथक्त्वं प्रमाज्जु काल इप ज्जने वधारेभा वधारे वनस्पतिकारु इप अनत्तकालज्जु उ

गौतम स्वामीने प्रश्नु—' जीवस्स ण मते ! अणुसरोववाइयपुच्छा ' हे मदन्त ! जो जीव अनुत्तर विमानमें उत्पन्न भवे। दोष. त्यानी स्थिति

अनुत्तरौपपातिक० पृच्छा, तथा च तथाविधे पुनरनुत्तरौपपातिकत्वे सति अनुत्तरौ-
पपातिकदेववैक्रियशरीरप्रयोगबन्धान्तरं कालतः क्रियच्चिरं भवति ? इति प्रश्नः,
भगवानाह—‘ गोयमा ! सर्वबंधंतरं जहण्णेणं एकतीसं सागरोवमाइं वासपुहुत्तमब्ध-
हियाइं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं सागरोवमाइं ’ हे गौतम ! अनुत्तरौपपातिकदेववैक्रिय-
शरीरप्रयोगस्य सर्वबन्धान्तरं जघन्येन एकत्रिंशत् सागरोपमाणि वर्षपृथक्त्वा-
धिकानि भवति, उत्कृष्टेन तु संख्येयानि सागरोपमाणि भवति, ‘ देसबंधंतरं जह-
ण्णेणं वासपुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं सागरोवमाइं ’ अनुत्तरौपपातिकदेववैक्रिय-
शरीरप्रयोगस्य देशबन्धान्तरं च जघन्येन वर्षपृथक्त्वं भवति, उत्कृष्टेन तु संख्ये-
यानि सागरोपमाणि भवति, तथाहि—अनुत्तरौपपातिकदेववैक्रियशरीरप्रयोगस्य

हृण हैं और वहां की स्थिति समाप्त हो जाने के बाद वह उस अनुत्तर-
विमान से अन्यत्र जन्म धारण कर फिर वहां से मर करके उसी अनु-
त्तरविमान में जन्म धारण करता है—तो ऐसी स्थिति में उसके वैक्रिय-
शरीर के बन्ध में अन्तर कितने काल का आता है । इसके उत्तर में
प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! यहां पर वैक्रियशरीर के सर्वबंध
का अंतर जघन्य से वर्षपृथक्त्व अधिक ३१ सागरोपम का है और
(उक्कोसेणं) उत्कृष्ट से (संखेज्जाइं सागरोवमाइं) संख्यात सागरो-
पम का है । (देसबंधंतरं जहण्णेणं वासपुहुत्तं) अनुत्तरौपपातिक देव
वैक्रियशरीरप्रयोगके देशबन्धका अन्तर जघन्य से वर्षपृथक्त्व है और
(उक्कोसेणं संखेज्जाइं सागरोवमाइं) उत्कृष्ट से संख्यात सागरोपम
होता है । जैसे कोई जीव अनुत्तरविमानों में उत्पन्न हुआ—वहां उसने

समाप्त करीने ते अनुत्तर विमान सिवायना डोछ अन्य स्थानमा उत्पन्न थछ
अथ अने त्यांथी मरीने इरीथी अनुत्तर विमानमां न नन्म धारणु करे, तो
अे प्रकारनी परिस्थितिमां तेना वैक्रियशरीरना अंधमां डेटला काणतु अन्तर
पडी अथ छे ?

मडावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ” हे गौतम ! आबु अने त्यारे तेना
वैक्रियशरीरना सर्वबंधतुं अंतरं जघन्यनी अपेक्षाअे ३१ सागरोपम अने
वर्षपृथक्त्व प्रमाणु थाय छे “ उक्कोसेणं संखेज्जाइं सागरोवमाइं ” अने
उत्कृष्टनी अपेक्षाअे संख्यात सागरोपतुं थाय छे, “ देसबंधंतरं जहण्णेणं
वासपुहुत्तं उक्कोसेणं संखेज्जाइं सागरोवमाइं ” अने ते देवना वैक्रियशरीरप्रयोगना
देशबंधतुं अेछ.मां अेछु अन्तरं वर्षपृथक्त्व प्रमाणु अने वधादिमा वधादे
अंतरं संख्यात सागरोपम प्रमाणु थाय छे. जेभ डे डोछे छुव अनुत्तर

सर्ववधान्तर, देशवधान्तर व उत्कृष्ट संख्यातानि सागरोपमाभि भवति, यतो नानन्तकालमनुत्तरविमानव्युत् सतरति, अथ वैक्रियशरीरवैश्वधक-सर्ववधकानामल्पवधकस्वादिकं प्ररूपयितुमाह- 'एप्सिं ण मंते ! जीवाण वेउच्चियसरीरस्स देसवधगाण सन्धवधगाण अवधगाण य कयरे कयरेहिंतो जाव विसेसाहिया वा ?' हे मद्दन्त ! एतेषां सल्ल पूर्वोक्तानां जीवानां वैक्रियशरीरस्य वैश्वधकानां, सर्व

प्रथम समय में वैक्रियशरीर का सर्ववध किया और बाद में देशवध किया और वहीपर ३१ सागरोपम तक रहा-बाद में वहां से बच कर मनुष्य पर्याय में वर्षपृथक्त्व तक रहकर पुन वही पर देव हो गया और प्रथम समय में वह वैक्रियशरीर का सर्ववध कहुआ-इस तरह से पूर्व के सर्ववध में जघन्य से अतर वर्षपृथक्त्व अधिक ३१ सागरोपम का आता है-और उत्कृष्ट से अन्तर संख्यात सागरोपम का आता है-क्यों कि अनुत्तर विमान से बचकर जीव अनन्तकाल तक इस ससार में नहीं रहता है।

अथ सूत्रकार वैक्रियशरीरके देशवधक, सर्ववधक, और अबन्धक के अल्पवधकत्व का कथन करते हैं-इसमें गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं-(एप्सिं ण मंते ! जीवाण वेउच्चियसरीरस्स देसवधगाण, सन्धवधगाण, अवधगाण य कयरे कयरेहिंतो जाव विसेसाहिया वा) हे मद्दन्त ! इन वैक्रियशरीर के देशवधकों में, सर्ववधकों में और

विमानमां उत्पन्न थये त्वां तेज्जे प्रथम सभयभा वैक्रियशरीराने सर्ववध कथी, अने त्वाए जाइ देशवध कथी अने त्वाए ३१ सागरोपम भाण सुधी ते रह्यो पछी त्वांभी व्यचीने मनुष्यपर्यायमां आवीने वर्षपृथक्त्व पर्यां त रह्यो अने त्वाए जाइ त्वांभी भरीने अनुत्तर विमानमां ए देवणी पर्याये उत्पन्न थये त्वां प्रथम सभयभां ते वैक्रियशरीराने सर्ववधक थये आ हीते पूर्वानां अने अत्थारनां सवल्ल वन्थे जघन्यनी अपेक्षाये ३१ सागरोपम अने वषपृथक्त्व प्रमाण भाणतु अन्तर पठे छे-उत्कृष्टनी अपेक्षाये सर्ववधक सागरोपमत्तु ते सर्ववधन्तु अतर आवे छे आस्युं के अनुत्तर विमानमांभी व्यचीने एव अनन्तकाण सुधी आ ससारमां रह्येते नथी

अथ सूत्रकार वैक्रियशरीरना देशवधक, सर्ववधक अने अबन्धकानां अल्पवधकत्व कथन करे छे नीतम स्वामी महावीर प्रभुने जेवेा प्रस पूछे छे के "एप्सिं ण मंते ! जीवाण वेउच्चियसरीरस्स देसवधगाण सन्धवधगाण, अवधगाण य कयरे कयरेहिंतो जाव विसेसाहिया वा ?" हे मद्दन्त ! वैक्रिय

बन्धकानाम्, अवन्धकानां च मध्ये कतरे जीवाः कतरेभ्यो जीवेभ्यो यावत् अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवानाह—' गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा वेउव्वियसरीरस्स सव्वबंधगा, देसबंधगा असंखेज्जगुणा, अवंधगा अणंतगुणा' हे गौतम ! सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पाः जीवा वैक्रियशरीरस्यसर्व-बन्धका भवन्ति, तत्कालस्य अल्पत्वात् तदपेक्षया देशबन्धकाः असंख्यातगुणा भवन्ति तत्कालस्य तदपेक्षयाऽसंख्येयगुणत्वात्, अवन्धकास्तु तदपेक्षया अनन्तगुणा भवन्ति, सिद्धानां वनस्पतिकायिकादीनां तदपेक्षयाऽनन्तगुणत्वादिति भावः, ॥सू०६॥

आहारकशरीरप्रयोगबन्धवक्तव्यता ।

मूलम्-आहारकशरीरप्रयोगबंधे णं भंते ! कइविहे पणत्ते ? गोयमा ! एगागारे पणत्ते । जइ एगागारे पणत्ते किं मणुस्साहारकशरीर-प्रयोगबंधे, किं अमणुस्साहारकशरीरप्रयोगबंधे ? गोयमा ! मणु-स्साहारकशरीरप्रयोगबंधे, णो अमणुस्साहारकशरीरप्रयोगबंधे ।

अवंधकों में से कौन से जीव किन जीवों से अल्प हैं ? बहुत हैं ? तुल्या हैं ? तथा विशेषाधिक हैं ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा वेउव्वियसरीरस्स सव्वबंधगा, देसबंधगा असंखे-ज्जगुणा, अवंधगा अणंतगुणा) सब से अल्प जीव वैक्रियशरीर के सर्वबंधक हैं, क्यों कि सर्वबंध का काल अल्प है—इनकी अपेक्षा देश-बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं—क्यों कि सर्वबंध के काल की अपेक्षा देशबन्ध का काल असंख्यातगुणा है । तथा इनसे भी अनन्तगुणें अवंधक जीव हैं क्यों कि इनके अवंधक सिद्धजीव और वनस्पतिकायिक आदि जीव देशबंधक जीवों कि अपेक्षा अनन्तगुणें हैं ॥ सू०६ ॥

शरीरना देशबंधकोमां, सर्वबंधकोमां अने अणधकोमा कथा एवे कथा एवे करतां अल्पे छे ? अधिक छे ? समान छे ? तथा विशेषाधिक छे ?

भङ्गावीर प्रभुने उत्तर—“ सव्वत्थोवा जीवा वेउव्वियसरीरस्स सव्वबंधगा, देसबंधगा असंखेज्जगुणा, अवंधगा अणंतगुणा ” वैक्रियशरीरना सर्वबंध एवे सौथी ओछां छे, कारण के सर्वबंधने काण अल्प छे तेमना करता देशबंधको असंख्यात गणां छे, कारण के सर्वबंधने काण करतां देशबंधने काण असं-ख्यात गणां छे तथा तेमना करतां पण अणधको अनंत गणां छे, कारण के तेना अणधक सिद्ध एव अने वनस्पतिकायिक आदि एव देशबंधको करतां अनंत गणां छे ॥ सू०६ ॥

एएण अभिलावेण जहा ओगाहण सठाणे जाव इडिपत्त पमत्त
 सजय-सम्मदिट्ठि पज्जत्त सखेज्जघासाउय कम्ममूमिग-गव्वभवक्कं-
 तिय-मणुस्साहारगसरीरप्पओगवधे, णो अणिडिपत्त पमत्त
 जाव आहारगसरीरप्पओगवधे । आहारगसरीरप्पओगवधे ण
 भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? गोयमा ! वीरियसजोगसह
 व्वयाए जाव लद्धि च पट्टुच्च आहारगसरीरप्पओगणामाए
 कम्मस्स उदएण आहारगसरीरप्पओगवधे । आहारगसरीर
 प्पओगवधे ण भते ! किं देसवधे, सव्ववधे ? गायमा ! देसवधे
 वि, सब्बवधे वि । आहारगसरीरप्पओगवधे ण भते ! कालओ
 केवच्चिर होइ ? गोयमा ! सब्बवधे एक्कं समय, देसवधे जहण्णेणं
 अतोमुट्ठत्त, उक्कोसेण वि अतोमुट्ठत्त । आहारगसरीरप्पओग
 वधधतरणं भते ! कालओ केवच्चिर होइ ? गोयमा ! सब्बवधतर
 जहण्णेणं अतोमुट्ठत्त, उक्कोसेण अणत्त काल, अणताओ
 उस्सप्पिणी ओस्सप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अणता लोया,
 अवड्ढ पोग्गलपरियह देसूणं । एव देसवधतर वि । एएसि णं
 भते ! जीवाणं आहारगसरीरस्स देसवधगाण, सब्बवधगाण,
 अवधगाण य कयरे कयरेहिंसो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा !
 सब्बथाथा जीवा आहारगसरीरस्स सव्ववधगा, देसवधगा
 सखेज्जगुणा, अबधगा अणत्तगुणा ॥ सू०७ ॥

छाया-आहारकसरीरमयोगपन्थः खलु मदन्त कतिचिचः प्रश्नतः ? गौतम !
 एकाकारः प्रश्नत । यदि एकाकार प्रश्नतः किम् मनुष्याहारकसरीरमयोगपन्थ ?
 किम् अमनुष्याहारकसरीरमयोगपन्थ ? गौतम । मनुष्याहारकसरीरमयोग

वन्धः, नो अमनुष्याहारकशरीरप्रयोगवन्धः एवम् एतेन अभिलाषेन यथा अत्र-
गाहनसंस्थाने यावत् ऋद्धिप्राप्त-प्रमत्तसंयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्क
कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिक्रमनुष्याहारकशरीरप्रयोगवन्धः, नोऋद्धिप्राप्तप्रमत्त यावत्

सूत्रार्थ—(आहारकशरीरप्रयोगवन्धे णं भन्ते । कइविहे पणत्ते)
हे भदन्त ! आहारकशरीरप्रयोगवन्ध कितने प्रकारका कहा गया ? (गोयमा)
हे गौतम ! (एगागारे पणत्ते) आहारकशरीरप्रयोगवन्ध एक प्रकार का
कहा गया है । (जइ एगागारे पणत्ते किं मणुस्साहारकशरीरप्रयोग-
वन्धे, किं अमणुस्साहारकशरीरप्रयोगवन्धे) हे भदन्त ! यदि आहारक-
शरीरप्रयोगवन्ध एक प्रकारका कहा गया है—तो वह मनुष्यसंबंधी आहा-
रकशरीर प्रयोगवन्ध एक प्रकार का कहा गया है—या अमनुष्य संबंधी
आहारकशरीरप्रयोगवन्ध एक प्रकार का कहा गया है ? (गोयमा) हे
गौतम ! (मनुस्साहारकशरीरप्रयोगवन्धे—णो अमणुस्साहारकशरीरप्र-
योगवन्धे) आहारक शरीरप्रयोगवन्ध मनुष्यों के ही होता है—अतः वही
एक प्रकार का कहा गया है । आहारक शरीरप्रयोगवन्ध मनुष्य सिवाय
दूसरे जीवों को नहीं होता इसलिये उस विषय में तो कुछ कहना
ही नहीं है । (एवं एणं अभिलाषेणं जहा ओगाहणसंठाणे जाव
इड्डीपत्त, पमत्तसंजय सम्महिट्ठि पज्जत्तसंखेज्जवासा उयकम्मभूमिग
गभवक्कंतिय मणुस्साहारकशरीरप्रयोगवन्धे—णो अण्णिड्डीपत्तपमत्तसं-

सूत्रार्थ—(आहारकशरीरप्रयोगवन्धे णं भन्ते । कइविहे पणत्ते ?) हे भदन्त !
आहारक शरीरप्रयोगवन्ध कितने प्रकारका कहा है ? (गोयमा !) हे गौतम !
(एगागारे पणत्ते) आहारक शरीरप्रयोग वन्ध एक प्रकारका कहा है । (जइ
एगागारे पणत्ते किं मणुस्साहारकशरीरप्रयोगवन्धे, किं अमणुस्साहारकशरीर-
प्रयोगवन्धे ?) हे भदन्त ! जो आहारकशरीरप्रयोगवन्ध एक प्रकार-
का है, तो शु मनुष्य संबंधी आहारक शरीरप्रयोग वन्ध एक प्रकारका
कहा है के अमनुष्य संबंधी आहारक शरीरप्रयोगवन्ध एक प्रकारका कहा है ?
(गोयमा !) हे गौतम ! (मनुस्साहारकशरीरप्रयोगवन्धे—णो अमणुस्साहारक-
शरीरप्रयोगवन्धे) आहारक शरीरप्रयोगवन्ध मनुष्यों के ही होता है—अतः वही
एक प्रकारका कहा है । आहारक शरीरप्रयोगवन्ध मनुष्य सिवाय
दूसरे जीवों को नहीं होता इसलिये उस विषय में तो कुछ कहना
ही नहीं है । (एवं एणं अभिलाषेणं जहा ओगाहणसंठाणे जाव इड्डीपत्त, पमत्त संजय
सम्महिट्ठि पज्जत्त संखेज्जवासा उयकम्म भूमिगगभवक्कंतिय मणुस्साहारकशरीर-

आहारकशरीरप्रयोगवन्धः । आहारकशरीरप्रयोगवन्धः स्वच्छ मदन्त ! कस्स
 कर्मण उदयेन ? गौतम ! धीर्यसयोगसद्वृत्त्यतया यावत् छिन्धि च प्रतीत्य आहा
 रकशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मणः उदयेन आहारकशरीरप्रयोगवन्धः । आहारकशरीर
 प्रयोगवन्ध , स्वच्छ मदन्त ! किं देशवन्धः ? सर्ववन्धः ? गौतम ! देशवन्धोऽपि,

जय जाय आहारगसरीरप्रयोगवन्धे) इस तरह इस अभिलाष से
 अधगाहना सस्थानपद में कहे अनुभार यावत् श्रद्धिप्राप्तप्रमत्तसयतस
 म्यकूट्टिपर्याप्त सख्यातवर्ष की आयुवाले, कर्मभूमिज मनुष्यों को ही
 आहारक शरीर प्रयोगवन्ध होता है—अनुद्धिप्राप्त प्रमत्तसयत को यावत्
 आहारक शरीरप्रयोगवन्ध नहीं होता है । (आहारगसरीरप्रयोगवन्धे न
 भंते ! कस्स कम्मस्स उदएण) हे भदन्त ! आहारकशरीरप्रयोगवन्ध किस
 कर्म के उदय से होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (धीर्यसजोगस
 व्धयाए जाय छिन्धि च पञ्चुच्च आहारगसरीरप्रयोगनामए कम्मस्स
 उदएण आहारगसरीरप्रयोगवन्धे) सधीर्यता, सयोगता, सद्वृत्तता से
 यावत् छिन्धि को आश्रित करके आहारकशरीरप्रयोग नामकर्म के उदय
 से यह आहारकशरीरप्रयोगवन्ध होता है । (आहारगसरीरप्रयोगवन्धे न
 भंते ! किं देशवन्धे, सम्बन्धे) हे भदन्त ! आहारकशरीरप्रयोगवन्ध क्या
 देशवन्धरूप होता है या सर्ववन्धरूप होता है ? (गोयमा) हे गौतम !
 देशवन्धे वि, सम्बन्धे वि) आहारक शरीरप्रयोग देशवन्धरूप भी है

रूपमोग वन्धे—गो षण्णिकीपत्तमत्तसंमय जाय आहारगसरीरप्रयोगवन्धे)
 आ शीते आ अभिलाष दाश अवगाहना सस्थान पदमां क्खाम प्रभावे (श्रद्धि
 प्राप्त प्रमत्त सयत सम्भ्रूट्टि पर्याप्त सख्यात वर्षना आयुव्यवाणा, कर्म
 भूमिज मनुष्यों में न आहारक शरीरप्रयोग वन्ध थाय छे अनुद्धि प्राप्त प्रमत्त
 सयतने (यावत्) आहारक शरीर प्रयोग वन्ध यतो नधी) अर्था सुधीर्ज
 कथन प्रकृत्य कथं (आहारगसरीरप्रयोग वन्धे न भंते ! कस्स कम्मस्स उदएण)
 हे भदन्त ! आहारक शरीर प्रयोगवन्ध क्या कर्मना उदयधी थाय छे ?
 (गोयमा) हे गौतम ! (धीर्यसजोग सद्व्ययाए जाय छिन्धि च पञ्चुच्च
 आहारगसरीरप्रयोगनामए कम्मस्स उदएण आहारगसरीरप्रयोगवन्धे) सधीर्यता
 सयोगता अने सद्वृत्तताधी यावत् छिन्धिने आश्रित करीने आहारक शरीर
 प्रयोग नाम कर्मना उदयधी आ आहारक शरीर प्रयोग वन्ध थाय छे

(आहारगसरीरप्रयोगवन्धे न भंते ! किं देशवन्धे सम्बन्धे) हे
 भदन्त ! आहारक शरीर प्रयोगवन्ध सु देशवन्ध इय दोष छे हे सम्बन्ध
 + दोष छे ? (गोयमा) देशवन्धे वि सम्बन्धे वि) हे गौतम ! आहारक

सर्वबन्धोऽपि, आहारकशरीरप्रयोगबन्धः खलु भदन्त ! कालतः क्रियच्चिरं भवति ? गौतम ! सर्वबन्धः एकं समयं, देशबन्धो जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कर्षेणापि अन्तर्मुहूर्तम्, आहारकशरीरप्रयोगबन्धान्तरं खलु भदन्त ! कालतः क्रियच्चिरं भवति ? गौतम ! सर्वबन्धान्तरं जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कर्षेण अनन्तं कालम्, अनन्ता उत्सर्पिण्यवसमर्पिण्यः कालतः, क्षेत्रतः अनन्ता लोकाः, अथाद्धं पुद्गलपरिवर्तं देशोनम्, एवं देशबन्धान्तरमपि, एतेषां खलु भदन्त ! जीवानाम् आहारकशरीरस्य

और सर्वबंधरूप भी है । (आहारकशरीरप्रयोगबंधे णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ! आहारक शरीरप्रयोगबंध कालकी अपेक्षासे कबतक रहता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सबबंधे एकं समयं, देशबंधे जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) आहारक शरीरप्रयोग का सर्वबंध एक समयतक रहता है और देशबंध जघन्य से भी अन्तर्मुहूर्त तक रहता है और उत्कृष्ट से भी अन्तर्मुहूर्त तक रहता है । (आहारकशरीरप्रयोगबंधंतरं णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ! आहारकशरीर का प्रयोगबंधकालकी अपेक्षा कबतक रहता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सबबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं अणंतकालं, अणंताओ ओसप्पिणी उस्सप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अणंतालोया अवड्डुं पोग्गलपरियट्टं देसूणं—एवं देसबंधंतरं वि) सर्वबंधान्तर जघन्यसे एक अन्तर्मुहूर्ततक रहता है और उत्कृष्ट से अनन्तकालतक रहता है । इस अनन्तकाल में अनन्त उत्सर्पिणी और अनन्त

शरीरप्रयोग बंध देशबंधरूप पणु डोय छे अने सर्वबंध रूप पणु डोय छे (आहारकशरीरप्रयोगबंधे णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?) हे भदन्त ! आहारक शरीर प्रयोगबंध काणनी अपेक्षाअे कथां सुधी रडे छे ? (गोयमा ! सबबंधे एकं समयं, देशबंधे जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! आहारक शरीर प्रयोगने। सर्वबंध अेक समय सुधी रडे छे अने देशबंध ओछाभां ओछे अन्तर्मुहूर्तं सुधी अने वधारेभां वधारे पणु अन्तर्मुहूर्तं सुधी रडे छे (आहारकशरीरप्रयोगबंधंतरं णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?) हे भदन्त ! आहारक शरीरना प्रयोगबंधनुं अंतरकाणनी अपेक्षाअे केटु डोय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सबबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं अणंताओ ओसप्पिणीउस्सप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अणंतालोया, अवड्डुं पोग्गलपरियट्टं देसूणं—एवं देसबंधंतरं वि) सर्वबंधान्तरने। जघन्यकाण अेक अन्तर्मुहूर्तं सुधीने। अने उत्कृष्टकाण अनन्त काण पर्यन्तने। डोय छे आ अनन्तकाणभा अनन्त उत्सर्पिणी ओ

देशबन्धकानां, सर्वव्ययकानाम्, बन्धनानां च क्तरे क्तरेभ्यो यावत् विशेषा
धिकं वा ? गौतम । सर्वस्वोका जीवाः आहारकशरीरस्य सर्वव्ययकाः देशबन्धका
सम्प्रेयगुणाः, अप्यधका अनन्तगुणा ॥ सू० ७ ॥

टीका-अप्याहारकशरीरप्रयोगश्च त्रयाधित्याह- 'आहारगसरीरप्रयोगश्चे ज
मते । कश्चिद्दे पण्यसे ?' गौतमः पृच्छति-हे मदन्त । आहारकशरीरप्रयोगश्चः सख

अधसर्पिणी हो जाती हैं । क्षेत्र की अपेक्षा अनन्तलोक-कुछ कम अर्ध
पुद्गल परायणरूप है । इसी तरह से देशव्ययान्तर में भी जानना चाहिये ।
(एएसिं ज मते । जीवाणं आहारगसरीरस्स देसव्ययघगाणं सख्यव्ययघगाणं,
अधघगाणं य क्यरे क्यरेहिंते जाव विसेसाहिया वा) हे मदन्त । इन
आहारक शरीर के देशव्ययकों में, सर्वव्ययकों में और अधव्ययकों में
से कौन जीव कितनी अपेक्षा यावत् विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे
गौतम ! (सख्यव्ययोवा जीवा आहारगसरीरस्स सख्यव्ययघगा, देसव्ययघगा
संखेज्जगुणा अधघगा अणतगुणा) आहारक शरीर के सर्वव्ययक जीव
सय से कम हैं । इनकी अपेक्षा देशव्ययक जीव संख्यातगुणित हैं । और
इनकी अपेक्षा भी अधव्ययक जीव अनन्तगुणों हैं ।

टीकार्थ-अथ सूत्रकार आहारक शरीरप्रयोगश्च को अभिलिखित करके
कथनकरते हैं-इसमें गौतमने प्रश्नसे ऐसा पूछा है कि-(आहारगसरीर-
प्रयोगश्चे ज मते । कश्चिद्दे पण्यसे) हे मदन्त । आहारक शरीरप्र-

अधसर्पिणी व्यतीत शर्ध अध छे, क्षेत्रनी अपेक्षाखे अनन्तलोक-अधं पुत्रज
परावतन करवा सखेज्ज-अन प्रभाषु देव छे खेज्ज प्रभाषु देश लभान्तर
विधे पञ्च सम्बन्धु (एएसिं ज मते । जीवाणं आहारगसरीरस्स देसव्ययघगाणं
सख्यव्ययघगाणं अधघगाणं य क्यरे क्यरेहिंते जाव विसेसाहिया वा ?) हे
मदन्त । आहारक शरीरना देशव्ययको, सर्वव्ययको अने अधव्ययकोमां क्या
क्या लवे। क्या क्या लवे। करतां व्यय छे 'यावत्' क्या क्या लवे। क्या
क्या लवे। करता विशेषाधिक छे ? (गोयमा ।) हे गौतम ! (सख्यव्ययोवा
जीवा आहारगसरीरस्स सख्यव्ययघगा देसव्ययघगा संखेज्जगुणा अधघगा अणतगुणा)
आहारक शरीरना सर्वव्ययको लवे। सौधी खे।छे छे, तेमना करतां देशव्ययको
लवे। सम्बन्धु। छे देशव्ययको करतां अधव्ययको अनन्तगुणा छे

टीकार्थ-इधे सूत्रकार नीयिना प्रश्नोत्तरे द्वारा आहारकशरीरप्रयोगश्च निश्च
पञ्च करे छे-गौतमस्वामीने प्रश्न- 'आहारगसरीरप्रयोगश्चे ज मते कश्चिद्दे
? ' हे मदन्त आहारकशरीरप्रयोगश्चे कटला मकारने कथ्ये छे ?

कतिविधः प्रज्ञप्तः ? भगवानाह—‘ गोयमा ! एगागारे पणत्ते ’ हे गौतम ! आहारकशरीरप्रयोगवन्धः एकाकार एरुप्रकार एव प्रज्ञप्तः, नतु औदारिकादिशरीरप्रयोगवन्धवदेकेन्द्रियाद्यनेरुप्रकारक इति भावः । गौतमः पृच्छति—‘ जइ एगागारे पणत्ते किं मणुस्साहारगसरीरप्पओगवंधे ? किं अमणुस्साहारगसरीरप्पओगवंधे ? ’ हे भदन्त ! यः एकाकार आहारकशरीरप्रयोगवन्धः प्रज्ञप्तः स किम् मनुष्याहारकशरीरप्रयोगवन्धः ? किं वा अमनुष्याहारकशरीरप्रयोगवन्धः प्रज्ञप्तः ? भगवानाह—

योगबंध कितने प्रकार का कहा गया है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (एगागारे पणत्ते) आहारकशरीरप्रयोगबंध एक प्रकार का ही कहा गया है । औदारिक आदि प्रयोगबंध की तरह एकेन्द्रियादिरूप अनेक प्रकार का नहीं कहा गया है । तात्पर्य कहने का यह है कि एकेन्द्रिय से लेकर समस्त पंचेन्द्रिय जीवों के औदारिक शरीर होता है—अतः भिन्न जातिवालों में होने के कारण इसमें भिन्नता—अनेक प्रकारता आती है—इस तरह की अनेक प्रकारता इस आहारक शरीरप्रयोगबंध में नहीं है—क्यों कि यह मनुष्य के ही होना है इसी विषय को स्पष्ट करने के लिये गौतमस्वामी प्रभु से पूछते हैं—(जइ एगागारे पणत्ते किं मणुस्साहारगसरीरप्पओगवंधे अमणुस्साहारगसरीरप्पओगवंधे) हे भदन्त ! यदि वह आहारक शरीरप्रयोगबंध एक ही प्रकार का कहा गया है तो क्या वह मनुष्य का आहारक शरीरप्रयोगबंध एक प्रकार का कहा गया है ? या अमनुष्य का आहारक शरीरप्रयोगबंध एक प्रकार का कहा गया है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं

भडावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! “ अगागारे पणत्ते ” आहारक शरीर प्रयोगबंध ओक न प्रकारने कहेा छे. औदारिक आदि प्रयोगबंधनी बेम ओकेन्द्रियादिरूप अनेक प्रकारने ते हे तो न. आ कथननु तात्पर्य ओ छे के ओकेन्द्रियर्था लधने समस्त पंचेन्द्रिय पर्यन्तना ओवने औदारिकशरीर डोय छे भिन्न भिन्न लतिवाणाओमां डोवाथी तेमां भिन्नता (अनेक प्रकारता) आनी लय छे पणु आ प्रकारनी अनेक प्रकारता आ आहारकशरीरप्रयोगबंधमा डोती नथी कारणु के ते पधाने मनुष्यमां न सदृशाव डोय छे आ विषयने स्पष्ट करवा माटे गौतम स्वामी भडावीर प्रभुने आ प्रमाणे प्रश्न पूछे छे—“ जइ एगागारे पणत्ते किं मणुस्साहारगसरीरप्पओगवंधे, अमणुस्साहारगसरीरप्पओगवंधे ? हे भदन्त ! ते ते आहारक शरीरप्रयोगबंध ओक न प्रकारने डोय, तो शुं मनुष्यने आहारक शरीरप्रयोगबंध

यावत् ऋद्धिप्राप्त-प्रमत्त संयतसम्यग्दृष्टि पर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्क कर्मभूमिगर्भ-
व्युत्क्रान्तिक मनुष्याहारकशरीरप्रयोगवन्धः प्रज्ञप्तः नो अनृद्धिप्राप्तप्रमत्त-यावत्
संयत-सम्यग्दृष्टि संख्येयवर्षायुष्क कर्मभूमिग-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याहारकशरीर-
प्रयोगवन्धः प्रज्ञप्तः तथैवात्रापि निरवशेषोऽनसेय इति भावः । गौतमः पृच्छति-
' आहारगसरीरप्यओगवन्धे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ' हे भदन्त !
आहारकशरीरप्रयोगवन्धः खलु कस्य कर्मणः उदयेन भवति ? भगवानाह- ' गोयमा ।
वीरियसजोगसहव्याए जाव लद्धिं च पडुच्च आहारगसरीरप्यओगणामाए कम्मस्स

के २१ वें अवगाहना संस्थान पद में जैसा कहा गया है कि यह आहार-
क शरीर प्रयोगबंध ऐसे मनुष्य के होता है जो ऋद्धिप्राप्त संयत हो,
सम्यक् दृष्टि हो, छोटे गुणस्थान में रहने वाला हो, पर्याप्त हो, संख्यात
वर्ष की आयुवाला हो-कर्मभूमिज हो, गर्भव्युत्क्रान्तिक-गर्भजन्मवाला
हो । ऐसा वह नहीं हो कि जिसे ऋद्धिप्राप्त न हो-चाहे वह इन पूर्वोक्त
विशेषणों वाला भले ही क्यों न हो । क्यों कि यह आहारक शरीर
प्रयोगबंध ऋद्धिप्राप्त छोटे गुणस्थानवर्ती मुनिजन के ही होता है । ऐसा
ही कथन यहां पर भी सम्पूर्णरूप से इसके विषय में जानना चाहिये ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं-(आहारगसरीरप्यओग-
वन्धे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं) हे भदन्त ! यह आहारक शरीर
प्रयोगबंध किस कर्म के उदय से होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते
हैं-(गोयमा) हे गौतम ! (वीरियसजोगसहव्याए जाव लद्धिं च पडुच्च

प्रभाणुं करवामां आण्युं छे, ते प्रभाणुं अडीं पणुं अणुं करवुं त्यां आ प्रभाणुं
कहुं छे—“ आ आहारक शरीरप्रयोगबंध एवा भाणुस द्वारा थाय छे के जे
ऋद्धि संपन्न संयत होय, सम्यग्दृष्टि होय छ्हा गुणस्थानमा रखेनारे
होय, पर्याप्त होय, संख्यातवर्षना आयुष्य वाणो होय, कर्मभूमिज होय अने
गर्भव्युत्क्रान्तिक (गर्भ जन्मवाणो) होय-आ पूर्वोक्त विशेषणवाणो होवा छतां
ऋद्धिप्राप्त न होय एवा मनुष्य द्वारा आ बंध थतो नथी, कारण के आ आहारक
शरीर प्रयोगबंध ऋद्धिप्राप्त छ्हा गुणस्थानवर्ती मुनिजन द्वारा न थाय छे.
आ प्रकारनु समस्त कथन अडीं पणुं तेना विशेष संपूर्णरूपे अणुं थवुं जेधजे.

गौतम स्वामीने प्रश्न—“ आहारगरीरप्यओव धे ण भंते ! कस्स कम्मस्स
उदएणं ” ? हे भदन्त ! क्या कर्मना उदयथी आ आहारकशरीरप्रयोगबंध थाय छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—“ वीरियसजोगसहव्याए जाव लद्धिं च पडुच्च
आहारगसरीरप्यओगणामाए कम्मस्स उदएणं आहारगसरीरप्यओगबंधे ” वीर्यथी

‘ગોયમા ! મણુસ્સાહારગસરીરપ્પબોગવધે, નો અમણુસ્સાહારગસરીરપ્પબોગવધે’ હે ગૌતમ ! આહારકશરીરપયોગવધો મણુપ્પાહારકશરીરપયોગવધ એવ મવત્તિ, નો અમણુપ્પાહારકશરીરપયોગવધો મવત્તિ, ‘ એવ ઇણ અમિલાવેણં જહા ઓગાહમ સઠાણે જાવ ઈહીપત્ત-પમત્ત-સમ્મહિટ્ઠિપજ્જત્ત-સલ્લેજ્જવાસાડય-કમ્મમ્મૂમિગગમ્મ વક્કલ્લિય મણુસ્સાહારગસરીરપ્પબોગવધે, નો અણિહીપત્તપમત્ત-જાવ-આહારગસરીર પ્પબોગવધે ’ એવમુક્કીત્યા એસેન ઉપર્યુક્તેન મણુપ્પાહારકશરીરપયોગવધસ્વ અમિલાવેન આલાપકમેણ યથા અવગાહનસસ્યાને પ્રજ્ઞાપનાયા એકવિંશતિપરે

—(ગોયમા) હે ગૌતમ ! (મણુસ્સાહારગસરીરપ્પબોગવ ધે નો અમણુસ્સાહારગસરીરપ્પબોગવ ધે) જો આહારક શરીરપયોગવ ધ એક પ્રકાર કા કહા ગયા હૈ સહ મણુપ્પ કા આહારક શરીરપયોગવ ધ એક પ્રકાર કા કહા ગયા હૈ—અમણુપ્પ કા આહારક શરીરપયોગવ ધ એક પ્રકાર કા નહી કહા ગયા હૈ—ક્યોં કિ આહારક શરીર પયોગવ ધ મણુપ્પ કે સિવાય અન્ય જીવોં કે નહીં હોતા હૈ । ફસલિયે મણુપ્પ કે હી હોને કે કારણ—એકેન્દ્રિય સે હેકર અસજ્જી પચેન્દ્રિય મણુપ્પ કે નહીં હોને કે કારણ ઉસમેં એક વિચિત્તા પ્રકટ કી ગઈ હૈ । (એવ ઇણ અમિલાવેણં જહા ઓગાહમ સઠાણે જાવ ઈહીપત્ત-પમત્તમંજય સમ્મહિટ્ઠિપજ્જત્ત સલ્લેજ્જવાસાડયક મ્મમ્મૂમિગગમ્મવક્કલ્લિય મણુસ્સાહારગસરીરપ્પબોગવ ધે, નો અણિહીપત્ત પમત્ત જાવ આહારગસરીરપ્પબોગવ ધે) ફસ વિષય કા કથન પ્રજ્ઞાપના

એક પ્રકારનો કહ્યો છે કે અમણુપ્પનો આહારક શરીરપયોગવ ધ એક પ્રકારનો રહ્યો છે ?

મહાવીર પ્રભુનો ઉત્તર—“ ગોયમા ” હે ગૌતમ ! ‘ મણુસ્સાહારગસરીરપ્પ બોગવ ધે નો અમણુસ્સાહારગસરીરપ્પબોગવ ધે એ આહારકશરીરપયોગવ ધ એક પ્રકારનો કહ્યો છે, તે મણુપ્પના આહારકશરીરપયોગવ ધ એક પ્રકારનો સમજવો—મણુપ્પનો આહારક શરીરપયોગવ ધ એક પ્રકાર સમજવો એકલે નહીં કારણ કે મણુપ્પ સિવાયના અન્ય જીવોમાં આહારક શરીરપયોગવ ધ તો નથી. આ કારણે મણુપ્પોમાં જ તેનો સહજાવ હોવાથી, અને એકેન્દ્રિયી હોને બદલી પચેન્દ્રિય મણુપ્પ પ્રાણીના જીવોમાં તેનો સહજાવ નહીં હોવાથી—તેમાં એક વિષય (એકજ પ્રકાર) પ્રકટ કરવામાં આવેલ છે

“ ઇવ ઇણ અમિલાવેણં જહા ઓગાહમસઠાણે જાવ ઈહીપત્ત-પમત્ત-અવસમ્મહિટ્ઠિપજ્જત્ત-સલ્લેજ્જવાસાડયકમ્મમ્મૂમિગગમ્મવક્કલ્લિયમણુસ્સાહારગસરીર પ્પબોગવ ધે, નો અણિહીપત્તપમત્ત જાવ આહારગસરીરપ્પબોગવ ધે ”

વિષયનું કથન પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ૨૧ માં અવગાહના સરથાન પરમાં જે

यावत् ऋद्धिप्राप्त-प्रमत्त संयतसम्यग्दृष्टि पर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्क कर्मभूमिगर्भ-
व्युत्क्रान्तिक मनुष्याहारकशरीरप्रयोगबन्धः प्रज्ञप्तः नो अनृद्धिप्राप्तप्रमत्त-यावत्
संयत-सम्यग्दृष्टि संख्येयवर्षायुष्क कर्मभूमिग-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याहारकशरीर-
प्रयोगबन्धः प्रज्ञप्तः तथैवात्रापि निरवशेषोऽवसेय इति भावः । गौतमः पृच्छति-
' आहारगसरीरप्पओगवन्धे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ' हे भदन्त !
आहारकशरीरप्रयोगबन्धः खलु कस्य कर्मणः उदयेन भवति ? भगवानाह- ' गोयमा !
वीरियसजोगसद्वव्याए जाव लद्धिं च पडुच्च आहागसरीरप्पओगणामाए कम्मस्स

के २१ वें भवगाहना संस्थान पद में जैसा कहा गया है कि यह आहा-
रक शरीर प्रयोगबंध ऐसे मनुष्य के होता है जो ऋद्धिप्राप्त संयत हो,
सम्यक् दृष्टि हो, छठे गुणस्थान में रहने वाला हो, पर्याप्त हो, संख्यात
वर्ष की आयुवाला हो-कर्मभूमिज हो, गर्भव्युत्क्रान्तिक-गर्भजन्मवाला
हो। ऐसा वह नहीं हो कि जिसे ऋद्धिप्राप्त न हो-चाहे वह इन पूर्वोक्त
विशेषणों वाला भले ही क्यों न हो। क्यों कि यह आहारक शरीर
प्रयोगबंध ऋद्धिप्राप्त छठे गुणस्थानवर्ती मुनिजन के ही होता है। ऐसा
ही कथन यहां पर भी सम्पूर्णरूप से इसके विषय में जानना चाहिये।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं-(आहारगसरीरप्पओग-
बंधे णं भंते । कस्स कम्मस्स उदएणं) हे भदन्त ! यह आहारक शरीर
प्रयोगबंध किस कर्म के उदय से होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते
हैं-(गोयमा) हे गौतम ! (वीरियसजोगसद्वव्याए जाव लद्धिं च पडुच्च

प्रमाणे करवामां आण्युं छे, ते प्रमाणे अहीं पणु अडणुं करवुं त्या आ प्रमाणे
कणुं छे—“ आ आहारक शरीरप्रयोगबंधे एवा माणुस द्वारा थाय छे के ने
ऋद्धि संपन्न संयत होय, सम्यग्दृष्टि होय छुं गुणस्थानमा रहनारे
होय, पर्याप्त होय, संख्यातवर्षना आयुष्य वाणे होय, कर्मभूमिज होय अने
गर्भव्युत्क्रान्तिक (गर्भ जन्मवाणे) होय—आ पूर्वोक्त विशेषणवाणे होवा छतां
ऋद्धिप्राप्त न होय एवा मनुष्य द्वारा आ अंध थतो नथी, आहारक
शरीर प्रयोगबंध ऋद्धिप्राप्त छुं गुणस्थानवर्ती मुनिजन द्वारा न थाय छे,
आ प्रकारनु समस्त कथन अहीं पणु तेना विशे सपूर्वरेपे अडणुं थवुं जेधये.

गौतम स्वामीने प्रश्न—“ आहारगरीरप्पओवंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स
उदएणं ” ? हे भदन्त ! क्या कर्मना उदयथी आ आहारकशरीरप्रयोगबंध थाय छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—“ वीरियसजोगसद्वव्याए जाव लद्धिं च पडुच्च
आहारगसरीरप्पओगणामाए कम्मस्स उदएणं आहारगसरीरप्पओगबंधे ” वीर्यथी

उदपण आहारगसरीरप्यओगयधे' हे गौतम ! वीर्यसयोगसवृद्रव्यतया, देशी दीपकन्यायात् 'स शब्दरूप वीर्यशब्देऽपि सम्यन्वेन सवीर्यतया, सयोगतया, सवृद्रव्यतया, इत्यर्थः यावत् प्रमादप्रत्ययात् कर्म च, योगं च भव च, आयुष्यं च कर्मि च प्रतीत्य आहारकशरीरप्रयोगकरणलम्बिमात्रित्येत्यर्थः आहारकशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मण' उदयेन आहारशरीरप्रयोगयधो भवति, गौतम पृच्छति—' आहारगसरीरप्यभोग बंधे ण मते! किं देसबधे, सच्चबधे? हे मदन्त ! आहारकशरीरप्रयोगबन्धो स्वच्छु किं देसबधो भवति ? किं वा सर्वबन्धो भवति ? भगवानाह—' गोयमा ! देसबधे वि, सच्चबधे वि ' हे गौतम ! आहारकशरीरप्रयोगबन्धो देसबन्धोऽपि भवति, अथ च सर्वबन्धोऽपि भवति, गौतमः पृच्छति—' आहारगसरीरप्यभोग-बंधे ण मते ! कालो केवधिवरं होइ ? हे-मदन्त ! आहारकशरीरप्रयोगबन्धः

आहारगसरीरप्यभोगणामाए कम्मस्स उदपणं आहारगसरीरप्यभोग वधे) वीर्यं से युक्त होने से, योगसहित होने से, सद्रव्यरूप होने से और प्रमादरूपकारणवाला होने से, अद्वि संपन्न संयत-छट गुणस्थान वर्ती जीव के कर्म, भव, योग, आयुष्य एव आहारक शरीरप्रयोगकरण लम्बि को लेकर उदित हुए आहारक शरीर नामकर्म के प्रभाव से आहारक शरीरप्रयोगयध होता है ।

अथ गौतमस्वामी प्रभु से देखा पूछते हैं—(आहारगसरीरप्यभोग बधे ण मते ! किं देसबधे सच्चबधे ?) हे मदन्त ! यह आहारक शरीर प्रयोगयध क्या देशबधरूप होता है या सर्वबधरूप होता है ? इसके बरार में प्रभु कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! देसबधे वि सच्चबधे वि) आहारक शरीरप्रयोगयध देशबधरूप भी होता है और सर्वबधरूप भी होता है ।

युक्ता देवाधी योगसहित देवाधी सद्रव्यरूप देवाधी, प्रमादरूप कारणवाणा देवाधी अद्विसंपन्न संयत-छट गुणस्थानवर्ती एवना कर्म, भव योग आयुष्य अने आहारकशरीरप्रयोगकरण लम्बिनी अपेक्षाके उदय पायेता आहारकशरीरनाम कम्मना प्रभावधी आहारकशरीरप्रयोगयध ताव छे

गौतम स्वामीने प्रभु—“ आहारकशरीरप्यभोगयधे ण मते ! किं देसबधे, सच्चबधे ? ” हे मदन्त आहारकशरीरप्रयोगयध देशबधरूप देव छे, हे सर्वबधरूप देव छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर— गोयमा ! देसबधे वि सच्चबधे वि ” हे गौतम ! प्रयोगयध देशबधरूप यत्तु देव छे अने सर्वबधरूप यत्तु देव छे

खलु कालतः कालापेक्षया कियच्चिरं भवति ? भगवानाह—‘ गोयमा । सव्वबंधे एकं समय, देसबंधे जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं’ हे गौतम ! आहारकशरीरप्रयोगस्य सर्वबन्धः एकं समयं भवति प्रथमसमये एव सर्वबन्ध सद्भावात् देशबन्धस्तु जघन्येनान्तर्मुहूर्तं भवति, उत्कृष्टेनापि चान्तर्मुहूर्तं भवति, तथाहि—जघन्येन उत्कर्षेण चान्तर्मुहूर्तमेवाहारकशरीरी भवति, परतः औदारिकशरीरस्यावश्यग्रहणात्, तत्र चान्तर्मुहूर्ते प्रथमसमये सर्वबन्धः, उत्तरसमयेषु च देशबन्धः

अब गौतमस्वामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं—(आहारकशरीरप्रयोगबंधे णं भन्ते । कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ! आहारक शरीरप्रयोगबंध काल की अपेक्षा कबतक रहता है ? इसके उत्तर में प्रश्नु कहते हैं—(गोयमा ! सव्वबंधे एकं समय, देसबंधे जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) हे गौतम ! आहारक शरीरप्रयोग का सर्वबंध एक समय का होता है और देशबंध जघन्य से एक अन्तर्मुहूर्त का होता है और उत्कृष्ट से भी एक अन्तर्मुहूर्त का होता है । क्यों कि प्रथम समय में ही आहारक शरीरप्रयोग के सर्वबंध का सद्भाव रहता है । अतः इसके सर्वबंध का समय एक समय का कहा गया है । देशबंध जघन्य से अन्तर्मुहूर्त का है और उत्कृष्ट से भी वह अन्तर्मुहूर्त का है तात्पर्य यह है कि ऋद्धिधारी छठा गुणस्थान वर्ती संयतजन आहारक शरीर से युक्त जघन्य और उत्कृष्ट में एक अन्तर्मुहूर्त तक ही रहता है ।

गौतम स्वामीने प्रश्न—(आहारकशरीरप्रयोगबंधे णं भन्ते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?) हे भदन्त ! आहारक शरीर प्रयोगबंध काणनी अपेक्षाओ कथां सुधी रडे छे ?

भडावीर प्रश्नुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (सव्वबंधे एकं समय, देसबंधे जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं) आहारक शरीर प्रयोगने सर्वबंध ओक समयने डोय छे, तेने देशबंध ओछामां ओछे ओक अन्तर्मुहूर्तने अने वधारेमां वधारे पणु ओक अन्तर्मुहूर्तने डोय छे. कारणु के प्रथम समयमा न आहारक शरीर प्रयोगना सर्वबंधने सद्भाव रडे छे, तेथी तेना सर्वबंधने काण ओक समयने क्खो छे. देशबंधने जघन्य तथा उत्कृष्टकाण ओक अन्तर्मुहूर्तने ने कडेवामां आओ छे, तेनुं स्पष्टीकरणु आ प्रमाणु छे—ऋद्धिसंपन्न छटा गुणस्थानवर्ती संयत मनुष्य जघन्य अने उत्कृष्ट काणनी अपेक्षाओ ओक अन्तर्मुहूर्त सुधी न आहारक शरीरथी युक्त रडे छे, तयारमाद ते औदारिक शरीरने अवश्य ग्रहण करी ते

उद्वेग आहारगसरीरप्रयोगबंधे' हे गौतम । वीर्यसयोगसद्व्यतया, देहली दीपकन्यायात् 'स शब्दस्य वीर्यशब्देऽपि सम्बन्धेन सवीर्यतया, सयोगतया, सद्व्यतया, इत्यर्थं यावन् प्रमादप्रत्ययात् कर्म च, योगं च मत्र च, आयुष्यं च सर्वत्र च मतीत्य आहारकशरीरप्रयोगकरणलब्धिमाश्रित्येत्यर्थः आहारकशरीरप्रयोगान्नाः कर्मणः उद्वेगेन आहारशरीरप्रयोगबन्धो भवति, गौतम पृच्छति—' आहारगसरीरप्रयोगबन्धे ण मते! किं देसबन्धे, सम्बन्धे? हे मद्दन्त ! आहारकशरीरप्रयोगबन्धः खलु किं देशबन्धो भवति ? किं वा सर्वबन्धो भवति ? मगधानाह—' गोयमा । देसबन्धे वि, सन्धबन्धे वि ' हे गौतम ! आहारकशरीरप्रयोगबन्धो देशबन्धोऽपि भवति, अथ च सर्वबन्धोऽपि भवति, गौतम' पृच्छति—' आहारगसरीरप्रयोगबन्धे ण मते । काम्मभो केवच्चिरं होइ ? हे मद्दन्त ! आहारकशरीरप्रयोगबन्धः

आहारगसरीरप्रयोगणामाप कम्मस्स उद्वेगं आहारगसरीरप्रयोगबन्धे) वीर्यं से युक्त होने से, योगसहित होने से, सद्रव्यरूप होने से और प्रमादरूपकारणबाला होने से, अग्नि संपन्न संयत-छटे गुणस्थान वर्ती जीव के कर्म, भव, योग, आयुष्य एवं आहारक शरीरप्रयोगकरण लब्धि को लेकर उदित हुए आहारक शरीर नामकर्म के प्रभाव से आहारक शरीरप्रयोगबन्ध होता है ।

अथ गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(आहारगसरीरप्रयोगबन्धे ण मते ! किं देसबन्धे सम्बन्धे ?) हे मद्दन्त ! यह आहारक शरीरप्रयोगबन्ध क्या देशबन्धरूप होता है या सर्वबन्धरूप होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! देसबन्धे वि सन्धबन्धे वि) आहारक शरीरप्रयोगबन्ध देशबन्धरूप भी होता है और सर्वबन्धरूप भी होता है ।

सुद्ध देवाधी योगसद्धित देवाधी सद्रव्यरूप देवाधी, प्रमादरूप आरुणाणः मवाधी अद्विसंपन्न संयत-छटा शुद्धस्थानवर्ता एवना कर्म, भव योग, आयुष्य अने आहारकशरीरप्रयोगकरण लब्धिनी अपेक्षासे उद्वेग पायेला आहारकशरीरनाम कम्मना प्रभावधी आहारकशरीरप्रयोगबन्ध आय उ

जौनम स्वामीना प्रभु—' आहारगसरीरप्रयोगबन्धे ण मते ! किं देसबन्धे, सम्बन्धे ? ' हे मद्दन्त आहारकशरीरप्रयोगबन्ध देशबन्धरूप देव उ, हे सम्बन्धरूप देव उ ?

मदावीर प्रभुने उत्तर—' गोयमा ! देसबन्धे वि सन्धबन्धे वि ' हे गौतम ! आहारकशरीरप्रयोगबन्ध देशबन्धरूप पण देव उ अने सर्वबन्धरूप पण देव उ

अपगतार्द्धम् अर्द्धमात्रमित्यर्थः प्रागुक्तस्वरूपं पृष्ठलपरिवर्तनम् अपार्द्धमपि अर्द्धतः पूर्णं
मा भूदित्याह—देशोनम् इति भवतीतिशेषः, तथा च मनुष्याहारकशरीरं प्रतिपन्नस्त-
त्प्रथमसमये च सर्वबन्धकस्त्वतोऽन्तर्मुहूर्तमात्रं स्थित्वौदारिकशरीरं गतः तत्रापि अन्त-
र्मुहूर्तं स्थितः पुनरपि च तस्य प्राणिद्रव्यासंशयादि संशयान्तचतुष्टयम् आहारकशरीरक-
रणकारणमुत्पन्नं ततः पुनरप्याहारकशरीरं गृह्णाति तत्र च प्रथमसमये सर्वबन्धक एव,
एवं च सर्वबन्धान्तरमन्तर्मुहूर्तम् द्वयोरप्यन्तर्मुहूर्तयोरेकत्वविवक्षणात्, एवमुत्कृष्टेन
कालानन्त्यमुक्तमेव, एवं देशबन्धान्तरमपि जघन्येनान्तर्मुहूर्तमुत्कर्षेण पुनरपार्द्धं देशोनं

पिणी अनन्त अवसर्पिणी हो जाती हैं। क्षेत्र की अपेक्षा—अनन्तलोक
प्रमाण सर्वबंध का अन्तर होता है—इसमें कुछ कम अर्द्ध पृष्ठलपरावर्तन
हो जाता है। तथा च—मनुष्याहारक शरीर को प्रतिपन्न हुआ—जीव उस
के प्रथम समय में सर्वबंधक होता है—अन्तर्मुहूर्ततक उस आहारकशरीर
में रहकर फिर वह औदारिक शरीर को ग्रहण कर लेता है—वहाँ पर
भी वह अन्तर्मुहूर्त तक रहता है—इतने में यदि उसे पुनःसंशय आदि
को दूर करने का कारणभूत आहारकशरीर उत्पन्न हो जाता है—तो वह
उसे ग्रहण करता है—वहाँ वह प्रथम समय में उसका सर्वबंधक होता
है—इस तरह से अब के इस सर्वबंध में और पहिले के सर्वबंध में
अन्तर अन्तर्मुहूर्त का ही आता है—यहाँ दो अन्तर्मुहूर्तों को एक मानकर
एक अन्तर्मुहूर्त कह दिया गया है। उत्कृष्ट से अन्तर अनंतकाल का
होता है। देशबंध के अन्तर में भी ऐसा ही जानना चाहिये—अर्थात्

अने अनंत अवसर्पिणी व्यतीत थઈ नय छे. क्षेत्रनी अपेक्षाये सर्वबंधतुं
अन्तर लोकप्रमाणे डाय छे तेमा अर्ध करतां थोडुं न्यून पृष्ठल परावर्तन
थई नय छे. डवे आ कथनतुं स्पष्टीकरणे नीचे प्रमाणे छे—मनुष्याहारक
शरीर पावेले एव तेना प्रथम समयमा सर्वबंधक डाय छे, अन्तर्मुहूर्त
सुधी ते आहारक शरीरमां रहीने ते इरीथी औदारिक शरीरने धारण करी
ले छे, त्या पण ते अन्तर्मुहूर्त सुधी रहे छे—अटलां जे तेने संशय आदि
हर करवाना कारणभूत आहारक शरीरनी पुन. प्राप्ति थई नय, तो तेने
अडण करे छे त्यां ते प्रथम समयमां तेना सर्वबंधक थाय छे. आ पूर्वना
अने अत्यारना सर्वबंधनी वच्चे अेक अन्तर्मुहूर्ततुं ज अंतर पडी नय छे.
अर्धी जे अन्तर्मुहूर्तेनि अेक भानीने अेक अन्तर्मुहूर्त कही देवामां आण्युं
छे 'उत्कृष्टनी अपेक्षाये अनंतकाणतुं अंतर पडे छे. देशबंधना अन्तर विषे
पण अेज प्रमाणे समजतुं. अेडले के आहारक शरीरतुं देशबंधान्तर आठामां

अथाहारकशरीरप्रयोगस्यैवांतरं प्ररूपयितुमाह—‘आहारगशरीरप्रयोगवधतरं न मंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?’ गौतमः पृच्छति—हे भद्रन्त ! आहारगशरीरप्रयोगवधान्तरं खलु कालत्वं कालापेक्षया कियच्चिरं भवति ? भगवानाह—‘गोयमा ! सव्वधतरं जहण्णेण अतोमुहुत्थं, उक्कोसेण अणत्तं कालं भवताओ उस्सप्पिणी ओसप्पिणीओ कालओ, खेसओ अणत्ता लोगा, अत्तु पोग्गलपरियट्ठं देसूणं, एव देसवधतरं वि’ हे गौतम ! आहारकशरीरप्रयोगस्य सर्वधन्तरे जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं भवति, उस्सकृत्तेन तु सर्वधन्तरेण अनन्तं कालम्, अनन्ता उस्सर्पिण्यं वसर्पिण्यः कालतः कालापेक्षया, क्षेत्रतः क्षयापेक्षया तु अनन्ता लोकाः, अपादं

इसके बाद वह औदारिक शरीर का ग्रहण अवश्य कर लेता है। आहारक शरीर का अन्तर्मुहूर्त में प्रथम समय में सर्वध होता है और उत्तर समयों में देशध होता है।

अब सूत्रकार आहारकशरीरप्रयोगवध का अन्तर प्रकट करते हैं—इसमें गौतम ने प्रश्न से ऐसा पूछा है—(आहारगशरीरप्रयोगवधतरं न मंते ! कालओ केवच्चिरं होइ) हे भद्रन्त ! आहारगशरीरप्रयोगवध का अन्तरकाल की अपेक्षा से कथं काल का होता है ? उत्तर में प्रश्न करते हैं (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वधतरं जहण्णेण अतोमुहुत्थं, उक्कोसेण अणत्तं कालं अणत्ताओ उस्सप्पिणी ओसप्पिणीओ कालओ, खेसओ अणत्तालोगा अत्तु पोग्गलपरियट्ठं देसूणं—एव देसवधतरं वि) आहारक शरीर के सर्वध का अन्तर जघन्य से अन्तर्मुहूर्त का होता है और उस्सकृत् से अनन्तकाल का होता है—इस अनन्तकाल में अनन्त उस्स

उ आहारक शरीरना अन्तर्मुहूर्तना प्रथम समयमां सवध धाय उ जने उत्तर समयमां देशध धाय उ इवे सूत्रकार आहारक शरीर प्रयोगवधतु अन्तर प्रकट करे उ—आ विषयने अनुसङ्घिने गौतम स्वामी भद्रावीर प्रश्नने जेवे प्रश्न करे उ हे—

‘आहारगशरीरप्रयोगवधतरं न मंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?’ हे भद्रन्त ! आहारक शरीर प्रयोगवधतु अन्तरकालनी अपेक्षाले उट्ठुं धाय उ ? भद्रावीर प्रश्नने उत्तर—‘गोयमा ! हे गौतम ! (सव्वधतरं जहण्णेण अतोमुहुत्थं, उक्कोसेण अणत्तं कालं अणत्ताओ उस्सप्पिणी ओसप्पिणीओ कालओ, खेसओ अणत्तालोगा अत्तु पोग्गलपरियट्ठं देसूणं—एव देसवधतरं वि) आहारक शरीरना सवधधतु अन्तर लोकाभा लोका अन्तर्मुहूर्तं धाय उ—ते अनन्तकालमां अनन्त उस्सर्पिणी

अपगतार्द्धम् अर्द्धमात्रमित्यर्थः प्रागुक्तस्वरूपं पुद्गलपरिवर्तम् अपाद्धमपि अर्द्धतः पूर्णं मा भूदित्याह-देशोनम् इति भवतीतिशेषः, तथा च मनुष्याहारकशरीरं प्रतिपन्नस्तत्प्रथमसमये च सर्ववन्धकस्ततोऽन्तर्मुहूर्तमात्रं स्थित्वौदारिकशरीरं गतः तत्रापि अन्तर्मुहूर्तं स्थितः पुनरपि च तस्य प्राणिदयासंशयादि संशयान्तचतुष्टयम् आहारकशरीरकरणकारणमुत्पन्नं ततः पुनरप्याहारकशरीरं गृह्णाति तत्र च प्रथमसमये सर्ववन्धक एव, एवं च सर्ववन्धान्तरमन्तर्मुहूर्तम् द्वयोरप्यन्तर्मुहूर्तयोरैकत्वविदक्षणात्, एवमुत्कृष्टेन कालानन्त्यमुक्तमेव, एवं देशवन्धान्तरमपि जघन्येनान्तर्मुहूर्तमुत्कर्षेण पुनरपार्द्धं देशोनं

पिणी अनन्त अवसर्पिणी हो जाती हैं। क्षेत्र की अपेक्षा-अनन्तलोक प्रमाण सर्वबंध का अन्तर होता है-इसमें कुछ कम अर्द्ध पुद्गलपरावर्तन हो जाता है। तथा च-मनुष्याहारक शरीर को प्रतिपन्न हुआ-जीव उस के प्रथम समय में सर्वबंधक होता है-अन्तर्मुहूर्ततक उस आहारकशरीर में रहकर फिर वह औदारिक शरीर को ग्रहण कर लेता है-वहाँ पर भी वह अन्तर्मुहूर्त तक रहता है-इतने में यदि उसे पुनःसंशय आदि को दूर करने का कारणभूत आहारकशरीर उत्पन्न हो जाता है-तो वह उसे ग्रहण करता है-वहाँ वह प्रथम समय में उसका सर्वबंधक होता है-इस तरह से अव के इस सर्वबंध में और पहिले के सर्वबंध में अन्तर अन्तर्मुहूर्त का ही आता है-यहाँ दो अन्तर्मुहूर्तों को एक मानकर एक अन्तर्मुहूर्त कह दिया गया है। उत्कृष्ट से अन्तर अनन्तकाल का होता है। देशबंध के अन्तर में भी ऐसा ही जानना चाहिये-अर्थात्

अने अनन्त अवसर्पिणी व्यतीत थछ जय छे क्षेत्रनी अपेक्षाये सर्वबंधुं अन्तर लोकप्रमाणे डोय छे तेमा अर्थ करतां थोडुं न्यून पुद्गल परावर्तन थछ जय छे हवे आ कथनतु स्पष्टीकरण नीचे प्रमाणे छे-मनुष्याहारक शरीर पायेवे एव तेना प्रथम समयमा सर्वबंधक डोय छे, अन्तर्मुहूर्त सुधी ते आहारक शरीरमा रखीने ते इरीथी औदारिक शरीरने धारण करी ले छे, त्यां पणु ते अन्तर्मुहूर्त सुधी रहे छे-अटलाभां जे तेने संशय आदि हर करधाना प्रकारणभूत आहारक शरीरनी पुनः प्राप्ति थछ जय, तो तेने ग्रहण करे छे त्यां ते प्रथम समयमां तेना सर्वबंधक थय छे. आ पूर्वना अने अत्यारना सर्वबंधनी वच्ये जेक अन्तर्मुहूर्तुं ज अन्तर पडी जय छे. अर्द्धी जे अन्तर्मुहूर्तेनि जेक मानीने जेक अन्तर्मुहूर्त कही देवाभा आबुं छे 'उत्कृष्टनी अपेक्षाये अनन्तकालतु अन्तर पडे छे देशबंधना अन्तर विषे पणु जेक प्रमाणे समजुं जेटले के आहारक शरीरतु देशबंधान्तर जोधामां

पुद्गलपरिवर्तम् । अथाहारकशरीरदेशबन्धकादीनामल्पबहुत्वोदिक प्ररूपयति—‘एपसि
ण मंते ! जीवाण आहारगसरीरस्स देसबधगाण, सब्बवधगाण, अबधगाणय कपरे
कपरेहितो जाव विसेसाहिया ?’ हे मद्दन्त ! एतेपां खल्ल जीवानाम् आहारक-
शरीरस्य देशबन्धकानां, सर्वबन्धकानाम्, अबधकाना च कतरे कतरेऽपो यावत्-
अवपा वा, बहुका वा, तुयवा वा, विज्ञेपाधिका वा भवन्ति ? मगधानाह-
‘ गोयमा ! सच्चत्थोवा जीवा आहारगसरीरस्स सब्बवधगा, देसबधगा सखेज्ज
गुणा, अबधगा अणत्तगुणा ’ हे गौतम ! सर्वस्वोका जीवाः आहारकशरीरस्य सर्व-

आहारकशरीर का देशबधान्तर जघन्य से एक अन्तर्मुद्गत का होता है
और वस्कृष्ट से कुछ कम अर्द्ध पुद्गलपरावर्तनरूप होता है ॥

अप सूत्रकार आहारक शरीरमें, देशबधकों में, सर्वबधकों में और
अबधकों में अल्पबहुत्व का प्रतिपादन करते हैं—इसमें गौतम ने प्रश्न से
पेसा पूछा है (एपसि ण मंते । जीवाण आहारगसरीरस्स देशबधगाण
सब्बवधगाण अबधगाण य कपरे कपरेहितो जाव विसेसाहिया) हे
मद्दन्त ! इन आहारक शरीर के देशबधकों में, सर्वबधकों में, और
अबधकों में से कौन से जीव किन जीवों की अपेक्षा अल्प हैं ? कौन
जीव किन जीवों की अपेक्षा बहुत हैं ? कौन जीव किन जीवों के परा-
पर हैं ? और कौन जीव किन जीवों से विशेष अधिक हैं ? इसके
उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (सच्चत्थोवा जीवा,
आहारग सरीरस्स सब्बवधगा, देसबधगा सखेज्जगुणा, अबधगा अण

आद्य अने अन्तर्मुद्गतं अने वधारेभां वधारे अध पुद्गल परावर्तन कर्ता
यादु यून केय छे हवे सूत्रकार आहारक शरीरना देशबधके, सर्वबधके
अने अबधकेभांशी क्या लवेो क्या लवेो कर्ता अल्प छे ? क्या लवेो क्या लवेो
कर्ता अधिक छे ? क्या लवेो क्या लवेोनी जराअर छे ? क्या लवेो क्या
लवेो कर्ता विशेषधिक छे ?

गौतम स्वामीने प्रश्न—“ ए प सि ण मंते ! जीवाण आहारगसरी-
रस्स देसबधगाण, सब्बवधगाण, अबधगाण य कपरे कपरे हितो जाव विसे-
साहिया ? ” हे मद्दन्त ! आ आहारक शरीरना देशबधके, सर्वबधके अने
अबधकेभांशी क्या लवेो क्या लवेो कर्ता अल्प छे ? क्या लवेो क्या लवेो
कर्ता अधिक छे ? क्या लवेो क्या लवेोनी जराअर छे ? क्या लवेो क्या
लवेो कर्ता विशेषधिक छे ?

मद्दन्तीर प्रश्नो उत्तर— गोयमा ! ” हे गौतम ! (सच्चत्थोवा जीवा
आहारग सरीरस्स सब्बवधगा, देसबधगा सखेज्जगुणा अबधगा अणत्तगुणा ”

वन्धकाः, देशवन्धकाः संख्येयगुणाः, अवन्धकाः अनन्तगुणाः भवन्ति । तथा च सर्वस्तोकाः आहारकस्य शरीरस्य सर्ववन्धका भवन्ति, तत्सर्ववन्धकालस्य सर्वालपत्वात्, देशवन्धकास्तु आहारकशरीरस्य संख्यातगुणा भवन्ति तद्देशवन्धकालस्य बहुत्वात्, असंख्यातगुणास्तु न ते भवन्ति, मनुष्याणामेव संख्यातत्वेन तद्विशेषाहारकशरीरदेशवन्धकानामसंख्यातत्वासम्भवात्, अवन्धकास्तु अनन्तगुणा भवन्ति, आहारकशरीरं हि मनुष्याणामेव, तत्रापि संयतानां, तेषामपि केषाचिदेव कदाचिदेव च भवतीति, शेषकाले ते शेषजीवाश्चावन्धकाः भवन्ति, ततश्च मिद्धवनस्पत्यादीनामनन्तगुणत्वात् अनन्तगुणास्ते भवन्तीति भाव ॥ सू० ७ ॥

तगुणा) सब से कम जीव आहारकशरीर के सर्वबंधक जीव इनसे संख्यातगुणों हैं । और अवंधक जीव इनसे अनन्तगुणों हैं । आहारकशरीर के सर्वबंधक जीव सब से कम हैं इसका कारण यह है कि आहारकशरीर के सर्वबंधक का काल सबसे कम है । देशबंधक जीव संख्यातगुणों हैं सो इसका कारण यह है कि देशबंधक का काल बहुत है । असंख्यातगुणों देशबंधक इसलिये नहीं हैं कि मनुष्यराशि संख्यातगुणी ही है । इसलिये तद्विशेषाहारकशरीर के देशबंधक भी संख्यातगुणों ही हैं—असंख्यातगुणों नहीं । तथा आहारकशरीरके अवंधक जीव अनन्तगुणों होते हैं ऐसा जो कहा गया है वह सिद्ध और वनस्पति आदि जीवोंकी अपेक्षा लेकर कहा गया है । यह आहारकशरीर मनुष्यों के ही होता है । इनमें भी जो मनुष्य संयत होते हैं उनके यह होता है । उनमें भी किन्हीं २ के कभी २ होता है । शेष कालमें वे शेष जीव अवंधक होते हैं ॥ सू० ७ ॥

आहारक शरीरना सर्वबंधक लुवे सौथी ओछां छे ? देशबंधक लुवे तेमना करतां संख्यातगुणां छे, अने अबंधक लुवे देशबंधके करतां अनन्तगुणां छे आहारक शरीरना सर्वबंधक लुवे सौथी ओछां डोवानु कारण् ओ छे डे आहारक शरीरना सर्वबंधको काण सौथी ओछे छे देशबंधको काण धरु डोवाने कारण् देशबंधको संख्यातगुणां छे असंख्यातगुणां ओ कारण् नथी डे मनुष्यराशि संख्यातगुणी न छे तथी आहारक शरीरना देशबंधक लुवे पणु संख्यातगुणां न छे—असंख्यातगुणां नथी आहारक शरीरना अबंधक लुवे देशबंधको करतां अनन्तगुणां कडेवानु कारण् नीचे प्रमाणे छे—सिद्ध, वनस्पतिकाय आदि लुवे आहारक शरीरना अबंधको डोय छे. आहारक शरीरना सद्भाव डेवण मनुष्येमा न डोय छे. अटलु न नही पणु पधां मनुष्येमा तेनो सद्भाव डोते नथी संयत मनुष्येमा न तेनो सद्भाव डोय छे तेओमां पणु कोछ कोछिमा क्यारिक क्यारिक न तेनो सद्भाव डोय छे. शेषकाणमा शेष लुवे अबंधक न डोय छे. ॥ सू० ७ ॥

तैजसशरीरप्रयोगस्य धनक्तपथा ।

अथ तैजसशरीरप्रयोगस्य धनक्तपथपर्यायपठम्—

मूलम्—तेयासरीरप्रयोगस्य धनक्तपथे ण भते ! कइविहे पणत्ते ?
 गोयमा ! पचविहे पणत्ते, त जहा—एगिंदियतेयासरीरप्रयोग
 स्यधे, वेइदियतेयासरीरप्रयोगस्यधे, तेइदियतेयासरीरप्रयोगस्यधे,
 चउरिंदियतेयासरीरप्रयोगस्यधे, पचिदिंदियतेयासरीरप्रयोगस्यधे,
 एगिंदियतेयासरीरप्रयोगस्यधे ण भते ! कइविहे पणत्ते ? एव
 एएण अभिलावेण भेदो जहा ओगाहणसठाणे जावपजत्तसव्वह
 सिद्धअणुत्तरोववाइयकप्पाईयवेमाणियइवपचिदियतेयासरीरप्र
 योगस्यधे य, अपजत्तसव्वहसिद्धअणुत्तरोववाइयजावयधे य,
 तेयासरीरप्रयोगस्यधे णं भते ! कस्तं कम्मस्स उद
 एण ? गोयमा ! वीरियसजोगसइवयाए जाव आउयं च
 पइच्च तेयासरीरप्रयोगनामाए कम्मस्स उदएणं तेयासरी
 रप्रयोगस्यधे । तेयासरीरप्रयोगस्यधे णं भते ! किं देसवधे सव्व
 स्यधे ? गोयमा ! देसवधे, नो सव्ववधे, तेयासरीरप्रयोगस्यधे णं
 भते ! कालओ केवच्चिर होइ ? गोयमा ! दुविहे पणत्ते, त
 जहा—अणाइए वा अपज्जवसिय, अणाइए वा सपज्जवसिय । तेया
 सरीरप्रयोगस्यधत्तर णं भते कालओ केवच्चिर होइ ? गोयमा !
 अणाइयस्स अपज्जवसियस्स नत्थि अत्तर, अणाइयस्स सपज्जव
 सियस्स नत्थि अत्तर । एएसि ण भते । जीवाण तेयासरीरस्स
 दसबंधगाणं, अयधगाण य कयरे कयरेहिंसो जाय विसेसाहिया

वा ? गोयमा ! सव्वत्थो वा जीवा तेयासरीरस्स अबंधगा,
देसबंधगा अणंतगुणा ॥ सू० ८ ॥

छाया—तैजसशरीरप्रयोगबन्धः खलु भदन्त ! कतिविधः प्रज्ञप्तः ? गौतम !
पञ्चविधः प्रज्ञप्तः, तद्यथा—एकेन्द्रियतैजसशरीरप्रयोगबन्धः, द्वीन्द्रियतैजसशरीर
प्रयोगबन्धः, त्रीन्द्रियतैजसशरीरप्रयोगबन्धः, चतुरिन्द्रियतैजसशरीरप्रयोगबन्धः,
पञ्चेन्द्रियतैजसशरीरप्रयोगबन्धः एकेन्द्रियतैजसशरीरप्रयोगबन्धः खलु भदन्त !
कतिविधः प्रज्ञप्तः? एवम् एतेन अभिलापेन भेदो यथा अवगाहनसंस्थाने यावत्

॥ तैजसशरीरप्रयोगबन्धवत्कृतव्यता ॥

‘तेयासरीरप्पओगवधे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते) इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(तेयासरीरप्पओगवधे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते) हे
भदन्त ! तैजसशरीरप्रयोगबन्ध कितने प्रकारका कहा गया है ? (गोयमा)
! गौतम ! पंचविहे पण्णत्ते) तैजसशरीरप्रयोगबन्ध पांच प्रकार का कहा
गया है । (तं जहा) जो इस प्रकारसे है—(एगिंदिय तेयासरीरप्पओग-
वधे, वेइंदियतेयासरीरप्पओगवधे, तेइंदिय तेयासरीरप्पओगवधे जाव
पचिंदिय तेयासरीरप्पओगवधे) एकेन्द्रिय तैजसशरीरप्रयोगबन्ध,
द्वीन्द्रिय तैजसशरीरप्रयोगबन्ध, तेइन्द्रिय तैजसशरीरप्रयोगबन्ध यावत्
त्रीन्द्रिय तैजसशरीरप्रयोगबन्ध—(एगिंदियतेयासरीरप्पओगवधे णं
भंते ! कइविहे पण्णत्ते) हे भदन्त ! एकेन्द्रिय तैजसशरीरप्रयोगबन्ध कितने
प्रकारका कहा गया है ? (एवं एएणं अभिलावेणं भेदो जहा ओगाहणसं-

तैजसशरीरप्रयोगबन्धवत्कृतव्यता—

“तेयासरीरप्पओगवधे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ? ” इत्यादि—

सूत्रार्थ—(तेयासरीरप्पओगवधे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते) हे
भदन्त ! तैजस शरीरप्रयोगबन्ध केटला प्रकारको कइयो छे ! (गोयमा—पंच-
विहे पण्णत्ते तंजहा) हे गौतम ! तैजस शरीर प्रयोगबन्धना नीचे प्रमाणे
पांच प्रकार कइया छे—(एगिंदिय तेयासरीरप्पओगवधे, वेइंदिय तेयासरीर-
प्पओगवधे, तेइंदिय तेयासरीरप्पओग वधे, जाव पचिंदिय तेयासरीरप्पओग-
वधे) (१) एकेन्द्रिय तैजस शरीर प्रयोग बन्ध, (२) द्वीन्द्रिय तैजस शरीर
प्रयोग बन्ध, (३) त्रीन्द्रिय तैजस शरीर प्रयोग बन्ध, (४) चतुरिन्द्रिय तैजस
शरीर प्रयोग बन्ध अने (५) पञ्चेन्द्रिय तैजस शरीर प्रयोग बन्ध

(एगिंदिय तेयासरीरप्पओगवधे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ?) हे
भदन्त ! एकेन्द्रिय तैजस शरीर प्रयोग बन्ध केटला प्रकारको कइयो छे १

पर्याप्तकसर्वार्थसिद्धानुत्तरोपपातिककल्पातीतक - वैमानिकवेद्यपञ्चेन्द्रियतैजसशरीर
प्रयोगबन्ध, अपर्याप्तकसर्वार्थसिद्धानुत्तरोपपातिक-यानत् षष्ठ, तैजसशरीर
प्रयोगबन्धः खलु भवन्त ! कस्य कर्मण उदयेन ? गौतम ! वीर्यसयोगस-
हृद्यतया यावत् आयुष्यश्च प्रतीत्य तैजसशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मण उदयेन

ठाणे जाव पञ्जससख्यद्वसिद्ध अणुसरोबवाइयकप्पाईय वेमाणिय देवपणि
दिय तेया सरीरप्पओगबन्धे य, अपञ्जससख्यद्वसिद्ध अणुसरोबवाइय जाव
बन्धे य) इस तरह इस अभिलाष जैसा अथगाहना संस्थान में भेद कहा
गया है उसी तरह से यहां पर भी कहना चाहिये । यावत् पर्याप्त सर्वार्थ
सिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत वैमानिक वेद्य पञ्चेन्द्रिय तैजस शरीर
प्रयोगबन्ध और अपर्याप्त सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तरोपपातिक यावत् तैजस
शरीरप्रयोग बन्ध तक । (तेयासरीरप्पओगबन्धे ण भन्ते ! कस्स कम्मस्स
उदण) हे भवन्त ! तैजस शरीरप्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता
है ? (गोयमा) हे गौतम ! (वीरियसजोगसहृद्ययाए जाव आउयं च
पडुक्ख तेयासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदणं तेयासरीरप्पओग
बन्धे) सवीर्यता, मयोगता, और सद्रूप्यता से यावत् आयुष्य के आभय
से और तैजसशरीरप्रयोग नामकर्म के उदय से तैजस शरीरप्रयोगबन्ध
होता है । (तेयासरीरप्पओगबन्धे ण भन्ते । किं वेसबन्धे सख्यबन्धे) हे भव

(एवं एवञ्च अभिष्टावेण भेदो ब्रह्म भोगाहणसंठाणे जाव पञ्जससख्यद्वसिद्ध अणुस-
रोबवाइयकप्पाईयवेमाणिय देवपणि दिय तेया सरीरप्पओगबन्धे य, अपञ्जस सख्य
द्वसिद्धअणुसरोबवाइय जाव बन्धे य) आ शीते आ अभिष्टाप द्वारा प्रज्ञानाना
अवगाहना संस्थान परमां ने ने सेदो कहेवामां आ०या छे, ते ते सेदोउ
कथन अर्थां पणु कर्खु लेउल्ले-“ पर्याप्त सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत
वैमानिक वेद्य पञ्चेन्द्रिय तैजस शरीर प्रयोग बन्ध अने अपर्याप्त सर्वार्थसिद्ध
अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत वैमानिक वेद्य पञ्चेन्द्रिय तैजस शरीर प्रयोग बन्ध, ”
अर्थां सुपीतु समस्त कथन अदणु कर्खु लेउल्ले (तेयासरीरप्पओगबन्धे ण
भन्ते ! कस्स कम्मस उदणं ?) हे भवन्त ! तैजस शरीर प्रयोग बन्ध कथा
कथना उदयधी काय छे ? ‘ गोयमा ! ’ हे गौतम ! (वीरिय सजोग सर
हृद्ययाए जाव आउयं च पडुक्ख तेयासरीरप्पओग नामाए कम्मस उदणं तेया
सरीरप्पओगबन्धे) सवीर्यता, मयोगता अने सद्रूप्यताधी, अने आयुष्य
पर्वन्तना पूर्वोक्त आरोग्याने तीये तथा तैजस शरीर प्रयोग नाम कर्मात्ता
उदयधी तैजस शरीर प्रयोगबन्ध काय छे

तैजसशरीरप्रयोगवन्धः, तैजसशरीरप्रयोगवन्धः खलु भदन्त ! किं देशवन्धः, सर्ववन्धः ? गौतम ! देशवन्धः, नो सर्ववन्धः । तैजसशरीरप्रयोगवन्धः खलु भदन्त ! कालतः कियच्चिरं भवति ? गौतम ! द्विविधः प्रज्ञप्तः, तद्यथा-अनादिको वा अपर्यवसितः, अनादिको वा सपर्यवसितः, तैजसशरीरप्रयोगवन्धान्तरं खलु भदन्त ! कालतः कियच्चिरं भवति ? गौतम ! अनादिकस्य अपर्यवसितस्य नास्ति अनन्तरम्, अनादिकस्य सपर्यवसितस्य नास्ति अन्तरम्, एतेषां खलु भदन्त ! जीवानां

न्त ! तैजस शरीरप्रयोगवन्ध देशवन्धरूप है या सर्ववन्धरूप है ? (गोयमा) हे गौतम ! (देशवन्धे, नो सर्ववन्धे) तैजस शरीरप्रयोगवन्ध देशवन्धरूप है सर्ववन्धरूप नहीं है। (तेयासरीरप्पओगवन्धे ण भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ! तैजसशरीरप्रयोग वन्ध काल की अपेक्षा से कबतक रहता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (दुविहे पणत्ते) तैजस शरीरप्रयोगवन्ध दो प्रकार का कहा गया है। (तं जहा) जो इस प्रकार से है—(अणाइए वा अपज्जवसिए, अणाइए वा सपज्जवसिए) अनादि अपर्यवसित और अनादि सपर्यवसित (तेयासरीरप्पओगवन्धन्तरं ण भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ) है भदन्त ! तैजस शरीर प्रयोगवन्ध का अन्तर काल की अपेक्षा कितना होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (अणाइयस्स अपज्जवसियस्स नत्थि अन्तरं, अणाइयस्स सपज्जवसियस्स नत्थि अन्तरं) अनादि अपर्यवसित एवं अनादि सपर्यवसित इन दोनों प्रकार के तैजस शरीरप्रयोगवन्ध का अन्तर नहीं है। (एएसिं ण भन्ते ! जीवाणं

(तेया सरीरप्पओग वन्धे ण भंते ! किं देशवन्धे, सर्ववन्धे ?) हे भदन्त ! तैजस शरीर प्रयोगवन्ध शु देशवन्धरूप होय छे, के सर्ववन्धरूप होय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (देशवन्धे नो सर्ववन्धे) तैजस शरीर प्रयोग वन्ध देशवन्धरूप होय छे, सर्ववन्धरूप होतो नथी। (तेयासरीरप्पओगवन्धे ण भन्ते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?) हे भदन्त ! तैजस शरीर प्रयोग वन्ध काणनी अपेक्षाओ कयां सुधी रहो छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (दुविहे पणत्ते-तजहा) काणनी अपेक्षाओ तैजस शरीरप्रयोगवन्धना नीओ प्रभाओ ओ प्रकार कक्षा छे—अणाइए वा अपज्जवसिए, अणाइए वा सपज्जवसिए) (१) अनादि अपर्यवसित, (२) अनादि सपर्यवसित। (तेयासरीरप्पओगवन्धन्तरं ण भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?) हे भदन्त ! तैजस शरीर प्रयोगवन्धनुं अन्तर काणनी अपेक्षाओ केटलु होय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (अणाइयस्स अपज्जवसियस्स नत्थि अन्तरं, अणाइयस्स सपज्जवसियस्स नत्थि अन्तरं) अनादि अपर्यवसित अने अनादि सपर्यवसित, आ ओ प्रकारना तैजस शरीर प्रयोगवन्ध

तैजसशरीरस्य देशबन्धकानाम् अबन्धकानां च कतरे कतरेभ्यो यावत् विशेषाधिकं वा ? गौतम ! सर्वभूतोका जीवाः तैजसशरीरस्य अबन्धकाः, देशबन्धका अनन्तगुणाः ॥ सू० ८ ॥

टीका—' तेषांशरीरप्रयोगबंधे ण भंते ! क्वचिद्दे पण्यसे ? ' गौतमः पृच्छति— हे भदन्त ! तैजसशरीरप्रयोगबंधः स्वच्छ कतिविध प्रज्ञप्तः ? भगवानाह—' गोपमा ! पञ्चविधे पण्यसे ' हे गौतम ! तैजसशरीरप्रयोगबंधः पञ्चविधः प्रज्ञप्तः, ' त जहा-एगिदियतेयासरीरप्रयोगबंधे ' तथा—एकेन्द्रिय तैजसशरीरप्रयोगबंधः, ' वंदि

तेयासरीरस्स देसप घगाण अब घगाण य कयरे कयरेहिंतो जाव विसे साहिया धा) हे भदन्त ! इन तैजस शरीर के देशबन्धको और अबन्धको में से कौन जीव किनकी अपेक्षा से यावत् विशेषाधिक है ? (गोपमा) हे गौतम ! (सब्बत्थोवा जीवा अब घगा देसप घगा अणतगुणा) तैजस शरीर के अबन्धक जीव सब से कम हैं। इनकी अपेक्षा देशबन्धक जीव अनन्तगुणों हैं।

टीकार्थ—सूत्रकार ने तैजस शरीरप्रयोग बंध को लेकर यहा पर उसकी प्ररूपणा की है—इसमें गौतम ने प्रश्न से ऐसा पूछा है—(तेषांशरीरप्रयोगबंधे ण भंते ! क्वचिद्दे पण्यसे) हे भदन्त ! तैजस शरीर प्रयोगबंध कितने प्रकार का कहा गया है ? कतरे में प्रश्न कहते हैं—(गोपमा) हे गौतम ! (पञ्चविधे पण्यसे) तैजस शरीर प्रयोगबंध पांच प्रकार का कहा गया है—(त जहा) जो इस प्रकार से है—(एगिदिय

अभंनुं अतर उोतुं नथी (एगिं न भंते । जीवाण तेषांशरीरस्स देसप घगाण अब घगाण य कयरे कयरेहिंतो जाव विसेसाहिया ? हे भदन्त ! ये तैजस शरीरना देशबन्धको अने अबन्धकोभांधी केलु काना कर्ता अरुपे ? (यावत्) केलु काना कर्ता विशेषाधिके ? (गोपमा !) हे गौतम ! (सब्बत्थोवा जीवा तेषांशरीरस्स अब घगा अणतगुणा) तैजस शरीरना अबन्धक एवे सोथी ओठां ? अबन्धको कर्ता देशबन्धको अनन्तगुणा ?

टीकार्थ—त्रैकिं तथा आहारक शरीरप्रयोगबन्धनी प्ररूपणा करीने के सूत्रकार नीधेना प्रश्नोत्तरे द्वारा तैजस शरीर प्रयोगबन्धनी प्ररूपणा करे के आ विषयने अनुसखीने गौतम स्वामी भद्रावीर प्रश्नने केवे प्रश्न पूछे के (तेषांशरीरप्रयोगबंधे ण भंते ! क्वचिद्दे पण्यसे ?) हे भदन्त ! तैजस शरीर प्रयोगबन्ध केटका प्रकारने कयो ?

तेने उतर आपत्ता भद्रावीर प्रश्न करे के के (गोपमा ! पञ्चविधे पण्यसे) हे गौतम ! तैजस शरीर प्रयोगबन्धना पांच प्रकार कया ? तजहा " ते

यतेयासरीरप्पओगबन्धे' द्विन्द्रियतैजसशरीरप्रयोगबन्धः, 'तेइंदियतेयासरीरप्पओग-
बन्धे' त्रीन्द्रियतैजसशरीरप्रयोगबन्धः, 'चउरिंदियतेयासरीरप्पओगबन्धे चतुरिन्द्रिय-
तैजसशरीरप्रयोगबन्धः, पंचिंदियतेयासरीरप्पओगबन्धे ' पञ्चेन्द्रियतैजसशरीर-
प्रयोगबन्धश्च, गौतमः पृच्छति—' एगिंदियतेयासरीरप्पओगबन्धे णं भंते ! कइविहे
पणत्ते ? ' हे भदन्त ! एकेन्द्रियतैजसशरीरप्रयोगबन्धः खलु कतिविधः प्रज्ञप्तः ?
भगवानाह—' एवं एएणं अभिलावेणं भेदो जहा ओगाहणसंठाणे जाव' हे गौतम !
एवम् उक्तीत्या एतेन उपर्युक्तेन एकेन्द्रियतैजसशरीरप्रयोगबन्धविषयकेण अभि-
लापेन आलापक्रमानुसारेण भेदश्चतुर्विंशतिदण्डकव्यपदेश्यो यथा अवगाहनसंस्थाने

तेया सरीरप्पओगबन्धे) एकेन्द्रिय तैजसशरीरप्रयोगबन्ध (वेइंदिया
तेया सरीरप्पओगबन्धे) दो इन्द्रिय तैजस शरीर प्रयोगबन्ध (तेइंदिय
तेयासरीरप्पओगबन्धे) ते इन्द्रिय तैजस शरीरप्रयोगबन्ध, (जाव पंचे-
दिय तेयासरीरप्पओगबन्धे) यावत्—चौ इन्द्रिय तैजस शरीरप्रयोगबन्ध
और पंचेन्द्रिय तैजस शरीरप्रयोगबन्ध,

अत्र गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(एगिंदिय तेया सरीर-
प्पओगबन्धे णं भंते ! कइविहे पणत्ते) हे भदन्त ! एकेन्द्रिय तैजस
शरीरप्रयोगबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? इसके उत्तर में प्रभु
कहते हैं—(एवं एएणं अभिलावेणं भेदो जहा ओगाहणसंठाणे जाव)
हे गौतम ! उक्तीति के अनुसार उपर्युक्त एकेन्द्रिय तैजस शरीरप्रयोग
विषयक आलापक्रम से चतुर्विंशतिदण्डक व्यपदेश्य—भेद प्रज्ञापना के

प्रकारे नीचे प्रमाणे छे—(एगिंदिय तेयासरीरप्पओगबन्धे) एकेन्द्रिय तैजस
शरीर प्रयोगबन्ध, (वेइंदिय तेया सरीरप्पओगबन्धे) द्वीन्द्रिय तैजस शरीर
प्रयोगबन्ध, (तेइंदिय तेया सरीरप्पओगबन्धे) त्रेन्द्रिय तैजस शरीर प्रयोग
बन्ध, (जाव पंचिंदिय तेया सरीरप्पओगबन्धे) चतुरिन्द्रिय तैजस शरीर
प्रयोगबन्ध अने पंचेन्द्रिय तैजस शरीर प्रयोगबन्ध

गौतमस्वामीना प्रश्न—(एगिंदिय तेया सरीरप्पओगबन्धे ण भंते ! कइविहे
पणत्ते ?) हे भदन्त ! एकेन्द्रिय तैजसशरीर प्रयोगबन्धना केटला प्रकार कहा छे ?

भडावीर प्रभुना उत्तर—(एवं एएणं अभिलावेणं भेदो जहा ओगा-
हणसंठाणे जाव) हे गौतम ! प्रज्ञापना सूत्रना अवगाहना संस्थान नामना
२१ मां पदमा उपर्युक्त एकेन्द्रिय तैजस शरीर प्रयोग विषयक आलापक
कमथी २४ दंडक व्यपदेश्य लेक भताववामां—आव्या छे, ने नीचे प्रमाणे छे

महापनाया एकविंशतितमे पदे यावत् पृथिवीकायिकाऽप्रकायिक-तैजसकायिक-वायुकायिक-वनस्पतिकायिक-रूपैकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रिय-तिर्यग्योनिकमनुष्य-नैरयिक-मघनपति-धानव्यन्तर-उद्योतिषिक-वैमानिक-नवश्रैवेयक पर्याप्तकार्याप्तकद्वेषपञ्चेन्द्रिय तैजसशरीरप्रयोगबन्ध 'पञ्चसत्सङ्घट्टसिद्ध अणुसरोषवाह्यकृष्पाईय-वेमाणियदेवपविन्दियतेयासरीररूपभोगबधे य' पर्याप्तकसर्वायसिद्धानुत्तरीपपालिक कल्पातीतक-वैमानिकद्वेषपञ्चेन्द्रिय तैजसशरीरप्रयोगबन्धम अपञ्चसत्सङ्घट्टसिद्ध-अणुसरोषवाह्यजारबधे य' अपर्याप्तकसर्वायसिद्धानुत्तरीपपालिक-यावत्-कल्पातीतक-वैमानिकद्वेषपञ्चेन्द्रियतैजसशरीरप्रयोगबन्धप्रतिपादिनस्तयैशाभापि प्रतिपत्तव्य इतिमाव, गौतम पृच्छति-'तेयासरीररूपभोगबधे य भंते ! कस्त कम्मस्त उदण ?' हे मद्दन्त ! तैजसशरीरप्रयोगबन्ध

२१ धे पद में यावत् 'पृथिवीकायिक, अप्रकायिक तैजसकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिकरूप एकेन्द्रिय तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्य, मनुष्य, नैरयिक, मघनपति, धानव्यन्तर, उद्योतिषिक, वैमानिक, नवश्रैवेयक, पर्याप्त, अपर्याप्त द्वेष पञ्चेन्द्रिय इनका तैजस शरीरप्रयोगबध (पञ्चसत् सङ्घट्टसिद्ध अणुसरोषवाह्यकृष्पाईय वेमाणिय देवपविन्दिय तेयासरीररूपभोगबधे य) पर्याप्तक सर्वायसिद्ध अनुत्तरीपपालिक कल्पातीतक वैमानिक द्वेष पञ्चेन्द्रिय इनका तैजस शरीरप्रयोगबध (अपञ्चसत्सङ्घट्टसिद्ध अणुसरोषवाह्य कृष्पाईय पधे) तथा अपर्याप्तक सर्वायसिद्ध अनुत्तरीपपालिक कल्पातीत वैमानिक द्वेष पञ्चेन्द्रिय इनका तैजस शरीरप्रयोगबध" जिस प्रकार से यहाँ तक प्रतिपादित किया गया है उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझना चाहिये।

'पृथ्वीकायिक अप्रकायिक तैजसकायिक, वायुकायिक अने वनस्पतिकायिक इष पञ्चेन्द्रिय तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्य, मनुष्य, नैरयिक, मघनपति, धानव्यन्तर उद्योतिषिक, वैमानिक, नवश्रैवेयक, पर्याप्त, अपर्याप्त देवपञ्चेन्द्रिय, अथ एवेनो तैजस शरीर प्रयोगबध, (पञ्चसत् सङ्घट्टसिद्धअणुसरोषवाह्य कृष्पाईय वेमाणियदेवपविन्दिय तेया सरीररूपभोगबधे य)पर्याप्तक, सर्वायसिद्ध अनुत्तरीपपालिक कल्पातीत वैमानिक देवपञ्चेन्द्रियतैजस शरीररूप प्रयोगबध, तथा (अपञ्चसत् सङ्घट्टसिद्ध अणुसरोषवाह्य जार बधे) अपर्याप्तक सर्वायसिद्ध अनुत्तरीपपालिक कल्पातीत वैमानिक देवपञ्चेन्द्रियतैजसशरीररूप प्रयोगबध" महापनाया अपत्राचन सस्थान पदभां या प्रभावे ने प्रतिपादन कर्वाभां आणु ७, अथ प्रकारं प्रतिपादन अर्थां पनु इरु अथजे

खलु कस्य कर्मणाः उदयेन भवति ? अगवानाह—‘गोयमा ! वीरियसजोगसद्व्ययाण-
जाव आउयं च पडुच्च तेनासरीरपओगनामाण कम्मस्स उदणण तेयासरीरपओग-
बंधे’-हे गौतम ! वीरियसजोग सद्व्ययतया सवीर्यतया, सयोगतया सद्व्ययतया चेत्यर्थः
यावत्-प्रमादप्रत्ययात्, कर्म च, योगं च, भव च, आयुष्यं च पतीन्य-आश्रिन्य,
एतेषामपेक्षयेत्यर्थः तैजसशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मण उदयेन तैजसशरीरप्रयोगसन्धो
भवति । गौतमः पृच्छति—‘तेयासरीरपओगबंधे णं भंते ! किं देसबंधे, सन्धबंधे ?’
हे भदन्त ! तैजसशरीरप्रयोगसन्धः खलु किं देशवन्धस्वरूपो भवति ? किं वा
सर्वबंधस्वरूपो भवति ? अगवानाह—‘गोयमा ! देसबंधे, नो सन्धबंधे’ हे गौतम !

अथ गौतम प्रभुसे ऐसा पूछते हैं—(तेया सरीरपओगबंधे णं भंते !
कस्स कम्मस्स उदणणं) हे भदन्त ! तैजस शरीरप्रयोगबंध किस कर्म
के उदय से होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (वीरियसजोग सद्व्ययाण
जाव आउयं च पडुच्च तेयासरीरपओग नामाण कम्मस्स उदणणं तेया
सरीरपओगबंधे) सवीर्यता, सयोगता, सद्व्ययता इनसे प्रमादरूप
कारण से, कर्म, योग, भव और आयु इनकी अपेक्षा से और तैजस
शरीर नामकर्म के उदय से यह तैजस शरीरप्रयोगबंध होता है ।

अथ गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(तेयासरीरपओगबंधे णं भंते !
किं देसबंधे, सन्धबंधे) हे भदन्त ! तैजसशरीरप्रयोगबंध क्या देशबंध
रूप है या सर्वबंध रूप है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम !
तैजसशरीरप्रयोगबंध (देसबंधे) देशबंधरूप है (नो सन्धबंधे) सर्वबंध

इवे गौतम स्वाग्नी महावीर प्रभुने ओवो प्रश्न पूछे छे के—(तेयासरी-
पओगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदणणं ?) हे भदन्त ! तैजस शरी-
रप्रयोग बंध क्या कर्मना उदयथी थाय छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (वीरिय सजोग-
सद्व्ययाण जाव आउयं च पडुच्च तेया सरीरपओग नामाण कम्मस्स उदणणं) तेया
सरीरपओगबंधे) सवीर्यताथी, सयोगताथी, सद्व्ययताथी, प्रमाद अपेक्षाथी,
कर्म, योग, भव अने आयुष्यनी अपेक्षाअने अने तैजस शरीर कर्मना
उदयथी आ तैजस शरीर प्रयोगबंध थाय छे

गौतम स्वामीने प्रश्न—(तेया सरीरपओगबंधे णं भंते ! किं देसबंधे,
सन्धबंधे) हे भदन्त ! तैजस शरीर प्रयोगबंध क्या देशबंध
सर्वबंधरूप थाय छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (वीरिय सरीर-
पओगबंधे) देशबंधरूप थाय छे, “ नो सन्धबंधे ” सर्वबंध

तैजसशरीरप्रयोगवन्न खलु देशवन्ध एव भवति, नो सर्ववधो भवति, तैजसशरीरस्य अनादित्वात् न सर्ववधोऽस्ति, सर्ववधस्य प्रथमतः पुद्गलोपादानरूपतया भवादे स्तैजसशरीरस्य तदसमवात् इति भावः, गौतमः पृच्छति—'तेयासरीरप्पओगवधेण भते ! कालओ केवच्चिरं होइ ? हे भदन्त ! तैजसशरीरप्रयोगवन्ध' खलु कासत्त कासापेसया चियच्चिरं भवति ? भगवानाह—'गोयमा ! दुविहे पण्णसे' हे गौतम ! तैजसशरीरप्रयोगवधो द्विविधः पण्णसः, 'तं जहा-अणाइए वा अपज्जवसिए, अणाइए वा सपज्जवसिए' तद्यथा-अनादिको वा अपर्यवसितः, अनादिको वा सपर्यवसितः, तत्र अमव्यानाम् अनादिकोऽपर्यवसितस्तैजसशरीरप्रयोगवन्धा,

रूप नहीं है। क्योंकि "अनादि सम्बन्धे च" सूत्रानुसार यह तैजस शरीर जीव के साथ अनादि काल से संबंधित है। प्रथम समय में पुद्गलोपादानरूप होने से अनादि तैजसशरीर में इस सर्ववध का होना असंभव है।

अब गौतम स्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(तेयासरीरप्पओगवधेण भते ! कालओ केवच्चिरं भवइ) हे भदन्त ! तैजसशरीरप्रयोगवध काल की अपेक्षा फलतक रहता है ? इसके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (दुविहे पण्णसे) तैजसशरीरप्रयोगवध दो प्रकार का कहा है (त जहा) जो इस प्रकार से है—(अणाइए वा अपज्जवसिए, अणाइए वा सपज्जवसिए) अनादि अपर्यवसित और अनादि सपर्यवसित इनमें से अनादि अपर्यवसित जो तैजसशरीरप्रयोगवध है यह अमव्ययी

कारण है 'अनादिसम्बन्धे च' आ सूत्रानुसार आ तैजस शरीर अपनी साथ अनादि काल से संबंधित है प्रथम समय में ते पुद्गलोपादान रूप होना ही तैजस शरीर में सर्ववधने अस्त्वभाव असंबन्धित है

गौतम स्वामीने प्रश्न—(तेयासरीरप्पओगवधेण भते ! कालओ केवच्चिरं भवइ ?) के उत्तर—तैजस शरीर प्रयोगवध का अपनी अपेक्षा के साथ सुधी रहे है ?

भदवासी प्रश्नने उत्तर—"गोयमा" के गौतम ! 'दुविहे पण्णसे' तैजस शरीर प्रयोगवध के प्रकारने कहा है—"जहा" ते के प्रकारने प्रमाण है—

(अणाइए वा अपज्जवसिए, अणाइए वा सपज्जवसिए) (१) अनादि अपर्यवसित (अनादि अनन्त), (२) अनादि सपर्यवसित (अनादि सान्त)

अनादिकसपर्यवसितस्तु तैजसशरीरप्रयोगवन्धो भव्यानां भवतीति भावः। अथ तैजसशरीरप्रयोगवन्धस्यैवान्तर प्ररूपयितुं पृच्छति—‘तेयासरीरप्पओगवंधंतरं णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?’ हे भदन्त तैजसशरीरप्रयोगवन्धान्तरं खलु कालतः कियच्चिरं भवति? भगवानाह—‘गोयमा’ अणाइयस्स अपज्जवसियस्स नत्थि अंतरं, अणाइयस्स सपज्जवसियस्स नत्थि अंतरं’ हे गौतम ! तैजसशरीरप्रयोगवन्धस्य अनादिकस्य अपर्यवसितस्य नास्ति अन्तरं व्यवधानम्, एवं तैजसशरीरप्रयोगवन्धस्य अनादिकस्य सपर्यवसितरूपस्य चापि नास्ति अन्तर व्यवधानमित्यर्थः, यतो हि संसारस्थस्य जीवस्य तैजसशरीरवन्धेन उक्तद्वयरूपेणापि सदाऽविनिर्मुक्तत्वात् वों के होता है। और अनादिसपर्यवसित तैजसशरीरप्रयोगवंध भव्य जीवों के होता है।

अब सूत्रकार तैजसशरीरप्रयोगवंध के अंतर को प्ररूपित करते हैं सो गौतम ने प्रभु से यहां पर ऐसा पूछा है—(तेयासरीरप्पओगवंधंतरं णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ! तैजसशरीरप्रयोगवंध का अन्तरकाल की अपेक्षा से कितना होता है? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (अणाइयस्स अपज्जवसियस्स नत्थि अंतरं अणाइयस्स सपज्जवसियस्स नत्थि अंतरं) अनादि अपर्यवसितरूप जो तैजसशरीरप्रयोगवंध है उसमें अन्तर-व्यवधान नहीं होता है, इसी तरह से अनादि सपर्यवसितरूप जो तैजसशरीरप्रयोगवंध है उसमें भी अन्तर नहीं होता है। क्यों कि संसारी जीव के तैजसशरीर का बंध अनादि अपर्यवसितरूप में तथा अनादि सपर्यवसितरूप में सदा विद्य

अलव्य एवो अनादि अपर्यवसित तैजस शरीर प्रयोगवंध करे छे अने लव्य एवो अनादि सपर्यवसित तैजस शरीर प्रयोगवंध करे छे.

गौतम स्वामीने प्रश्न—“तेया सरीरप्पओगवंधंतरं णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?” हे भदन्त ! तैजस शरीर प्रयोगवंधनु अंतर काजनी अपेक्षाओ केटलु डोय छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—“गोयमा !” हे गौतम ! (अणाइयस्स अपज्जवसियस्स नत्थि अंतरं, अणाइयस्स सपज्जवसियस्स नत्थि अंतरं) अनादि अपर्यवसित रूप ने तैजस शरीर प्रयोगवंध छे तेमा अंतर (आंतरो) डोतो नथी, ओज प्रभाओ अनादि सपर्यवसित रूप ने तैजस शरीर प्रयोग वंध छे तेमां पणु अंतर (आंतरो) पडतु नथी कारणु के संसारी एवने तैजस शरीर प्रयोगवंध अनादि अपर्यवसित रूपे तथा अनादि सपर्यवसित रूपे सदा विद्यमान (भोजूठ) रहे छे. ते संसारी एव तेमनाथी

अथ उक्तद्वयरूपस्यापि तैजसशरीरप्रयोगबन्धस्य नास्त्यन्तरमिति मात्र । अथ तैजसशरीरप्रयोगदेशबन्धकाबन्धकानामव्यत्वादिप्रकरणायाम्—‘ एपसि ण मते । जीवाण तेयासरीरस्स देसबन्धगाणं अणत्तगुणा य कयरे कयरेहितो जाव विससाहिया वा ? हे भवन्त ! एतेपां स्वच्छ पूर्वोक्तानां जीवानाम् तैजसशरीरप्रयोगस्य देशबन्धकानाम् अणत्तगुणां च मध्ये कतरे कतरेभ्यो यावत्—स्तोका वा, बहुका वा, दुस्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भवमानाह—‘ गोयमा ! सम्बत्थोवा जीवा तयासरीरस्स अणत्तगुणा, देसबन्धगा अणत्तगुणा ’ हे गौतम ! सर्वस्तोका जीवास्तैजसशरीरप्रयोगस्य अणत्तगुणा भवन्ति सिद्धानामेष तदवयवत्वात्, देशबन्धकास्त्वनन्तगुणा भवन्ति तद्देशबन्धकाना सकसससारिणां सिद्धेभ्योऽनन्तगुणत्वादिति भाव ॥ सू० ८।

मान रहता है अतः समस्त ससारी जीव इनसे विनिर्मुक्त नहीं रहने के कारण इन दोनों प्रकार के तैजसशरीरप्रयोगों में अन्तर—काल की अपेक्षा व्ययधान नहीं आता है ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं (एपसि ण मते ! जीवाण तेयासरीरस्स देसबन्धगाणं अणत्तगुणा य कयरे कयरेहितो जाव विससाहिया वा) हे भवन्त ! तैजसशरीरप्रयोग के देशबन्धक जीवों में से कौन जीव किन जीवों से कम हैं ? कौन जीव किन जीवों से अधिक हैं ? कौन जीव किन जीवों के समान हैं ? और कौन जीव किन जीवों से विशेषाधिक हैं ? उत्तर में प्रश्नु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! सम्बत्थोवा जीवा तयासरीरस्स अणत्तगुणा, देसबन्धगा अणत्तगुणा) सब से कम जीव तैजसशरीरप्रयोगबन्ध के अणत्तगुणा हैं । क्योंकि इस अणत्तगुणा सिद्ध ही होते हैं । तथा देशबन्धका जो जीव हैं ये इनकी अपेक्षा

विनिर्मुक्त (रहित) नहीं रहेवाने कारणे ते अन्ने प्रकारेण तैजस शरीर प्रयोगेभ्यो अणत्तगुणा अपेक्षाये व्ययधान (अन्तर) पठन्तु नदी ।

गौतम स्वामीने प्रश्नु—(एपसि ण मते ! जीवाण तेयासरीरस्स देसबन्धगाणं अणत्तगुणा य कयरे कयरेहितो जाव विससाहिया वा ?) हे भवन्त ! तैजस शरीर प्रयोगेभ्यो देशबन्धके अन्ने अणत्तगुणाभ्यां केषां अधिकं उ ? केषां केषां अणत्तगुणा उ, अन्ने केषां केषां अणत्तगुणा विशेषाधिकं उ ?

गौतमीय प्रश्नुने उत्तर— गोयमा । ” हे गौतम ! (सम्बत्थोवा जीवा तयासरीरस्स अणत्तगुणा देसबन्धगा अणत्तगुणा) तैजस शरीर प्रयोगेभ्यो अणत्तगुणा अणत्तगुणा अणत्तगुणा उ, केषां केषां अणत्तगुणा सिद्धो अणत्तगुणा उ देशबन्धक

कर्मणशरीरप्रयोगवक्तव्यता ।

अथ कर्मणशरीरप्रयोगवन्धं प्रहृषयितुमाह—' कम्मासरीर० ' इत्यादि ।

मूलम्—कम्मासरीरप्पओगवंधेणं भंते ! कइविहे पणत्ते ?
 गोयसा ! अइविहे पणत्ते, तं जहा—णाणावरणिज्जकम्मा-
 सरीरप्पओगबंधे जाव अंतराइयकम्मासरीरप्पओगबंधे ।
 णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स
 उदएणं ? गोयसा ! नाणपडिणीयाए, णाणणिपहवणयाए
 णाणंतराएणं णाणप्पदोसेणं णाणच्चासायणाए, णाणविसं-
 वायणाजोगेणं णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगनामाए
 कम्मस्स उदएणं णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगबंधे ।
 दरिसणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कस्स
 कम्मस्स उदएणं ? गोयसा ! दंसणपडिणीययाए, एवं
 जहा णाणावरणिज्जं नइरं दंसणनामधेत्तव्वं जाव दंसण-
 विसंवायणाजोगेणं दरिसणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओग-
 नामाए कम्मस्स उदएणं जावप्पओगबंधे । सायावेयणिज्ज
 कम्मासरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ?
 गोयसा ! पाणाणुकंपयाए, भूयाणुकंपयाए, एवं जहा सत्त-
 मसए दसमोद्देसए जाव अपरियावणयाए, सायावेयणिज्ज-
 कम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं सायावेयणिज्ज-

अनन्तगुणे हैं क्यों कि देशवधक जो सकलसंसारि जीव हैं वे सिद्धों
 से भी अनन्तगुणे हैं ॥ सू० ८ ॥

श्रुते अणुधके कर्ता अनतगणां छे, कारणु के सधण संसारी श्रुव देशवधक
 छे, अने ते संसारी श्रुते सिद्धो कर्ता अनतगणां छे ॥ सू. ८ ॥

कम्मा जाव वधे, असायावैयणिज्ज० पुच्छा, गोयमा !
 परदुक्खणयाए, परसोयणयाए, जहा सत्तमसए दसमोहेसए
 जाव परियावणयाए असायवैयणिज्जकम्माजाव पओ
 गधधे । मोहणिज्जकम्मासरीरप्पओग पुच्छा, गोयमा ।०
 तिव्वकोहयाए, तिव्वमाणयाए, तिव्वमायाए तिव्वलोमयाए,
 तिव्वदसणमोहणिज्जयाए, तिव्वचरित्तमोहणिज्जयाए,
 मोहणिज्जकम्मासरीर जाव पओगधधे । नेरइयाउयकम्मास
 रीरप्पओगवधे णं भत्ते ! पुच्छा, गोयमा ! महारभयाए,
 महापरिग्गहयाए, क्खणिमाहारेण, पच्चिदिच्चहेणं, नेरइयाउय
 कम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं नेरइयाउय
 कम्मासरीर जाव-पओगधधे, तिरिक्खजोणियाउयकम्मा
 सरीरप्पओगपुच्छा, गोयमा ! माइहियाए, नियडिहियाए,
 अलियवयणेणं कूडतुलाकूडमाणेण तिरिक्खजाणियकम्मा
 सरीरजावप्पओगधधे । मणुस्सआउयकम्मासरीरपुच्छा,
 गोयमा ! पगइभइयाए, पगइविणीययाए, साणुकोसयाए,
 अमच्छरियाए, मणुस्साउयकम्माजावधधे देवाउयकम्मा
 सरीरपुच्छा, गोयमा ! सरागसजमेणं, सजमासजमेण, घाल
 तवोक्कमेणं, अयामनिज्जराण, देवाउयकम्मासरीरजाव
 पओगधधे, सुभनामकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा ! काय
 ठउजुययाए, भावुज्जुययाए, भासुज्जुययाए, अयिसवायण
 जीरोणं सुभनामकम्मासरीरजावप्पओगधधे । असुभनामकम्मा

सरीरपुच्छा, गोयमा! कायअणुज्जुययाए, भावअणुज्जुययाए,
भासाणुज्जुययाए, विसंवायणाजोगेणं असुभनामकम्मा-जाव
पओगबंधे। उच्चागोयकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा ! जाइ-
अमएणं, कुलअमएणं, वलअमएणं, रूवअमएणं, तवअम-
एणं, सुयअमएणं, लाभअमएणं, इस्सरियअमएणं, उच्चा-
गोयकम्मासरीरजावपओगबंधे, नीयागोयकम्मासरीरपुच्छा,
गोयमा ! जाइमएणं, कुलमएणं, बलमएणं, जाव इस्स-
रियमएणं नीयागोयकम्मासरीर जाव पओगबंधे । अंतराइय
कम्मासरीरपुच्छा ? गोयमा ! दाणंतराएणं, लाभंतराएणं,
भोगंतराएणं, उवभोगंतराएणं, वीरियंतराएणं, अंतरा-
इयकम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं अंतरा-
इयकम्मासरीरप्पओगबंधे । णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्प-
ओगबंधे णं भंते ! किं देसबंधे, सत्त्वबंधे ? गोयमा ! देस-
बंधे, णो सत्त्वबंधे, एवं जाव अंतराइयकम्मासरीरप्पओग-
बंधे वि । णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगबंधे णं भंते !
कालओ केवच्चिरं होइ ? गोयमा ! णाणावरणिज्जकम्मा
सरीरप्पओगबंधे दुविहे पणत्ते, तं जहा-अणाइए सपज्ज-
वसिए, अणाइए अपज्जवसिए वा, एवं जहा तेयगस्स संचि-
ट्टणा तहेव, एवं जाव अंतराइयकम्मस्स । णाणावराणिज्ज-
कम्मासरीरप्पओगबंधंतरे णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?
गोयमा ! अणाइयस्स एवं जहा तेयगसरीरस्स अंतरं तहेव,



एव जात्र अतराह्यस्स । एप्पसि ण भते ! जीवाण णाणाव
 रणिज्जस्स कम्मस्स देसवधगाण,अवधगाण य कयरे कयरे
 हितो जाव अप्पावहुंगंजहा तेयगस्स । एव आउयवज्ज जाव
 अतराह्यस्स, आउयस्स पुच्छा, गोयमा । सुव्वत्थोवा जीवा
 आउयस्म कम्मस्स देसवधगा, अवधगा सखेज्जगुणा॥सू०९॥

छाया—कर्मणशरीरप्रयोगवन्ध स्वलु भदन्त ! क्विविहे पण्णसे ? गौतम !
 अट्टविधः पण्णस, तद्यथा—ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगवन्धो यावत् आन्त
 रायिककर्मणशरीरप्रयोगवन्धः, ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगवन्धः स्वलु भदन्त !
 कस्य कर्मण उदयेन? गौतम! ज्ञानमत्पनीकृतया? ज्ञाननिहवसया२, ज्ञानान्तरायेण१,

॥ कर्मणशरीरप्रयोग वक्तव्यता ॥

‘ कम्मासरीरप्पओगव पे ण भते ! कइविहे पण्णसे ’ इत्यादि ।

सुत्राय—(कम्मासरीरप्पओगव पे ण भते ! कइविहे पण्णसे) हे
 भदन्त ! कर्मणशरीरप्रयोगवध फिज्जने प्रकार का कहा गया है ? (गोय
 मा) हे गौतम ! (अट्टविहे पण्णसे) कर्मणशरीरप्रयोग आठ प्रकार का
 कहा गया है (त जहा) जो इस प्रकार से है—(णाणावरणिज्जकम्मा
 सरीरप्पओगव पे जाव अंतराह्यकम्मासरीरप्पओगव पे) ज्ञानावरणीय
 फर्मणशरीरप्रयोगवध यावत् अन्तरायकामणशरीरप्रयोगवध । (णाणा
 वरणिज्जकम्मासरीरप्पओगव पे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदणं) हे
 भदन्त ! ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगवध फिसकर्म के उदय से होता

કામણશરીરપ્રયોગ વક્તવ્યતા—

‘ કમ્મા સરીરપ્પઓગવ પે ન મતે ! કહવિહે પણ્ણસે ? ’ ઈત્યાદિ—

સુત્રાય—(કમ્મા સરીરપ્પઓગવ પે ન મતે ! કહવિહે પણ્ણસે ?) હે
 ભદન્ત ! કામણ શરીરપ્રયોગવધ કેવા પ્રકારનો કહ્યો છે ? (ગોયમા) હે
 ગૌતમ ! (અટ્ટવિહે પણ્ણસે) કામણશરીરપ્રયોગના આઠ પ્રકાર કહ્યા છે, (ત જહા)
 જે પ્રકારે નીચે પ્રમાણે છે—(ણાણાવરણિજ્જકમ્મા સરીરપ્પઓગવ પે, જાવ
 અન્તરાહ્યકમ્માસરીરપ્પઓગવ પે) જ્ઞાનાવરણીય કામણ શરીરપ્રયોગવધથી
 વધીને અન્તરાય કામણશરીરપ્રયોગવધ સુધીના કામણશરીરપ્રયોગવધથી
 વધીને કામણ શરીરપ્રયોગવધ છે (ણાણાવરણિજ્જકમ્માસરીરપ્પઓગવ પે ન મતે ! કસ
 કમ્મસ્સ ઉદયનં ?) હે ભદન્ત ! કયા કમના ઉદયથી જ્ઞાનાવરણીય કામણશરીરપ્રયોગવધ

ज्ञानप्रद्वेषेण४, ज्ञानात्याशातनया५, ज्ञानविसंवादनयोगेन६, ज्ञानवरणीयकार्मणशरीर-
जाम्नः कर्मण उदयेन, ज्ञानावरणीयकार्मणशरीरप्रयोगवन्ध, दर्शनावरणीयकार्मण-
शरीरप्रयोगवन्धः खलु भदन्त ! कस्य कर्मण उदयेन ? गोयमा ! दर्शनप्रत्यनीक-
तया, एवं यथा ज्ञानावरणीयं, नवर दर्शननामग्रहीतव्यम्, यावत्-दर्शनविसंवादन-
योगेन दर्शनावरणीयकार्मणशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मणः उदयेन यावत् प्रयोगवन्धः,
सातावेदनीयकार्मणशरीरप्रयोगवन्धः खलु भदन्त ! कस्य कर्मण उदयेन ? गौतम !

है ? (गोयमा) हे गौतम ! (नाणपडिणीययाए, णाणणिणवणयाए,
णाणंतराएणं, णाणप्पओसेणं, णाणच्चासायणाए, णाणविसंवायणाजो-
गेणं णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं णाणाव-
रणिज्जकम्मासरीरप्पओगवधे) ज्ञान के विरुद्ध आचरण से, ज्ञान को
अपलाप करने से, ज्ञानवर्धक साधनों में अन्तराय डालने से, ज्ञान के
साथ प्रद्वेष करने से, ज्ञान की आशातना करने से, ज्ञानके धारकजीवों
के साथ विसंवाद करने से जघन्य ज्ञानावरणीयकर्म के उदय होने से
ज्ञानावरणीयकार्मणशरीरप्रयोग का बंध होता है । (दरिसणावरणिज्ज-
कम्मासरीरप्पओगवधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं) हे भदन्त !
दर्शनावरणीयकार्मणशरीरप्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से होता है ?
(गोयमा ! दंसणपडिणीययाए एवं जहा णाणावरणिज्जं, नवरं दंसण-
नामधेत्तव्वं जाव दंसण विसंवायणा जोगेणं दरिसणावरणिज्जकम्मास-
रीरप्पओग नामाए कम्मस्स उदएणं जावप्पओगवधे) हैं गौतम ! दर्श-
नावरणीय कार्मणशरीरप्रयोगवध दर्शन से विरुद्ध आचरण करने से,

थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (नाणपडिणीययाए, णाणणिणवणयाए, णाण त-
राएणं, णाणप्पओसेणं, णाणच्चासायणाए, णाणविसंवायणाजोगेण, णाणावरणिज्ज
कम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवधे)
ज्ञान विरुद्धता आचरणीय, ज्ञानने अपलाप करवाथी, ज्ञानवर्धक साधनेमां
अंतराय नापवाथी, ज्ञाननी साथे प्रद्वेष करवाथी, ज्ञाननी अशातना करवाथी,
ज्ञानी श्रवणी साथे विसंवाद करवाथी अने ज्ञानावरणीयनाम कर्मने उदय
थवाथी ज्ञानावरणीय कार्मणशरीरप्रयोगने बंध थाय छे

(दरिसणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ?)
हे भदन्त ! दर्शनावरणीय कार्मणशरीरप्रयोगने बंध क्या कर्मना उदयथी
थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (दंसणपडिणीययाए एवं जहा णाणावरणिज्जं,
नवरं दंसणनामधेत्तव्वं जाव दंसणविसंवायणाजोगेणं दरिसणावरणिज्ज कम्मा
सरीरप्पओग नामाए कम्मस्स उदएणं जावप्पओगवधे) दर्शन विरुद्धतु आचरणी
करवाथी, दर्शनने अपलाप करवाथी, दर्शन वर्धक साधनेमा अन्तराय नाप

एव जाव अतराइयस्स । एप्पसिं णं भते । जीवाण णाणाव
रणिज्जस्स कम्मस्स देसवधगाण, अवंधगाण य कयरे कयरे
हितो जाव अप्पावहुंगं जहा तेयगस्स । एव आउयवज्ज जाव
अतराइयस्स, आउयस्स पुच्छा, गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा
आउयस्स कम्मस्स देसवधगा, अवंधगा सखेज्जयुणा ॥ सू० ९ ॥

छाया—कर्मणश्शरीरप्रयोगवन्ध' खलु मदन्त ! कवित्रिषः मद्गतः ? गौतम !
अष्टविषः मद्गतः, तद्यथा—ज्ञानावरणीयकर्मणश्शरीरप्रयोगवन्धो यावत् धान्य
रायिककर्मणश्शरीरयागवन्धः, ज्ञानावरणीयकर्मणश्शरीरप्रयोगवन्ध खलु मदन्त !
कस्य कर्मण उदयेन? गौतम! ज्ञानमरथनीकतया १, ज्ञाननिद्वयतया २, ज्ञानान्तरायेण ३,

॥ कर्मणश्शरीरप्रयोग वक्तव्यता ॥

‘कम्मासरीरप्पभोगवधे ण भंते ! कइविहे पण्णसे’ इत्यादि ।

सुत्रार्थ—(कम्मासरीरप्पभोगवधे ण भंते ! कइविहे पण्णसे) हे
भदन्त ! कर्मणश्शरीरप्रयोगवध विलिखने प्रकार का कहा गया है ? (गोय
मा) हे गौतम ! (अइविहे पण्णसे) कर्मणश्शरीरप्रयोग आठ प्रकार का
कहा गया है (तं जहा) जो इन प्रकार से है—(णाणावरणिज्जकम्मा
सरीरप्पभोगवधे जाव अतराइयकम्मासरीरप्पभोगवधे) ज्ञानावरणीय
कर्मणश्शरीरप्रयोगवध यावत् अन्तरायकर्मणश्शरीरप्रयोगवध । (णाणा
वरणिज्जकम्मासरीरप्पभोगवधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं) हे
भदन्त ! ज्ञानावरणीयकर्मणश्शरीरप्रयोगवध किसकर्म के उदय से होता

कामण्यशरीरप्रयोग वक्तव्यता—

‘कम्मा सरीरप्पभोगवधे ण भंते ! कइविहे पण्णसे ?’ इत्यादि—

सुत्रार्थ—(कम्मा सरीरप्पभोगवधे ण भंते ! कइविहे पण्णसे ?) हे
भदन्त ! कामण्य शरीरप्रयोगवध केवल प्रकारने उक्तो छे ? (गोयमा) हे
गौतम ! (अइविहे पण्णसे) कामण्यशरीरप्रयोगना आठ प्रकार उक्तो छे, (त जहा)
२ प्रकारो नीचे प्रमावे छे—(णाणावरणिज्जकम्मा सरीरप्पभोगवधे, जाव
अतराइयकम्मासरीरप्पभोगवधे) ज्ञानावरणीय कामण्य शरीरप्रयोगवधो
वधे अन्तराय कामण्यशरीरप्रयोगवध सुधीना कामण्यशरीरप्रयोगवधो
वधे उदय उदयना छे (णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पभोगवधे ण भंते ! कस्स कम्मस्स
उदएणं ?) हे भदन्त ! क्या क्याना उदयधी ज्ञानावरणीय कामण्यशरीरप्रयोगवध

ज्ञानप्रद्वेषेण४, ज्ञानात्यागातनया५, ज्ञानविसंवादनयोगेन६, ज्ञानवरणीयकर्मणशरीर-
जाम्नः कर्मण उदयेन, ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगवन्ध, दर्शनावरणीयकर्मण-
शरीरप्रयोगवन्धः खलु भदन्त ! कस्य कर्मण उदयेन ? गोयमा ! दर्शनप्रत्यनीक-
तया, एवं यथा ज्ञानावरणीयं, नवर दर्शननामग्रहीतव्यम्, यावत्-दर्शनविसंवादन-
योगेन दर्शनावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मणः उदयेन यावत् प्रयोगवन्धः,
सातावेदनीयकर्मणशरीरप्रयोगवन्धः खलु भदन्त ! कस्य कर्मण उदयेन ? गौतम !

है ? (गोयमा) हे गौतम ! (नाणपडिणीययाए, णाणणिणवणयाए,
णाणंतराएणं, णाणप्पओसेणं, णाणच्चासायणाए, णाणविसंवायणाजो-
गेणं णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं णाणाव-
रणिज्जकम्मासरीरप्पओगवंधे) ज्ञान के विरुद्ध आचरण से, ज्ञान का
अपलाप करने से, ज्ञानवर्धक साधनों में अन्तराय डालने से, ज्ञान के
साथ प्रद्वेष करने से, ज्ञान की आशातना करने से, ज्ञानके धारकजीवों
के साथ विसवाद करने से जघन्य ज्ञानावरणीयकर्म के उदय होने से
ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोग का बंध होता है । (दरिसणावरणिज्ज-
कम्मासरीरप्पओगवंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं) हे भदन्त !
दर्शनावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगबंध किस कर्म के उदय से होता है ?
(गोयमा ! दंसणपडिणीययाए एवं जहा णाणावरणिज्जं, नवरं दंसण-
नामधेत्तव्वं जाव दंसण विसंवायणा जोगेणं दरिसणावरणिज्जकम्मास-
रीरप्पओग नामाए कम्मस्स उदएणं जावप्पओगवंधे) हे गौतम ! दर्श-
नावरणीय कर्मणशरीरप्रयोगवध दर्शन से विरुद्ध आचरण करने से,

थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (नाणपडिणीययाए, णाणणिणवणयाए, णाणत-
राएणं, णाणप्पओसेणं, णाणच्चासायणाए, णाणविसंवायणाजोगेण, णाणावरणिज्ज
कम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवंधे)
ज्ञान विरुद्धना आचरणीय, ज्ञानने अपलाप करवाथी, ज्ञानवर्धक साधनेमां
अंतराय नाभवाथी, ज्ञाननी साथे प्रद्वेष करवाथी, ज्ञाननी आशातना करवाथी,
ज्ञानी श्रवणी साथे विसंवाद करवाथी अने ज्ञानावरणीयनाम कर्मने उदय
थवाथी ज्ञानावरणीय कर्मणशरीरप्रयोगने अंध थाय छे.

(दरिसणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ?)
हे भदन्त ! दर्शनावरणीय कर्मणशरीरप्रयोगने अंध क्या कर्मने उदयथी
थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (दंसणपडिणीययाए एवं जहा णाणावरणिज्जं,
नवरं दंसणनामधेत्तव्वं जाव दंसणविसंवायणाजोगेणं दरिसणावरणिज्ज कम्मा
सरीरप्पओग नामाए कम्मस्स उदएणं जावप्पओगवंधे) दर्शन विरुद्धतु आचरणी
करवाथी, दर्शनने अपलाप करवाथी, दर्शन वर्धक साधनेमां अन्तराय नाभ-

प्राणानुकम्पया, भूतानुकम्पया एव यथा सत्तमदत्त दग्मोद्देशके यावत् अपरि
 तापनतया, सातावेदनीयकर्मणशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मण उदयेन सातावेदनीय
 कर्मण यावत् बन्धः। असातावेदनीयपृच्छा, गौतम ! परदुःखनतया, परशोचनतया

दर्शन का अपलाप करने से, दर्शनवर्धक साधनों में अन्तराय छालने से
 दर्शन के साथ प्रद्वेष करने से, दर्शन की आक्षातना करने से, दर्शन
 धारक जीवों के साथ विसंवाद करने से, अन्य दर्शनाधारणीय कर्म के
 उदय से दर्शनाधारणीयकर्मणशरीरप्रयोग का बन्ध होता है। इस तरह
 यहाँ पर जैसे अनाधारणीय के कारण कहे गये हैं—बैसे ही कारण दर्श
 नाधारणीय कर्म के भी जानना चाहिये। परन्तु उन कारणों को यहाँ
 पर दर्शन के विषय में लगाकर कहना चाहिये। (सायावेयणिउज्जकम्मा
 सरीरप्पओगणधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएण) हे भवन्त !
 सातावेदनीयकर्मण शरीर प्रयोगपक्ष किस कर्म के उदय से
 होता है ? (गोपमा) हे गौतम ! (पाणाणुकपयाए, भूयाणुकपयाए,
 एवं जहा सत्तमसए वुसमोद्देशए जाव अपरियावणयाए, सायावेयणि
 उज्जकम्मासरीरप्पओगणामाए कम्मस्सउदएण सायावेयणिउज्जकम्मा जाव
 वधे) प्राणियों के ऊपर दया करने से, भूतों के ऊपर दया करने से
 इत्यादि जिस रूप से सत्तमदत्तक के वुःपमा उद्देशक में कहा गया है।
 उसी तरह से यहाँ पर कहना चाहिये यावत् उनको परित्याप नहीं करने

वाची दर्शननी साधने प्रद्वेष करवाधी, दर्शननी आक्षातना करवाधी जने दर्शन
 धारक श्रोत्रोनी साधने विसंवाद करवाधी अन्य दर्शनावरणीयकर्मना उदयधी
 दर्शनावरणीय काम शरीरप्रयोगने। लक्ष साथ छे ज्ञा रीते जेवा ज्ञानावर
 णीयना कारखे। कहेपामं आव्या छे जेवा न कारखे। दर्शनावरणीयमा समजवाना
 छे परन्तु ज्ञानावरणीयना आलापकमा ' ज्ञान ' पडने जइसे " दर्शन " पक्ष
 भूवाधी दर्शनावरणीयने। आलापक जनी लक्ष छे

(सायावेयणिउज्जकम्मासरीरप्पओगणधे णं भंते कस्स कम्मस्स उदएण ?)
 हे भवन्त ! सातावेदनीय काम शरीरप्रयोगपक्ष क्या कर्मना उदयधी साथ छे ?
 (गोपमा !) हे गौतम ! (पाणाणुकपयाए, भूयाणुकपयाए एव जहा सत्तमसए
 वुसमोद्देशए जाव अपरियावणयाए सायावेयणिउज्जकम्मासरीरप्पओगणामाए कम्मस्स
 उदएण सायावेयणिउज्जकम्मा जाव वधे) प्राणियों। ऊपर इवा करवाधी, भूतों।
 ऊपर इवा करवाधी " इत्यादि सातमांशतकना दुःखमा उद्देशकमां ' परित्यापना
 नहीं करवा " पधन्तना जे जे कारखे। कर्मां छे ते कारखेधी अन्य सातावेद
 नीयनाम कर्मना उदयधी सातावेदनीय कामं शरीरप्रयोगपक्ष साथ छे

यथा सप्तमशतके दशमोद्देशके यावत्-परितापनतया, असातावेदनीयकर्मण यावत् प्रयोगबन्धः, मोहनीयकर्मणशरीरप्रयोगपृच्छा, गौतम ! तीव्रक्रोधतया, तीव्रमानतया, तीव्रमायया, तीव्रलोभतया, तीव्रदर्शनमोहनीयतया, तीव्रचारित्रमोहनीयतया-मोहनीयकर्मणशरीरप्रयोग-यावत् प्रयोगबन्धः, नैरयिकायुक्कर्मणशरीरप्रयोगबन्धः

से, जन्य सातावेदनीय कर्मके उदयसे सातावेदनीयकर्मणशरीरप्रयोग-बंध होता है। (असायावेयणिज्ज पुच्छा) हे भदन्त ! असातावेदनीय-कर्मणशरीरप्रयोगबंध किस कर्म के उदय से होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (परदुक्खणयाए, परसोयणयाए जहा सत्तमसए दुसमोद्देशए जाव परियावणयाए असायवेयणिज्ज कम्मा०) दूसरों को दुःख देने से, दूसरों को शोकयुक्त करने इत्यादि जैसा सप्तमशतक के दुःषम नामक छठे उद्देशक में कहा है उसी तरहसे यावत् दूसरोंको परि-तापित करने से जन्य असातावेदनीय कर्म के उदय से असाता वेदनीयकर्मण शरीरप्रयोग बंध होता है। (मोहणिज्जकम्मासरीर०) हे भदन्त ! मोहनीयकर्मणशरीरप्रयोगबंध किस कर्म के उदयसे होता है ? (तिव्वकोहयाए, तिव्वमाणयाए, तिव्वमायाए, तिव्वलोभाए, तिव्वदंसणमोहणिज्जयाए, तिव्वचारित्तमोहणिज्जयाए मोहणिज्ज कम्मासरीर जाव पओगबंधे) तीव्र क्रोध करने से, तीव्रमान करने से, तीव्रमाया करने से, तीव्रलोभ करने से, तीव्रदर्शनमोहनीय के सद्भाव से, तीव्र चारित्रमोहनीय के सद्भाव से, तथा मोहनीय कर्मण शरीर प्रयोग

(असायावेयणिज्ज पुच्छा) हे भदन्त ! असातावेदनीय कर्मणशरीरप्रयोग-बंध क्या कर्मना उदयथी थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (परदुक्खणयाए, परसोयणयाए जहा सत्तमसए दुसमोद्देशए जाव परियावणयाए असायवेयणिज्जकम्मा०) अन्यने दुःषम देवाथी, अन्यने शोकयुक्त करवाथी, " इत्यादि कारण्णोथी लधने " अन्यने परितापित करवा " पर्यन्तना जेजे कारण्णो सातमा शतकना दुःषम नामना छट्ठा उद्देशकमा आपवामा आया छे ते कारण्णोथी जन्य असातावेदनीयनाम कर्मना उदयथी असातावेदनीय कर्मणशरीरप्रयोगबंध थाय छे. (मोहणिज्जकम्मासरीर पुच्छा) हे भदन्त ! मोहनीय कर्मणशरीरप्रयोगबंध क्या कर्मना उदयथी थाय छे ? (तिव्वकोहयाए तिव्वमाणयाए, तिव्वमायाए, तिव्वलोभाए, तिव्वदंसणमोहणिज्जयाए, तिव्वचारित्तमोहणिज्जयाए, मोहणिज्जकम्मासरीर जाव पओगबंधे) हे गौतम ! तीव्र क्रोध करवाथी, तीव्र मान करवाथी, तीव्र माया करवाथी, तीव्र दोष करवाथी, तीव्र दर्शनमोहनीयना सद्भावथी, तीव्र चारित्र-

खलु भदन्त ! पृच्छा, गौतम ! महारम्मतया, महापरिग्रहतया, कुणिमाहारेण, पञ्चेन्द्रियवधेन, नैरयिकायुष्ककर्मणश्शरीरप्रयोगान्नाः कर्मणउदयेन नैरयिकायुष्ककर्मणश्शरीरयावत्-प्रयोगवधः तिर्यग्योनिकायुष्ककर्मणश्शरीरप्रयोगपृच्छा, गौतम ! मायिकतया, निकृतिमद्यया, म्लीकवचनेन कूटतुलाकूटमानेन तिर्यग्योनिककर्मणश्शरीरयावत् प्रयोगवन्धः । मनुष्यायुष्ककर्मणश्शरीरपृच्छा, गौतम ! प्रकृतिमद्यतया,

नामकर्म के उदय से मोहनीयकर्मणशरीरप्रयोगवध होता है । (नेरइया उय कम्मासरीरप्पओगवधे णं मंते ! पुच्छा) हे भदन्त ! नारकायुष कर्मणशरीरप्रयोगवध किस कर्म के उदय से होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (महारमयाए, महापरिग्गइयाए, कुणिमाहारेणं, पंचिन्द्रिय वधेणं नेरइयाउयकम्मा सरीरप्पओग नामाए कम्मस्स उदएण नेरइया उय कम्मासरीर जाव पओगवधे) बहुत अधिक आरम्भ करने से, बहुत अधिक परिग्रह रम्बने से, मांस का आहार करने से पञ्चेन्द्रिय जीवों का वध करने से, तथा नारकायुष कर्मण शरीर प्रयोग नामकर्म के उदय से नारकायुष कर्मण शरीर प्रयोग वध होता है । (तिरिक्ख जोगियाउयकम्मासरीरप्पओगपुच्छा) हे भदन्त ! तिर्यग्योनिकायुष कर्मण शरीरप्रयोगवध किस कर्म के उदय से होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (माइल्लियाए, नियडिल्लियाए, अल्लियवधणेणं कूडतुलकूडमाणेणं, तिरिक्खजोगियकम्मासरीरजावप्पओगवधे) मायाशरीरमें लक्ष्मीन रहने

शोहनीयना सद्भावधी, तथा शोहनीय कामंजुशरीरप्रयोगान्नाम कर्मना उदयधी शोभनीय कामंजुशरीरप्रयोगवध भावधे

(नेरइयाउय कम्मासरीरप्पओगवधे णं मंते ! पुच्छा) हे भदन्त ! नारकायुष्ककामंजुशरीरप्रयोगवध क्या कर्मना उदयधी भावधे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (महारमयाए, महापरिग्गइयाए, कुणिमाहारेणं पंचिन्द्रियवधेणं नेरइयाउयकम्मा सरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएण नेरइयाउयकम्मासरीर जाव पओगवधे) वधे । वधारे आरम्भ करवाधी, वधे । अ वधारे परिग्रह राभववाधी भासने आहार करवाधी, पञ्चेन्द्रिय लुपेने वध करवाधी तथा नारकायुषकामंजुशरीरप्रयोगान्नाम कर्मना उदय वधधी नारकायुषकामंजुशरीरप्रयोगवध भावधे (तिरिक्खजोगियाउय कम्मासरीरप्पओगपुच्छा) हे भदन्त ! तिर्यग्योनिकायुषकामंजुशरीरप्रयोगवध क्या कर्मना उदयधी भावधे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (माइल्लियाए नियडिल्लियाए अल्लियवधणेणं कूडतुलकूडमाणेणं, तिरिक्खजोगियकम्मासरीर जाव पओगवधे) मायाशरीरमें लीन रहेवाधी, कपट करवाधी, असत्य ग्राहवाधी,

प्रकृतिविनीततया, सानुक्रोशतया, अमत्सरिकतया मनुष्यायुष्ककर्मण यावत्-प्रयोग-
बन्धः । देवायुष्ककर्मणशरीरपृच्छा, गौतम ! सरागसंयमेन, संयमासंयमेन बाल-
तपःकर्मणा, अकामनिर्जराया, देवायुष्ककर्मणशरीरयावत् प्रयोगबन्धः । शुभना-

से, कपट करने से, झूठ वचन बोलनेसे, कम तोलने और कम
नापनेसे, तथा तिर्यचयोनिकायुषकर्मण शरीरप्रयोग नामकर्मके उदयसे
तिर्यचयोनिकायुष कर्मणशरीरप्रयोगबंध होता है । (मणुस्साउयकम्मा
सरीरपुच्छा) हे भदन्त मनुष्यायुष्यकर्मणशरीरप्रयोगबंध किस कर्मके
उदयसे होता है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (पगइ भइयाए पगइविणीयाए
साणुक्कोसयाए, अमच्छरियाए मणुस्साउयकम्मा जाव वंधे) प्रकृतिभद्र
होने से, स्वभावतः विनीत होने से, दयालु होने से, अमत्सरभाव से
युक्त होने से, तथा मनुष्यायुषकर्मण शरीरप्रयोग नाम कर्म के उदयसे
से मनुष्यायुषकर्मणशरीरप्रयोगबंध होता है । (देवाउयकम्मासरीर
पुच्छा) हे भदन्त ! देवायुषकर्मणशरीरप्रयोगबंध किस कर्म के उदय
होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सरागसंजमेणं, संजमासंजमेणं,
बालतवोकम्मेणं, अकामनिज्जराए, देवाउयकम्मासरीर जावपओग वंधे)
सरागसंयम, संयमासंयम, बालतप, अकामनिर्जरा इनसे तथा देवायुष
कर्मणशरीरप्रयोग नामकर्म के उदय से यावत् प्रयोगबंध होता है ।

ओछुं तोणवाथी अने ओछु भापवाथी, तथा तिर्यचयोनिकायुषकर्मशरीर-
प्रयोगनाम कर्मना उदयथी तिर्यचयोनिकायुष कर्मणशरीरप्रयोगबंध थाय छे,
(मणुस्साउय कम्मासरीरपुच्छा) हे भदन्त ! मनुष्यायुष कर्मणशरीरप्रयोग-
बंध क्या कर्मना उदयथी थाय छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (पगइभइयाए, पगइविणिययाए, साणुक्कोसयाए
अमच्छरियाए, मणुस्साउय कम्मा जाव वंधे) प्रकृतिभद्र डोवाथी, विनीत स्वभाव-
वाणा डोवाथी, दयालु डोवाथी, निगलिभानी डोवाथी तथा मनुष्यायुष कर्मण
शरीरप्रयोगनाम कर्मना उदयथी मनुष्यायुष कर्मणशरीरप्रयोगबंध थाय छे.

(देवाउयकम्मासरीरपुच्छा) हे भदन्त ! देवायुष कर्मणशरीरप्रयोगबंध
क्या कर्मना उदयथी थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सरागसंजमेणं,
संजमासंजमेणं, बालतवोकम्मेणं, अकामनिज्जराए, देवाउयकम्मासरीरजावपओगबंधे)
सरागसंयमथी, संयमासंयमथी, बालतपथी, अकामनिर्जराथी तथा देवायुष
कर्मणशरीरप्रयोगनाम कर्मना उदयथी देवायुष कर्मणशरीरप्रयोगबंध थाय छे.



मकार्मणशरीरपुच्छा, गौतम ! कायज्जुक्कतया, भावज्जुक्कतया, अविस्सवादनयोगेन शुभनामकार्मणशरीरयावत्प्रयोगपथः ।

अशुभनामकार्मणशरीरपुच्छा, गौतम ! कायान्जुक्कतया, भावान्जुक्कतया, भापान्जुक्कतया, विसवादनयोगेन अशुभनामकार्मणयावत् प्रयोगपथः । उच्चगोत्रकार्मणशरीरपुच्छा - गौतम ! जात्यमदेन, कुलामदेन, वल्लामदेन,

(सुभनामकम्मासरीरपुच्छा) हे भदन्त ! शुभनामकार्मणशरीरप्रयोग पथ किस कर्म के उदय से होता है ? (कायज्जुक्कयाए, भावज्जुक्कयाए, भासुज्जुक्कयाए, अविस्सवापणजोगेणं सुभनामकम्मासरीरजावप्पभोग पथे) हे गौतम ! काय की सरलता से, भाव की सरलता से, भापा की सरलता से तथा योग के अविस्सवाद से और शुभनाम कार्मणशरीरप्रयोग नामकर्म के उदय से शुभनामकार्मणशरीरप्रयोगपथ होता है । (असुभनामकम्मासरीरपुच्छा) हे भदन्त ! अशुभनामकार्मणशरीरप्रयोगपथ किस कर्म के उदय से होता है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (काय अणुज्जुक्कयाए, भावअणुज्जुक्कयाए भासाणुज्जुक्कयाए, विसवापणाजोगेण असुभनामकम्माजावप्पभोगपथे) काय की बद्धता से, भाव की बद्धता से, भापा की बद्धता से, तथा योगों की कुटिलता से, एवं अशुभनामकार्मणशरीरप्रयोग नाम कर्म के उदय से अशुभनामकार्मणशरीरप्रयोगपथ होता है । (उच्चगोत्रकम्मासरीरपुच्छा) हे भदन्त ! उच्चगोत्रकार्मणशरीरप्रयोगपथ किस कर्म के उदय से होता है ?

(सुभनामकम्मासरीरपुच्छा) हे भदन्त ! शुभनाम कार्मणशरीरप्रयोगपथ क्या कर्मना उदयधी थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (कायज्जुक्कयाए, भावज्जुक्कयाए भासुज्जुक्कयाए, अविस्सवापणजोगेण सुभनामकम्मासरीर जावप्पभोगपथे) कायनी सरलताधी, भावनी सरलताधी, भापानी सरलताधी, योगेण अविस्सवादी तथा शुभनाम कार्मणशरीरप्रयोगेण कर्मना उदयधी शुभनामकार्मणशरीरप्रयोगपथ थाय छे (असुभनामकम्मासरीरपुच्छा) हे भदन्त ! अशुभनाम कार्मणशरीरप्रयोगपथ क्या कर्मना उदयधी थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (काय अणुज्जुक्कयाए भावअणुज्जुक्कयाए, भासाणुज्जुक्कयाए विसवापणाजोगेण असुभनामकम्मा जावप्पभोगपथे) कायनी वद्धता (असरलता) थी भावनी वद्धताधी, भापानी वद्धताधी, योगेणी कुटिलताधी तथा अशुभनाम कार्मणशरीर प्रयोगेण कर्मना उदयधी अशुभनाम कार्मणशरीर प्रयोगपथ थाय छे (उच्चगोत्रकम्मासरीरपुच्छा) हे भदन्त ! उच्चगोत्र कार्मणशरीर प्रयोगपथ क्या कर्मना उदयधी थाय छे ?

रूपामदेन, तपोऽमदेन, श्रुताऽमदेन, लाभाऽमदेन, ऐश्वर्याऽमदेन, उच्चगोत्र-
 कार्मणशरीरयावत् प्रयोगबन्धः, नीचगोत्रकार्मणशरीरपृच्छा, गौतम ! जातिमदेन,
 कुलमदेन, बलमदेन यावत् ऐश्वर्यमदेन नीचगोत्रकार्मणशरीरयावत्प्रयोगबन्धः,
 आन्तरायिककार्मणशरीरपृच्छा, गौतम ! दानान्तरायेण, लाभान्तरायेण, भोगा-
 (जातिअमएणं, कुलअमएणं, बलअमएणं, रूपअमएणं, तवअमएणं,
 सुयअमएणं, लाभअमएणं, इस्सरिय, अमदेणं उच्चगोयकस्मासरीर
 जावपओगबधे) हे गौतम ! जाति का मद नहीं करने से, कुलका मद
 नहीं करने से, बल का मद नहीं करने से, रूपका मद नहीं करनेसे, तप
 का मद नहीं करने से, श्रुत का मद नहीं करने से, लाभ का मद नहीं
 करने से ऐश्वर्य का मद नहीं करनेसे और उच्चगोत्रकार्मणशरीरप्रयो-
 गनाम कर्म के उदय से उच्चगोत्रकार्मणशरीरप्रयोगबन्ध होता है ।
 (नीचागोयकस्मासरीरपुच्छा) हे भदन्त ! नीचगोत्रकार्मणशरीरप्रयोग
 बन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जाति-
 मएणं, कुलमएणं, बलमएणं, जाव इस्सरियमएणं, नीचागोयकस्मास-
 रीर जाव पओगबधे) जाति का मद करने से, कुल का मद करने से,
 बल का मद करने से, यावत् ऐश्वर्य का मद करने से और नीचगोत्र
 कार्मणशरीरप्रयोग नाम कर्म के उदय से नीचगोत्रकार्मणशरीरप्रयोग
 बन्ध होता है । (अन्तराह्यकस्मासरीरपुच्छा) हे भदन्त ! अन्तरायका-
 र्मणशरीरप्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? (गोयमा !) हे

(जातिअमएण, कुल अमएणं, बलअमएण, रूपअमएण, तवअमएणं, सुय-
 अमएण, लाभअमएण, इस्सरियअमएणं, उच्चगोमकस्मासरीरपपओगबधे) हे
 गौतम ! नतिनेो मद नहीं करवाथी, कुणनेो मद नहीं करवाथी, षणनेो मद
 नहीं करवाथी, इपनेो मद नहीं करवाथी, तपनेो मद नहीं करवाथी, श्रुतनेो
 मद नहीं करवाथी, ऐश्वर्यनेो मद नहीं करवाथी, अने उच्चगोत्र कार्मण
 शरीर प्रयोग नाम कर्मना उदयथी उच्चगोत्र कार्म शरीर प्रयोगबध थाय छे
 (नीचागोयकस्मासरीरपुच्छा) हे लदन्त ! नीचगोत्र कार्मण शरीर प्रयोग
 बध कथा कर्मना उदयथी थाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जातिमएणं,
 कुलमएणं, बलमएणं, जाव इस्सरियमएणं नीचागोयकस्मासरीर जाव पपओगबधे)
 नति, कुण, षण, इप, तप, लाभ अने ऐश्वर्यनेो मद करवाथी अने नीच-
 गोत्र कार्मण शरीर प्रयोगनाम कर्मना उदयथी नीचगोत्र कार्मण शरीर
 प्रयोग बध थाय छे (अन्तराह्यकस्मासरीरपुच्छा) हे लदन्त ! अन्तराय
 कार्मण शरीर प्रयोग लध कथा कर्मना उदयथी थाय छे ? (गोयमा !) हे

અન્તરાયેણ, ઉપમોગાન્તરાયેણ, ધીર્યાન્તરાયેણ, અન્તરાયકાર્મણશરીરપ્રયોગનામ્નઃ
 કર્મણ ઉદયન અન્તરાયકાર્મણશરીરપ્રયોગવન્ધઃ । જ્ઞાનાવરણીયકાર્મણશરીરપ્રયોગ-
 ઘષઃ સ્વલુ મદન્ત ! કિં દેશવન્ધઃ સર્વવન્ધઃ ? ગૌતમ ! દેશવન્ધઃ નો સર્વવન્ધઃ,
 એવ યાવત્ અન્તરાયકાર્મણશરીરપ્રયોગવન્ધઃ । જ્ઞાનાવરણીયકાર્મણશરીરપ્રયોગવન્ધઃ
 સ્વલુ મદન્ત ! કાલતઃ કિવન્ધિવ મવતિ, ગૌતમ ! જ્ઞાનાવરણીયકાર્મણશરીરપ્રયોગ

ગૌતમ ! (જ્ઞાનાવરણ, સામંતરાણ, મોગતરાણ, ક્ષવમોગતરાણ, ધીરિયતરાણ,
 અતરાહ્યક્રમ્માસરીરપ્પમોગનામાપ કમ્મસ્સ ઉદણ અતરાહ્યક્રમ્માસરીરપ્પમોગવ ષે) જ્ઞાન મેં અન્તરાય કરને સે, સામ મેં
 અન્તરાય કરને સે, મોગ મેં અન્તરાય કરને સે, ઉપમોગ મેં અન્તરાય
 કરન સે ધીર્ય મેં અન્તરાય કરને સે તથા અતરાયકાર્મણશરીરપ્રયોગ
 નામ કર્મ કે ઉદય હોને સે અન્તરાયકાર્મણશરીરપ્રયોગવન્ધ હોતા હૈ ।
 (જ્ઞાનાવરણિજ્ઞક્રમ્માસરીરપ્પમોગવ ષે ણ મતે ! કિં દેસવ ષે સન્વ
 ષ ષે ? હ મદન્ત ! જ્ઞાનાવરણીય કાર્મણશરીરપ્રયોગવ ષ કયા દેશવન્ધરૂપ
 હૈ યા સર્વવન્ધરૂપ હૈ ? (મોગમા) હૈ ગૌતમ ! (દેસવ ષે જો સન્વવ ષે)
 જ્ઞાનાવરણીય કાર્મણશરીરપ્રયોગવ ષ દેશવ ષરૂપ હૈ, સર્વવન્ધરૂપ નહીં
 હૈ । (એવ જાવ અતરાહ્યક્રમ્માસરીરપ્પમોગવ ષે ષિ) હસી તરહ સે
 દર્શનાવરણીયકાર્મણશરીરપ્રયોગવ ષ સે હેકર અન્તરાયકાર્મણશરીરપ્ર
 યોગવ ષ મેં મી સમહજના ચાહિયે-અર્થાત્ યે સય દેશવન્ધરૂપ હૈ સર્વ-
 વન્ધરૂપ નહીં હૈ (જ્ઞાનાવરણિજ્ઞક્રમ્માસરીરપ્પમોગવ ષે ણ મતે ! કા

ગૌતમ ! (જ્ઞાનાવરણ સામંતરાણ, મોગતરાણ ક્ષવમોગતરાણ ધીરિયતરાણ
 અતરાહ્યક્રમ્માસરીરપ્પમોગ નામાવ કમ્મસ્સ ઉદણ અતરાહ્યક્રમ્માસરીરપ્પમોગવ ષે)
 જ્ઞાનમ્ અતરાહ્ય કરવાથી જ્ઞાનમા અતરાય કરવાથી મોગમ્ અતરાય કર
 વાથી, ઉપમોગમ્ અતરાય કરવાથી ધીર્યમ્ અતરાય કરવાથી અને અન્તરાય
 કાર્મણશરીરપ્રયોગનામ કર્મના ઉદયથી અતરાયકાર્મણશરીરપ્રયોગવ ષ થાય છે,

(જ્ઞાનાવરણિજ્ઞક્રમ્માસરીરપ્પમોગવ ષે ણ મતે ! કિં દેસવ ષે, સન્વવ ષે !)
 હે અન્ત ! જ્ઞાનાવરણીય શરીરપ્રયોગવ ષ શુ દેશવ ષરૂપ હોય છે હે સર્વ
 વન્ધરૂપ હોય છે ? (મોગમા) હેસવ ષે જો સન્વવ ષે) હે ગૌતમ ! જ્ઞાનાવરણીય
 કાર્મણશરીરપ્રયોગવ ષ દેશવ ષરૂપ છે સર્વવન્ધરૂપ નથી. (એવ જાવ અતરાહ્ય ક્રમ્મા
 સરીરપ્રયોગવ ષે ષિ) જોજ પ્રખાલે જ્ઞાનાવરણીય કાર્મણશરીરપ્રયોગવ ષથી તથા
 અન્તરાય કાર્મણશરીરપ્રયોગવ ષવન્ધના વન્ધી પણ દેશવ ષરૂપ છે સર્વવન્ધ
 નથી (જ્ઞાનાવરણિજ્ઞક્રમ્માસરીરપ્પમોગવ ષે ણ મતે ! કાલતઃ કિવન્ધિવ મવતિ હોઈ !)

वन्धः खलु द्विविधः प्रज्ञः, तद्यथा-अनादिकः सपर्यवसितः, अनादिकः अपर्यव-
सितो वा, एवं यथा तैजसस्य सन्धापना तथैव, एव यावत् अन्तरायकर्मणः
ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगवन्धान्तरं खलु भदन्त ! कालतः कियच्चिरं भवति
गौतम ! अनादिकस्य एवं यथा तैजसगरीरस्य अन्तरं तथैव, एवं यावत् अन्तरा-

लओ केवच्चिर होइ) हे भदन्त ! ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगवन्ध
काल की अपेक्षा कब तक रहता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (णाणा-
वरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवधे दुविहे पणत्ते) ज्ञानावरणीयकर्मणशरी-
रप्रयोगवन्ध दो प्रकारका कहा गया है । (तंजहा) जो इस प्रकार से हैं ।
(अणाइए सपज्जवसिए, अणाइए अपज्जवसिए) अनादि सपर्यवसित
अनादि अपर्यवसित (एवं जहा तेयगस्स संचिद्वणा तहेव, एवं जाव
अंतराइयकम्मस्स) इसी तरह से यावत् जैसा तैजसशरीर का स्थिति
काल कहा है उसी तरह से यहां पर भी कहना चाहिये । इसी तरहसे
यावत् अन्तराय कर्म का स्थितिकाल जानना चाहिये । (णाणावरणि-
ज्जकम्मासरीरप्पओगवधंतरे णं भंते ! कालओ केवच्चिर होइ) हे
भदन्त ! ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगवन्ध का अन्तर कालकी अपेक्षा
कितना कहा गया है ? (गोयमा) हे गौतम ! (अणाइयस्स एवं तेय-
गसरीरस्स अंतरं तहेव, एवं जाव अंतराइयस्स) ज्ञानावरणीयकर्मण-
शरीरप्रयोगवन्ध का अन्तरकाल की अपेक्षा अनादि अनन्त और अनादि

हे भदन्त ! ज्ञानावरणीय कर्मणशरीरप्रयोगवन्ध का ज्ञानी अपेक्षाओं क्या सुधी
रहे छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवधे दुविहे
पणत्ते) ज्ञानावरणीय कर्मणशरीरप्रयोगवन्ध के प्रकारको कह्यो छे (तंजहा)
के प्रकारको नीचे प्रभाष्ये छे-(अणाइए सपज्जवसिए, अणाइए अपज्जवसिए)
(१) अनादि सपर्यवसित (२) अनादि अपर्यवसित (एवं जहा तेयगस्स
संचिद्वणा, तहेव, एवं जाव अंतराइयकम्मस्स) तैजस शरीरको जेवो
स्थितिकाण कह्यो छे, अवेो स्थितिकाण अहीं पणु कहेवो जेधंजे जेज्ज
प्रभाष्ये अन्तराय पर्यन्तना कर्मणशरीरप्रयोगवन्धको स्थितिकाण समज्जवेो
(णाणावरणिज्ज कम्मसरीरप्पओगवधतरेण भंते ! कालओ केवच्चिर होइ ?)
हे भदन्त ! ज्ञानावरणीय कर्मणशरीरप्रयोगवन्धनु अन्तर का ज्ञानी अपेक्षाओं
कहेतु कह्यो छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! अणाइयस्स एवं जहा तेयगसरीरस्स
अन्तर तहेव, एवं जाव अंतराइयस्स) ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगवन्धनु
अन्तर का ज्ञानी अपेक्षाओं अनादि अनन्त अने-
अनादि सान्त कह्यो छे जे

यिकस्य । एतर्षां खलु भवन्त ! जीवानां ज्ञानावरणीयस्य कर्मणो देशबन्धकानाम्
 अपन्धकानां च कतरं कतरेभ्यो यावत् अल्पबहुत्वं यथा तैजसस्य, एवम् आयुष्य
 र्भवे यावत् अन्तरायिकस्य, आयुष्यस्य । पृच्छा, गौतम ! सर्वस्तोका जीवा
 आयुष्यस्य कर्मणो देशबन्धका, अपन्धका संख्येयगुणाः ॥ सू० ९ ॥

सान्त कदा गया है । जिस तरह से तैजसशरीरप्रयोगबन्ध का अन्तर
 कहा गया है—वसी तरह से यहाँ पर भी कहना चाहिये । इसी तरह
 से यावत् अन्तरायिकार्मणशरीरप्रयोगबन्ध का अन्तर जानना चाहिये ।
 (एषसि ण भंते ! जीवाणं णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स देसबन्धगणं
 अपन्धगाणं य कयरे कयरेहितो जाव) हे भवन्त ! ज्ञानावरणीय कर्म के
 देशबन्धक और अपन्धक जीवों में से कौन जीव किन जीवों की अपेक्षा
 यावत् विशेषाधिक हैं ? (अप्पावहुगं जहा तेयगस्स एवं आउयवउजं
 जाव अतराहयस्स) हे गौतम ! जैसा तैजसशरीर का अल्प बहुत्वं
 कहा गया है, वसी तरह से यहाँ पर भी जानना चाहिये । इसी
 तरह से आयुष्य कर्म के सिवाय यावत् अन्तरायिकार्मणक जानना
 चाहिये । (आउयस्सपुच्छा) हे भवन्त ! आयुष्यकर्म के देशबन्धक और
 अपन्धक जीवों में से कौन जीव किनकी अपेक्षा यावत् विशेषाधिक
 हैं ? (गोयमा) गौतम ! (सम्बत्थोवा जीवा आउयस्स कम्मस्स देसबं
 धगा, अपन्धगा संख्येयगुणा) तब से कम जीव आयुष्यकर्म के देशबन्धक
 हैं और इन देशबन्धकों से संख्यातगुणों जीव आयुष्यकर्मके अपन्धक जीव हैं ।

प्रभाषे तैजसशरीरप्रयोगबन्धेन अन्तरं कर्तुं ते ज्ञेयं प्रभाषे अर्द्धी पक्ष
 कर्तव्यं ज्ञेयं ज्ञेयं प्रभाषे अन्तरायिकप्रयन्तनां कर्मणुशरीरप्रयोगबन्धेन अन्तर
 यमन्तुं (एषसि ण भंते ! जीवाणं णाणावरणिज्जस्स देसबन्धगणं अपन्धगाणं य कयरे
 कयरेहितो जाव) हे भवन्त ! ज्ञानावरणीय कर्मों का देशबन्धक होने अल्पबहुत्वं
 कदा कदा कर्तव्यं ज्ञेयं ते ? अधिकं ते ? समानं ते ? अने विशेषाधिकं ते ?
 (अप्पावहुगं जहा तेयगस्स एवं आउयवउजं जाव अतराहयस्स) हे गौतम !
 तैजस शरीरना अल्प बहुत्वं कर्तव्यं कथं कथं कथं ज्ञेयं ते ज्ञेयं प्रभारतुं
 कथं आयुष्यकर्म सिवायना अन्तरायिकप्रयन्तनां कर्मों विषे समन्तुं (आउयस्स
 पुच्छा) हे भवन्त ! आयुष्यकर्मना देशबन्धक अने अपन्धक एवेभां कदा कदा
 कर्तव्यं ज्ञेयं ते ? अधिकं ते ? समानं ते ? विशेषाधिकं ते ? (गोयमा ।)
 हे गौतम ! (सम्बत्थोवा जीवा आउयस्स कम्मस्स देसबन्धगा अपन्धगा संख्येयगुणा)
 आयुष्यकर्मना देशबन्धक एवे सौधीं ज्ञेयां ते अने आयुष्यकर्मना अपन्धक
 एवे देशबन्धक कर्तव्यं संख्यातगुणां ते

टीका—कम्मासरीरप्पओगवंधे णं भंते ! कइविहे पणत्ते ? ' गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! कर्मणशरीरप्रयोगबन्धः खलु कतिविधः प्रज्ञप्तः ? भगवानाह—' गोयमा ! अट्टविहे पणत्ते ' हे गौतम ! कर्मणशरीरप्रयोगबन्धः खलु अष्टविधः प्रज्ञप्तः, ' तं जहा-नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवंधे जाव अंतराइयकम्मासरीरप्पओगवंधे ' तद्यथा ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगबन्धः, यावत् दर्शनावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगबन्धः, वेदनीयकर्मणशरीरप्रयोगबन्धः, मोहनीयकर्मणशरीरप्रयोगबन्धः, आयुष्ककर्मणशरीरप्रयोगबन्धः, नामकर्मणशरीरप्रयोगबन्धः, गोत्रकर्मणशरीरप्रयोगबन्धः, अन्तरायिककर्मणशरीरप्रयोग-

टीकार्थ—इस सूत्र द्वारा सूत्रकार ने कर्मणशरीरप्रयोगबन्ध की प्ररूपणा की है—इसमें गौतमने प्रभु से ऐसा पूछा है कि—(कम्मासरीरप्पओगवंधे णं भंते ! कइविहे पणत्ते) हे भदन्त ! कर्मण शरीरप्रयोगबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (अट्टविहे पणत्ते) कर्मणशरीरप्रयोगबन्ध आठ प्रकार का कहा गया है । (तं जहा) जो इस प्रकार से है—(नाणावरणिज्ज कम्मासरीरप्पओगवंधे जाव अंतराइय कम्मासरीरप्पओगवंधे) ज्ञानावरणीय कर्मण शरीरप्रयोगबन्ध यावत् अन्तराय कर्मणशरीरप्रयोगबन्ध यहाँ " यावत् " शब्द से दर्शनावरणीय कर्मणशरीरप्रयोगबन्ध वेदनीय कर्मण शरीरप्रयोगबन्ध, मोहनीय कर्मण शरीरप्रयोगबन्ध, आयुष्क कर्मण शरीरप्रयोगबन्ध, नामकर्मणशरीरप्रयोगबन्ध, गोत्रकर्मणशरीरप्रयोगबन्ध " इन कर्मण शरीरप्रयोगबन्धों का ग्रहण हुआ है ।

टीकार्थ—आ सूत्र द्वारा सूत्रकारे कर्मण शरीर प्रयोगबन्धनी प्ररूपणा करी छे आ विषयने अनुलक्षीने गौतम स्वामी भडावीर प्रभुने ओवे प्रश्न पूछे छे के—(कम्मासरीरप्पओगवंधे णं भंते ! कइविहे पणत्ते ?) छे भदन्त ! कर्मण शरीर प्रयोगबन्ध केटला प्रकारने कइयो छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—' गोयमा ! अट्टविहे पणत्ते—तं जहा ' छे गौतम ! कर्मण शरीर प्रयोगबन्धना नीचे प्रमाणे आठ प्रकार कइया छे—(नाणावरणिज्ज कम्मासरीरप्पओग वंधे अंतराइय कम्मासरीरप्पओग वंधे) (१) ज्ञानावरणीय कर्मण शरीर प्रयोगबन्ध, (२) दर्शनावरणीय कर्मण शरीर प्रयोगबन्ध (३) वेदनीय कर्मण शरीर प्रयोगबन्ध, (४) मोहनीय कर्मण शरीर प्रयोगबन्ध (५) आयुष्क कर्मण शरीर प्रयोगबन्ध, (६) नाम कर्मण शरीर प्रयोगबन्ध, (७) गोत्र कर्मण शरीर प्रयोगबन्ध अने (८) अन्तराय कर्मण शरीर प्रयोगबन्ध.

बन्धन, गौतमः पृच्छति—' पाणावरणिञ्ज कम्मा सरीरप्पओगव घे ण भव ! कस्स कम्मस्स उदएण ? इ गदन्त । ज्ञानावरणीय कामणशरीरप्रयोगघः खल्ल कस्य कर्मण उदयेन भवति ? मगवानाह—' गोयमा ! नाणपडिणीययाए पाणपिण्ह घणयाए, णाणतराएण, णाणप्पओसेण, णाणच्चासायणाए ' हे गौतम ! ज्ञानप्रत्यनीकता नीकतया अत्र ज्ञानस्य भुतादेः धर्मधर्मिणोरभवेन तदभेदात् ज्ञानवर्ता वा या प्रत्य नीकता सामान्येन प्रतिकूलता, सा, तथा तथा, ज्ञानस्य ज्ञानिनो वा, प्रतिकूलतयत्यर्थः, ज्ञाननिवृत्ततया ज्ञानस्य भुतादेः भुतगुरूणां वा या निवृत्तता अपरूपन सा तथा तथा, ज्ञानस्य ज्ञानशत्रुर्गुरोर्वा अपलापनेत्यर्थः,

अथ गौतमस्यामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(पाणावरणिञ्जकम्मा सरीरप्पओगव घे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएण) हे भदन्त ! ज्ञानावरणीयकामेणशरीरप्रयोगघ कसि के उदय से होता है ? उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(नाणपडिणीययाए, १ णाणणिण्हघयाए, २ णाणतराएण, ३ णाणप्पओसेणं ४ णाणच्चासायणाए ५) हे गौतम ! ज्ञानप्रत्यनीकता के भुतज्ञानादिके विषय में अथवा धर्म धर्मों के अभेद से भुतज्ञानादिके वालों के विषय में प्रतिकूल आचरण से, अर्थात् भुतज्ञानादिके विरुद्ध आचरण करनेसे या भुतज्ञानादिके वालोंमें विरुद्ध आचरण करनेकी प्रवृत्ति रखनेसे तथा ज्ञानके निवृत्त करने से—कोई किसीसे पूछे या भुतज्ञानादिके का साधन मगि, तब ज्ञान या ज्ञान के साधन अपने पास होने पर भी कल्पित भाव से यह कहना कि मैं नहीं जानता अथवा मेरे पास यह वस्तु ही नहीं यह ज्ञाननिवृत्त है—इस प्रकार के ज्ञाननिवृत्त से, अथवा

गौतम गौतमीना प्रश्न— पाणावरणिञ्ज कम्मासरीरप्पओगव घे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? " हे भदन्त ! ज्ञानावरणीय कामण शरीर प्रयोगघ घे णं कम्मना उदयेथी थाय छे ?

भद्रावीर प्रश्नुने उत्तर—(नाणपडिणीययाए णाणणिण्हघयाए, णाणतराएण, णाणप्पओसेणं पाणक्कासायणाए) हे गौतम ! ज्ञानप्रत्यनीकताधी (ज्येष्ठे के भुतज्ञानादिकेना विषयभां अथवा धर्मधर्मिणा अभेदनी अपेक्षासे भुतज्ञानादिके वाजाज्येना विषयभां प्रतिकूल आचरणधी—ज्येष्ठे के भुतज्ञानादिकेनी विरुद्धता आचरणधी अथवा भुतज्ञानादिकेनाज्येष्ठे प्रत्ये विरुद्ध आचरण करवाधी) ज्ञानने निवृत्त करवाधी (डोछ डोछने पूछे अथवा भुतज्ञानादिकेना साधन भागे, त्पारे ज्ञान अथवा ज्ञाननां साधने पोतानी पसे डोवा छत्रां कल्पित भावभां ज्येष्ठे कडेपुं के दुं अजुते नथी, अथवा भारी भागे ते वस्तु न नथी, " तेनु नाम न ज्ञाननिवृत्त छे), अथवा भुतभ्राता प्रवृत्तनेना निवृत्तधी—अथ

ज्ञानान्तरायेण ज्ञानस्य श्रुतस्य अन्तरायः—तद्ग्रहणादौ यो विधनः स तथा, तेन ज्ञानग्रहणप्रतिवन्धरूपत्यत्रायेनेत्यर्थः, ज्ञानप्रद्वेषेण, ज्ञाने श्रुतादौ श्रुतादिज्ञानवत्सु गुरुषु वा यः प्रद्वेषः अप्रीतिः स तथा तेनेत्यर्थः, ज्ञानात्याशातनया ज्ञानस्य श्रुतादेः श्रुतादिज्ञानिनां वा या अत्याशातना अवहेलना सा तथा तथा, 'णाणविसंवायणाजोगेणं' ज्ञानविसंवादनयोगेन ज्ञानस्य ज्ञानिनां वा यो विसंवादनयोगः—निष्फलता प्रदर्शनव्यापारः स तथा तेन, एतानि च षड्वाह्यानि कारणानि ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरवन्धे प्रतिपादितानि, अथाभ्यन्तरिकं कारणं प्रतिपादयितुमाह—'णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवन्धे' ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगनाम्नः—ज्ञानावरणीयहेतुत्वेन ज्ञानावरणीयलक्षणं कर्मणशरीरप्रयोगनाम तस्य कर्मण उदयेन ज्ञानावरणीयकर्मण-

श्रुतप्रदाता गुरुजनों के निहव से—अपलाप से, तथा ज्ञानान्तराय से—कलुषित भाव से ज्ञानप्राप्ति में किसी को बाधा पहुँचाने से, तथा ज्ञानप्रद्वेष से, श्रुतादिज्ञान में अथवा श्रुतादिज्ञानवाले गुरुजनों में अप्रीति रखने से, तथा ज्ञानात्याशातना से—श्रुतादिज्ञान की या श्रुतादिज्ञानशालीजनों की अवहेलना करने से तथा (णाणविसंवायणाजोगेणं) ज्ञान और ज्ञानिजनों को निष्फल बतलाने की चेष्टा करते रहने से, इन पांच बाह्यकारणों से तथा अन्तरंग कारणरूप (णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं) ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोग नाम कर्मके उदयसे (णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवन्धे) ज्ञानावरणीय कर्मणशरीरप्रयोगवन्ध होता है। तात्पर्य कहनेका यह है कि जीवके जो ज्ञानावरणीयकर्मशरीरप्रयोगवन्ध होता है वह ज्ञानप्रत्यनीकतादि पांच बाह्य कारणों से तथा ज्ञानावरणीयशरीरप्रयोगरूप कर्म के उदयसे होता है।

लापथी, ज्ञानान्तरायथी, (कलुषित लावथी कोइनी ज्ञानप्राप्तिमां अंतराय जल्लो करवाथी) ज्ञानद्वेषथी, श्रुतज्ञानमां अथवा श्रुतादिज्ञानवाणा गुरुजनोंमां अप्रीति राभवथी, तथा श्रुतादिज्ञाननी अथवा श्रुतादिज्ञानवाणा दोकोनी अवहेलना करवाथी, तथा "णाणविसंवायणा जोगेणं" ज्ञान अने ज्ञानीजनेने निष्फलताववाणी चेष्टा करता रहेवाथी, आ आह्य कारणुथी तथा अंतरंग कारणुइप (णाणावरणिज्ज कम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं) ज्ञानावरणीय कर्मणु शरीर प्रयोग नाम कर्मना उदयथी "णाणावरणिज्ज कम्मा सरीरप्पओगवन्धे" ज्ञानावरणीय कर्मणु शरीर प्रयोगवन्ध थाय छे आ कर्धनेने लावार्थं ये छे के एव ज्ञानावरणीय कर्मणु शरीर प्रयोग वन्ध करे छे, ते ज्ञानप्रत्यनीकता आदि पांच आह्य कारणुथी त

शरीरप्रयोगवशो भवति ' दरिसणावरणिज्जकम्मासरीरप्रयोगवशे ष भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ' गौतमः पृच्छति-हे मद्दन्त ! दर्शनावरणीय कर्मणशरीर प्रयोगवन्धः खलु कस्य कर्मण उदयेन भवति ? भगवानाह- ' गोयमा ! दंसण पडिणीययाए ' हे गौतम ! दर्शनप्रत्यनीकताया, दर्शनस्य चक्षुर्वर्धनादे स्तद्वता वा या प्रत्यनीकता प्रतिकूलता तयेत्यर्थः ' एवं जहा णाणावरणिज्जं ' एवमुक्त रीत्या यथा ज्ञानावरणीय ज्ञानावरणीयकामणशरीरप्रयोगवशविषये प्रतिपादितं तथैव अत्रापि प्रतिपत्तव्यम्, ' नवरं दंसणनामषेत्तव ' नवर चिन्नेपस्तु ज्ञानावर

अथ गौतमस्वामी प्रश्नु से दर्शनावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगवश कैसे होता है इस बात को पूछते हैं- (दरिसणावरणिज्जकम्मासरी रप्रयोगवशेणं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं) इसके उत्तर में प्रश्नु कहते हैं- (गोयमा) हे गौतम ! (दंसणपडिणीययाए) दर्शन चक्षुर्वर्धनादि अथवा चक्षुर्वर्धनादिधार्मिकों में प्रतिकूल आचरण करने से, (एव जहा णाणावरणिज्जं) इस प्रकार जैसे ज्ञानावरणीयकर्मणशरीर प्रयोग के बंध में जो कारण कहे गये हैं उन्हीं कारणों को दशन के विषय में करने से, दर्शनावरणीयकर्मणशरीरप्रयोग का बंध होता है । तात्पर्य-ऐसा है कि जिस प्रकार ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगवश में ज्ञानप्रत्यनीकता, ज्ञाननिह्वयता, ज्ञानान्तराय, ज्ञानप्रद्वेष, और ज्ञानात्या शासना और ज्ञानविसवादनयोग से छह पाश्च कारण कहे गये हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी दर्शनप्रत्यनीकता दर्शननिह्वयता, दर्शनान्तराय,

दृश्यधी कहेछे हेवे जौतमस्वामी इग नावरणीय कामण विषयमां पवु जेवेअ प्रस पूछे छे (दरिसणावरणिज्जकम्मासरीरप्रयोगवशेणं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ?) हे मद्दन्ता इश नावरणीय कामणुशरीरप्रयोगवश कथा कर्मना उदयधी माय छे । मद्दन्तीर प्रश्नुने उत्तर- " गोयमा ! " छे जौतम ! (दंसणपडिणीययाए) इशन प्रत्यनीकताधी जेट्ठे के अशुदर्शनादि अथवा अशुदर्शनादिवाणानो प्रत्ते प्रतिकूल आचरणु करवाधी, एव जहा णाणावरणिज्जं " तथा ज्ञानावरणीय कामणु शरीर प्रयोगवशमां ने कएवे कहेवाभां आब्यां छे ते कएवे इश नना विषयमां करवाधी दर्शनावरणीय कामणु शरीर प्रयोगने अथ माय छे आ कथनने आचार्य जेवे छे के-नेम ज्ञानावरणीय कामणु शरीर प्रयोग वधमां ज्ञानप्रत्यनीकता, ज्ञाननिह्वयता, ज्ञानांतराय, ज्ञानप्रद्वेष, ज्ञानात्याशासना अने ज्ञानविसवादन योग, जे छे आशु कएवे कहेवाभां आब्या छे जेअ प्रभावे इश नावरणीय कामणु शरीर प्रयोगवशमां पवु इशनप्रत्यनीकता, इशननिह्वयता, इशनान्तराय, इशनप्रद्वेष, इशनत्याशासना, तथा दर्शनविस

णीयस्थाने दर्शनं नाम दर्शनावरणोपे नाम ग्रहीतव्यम्, ' जाव दंसणा विसंवाद्यणजोगेण ' यावत् दर्शननिवृत्तया, दर्शनान्तरायेण, दर्शनप्रद्वेषेण, दर्शना-
त्यागात्तनया, दर्शनविसंवादनयोगेन दर्शनस्य यो विसंवादनयोगः निष्फलता
दर्शनव्यापारस्तेनेत्यर्थः ' दरिसणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स
उदएणं जाव प्पओगवधे ' दर्शनावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगनाम्नः—दर्शनावर-

दर्शनप्रद्वेष तथा दर्शनविसंवादनयोग ये छद् वाह्य कारण हैं और अंत
रङ्ग कारण दर्शनावरणीयकर्मणशरीरप्रयोग हैं। इन वाह्य और अंतरङ्ग
कारणों से हे गौतम ! जीव दर्शनावरणीयकर्मणशरीरप्रयोग का बंध
करता है। दर्शनप्रत्यनीकता या ज्ञान प्रत्यनीकता में दर्शन के विषय में
या ज्ञान के विषय में सामान्यरूप से प्रतिकूलता प्रकट की गई है—तब
कि निहव, अन्तराय आदि द्वारा तत्तच्छिष्य में विशेषरूप से यह प्रति-
कूलता की जाती है—जब जीव ज्ञान के विषय में या ज्ञानिजनों के
विषय में निहवादिकों को करता है तब वह ज्ञानावरणीयशरीरप्रयोग
का बंध करता है और जब दर्शन या दर्शनधारियों के विषय में इनका
उपयोग करता है—तब वह दर्शनावरणीयकर्मणशरीरप्रयोग का बंध
करता है। यही बात (नवरं दंसणचेत्तव्वं जाव दंसणविसंवाद्यणजोगेण)
इस सूत्रपाठ द्वारा समझाई गई है। तथा दर्शनावरणीयकर्मणशरीरप्र-
योगवध में अंतरङ्ग कारण (दरिसणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगनामाए

वाहन योग, એ છ બાહ્ય કારણો છે અને અંતરંગ કારણ દર્શનાવરણીય
કાર્મણુ શરીર પ્રયોગ છે આ બાહ્ય અને અંતરંગ કારણોથી, હે ગૌતમ !
છવ દર્શનાવરણીય કાર્મણુ શરીર પ્રયોગનો બંધ કરે છે. દર્શન પ્રત્યનીકતા
અથવા જ્ઞાન પ્રત્યનીકતામાં દર્શનના વિષયમાં અથવા જ્ઞાનના વિષયમાં સામાન્ય
રૂપે પ્રતિકૂલતા પ્રકટ કરવામાં આવી છે, પરંતુ નિહવ, અન્તરાય આદિ દ્વારા
દર્શન અને જ્ઞાન પ્રત્યે વિશેષ રૂપે પ્રતિકૂલતા પ્રકટ કરવામાં આવી છે ન્યારે
છવ જ્ઞાનના વિષયમાં કે જ્ઞાનીજનોના વિષયમાં પ્રત્યનીકતા, નિહનવ આદિનુ
આચરણુ કરે છે, ત્યારે તે જ્ઞાનાવરણીય કાર્મણુ શરીર પ્રયોગનો બંધ કરે છે
અને ન્યારે તે દર્શન અથવા દર્શનધારીઓના વિષયમાં તેમનો ઉપયોગ કરે
છે, ત્યારે તે દર્શનાવરણીય કાર્મણુ શરીર પ્રયોગનો બંધ કરે છે એજ વાત
“નવરં દંસણચેત્તવ્વં જાવ દંસણ-વિસંવાયણજોગેણ” આ સૂત્રપાઠ દ્વારા
સમજાવવામાં આવી છે તથા દર્શનાવરણીય કાર્મણુ શરીર પ્રયોગવધમાં જે
અંતરંગ કારણુ છે (દરિસણાવરણિજ્જકમ્મા સરીરપ્પઓગ નામાપ કમ્મસ્સ ઉદ-
પ્પણં જાવ પ્પઓગવધે) તે આ સૂત્રપાઠ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.

णीयहेतुत्वेन दर्शनावरणीयस्वरूपं यत्कार्मणशरीरप्रयोगनाम तस्य कर्मण उदयन
यावत् दर्शनावरणीयकार्मणशरीरप्रयोगपक्षो भवति । गौतमः पृच्छति—‘सायावेय
गिज्जकम्मासरीरप्पभोगवधे णं भत्ते ! कस्स कम्मस्स उदण्ण ?’ हे भदन्त !
सातावेदनीयकार्मणशरीरप्रयोगवधः खलु कस्य कर्मण उदयेन भवति ? मग
धानाह—‘ गोयमा ! पाणाणुकपयाए, भूयाणुकपयाए एव महा सत्तमसए इत्तमो-
हसए जाव अपरियावणयाए ’ हे गौतम ! माणानुकम्पया, भूतानुकम्पया, एव
रीत्या यथा सत्तमशतके दशमोद्देशके दुप्पमायाः पणोद्देशके यावत् जीवानुकम्पया,
सत्त्वानुकम्पया, यद्दृणां प्राणानां भूतानां, जीवानां, सत्त्वानाम् अदुःखनतया,
अशोचनतया, अजूरणतया, अतेपनतया, अपिट्टनतया, अपरित्तापनतया ‘साया-

कम्मस्स उदण्णं जावप्पभोगवधे) इस सूत्र द्वारा प्रकट किया गया है ।
(जावप्पभोगवधे) ऐसा जो पाठ रखा है—इससे (दर्शनावरणीयकार्म
णशरीर) इतना पाठ ग्रहण किया गया है ।

अब गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—सायावेयगिज्जकम्मासरी
रप्पभोगवधे णं भत्ते ! कस्स कम्मस्स उदण्णं) हे भदन्त ! सातावेदनीय
कार्मणशरीरप्रयोगवध किस कर्म के उदय से होता है ? उत्तर में प्रश्न
कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (पाणाणुकपयाए, भूयाणुकपयाए, एवं जहा
सत्तमसए इत्तमोद्देशए जाव अपरियावणयाए) प्राणानुकपा से प्राणियों
के ऊपर दया रखने से भूतों के ऊपर दया रखने से, तैसा सत्तमशतक
के दुःखम नामक छठे उद्देशक में कहा है—“ जीवानुकपया, सत्त्वानुक
पया यद्दृणां प्राणानां भूतानां, जीवानां, सत्त्वानाम्, अदुःखनतया,
अशोचनतया, अजूरणतया, अतेपनतया, अपिट्टनतया, अपरित्तापन
तया ” यह पाठ कहा गया है—इस रीति के जीवाधिकों के ऊपर अनु

जावप्पभोगवधे ” यथां ये ‘ जाव ” यह भूतवामां आन्धुं छे तेना द्वारा
‘ दर्शनावरणीय कार्मण शरीर ” आटटो। यह अद्वय करवामां आन्धुं छे

गौतम स्वामीने प्रश्न—(सायावेयगिज्ज कम्मा सरीरप्पभोग वधे ण भत्ते !
कस्स कम्मस्स उदण्ण ? हे भदन्त ! सातावेदनीय कार्मण शरीर प्रयोगवध
कथा हमना उदयसी याव छे ?

भद्वीर प्रश्नुने उत्तर—‘ गोयमा । ” हे गौतम ! (पाणाणुकपयाए,
भूयाणुकपयाए एवं जहा सत्तमसए इत्तमोद्देशए जाव अपरियावणयाए) प्राणानु
कपाधी जेट्टे के प्राणीजो उपर अनुकपा राभवधी, भूतो (वनस्पतिहायिके)
उपर इया राभवधी जने सातमां शतकना इत्तम नामना छुं उदयकमां

वेयणिज्जकम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं सायावेयणिज्ज कम्मा-
जाव-बंधे' सातावेदनीयकर्मणशरीरप्रयोगनाम्नः कर्मण उदयेन सातावेदनीय-
कर्मण-यावत्-शरीरप्रयोगवन्धो भवति । गौतमः पृच्छति- 'असायावेयणिज्ज-
पुच्छा' हे भदन्त ! असातावेदनीयपृच्छा, तथा च असातावेदनीयकर्मण-
शरीरप्रयोगवन्धः कस्य कर्मण उदयेन भवतीति प्रश्नः, भगवानाह- 'गोयमा !
परदुक्खणयाए, परसोयणयाए, जहा सत्तमसए दुस्समोद्देसए जाव परियावणयाए
असायवेयणिज्ज-कम्मा-जाव-प्पओगबंधे' हे गौतम ! परदुःखनतया, परपीडनतया
परशोचनतया परशोकोत्पादकतया, यथा सप्तमशते षष्ठेदुःशमोद्देशके यावत् जूरण-

कंपादि रखने से तथा अंतरंग में-(सायावेयणिज्ज कम्मासरीरप्पओग
नामाए कम्मस्स उदएणं) सातावेदनीयकर्मणशरीरप्रयोग नामक कर्म
के उदय होने से जीव के (सायावेयणिज्जकम्मा जाव वंधे) सातावेद-
नीयकर्मणशरीरप्रयोग का बन्ध होता है ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं-(असायावेयणिज्ज
पुच्छा) हे भदन्त ! असातावेदनीयकर्मणशरीरप्रयोगबंध जीव के
किम कर्म के उदय से होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं-(परदु-
क्खणाए, परसोयणयाए, जहासत्तमसए दुस्समोद्देसए, जाव परियावण-
याए असायवेयणिज्ज कम्मा जावप्पओगबंधे) हे गौतम ! सातावेदनीय
कर्मबंध के जो कारण कहे गये हैं-उनसे विरुद्ध कारणों से असातावे-

हडेलों अपरितापना पर्यन्तना आह्य कारण्णोथी तथा (सायावेयणिज्ज कम्मा
सरीरप्पओग नामाए कम्मस्स उदएणं) अतरगु कारण्णुप सातावेदनीय कर्मण्णु
शरीर प्रयोग नामक कर्मना उदयथी "सायावेयणिज्ज कम्मा जाव वंधे" एवने
सातावेदनीय कर्मण्णु शरीर प्रयोगना बंध थाय छे उपर्युक्त सातामां शत-
कना छ्हा उदेशकमाथी नीयेना पाठ अहण्णु करवामा आये छे येम सभण्णु
(जीवानुकंपया, सत्वानुकंपया, बहूना प्राणाना, भूताना, जीवानां, सत्वानाम्,
अदु खनतया, अशोचनतया, अजूरणतया, अतेपनतया, अपिट्टनतया, अपरितापनतया)
आ पटोना अर्थ निज्ञासुओये ते उदेशकमाथी न्णो देवे।

इसे गौतमस्वामी भडावीर प्रभुने पूछे छे के-(असाया वेयणिज्ज पुच्छा)
हे भदन्त ! असाता वेदनीय कर्मण्णुशरीरने बंध क्या कर्मना उदयथी थाय छे ?
भडावीर प्रभुने उत्तर-(परदुक्खणयाए, परसोयणयाए, जहा सत्तमसए
दुस्समोद्देसए जाव परियावणयाए असायवेयणिज्ज कम्मा जाव प्पओगबंधे)
हे गौतम ! सातावेदनीय कर्मण्णुधना ने कारण्णु क्ख्हा छे, तेना करता विश्द

तया, तेपनतया, पिष्टणतया, परितापनतया असातावेदनीयकर्मणशरीरप्रयोगनाम कर्मण उदयेन असातावेदनीयकर्मण-यावत्-शरीरप्रयोगवन्धो भवति, गौतमः पृच्छति-‘ मोहणिज्जकम्मासरीरप्पभोगपुच्छा ’ हे भदन्त ! मोहनीयकर्मणशरीरप्रयोगपृच्छा, तथा च मोहनीयकर्मणशरीरप्रयोगवन्धः कस्य कर्मण उदयेन भवतीति प्रश्नः, मगवानाह-‘ गोयमा ! तिब्बकोहयाए, तिब्बमाणयाए, तिब्बमायाए, तिब्बलोमाए, तिब्बदंसणमोहणिज्जाए ’ इ गौतम ! तीव्रक्रोधतया-अत्यग्रकोपेन कपायचारिप्रमोहनीयेनेत्यर्थः, तीव्रमानतया-अत्यन्ताभिमानतया, तीव्रमायया-अत्यन्तमहत्त्वसंज्ञणमोहेन, तीव्रलोभेन, तीव्रदर्शनमोहनीयतया-अत्य

दनीयकर्मणशरीरप्रयोग का बंध होता है। जैसे-पर को दुःख देना, शोक उत्पन्न करना इत्यादि जैसा कि सप्तमशतक के दुःपम नामक छठे अश्वशक में यावत्-जूरणतया, तेपनतया, पिष्टनतया, परितापनतया” इस पाठ द्वारा प्रकट किया गया है। जीव इन प्रदर्शित पांच कारणों से तथा अतरंग में असातावेदनीयकर्मणशरीरप्रयोग नामकर्मके उदय से असातावेदनीयकर्मणशरीरप्रयोग का बंध करता है।

अथ गौतम प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं-(मोहणिज्जकम्मासरीरप्पभोग पुच्छा) हे भदन्त ! मोहनीयकर्मणशरीरप्रयोग का बंध किस कर्म के उदय से होता है ? उत्तर में प्रश्नु कहते हैं-(तिब्बकोहयाए, तिब्बमाणयाए, तिब्बमायाए, तिब्बलोमाए, तिब्बदंसणमोहणिज्जायाए) हे गौतम ! तीव्रक्रोध से कपायचारिप्रमोहनीय से, अत्यन्त अभिमान से, अत्यन्त

कारणों से असाता वेदनीय कर्मण शरीर प्रयोगनाम उदय होता है आ कारणों सातवां शतकना छठे दुःपम नामना अश्वशकमें प्रकट कएवामें आभ्यां छे जेवां के परने दुःख देवाधी, अन्य लोभां शोक उत्पन्न कएवाधी, यावत् “ जूरण तया, तेपनतया, पिष्टनतया, परितापनतया ” तेभने शिवाववाधी, लाकडी आदि वठे भाएवाधी अने पीडादि आदि कारणोंवाधी तथा अतरंग कारणरूप असाता वेदनीय कर्मण शरीर प्रयोग नामक कर्मना उदयवाधी लए असाता वेदनीय कर्मण शरीर प्रयोगनाम उदय करे छे.

गौतम स्वामीने प्रश्न-‘ मोहणिज्ज कम्मा सरीरप्पभोग पुच्छा ’ के भदन्त ! मोहनीय कर्मण शरीर प्रयोगनाम उदय लए कया कारणों करे छे ? उत्तर-(तिब्बकोहयाए तिब्बमाणयाए, तिब्बमायाए, तिब्बलोमाए, तिब्बदंसणमोहणिज्जायाए) के गौतम ! तीव्र क्रोध (कपाय चारि प्रमोहनीय) अतिशय अभिमानधी, अतिशय मोहधी, अत्यन्त लोभधी, तीव्र दर्शन

સ્તમિથ્યાત્વતયા, 'તિવ્વચારિત્તમોહણિજ્જયાણ, મોહણિજ્જકમ્માસરીર-જાવ પઓગવંધે' તીવ્રચારિત્રમોહનીયતયા કષાયચારિત્રમોહનીયમિન્નેન નોકષાય-લક્ષણચારિત્રમોહનીયેનેત્યર્થઃ મોહનીયકાર્મણશરીર યાવત્ પ્રયોગનામકર્મણ ઉદયેન મોહનીયકાર્મણશરીરપ્રયોગવન્ધો ભવતીતિ ભાવઃ, ગૌતમઃ પૃચ્છતિ-'નેરહ્યાઉય-

મોહ સે, અત્યન્તલોભ સે, તીવ્રદર્શનમોહનીય સે, -અત્યન્તમિથ્યાત્વ સે, (તિવ્વચારિત્તમોહણિજ્જયાણ) તીવ્રચારિત્રમોહનીય સે, જીવ કે (મોહણિજ્જકમ્માસરીર જાવ પઓગવંધે) મોહનીયકાર્મણશરીરપ્રયોગ નામક કર્મ કે ઉદય સે મોહનીયકાર્મણશરીરપ્રયોગ કા વંધ હોતા હૈ। યર્હા (તિવ્વચારિત્તમોહણિજ્જાણ) હસ પાઠ સે તીવ્રચારિત્રમોહનીયરૂપ જો કષાય મોહનીય હૈ ઉસસે મિત્ર નો કષાય રૂપ ચારિત્રમોહનીય ગ્રહણ ક્રિયા ગયા હૈ। તાત્પર્ય કહ્ને કા યહ હૈ કિ ચારિત્રમોહનીય કર્મ કે કષાયચારિત્રમોહનીય ઓર અકષાયચારિત્રમોહનીય હસ તરહ સે દો ભેદ હૈં। ઇનમેં સે પ્રથમ ભેદ કા કથન તો સૂત્રકાર ને (તિવ્વકોહાણ) આદિ પદોં દ્વારા પ્રકટ હી કર દિયા હૈ। અવ રહા અકષાયચારિત્રમોહનીય (તિવ્વચારિત્તમોહણિજ્જાણ) હસ પદ દ્વારા ઉસકા મી કથન કર દિયા ગયા હૈ। હસ તરહ તીવ્રક્રોધાદિક સે, તીવ્રમિથ્યાત્વ સે ઓર અકષાયચારિત્રમોહનીય સે ઇવં મોહનીયકાર્મણ શરીરપ્રયોગરૂપ કર્મ કે ઉદય સે હસ જીવ કે મોહનીયકાર્મણશરીરપ્રયોગ કા વંધ હોતા હૈ।

મોહનીયથી (અત્યન્ત મિથ્યાત્વથી), (તિવ્વચારિત્તમોહણિજ્જયાણ) તીવ્ર ચારિત્ર મોહનીયથી અને (મોહણિજ્જ કમ્મા સરીર જાવપ્પઓગવંધે) મોહનીય કાર્મણ શરીર પ્રયોગ નામક કર્મના ઉદયથી છવ મોહનીય કાર્મણ શરીર પ્રયોગનો બંધ કરે છે. અહીં "તિવ્વચારિત્તમોહણિજ્જાણ" તીવ્ર ચારિત્ર મોહનીયરૂપ જે કષાય મોહનીય છે તેના કરતાં મિત્ર નોકષાયરૂપ ચારિત્ર મોહનીય શ્રદ્ધા કરવામાં આવેલ છે. આ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે ચારિત્ર મોહનીયના કષાય ચારિત્ર મોહનીય અને અકષાય ચારિત્ર મોહનીય, આ બે ભેદ છે. તેમાંના પહેલા ભેદનું કથન તો સૂત્રકારે "તિવ્વકોહાણ" આદિ પદો દ્વારા પ્રકટ કરી જ દીધું છે. હવે રહ્યું અકષાય ચારિત્ર મોહનીય. "તિવ્વચારિત્ત મોહણિજ્જાણ" આ પદ દ્વારા તેનું કથન પણ કરવામાં આવ્યું છે.

આ રીતે તીવ્ર ક્રોધાદિકથી, તીવ્ર મિથ્યાત્વથી અને અકષાય ચારિત્ર મોહનીયથી અને મોહનીય કાર્મણ શરીર પ્રયોગરૂપ કર્મના ઉદયથી આ છવ મોહનીય કાર્મણ શરીર પ્રયોગનો બંધ કરે છે.

कस्मात्सरीररूपमोगवधे ण मते ! पुच्छा ' हे भदन्त ! नैरयिकायुष्ककर्मणश्शरीरप्रयोगबन्धः स्वच्छ कस्य कर्मण उदयेन मन्वतीति पुच्छा ? भगवानाह—' गोपमा । महारंभयाए, महापरिग्रहयाए कुणिमाहारेण पंचिन्द्रियबधेण ' हे गौतम ! महारंभतया अपरिमितकृप्याधारस्मतया, महापरिग्रहतया—अपरिमाणपरिग्रहतया, कुणिमाहारेण—मांसभोजनेन, मांसवाचको देहोपिः कुणिमशब्दः, पञ्चेन्द्रियबधेन—पञ्चेन्द्रिय हिंसया ' नेरइयाउपकस्मात्सरीररूपमोगनामाए कस्मस्स उदयणं नेरइयाउपकस्मात्सरीर—जाव—पमोगवधे ' नैरयिकायुष्ककर्मणश्शरीरप्रयोगान्मः कर्मणा उदयेन नैरयिकायुष्ककर्मणश्शरीरप्रयोगबन्धो भवति, गौतमः पुच्छति—' तिरिक्खजोगियाउपकस्मात्सरीररूपमोगपुच्छा ' हे भदन्त ! तिर्यग्योनिकायुष्ककर्मण

अब गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(नेरइयाउपकस्मात्सरीररूपमोगवधे ण मते ! पुच्छा) हे भदन्त ! नैरयिकायुष्क कर्मणश्शरीरप्रयोगवध किस कर्म के उदय से होता है ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं—' गोपमा ' हे गौतम ! (महारंभयाए, महापरिग्रहयाए, कुणिमाहारेण, पंचिन्द्रियबधेण) अपरिमित कृपि आदि आरंभ करने से, महापरिग्रहयुक्त होने से परिग्रह का परिणाम नहीं करने से—मांसभोजन करने से, पंचेन्द्रियप्राणियों की हिंसा करने से, और नैरयिकायुष्क कर्मणश्शरीरप्रयोगरूप कर्म के उदय से जीव के नैरयिकायुष्ककर्मणश्शरीरप्रयोग का बंध होता है।

अब गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं (तिरिक्खजोगियाउपकस्मात्सरीररूपमोगपुच्छा) हे भदन्त ! तिर्यग्योनिकायुष्क कर्मणश्शरीर

गौतम स्वामीने प्रश्न—(नेरइयाउपकस्मात्सरीररूपमोगवधे ण मते ! पुच्छा) हे भदन्त ! नैरयिक आयुष्क कर्मणश्शरीर प्रयोगबन्ध कया कर्मणा उदयधी याव छे ?

भदवावीए प्रश्नो उत्तर—“ गोपमा ! ” हे गौतम ! (महारंभयाए, महापरिग्रहयाए, कुणिमाहारेण, पंचिन्द्रियबधेण) अपरिमित कृपि आदि आरंभ करवाधी, महापरिग्रह युक्त करवाधी—परिग्रहनी भर्नाइ नही राअवाधी मांसाहार करवाधी, पञ्चेन्द्रिय छपानी हिंसा करवाधी अने नैरयिकायुष्क कर्मणश्शरीर प्रयोगरूप कर्मणा उदयधी एव नैरयिकायुष्क कर्मणश्शरीरप्रयोगने लभ करे छे.

गौतम स्वामीने प्रश्न—(तिरिक्खजोगियाउपकस्मात्सरीररूपमोगपुच्छा) हे भदन्त ! तिर्यग्योनिकायुष्क कर्मणश्शरीर प्रयोगने लभ कया कर्मणा उदयधी याव छे ?

शरीरप्रयोगपृच्छा, तथा च तिर्यग्योनिकायुष्ककार्मणशरीरप्रयोगबन्धः कस्य कर्मण उदयेन भवतीति प्रश्नः, भगवानाह—‘ गोयमा ! माइल्लियाए, नियडिल्लियाए अलियवयणेणं, कूडतुलकूडमाणेणं तिरिक्खजोणियकम्मा—सरीर—जाव—प्पओग बंधे ’ हे गौतम ! मायिकतया—परवञ्चनरूपलक्षणया बुद्धिमत्तया, १ निकृतिमत्तया, निकृतिः परवञ्चनार्थं चेष्टा तथा, एकमायाप्रच्छादनार्थं मायान्तरकरणरूपया गूढमायिकतयेत्यर्थः २, अलीकवचनेन—असत्यभाषणेन ३, कूडतुलाकूटमानेन कूटतुलया—असत्योन्मानेन तुलादिना असत्यतोलनेनेत्यर्थः ४, एवं कूटमानेन विक्रेयवस्त्रक्षेत्रादीनामसत्यपरिमाणेन तिर्यग्योनिकायुष्ककार्मणशरीर-यावत्-प्रयोग-नामकर्मणः उदयेन तिर्यग्योनिकायुष्ककार्मणशरीरप्रयोगबन्धो भवतीति भावः । गौतमः पृच्छति—‘ मणुस्सआउयकम्मा सरीरपुच्छा ’ हे भदन्त ! मनुष्यायुष्क-कार्मणशरीरपृच्छा तथा च मनुष्यायुष्ककार्मणशरीरप्रयोगबन्धः कस्य कर्मणः उदयेन

प्रयोग का बंध किस कर्म के उदय से होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—‘ गोयमा ’ हे गौतम ! (माइल्लियाए, नियडिल्लियाए, अलिय-वयणेणं, कूडतुलकूडमाणेणं, तिरिक्खजोणिय कम्मासरीर जावप्पओ-गबंधे) परवंचनरूप बुद्धिमत्ता से, पर को वंचन करने की चेष्टा से—एक माया को छिपाने के लिये दूसरी माया को करने रूप गूढमायाचारी से, असत्यभाषण से, नापने तोलने के बांटों को कमती बढ़ती रखने से और तिर्यग्योनिकायुष्क कार्मणशरीरप्रयोग नामकर्म के उदय से जीव को तिर्यग्योनिकायुष्क कार्मणशरीरप्रयोग का बंध होता है ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(मणुस्साउय कम्मास-रीरपुच्छा) हे भदन्त ! मनुष्यायुष्ककार्मण शरीर प्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—‘ गोयमा ’ हे

महावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ” हे गौतम ! (माइल्लियाए, निय-डिल्लियाए, अलियवयणेणं, कूडतुलकूडमाणेणं, तिरिक्खजोणियकम्मा सरीर जाव-प्पओगबन्धे) परवंचनरूप बुद्धिमत्ताथी, परनी वंचना करवानी चेष्टाथी एक माया (उपट) ने छुपाववा भाटे अने भील्ल माया (उपट) ना आचरएणुइय गूढ मायाचारीथी, असत्य वचनेथी, जोटां तोल भाप करवाथी अने तिर्यग्योनिकायुष्क कार्मण शरीर प्रयोग नामक कर्मना उदयथी एव तिर्यग्योनिकायुष्क कार्मण शरीर प्रयोगने बंध करे-छे.

गौतम स्वामीने प्रश्न—“ मणुस्साउयकम्मा सरीरपुच्छा ” हे भदन्त ! मनुष्यायुष्क कार्मण शरीर प्रयोगबन्ध क्या उदयथी थाय छे ?

मरतीति प्रश्नः, भगवानाह—' गोयमा ! पगइमइयाए, पगइविणीययाए, साणुक्कोसयाए, अमच्छरियाए, मणुस्साउयकम्मा—जाव—पमोगबधे ' हे गौतम । प्रकृति-मद्रतया—स्वभावतः पराननुतापितया १, प्रकृतिविनीततया—स्वभावतः सरखेन २, सानुक्कोसतया—सानुक्कम्वतया दयामयप्रवृत्तितया, अमत्सरिकतया—मत्सरिकः परगुणानाममोदा, उम्मावनिपेधोऽमत्सरिकता तथा मत्सररत्तारहितवयेत्पर्यः ४, मनुष्यायुष्ककर्मण—याक्त्—शरीरप्रयोगनाम कर्मण उदयेन मनुष्यायुष्ककर्मणशरीरप्रयोगबन्धो भवतीति भावः । गौतम पृच्छति—' देवाउयकम्मासरीरपुच्छा ' हे भदन्त । देवायुष्ककर्मणशरीरपुच्छा, तथा च देवायुष्ककर्मणशरीरप्रयोगबन्धः कस्य कर्मण उदयेन भवतीति प्रश्नः, भगवानाह—' गोयमा । सरागसज्जेण, संजमा

गौतम ! (पगइमइयाए, पगइविणीययाए, साणुक्कोसयाए, अमच्छरियाए, मणुस्साउयकम्मा जाव पमोगबधे) स्वभावतः दूसरों जीवों का सताप नहीं पहुँचाने से, स्वभावतः सरलतायुक्त होने से, दयामयप्रवृत्तिसहित होने से, मत्सरभाव से रहित होने से—दूसरों के गुणों को सहन नहीं कर सकना इसका नाम मत्सरता है—इसका नहीं होना सो अमत्सरता है इस अमत्सरभाव से युक्त होने से और मनुष्यायुष्क कर्मणशरीरप्रयोगरूप कर्म के उदय होने से जीव को मनुष्यायुष्ककर्मणशरीरप्रयोग का बंध होता है ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्न से पेसापूछते हैं—(देवाउयकम्मासरीरपुच्छा) हे भदन्त ! देवायुष्ककर्मण शरीरप्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं ' गोयमा ' हे गौतम ! (सरागसज्जेण, संजमा

भद्वीर प्रश्नो उत्तर—' गोयमा ! ' हे गौतम ! (पगइमइयाए, पगइविणीययाए, साणुक्कोसयाए, अमच्छरियाए मणुस्साउय कम्मा जाव पमोगबधे) सरण स्वभावतया देवाधी—अन्य एवमेव सताप नहीं आपवाना स्वभावधी, विनीत स्वभावतया देवाधी, इवाणु देवाधी, मत्सरभावधी रहित देवाधी (जीवना शुद्धिने अहं न करवा तेनु नाम मत्सरता छे अने मत्सरताधी रहित देवु तेनु नाम अमत्सरता छे) अने मनुष्यायुष्क कर्मण शरीर प्रयोग रूप कर्मना उदयधी एव मनुष्यायुष्क कर्मण शरीर प्रयोगने लध कर छे

गौतम स्वामीने प्रश्न—(देवाउयकम्मा सरीरप्रयोग पुच्छा) हे भदन्त ! देवायुष्क कर्मण शरीर प्रयोगबन्ध क्या कर्मना उदयधी भाव छे ?

भद्वीर प्रश्नो उत्तर—' गोयमा ! ' हे गौतम ! (सरागसज्जेण, संजमासज्जेण वाक्यदोहमेण, अकामनिरुत्तरप, देवाउयकम्मा सरीर जाव

संजमेणं, बालतवोकम्मेणं, अकामनिज्जराए देवाउयकम्मासरीरजावपओगवधे ' हे गौतम ! सरागसंयमेन रागेण=आसक्त्या सहितः सरागः स चासौ संयमश्च सरागसंयमस्तेन सकषायचारित्रेण १, संयमासंयमेन-देशविरतिरूपेण २, बालतपः-कर्मणा=बालसाहचर्याद् बालाः=मिथ्यादृशः तेषां तपः कर्म बालतपःकर्म तेन अज्ञान-तपः कर्मणेत्यर्थः ३, अकामनिर्जरया=अकामेन अभिलाषमन्तरेण निर्जरा=क्षुधा-दिसहनं तथा ४ देवायुष्ककर्मणशरीर-यावत्-प्रयोगनामकर्मण उदयेन देवायुष्क-कर्मणशरीरप्रयोगबन्धो भवतीति भावः । गौतमः पृच्छति-' सुभनामकम्मा-सरीरपुच्छा ' हे भदन्त ! शुभनामकर्मणशरीरपृच्छा, तथा च शुभनामदेवगत्यादि-कर्मणशरीरप्रयोगबन्धः कस्य कर्मण उदयेन भवतीति प्रश्नः, भगवानाह-' गोयमा ! कायउज्जुययाए, भावुज्जुययाए, भासुज्जुययाए, अविंसंवादणजोगेणं सुभनाम कम्मासरीर-जाव-प्पओगवधे ' हे गौतम ! कायर्जुकतया कायसरलतया परा

संजमा संजमेणं, बालतवोकम्मेणं, अकामनिज्जराए, देवाउयकम्मासरीर जाव पओगवधे) राग-आसक्ति से सहित संयम का नाम सरागसंयम है इस सरागसंयम से कषाययुक्त संयम से संयमासंयम से देशविरतिरूप चारित्र से, बालतप से-बालकों के जैसे बाल-मिथ्यादृष्टियों के अज्ञान-मूल तप से, अकाम निर्जरा से-इच्छा के विना क्षुधादि के सहने से, और देवायुष्क कर्मणशरीरप्रयोगनामक कर्म के उदय से, देवायुष्क कर्मणशरीरप्रयोग का बंध जीव को होता है ।

अब गतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं-(सुभनामकम्मासरीर पुच्छा) हे भदन्त ! देवगत्यादिरूप शुभनामकर्मणशरीरप्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है । उत्तर में प्रभु कहते हैं-(गोयमा) हे गौतम ! (कायउज्जुययाए, भावुज्जुययाए, भासुज्जुययाए, अविंसंवायणजोगेणं

प्पओगवधे) राग (आसक्ति) युक्त संयमने सराग संयम रहे छे ओवा सराग संयमथी (कषाययुक्त संयमथी), संयमा संयमथी (देशविरति रूप चारित्रथी), बालतपथी (अज्ञानमूल तपथी), अकाम निर्जरथी (इच्छा विना क्षुधादिके सहन करवाथी) अने देवायुष्क कर्मण शरीर प्रयोग नामक उदयथी एव देवायुष्क कर्मण शरीर प्रयोगने अध करे छे.

गौतम स्वामीने प्रश्न-(सुभनाम कम्मा सरीरपुच्छा) हे भदन्त ! देवगत्यादि रूप शुभनाम कर्मण शरीर प्रयोग अध क्या कर्मना उदयथी थाय छे ? भडावीर प्रभुने उत्तर-" गोयमा ! " हे गौतम ! (कायउज्जुययाए, भावुज्जुययाए, भासुज्जुययाए, अविंसंवायणजोगेणं सुभनाम कम्मा सरीर जाव

ऽवश्चनपरायणकायचेष्टया ? , भावर्जुकृतया भावसरलतया परावश्चनपरायणमन-
 महृत्या २, भावर्जुकृतया भाषासरलतया भाषाऽऽर्जवेन प्रियवचनेन ३, अथि
 सवादनयोगेन-विसवादन परमतारणार्थं भ्रमोत्पादनम् , अन्ययामतिपक्षस्यान्यथा
 प्रस्थायनं, तद्रूपयोगो व्यापारस्तेन वा योगः सम्बन्धो विसंवादनयोगः, तन्निर्जो-
 ऽविसंवादनयोगस्तेनेत्यर्थः शुभनामदेवगत्यादिकार्मणशरीर-यावत्-प्रयोगनाम
 कर्मण उदयेन शुभनामकर्मणशरीरप्रयोगबन्धो भवतीति भावः । गौतमः पृच्छति-
 'अशुभनाम कम्मा सरीरपुच्छा' हे भदन्त । अशुभनाम कर्मणशरीरपुच्छा, तथा च
 अशुभनामनरकगत्यादिककर्मणशरीरप्रयोगबन्धः कस्य कर्मण उदयेन भवतीति
 प्रश्नः, भगवानाह- 'गोयमा ! कायअणुज्जुययाए भावअणुज्जुययाए, भासणुज्जु-
 ययाए, विसवायणामागेण अशुभनामकम्मा-जाव-पभोगबंधे' हे गौतम ! काया-

शुभनाम कम्मासरीर जावपभोगबंधे) काय की कञ्जुता-(सरलता)
 से-पर को अवश्चन करनेरूप कायकी चेष्टा से, भावकञ्जुता से-परिणा
 मों की सरलता से भाषा की कञ्जुता से-प्रियवचन से, वृत्तों को
 ठगने के लिये भ्रमोत्पादनरूपयोग व्यापार न करने से और शुभनाम
 रूप देवगत्यादि कर्मणशरीरप्रयोग नामक कर्म के उदय से जीव को
 शुभनामकर्मणशरीरप्रयोग काय च होता है ।

अब गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं (अशुभनामकम्मासरीर
 पुच्छा) हे भदन्त अशुभनामरूप नरकगत्यादि कर्मणशरीरप्रयोगबन्ध
 किस कर्म के उदय से होता है ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं-(गोय
 मा) हे गौतम ! (कायअणुज्जुययाए, भावअणुज्जुययाए, भासणुज्जुय-
 याए, विसवायणामागेण अशुभनामकम्मा जाव पभोगबंधे) पर वश्चन

पभोगबंधे) कायनी कञ्जुताधी (सरलताधी) अन्यने नहीं उत्तरेण इय
 कायनी शिष्टाधी, भावनी सरलताधी, परिलामिनी सरलताधी, भाषानी सरल
 ताधी (प्रिय वचनधी) अन्यने भगवाने माटे भ्रमोत्पादन इय प्रवृत्ति नहीं
 करवाधी, अने शुभनम इय देवगत्यादि इय कामंजु शरीर प्रयोग नामक कर्मण
 उदयधी एव शुभनाम कामंजु शरीर प्रयोगने भव करे छे

गौतम स्वामीने प्रश्न-(अशुभनाम कम्मासरीरपुच्छा) हे भदन्त !
 अशुभ नामरूप नरकगत्यादि कामंजु शरीर प्रयोगबन्ध क्या कर्मण उदयधी
 थाव छे ?

भदानीर प्रश्नने उत्तर-"गोयमा !" हे गौतम ! (कायअणुज्जुययाए,
 भावअणुज्जुययाए, भासणुज्जुययाए विसवायणामागेण अशुभनाम कम्मा जाव पभोग

नृजुकतया परवञ्चनपरायणकायचेष्टया, भावानृजुकतया - परवञ्चनपरायणमनः-
प्रवृत्त्या, भावानृजुकतया अत्यन्ताप्रियभाषणतया परुषवचनत्वेनेत्यर्थः, त्रिसंवा-
दनयोगेन-परभ्रमोत्पादकव्यापारेण अशुभनामकार्मण-यावत्-शरीरप्रयोगनाम-
कर्मणः उदयेन अशुभनामकार्मणशरीरप्रयोगवन्धो भवतीति तात्पर्यम् ।
गौतमः पृच्छति-‘ उच्चागोयकम्मासरीर-पुच्छा ’ हे भदन्त ! उच्चगोत्रस्य
उत्तमकुलवंशादेः कार्मणशरीरपुच्छा, तथा च उच्चगोत्रकार्मणशरीरप्रयोगवन्धः
खलु कस्य कर्मण उदयेन भवति ? भगवानाह-‘ गोयमा ! जाइअमएणं, कुल-
अमएणं, बलअमएणं, रूवअमएणं, तवअमएणं, सुयअमएणं, लाभअमएणं, ईस्स-
रियअमएणं, उच्चागोयकम्मासरीर-जाव-पओगवधे ’ हे गौतम ! जातेरमदेन-
जात्यहङ्काराभावेन, कुलामदेन-वंशलक्षणकुलाहङ्काराभावेन, बलामदेन-शक्त्यहङ्का-

परायणरूप काय की चेष्टा से, पर वञ्चनपरायण मानसिक प्रवृत्ति से
अत्यन्त अप्रिय भाषणरूप कठोरवचन से, पर को भ्रमोत्पादकवचन
के व्यापार से और अशुभनामकार्मणशरीरप्रयोगनामक कर्म के उदय
से जीव को अशुभनामकार्मणशरीरप्रयोग का बंध होता है ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं-(उच्चागोयकम्मासरीरपु-
च्छा) हे भदन्त ! उत्तमकुलवंशादिरूप उच्चगोत्रकार्मणशरीरप्रयोग का
बंध किस कर्म के उदय से होता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं-(जाति
अमदेणं, कुल अमदेणं, बल अमदेणं, रूव अमदेणं, तव अमदेणं, सुय
अमदेणं, लाभ अमदेणं, ईस्सरिय अमदेणं, उच्चागोयकम्मासरीर जाव
पओगवधे) जाति का अहंकार नहीं करने से, वंशरूपकुल का अभि-

वधे) कायनी असरलताथी (अन्यनी वयना करवा इय काय चेष्टाथी),
लावनी असरलताथी (परवयना करवा इय मानसिक प्रवृत्तिथी), अत्यन्त
अप्रिय भाषण इय कठोर वचनथी, अन्यने ठगवाने भाटे भ्रमोत्पादक वचनइय
प्रवृत्तिथी तथा अशुभ नाम कार्मण शरीर प्रयोग नामक कर्मना उदयथी एवं
अशुभ नाम कार्मण शरीर प्रयोगनाम बंध करे छे

गौतम स्वामीने प्रश्न-“ उच्चागोयकम्मासरीर पुच्छा ” हे भदन्त !
उत्तम कुल, वंशादि इय उच्च गोत्र कार्मण शरीर प्रयोग बंध क्या कर्मना
उदयथी थाय छे ?

भङ्गावीर प्रभुने उत्तर-(जाति अमएणं, कुल अमएणं, बल अमएणं,
रूव अमएण, तव अमएण, सुय अमएणं, लाभ अमएणं, ईस्सरिय अमएणं
उच्चागोयकम्मासरीर जाव पओगवधे) हे गौतम ! जातिनुं अलिमान
नहीं करवाथी, वशइय कुणनुं अलिमान नहीं करवाथी, शक्तिनुं अलिमान

रामावेन, रूपामदेन—सौन्दर्याङ्कारामावेन, तपोऽमदेन—तपोऽङ्कारामावेन, श्रुता
 मदेन—श्रुतज्ञानाङ्कारामावेन, सामामदेन, ऐश्वर्यामदेन—समृद्ध्याङ्कारामावेन
 उच्चगोत्रकर्मणशरीर—यावत्—प्रयोगनामकर्मण उदयेन उच्चगोत्रकर्मणशरीर
 प्रयोगबन्धो भवति । गौतमः पृच्छति—‘नीयागोयकम्मासरीरपुच्छा’ हे भवन्त !
 नीचगोत्रकर्मणशरीरपुच्छा, तथा च नीचगोत्रकर्मणशरीरप्रयोगबन्धः खलु कस्य
 कर्मण उदयेन भवति ? मगवानाह—‘गोयमा ! जाहमएण, कुलमएण, घलमएण जाव
 इस्सरियमएण णीयागोय कम्मासरीर—जाव—पओगबधे’ हे गौतम ! जातिमदेन—अह
 सर्वोत्तम जातीय इत्येव जात्यङ्कारेण, कुलमदेन—मम सर्वोत्तमं कुलमित्येवं कुलामिमा
 नेन, घलमदेन ‘अहं सर्वापेक्षया विशिष्टशक्तिशाली’ इत्येव शक्त्यङ्कारेण यावत्—

मान नहीं कहने से, शक्तिका मद नहीं करने से, सौन्दर्य का अभिमान
 नहीं करने से, तपस्या का अभिमान नहीं करने से, श्रुतज्ञान का अहं
 कार नहीं करने से ऐश्वर्य—समृद्धि का घमंड नहीं करने से, और उच्च
 गोत्रकर्मणशरीरप्रयोगनामक कर्म के उदय से जीवको उच्चगोत्रकर्म
 णशरीरप्रयोग का बंध होता है ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं—(नीयागोयकम्मासरीर
 पुच्छा) हे भवन्त ! नीचगोत्र कर्मणशरीरप्रयोगबन्ध किस कर्म के
 उदय से होता है ? इसके उत्तर में प्रश्नु कहते हैं—(जाहमएण, कुलम
 एण, घलमएण जाव इस्सरियमएण णीयागोयकम्मासरीरजावपओगबधे)
 मैं सर्वोत्तम जाति का हूँ, इस प्रकार के जाति के अहंकार से, मेरा
 सर्वोत्तम कुल है इस प्रकार के कुल के अभिमान से मैं सत्य से अधिक
 बलवाली हूँ इस प्रकार के शक्ति के अहंकार से, मैं सत्य से अधिक

नहीं करवायी, सौन्दर्यनुं अभिमान नहीं करवायी, तपस्यानेा जप नहीं कर
 वायी, श्रुतज्ञाननेा जप नहीं करवायी ऐश्वर्य (समृद्धि) नेा जप नहीं
 करवायी अने उच्चगोत्र कामल शरीर प्रयोग नामक कर्मनेा उदयधी एव
 उच्चगोत्र कामल शरीर प्रयोगबन्ध करे छे

गौतम स्वामीनेा प्रश्नु—(नीयागोयकम्मासरीरपुच्छा) हे भवन्त !
 नीचगोत्र कामल शरीर प्रयोग बन्ध क्या कर्मनेा उदयधी थाय छे ?

भट्टाधीर प्रश्नुनेा उत्तर—(जातिमएण, कुलमएण, घलमएण जाव इस्सि
 रियमएण णीयागोय कम्मासरीर जाव पओगबधे) “हं सर्वोत्तम जतिनेा
 छु” आ प्रभारे जतिनुं अभिमान करवायी, ‘आहं कुल सर्वोत्तम छे’
 आ प्रभावे कुलनुं अभिमान करवायी ‘हं सौधी बधारे जणवान छु,’
 आ प्रभावे शक्तिनेा अहं करवायी, ‘हं सौधी बधारे सुहर छु,’ आ

रूपमदेन-सौन्दर्याद्भङ्गारेण, तपोमदेन-‘अहमुग्रतपस्वी’ इत्येवं तपस्यादर्पेण, श्रुतमदेन विद्याज्ञानाभिमानेन, लाभमदेन-‘अहमेव लाभवान्’ इत्यभिमानेन, ऐश्वर्यमदेन-सम्पत्तिदर्पेण नीचगोत्रकर्मणशरीर-यावत्-प्रयोगनामकर्मण उदयेन नीचगोत्रकर्मणशरीरप्रयोगवन्धो भवति, गौतमः पृच्छति-‘अंतराइयकम्मासरीरपुच्छा’ हे मदन्त ! आन्तरायिककर्मणशरीरपृच्छा, तथा च आन्तरायिककर्मणशरीरप्रयोगवन्धः कस्य कर्मण उदयेन भवति ? भगवानाह-‘गोयमा ! दाणंतराएणं, लाभंतराएणं भोगंतराएणं, उवभोगंतराएणं, वीरियंतराएणं, अंतराइयकम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं, अंतराइयकम्मासरीरप्पओगवधे’ हे गौतम ! दानान्तरायेण-दान-

सुन्दर हूं इस प्रकार के सौन्दर्य के अभिमान से मैं बहुत उग्रतपस्वी हूं इस प्रकार के तपस्या के अहंकार से, मैं बहुत अधिक श्रुत के मद से, लाभ के मद से, मेरे पास बहुत बड़ी धनधान्यादिरूप संपत्ति है इस प्रकार के ऐश्वर्य के घमंड से और नीचगोत्रकर्मणप्रयोगनामक कर्म के उदय से जीव को नीचगोत्रकर्मणशरीरप्रयोग का बंध होता है।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं-(अंतराइयकम्मासरीरपुच्छा) हे मदन्त ! अन्तरायिककर्मणशरीरप्रयोग का बंध किस कर्म के उदय से होता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं-(गोयमा) हे गौतम ! (दाणंतराएणं, लाभंतराएणं, भोगंतराएणं, उवभोगंतराएणं, वीरियंतराएणं अंतराइय कम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं अंतराइय कम्मासरीरप्पओगवधे) दानान्तराय से-दान में विघ्नडालने से, लाभा

प्रभाणु सौ हर्थेनु अलिमान करवाथी, “हुं धण्णी ञ उग्र तपस्या करनार छुं,” आ प्रभाणु तपनुं अलिमान करवाथी, “हुं श्रुत सिद्धातोना धण्णे ञ ञणुकार छुं,” आ प्रभाणु श्रुतनुं अलिमान करवाथी, लाभनुं अलिमान करवाथी, “भारी पासे धण्णी ञ धन-धान्यादि इय स पत्ति छे,” आ प्रभाणु ऐश्वर्येना धमंड करवाथी अने नीचगोत्र कर्मणु शरीर प्रयोग नामक कर्मना उदयथी एव नीचगोत्र कर्मणु शरीर प्रयोगेना बंध करे छे.

गौतम स्वामीने प्रश्न-(अंतराइयकम्मासरीरपुच्छा) हे मदन्त ! आन्तरायिक कर्मणु शरीर प्रयोगबन्ध कया कर्मना उदयथी थाय छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर-“गोयमा !” हे गौतम ! (दाणंतराएणं, लाभंतराएणं, भोगंतराएणं, उवभोगंतराएणं, वीरियंतराएणं अंतराइय कम्मा सरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं अंतराइयकम्मासरीरप्पओगवधे) दानान्तरायथी (दानमां विघ्न नाभवथी), लाभान्तरायथी (लाभने धनादिकनी

विघ्नेन, लग्नान्तरायेण-घनादिप्राप्तिविघ्नेन, भोगान्तरायेण-भोगविघ्नेन, उपभोगान्तरायेण-उपभोगविघ्नेन, धीर्यान्तरायेण धर्मोत्साहविघ्नेन आन्तरायिककर्मणशरीरप्रयोगनाम्न कर्मण उदयेन आन्तरायिककर्मणशरीरप्रयोगबन्धो भवतीति भावः । गौतम पृच्छति-‘णाणायरणिज्जकम्मासरीरप्पभोगवधे णं भत्ते । किं देसवधे, सव्ववधे ?’ हे भदन्त । ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगवधः खलु किं देसवन्धस्वरूपो भवति ? किं वा सव्ववन्धस्वरूपो भवति ? भगवानाह-‘गोपमा ! देसवधे, णो सव्ववधे’ हे गौतम । ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगबन्धो देसवध एव भवति, नो सर्ववन्धो भवति, ‘एव जाव अतरायकम्मासरीरप्पभोगवधे वि देसवधे,

न्तराय से-किसी को घनादिक की प्राप्ति होने में विघ्नडालने से, भोगान्तराय से-एक घल्ल काम में आवे ऐसे अज्ञादि के भोग में विघ्नडालने से उपभोगान्तराय से-उपभोग की वस्तु वस्त्रादिक की प्राप्ति में विघ्नडालने से, धीर्यान्तराय से शक्ति की प्रकृता में विघ्नडालने से, और अन्तरायकर्मणशरीरप्रयोगनामक कर्म के उदय होने से जीव को अन्तरायकर्मणशरीरप्रयोग का वध होता है ।

अथ गौतमस्यामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं-(णाणायरणिज्जकम्मासरीरप्पभोगवधे णं भत्ते । किं देसवधे, सव्ववधे ?) हे भदन्त । ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगवध क्या देशवधरूप होता है या सर्ववधरूप होता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं-(गोपमा) हे गौतम । (देसवधे णो सव्ववधे) ज्ञानावरणीय कर्मणशरीरप्रयोगवध देशवधरूप ही होता है,

प्राप्ति यथाभां विघ्न नाभवती), भोगान्तरायधो (जेक वजत कामभां आवे जेवां अत्तादिना भोगभां दरुत जेभी करवाधी), उपभोगान्तरायधो (उपभोगानी वस्तुज्जा-वत्त डिन्नी प्राप्तिभां दरुत जेभी करवाधी), धीर्यान्तरायधो (शक्तिनी प्रकृताभां दरुत जेभी करवाधी) अने अन्तराय कामजु शरीर प्रयोग नामक कर्मणा उदयधी एव आन्तरायिक कामजु शरीर प्रयोगनामक वध करे ।

इसे और भी स्वामी भद्राचर प्रभुने ऐसे प्रश्न पूछे हैं-(जानावरणिज्जकम्मा शरीरप्रयोगवधे णं भत्ते । किं देसवधे, सव्ववधे) हे भदन्त । ज्ञानावरणीय कामजु शरीर प्रयोगवध ही देशवध रूप होता है । हे सर्ववध रूप होता है ?

भद्राचर प्रभुने उत्तर—(गोपमा ! देसवधे, णो सव्ववधे) हे गौतम ।

नो सन्ववधे' एवम् उक्तरीत्या यावन् दर्शनावरणीय वेदनीय-मोहनीया-ऽऽयुक्तनाम-गोत्रा-ऽऽन्तरायिककर्मणशरीरप्रयोगवन्धोऽपि देशवन्ध एव भवति नो सर्ववन्धो भवतीति तस्य ज्ञानावरणीयादेरनादित्वात् सर्ववन्धस्य प्रथमतः पुद्गलोपादानरूपतया अनादेस्तद्भावात् । गौतमः पृच्छति- 'जाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवधे णं भते! कालओ केवच्चिरं होइ ?' हे भदन्त ! ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगवन्धः खलु कालतः कालापेक्षया कियच्चिरं भवति? भगवानाह- 'गोयमा! जाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवधे दुविहे पणत्ते' हे गौतम ! ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगवन्धो

सर्ववन्धरूप नहीं होता है। (एवं जाव अंतराहयकम्मासरीरप्पओगवधे वि देसवधे नो सन्ववधे) इसी तरह से यावत्-दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, और अन्तराय ये सब कर्मणशरीरप्रयोगवध भी देशवन्धरूप ही होता है, सर्ववन्धरूप नहीं होते। क्यों कि ये ज्ञानावरणीय आदि अनादि हैं। सो प्रथम समय में ही अनादिरूप इनके योग्य पुद्गलों का ग्रहण हो जाता है-अतः अनादिरूप इनके सर्ववन्ध का अभाव है।

अथ गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं- (जाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवधे णं भते ! कालओ केवच्चिरं होइ) हे भदन्त ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगवध काल की अपेक्षा से कबतक रहता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं- ' गोयमा ' हे गौतम ! (जाणावरणिज्ज-

इय डोतो नथी. (एवं जाव अंतराहय कम्मा सरीरप्पओगवधे वि देसवधे, नो सन्ववधे) अथ प्रमाणे दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र अने अन्तराय, अण्णां कर्मणु शरीर प्रयोग वध यणु देशवध इय डोय छे-सर्ववध इय डोता नथी. अरणु के ज्ञानावरणीय आदि कर्मो अनादि छे. तेथी प्रथम समयमां अ अनादि इय तेमना योग्य पुद्गलोत्तुं अरुणु थछ अय छे, तेथी अनादिइय तेमना सर्ववधेनो अभाव छे

इये गौतम स्वामी महावीर प्रभुने अथो प्रश्न पूछे छे के- (जाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवधे णं भते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?) हे भदन्त ! ज्ञानावरणीय कर्मणु शरीर प्रयोगवध काजनी अपेक्षाअे कयां सुधी रहे छे ?

महावीर प्रभु तेना उत्तर आपता कडे छे के- " गोयमा ! " हे गौतम ! (जाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवधे दुविहे पणत्ते) ज्ञानावरणीय कर्मणु

द्विविधः प्रकृत 'त जहा-मणाइए सपञ्जवसिए मणाइए अपञ्जवसिए' तद्यथा-
 अनादिकः सपर्यवसितः सान्तः, अनादिकः अपर्यवसितो वा अनन्तो वा 'एवं जहा
 तेयगस्स सचिद्वणा तहेव, एव जाव अतराइय कम्मस्स' एवम् उक्त्वा यथा
 तैजसस्य शरीरप्रयोगव्यवस्थापना पूर्व प्रतिपादिता, तथैव ज्ञानावरणीयकर्मण
 स्यापि शरीरप्रयोगव्यवस्थापना प्रतिपत्तव्या, एव रीत्या यावत् दर्शनावरणीय
 -वेदनीय-मोहनीयाऽऽयुक्त-नाम-गोषा-ऽऽन्तरायिककर्मणस्य शरीरप्रयोगव्य
 न्यस्य वक्तव्यता प्रतिपादनीया विशेषस्त्वग्रे वक्ष्यते, अथ कर्मणःशरीरप्रयोगस्य
 बन्धान्तर प्ररूपयितुमाह-'थाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगबंधंतरेणं मते !
 कालो केवच्चिर हो !' हे भदन्त ! ज्ञानावरणीयकर्मणःशरीरप्रयोगबन्धान्तर

कम्मासरीरप्पओगबंधे बुद्धिहे पण्णसे) ज्ञानावरणीयकर्मणःशरीरप्रयो
 गबंधो प्रकार का कहा गया है-(त जहा) जो इस प्रकार से है-
 (मणाइए सपञ्जवसिए, मणाइए अपञ्जवसिए) अनादि सपर्यवसित
 -सान्त, और अनादि अपर्यवसित-अनन्त । (एव जहा तेयगस्स सचि
 द्वणा तहेव, एव जाव अतराइयकम्मस्स) उक्त्वा रीति से जैसी तैजसश
 रीरप्रयोगबंध की वक्तव्यता पहिले कही गई है, उसी तरह से ज्ञानाव
 रणीयकर्मणःशरीरप्रयोगबंध की भी वक्तव्यता जाननी चाहिये । इसी
 तरह से दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोष और
 अन्तराय इन कर्मणःशरीरप्रयोगबंधों की भी वक्तव्यता कहनी चाहिये ।
 इस विषय में जो विशेषता होगी-उसे आगे कहा जावेगा ।

अथ सूत्रकार कर्मणःशरीरप्रयोग व्य के अन्तर की प्ररूपणा करते
 हैं-इसमें गौतम ने प्रभु से ऐसा पूछा है-(थाणावरणिज्जकम्मासरीर

शरीर प्रयोगबंध के प्रकारने कहे थे " त जहा " के प्रकाश नीचे प्रभाषे
 थे-(मणाइए सपञ्जवसिए मणाइए अपञ्जवसिए) (१) अनादि सपर्यवसित
 (अनादि सान्त) अने (२) अनादि अपर्यवसित (अनादि अनन्त) (एव
 जहा तेयगस्स सचिद्वणा तहेव, एव जाव अतराइयकम्मस्स) पूर्वोक्त रीति से वही
 तैजस शरीर प्रयोगबंधनी वक्तव्यतानुं कथन पहिले करवाना आनुं है,
 और प्रभाषे ज्ञानावरणीय कर्मणः शरीर प्रयोगबंधनी वक्तव्यता पक्ष सम
 कनी. और प्रभाषे दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोष
 अने अन्तराय, आ कर्मणः शरीर प्रयोगबंधनी पक्ष वक्तव्यता समकनी
 आ विषयों के विशेषता है ते आगे प्रकट करवाना आवेगे.

इसे सूत्रकार शब्द शरीर प्रयोगबंध अन्तरनी प्ररूपणा करे है-
 आ विषयने अदृष्टाने गौतम स्वामी महावीर प्रभुने कहे प्रभु पूछे है

खलु कालतः कालापेक्षया कियच्चिरं भवति ? भगवानाह—' गोयमा ! अणाइयस्स एवं जहा तेयगसरीरस्स अंतरं तहेव, एवं जाव अंतराइयस्स ' हे गौतम ! अनादिकस्य सपर्यवसितस्य, एवम् अनादिकस्य अपर्यवसितस्य यथा तैजसशरीरस्य प्रयोगबन्धस्य अन्तरं नास्तीति प्रतिपादितम् तथैव ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगबन्धस्यापि अनादिकस्य सपर्यवसितस्य, अनादिकस्य अपर्यवसितस्यापि नास्ति अन्तरमिति भावः, एवं रीत्या यावत् दर्शनावरणीय-वेदनीया-ऽऽयुष्क-नाम-

प्पओगबंधंतरेण भंते ! कालओ केवच्चिर होइ) हे भदन्त ! ज्ञानावरणीय कर्मणशरीरप्रयोगबन्ध का अन्तर काल की अपेक्षा कितना है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—' गोयमा ' हे गौतम ! (अणाइयस्स एवं जहा तेयगसरीरस्स अंतरं तहेव, एवं जाव अंतराइयस्स) अनादि सपर्यवसित, एवं अनादि अपर्यवसित तैजसशरीरप्रयोगबंध का जैसा अन्तर नहीं कहा गया है उसी प्रकार से अनादि सपर्यवसित और अनादि अपर्यवसित ज्ञानावरणीयकर्मणशरीरप्रयोगबंध का भी अन्तर नहीं कहा गया है। इसी तरह से अनादि सपर्यवसित और अनादि अपर्यवसित दर्शनावरणीय-कर्मणशरीरप्रयोगबंध का, वेदनीय कर्मणशरीरप्रयोगबंध का, मोहनीय कर्मणशरीरप्रयोगबंध, आयुष्ककर्मणशरीरप्रयोगबंध का, नामकर्मणशरीरप्रयोगबंध का, गोत्रकर्मणशरीरप्रयोगबंध और अन्तरायकर्मणशरीरप्रयोगबंध का भी अन्तर प्रतिपादित नहीं किया गया है।

(गाणावरणिज्ज कम्भा सरीरप्पओगबंधंतरेण भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ?)
हे भदन्त ! ज्ञानावरणीय कर्मण शरीर प्रयोगबंधनुं अंतर काणनी अपेक्षाओ केट्ठु छे ?

भडावीर प्रभुनो उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! अणाइयस्स एवं जहा तेयगसरीरस्स अंतरं तहेव, एवं जाव अंतराइयस्स) अनादि सपर्यवसित अने अनादि अपर्यवसित तैजस शरीर प्रयोगबंधनुं अंतर नेम कहेवामा आओयुं नथी, ओण प्रभाओे अनादि सपर्यवसित अने अनादि अपर्यवसित ज्ञानावरणीय कर्मण शरीर प्रयोगबंधनुं पणु अंतर कछु नथी ओण प्रभाओे अनादि सपर्यवसित अने अनादि अपर्यवसित दर्शनावरणीय कर्मण शरीर प्रयोगबंधनुं, वेदनीय कर्मण शरीर प्रयोगबंधनुं मोहनीय कर्मण शरीर प्रयोगबंधनुं, आयुष्क कर्मण शरीर प्रयोगबंधनुं, नामकर्मण शरीर प्रयोगबंधनुं, गोत्रकर्मण शरीर प्रयोगबंधनुं अने अन्तराय कर्मण शरीर प्रयोगबंधनुं अन्तर प्रतिपादित करवामा आओयुं नथी

इवे सूत्रकार तैजस प्रयोगबंध करतां कर्मण शरीर प्रयोगबंधमां ने विशेषता छे तेनु प्रतिपादन करे छे—

गोष्मा-ऽऽन्तरायिकस्य कार्मणशरीरप्रयोगवन्धस्थापि अनादिकस्य सपर्यवसितस्य, अनादिकस्य अपर्यवसितस्यवान्तरं नास्तीति तात्पर्यम् । अथ तैजसशरीरप्रयोग व-पापेक्षया कार्मणशरीरप्रयोगवन्धस्य विशेष प्रतिपादयितुमाह- 'एपसि षं मते ! जीषाषं नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स देसभगगाण, अथधगाण य कयरे कयरेहिंतो जाव अप्पा बहुग जहा तेयगस्स, एव आउयवज्जं जाव अंतराइयस्स' गौतम ! पृच्छति- एतेषां त्वल्ल जीवानां ज्ञानावरणीयस्य कार्मणस्य शरीरप्रयोगस्य देसवन्धकानाम् अथधकानां च मध्ये कतरे कतरेभ्यो यानत् अल्या वा, बहुका वा, तुस्या वा, विशेषाधिका वा भवति ? मगधानाह- हे गौतम ! अल्प बहुत्वं कया तैज सस्य शरीरप्रयोगवन्धस्य विषये सर्वस्तोकत्वम् अवन्धकानाम्, अनंतगुणत्वं च देस वन्धकानां प्रतिपादितं तथैव ज्ञानावरणीयकार्मणशरीरप्रयोगवन्धविषयेऽपि सर्वं

अथ सूत्रकार तैजसशरीरप्रयोगवन्ध की अपेक्षा कार्मणशरीरप्रयोग वन्ध की विशेषता प्रतिपादित करते हैं- इसमें गौतम ने प्रश्न से ऐसा पूछा है (एपसि षं मते ! जीषा षं नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स देसवन्ध गगाणं अथधगाणं य कयरे कयरे हिंतो जाव अप्पा बहुग जहा तेयग स्स, एव आउयवज्जं जाव अंतराइयस्स) हे भद्रन्त ! इन ज्ञानावरणीय कार्मणशरीरप्रयोग के देसाय धक और अथधक जीवों के बीच में कौन जीव किन जीवों से यावत्-अल्प है ? कौन जीव किन जीवों से बहुत हैं ? कौन जीव किन जीवों के बराबर हैं और कौन जीव किन जीवों से विशेषाधिक हैं ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं- (गोयमा) हे गौतम ! जिस प्रकार से तैजस कार्मणशरीरप्रयोगवन्ध के विषय में अथधक जीवों को सय से कम कहा गया है और इनकी अपेक्षा देसायधकों को अनंतगुणा कहा गया है उन्हीं तरह से ज्ञानावरणीयकार्मणशरीरप्रयोगवन्ध के विषय में भी अथधक जीवों को सय से कम और देसायधकों को

जौतम स्वाभीना मक्ष- एपसि षं मते ! जीषाषं नाणावरणिज्ज कम्मस्स देसवन्ध गगाण, अथधगाणं य कयरे कयरेहिंता जाव अप्पा बहुग जहा तेय गस्स एव आउयवज्जं जाव अंतराइयस्स) इत्यादि । हे भद्रन्त ! ज्ञानावरणीय कार्मण शरीर प्रयोगवन्ध देसायधक लोभा अने अथधकोभां कया लोभा कया लोभा करता अल्प है ? कया लोभा कया लोभा करता अधिक है ? कया लोभा कया लोवानी अनन्तर है ? कया लोभा कया लोभा करता विशेषाधिक है

महावीरप्रभुनेन च । म- गोयमा । हे जौतम ! तैजस शरीर प्रयोगवन्ध अथधको नीची जाण कहां है अने देसायधको अल्पको करता अनन्तरवां कहां है अने अथधको ज्ञानावरणीय कार्मण शरीर प्रयोगवन्ध अथधको नीची

स्तोकत्वमवन्धकानाम्, अनन्तगुणत्व च देशवन्धकानां बोध्यम् । एवं रीत्या आयुष्कवर्जम् यावत्-दर्शनावरणीय-वेदनीय-मोहनीय-नाम-गोत्राऽऽन्तरायिककर्मणशरीरप्रयोगवन्धविषयेऽपि सर्वस्तोकत्वम् अवन्धकानाम्, अनन्तगुणत्व देशवन्धकानामवसेयमिति भावः । अथ गौतमः आयुष्कविषये प्रश्नयति—‘आउयस्स पुच्छा’ हे भदन्त ! आयुष्कस्य पृच्छा, तथा च आयुष्ककर्मणशरीरप्रयोगस्य देशवन्धकानाम् अवन्धकानां च मध्ये कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्तीति प्रश्नः, भगवानाह—‘गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा आउयस्स कम्मस्स देसवंधगा, अवंधगा संखेज्जगुणा’ हे गौतम ! सर्वस्तोका जीवा आयुष्कस्य कर्मणस्य शरीरप्रयोगस्य देशवन्धका भवन्ति, अवन्धकाश्च

इनसे अनन्तगुणा कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये । इसी तरह से आयुष्ककर्मणशरीरप्रयोगवन्ध को छोड़कर शेष दर्शनावरणीय, वेदनीय मोहनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय इन कर्मणशरीरप्रयोगवन्धों के विषय में भी इनके अवन्धकों को सब से कम और देशवन्धकों को अनन्तगुणा जानना चाहिये ।

अब गौतमस्वामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं (आउयस्स पुच्छा) हे भदन्त ! आयुष्क कर्मणशरीरप्रयोग के देशवन्धकों एवं अवन्धकों के बीच कौन जीव किनकी अपेक्षा अल्प हैं ? कौन जीव किनकी अपेक्षा बहुत हैं ? कौन जीव किनके वरावर हैं और कौन जीव किनकी अपेक्षा विशेषाधिक हैं ? इनके उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा आउयस्स कम्मस्स देसवंधगा, अवंधगा संखेज्जगुणा-) आयुष्क कर्म के देशवन्धक जीव सब से कम हैं और इनसे

ओछां छे, अने देशवंधके अणधके करतां अनतगणु छे, ओम समणु ओण प्रमाणे आयुष्क कर्मणु शरीर प्रयोगवंध सिवायना भाडीना दर्शना परणुय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र अने अन्तराय कर्मणु शरीर प्रयोगना अणधके सौथी ओछां छे अने देशवंधके अनतगणु छे ओम समणुवु.

गौतम स्वामीने प्रश्न—“आउयस्स पुच्छा” हे भदन्त ! आयुष्क कर्मणु शरीर प्रयोगना देशवंधके अने अणधकेमां केणु केना करतां अल्प छे ? केणु केना करता अधिक छे ? केणु केनी परापर छे ? केणु केनां करतां विशेषाधिक छे ?

भडावीर प्रबुणे उत्तर—“गोयमा” हे गौतम ! “सव्वत्थोवा जीवा आउयस्स कम्मस्स देसवंधगा, अवंधगा संखेज्जगुणा” आयुष्क कर्मणु प्रयोगना

સસ્યેયગુણા મવન્તિ, આયુર્ષઘાદ્વાયાઃ સ્તોકસ્વાત્ ઇયાં સર્વસ્તોકસ્વં ચોપ્યમ્, અવન્ઘાદ્વાયાસ્તુ વહુગુણસ્વાત્ તદવન્વકાનાં સસ્યાતગુણસ્વમવસેયમ્, ન વ અસસ્યાતગુણસ્વમેવ તદવન્વકાનાં કયં નોક્તમ્, તદવન્ઘાદ્વાયા અસસ્યાતઝીવિતા નાઢિસ્યાસંસ્યાતગુણસ્વસંમવાદિતિ વાઢ્યમ્ ? અનન્તકાયિકાનઢિકૃત્સૈવ મસ્તુત સૂત્રમવર્તનાત્, અનન્તકાયિકાનાશ્ચ સસ્યાતમાત્રમીવિત્ત્વાત્, અત ઇવ આયુષ્ક કાર્મણશરીરમયોગસ્યાવન્વકાસ્ત્વેશ્વવન્વકેમ્યઃ સંસ્યાતગુણા ઇવ મવન્તિ, વવ-

સસ્યાતગુણે આયુષ્કર્મ્મ કે અવન્વક ઝીવ હેં. વયેં કિ આયુષ્કવન્વક કા અદ્વાકાલ કમ હે-હસલિયે હનમેં અલ્પતા કહી ગઈ હે. ઓર આયુષ્ક વન્વક કા અવદ્વાકાલ વહુતગુણા હે હસલિયે આયુષ્ક કે અવવક ઝીવોં કો વનકી અપેક્ષા સંસ્યાતગુણા કહા ગયા હે. યહાં ડર ઇસી આશકા નહીં વરની વાહિયે કિ આયુષ્ક કે અવવક ઝીવોં કો અસંસ્યાતગુણા વયેં નહીં કહા ગયા હે. અસસ્યાતગુણા હી કહના વાહિયે યા વયેં કિ અસસ્યાત ઝીવ આયુષ્ક કે અવવક હેં અત આયુષ્ક કે અવવક અસસ્યાત ઝીવોં કો આઢિત કરકે આયુષ્ક કા અવઘાદ્વાકાલ અસં સ્યાતગુણા વન ઝાતા હે. સો હસ શકા કા ડરિહાર ઇસા હે કિ યહાં ડર આયુષ્ક કે અવવક ઝીવોં કો ઝો સસ્યાતગુણા કહા ગયા હે સો અનતકાયિક ઝીવોં કો સેકર હી કહા ગયા હે-કારણ અનન્તકાયિક ઝીવ સસ્યાતાદ્વાકાલ તક હી ઝીવિન રહતે હેં. હસલિયે આયુષ્કકાર્ મણશરીરમયોગ કે અવવક ઝીવ હસકે વેશવવકોં કી અપેક્ષા સસ્યા

વેશવવકો ઝીવોં ઝોઢાં છે અને વેશવવકો કવતાં અવવકો સઝ્યાતગુણાં છે, કારણ કે આયુષ્ક વન્વકો વદ્વાકાલ ઝોઢો છે-તે કારણે તેમાં અલ્પતા વેશવવકમાં વાવી છે અને આયુષ્કવન્વકો વવદ્વાકાલ વહુતગુણો ઢોવાયો આયુષ્કના અવવકો વેશવવકો કવતાં સઝ્યાતગુણા વતાંઢ્યા છે ય કા-આયુષ્કના અવવક હવોને અસઝ્યાતગુણા કહેવા ઝોઢતા વતા કારણ કે અસઝ્યાત હવ આયુષ્કના અવવક છે તેથી આયુષ્કના અવવક અસઝ્યાત હવોની અપેક્ષાઝે આયુષ્કનો અવવકાલ અવવકાલ ઝવવકાલ યહાં વાવ છે હતાં આયુષ્કના અવવક હવોને યા કારણે અસઝ્યાતગુણાં કહ્યાં નથી ?

સઢાધાન-અહીં આયુષ્કના અવવક હવોને કે સઝ્યાતગુણાં કહેવામાં વાંઢ્યા છે તે અનતકાયિક હવોની અપેક્ષાઝે કહેવામાં વાવેલ છે, કારણ કે અનતકાયિક હવ સઝ્યાતાદ્વાકાલ વવન્ત હવિત રહે છે તેથી

बन्धकाः सिद्धादयोऽपि तन्मध्ये क्षिप्येरन् तदापि तद्देशवन्धकेभ्यः संख्यातगुणा एव स्युः सिद्धाधवन्धकानामनन्तानामपि अनन्तकायिकायुर्वन्धकापेक्षयाऽनन्तभागत्वात्, अथ यद्यायुषोऽवन्धकाः सन्तो वन्धका भवन्ति तदा कथं न तेषां सर्ववन्ध सम्भवः ? इति चेदत्रोच्यते—सर्वासामपि असतीनामायुःप्रकृतीनाम् औदारिकादिशरीरवत् तैर्निवध्यमानत्वाभावात्, इति न सर्ववन्धमम्भवस्तेषामिति भावः ॥ सू०९ ॥

औदारिकादिवन्धपरस्परसंवन्धवक्तव्यता ।

औदारिकादिशरीरवन्धानां परस्परसम्बन्धं प्ररूपयितुमाह—‘जस्स णं’ इत्यादि ।

मूलम्—जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरस्स सव्वबंधे, से णं भंते ! वेउठ्विय सरीरस्स किं बंधए अवंधए ? गोयमा ! नो बंधए,

तगुणित ही कहे गचे हैं । यदि आयुष्क कार्मणशरीरप्रयोग के अवन्धक सिद्धादिकों को भी इनके बीच में प्रक्षिप्त कर लिया जाय तब भी इस के अवन्धक जीव इसके देसवन्धकों से संख्यातगुणित ही रहते हैं क्यों कि अनन्त भी सिद्धादिक अवन्धकों में अनन्तकायिकायुर्वन्धकों की अपेक्षा से अनन्तभागता आती है—यदि यहां पर ऐसा कहा जाय कि आयु के अवंधक होकर भी जीव उसके वन्धक होते हैं तो फिर क्यों नहीं उनमें सर्वबंध का संभव होगा ? तो इसका उत्तर ऐसा है कि जितनी भी आयुर्कर्म की प्रकृतियां उनके असती—अबद्धदशावाली होती हैं, उन सब अबद्धदशावाली आयुर्कर्म की प्रकृतियों का औदारिक आदि शरीर की तरह उनके बंध नहीं होता है—इसलिये उनके सर्वबंध का संभव नहीं है ॥ सू०९ ॥

आयुष्क कार्मण शरीर प्रयोगना देशबंधको करता अबंधको सभ्यातगणुं कहां छे जे आयुष्क कार्मण शरीर प्रयोगना अबंधक एवेमां सिद्धादिकेनी पणु गणुतरी करवामां आवे, तो पणु तेना अबंधक एवे देशबंधक एवे करता सभ्यातगणुं न रडे छे, कारणु के अनंत सिद्धादिक अबंधकोमां पणु अनंत कायिकायु अबंधकोनी अपेक्षासे अनंत लागता न रडेकी छे. जे अर्ही एवे प्रश्न उठाववामा आवे के आयुना अबंधक थधने पणु एव तेना अबंधक छे, तो पछी तेमनामां शा भाटे सर्वबंधने सदुलाव न डोर्द शके ? तो तेनु समाधान एवुं छे के जेटली आयुर्कर्मनी प्रकृतियो ते एवमां असती—अबद्ध—दशावाणी छे, ते पछी अबद्ध—दशावाणी आयुर्कर्मनी प्रकृतियोने औदारिक आदि शरीरनी जेम ते एवे अबंध करता नथी—तेथी तेमना सर्वबंधने सलव छेते नथी. ॥ सूत्र ९ ॥

अवधए । आहारगसरीरस्स किं वधए अवधए ? गोयमा । नो
 वधए, अवधए । तेयासरीरस्स किं वधए ? अवधए ? गोयमा ।
 वधए, णो अवधए । जइ वधए, किं देसवधए, सव्ववधए ?
 गोयमा । देसवधए, नो सव्ववधए । कम्मसरीरस्स किं वधए,
 अवधए ? जहेव तेयगस्स जाव देसवधए, नो सव्ववधए । जस्स
 णं भते ! ओरालियसरीरस्स देसवधे से णं भते ! वेउव्विय
 सरीरस्स किं वधए, अवधए ? गोयमा । नो वधए, अवधए,
 एव जहेव सव्ववधेणं भणिय तहेव देसवधेण वि भाणियव्वं,
 जाव कम्मगस्स जस्स णं भते ! वेउव्वियसरीरस्स सव्ववधए,
 से णं भते ! ओरालियसरीरस्स किं वधए अवधए ? गोयमा ।
 नो वधए, अवधए । आहारगसरीरस्स एव चेव । तेयगस्स, कम्म
 स्स य जहेव ओरालिएणं सम भणिय तहेव भाणियव्व जाव देस
 वधए, नोसव्ववधए । जस्स णं भते ! वेउव्वियसरीरस्स देसवधे,
 से णं भते ! ओरालियसरीरस्स किं वधए, अवधए ? गोयमा । नो
 वधए, अवधए । एव जहा सव्ववधेणं भणिय तहेव देसवधेण
 वि भाणियव्व, जाव कम्मगस्स । जस्स णं भते ! आहारगसरी
 रस्स सव्ववधे, से णं भते ! ओरालियसरीरस्स किं वधए,
 अवधए ? गोयमा । नो वधए, अवधए । एव वेउव्वियस्स वि ।
 तेयाकम्माणं जहेव ओरालिएणं सम भणिय तहेव भाणि
 यव्व । जस्स णं भते ! आहारगसरीरस्स देसवधे, से णं भते !
 ओरालियसरीरस्स किं वधए, अवधए ? एव जहा आहारगस

रीरस्स सव्वबंधेणं भणियं तथा देसबंधेण वि भाणियत्वं, जाव जाव कम्मगस्स, जस्स णं भंते ! तेयासरीरस्स देसबंधे, से णं भंते ! ओरालियसरीरस्स किं बंधए, अबंधए ? गोयमा ! बंधए वा, अबंधए वा, जइ बंधए किं देसबंधए, सव्वबंधए ? गोयमा ! देसबंधए वा, सव्वबंधए वा । वेउव्वियसरीरस्स किं बंधए, अबंधए ? एवं चेव । एवं आहारगसरीरस्स वि । कम्मगसरीरस्स किं बंधए, अबंधए ? गोयमा ! बंधए, नो अबंधए । जइ बंधए किं देसबंधए, सव्वबंधए ? गोयमा ! देसबंधए, नो सव्वबंधए । जस्स णं भंते ! कम्मगसरीरस्स देसबंधे, से णं भंते ! ओरालियसरीरस्स जहा तेयगस्स वत्तव्वया भणिया, तथा कम्मगस्स वि, भाणियत्वा, जाव तेयासरीरस्स जाव देसबंधए, नो सव्वबंधए ॥ सू० १० ॥

छाया—यस्य खलु भदन्त ! औदारिकशरीरस्य सर्ववन्धः स खलु भदन्त ! वैक्रियशरीरस्य किं वन्धकः, अवन्धकः ? गौतम ! नो वन्धकः, अवन्धकः ।

औदारिकादिवन्धों की परस्पर में सबन्धवक्तव्यता

‘जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरस्स सव्वबंधे’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरस्स सव्वबंधे से णं भंते ! वेउव्वियसरीरस्स किं बंधए, अबंधए) हे भदन्त ! जिस जीव के औदारिकशरीर का सर्वबंध होता है वह जीव क्या वैक्रियशरीर का वन्धक होता है या अवन्धक होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (नो बंधए,

औदारिक आदि म धेना परस्परना सम्बंधनु निश्चय—

“जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरस्स सव्वबंधे” इत्यादि—

सूत्रार्थ—(जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरस्स सव्वबंधे से णं भंते ! वेउव्विय सरीरस्स किं बंधए, अबंधए ?) हे भदन्त ! वे एव औदारिक शरीरना सर्वबंध करे छे, ते एव शु वैक्रिय शरीरना बंधक होय छे, हे

आहारकशरीरस्य किं षष्पकः ? अषष्पकः ? गौतम । नो षष्पक, अषष्पक ।
 तैजसशरीरस्य किं षष्पकः, अषष्पकः ? गौतम । षष्पक, नो अषष्पकः । यदि
 षष्पकः किं देशषष्पकः सर्वषष्पक ? गौतम । देशषष्पकः, नो सर्वषष्पक ।

अषष्प) औदारिकशरीर का सर्वषष्पक जीव वैक्रियशरीर का षष्पक
 नहीं होताहै, अषष्पक होता है । (आहारकशरीरस्स किं षष्प, अषष्प)
 हे भदन्त ! औदारिक शरीर का सर्वषष्पक जीव क्या आहारकशरीर का
 षष्पक होता है या अषष्पक होता है (गोपमा) हे गौतम ! (नो षष्प,
 अषष्प) औदारिक शरीर का षष्पक जीव आहारक शरीर का षष्पक
 नहीं होता है, अषष्पक होता है । (तैयासरीरस्स किं षष्प, अषष्प)
 हे भदन्त ! औदारिक शरीर का सर्वषष्पक जीव क्या तैजसशरीर का
 षष्पक होता है या अषष्पक होता है ? (गोपमा) हे गौतम ! (षष्प
 नो अषष्प) औदारिक शरीर का सर्वषष्पक जीव तैजसशरीर का षष्प
 क होता है अषष्पक-नहीं होता । (जइ षष्प किं देशषष्प सम्बषष्प
 हे भदन्त ! यदि औदारिक शरीर का सर्वषष्पक जीव तैजसशरीर का
 षष्पक होता है तो क्या यह देशषष्पक होता है या सर्वषष्पक होता है ?
 (गोपमा) हे गौतम । (देशषष्प, नो सम्बषष्प) औदारिक शरीर
 का सर्वषष्पक जीव तैजसशरीर का सर्वषष्पक नहीं होता है किन्तु देश

अषष्पक होय छे ? (गोपमा ।) हे गौतम । (नो षष्प, अषष्प) औदा
 रिक शरीरनेो सर्वषष्पक एव वैक्रिय शरीरनेो अषष्पक होतो नथी, षष्प अषष्प
 क होय छे (आहारकशरीरस्स किं षष्प अषष्प ?) हे भदन्त ! औदा
 रिक शरीरनेो सर्वषष्पक एव शु आहारक शरीरनेो अषष्पक होय छे, हे अषष्प
 क होय छे ? (गोपमा ।) हे गौतम । (नो षष्प, अषष्प) औदारिक
 शरीरनेो सर्वषष्पक एव आहारक शरीरनेो अषष्पक होतो नथी, अषष्पक होय
 छे (तैयासरीरस्स किं षष्प, अषष्प ?) हे भदन्त ! औदारिक शरीरनेो सर्व
 षष्पक एव शु तैजस शरीरनेो अषष्पक होय छे, हे अषष्पक होय छे ?
 (गोपमा ।) हे गौतम ! (षष्प, नो अषष्प) औदारिक शरीरनेो सर्वषष्पक
 एव तैजस शरीरनेो अषष्पक होय छे अषष्पक होतो नथी । (जइ षष्प किं
 देशषष्प, सम्बषष्प ?) हे भदन्त ! औदारिक शरीरनेो सर्वषष्पक एव नो
 तैजस शरीरनेो अषष्पक होय छे तो शु ते तैजस शरीरनेो देशषष्पक होय
 छे, हे सर्वषष्पक होय छे ? (गोपमा ।) हे गौतम । (देशषष्प, नो सम्ब
 षष्प) औदारिक शरीरनेो सर्वषष्पक एव तैजस शरीरनेो सर्वषष्पक होतो

कार्मणशरीरस्य किं बन्धकोऽबन्धकः ? यथैव तैजसस्य, यावत् देशबन्धकः, नो सर्वबन्धकः, यय खलु भदन्त । औदारिकशरीरस्य देशबन्धः, स खलु भदन्त । वैक्रियशरीरस्य किं बन्धकोऽबन्धकश्च ? गौतम ! नो बन्धकः अबन्धकः, एवं यथैव सर्वबन्धेन भणितं, तथैव देशबन्धेनापि भणितव्यम्, यावत्-कार्मणस्य खलु यस्य

बंधक होता है । (कर्मासरीरस्म किं बंधए अबंधए) हे भदन्त ! औदारिक शरीर का सर्वबंधक जीव कार्मणशरीर का बंधक होता है या अबंधक होता है ? (जहेव तेयगस्स जाव देसबंधए नो सव्वबंधए) हे गौतम ! औदारिक शरीर का सर्वबंधक जीव कार्मणशरीर का तैजस-शरीर की तरह देसबंधक होता है, सर्वबंधक नहीं होता है । (जस्स णं भन्ते ! ओरालियसरीरास देसबधे से णं भन्ते ! वेउव्वियसरीरस्म किं बंधए, अबंधए) हे भदन्त ! जिस जीव से औदारिक शरीर का देशबंध होता है वह जीव क्या वैक्रियशरीर का बंधक होता है या अबन्धक होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (नो बंधए अबंधक) औदारिकशरीर का देशबंधक जीव वैक्रियशरीर का बंधक नहीं होता है किन्तु अबंधक होता है । (एवं जहेव सव्वबंधेणं भणियं तहेव देसबंधेण वि भाणियव्वं) जिस तरह से पहिले औदारिक शरीर के सर्वबंध के विषय में कहा जा चुका है उसी तरह से यहां पर औदारिक शरीर के देशबंध के विषय में भी कहना चाहिये-(जाव कम्मगस्स णं) यावत्

नथी, पणु देशबंधक न् डाय छे. (कर्मासरीरस किं बंधए, अबंधए ?) हे भदन्त ! औदारिक शरीरनो सर्वबंधक एव शुं कार्मणु शरीरनो बंधक डाय छे, के अबंधक डाय छे ? (जहेव तेयगस्स, जाव देसबधए नो सव्वबंधए) हे गौतम ! औदारिक शरीरनो सर्वबंधक एव तैजस शरीरनो बंधक एव प्रमाणु न् कार्मणु शरीरनो देशबंधक डाय छे, सर्वबंधक डोतो नथी. (जस्स णं भन्ते ! ओरालियसरीरस देसबधे से णं भन्ते ! वेउव्वियसरीरस्म किं बंधए, अबंधए ?) हे भदन्त ! औदारिक शरीरनो देशबंधक एव शुं वैक्रिय शरीरनो बंधक डाय छे, के अबंधक डाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (नो बंधए, अबंधए) औदारिक शरीरनो देशबंधक एव वैक्रिय शरीरनो बंधक डोतो नथी पणु अबंधक डाय छे (एवं जहेव सव्वबंधेणं भणियं तहेव देसबंधेण वि भाणियव्वं) आ रीते औदारिक शरीरनो सर्वबंधना विषयमां न् प्रमाणु प्रतिपादन आगण करवामां आण्यु छे, जेन प्रमाणु औदारिक शरीरनो देशबंधना विषयमा पणु प्रतिपादन करहुं लेध्थे. (जाव कम्मगस्स णं)

સ્વલ્લ મદન્ત! વૈક્રિયશરીરસ્ય સર્વવન્ધકા, સ સ્વલ્લ મદન્ત! ઔદારિકશરીરસ્ય કિમ્
 વન્ધકા, અવન્ધકા ? ગૌતમ ! નો વન્ધક* ? અવન્ધક*, આહારકશરીરસ્ય એવમેવ,
 તૈજસસ્ય કાર્મણસ્ય ચ યથૈવ ઔદારિકેણ સમં મણિતં તથૈવ મણિતવ્યમ્ યાન્ત
 વેશ્વવન્ધકો નો સર્વવન્ધકા, યસ્ય સ્વલ્લ મદન્ત ! વૈક્રિયશરીરસ્ય દેશવન્ધકા, સ સ્વલ્લ

કાર્મણશરીરકે દેશવન્ધક (જસ્મ ણ મંતે । વેડધ્વિયસરીરસ્સ સમ્બવધે
 સે ણં મંતે । ઔરાલિયસરીરસ્સ કિં વન્ધવ અવન્ધવ) હે મદન્ત ! જિસજીવકો
 વૈક્રિયશરીર કા સર્વવન્ધક હોતા હૈ, વહ જીવ ઔદારિકશરીરકા વન્ધક
 હોતા હૈ યા અવન્ધક હોતા હૈ ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (નો વન્ધવ અવ
 વન્ધ) વૈક્રિયશરીર કા સર્વવન્ધક જીવ ઔદારિક શરીર કા વન્ધક નહીં
 હોતા હૈ ફિન્તુ અવન્ધક હોતા હૈ । (આહારકશરીરસ્સ એવમેવ, તેયગસ્સ
 કસ્મસ્મ ય જહેવ ઔરાલિયણ સમ મણિયં તથેવ મણિયવ્યં જાવ
 દેસવન્ધવ, નો સમ્બવન્ધવ) હસી તરહ સે આહારક શરીર કે વિષય મેં
 મી જાનના ધાહિયે । તૈજસ ઔર કાર્મણશરીર કા વૈક્રિયશરીર કા
 સર્વવન્ધક જીવ દેશવન્ધક હોતા હૈ એસા કહ્ના ધાહિયે જૈમા કિ ઔદાર
 િકશરીર કા સર્વવન્ધક જીવ તૈજસ ઔર કાર્મણશરીર કા દેશવન્ધક
 હોતા હૈ । સર્વવન્ધક વ હન દોનોં કા નહીં હોતા હૈ । (જસ્મ ણં મંતે ।
 વેડધ્વિયસરીરસ્સ દેસવન્ધે, સે ણં મંતે ! ઔરાલિયસરીરસ્સ કિં વન્ધવ,

આ રીતે “ ઔદારિક શરીરનો દેશવન્ધક એવ કામણ શરીરનો સર્વવન્ધક
 હોતો નથી, પણ દેશવન્ધક હોય છે ’ ત્યાં સુધીનું કથન કરવું એમજે

(જસ્મ ણ મતે । વેડધ્વિય સરીરમમ્બવધે સ ણ મતે । ઔરાલિય
 શરીરસ્સ કિં વન્ધવ, અવન્ધવ) હે મદન્ત ! વૈક્રિય શરીરનો સર્વવન્ધક
 એવ શું ઔદારિક શરીરનો વન્ધક હોય છે કે વન્ધવન્ધક હોય છે ?

(ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (નો વન્ધવ, અવન્ધવ) વૈક્રિયશરીરનો સર્વવન્ધક
 એવ ઔદારિક શરીરનો વન્ધક હોતો નથી પણ વન્ધવન્ધક હોય છે (આહારકશરી
 રસ્સ એવ મેવ તેયગસ્સ કસ્મગાસ ય જહેવ ઔરાલિયણ સમં મણિય તથેવ મણિ
 વ્યમ્ જાવ દેસવન્ધવ નો સમ્બવન્ધવ) એજ પ્રમાણે આહારક શરીરના વિષ
 યમાં પણ સમજવું જેવી રીતે ઔદારિક શરીરનો સર્વવન્ધક એવ વૈક્રિય
 કામણ શરીરનો દેશવન્ધક હોય છે એજ પ્રમાણે વૈક્રિય શરીરનો સર્વવન્ધક
 એવ પણ વૈક્રિય અને કામણ શરીરનો દેશવન્ધક હોય છે એમ સમજવું
 એવો એવ તેમનો સર્વવન્ધક હોતો નથી, એમ સમજવું (જસ્મ ણં મંતે ।

मदन्त ! औदारिकशरीरस्य किं बन्धकः, अबन्धकश्च ? गौतम ! नो बन्धकः, अबन्धकः, एवं यथा सर्वबन्धेन भणितं तथैव देशबन्धेनापि भणितव्यं यावत् कार्मणस्य, यस्य खलु भदन्त ! आहारकशरीरस्य सर्वबन्धः, स खलु भदन्त ! औदारिकशरीरस्य किं बन्धकः, अबन्धकः ? गौतम ! नो बन्धकः, अबन्धकः, एवं वैक्रियशरीरस्यापि, तैजसकार्मणयोः यथैव औदारिकेण समं भणितम् तथैव भणितव्यम् ।

अबन्धए) हे भदन्त ! जो जीव वैक्रियशरीर का देशबन्धक होता है वह क्या औदारिक शरीर का बन्धक होता है या अबन्धक होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (नो बन्धए, अबन्धए एवं जहा सव्वबन्धे णं भणियं, तहेव देसबन्धेण वि भाणियव्वं जाव कम्मगस्स) वैक्रियशरीर का देशबन्धक जीव औदारिक शरीर का बन्धक नहीं होता है किन्तु अबन्धक होता है । इस तरह से जैसा वैक्रियशरीर के सर्वबन्ध के विषय में कहा गया है उसी तरह से वैक्रियशरीर के देशबन्ध के विषय में भी यावत् कार्मण शरीर तक कहना चाहिये । (जस्स णं भन्ते ! आहारगसरीरस्स सव्वबन्धे से णं भन्ते ! ओरालियसरीरस्स किं बन्धए, अबन्धए) हे भदन्त ! जो जीव आहारकशरीर का सर्वबन्धक है, वह क्या औदारिक शरीर का बन्धक होता है या अबन्धक होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! आहारक शरीर का सर्वबन्धक जीव (नो बन्धए, अबन्धए) औदारिक शरीर का बन्धक नहीं होता है किन्तु अबन्धक होता है । (एवं वेउव्वियस्स वि,

वेउव्वियसरीरस्स देसबन्धे, से णं भन्ते ! ओरालियसरीरस्स किं बन्धए, अबन्धए) हे भदन्त ! ने एव वैक्रिय शरीरने देशबन्धक डोय छे, ते शु औदारिक शरीरने भन्धक डोय छे के अबन्धक डोय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (नो बन्धए, अबन्धए-एव जहा सव्वबन्धे णं भणियं, तहेव देसबन्धेण वि भाणियव्वं, जाव कम्मगस्स) वैक्रिय शरीरने देशबन्धक एव औदारिक शरीरने भन्धक डोतो नथी पणु अबन्धक डोय छे आ प्रमाणे नेवुं कथन वैक्रिय शरीरने सर्वबन्धना विषयमां डरवामा आब्बुं छे, एव प्रमाणे तु कथन वैक्रिय शरीरने देशबन्धना विषयमा पणु डाम्भणु शरीर पर्यन्तना विषयने अनुलेखीने डरवुं नेधम्मि (जस्स णं भन्ते ! आहारग सरीरस्स सव्वबन्धे, से णं भन्ते ! ओरालियसरीरस्स किं बन्धए, अबन्धए ?) हे भदन्त ! ने एव आहारक शरीरने सर्वबन्धक छे, ते शु औदारिक शरीरने भन्धक डोय छे, के अबन्धक डोय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! आहारक शरीरने सर्वबन्धक एव (नो बन्धए, अबन्धए) औदारिक शरीरने भन्धक डोतो नथी पणु अबन्धक न डोय छे. (एवं वेउव्वियस्स वि, तेयाकम्माण जहेव

પસ્ય સ્વલ્લ મદન્ત ! આહારકશરીરસ્ય દેશવષઃ, સ સ્વલ્લ મદન્ત ! ઔદારિકશરીરસ્ય કિં વષકા, અવન્યકો ઘા ? एव यथा आहारकशरीरस्य सर्ववषेन भनितं, तथा देशवषेनापि भणितव्यम्, यावत् कार्मस्य, यस्य स्वल्ल मदन्त ! तैजसश्री

તેપાકમ્મા ણ અહેય ઓરાલિણ સમ મણિય તહેવ માણિયવ્વ) હસી તરહ સે આહારક શરીર કા સર્વવષક ઝીષ વૈક્રિયશરીર કા વષક નહીં હોતા હૈ કિન્તુ અવ ષક હોતા હૈ । જેસે ઔદારિકશરીર કા સર્વવષક ઝીષ તૈજસ ધૌર કાર્મણ શરીર કા દેશવ ષક કહા ગયા હૈ ઉસી તરહ સે આહારક શરીર કા સર્વવ ષક ઝીષ તૈજસ ધૌર કાર્મણ શરીર કા દેશવ ષક હોતા હૈ સર્વવ ષક નહીં । (જસ્ત ણ મતે ! આહારગસરીરસ્ત વેસવ ષે, સે ણ મતે ! ઓરાલિયસરીરસ્ત કિં વ ષવ અવ ષવ) હૈ મદન્ત ! જો ઝીષ આહારક શરીર કા દેશવ ષક હોતા હૈ—વહ કયા ઔદારિક શરીર કા વષક હોતા હૈ યા અવ ષક હોતા હૈ ? (एव जहा आहारगसरीरस्स सव्यवषेण भणिय तहा विसवषेण वि भाणियव्व जाव कम्मगस्स) હૈ ગૌતમ ! જેસા આહારક શરીર કે સર્વવ ષ કે ષિપય મેં કહા ગયા હૈ સસી તરહ સે દેશવ ષ કે ષિપય મેં મી જાનના ચાહિયે અર્પાત આહારક શરીર કા દેશવ ષક ઝીષ ઔદારિક શરીર કા અવ ષક હોતા હૈ, વ ષક નહીં—હસી તરહ સે આહારક શરીર કા દેશવ ષક ઝીષ

ઓરાલિણ સમ મણિય તહેવ માણિયવ્વ) એજ પ્રમાણે આહારક શરીરને સર્વવ ષક હવ વૈક્રિય શરીરને બ ષક હોતો નથી પણ અબ ષક જ હોય છે જેવી રીતે ઔદારિક શરીરના સર્વવ ષક હવને તેજસ અને કાર્મણ શરીરને દેશવ ષક કહેવામાં આવ્યો છે એજ પ્રમાણે આહારક શરીરને સર્વવ ષક હવ પણ તેજસ અને કાર્મણ શરીરને દેશવ ષક જ હોય છે—સવ ષક હોતો નથી, એમ સમજવું

(જામ ણ મતે ! આહારગસરીરસ વૈસવ ષે, સે ણ મતે ! ઓરાલિયસરીરસ કિં વ ષવ અવ ષવ ?) હૈ મદન્ત ! જે હવ આહારકશરીરને દેશવ ષક હોય છે ? તે શું ઔદારિક શરીરને બ ષક હોય છે, કે અબ ષક હોય છે ?

(एव जहा आहारगसरीरस सव्यवषे ण भणिय तहा विसवषेण वि भाणियव्व जाव कम्मगस्स) હૈ ગૌતમ ! આહારક શરીરના સર્વવ ષને વિષે જેવું કયન કયામાં આવ્યું છે એજ પ્રમાણે કયન દેશવ ષના વિષયમાં પણ સમજવું એટલે કે આહારક શરીરને દેશવ ષક હવ ઔદારિક શરીરને અબ ષક હોય છે—બ ષક હોતો નથી એજ પ્રમાણે આહારક શરીરને દેશવ ષક હવ વૈક્રિય શરીરને બ ષક હોતો નથી આહારક શરીરને દેશવ ષક

रस्य देशबन्धः, खलु भदन्त ! औदारिकशरीरस्य किं बन्धकः, अबन्धकः ?
 गौतम ! बन्धको वा, अबन्धको वा, यदि बन्धकः किं देशबन्धकः ? सर्वबन्धकः ?
 गौतम ! देशबन्धको वा, सर्वबन्धको वा, वैक्रियशरीरस्य किं बन्धकः, अबन्धकः ?
 एवं चैव, एवम् आहारकशरीरस्यापि, कर्मणशरीरस्य किं बन्धकः, अबन्धकः ?

वैक्रिय शरीर का बंधक नहीं होता है। तैजस और कर्मणशरीर का वह देशबंधक होता है। (जस्स णं भन्ते ! तेयासरीरस्स देसबंधे से णं भन्ते ! ओरालियसरीरस्स किं बंधए, अबंधए) हे भदन्त ! जो जीव तैजसशरीर का देशबंधक होता है वह क्या औदारिक शरीर का बंधक होता है या अबंधक होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! तैजसशरीर का देशबंधक जीव (बंधए अबंधए वा) औदारिक शरीर का बंधक भी होता है और अबंधक भी होता है। (जह बंधए किं देसबंधए सव्वबंधए) हे भदन्त ! तैजस शरीर का देशबन्धक जीव यदि औदारिक शरीर का बंधक होता है तो क्या वह उसका देशबंधक होता है या सर्वबंधक होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (देसबंधए वा सव्वबंधए वा) वह औदारिक शरीर का देशबंधक भी होता है और सर्वबंधक भी होता है। (वेउ-व्वियसरीरस्स किं बंधए, अबंधए) हे भदन्त ! तैजसशरीर का देशबन्धक जीव वैक्रियशरीर का बंधक होता है या अबंधक होता है ? (गोयमा)

७५ तैजस अने कर्मण शरीरने देशबंधक होय छे-सर्वबंधक होने नथी।

(जस्सणं भन्ते ! तेयासरीरस्स देसबंधे, से णं भन्ते ! ओरालियसरीरस्स किं बंधए, अबंधए ?) हे भदन्त ! जे ७५ तैजस शरीरने देशबंधक होय छे, ते शु औदारिक शरीरने बंधक होय छे, के अबंधक होय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! तैजस शरीरने देशबंधक ७५ (बंधए अबंधएवा) औदारिक शरीरने बंधक पणु होय छे अने अबंधक पणु होय छे। (जह बंधए किं देसबंधए सव्वबंधए ?) हे भदन्त ! तैजस शरीरने देशबंधक ७५ जे औदारिक शरीरने बंधक होय छे, ते शु ते तेने देशबंधक होय छे, के सर्वबंधक होय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! ते औदारिक शरीरने देश बंधक पणु होय छे अने सर्वबंधक पणु होय छे। (वेउव्वियसरीरस्स किं बंधए, अबंधए ?) हे भदन्त ! तैजस शरीरने देशबंधक ७५ शु वैक्रिय शरीरने बंधक होय छे, के अबंधक होय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (एवं चैव, एवं आहारकशरीरस्स वि) तैजस शरीरने देशबंधक ७५ वैक्रिय शरी

यस्य स्वच्छ मदन्त । आहारकशरीरस्य देशवधः, स स्वच्छ मदन्त । औदारिकशरीरस्य किं वधका, अय वधको वा ? एव यथा आहारकशरीरस्य सर्ववधेन मणितं, तथा देशवधेनापि मणितव्यम्, यावत् कर्मस्य, यस्य स्वच्छ मदन्त । तैप्रसशरी

तेयाकम्मा ण जहेव ओरालिपण सम मणिय तहेव भाणियन्व) इसी तरह से आहारक शरीर का सर्ववधक जीव वैक्रियशरीर का वधक नहीं होता है किन्तु अय वधक होता है । जैसे औदारिकशरीर का सर्ववधक जीव तैजस और कर्मण शरीर का देशवधक कहा गया है उसी तरह से आहारक शरीर का सर्ववधक जीव तैजस और कर्मण शरीर का देशवधक होता है सर्ववधक नहीं । (जस्त ण भंते ! आहारगसरीरस्त वैसयधे, से ण भंते ! ओरालियसरीरस्त किं वधए अय वध) हे मदन्त ! जो जीव आहारक शरीर का देशवधक होता है—वह क्या औदारिक शरीर का वधक होता है या अवधक होता है ? (एव जहा आहारगसरीरस्त सब्बयधेण मणिय तहा वैसयधेण वि भाणियन्व जाव कम्मगस्त) हे गौतम ! जैसा आहारक शरीर के सर्ववध के विषय में कहा गया है उसी तरह से देशवध के विषय में भी जानना चाहिये अर्थात् आहारक शरीर का देशवधक जीव औदारिक शरीर का अय वधक होता है, वधक नहीं—इसी तरह से आहारक शरीर का देशवधक जीव

ओरालिपणं समं मणिय तहेव भाणियन्व) जेव प्रभावे आहारक शरीरने। सर्ववधक एव वैक्रिय शरीरने। अधक डोतो नथी पयु अयवधक व डोय छे नेवी रीते औदारिक शरीरने। सर्ववधक एवने तैजस अने कर्मण शरीरने। देशवधक कडेवामां आन्वो छे, जेव प्रभावे आहारक शरीरने। सर्ववधक एव पयु तैजस अने कर्मण शरीरने। देशवधक व डोय छे—सर्ववधक डोतो नथी, जेव समव्यु

(जस्त ण भंते ! आहारगसरीरस्त वैसयधे, से ण भंते ! ओरालियसरीरस्त किं वधए अय वध ?) हे मदन्त ! जे एव आहारकशरीरने। देशवधक डोय छे ? ते शु औदारिक शरीरने। अधक डोय छे के अयवधक डोय छे ?

(एव जहा आहारगसरीरस्त सब्बयधे ण मणियं तहा वैसयधेण वि भाणियन्व जाव कम्मगस्त) हे गौतम ! आहारक शरीरने। सर्ववधने विरे नेवु कथन कएवामां आन्वु छे जेव प्रभावे कथन देशवधने। विषयमां पयु समव्यु जेवरे के आहारक शरीरने। देशवधक एव औदारिक शरीरने। अयवधक डोय छे—अधक डोतो नथी जेव प्रभावे आहारक शरीरने। देशवधक एव वैक्रिय शरीरने। अधक डोतो नथी आहारक शरीरने। देशवधक

रस्य देशबन्धः, खलु भदन्त ! औदारिकशरीरस्य किं बन्धकः, अबन्धकः ?
 गौतम ! बन्धको वा, अबन्धको वा, यदि बन्धकः किं देशबन्धकः ? सर्वबन्धकः ?
 गौतम ! देशबन्धको वा, सर्वबन्धको वा, वैक्रियशरीरस्य किं बन्धकः, अबन्धकः ?
 एवं चैव, एवम् आहारकशरीरस्यापि, कार्मणशरीरस्य किं बन्धकः, अबन्धकः ?

वैक्रिय शरीर का बंधक नहीं होता है। तैजस और कार्मणशरीर का वह देशबंधक होता है। (जस्स णं भन्ते ! तेयासरीरस्स देसबंधे से णं भन्ते ! ओरालियसरीरस्स किं बंधए, अबंधए) हे भदन्त ! जो जीव तैजसशरीर का देशबंधक होता है वह क्या औदारिक शरीर का बंधक होता है या अबंधक होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! तैजसशरीर का देशबंधक जीव (बंधए अबंधए वा) औदारिक शरीर का बंधक भी होता है और अबंधक भी होता है। (जह्वंघए किं देसबंधए सव्वबंधए) हे भदन्त ! तैजस शरीर का देशबन्धक जीव यदि औदारिक शरीर का बंधक होता है तो क्या वह उसका देशबंधक होता है या सर्वबंधक होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (देसबधए वा सव्वबंधए वा) वह औदारिक शरीर का देशबधक भी होता है और सर्वबंधक भी होता है। (वेउव्वियसरीरस्स किं बंधए, अबंधए) हे भदन्त ! तैजसशरीर का देशबधक जीव वैक्रियशरीर का बंधक होता है या अबंधक होता है ? (गोयमा)

७७ तैजस अने कार्मण शरीरने देशबंधक होय छे-सर्वबंधक होने नथी.

(जस्स णं भन्ते ! तेयासरीरस्स देसबंधे, से णं भन्ते ! ओरालियसरीरस्स किं बंधए, अबंधए ?) हे भदन्त ! जे ७७ तैजस शरीरने देशबंधक होय छे, ते शुं औदारिक शरीरने बंधक होय छे, के अबंधक होय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! तैजस शरीरने देशबंधक ७७ (बंधए अबंधएवा) औदारिक शरीरने बंधक पणु होय छे अने अबंधक पणु होय छे (जह्वंघए किं देसबंधए सव्वबंधए ?) हे भदन्त ! तैजस शरीरने देशबंधक ७७ जे औदारिक शरीरने बंधक होय छे, ते शुं ते तेने देशबंधक होय छे, के सर्वबंधक होय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! ते औदारिक शरीरने देश बंधक पणु होय छे अने सर्वबंधक पणु होय छे. (वेउव्वियसरीरस्स किं बंधए, अबंधए ?) हे भदन्त ! तैजस शरीरने देशबंधक ७७ शुं वैक्रिय शरीरने बंधक होय छे, के अबंधक होय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (एवं चैव, एवं आहारकशरीरस्य वि) तैजस शरीरने देशबंधक ७७ वैक्रिय शरीर

गौतम ! पचको, नो भवपच, यदि पचक किं देशवचकः, सर्वपचः ।
 गौतम ! देशवचकः, नो सर्ववचक, यस्य गलु मदन्त । कामणशरीरस्य देव
 पच, स खलु मदन्त । औदारिकशरीरस्य यया तैजसस्य वक्तव्यता मणिता उवा
 कामणस्यापि मणितव्या यावत् तैजसशरीरस्य यावत्-देशवचको नो
 सर्वपचकः ॥ सू० १० ॥

हे गौतम ! (एव चैव, एव आहारगमरीरस्म वि) तैजस शरीर का
 देशवचक जीव अक्रियशरीर का देशवचक होता है ? सर्ववचक नहीं-
 इस तरह से पहिले जैसा कथन जानना चाहिये । इस तरह से तैजस
 शरीर का देशवचक जीव आहारक शरीर का भी देशवचक ही होना है ।
 (कम्मगसरीरस्स किं पचए अवचए) हे भदन्त ! तैजस शरीर का
 देशवचक जीव कामणशरीर का वचक होता है या अवचक होता है ?
 (गोयमा) हे गौतम ! (पचए, नो अवचए) तैजसशरीर का देशवचक
 जीव कामण शरीर का वचक होता है अवचक नहीं । (अइ वचए किं
 देसपचए मववचए) यदि वह कामणशरीर का वचक होता है तो क्या
 वह उसका देशवचक होता है या सववचक होता है ? (गोयमा) हे
 गौतम ! वह उसका (देसपचए नो सववचए) देशवचक होता है,
 सर्ववचक नहीं होता है । (जस्स ण भंते । कम्मगसरीरस्स देसपचे से
 णं भंते । ओराळियमरीरस्स) हे भदन्त ! जिस जीवके कामणशरीरका
 देशवच होता है, वह जीव क्या औदारिक शरीर का वचक होता है,

रने। देशवचक पलु डोय छे अने सववचक पलु डोय छे कोए प्रभावे
 तैजस शरीरने। देशवचक एव आहारक शरीरने। देशवचक पलु डोय छे
 सववचक पलु डोय छे (कम्मगसरीरस्स किं पचए, अवचए) हे भदन्त ! तैजस
 शरीरने। देशवचक एव कामणशरीरने। वचक डोय छे । हे अवचक डोय छे
 (गोयमा) हे गौतम ! (पचए नो अवचए) तैजसशरीरने। देशवचक एव कामण
 शरीरने। वचक डोय छे, अवचक डोय नथी (अइ वचए किं देसपचए सवव
 चए) हे भदन्त ! जो ते कामण शरीरने। वचक डोय तो तु ते तेने। देश
 वचक डोय छे, हे सववचक डोय छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (इववचए
 नो सववचए) ते तेने। देशवचक न डोय छे, सववचक डोय नथी।

(जस्स ण भंते ! कम्मगसरीरस्स देसपचे से ण भंते ! ओराळियमरीरस्स)
 हे भदन्त ! कामण शरीरने। देशवचक एव तु औदारिक शरीरने। वचक

ટીકા—‘જસ પં મંતે ! ઓરાલિયસરીરસ સવ્વવંધે, સે પં મંતે ! વેડ-વિવિયસરીરસ કિં વંધણ, અવંધણ ?’ હે મદન્ત ! યસ્ય ચલુ જીવસ્ય ઔદારિક-શરીરવન્ધઃ સર્વવન્ધરૂપો વર્તતે. હે મદન્ત ! સ ચલુ ઔદારિકશરીરસર્વવન્ધકો જીવઃ કિં વૈક્રિયશરીરસ્ય વન્ધકો ભવતિ ? અવન્ધકો વા ભવતિ ? મગવાનાહ—‘ગોયમા ! નો વંધણ, અવંધણ’ હે ગૌતમ ! ઔદારિકશરીરસર્વવન્ધકો જીવઃ નો વૈક્રિયશરી-

યા અવંધક હોતા હૈ ? (જહા તેયગસસ વત્તવ્વયા મણિયા, તહા કમ્મ-ગસસ વિ મણિયવ્વા, જાવ તેયાસરીરસસ જાવ દેસવંધણ નો સવ્વવં-ધણ) હે ગૌતમ ! જૈસી વત્તવ્વયા તૈજસ શરીર કી કહી ગઈ હૈ—ઉસી તરહ કી વત્તવ્વયા કાર્મણશરીર કી મી કહની ચાહિયે । યાવત્ વહ તૈજસશરીર કા દેશવંધક હોતા હૈ, સર્વવંધક નહીં ।

ટીકાર્થ—હસ સૂત્ર દ્વારા સૂત્રકાર ને ઔદારિક આદિ શરીરોં કા પરસ્પર મેં સંવંધ પ્રરૂપિત કિયા હૈ । હસમેં ગૌતમ ને પ્રમુ સે ંસા પૂછા હૈ—(જસ પં મંતે ! ઓરાલિય સરીરસસ સવ્વવંધે, સે પં મંતે ! વેડ-વિવિય સરીરસસ કિં વંધણ અવંધણ) હે મદન્ત ! જિસ જીવ કે ઔદારિક શરીર કા સર્વવંધરૂપ હોતા હૈ, વહ જીવ કયા વૈક્રિયશરીર કા વંધક હોતા હૈ યા અવન્ધક હોતા હૈ ? હસકે ઉત્તર મેં પ્રમુ કહતે હૈ—(ગોયમા) હે ગૌતમ ! (નો વંધણ અવંધણ) ઔદારિક શરીર કા સર્વવંધક જીવ

હોય છે, કે અબંધક હોય છે ? (જહા તેયગસસ વત્તવ્વયા મણિયા, તહા કમ્મ-ગસસ વિ મણિયવ્વા, જાવ તેયાસરીરસસ જાવ દેસવંધણ નો સવ્વવંધણ) હે ગૌતમ ! તૈજસ શરીરનો જેવું કથન કરવામાં આવ્યું છે, એજ પ્રમાણેનું કથન કાર્મણ શરીરના વિષયમાં પણ કરવું જોઈએ “ કાર્મણ શરીરનો દેશવંધક જીવ તૈજસ શરીરનો દેશવંધક જ હોય છે, સર્વવંધક હોતો નથી ” ત્યાં સુધીનું પૂર્વોક્ત કથન અહીં ગ્રહણ કરવાનું છે

ટીકાર્થ—આ સૂત્રદ્વારા સૂત્રકારે ઔદારિક આદિ શરીરોના પરસ્પરના સંબંધની પ્રશ્નપૂછા કરી છે. આ વિષયને અનુલક્ષીને ગૌતમ સ્વામી મહાવીર પ્રભુને એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે—‘ જસ પં મંતે ! ઓરાલિય સરીરસસ સવ્વવંધે, સે પં મંતે ! વેડવિવિયસરીરસસ કિં વંધણ, અવંધણ ? ’ હે મદન્ત ! જે જીવે ઔદારિક શરીરનો સર્વવંધ કર્યો હોય છે, તે જીવે વૈક્રિય શરીરનો બંધક હોય છે, કે અબંધક હોય છે ?

મહાવીર પ્રભુનો ઉત્તર—‘ ગોયમા ! ’ હે ગૌતમ ! ઔદારિક શરીરનો સર્વવંધક જીવ “ નો વંધણ, અવંધણ ” વૈક્રિય શરીરનો બંધક હોતો નથી,

रस्य बन्धको भवति, अपितु अबन्धको भवति, एकसमये औदारिकवैक्रिययोर्बन्धा
 सद्भावात् नो बन्धकः इति भाष, गौतमः पृच्छति—' आहारगसरीरस्स किं
 बधए, अबधए ? ' हे भद्र ! औदारिकशरीरस्य सर्वबन्धको जीवः किम् आहारक-
 शरीरस्य बन्धको भवति ? किं वा अबन्धको भवति ? भगवानाह—' गोयमा !
 नो बधए, अबधए, ' हे गौतम ! औदारिकशरीरस्य सर्वबन्धको जीवः नो आहा-
 रकशरीरस्य बन्धको भवति, अपितु अबन्धको भवति, एकदा औदारिकाहारकयो-
 र्बन्धामावात् । तैजसस्य शरीरबन्धस्य तु सदैवाभिरहितत्वात् देशबन्धेन बन्धको
 वैक्रियशरीरका बन्धक नहीं होता है किन्तु वह उसका अबन्धक होता है ।
 इसका कारण यह है कि एक समय में औदारिक और वैक्रियशरीर
 इनका जीवको बन्ध नहीं होता है ।

अथ गौतमस्यामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं—' आहारगसरीरस्स
 किं बधए अबधए) हे भद्र ! जो जीव औदारिक शरीर का सर्वब-
 धक है ? वह क्या आहारक शरीर का बन्धक होता है ? या अब-
 धक होता है ? इसके उत्तर में प्रश्नु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम !
 औदारिक शरीर का सर्वबन्धक जीव आहारक शरीर का (नो बधए,
 अबधए) बन्धक नहीं होता है किन्तु वह उसका अबन्धक होता है ।
 इसका भी कारण यही है कि एक साथ में औदारिक और आहारक
 इन दोनों शरीरों का जीव के बन्ध नहीं होता है । तैजसशरीर का बन्ध
 जीव के संसारदशातक सदा रहता है—इसलिये औदारिक शरीर का
 सर्वबन्धक जीव इसका देशबन्धक होता है—सर्वबन्ध तैजसशरीर का होता

पञ्च ते तेनो अबन्धकं कोषं छे कश्चिद्दे के अन्ते समबन्धं औदारिकं अने
 वैक्रियं, आ अन्ते शरीरिनो बन्धं एव कश्चिद्दे नधी

गौतम स्वाभीनो प्रश्नु—(आहारगसरीरस्स किं बधए, अबधए ?)
 हे भद्र ! ने एव औदारिक शरीरिनो अबन्धकं छे, ते तु आहारक शरी-
 रिनो बन्धकं कोषं छे के अबन्धकं कोषं छे ?

भद्रावीर प्रश्नुनो उत्तर—' गोयमा ! " औदारिक शरीरिनो अबन्धकं
 एव आहारक शरीरिनो " नो बधए, अबधए " बन्धकं कोषं छेते नधी पञ्च ते
 तेनो अबन्धकं कोषं छे, तेनं कश्चिद्दे पञ्च अन्ते छे के साथे औदारिक अने
 आहारक आ अने शरीरिनो बन्धं एव कश्चिद्दे नधी, तैजस शरीरिनो बन्धं एवने
 संसार दशा सुभी कश्चिद्दे छे ते कश्चिद्दे औदारिक शरीरिनो अबन्धकं
 एव तेनो देशबन्धकं भाषं छे तैजस शरीरिनो अबन्धकं कोषं छेते नधी, अन्ते
 वाद नीधेन्य प्रश्नुत्तरिभां सत्रकारे स्पष्ट करी छे—


भवति, सर्वबन्धस्तु तैजसस्य नास्त्वेवेत्प्रमायेण प्रश्नोत्तरमाह—‘ तेषांशरीरस्य किं बन्धए, अबन्धए ? ’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! औदारिकशरीरस्य सर्वबन्धको जीवः किं तैजसशरीरस्य बन्धको भवति ? अबन्धको वा भवति ? भगवानाह—‘ गोयमा ! बन्धए, नो अबन्धए ’ हे गौतम ! औदारिकशरीरस्य सर्वबन्धको जीवः तैजसशरीरस्य देशबन्धको भवत्येव, नो अबन्धको भवति, सर्वबन्धकस्तु नो भवतीत्याशयेनाह—‘ जइ बन्धए किं देसबन्धए, सब्वबन्धए ? ’ हे भदन्त ! यदि यत् खलु औदारिकशरीरसर्वबन्धकस्तैजसशरीरबन्धक उक्तः, स किं तैजसस्य देशबन्धकरूपः, सर्वबन्धकरूपो वा भवति ? इति प्रश्नः, भगवानाह—‘ गोयमा ! देसबन्धए, नो सब्वबन्धए ’ हे गौतम ! स तैजसस्य देशबन्धको भवति, नो सर्वबन्धक इति भावः, उक्ततैजसशरीरवत् कर्मणशरीरस्यापि बन्धमतिदिशन्नाह—‘ कम्माशरीरस्स

ही नहीं है—इसी घात को गौतम ने प्रश्न के रूप में प्रभु से (तेषांशरीरस्य किं बन्धए अबन्धए) ऐसा पूछा है—कि हे भदन्त ! जो जीव औदारिक शरीर का सर्वबन्धक है—वह क्या तैजसशरीर का बन्धक होता है या अबन्धक होता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा ! बन्धए, नो अबन्धए) औदारिक शरीर का सर्वबन्धक जीव तैजसशरीर का बन्धक होता है अबन्धक नहीं होता है । इस पर फिर गौतम ने प्रभु से ऐसा पूछा कि यदि वह जीव उसका बन्धक होता है तो क्या वह (देसबन्धए सब्वबन्धए) उसका देशबन्धक होता है या सर्वबन्धक होता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—हे गौतम ! (देसबन्धए, नो सब्वबन्धए) वह उसका सर्वबन्धक नहीं होता किन्तु देशबन्धक ही होता है । इसी तरह से औदारिक शरीर का सर्वबन्धक जीव कर्मणशरीर का भी देशबन्धक

गौतम स्वामीने प्रश्न—“ तेषांशरीरस्य किं बन्धए, अबन्धए ? ” हे भदन्त ! जे एव औदारिक शरीरने सर्वबन्धक छे, ते शु तैजस शरीरने अबन्धक छे, के अबन्धक छे ?

महावीर प्रभु तेने उत्तर आपता कडे छे—“ गोयमा ! बन्धए नो अबन्धए ” हे गौतम ! औदारिक शरीरने सर्वबन्धक एव तैजस शरीरने अबन्धक छे, अबन्धक छे, नथी ते प्रश्नना अनुसंधानमा गौतम स्वामी महावीर प्रभुने एवे प्रश्न करे छे के जे ते एव तेने अबन्धक छे, ते शु ते तेने “ देसबन्धए सब्वबन्धए ? ” देशबन्धक छे, के सर्वबन्धक छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—हे गौतम ! (देसबन्धए नो सब्वबन्धए) ते तेने सर्वबन्धक छे, नथी पणु देशबन्धक न छे, जे एव प्रमाणे औदारिक शरीरने सर्वबन्धक एव कर्मणशरीरने पणु देशबन्धक न छे, सर्व-



किं वधय ?' हे भदन्त ! औदारिकशरीरस्य सर्वबन्धक किं कामणशरीरस्य पचको भवति ? किं वा अयधको भवति?, भगवानाह- जडेव तेभगस्त भार देसवधय, नो सन्वधय' हे गौतम ! यथैव तेभसस्य शरीरस्य यावत् वधको देशवन्धकरूप एवोक्तो नो सर्ववधकस्तथैव कामणशरीरस्यापि बन्धको देशवन्धक एव भवति नो सर्वबन्धको भवति उक्त रीत्या औदारिकशरीरस्य सर्ववन्धमाभित्य शेषाणां वधप्ररूपण कृत्वा अगौदारिकस्यैव शरीरस्य देशवधप्रमाथित्य अन्येषां वध प्ररूपयितुमाह- 'जस्स णं मते ! ओराळियमरीरस्स देसवधे, से णं मते ! वेउण्णियमरीरस्स किं वधय अवधय ?' हे भदन्त ! यस्य सत्तु जीवस्य औदारिकशरीरस्य देशवन्धो भवति, भदन्त ! स सत्तु मीवः किं वैक्रियशरीरस्य वधको भवति, अवन्धको वा भवति ? भगवानाह- 'गोयमा ! नो वधय, अवधय' हे गौतम ! औदारिकशरीरस्य देशवन्धको जीवो वैक्रियशरीरस्य नो

होना है-सर्ववधक नहीं। यही बात-(कम्मासरीरस्स किं वधय अवधय) इत्यादि प्रश्नोत्तररूप सूत्रपाठ द्वारा व्यक्त की गई है। इस प्रकार औदारिक शरीर के सर्ववध को लेकर शेष वैक्रियादिशरीरों के वधकी प्ररूपणा की गई है-अथ औदारिकशरीर के ही देशवध को लेकर सूत्रकार वैक्रियादिशरीरों के वध की प्ररूपणा करते हैं-इसमें गौतम ने प्रश्न से ऐसा पूछा है-(जस्स णं मते ! ओराळिय मरीरस्स देसबंधे-से णं मते ! वेउण्णियमरीरस्स किं वधय अवधय) हे भदन्त ! जो जीव औदारिकशरीर का देशवधक है, वह क्या वैक्रियशरीर का वधक होता है ? या अवधक होता है ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं-(गोयमा) हे गौतम ! (नो वधय, अवधय) औदारिक शरीर का देशवध जीव

वधक होता नहीं अथ वात सूत्रकारे-(कम्मासरीरस्स किं वधय अवधय) इत्यादि प्रश्नोत्तररूप सूत्रपाठ द्वारा व्यक्त करी छे अथ प्रभाषे औदारिकशरीरना सर्ववधने अनुवक्षीने आक्षीना वैक्रियादि शरीराना वधनी प्ररूपणा करे वामां आनी छे इवे सूत्रकार औदारिकशरीरना देशवधनी अपेक्षाने वैक्रिय आदि शरीराना वधनी नीजेना प्रश्नोत्तरा द्वारा प्ररूपणा करे छे-

औतमस्वार्थानो प्रश्न (जस्स णं मते ! ओराळियमरीरस्स देसबंधे से णं मते ! वेउण्णियमरीरस्स किं वधय अवधय ?) के भदन्त ! वे एव औदारिकशरीरनो देशवधक छे, ते शु वैक्रियशरीरनो वधक होय छे के अवधक होय छे । भदानीए प्रश्नो उतर-(गोयमा !) औतम ! (नो वधय, अवधय) औदारिकशरीरनो देशवधक एव वैक्रियशरीरनो वधक होतो नहीं वध

बन्धको भवति, अपितु अवन्धको भवति, ' एवं जहेव सव्वबंधेणं भणियं, तहेव देसव धेणवि, भाणियव्वं, जाव कम्मगस्स णं ' एवम् उक्तरीत्या यथैव औदारिकस्य शरीरस्य सर्वबन्धेन सर्वबन्धविषयाभिलापेन भणितं वैक्रियादीनामवन्धकत्वं बन्धकत्वं च यथायोगं प्रतिपादितं तथैव औदारिकस्य शरीरस्य देशबन्धेनापि वैक्रियादीनामवन्धकत्वं बन्धकत्वं च यथायोगं प्रतिपत्तव्यं यावत्-औदारिकशरीरस्य देशबन्धकः आहारकशरीरस्य नो बन्धकोऽपितु अवन्धकः, एवमौदादिकदेशबन्धकः तैजसस्य शरीरस्य तु देशबन्धको भवति नो अवन्धकः, एवं कार्मणशरीरस्यापि खलु देशबन्धको भवति, नो अवन्धक इति भावः, अथ वैक्रियस्य सर्वबन्धमाश्रित्य शेषाणां बन्धप्ररूपणार्थमाह-' जस्स ण भंते ! वेउन्वियसरीरस्स सव्वबंधए, सेणं भंते ! ओरालियसरीरस्स किं वधए, अवधए ? ' गौतमः पृच्छति-हे भदन्त !

वैक्रियशरीर का बंधक नहीं होता है, अबंधक ही होता है-इसी बात को सूत्रकार ने (जहेव सव्वबंधेणं भणियं तहेव देसबंधेण वि भाणियव्वं जाव कम्मगस्स णं) इस पाठ द्वारा समझाया है। इस में यह समझाया गया है कि जिस प्रकार से औदारिक शरीर के सर्वबंधविषयक अभिलाप द्वारा वैक्रिय आदि की बंधकता और अबंधकता प्रकट की गई है, उसी प्रकार से औदारिकशरीर के देशबंध के साथ में भी वैक्रिय आदि शरीरों की बंधकता और अबंधकता जाननी चाहिये-तथा च-औदारिक शरीर का देश बंधक जीव आहारकशरीर का बंधक नहीं होता है-किन्तु अवन्धक ही होता है। इसी तरह से वह तैजसशरीर का देशबंधक ही होता है सर्वबंधक नहीं होता। और न वह उसका अबंधक ही होता है। इसी तरह से कार्मणशरीर का भी देशबंधक ही होता है अवन्धक और सर्वबंधक नहीं होता है।

अधक न् डोय छे (जहेव सव्वबंधेण भणिय तहेव देसबंधेण वि भाणियव्वं जाव कम्मगस्स णं) नेम औदारिक शरीरना सर्वबंधविषयक आलापक द्वारा वैक्रिय आदिनी अधकता अने अधकता प्रकट करवामां आवी छे, ओण प्रमाणे औदारिकशरीरना देशबंधनी साथे वैक्रिय आदि शरीरनी अधकता अने अधकता समजवी नेम के-औदारिकशरीरना देशबंधक एव आहारकशरीरना अधक होतो नथी पणु अधक न् डोय छे ओण प्रमाणे ओवे एव तैजसशरीरना देशबंधक न् डोय छे-अधक होतो नथी. ओण प्रमाणे औदारिकशरीरना देशबंधक एव कार्मणशरीरना पणु देशबंधक न् डोय छे-ते तेने अधक अने सर्वबंधक होतो नथी.



यस्य स्वच्छ जीवस्य वैक्रियशरीरस्य सर्वबन्धो भवति, स स्वच्छ भदन्त ! वैक्रिय-
शरीरसर्वबन्धको जीवः किम् औदारिकशरीरस्य बन्धको भवति ? किं वा अव-
न्धको भवति ? मगवानाह—‘ गोयमा ! नो बंधप, अवधप ’ हे गौतम वैक्रिय
शरीरस्य सर्वबन्धको जीवः नो औदारिकशरीरस्य बन्धको भवति, अपितु अव-
न्धक एव, ‘ आहारगसरीरस्स एवं धेव ’ हे गौतम ! वैक्रियशरीरस्य सर्वबन्धको
जीव आहारकशरीरस्यापि एवमेव—नो बन्धको भवति, अपितु अवन्धक एवेति भावः,
किन्तु ‘ त्रियगस्स, कम्मगस्स य जहेव भोरालिएणं समं भणियं तहेव भाणियम्भं जाव
वेसबंधप, नो सम्बंधप ’ तैजसस्य, कर्मण्यस्य च शरीरस्य वैक्रियशरीरसर्वबन्धेन

अथ गौतमस्वामी प्रश्नु से पेसा पूछते हैं—(जस्त ण भंते ! वेडम्बि
यसरीरस्स सव्वबंधप, से ण भंते ! भोरालियसरीरस्स किं बंधप अबंधप)
हे भदन्त ! जिस जीवके वैक्रियशरीरका सर्वबंध होता है, वह जीव क्या
औदारिक शरीरका बंधक होता है या अवबंधक होता है ? इसके उत्तर में
प्रश्नु कहते हैं—‘ गोयमा ’ हे गौतम ! (नो बंधप अवबंधप) वैक्रिय शरीर का
सर्वबंधक जीव औदारिकशरीर का बंधक नहीं होता है किन्तु वह उसका
अबंधक ही होता है । (आहारगसरीरस्स एवं धेव) इसी तरह से हे
गौतम ! वैक्रियशरीरका सर्वबंधक जीव आहारकशरीरका बंधक नहीं
होता किन्तु अवबंधक ही होता है । किन्तु (त्रियगस्स कम्मगस्स य जहेव
भोरालिए ण समं भणियं तहेव भाणियम्भं जाव वेसबंधप, नो सम्बंध-
प) औदारिकशरीर का सर्वबंधक जीव जिस तरह से तैजस और कर्म

द्वे सूत्रकार वैक्रियशरीरबंध साधे अवन्धशरीरबंधीना सव्वंधितं नि-
पद्यु क्त्वा निमित्ते नीयेना प्रश्नोत्तरे आपि छे

गौतमस्वामीने प्रश्न—(जस्त ण भंते ! वेडम्बियसरीरस्स सव्वबंधप से
णं भंते ! भोरालियसरीरस्स किं बंधप, अवधप ?) हे भदन्त ! वैक्रियशरीरने
सव्वबंधक एव शु औदारिकशरीरने बंधक होय छे, हे अवबंधक होय छे ?

भट्टापीर प्रश्नने उत्तर—(गोयमा ! नो बंधप, अवधप) हे गौतम !
वैक्रियशरीरने सव्वबंधक एव औदारिक शरीरने बंधक होता नधी, पद्यु ते
तेने अवबंधक न होय छे (आहारगसरीरस्स एवं धेव) जेण प्रभावे हे
गौतम ! वैक्रियशरीरने सर्वबंधक एव आहारकशरीरने बंधक होता नधी
पद्यु ते तेने अवबंधक न होय छे पद्यु (त्रियगस्स कम्मगस्स य जहेव भोरालिय
सं समं भणियं तहेव भाणियम्भं जाव वेसबंधप, नो सम्बंधप) औद शरीरने
सव्वबंधक एव जेणी शीते तेजस जने आभयशरीरने वेसबंधक होय छे

सह बन्ध त्रिपये यथैव औदारिकेण सर्वबन्धकेन समं साकं भणितं तथैव भणितव्यम् यावत् देशबन्धको भवति, नो अबन्धको भवति, बन्धकेऽपि देशबन्धक एव भवति, नो सर्वबन्धको भवतीति भावः, एवञ्च यथौदारिकशरीरसर्वबन्धकस्य जीवस्य तैजस-कार्मणशरीरयोर्देशबन्धकत्वमुक्तं नो सर्वबन्धकं तथैव वैक्रियशरीरसर्वबन्धकस्यापि जीवस्य तैजसकार्मणयोर्देशबन्धकत्वमेव वक्तव्यं नो सर्वबन्धकत्वमिति फलितम्, अथ वैक्रियशरीरदेशबन्धेन सह अन्येषां बन्धं प्ररूपयति—‘जस्स णं भंते ! वेउव्विय-सरीरस्स देसबंधे, से णं भंते ! ओरालियसरीरस्स किं वंधए, अवंधए ?’ हे भदन्त ! यस्य खलु जीवस्य वैक्रियशरीरस्य देशबन्धो भवति, हे भदन्त ! स खलु वैक्रियशरीरदेशबन्धको जीवः किम् औदारिकशरीरस्य बन्धको भवति, अबन्धको वा ? भगवानाह—‘ गोयमा ! नो वंधए, अवंधए ’ हे गौतम ! वैक्रियशरीरदेशबन्धको जीवः औदारिकशरीरस्य नो बन्धको भवति, अपितु अवंधको भवति, ‘ एवं जहा सव्वबंधेणं भणियं, तद्देव देसबंधेणवि भाणियव्वं, जाव कम्मगस्स ’ एवम् उक्त-

णशरीर का देशबंधक होता कहा गया है उसी प्रकार से वैक्रियशरीर का सर्वबंधक जीव तैजस और कार्मणशरीर का देशबंधक ही होता है अवंधक और सर्वबंधक नहीं होता है। (जस्स णं भंते ! वेउव्वियसरीर-स्स देसबंधे से णं भंते ! ओरालियसरीरस्स किं वंधए अवंधए) हे भदन्त ! जो जीव वैक्रियशरीरका देशबंधक है वह क्या औदारिकशरीर का बंधक होता है या अबंधक होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा ! नो वंधए, अवंधए) हे गौतम ! वैक्रियशरीर का देशबंधक जीव औदा-रिकशरीर का बंधक नहीं होता है—किन्तु वह उसका अबंधक ही होता है। (एवं जहा सव्वबंधेणं भणियं—तद्देव देसबंधेण वि भाणियव्वं जाव

अधुं ङ्खेवामां आ०युं० छे, अेज प्रभाणु वैक्रियशरीरने। सर्वबंधक एव पणु तैजस अने कार्मणशरीरने। देशबंधक ज् डोय छे, ते तेभने अणंधक डे सर्वबंधक डोतो नथी, अेम समज्जुः।

गौतमस्वामीने प्रश्न—(जस्स णं भंते ! वेउव्वियसरीरस्स देसबंधे, से णं भंते ! ओरालियसरीरस्स किं वंधए, अवंधए ?) डे भदन्त ! जे एव वैक्रियशरीरने। देशबंधक डोय छे, ते शुं औदारिकशरीरने। अंधक डोय छे, डे अणंधक डोय छे ?

महावीर प्रभुने। उत्तर—(गोयमा !) डे गौतम ! (नो वंधए, अवंधए) वैक्रियशरीरने। देशबंधक एव औदारिकशरीरने। अंधक डोतो नथी. पणु से तेने अणंधक ज् डोय छे. (एवं जहा सव्वबंधेणं भणियं, तद्देव

शरीरया यथा वैक्रियशरीरस्य सर्वेष्वधेन सर्वबन्धविषयकालापकेन सहायेषां मणितम्, तथैव देशबन्धकेनापि सह मणितव्यम्, यावत् वैक्रियशरीरस्य; देशबन्धको जीवः आहारकस्य नो बन्धक अपितु अबन्धकः तैजसकार्मणशरीरयोर्देशबन्धको भवति, नो सर्वबन्धक इति भावः, अथ आहारकस्य सर्वेष्वधेन सहान्येषां बन्धं प्ररूपयति-ब्रह्मण भते । आहारगशरीरस्त सञ्चयधे, से ण भते । ओराखियशरीरस्त किं बंधय, अवधय ?' गौतमः पृच्छति-हे भद्रन्त ! यस्य खलु जीवस्य आहारकशरीरस्य सर्वबन्धो भवति, हे भद्रन्त ! स खलु आहारकशरीरस्य सर्वबन्धको जीवः किम् औदारिकशरीरस्य बन्धको भवति ? अबन्धको वा भवति ? भगवानाह- ' गोपमा ! नो बंधय, अवधय ' हे गौतम ! आहारकसर्वबंधक औदारिकशरीरस्य

कम्मगत्स) वैक्रियशरीर के सर्वबंध विषयक अभिलाष के साथ अन्य शरीरों की बंधकता और अवधकता जिस प्रकार से प्रकट की गई है उसी प्रकार से वैक्रियदेशबंध के साथ भी अन्य शरीरों की बंधकता और अवधकता जाननी चाहिये तथा ख-वैक्रियशरीर का देशबंधक जीव आहारकशरीर का बंधक नहीं होता है । अबंधक ही होता है । तैजस और कार्मण शरीर का वह देशबंधक होता है, सर्वबंधक नहीं होता है । (जस्स णं भंते ! आहारगशरीरस्त सञ्चयधे से णं भंते ! ओराखिय शरीरस्त किं बंधय, अवधय) हे भद्रन्त ! जो जीव आहारक शरीर का सर्वबंधक होता है वह जीव क्या औदारिक शरीर का बंधक होता है ? वा अबंधक होता है ? उत्तर में प्रश्न कहते हैं-(गोपमा) हे गौतम !

देशबंधेण वि भाणियव्वं साव कम्मगत्स) वैक्रियशरीरना, सर्वबंध विषयक अभिलाषया अन्यशरीरिणी बंधकता अने अबंधकता के शीते प्रकट करवाया आनी छे, जेव प्रभावे वैक्रिय देशबंधनी साथे पैलु अन्य शरीरिणी बंधकता अने अबंधकता समझनी. जेभके वैक्रियशरीरने देशबंधक एव आहारक शरीरने अबंधक छेते। नधी-पलु अबंधक छे। वैक्रियशरीरने देशबंधक एव कामलु अने तैजसशरीरने देशबंधक छे। सर्वबंधक छेते। नधी. जेव सूत्रकार आहारक शरीरबंधनी साथे अन्य शरीरिणी बंधकता, अबंधकता प्रकट करवा माटे नीधेना प्रकात्तरा आपे छे-

गौतमस्वाग्मीने प्रश्न-(अथ णं भते ! आहारगशरीरस्त सञ्चयधे से णं भते ! ओराखियशरीरस्त किं बंधय, अवधय ?) छे। जे एव आहारकशरीरने अबंधक छे। ते एव शु औदारिकशरीरने अबंधक छे, हे अबंधक छे। तेने उत्तर आपवा मयापीर प्रश्न कहे छे-(गोपमा)

नो बन्धको भवति, अपितु अवन्धको भवति, ' एवं वेउन्वियस्स वि, तेयाकम्माणं जहेव ओरालिएणं समं भणियं, तहेव भाणियव्वं ' एवम्-उत्तरीत्या आहारक-शरीरसर्वबन्धको जीवो वैक्रियस्यापि शरीरस्य बन्धको न भवति, अपितु अवन्धक एव भवति, तैजसकार्मणयोः शरीरयोस्तु यथा औदारिकेण सम-साक भणितम्- 'देशबन्धक एव, नो सर्वबन्धक' इति प्रतिपादितं तथैव भणितव्यम्, तथा च आहारकसर्वबन्धको जीवः तैजसकार्मणशरीरयोर्देशबन्धको भवति नो सर्वबन्धक इत्याशयः, अथ आहारकशरीरस्य देशबन्धेन सह अन्येषां बन्धं प्ररूपयति-जस्स णं भंते ! आहारकशरीरस्स देसबन्धे. सेणं भंते ! ओरालियसरीरस्स किं बंधए, अव-

(नो बंधए, अबंधए) आहारक शरीर का सर्वबन्धक जीव औदारिक शरीर का बन्धक नहीं होता है, किन्तु वह उसका अबन्धक होता है। (एवं वेउन्वियस्स वि, तेयाकम्माणं जहेव ओरालिएणं समं भणियं तहेव भाणियव्वं) इसी तरह से आहारक शरीर का सर्वबन्धक जीव वैक्रियशरीर का बन्धक नहीं होता है, अपि तु वह इसका अबन्धक ही होता है। तथा औदारिक शरीर का सर्वबन्धक जीव जिस प्रकार से तैजस और कार्मणशरीर का देशबन्धक कहा गया है उसी तरह से आहारकशरीर का सर्वबन्धक जीव तैजसकार्मणशरीर का देशबन्धक ही होता है, सर्वबन्धक नहीं होता।

अब सूत्रकार आहारक शरीर के देशबन्ध के साथ अन्य शरीरों के बन्ध का प्ररूपण करते हैं-इसमें गौतम ने प्रभु से ऐसा-पूछा (जस्स णं भंते ! आहारकशरीरस्स देसबन्धे से णं भंते ! ओरालियसरीरस्स किं

डे गौतम ! (नो बंधए, अबंधए) आहारकशरीरनेो सर्वबन्धक एव औदा-रिक शरीरनेो बन्धक डोतो पथी, पणु ते तेनेो अबन्धक न डोय छे. (एवं वेउन्वियस्स वि) एव प्रभाणु आहारकशरीरनेो सर्वबन्धक एव वैक्रियशरीरनेो पणु बन्धक डोतो नथी, पणु अबन्धक न डोय छे (तेयाकम्माणं जहेव ओ-रालिएणं समं भणियं, तहेव भाणियव्वं) नेवी रीते औदारिक शरीरनेो सर्व-बन्धक एव तैजस अने कार्मणु शरीरनेो देशबन्धक डोय छे, एव प्रभाणु आहारकशरीरनेो-सर्वबन्धक एव पणु तैजस अने कार्मणु शरीरनेो देश-बन्धक न डोय छे-सर्वबन्धक डोतो नथी.

इवे सूत्रकार आहारक शरीरनेो देशबन्धनी साथे अन्य शरीरनेो बन्धनी-प्ररूपणु करे छे-गौतमस्वामीनेो प्रश्न-(जस्स णं भंते ! आहारकशरीरस्स देसबन्धे, से णं भंते ! ओरालियसरीरस्स-किं बंधए, अबंधए ?) डे उत्तर ! ने एव

घण ?' हे मदन्त ! यस्य स्वच्छ जीवस्य आहारकशरीरस्य देशव्यपको भवति, हे मदन्त ! स स्वच्छ आहारकशरीरदेशव्यन्धको जीवः किम् औदारिकशरीरस्यव्यन्धको भवति ? अवधको वा भवति ? भगवानाह—' एष महा आहारगशरीरस्य सव्यव्यपकेण भणिय तथा देसव्यपेण वि भाणियव्यं व्याप कम्मगस्त ' हे गौतम ! एष उक्तरीत्या यथा आहारकशरीरस्य सव्यव्यपेण—सर्वव्यन्धविषयकेण आलापेन भवितुं तथा देशव्यन्धकेनापि भणितव्यम्, यावत् कार्मणस्य, तथा च यावत्पदेन—आहारकशरीरस्य देशव्यपको जीवः औदारिकशरीरस्य व्यन्धको न भवति, अपितु अव्यन्धकः, एवं वैक्रियशरीरस्यापि व्यन्धको न भवति, अपितु अव्यपक एव, किन्तु आहारकदेशव्यन्धको जीवः तैजसकार्मणशरीरयोस्तु देशव्यन्धको भवति, नो अव

प्यघण, अवघण) हे मदन्त ! जो जीव आहारक शरीर का देशव्यपक होता है, वह जीव यथा औदारिक शरीर का व्यपक होता है या अव्यपक होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं (एष जहा आहारगशरीरस्य सव्यव्यपकेण भणियं तथा देसव्यपेण वि भाणियव्यं व्याप कम्मगस्त) हे गौतम ! जिस प्रकार से आहारक शरीर के सर्वव्यपविषयक आलाप के द्वारा शेष शरीरों के व्यप और अव्यप के होने में कहा गया है उसी प्रकार से इस आहारक शरीर संबंधी देशव्यपविषयक आलाप द्वारा शेष शरीरों के व्यप और अव्यप होने के विषय में यावत् कार्मणशरीर के देशव्यप तक जानना चाहिये । तथा च—आहारक शरीर का देशव्यपक जीव औदारिक शरीर का व्यपक नहीं होता है । अपितु वह इसका अव्यपक ही रहता है । इसी तरह से वह वैक्रियशरीर का भी व्यपक नहीं होता है—अपि तु अव्यपक ही रहता है । परन्तु आहारकशरीर का देशव्यपक

आहारक शरीरने देशव्यपक होय छे ते एव तु औदारिक शरीरने अव्यपक होय छे, वैक्रियशरीरने अव्यपक होय छे ?

भगवाण् प्रभुने उत्तर—(एष महा आहारगशरीरस्य सव्यव्यपकेण भणिय तथा देसव्यपेण वि भाणियव्यं व्याप कम्मगस्त) हे गौतम ! ये प्रभावे आहारकशरीरने सव्यव्यप विषयक आलापके द्वारा व्यपकेतां अने अव्यपकेतां प्रतिपादन करवामां आबु छे, जेव प्रभावे आहारकशरीर सव्यव्यपके देशव्यप विषयक आलापके द्वारा आर्तनां शरीरानां व्यपकेतां अने अव्यपकेतां प्रतिपादन करवामु शरीरने देशव्यप सुधी करवु जेथजे जेव हे—आहारक शरीरने देशव्यपक एव औदारिक शरीरने अव्यपक होयते नथी, पण तेने अव्यपकेव्यप होय छे जेव प्रभावे ते वैक्रियशरीरने पण व्यपक होयते नथी

बन्धकः, नो वा सर्वबन्धको भवतीति भावः । एव रीत्या औदारिकवैक्रिय-आहारक-शरीराणां सर्वबन्ध-देशबन्धान् अन्येषां बन्धैः सह प्ररूप्य अथ तैजसदेशबन्धं प्ररूपयितुमाह—‘ जस्स णं भते ! तेयासरीरस्स देसवधे, सेणं भते! ओरालियसरीरस्स किं वधए, अवंधए ? ’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! यस्य खलु जीवस्य तैजस-शरीरस्य देशबन्धो भवति, हे भदन्त ! स खलु तैजसशरीरदेशबन्धको जीवः किम् औदारिकशरीरस्य बन्धको भवति. अबन्धको वा भवति ? ‘ भगवानाह—‘ गोयमा !

जीव तैजस और कार्मणशरीर का सर्वबन्धक न होकर केवल देशबन्धक ही होता है । इस तरह वह उसका अबन्धक नहीं होता । इसरीति से औदारिक, वैक्रिय, अहारकशरीरों के सर्वबन्ध और देशबन्धों की अन्य-शरीरों के बन्धों के साथ प्ररूपणा करके अब सूत्रकार तैजसशरीर के देशबन्ध की प्ररूपणा करते हैं—इसमें प्रभु से गौतम ने ऐसा पूछा है— (जस्स णं भते ! तेयासरीरस्स देसवधे, से णं भते ! ओरालियसरीर-स्स किं वधए अबंधए) हे भदन्त ! जो जीव तैजसशरीर का देशबन्धक होता है, वह क्या ! औदारिकशरीर का बन्धक होता है, या अबन्धक होता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (वधए वा अबंधए वा) तैजसशरीर का देशबन्धक जीव औदारिकशरीर का बन्धक भी होता है और अबन्धक भी होता है । इसका तात्पर्य ऐसा है कि विग्रहगति में वर्तमान जीव तैजसशरीर से युक्त तो रहता है पर वह

पण्य अबन्धक न रहे छे परन्तु आहारक शरीरने देशबन्धक एव तैजस अने कार्मणशरीरने सर्वबन्धक होने नथी, पण्य इकत देशबन्धक न होय छे. आरीते ते कार्मण्य अने तैजसशरीरने अबन्धक होता नथी.

इवे सूत्रकार तैजस शरीरने देशबन्धनी साथे अन्य शरीरनेनी अबन्धकता के अबन्धकतानुं नीचेना प्रश्नोत्तरे द्वारा प्रतिपादन करे छे—

गौतम स्वामीने प्रश्न—(जस्स णं भते ! तेयासरीरस्स देसवधे, से णं भते ! ओरालियसरीरस्स किं वधए, अबंधए) हे भदन्त ! ने एव तैजस शरीरने देशबन्धक होय छे, ते शु औदारिक शरीरने अबन्धक होय छे, के अबन्धक होय छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! “ वधए वा, अबंधए वा ” तैजस शरीरने देशबन्धक एव औदारिक शरीरने अबन्धक पण्य होय छे अने अबन्धक पण्य होय छे आ कथननुं तात्पर्य एवुं छे के विग्रहगतिमां रहेवे एव तैजस शरीरथी युक्त तो रहे छे, पण्य ते एव ते समथे औदा-

बध्वा, अबध्वा ' हे गौतम ! तैजसशरीरदेशबध्वा जीवः औदारिक-
शरीरस्य बन्धको वा भवति अबन्धको वा भवति तथा च तैजसशरीरदेशबन्धकः
औदारिकशरीरस्य बध्वाको वा स्यात् अबन्धको वा स्यात् तत्र विग्रहे वर्तमानोऽबन्धको
भवति अत्रिग्रहस्य पुनर्बन्धको भवति, इत्याश्रयः, गौतमः पृच्छति—' अहं बध्वा
किं देसबध्वा सन्धबध्वा ? ' हे मन्त ! यः स्वच्छ बध्वाको भवति स किं देस
बन्धको, सध्वबन्धको वा भवति ? भगवानाह—' गोयमा । देसबध्वा वा सध्व
बध्वा वा ' हे गौतम ! तैजसशरीरदेशबध्वाको जीवः औदारिकशरीरस्य देशबन्धको
वापि भवति सर्वबन्धको वापि भवति तत्रोत्पत्तिपक्षेऽत्र प्राप्तिप्रथमसमये सर्व
बन्धको भवति, द्वितीयादीं समये तु देशबन्धको भवति गौतमः पृच्छति—' ये-

उस समय औदारिकशरीर का बध्वा नहीं होता है - अबध्वा होता है।
और जो अत्रिग्रहस्य जीव है वह उस का बध्वा होता है। इस तरह
से तैजसशरीर का देशबध्वा जीव किसी अपेक्षा औदारिकशरीर का
बध्वा भी होता है और अबध्वा भी होता है।

अथ गौतम प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(अहं बध्वा किं देसबध्वा,
सध्वबध्वा) हे मन्त ! तैजसशरीर का देशबध्वा जीव यदि औदारिक
शरीर का बध्वा होता है—तो क्या यह उसका देशबध्वा होता है या
सर्वबध्वा होता है ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे
गौतम ! (देसबध्वा वा सध्वबध्वा वा) तैजसशरीर का देशबध्वा जीव
औदारिकशरीर का देशबध्वा भी होता है और सर्वबध्वा भी होता
है। उत्पत्तिपक्ष में यहाँ प्राप्ति के प्रथम समय में वह सध्वबध्वा होता है
और द्वितीयादि समयों में वह देशबध्वा होता है।

किं शरीरने जध्वा के.ते. नधा-बन्धको के.य. छे. अने ने. आबन्ध. मतिमा
रहे.ते. छे. ते. ते.ने. जध्वा के.य. छे. आ. शी.ते. तैजस. शरीरने. देश. बध्वा
छे. अत्रि. परि. स्थिति. मां. औदारिक. शरीरने. जध्वा के.य. छे. अने. अत्रि.
परि. स्थिति. मां. अबध्वा. पक्ष. के.य. छे.

गौतम स्वामीने प्रश्न—' अहं बध्वा किं देसबध्वा, सध्वबध्वा ? '
हे मन्त ! ते तैजस शरीरने देशबध्वा छे. औदारिक शरीरने जध्वा
वते. के.य. ते. ते.ने. देश. बध्वा. था. छे. के. सध्व. बध्वा. था. छे. ?

महावीर प्रश्नने उत्तर—' गोयमा ! ' हे गौतम ! (देसबध्वा वा,
सध्वबध्वा वा) तैजस शरीरने देशबध्वा छे. औदारिक शरीरने देशबध्वा
पक्ष. के.य. छे. अने. सध्व. बध्वा. पक्ष. के.य. छे. उत्पत्ति. पक्षे—' प्राप्ति. प्रथम
समये. ते. सध्व. बध्वा. के.य. छे. अने. द्वितीयादि. समय. मां. ते. देश. बध्वा. के.य. छे.

वियसरीरस्म किं बंधए, अबंधए ?' हे भदन्त ! तैजसशरीरस्य देशबन्धको जीवः किं वैक्रियशरीरस्य बन्धको भवति ? अबन्धको भवति ? भगवानाह—' एवं चेव, एवं आहारगसरीरस्स वि' हे गौतम ! एवमेव उक्तरीत्यैव तैजसशरीरदेशबन्धकः औदारिकशरीरबन्धक इव वैक्रियशरीरस्यापि देशबन्धकः, सर्वबन्धकः, अबन्धकश्च भवति, एवमेव तैजसशरीरदेशबन्धकः आहारकशरीरस्यापि देशबन्धकः, सर्वबन्धकः, अबन्धकश्च भवतीत्याशयः। अथ कर्मणशरीरबन्धं पृच्छति—' कम्मगमरीरस्म किं बंधए, अबंधए ?' भदन्त ! तैजसशरीरदेशबन्धकः किम् कर्मणशरीरस्य बन्धको भवति, अबन्धको वा भवति ? भगवानाह—' गोयमा ! बंधए, नो अबंधए' हे गौतम ! तैजसशरीरदेशबन्धको जीवः कर्मणशरीरस्य बन्धक एव भवति, नो

अव गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(वेउव्वियसरीरस्स किं बंधए अबंधए) हे भदन्त ! तैजसशरीरका देशबंधक जीव वैक्रियशरीरका बंधक होता है ? अथवा अबंधक होता है ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं—एवं चेव, एवं आहारगसरीरस्स वि) हे गौतम ! तैजसशरीरका देशबंधक जीव औदारिकशरीर के बंधक की तरह वैक्रियशरीर का भी देशबंधक, सर्वबंधक और अबंधक होता है। इसी तरह से तैजसशरीर का देशबंधक जीव आहारकशरीर का भी देशबंधक, सर्वबंधक और अबंधक होता है। अव गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(कम्मगसरीरस्स किं बंधए अबंधए) हे भदन्त ! जो जीव तैजसशरीर का देशबंधक होता है वह क्या कर्मणशरीर का बंधक होता है या अबंधक होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! तैजसशरीर का

गौतम स्वामीने प्रश्न—(वेउव्वियसरीरस्स किं बंधए, अबंधए ?) हे भदन्त ! तैजस शरीरने देशबंधक एव शुं वैक्रिय शरीरने बंधक होय छे, के अबंधक होय छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—(एवं चेव, एवं आहारगसरीरस्स वि) हे गौतम ! तैजस शरीरने देशबंधक एव औदारिक शरीरने बंधकनी जेम वैक्रिय शरीरने पणु देशबंधक, सर्वबंधक अने अबंधक होय छे. जेज प्रभाणु तैजस शरीरने देशबंधक एव आहारक शरीरने पणु देशबंधक, सर्वबंधक अने अबंधक होय छे

गौतम स्वामीने प्रश्न—“ कम्मगमरीरस्स किं बंधए, अबंधए ? ” हे भदन्त ! जे एव तैजस शरीरने देशबंधक होय छे, ते शुं कर्मणु शरीरने बंधक होय छे, के अबंधक होय छे ?

अथ यको भवति । गौतम पृच्छति— न इ य धए किं देसव धए सव्वबंधए ? हे भदन्त ! यं खलु तैजसशरीरदेशबन्धकं कामणशरीरवधको भवति स किं कामणशरीरस्य देशवधकः, सर्ववधको वा भवति ? भगवान् उत्तरयति— ' गोयमा । देसव धए, नो सव्वव धए ' हे गौतम । तैजसवधकः कामणस्य देशबन्धको भवति, नो सर्वबन्धकः । अथ कामणशरीरबन्धेन सहायेपां वन्धान् प्ररूपयति— ' जस्स ण भंते ! कम्मगसरीरस्स देसबंधे, से ण भंते ! ओराळियसरीरस्स वंधए, अबधए ! ' हे भदन्त ! यस्य खलु जीवस्य कामणशरीरस्य दशवधो भवति, हे भदन्त ! स खलु

देशवधक जीव (य धए, नो अय धए) कामणशरीर का बधक ही होता है, अवधक नहीं होता है ।

अथ इस विषय में गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(जह बधए, किं देसवधए, सव्ववधए) हे भदन्त ! तैजसशरीर का देशवधक जीव यदि कामण शरीर का वधक होता है तो क्या वह कामण शरीर का देशवधक होता है या सर्ववधक होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (देसवधए नो सव्ववधए) तैजसशरीर का देशवधक होता है, सर्ववधक नहीं होता है ।

अथ सूत्रकार कामणशरीरवध के साथ अन्य शरीरों के बंधों की प्ररूपणा करते हैं—इसमें गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछ रहे हैं—(जस्स ण भंते ! कम्मगसरीरस्स देसबंधे, से ण भंते ! ओराळिय सरीरस्स

भदावीर प्रभुने उत्तर—' गोयमा । " हे गौतम । तजस शरीरने देशवधक एव " बधए नो अबधए " कामणशरीरने वधक होय छे, अवधक दोतो नधी ।

गौतम आभीने प्रश्न—" जह बधए, किं देसवधए, सव्ववधए " हे भदन्त ! ते तैजसशरीरने देशवधक एव कामणशरीरने वधक होय छे, ते शुं ते कामण शरीरने देशवधक होय छे, हे सर्ववधक होय छे ?

भदावीर प्रभुने उत्तर—" गोयमा । देसवधए मो सव्ववधए " हे गौतम ! ते कामण शरीरने देशवधक एव होय छे—सर्ववधक दोतो नधी ।

दवे सुवधार कामण शरीरवधनी साथे अन्य शरीराना वधेनी नीधे प्रभावे प्ररूपणा करे छे—

आ विषयने अनुवक्षीने गौतम स्वामी भदावीर प्रभुने जेरो प्रश्न पूछे छे—(जस्स ण भंते ! कम्मगसरीरस्स देसबंधे, से ण भंते ! ओराळिय

કાર્મણશરીર દેશવન્ધકો જીવઃ કિમ્ ઔદારિકશરીરસ્ય વન્ધકો ભવતિ ? અવન્ધકો વા ભવતિ ? મગવાનાહ—‘ જહા તેયગસસ વત્તવ્વયા મણિયા, તહા કમ્મગસસ વિ માણિયવ્વા, જાવ તેયાસરીરસસ જાવ દેસવંધણ, નો સવ્વવંધણ ’ હે ગૌતમ ! યથા તૈજસસ્ય શરીરસ્ય વક્તવ્યતા—“ દેશવન્ધકો વા, સર્વવન્ધકો વા, અવન્ધકો વા ”

ઇત્યાલાપક્રમેણ મણિતા તથૈવ કાર્મણસ્યાપિ શરીરસ્ય વન્ધકો જીવઃ ઔદારિકશરીરસ્ય દેશવન્ધકો વા, સર્વવન્ધકો વા, અવન્ધકો વા ભવતીતિ વક્તવ્યતા મણિતવ્યા. યાવત્ કાર્મણદેશવન્ધકઃ આહારકશરીરસ્ય દેશવન્ધકઃ, સર્વવન્ધકઃ, અવન્ધકશ્ચ ભવતિ, એવમેવ કાર્મણશરીરદેશવન્ધકઃ વૈક્રિયશરીરસ્ય દેશવન્ધકઃ

વંધણ અવધણ) હે ભદન્ત ! જિસ જીવ કે કાર્મણ શરીર કા દેશવંધકો હોતા હૈ—એસા વહ કાર્મણશરીરકા દેશવંધક જીવ ક્યા ઔદારિકશરીર કા વધક હોતા હૈ યા અવધક હોતા હૈ ? હસકે ઉત્તર મેં પ્રસુ કહતે હૈ— (જહા તેયગસસ વત્તવ્વયા મણિયા, તહા કમ્મગસસ વિ માણિયવ્વા, જાવ તેયાસરીરસસ જાવ દેસવધણ, સવ્વવધણ) હે ગૌતમ ! જૈસે તૈજસશરીર કી વક્તવ્યતા “ ઔદારિક શરીર કા વહ દેશવંધક મી હોતા હૈ, સર્વવંધક મી હોતા હૈ ઓર અવંધક મી હોતા હૈ ” હસ આલાપક્રમ સે કહી ગઈ હૈ ઉસી પ્રકાર સે કાર્મણશરીર કા મી વધક જીવ ઔદારિકશરીર કા દેશવંધક મી હોતા હૈ, સર્વવધક મી હોતા હૈ ઓર અવંધક મી હોતા હૈ એસા કથન જાનના ચાહિયે । હસી તરહ સે કાર્મણશરીર કા દેશવધક જીવ વૈક્રિયશરીર કા દેશવધક, સર્વવધક ઓર અવંધક હોતા હૈ । કિન્તુ કાર્મણશરીર કા દેશવંધક જીવ તૈજસશરીર

સરીરસસ વંધણ, અવધણ ?) હે ભદન્ત ! જે એવ કાર્મણ શરીરનો દેશવધક હોય છે, તે શુ ઔદારિક શરીરનો વંધક હોય છે, કે અવધક હોય છે ?

મહાવીર પ્રભુનો ઉત્તર—“ જહા તેયગસસ વત્તવ્વયા મણિયા, તહા કમ્મ-

ગસસ વિ માણિયવ્વા, જાવ તેયાસરીરસસ જાવ દેસવંધણ, નો સવ્વવંધણ ” હે

ગૌતમ ! જે પ્રમાણે તૈજસ શરીરની વક્તવ્યતા “ ઔદારિકશરીરનો તે દેશ-

વંધક પણ હોય છે, સર્વવંધક પણ હોય છે, અને અવધક પણ હોય છે ”

આ આલાપક્રમથી કહેવામાં આવી છે, એજ પ્રમાણે કાર્મણશરીરનો વંધક

એવ પણ ઔદારિક શરીરનો દેશવંધક પણ હોય છે, સર્વવંધક પણ હોય

છે અને અવધક પણ હોય છે, એવું કથન સમજવું. એજ પ્રમાણે કાર્મણ

શરીરનો દેશવધક એવ વૈક્રિય શરીરનો અને આહારક શરીરનો દેશવધક,

સર્વવધક અને અવધક હોય છે. પરન્તુ કાર્મણ શરીરનો દેશવંધક એવ



सर्ववधकः, अबन्धकश्च, किन्तु कर्मणश्चरीरदेशवन्धकः तैजसश्चरीरस्य यावत्
वधको भवति नो अबन्धकः, अपक्वेऽपि देशवधको भवति, नो सर्ववन्धक
इति भाषः ॥ सू० १० ॥

औदारिकश्चरीराणामल्पबहुत्ववक्तव्यता ।

अपौदारिकश्चरीरवन्धकादीनामल्पबहुत्वादिकं मरूपयितुमाह-एषसि णं ' इत्यादि ।

मूलम्-एषसि णं भते ! सच्चजीवाणं ओरालिय-वेडविय

आहारग-तेया-कम्मा-सरीरगाणं, देसवधगाणं, सव्ववधगाणं,

अवधगाणं य कयरे कयरेहिंतो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा !

सव्वत्थोवा जीवा आहारगसरीरस्स सव्ववधगा १, तस्स च्चव

देसवधगा सखेज्जगुणा २, वेडवियसरीरस्स सव्ववधगा अस

खेज्जगुणा ३, तस्स च्चव देसवधगा असखेज्जगुणा ४, तेयाकम्म

गाणं अवधगा अणंतगुणा दुण्ह वि तुल्ला ५, ओरालियसरी

रस्स सव्ववधगा अणंतगुणा ६, तस्स च्चव अवधगा विसेसा

हिया ७, तस्स च्चव देसवधगा असखेज्जगुणा ८, तेया-कम्म

गाणं देसवधगा विसेसाहिया ९, वेडवियसरीरस्स अवधगा

विसेसाहिया १०, आहारगसरीरस्स अवधगा विसेसाहिया ११,

सेव भते ! सेव भते ! ॥ सू० ११ ॥

अट्टमसयस्स नवमो उद्देशो समत्तो ॥ ८-९ ॥

छाया—एतेषां ललु मदन्त । सर्वजीवानाम् औदारिक-वैश्या-ऽऽहारक-

तैश्च-कर्मणश्चरीरकाणां देशवधकानाम्, सर्ववधकानाम्, अपवधकानां च क्वरे

का वधक होता है अपवधक नहीं होता है । वधक होने पर भी वह

वधका देशवधक ही होता है सर्ववधक नहीं होता है ॥ सू० ८ ॥

तैश्च शरीरने अथक दोष उ-अथक दोषो नथि वणी अथक दोषो उथं

दे तेने देशवधक च दोष उ पवु अथवधक दोषो नथि ॥ सू १० ॥

कतरेभ्यो यावद् विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोका जीवा आहारकशरीरस्य सर्वबन्धकाः १, तस्य चैव देशबन्धकाः संख्येयगुणाः २, वैक्रियशरीरस्य सर्वबन्धका असंख्येयगुणाः ३, तस्य चैव देशबन्धकाः असंख्येयगुणाः ४; तैजसकर्मणयोः; अबन्धकाः अनन्तगुणाः, द्वावपि तुल्यौ ५, औदारिकशरीरस्य सर्वबन्धका अनन्त-

औदारिक आदि शरीरों के देशबन्धक सर्वबन्धक और अबन्धक की अल्पबहुत्व वक्तव्यता

‘एएसिं णं भंते ! सव्वजीवाणं ओरालिय वेउव्विय आहारग’ इत्यादि।

सूत्रार्थ—(एएसिं णं भंते ! सव्वजीवाणं ओरालिय वेउव्विय आहारग तेयाकम्मासरीरगाणं देसवंधगाणं सव्वबंधगाणं अबंधगाण य कयरे कयरेहिंतो जाव विसेसाहिया वा) हे भदन्त ! इन औदारिक, वैक्रिय आहारक, तैजस और कर्मणशरीर के देशबंधक, सर्वबंधक और अबंधक जीवों के बीचमें कौन जीव किन जीवों से यावत् विशेषाधिक हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा आहारगसरीरस्स सव्वबंधगा १, तस्स चैव देसबंधगा संखेज्जगुणा २, वेउव्वियसरीरस्स सव्वबंधगा असंखेज्जगुणा ३, तस्स चैव देसबंधगा असंखेज्जगुणा ४, तेयाकम्मगाणं अबंधगा अणंतगुणा दुण्ह वि तुल्ला ५) सब से कम जीव आहारकशरीर के सर्वबंधक हैं। इनसे इसके देशबंधक जीव संख्यातगुणित हैं। इनसे वैक्रियशरीर के सर्वबन्धक जीव असंख्यातगु-

औदारिक आदि शरीराना देशबंधक, सर्वबंधक अने अबंधकना अल्पबहुत्वनी वक्तव्यता—

“ एएसिं णं भंते ! सव्वजीवाण ओरालिय, वेउव्विय, आहारग ” इत्यादि.

सूत्रार्थ—(एएसिं णं भंते ! सव्वजीवाणं ओरालिय, वेउव्विय आहारग तेया कम्मा सरीरगाणं देसबंधगाणं, सव्वबंधगाणं, अबंधगाण य, कयरे कयरे-हिंतो जाव विसेसाहिया वा ?) हे भदन्त ! आ औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस अने कर्मण शरीराना देशबंधक, सर्वबंधक अने अबंधकनांभी कया लुवे कया लुवे करता अल्प छे ? अधिक छे ? अणन्त छे ? विशेषाधिक छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा आहारगसरीरस्स सव्व-बंधगा १,) (१) सौथी ओछां आहारक शरीराना सर्वबंधक लुवे छे, (तस्सचैव देसबंधगा संखेज्जगुणा २, वेउव्वियसरीरस्स सव्वबंधगा असंखेज्जगुणा ३, तस्सचैव देसबंधगा असंखेज्जगुणा ४, तेयाकम्मगाणं अबंधगा अणंतगुणा दुण्ह वि तुल्ला ५) तेना देशबंधक लुवे तेना करतां संख्यातगुणां छे, तेना करतां वैक्रिय शरीराना सर्वबंधक लुवे असंख्यातगुणां छे. वैक्रिय शरीराना

गुणा ६, तस्य चैव अश्वघ्नकाः विशेषाधिकः ७ तस्य चैव देशवघ्नका असंख्ये-
यगुणा ८, तैमसकार्मणयो देशवघ्नकाः विशेषाधिका ९, वैक्रियशरीरस्य अश्व-
घ्नकाः विशेषाधिकाः १०, आहारकशरीरस्य अश्वघ्नकाः विशेषाधिका ११,
तदेवं भदन्त ! तदेष भदन्त ! ॥ सू० ११ ॥

इति अष्टमस्रतकस्य नवमोद्देशकः समाप्तः

णित हैं। इनसे इसके देशवघ्नक जीव अमक्षपातगुणित हैं। तैमस
और कार्मणशरीरके अश्वघ्नक जीव इन से अनन्तगुणित हैं और परस्पर
में तुल्य हैं (ओरालिय शरीरस्त सम्बन्धवघ्नका अणतगुणा ६) औदारिक
शरीर के सर्ववघ्नक जीव इनकी अपेक्षा अनन्तगुणित हैं। (तस्म चैव
अश्वघ्नका विशेषाधिया ७, तस्म चैव देशवघ्नका असंख्येयगुणा ८,
तेपाकम्मगाण देशवघ्नका विशेषाधिया ९, वैक्रियशरीरस्त अश्वघ्नका
विशेषाधिया १० आहारकशरीरस्त अश्वघ्नका विशेषाधिया ११, सेव
भते! सेव भते!) औदारिकशरीर के अश्वघ्नक जीव इनसे विशेषाधिक
हैं। तथा औदारिकशरीर के देशवघ्नक जीव असक्षपातगुणित हैं। तैमस
एव कार्मणशरीर के देशवघ्नक जीव विशेषाधिक हैं। वैक्रियशरीर के
अश्वघ्नक जीव विशेषाधिक हैं। आहारकशरीर के अश्वघ्नक जीव विशेषा-
धिक हैं। हे भदन्त ! आपके द्वारा कहा गया यह सत्य सर्वथा सत्य ही
है, हे भदन्त ! आपके द्वारा कहा गया यह सत्य सर्वथा सत्य ही है।

अश्वघ्नक लोको कर्ता तेना देशवघ्नक लोको असंख्यवघ्नका ७ तैमस अने
कामलु शरीरना अश्वघ्नक लोको वैक्रियना देशवघ्नको कर्ता अनतगुणा ७,
परन्तु तैमस अने कामलु शरीरना अश्वघ्नकोनी सख्या सरणी ७ (ओर
क्रियशरीरस्त सम्बन्धवघ्नका अणतगुणा ६) औदारिक शरीरना अश्वघ्नक लोको
तेमना कर्ता (तैमस अने कामलु शरीरना अश्वघ्नको कर्ता) अनतगुणा ७
(तस्म चैव अश्वघ्नका विशेषाधिया ७, तस्म चैव देशवघ्नका असंख्येयगुणा ८, तेपा
कम्मगाण देशवघ्नका विशेषाधिया ९, वैक्रियशरीरस्त अश्वघ्नका विशेषाधिया १०
आहारकशरीरस्त अश्वघ्नका विशेषाधिया ११) औदारिकशरीरना अश्वघ्नक लोको
तेमना कर्ता विशेषाधिक ७, तथा औदारिकशरीरना देशवघ्नक लोको अश्व
घ्नका कर्ता ७ तैमस अने कामलुशरीरना देशवघ्नक लोको विशेषाधिक ७,
वैक्रियशरीरना अश्वघ्नक लोको विशेषाधिक ७ अने आहारकशरीरना अश्वघ्नक
लोको विशेषाधिक ७ (सर्व भते! सेव भते!) हे भदन्त ! आप विद्वान्
आप ने प्रतिपादन किये ते सर्वथा सत्य ७ हे भदन्त ! आपने कहेजी बात
सर्वथा सत्य ७ ७

टीका-एएसि णं भंते ! सव्वजीवाणं ओरालिय-वेउव्विय आहारग-तेया-कम्मासरी-
रगाणं, देसवधगाणं, सव्वबंधगाणं अवधगाण य कयरे कयरेहितो जाव विसेसाहिया
वा ?' गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! एतेपां खलु-सर्वजीवानाम् औदारिक-वैक्रिया-
SSहारक-तैजस-कर्मणशरीरकाणां देशबन्धकानां, सर्वबन्धकानाम् अबन्धकानां
च मध्ये कतरे कियन्तो जीवाः कतरेभ्यः कियद्भ्यो जीवेभ्यो यावत्-अल्पा वा,
बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवानाह-'गोयमा! सव्वत्थोवा
जीवा आहारगसरीरस्स सव्वबंधगा ?' हे गौतम ! सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पा

टीकार्थ-इस सूत्र द्वारा सूत्रकार ने औदारिकशरीर आदिकों के
देशबंधक आदिकों के अल्पवहुत्व का प्ररूपण किया है। इसमें गौतम
ने प्रभु से ऐसा पूछा है-(एएसि णं भंते ! सव्वजीवाणं ओरालिय,
वेउव्विय, आहारग, तेयाकम्मा सरीरगाणं देसबंधगाणं, सव्वबंधगाणं,
अबंधगाण य कयरे कयरेहितो जाव विसेसाहिया) हे भदन्त। इन
सब औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कर्मणशरीर के देशबं-
धकों में से, इनके सर्वबंधकों में से, और इनके अबन्धकों में से कौन
से जीव किन जीवों से अल्प हैं ? कौन से जीव किन जीवों से बहुत
हैं ? कौन किनके समान हैं ? और कौन किनसे विशेषाधिक हैं ? इसके
उत्तर में प्रभु कहते हैं-(गोयमा) हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा
आहारगसरीरस्स सव्वबंधगा) सब से कम जीव आहारकशरीर के
सर्वबंधक हैं। इसका कारण यह है कि आहारकशरीर के सर्वबंधक वे

टीकार्थ-आ सूत्र द्वारा सूत्रकारे औदारिक आदि शरीराना देशबंधक
आदिदोनी अल्प बहुतानी नीचे प्रमाणे प्ररूपणा करी छे-

आ विषयने अनुलक्षीने गौतम स्वामी भडावीर प्रभुने केवो प्रश्न पूछे
छे के-(एएसि णं भंते ! सव्वजीवाण ओरालिय, वेउव्विय, आहारग, तेया
कम्मा सरीरगाणं देसबंधगाणं, सव्वबंधगाणं, अबंधगाण य, कयरे कयरेहितो
जाव विसेसाहिया ?) हे भदन्त ! आ भधा औदारिक, वैक्रिय, आहारक,
तैजस अने कर्मण शरीराना देशबंधको, सर्वबंधको अने अबंधकोमाथी कया
लुवो कया लुवो करता ओछा छे ? कया लुवो कया लुवो करता वधारे छे ?
कया लुवो कया लुवोनी भरामर छे ? अने कया लुवो कया लुवो करता
विशेषाधिक छे ?

भडावीरप्रभुने उत्तर-"गोयमा !" हे गौतम ! (सव्वत्थोवा जीवा आहारग-
सरीरस्स सव्वबंधगा) आहारक शरीराना सर्वबंधक लुवो कौथा ओछां छे.

હી હોતે હૈં જો ચતુર્દશપૂર્વધારી હોતે હૈં ઓર તથાવિષ આહારકારીર
 કો નિર્માણ કરને કે પ્રયોજનયાહે હોતે હૈં । હમ કથન સે યહ સમસના
 વાહિય કિ આહારકારીર કા નિર્માણ યિ-કોઈ કર સક્તા હૈં તો
 યહ ચતુર્દશપૂર્વધારી હી કર સક્તા હૈં પરન્તુ યહ ચતુર્દશપૂર્વધારી હસ
 કા નિર્માણ તમી કરતા હૈં જય હસકે નિર્માણ કરને કી ઉસે આવશ્ય
 કતા પઢ્ઠી હૈં । યહ શરીર વિશિષ્ટ લઘ્વિજન્ય હોતા હૈં-અતઃ હસનીષ
 કા પ્રયોગ ચતુર્દશપૂર્વધારી તમી કરતા હૈં કિ જય ઉસે કિમી સૂક્ષ્મ
 વિષય મેં સદહ હો જાતા હૈં-ઔર યહ સ્વય સે નિવારિત નહીં હોતા હૈં
 તથા સર્વજ્ઞ કા સંધિવાન નહીં હોતા હૈં તય યહ ઔદારિકશરીર સે ક્ષેત્રા-
 ન્તર મેં સ્થિત સર્વજ્ઞ કે પાસ જાના અસંભવ જાનકર અપની વિશિષ્ટ
 ગ્વિકા ઉમ સમય પ્રયોગ કરતા હૈં ઓર એક હસપ્રમાણ છોટા મા શરીર
 બનાતા હૈં જો ઉત્તમાણ (મસ્તક)સે પ્રકટ હોતા હૈં યહ પુદ્ગલ જન્ય હોતા હૈં
 સુન્દર હોતા હૈં-પ્રશસ્ત ઉદ્દેશ્યસે પનાયે જાનેકે કારણ નિરચય હોતા હૈં ।
 તથા અત્યન્ત સૂક્ષ્મ હોને કે કારણ અઘ્યાઘાતી હોતા હૈં । એસે શરીર સે
 યહ ક્ષેત્રાન્તરસ્થિત સર્વજ્ઞ મગયાન્ કે પાસ પહુચકર ઉનસે સદેહ આદિ

તેનુ કારણ એ છે કે આહારક શરીરના સવબધક એવાં છવો જ મઈ શકે
 છે કે એએ ચૌદપૂર્વધારી હોય છે અને તથાવિષ (તે પ્રકારના) આહારક
 શરીરનુ નિર્માણ કરવાના પ્રયોજનવાળા હોય છે આ કથનથી એવુ સમજવુ
 એછએ કે આહારક શરીરનુ નિર્માણ એ કોઈ કરી શકતુ હોય તો તે ચૌદ
 પૂર્વધારી જ કરી શકે છે પણ તે ચૌદ પૂર્વધારી ત્યારે જ તેનુ નિર્માણ કરે
 છે કે ન્યારે તેનુ નિર્માણ કરવાની તેને અવશ્યકતા પડે છે આ શરીર
 વિશિષ્ટ લઘ્વિજન્ય હોય છે તથા તે લઘ્વિનેા પ્રયોગ ચૌદ પૂર્વધારી ત્યારે જ
 કરે છે કે ન્યારે તેને સૂક્ષ્મ વિષયમાં સદેહ ઉદ્ભવે છે, અને તે પે ત જ
 તે સદેહનુ નિગરણ કરી શકતો નથી તથા સમીપમાં કોઈ સવજ પણ હોતા
 નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં ઔદરિક શરીરની મદદથી ક્ષેત્રાન્તરમાં રહેલ સર્વ
 જ્ઞની પાસે જવાનું અઘ્યાજ માનીને તે વિશિષ્ટ લઘ્વિનેા તે સમયે તે પ્રયોગ
 કરે છે અને એક હસપ્રમાણ નાનકુ શરીર બનાવ છે તે ઉત્તમાણ
 (૨૨૧૩) થી મોટ ય.વ છે, તે પુદ્ગલજન્ય હોય છે, સુદર હોય છે પ્રશસ્ત
 ઉદ્દેશ્યમાં બનાવવામા આવેતુ હોવાથી નિરચય હોય છે તથા અત્ય ત સૂક્ષ્મ
 હોવાને લીધે અઘ્યાઘાતિ હોય છે એવા યા તથી તે અત્ય સીવમાં રહેતા
 સવજ કમવાનની પાસ પહોચી જાય છે, અને તેમની પાસે પેવાના સદેહ-

जीवाः आहारकशरीरस्य सर्वबन्धकाः भवन्ति यतो हि ते आहारकशरीरस्य सर्वबन्ध-
 श्रुतुर्दशपूर्वधरास्तथाविधप्रयोजनवन्त एव भवन्ति, सर्वबन्धकालञ्चैकसमय एव
 भवति१, 'तस्स चेव देसबन्धगा संखेज्जगुणार' तस्यैव च आहारकशरीरस्य देश-
 बन्धकाः संख्येयगुणा भवन्ति, देशबन्धकालस्य बहुत्वात् २, 'वेउन्वियसरीरस्स
 सव्वबंधगा असंखेज्जगुणा ३' वैक्रियशरीरस्य सर्वबन्धका असंख्येयगुणाः भवन्ति,
 वैक्रियशरीरसर्वबन्धकानाम् आहारकदेशबन्धकापेक्षया असंख्यातगुणत्वात् ३,
 'तस्स चेव देसबंधगा असंखेज्जगुणा ४' तस्यैव च वैक्रियशरीरस्य देशबन्धका
 असंख्येयगुणा भवन्ति, सर्वबन्धाद्वापेक्षया देशबन्धाद्वाया असंख्यातगुणत्वात्,
 अथवा सर्वबन्धकाः प्रतिपद्यमानकाः, देशबन्धकास्तु पूर्वप्रतिपन्नाः, प्रतिपद्यमान-

का निवारण कर फिर अपने स्थान पर वापिस आ जाता है—इसमें एक
 अंतर्मुहूर्त का समय लगता है। आहारक शरीर का सर्वबंध का काल
 एक समय ही है। (तस्स चेव संखेज्जगुणा) आहारक शरीर के देशबंधक
 जीव सर्वबंधकों की अपेक्षा संख्यातगुणित हैं। क्यों कि देशबंध का
 काल बहुत है। (वेउन्वियसरीरस्स सव्वबंधगा असंखेज्जगुणा) वैक्रिय
 शरीर के सर्वबंधक जीव आहारक के देशबंधक जीवों से असंख्यातगु-
 णित हैं। तथा (तस्स चेव देसबंधगा असंखेज्जगुणा) वैक्रिय शरीर के
 देशबंधक जीव अपने सर्वबन्धकों की अपेक्षा असंख्यातगुणित हैं। क्यों
 कि सर्वबंध के अर्द्धाकाल की अपेक्षा देशबंध का अर्द्धाकाल असं-
 ख्यातगुणा हाता है। अथवा—जो प्रतिपद्यमानक हैं—वर्तमान में उस
 शरीर को ग्रहण कर रहे हैं वे सर्वबंधक हैं और पूर्वप्रतिपन्न—जिन्होंने
 उसे पहिले धारण कर लिया है वे देशबंधक हैं। इस तरह प्रतिपद्यमा-

दिनुं निवारण करीने पोताने स्थाने पाछा इरी नथ छे आ प्रमाणेना कार्यमां
 मात्र ओठ अन्तर्मुहूर्तने समय न लागे छे. आहारक शरीरना सर्वबंधने
 काण ओठ समय प्रमाणे न छे

(तस्सचेव देसबंधगा संखेज्जगुणा) आहारक शरीरना सर्वबंधके करतां
 आहारक शरीरना देशबंधके संख्यातगुणा छे, कारण के देशबंधने काण वधारे
 छे. (वेउन्वियसरीरस्स सव्वबंधगा असंखेज्जगुणा) आहारक शरीरना देशबंधके
 लये करता वैक्रिय शरीरना सर्वबंधके लये असंख्यातगुणा छे. तथा
 (तस्सचेव देसबंधगा असंखेज्जगुणा) वैक्रिय शरीरना देशबंधके तेना (वैक्रिय
 शरीरना) सर्वबंधके करता असंख्यातगुणा छे, कारण के सर्वबंधने अर्द्धा
 काण करतां देशबंधने अर्द्धाकाण असंख्यातगुणा छे. अथवा ने प्रति-
 पद्यमानके छे—वर्तमानमा ते शरीरने अर्द्धा करी रखा छे—ते सर्वबंधके
 छे, अने नेभले तेने पडेवा धारण करी लीधु छे तेओ देशबंधके छे आ

केभ्यश्च पूर्वप्रतिपक्षकानां बहुत्वात् वैक्रियसर्ववधकेभ्यो वैक्रियदेशबन्धका अस-
 ख्येयगुणा भवतीति भावः४, 'तेयकम्मगाण अवधगा अणतगुणा, दुण्हवि तुल्ला५,'
 तैजसकार्मणयोः शरीरयोरवधका अनन्तगुणा भवन्ति यस्मात्ते सिद्धा एव भवन्ति,
 ते च सिद्धा वैक्रियदेशबन्धकेभ्योऽनन्तगुणा एव भवन्ति, धनस्पतिवर्ज्येभ्यः
 सर्वजीवेभ्यः सिद्धानामनन्तगुणत्वात्, द्वावपि तैजसकार्मणवधकौ परस्पर तुल्यौ
 भवत ६, 'ओराळियसरीररस्स सब्बधगा अणतगुणा ६' औदारिकशरीरस्य
 सर्वबन्धका अनन्तगुणा भवन्ति, ते औदारिकसर्ववधकाः धनस्पतिप्रभृतीन्
 आधित्य प्रत्येतव्या ६, 'तस्स चैव अवधगा विसेसाहिया७' तस्यैव औदारिकशरी-
 रस्य अवधका विक्षेपाधिका भवन्ति, एते हि औदारिकाबन्धकाः सिद्धादयो

नक जीवों की अपेक्षा पूर्वप्रतिपक्षक जीव बहुत हैं, इस कारण वैक्रिय
 शरीर के सर्ववधकों की अपेक्षासे इसके देशवधक जीव असख्यात गुणे
 हैं ऐसा कहा गया है। (तेयकम्मगाण अवधगा अणतगुणा दुण्ह वि
 तुल्ला) तैजस और कार्मण इन शरीरों के अवधक जीव अनन्तगुणित हैं
 इन के अवधक तो सिद्ध ही हैं। ये सिद्ध वैक्रिय देशवधक जीवों से
 अनन्तगुणें हैं। क्यों कि धनस्पति जीवों से धर्जित समस्त जीवों से
 सिद्ध अनन्तगुणे कहे गये हैं। तैजस और कामण इन दोनों के वधक
 जीव परस्पर में तुल्य हैं। (ओराळियसरीररस्स सब्बधगा अणतगुणा)
 औदारिकशरीरके सर्ववधक जीव अनन्तगुणें हैं, ऐसा जो कहा गया है
 -यद् धनस्पति आदि जीवों की अपेक्षा से कहा गया है (तस्स चैव
 अवधगा विसेसाहिया) तथा औदारिक शरीर के अवधक जीव विशेष

शक्ति प्रतिपक्षमानक लवे। इत्या पूर्वप्रतिपक्षक लवे। यथा ४, तेषां वैक्रिय
 शरीरना सव लधके। इत्यां तेना देशवधक लवे। अस ज्जातमज्जां ५, जेत्तुं इडेवाभा
 आन्धु ५ (तेयकम्मगाण अवधगा अणतगुणा दुण्ह वि तुल्ला) वैक्रिय शरीरना
 देशवधके। इत्यां तज्जस अने कार्मण शरीरना अवधक लवे। अनतमज्जां ५
 तेमना अवधक तो सिद्ध ६ ५ ते सिद्ध लवे। वैक्रिय देशवधक लवे। इत्यां
 अनतमज्जां ५ तेनु कार्मण जे ५ ५ धनस्पति लवे। सिवायना समस्त लवे।
 इत्यां सिद्ध लवे। अनतमज्जां इत्यां ५ तज्जस अने कार्मण, आ लन्नेना
 लधके। जेत्तुभीलानी अशावर ५ "ओराळियसरीररस्स सब्बधगा अणतगुणा"
 औदारिक शरीरना सव लधक लवे। अनतमज्जां ५, जेत्तुं जे इडेवाभां अण ५
 ५ ते धनस्पति आदि लोनी अपेक्षासे इडेवाभां आन्धुं ५ (तस्स चैव
 अवधगा विसेसाहिया) औदारिक शरीरना अवधके। इत्यां अवधके। विशेष

विग्रहगतिकाश्च भवन्ति, तत्र च सिद्धादीनामत्यन्ताल्पत्वेन इह चाविदक्षितत्वात्, विग्रहगतिकाश्च वक्ष्यमाणरीत्या सर्वबन्धकेभ्यो बहुतराः इति सर्वबन्धकेभ्यस्तद-
बन्धका विशेषाधिका भवन्ति, इति भावः७' 'तस्स चैव देसबंधगा असंखेज्जगुणाट'
तस्यैव च औदारिकशरीरस्य देशबन्धका असंख्येयगुणा भवन्ति विग्रहाद्धापे-
क्षया देशबन्धाद्धाया असंख्यातगुणत्वात्, 'तेयाकम्मगाणं देसबंधगा विसैसा-
हिया ९' तैजसकार्मणयोः शरीरयोर्देशबन्धका विशेषाधिका भवन्ति, यतः सर्वेऽपि
संसारिण स्तैजसकार्मणयोः शरीरयोर्देशबन्धका भवन्ति, तत्र च ये विग्रहगतिका
औदारिकसर्वबन्धका वैक्रियादिवन्धकाश्च ते औदारिकदेशबन्धकेभ्योऽधिका भवन्ति

षाधिक हैं। इनमें सिद्ध आदि जीव विग्रहगति के जीव आ जाते हैं। इनमें सिद्ध आदि जीव अत्यन्त अल्प होने से विवक्षित यहां नहीं हुए हैं। तथा-वक्ष्यमाणरीति के अनुसार विग्रहगति वाले जीव सर्वबंधकों की अपेक्षा से बहुतर हैं-इस तरह सर्वबंधकों से औदारिक शरीर के अवंधक जीवों को विशेषाधिक कहा गया है। (तस्स चैव देसबंधगा असंखेज्जगुणा) औदारिक शरीर के देशबंधक जीव असंख्यातगुणित हैं। क्यों कि विग्रहाद्धाकाल की अपेक्षा से देशबन्ध का अद्धाकाल असंख्यातगुणा है। (तेयाकम्मगाण देसबंधगा विसैसाहिया) तैजस और कार्मण इन दो शरीरों के देशबंधक जीव विशेषाधिक हैं। क्यों कि समस्त संसारी जीव तैजस और कार्मणशरीर के देशबंध होते हैं। इनमें जो विग्रहगति के जीव हैं वे औदारिक के सर्वबंधक हैं वे, और वैक्रियादि के बंधक हैं वे औदारिक देशबंधकों से अधिक हैं इस तरह

षाधिक छे तेमां सिद्ध आदि एव तथा विग्रहगतिना एवे आवी नय छे. तेमां सिद्ध आदि एवे अत्यन्त अल्प डोवाथी अर्धी तेमनी वात करवाभां आवी नथी. तथा नीचे भताव्या अनुसार विग्रहगतिवाणां एवे सर्वबंधके करता वधारे छे-आ रीते सर्वबंधके करतां औदारिक शरीरना अबंधक एवेने विशेषाधिक क्हा छे. (तस्सचैव देसबंधगा असंखेज्जगुणा) औदारिक शरीरना देशबंधक एवे अभंधके करता असंख्यातगुणा छे, कारण के विग्रहाद्धाकाल करतां देशबंधने अद्धाकाल असंख्यातगुणा छे "तेयाकम्मगाणं देसबंधगा विसैसाहिया" तैजस अने कार्मण्ये ये शरीरना देशबंधक एवे तेमना करता विशेषाधिक छे, कारण के समस्त संसारी एव तैजस अने कार्मण्यशरीरना देशबंधक डोय छे तेमाथी ने विग्रहगतिना एवे छे, तेओ तथा ने औदारिकना सर्वबंधक एवे छे, तेओ अने वैक्रियादिना बंधकएवे औदारिक देशबंधके करतां अधिक छे. आ रीते तैजस अने कार्मण्यना देशबंधक एवे विशेषाधिक क्हा छे.

इति ते तैजसकामंणदेशबन्धकाः विशेषाधिका भवन्तीति भाव ९, वेदम्बियसरीरस्त
 अबधगा विसेसाहिया १०' वैक्रियशरीरस्य अबन्धका विशेषाधिका भवन्ति,
 यतो वैक्रियस्य बन्धका प्रायो देयनैरयिका एष भवन्ति, शेषास्तु वैक्रियबन्धका
 सिद्धाश्च एव भवन्ति, तत्र च सिद्धास्तैजसादिदेशबन्धकेभ्योऽतिरिच्यन्ते, इति त
 विशेषाधिका भवन्तीति भावः १०, 'आहारगसरीरस्त अबधगा विसेसाहिया ११
 आहारकशरीरस्य अबन्धका विशेषाधिका भवन्ति, यस्मात् मनुष्याणामेवाहारकशरीरं
 भवति, वैक्रियतु मनुष्येतरेषामपि, अतो वैक्रियबन्धकेभ्य आहारकबन्धकानाम
 स्पष्टेन वैक्रियबन्धकेभ्य आहारकावधका विशेषाधिका भवन्तीति भाव ११।

तैजस और कामंण देशबधक जीव विशेषाधिक कहें गये हैं। (वेदम्बिय
 सरीरस्त अबधगा विसेसाहिया १०) वैक्रिय शरीर के अबधक जीव
 विशेषाधिक हैं—क्यों कि वैक्रिय के बधक प्राय देव और नैरयिक ही
 होते हैं। पाकी के जीव वैक्रिय के अबधक होते हैं। ऐसे जीवों में देव
 नारकों से भिन्न जीव और सिद्ध जीव आते हैं। इनमें सिद्ध जीव तैज-
 सादि के देशबधकों से अधिक मान लिये गये हैं—इसलिये वैक्रिय
 शरीर के अबधकों में विशेषाधिक हो जाते हैं। (आहारगसरीरस्त
 अबधगा विसेसाहिया) आहारक शरीर के अबधक विशेषाधिक हैं—
 क्यों कि यह आहारक शरीर मनुष्यों के ही होता है। तथा वैक्रिय
 शरीर मनुष्य से भिन्न के भी होता है। इसलिये वैक्रिय बधकों से
 आहारक शरीर के बधक होने के कारण वैक्रियबधकों से आहारक
 अबधक—विशेषाधिक कहें गये हैं।

(वेदम्बियसरीरस्त अबधगा विसेसाहिया) वैक्रिय शरीरना अबधक
 लोको तेभना इरता विशेषाधिक छे इरलु के वैक्रियना अबधक सामान्य रीते
 देवो अने नारको ए दोष छे आहीना लोको वैक्रियना अबधक दोष छे
 लोको लोको देवो अने नारको सिन्धयना लोको अने सिद्ध लोकोने जल
 वाभां आवे छे तेभायो सिद्ध लोकोने तैजस अादिना देशबधको इरतां अधिक
 मानवाभां आभां छे—तेयो वैक्रिय शरीरना अबधकेभां तेयो विशेषाधिक
 यथं लय छे (आहारगसरीरस्त अबधगा विसेसाहिया) आहारक शरीरना
 अबधको तेभना इरता विशेषाधिक छे—इरलु के आ आहारक शरीरने स
 लय देवग मनुषोभां ए दोष छे, तथा वैक्रिय शरीरने सइलय मनुष्य
 इरतां भिन लोकोभां पलु दोष छे आ इरले वैक्रिय अबधको इरतां आहारक
 शरीरना अबधको अथ दोषयो, वैक्रियना अबधको इरता आहारकना अबधको
 विशेषाधिक इरतां छे इरे आ देशकोने उपसकार इरतां गीनभरनाभी

अन्ते गौतमो भगवद्वाक्यं स्वीकुर्वन्नाह—‘सेवं भंते ! सेवं भंते !’ हे भदन्त ! तदेवं भवदुक्तं सत्यमेव, हे भदन्त ! तदेवं भवदुक्तं सत्यमेवेति भावः ॥ सू०११ ॥

इति श्री-विश्वविख्यात - जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापालापक -प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक श्रीशाहूछत्रपतिकोल्हापुरराजप्रदत्त ‘ जैनशास्त्राचार्य ’—पदभूषित-कोल्हापुरराजगुरु-वालब्रह्मचारि जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकरपूज्यश्री घासीलालव्रतिविरचितायां श्री भगवतीसूत्रस्य - प्रमेयचन्द्रिका ख्यायां व्याख्यायामष्टमशतकस्य नवम उद्देशः समाप्तः॥८-९॥

अब अन्त में गौतम प्रभु के वचनों को स्वीकार करते हुए ऐसा कहते हैं—(सेवं भंते ! सेवं भंते !) हे भदन्त ! आपने जो ये सब कहा है वह सर्वथा सत्य ही है, हे भदन्त ! आपके द्वारा कथित यह सब विषय सर्वथा सत्य ही है । इस प्रकार कहकर वे गौतम यावत् अपने स्थान पर विराजमान हो गये ॥ सू०११ ॥

श्री जैनाचार्य जैनधर्म दिवाकर श्री घासीलालजी महाराजकृत “ भगवतीसूत्र”की प्रमेयचन्द्रिका व्याख्याके आठवे शतकका नववां उद्देशक समाप्त ॥ ८-९ ॥

मडावीर प्रभुना वचनेने प्रमाणुभूत गळीने उडे डे—“ सेव भंते ! सेवं भंते ! हे भदन्त ! आपे जे उछुं ते सर्वथा सत्य छे. हे भदन्त ! आ विषयनु आपे जे प्रतिपादन क्युं ते यथार्थ ज छे. आ प्रमाणु उळीने मडावीर प्रभुने वंदणु नमस्कार करीने तेआ पोताने स्थाने जेशी गया ॥ सू. ११ ॥

जैनाचार्य श्री घासीलालजी महाराज कृत भगवती सूत्रनी प्रमेयचन्द्रिका व्याख्याना आठवां शतकना नववां उद्देशक समाप्त ॥८-९॥

दशमोद्देशक प्रारभ्यते—

अष्टमशतकस्य दशमोद्देशकस्य सक्षिप्तविषयविवरणम् ।

'शीलमेव श्रेयः' इत्यादि-अन्यतीर्थिकानां मतम्, शीलसम्पन्नाऽस्ति न तु ध्रुवसम्पन्न इत्यादि चतुर्भङ्गी, देशाराधकः, देशविराधक, सर्षाराधक, सर्वविराधकश्च, अराधनानां प्रकाराः—ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारिभाराधना च, उत्कृष्टज्ञानाराधनाया उत्कृष्टदर्शनाराधनाया सह सम्बन्धः, उत्कृष्टदर्शनाराधनाया उत्कृष्टचारिभाराधनाया सह सम्बन्धः, उत्कृष्टज्ञानाराधकः क्विपद्भवानन्तर मोक्षं प्राप्स्यति ? एवमुत्कृष्टदर्शनाराधक उत्कृष्टचारिभाराधकश्च कदा मोक्षं प्राप्स्यत ? मध्यमज्ञानाराधकः कदा मोक्षं प्राप्स्यति ? मध्यमदर्शनाराधको मध्यमचारिभाराध

शतक ८ उद्देशक १०

अष्टमशतक के इस दशमोद्देशक का सक्षिप्त विषय विवरण इस प्रकार है—शील ही कल्याण कारक है इत्यादिरूप से अन्यतीर्थिक जनों का कथन—इस पर चतुर्भङ्गी द्वारा सैद्धान्तिक मान्यता का प्रदर्शन—इस में देशाराधक देशविराधक, सर्षाराधक और सर्वविराधक का कथन अराधना के ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना आदि प्रकारों का कथन—उत्कृष्टज्ञानाराधना का उत्कृष्ट दर्शनाराधना का उत्कृष्ट चारिभाराधना के साथ, सम्बन्ध कथन—उत्कृष्टज्ञानाराधक जीव कितने भयके बाद मोक्ष प्राप्त करेगा ? इसी तरह से उत्कृष्ट दर्शनाराधक जीव और उत्कृष्ट चारिभाराधक जीव कब मोक्ष प्राप्त करेगा ? मध्यम ज्ञानाराधक जीव, कब मुक्ति प्राप्त करेगा ? मध्यमदर्शनाराधक जीव, और मध्यम चारि

—शतक ८ उद्देशक १०—

आठवां शतकना १० वां उद्देशकना विषयनु सक्षिप्त विवरणु—

शील एव कल्याणरूपेण, इत्यादि अन्यतीर्थिकानां मान्यता, आर विकल्पे द्वारा स्वसिद्धान्तनी मान्यतानुं प्रदर्शन, तथा ते द्वारा देशाराधक, देशविराधक, सर्षाराधक अने सर्वविराधकनुं प्रतिपादन. ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना आदि अराधनानां प्रकारेण कथन उत्कृष्ट ज्ञानाराधनाना उत्कृष्ट दर्शनाराधना साधेना अने उत्कृष्ट चारिभाराधनाना उत्कृष्ट चारिभाराधना साधेना संबन्धे कथन उत्कृष्ट ज्ञानाराधक एव कदा मोक्षं प्राप्स्यति ? एवमुत्कृष्ट दर्शनाराधक एव अने उत्कृष्ट चारिभाराधक एव कदा मोक्षं प्राप्स्यति ? मध्यम ज्ञानाराधक एव कदा मोक्षं प्राप्स्यति ? मध्यमदर्शनाराधक एव

कश्च कदामोक्षं प्राप्स्यति ? जघन्यज्ञानाराधकः कदा मोक्षं प्राप्स्यति ? एवमेव जघन्य-
दर्शनचारित्राराधकः कदा मोक्षं प्राप्स्यति ? इत्यादिप्रश्नोत्तरम्, पुद्गलपरिणाम
प्रकारः—वर्णपरिणामः, गन्धपरिणामः, रसपरिणामः, स्पर्शपरिणामः, संस्थानपरि-
णामश्च पुद्गलास्तिकायस्य एकप्रदेशः, द्विप्रदेशौ, यावत् अनन्तप्रदेशाः किं
द्रव्यं वर्तन्ते, द्रव्यदेशो वा वर्तन्ते ? इत्याद्यष्टौ प्रश्नाः, लोकाकाशः, एकजीव-
प्रदेशाश्च, कर्मप्रकृतयः, नैरयिक्राणां यावत् वैमानिकानां च कर्मप्रकृतयः, ज्ञाना-
वरणीयकर्मणः अविभागपरिच्छेदः, नैरयिकजीवस्य प्रत्येकप्रदेशः कियद्भिः
ज्ञानावरणीयकर्मणोऽविभागपरिच्छेदैः आवेष्टितपरिवेष्टितो वर्तते ? प्रत्येकजीवस्य

त्राराधक जीव कब सुक्ति प्राप्त करेगा ? जघन्य ज्ञानाराधक जीव जघन्य
दर्शनाराधक जीव, जघन्य चारित्राराधक जीव कब मोक्षप्राप्त करेगा ?
इत्यादि प्रश्न और इनका उत्तर—पुद्गलपरिणामप्रकार—वर्णपरिणाम,
गन्धपरिणाम, रसपरिणाम, स्पर्शपरिणाम, और संस्थानपरिणाम—इनके
भेदों का कथन । पुद्गलास्तिकाय का एक प्रदेश, पुद्गलास्तिकाय के दो
प्रदेश, यावत् अनन्तप्रदेश क्या एक द्रव्यरूप हैं ? या द्रव्य के देशरूप
हैं ? इत्यादि आठ प्रश्न और इनका उत्तर लोकाकाश के और एक जीव
के कितने प्रदेश हैं—ऐसा प्रश्न और उत्तर—कर्मप्रकृतियों का कथन—नैर-
यिकों से लेकर वैमानिक देवों तक की कर्मप्रकृतियों का कथन—ज्ञाना-
वरणीयकर्म के अविभागी परिच्छेद अनन्त हैं ऐसा कथन—नैरयिक
जीव के प्रत्येक प्रदेश कितने ज्ञानावरणीय कर्म के अविभागपरिच्छेदों

अने मध्यम चारित्राराधक एव क्यारे मोक्ष प्राप्त करेशे ? जघन्य ज्ञानाराधक
एव, जघन्य दर्शनाराधक एव अने जघन्य चारित्राराधक एव क्यारे मोक्ष
प्राप्त करेशे ? आ प्रश्नो अने तेना उत्तरोनु कथन आ उद्देशकभां करवाभां
आव्यु छे पुद्गल परिणामना प्रकारो—वर्णपरिणाम, गंधपरिणाम, रसपरिणाम,
स्पर्शपरिणाम अने संस्थानपरिणाम—तुं तथा तेमना लेहेनु कथन पुद्गला-
स्तिकायने ओक प्रदेश, पुद्गलास्तिकायना ओ प्रदेश अने अनन्त पर्यन्तना प्रदेशो
शुं ओक द्रव्यरूप छे ? के द्रव्यना देशरूप छे ? इत्यादि आठ प्रश्न अने तेना
उत्तरोनु प्रतिपादन लोकाकाशना अने ओक एवना डेटला प्रदेश छे ? आ
प्रश्न अने तेना उत्तरनु कथन नारकोथी लघने वैमानिक देवो पर्यन्तना
एवोनी कर्मप्रकृतियोनु कथन ज्ञानावरणीय कर्मना अविभागी परिच्छेद अनन्त
छे, ओवु कथन नैरयिक एवने प्रत्येक प्रदेश ज्ञानावरणीय कर्मना डेटला
अविभागी परिच्छेदोथी आवेष्टित परिवेष्टित छे ओवो प्रश्न अने तेना उत्तर.

एकैकजीवमदेशे दशनावरणीयकमणः क्रियद्विरविभागपरिच्छदैरावेष्टितपरिवेष्टितो
 पर्वते ? ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीययो परस्पर सम्बन्धः, ज्ञानावरणीयस्य वेदनीयेन
 सह सम्बन्धः, ज्ञानावरणीयमोहनीययो परस्परं सम्बन्धः, ज्ञानावरणीयायुक्त
 कर्मणो परस्पर सम्बन्ध, एवं रीत्या दर्शनावरणीयादिना सह वेदनीयादीनां
 सम्बन्धः, जीव पुद्गली पुद्गलो वा ? नैरयिकः पुद्गली पुद्गलो वा ? सिद्ध
 पुद्गलो न, अपि तु पुद्गल इति ।

शीलधृताविकल्पता ।

नवमोरेक्षके षष्ठादय पदार्थाः प्ररूपिताः, तांश्च पन्थादीन् भुतशीलसम्पन्नाः
 पुरुषा विचारयन्तीति भुतादिसम्पन्नपुरुषप्रभृतिपञ्चायविचारार्थं दशमसूत्रेक्षकमार
 भते- ' रायगिहे नयरे ' इत्यादि ।

मूलम्-रायगिहे नयरे जाव एव वयासी-अन्नउत्थिया णं
 भते! एवमाइक्खाति, जाव एव परूवेति-एव खलु सील सेय?,

से आवेष्टित परिवेष्टित हैं ऐसा प्रश्न और इसका उत्तर- प्रत्येक जीव
 का एक एक जीव प्रदेश दर्शनावरणीय कर्म के कितने अविभागी
 परिच्छेदों से आवेष्टितपरिवेष्टित हो रहा है ? ऐसा प्रश्न और उत्तर
 ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय इनका परस्पर संबन्ध कथन-ज्ञानावर
 णीय का वेदनीय के साथ, संबन्ध कथन-ज्ञानावरणीय और मोहनीय
 का परस्पर में संबन्ध कथन-ज्ञानावरणीय और आयुक्त कर्म का परस्पर में
 संबन्ध कथन-इसी तरह के दर्शनावरणीय भाषि के साथ वेदनीयादिकों
 का संबन्ध कथन-जीव पुद्गली है या पुद्गल है ? नैरयिक पुद्गली है
 या पुद्गल है ? ऐसा प्रश्न और उत्तर-सिद्ध पुद्गली नहीं है किन्तु पुद्गल
 है ऐसा कथन-।

प्रत्येक જીવનો પ્રત્યેક જીવપ્રદેશે દશનાવરણીય કર્મના કેટલા અવિભાગી પરિ
 ચ્છેદાથી આવેષ્ટિત પરિવેષ્ટિત થઈ રહ્યો છે ? એવો પ્રશ્ન અને તેનો ઉત્તર
 જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીયના પરસ્પરના સંબંધનું કથન, જ્ઞાનાવરણીયના
 વેદનીય સાથેના સંબંધનું કથન, જ્ઞાનાવરણીય અને મોહનીયના પરસ્પરના
 સંબંધનું કથન, જ્ઞાનાવરણીય અને આયુક્તકર્મના પરસ્પરના સંબંધનું કથન
 એવા પ્રમાણે દશનાવરણીય આદિની સાથેના વેદનીયાદિકોના સંબંધનું કથન.
 એવું પુદ્ગલી છે કે પુદ્ગલ છે ? નૈરયિક પુદ્ગલી છે કે પુદ્ગલ છે ? એવા
 પ્રશ્નો અને તેમના ઉત્તરોનું કથન. સિદ્ધ પુદ્ગલી નથી પણ પુદ્ગલ છે, એવું કથન.

सुयं सेयं२, सुयं सेयं सीलं सेयं३, से कहमेयं भंते ! एवं? गोयमा !
 जन्नं ते अन्नउत्थिया एवमाइक्खंति जाव जेते एवमाहंसु
 मिच्छा ते एवमाहंसु, अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव
 परूवेमि, एवं खलु मए चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—
 सीलसंपन्ने णामं एगे णो सुयसंपन्ने१, सुयसंपन्ने नामं एगे नो
 सीलसंपन्ने२, एगे सीलसंपन्ने वि, सुयसंपन्ने वि३, एगे णो
 सीलसंपन्ने नो सुयसंपन्ने४, तत्थ णं जेसे पढमे पुरिसजाए से णं
 पुरिसे सीलवं असुयवं, उवरए अविन्नायधम्मे, एस णं गोयमा !
 मए पुरिसे देसाराहए पणत्ते१, तत्थ णं जे से दोच्चे पुरिस-
 जाए से णं पुरिसे असीलवं सुयवं, अणुवरए विन्नायधम्मे, एस
 णं गोयमा ! मए पुरिसे देसविराहए पणत्ते२, तत्थ णं जेसे
 तच्चे पुरिसजाए से णं पुरिसे सीलवं सुयवं, उवरए विन्नाय
 धम्मे एस णं गोयमा ! मए पुरिसे सव्वाराहए पणत्ते३, तत्थ णं
 जेसे चउत्थे पुरिसजाए से णं पुरिसे असीलवं, असुयवं अणुवरए
 अविण्णायधम्मे, एस णं गोयमा ! मए पुरिसे सव्वविराहए पणत्ते४॥१

छाया—राजगृहे नगरे यावत् एवमवादीत्—अन्ययूथिकाः खलु भदन्त !
 एवमाख्यान्ति, यावत्—एवं प्ररूपयन्ति—एवं खलु शीलं श्रेयः१, श्रुतं श्रेयः२, श्रुतं श्रेयं

शीलश्रुतादि वक्तव्यता

‘ रायगिहे नगरे जाव एवं वयासी ’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(रायगिहे नगरे जाव एवं वयासी) राजगृह नगर में यावत्
 गौतम ने प्रभु से इस प्रकार से पूछा—(अन्नउत्थियाणं भंते ! एवमाह-

शीलश्रुतादि वक्तव्यता—

“ रायगिहे नगरे जाव एव वयासी ” इत्यादि—

सूत्रार्थ—(रायगिहे नगरे जाव एवं वयासी) राजगृह नगरमा महा-
 वीर प्रभु पधायो, यावत् गौतम स्वामीणे महावीर प्रभुने आ प्रभावे

शील श्रेय ३, तत्कथमेतद् भदन्त ! एवम् ? गौतम ! यत् खलु ते अन्यतीर्थिका एवमाख्यान्ति, यावत्-येते एवमाहु-मिथ्या ते एवमाहुः, अहं पुनर्गौतम ! एव माग्यामि यावत् प्ररूपयामि-एव खलु मया चत्वारः पुरुषजाताः प्रज्ञा-तयया-शीलसम्पन्नो नाम एकः, नो धृतसम्पन्नः १, धृतसम्पन्नो नाम एकः नो शीलसम्पन्नः २, एक शीलसम्पन्नोऽपि, धृतसम्पन्नोऽपि ३, एको नो शीलसम्पन्नः, नो धृत

कम्बति जाव एषं परुषेति-एव खलु शील सेयं १ ? सुयं सेय २ ? सुय सेय शील सेय ३) हे भदन्त ! अन्यतीर्थिक जन जो ऐसा कहते हैं, यावत्-इस प्रकार से प्ररूपित करते हैं कि शील ही श्रेयस्कर है १, धृत ही श्रेयस्कर है २, शील निरपेक्ष श्रुतश्रेयस्कर है और श्रुत निरपेक्ष शील-श्रेयस्कर है, (से कहमेय भते ! एव) तो हे भदन्त ! उनका ऐसा कथन ठीक है क्या ? (गोयमा) हे गौतम ! (जन्म ते अन्नउत्थिणा एवमाहस्वति, जाव जे ते एवमाहसु मिच्छा ते एवमाहसु) जो वे अन्यतीर्थिक जन ऐसा कहते हैं यावत् जो उन्हीं ने ऐसा कहा है वह मय उनका कथन मिथ्या है । (अह पुण गोयमा ! एवमाहस्वामि, जाव परुषेमि, एव खलु मए चत्वारि पुरिस जाया पण्णासा) हे गौतम ! मैं तो ऐसा कहता हू यावत् ऐसी प्ररूपणा करता हू-कि चार पुरुष ऐसे होते हैं (त जहा) जो इस प्रकार से हैं-(शीलसंपन्ने नाम एगे णो सुय सपन्ने १, सुयसपन्ने नाम एगे नो शीलसंपन्ने २, एगे शीलसंपन्ने वि,

पूछु- (अन्नउत्थिणाणं भते ! एवमाहस्वति जाव एव परुषेति-एव खलु शील सेयं १, सुय सेय २, सुय सेय शील सेय ३) हे भदन्त ! अन्य तीर्थिक (अन्य मतवादीजो) जेवु कहे थे, ' यावत् ' जेवी प्ररूपणा करे थे के (१) शील व श्रेयस्कर थे, (२) धृत व श्रेयस्कर थे (३) शील निरपेक्ष धृत श्रेयस्कर थे जेने धृत निरपेक्ष शील श्रेयस्कर थे, (से कहमेय भते ! एव) तो हे भदन्त ! जेमनी जे भान्यता शु भरी थे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (जन्म ते अन्नउत्थिणा एवमाहस्वति, जाव जे त एवमाहसु मिच्छा ते एवमाहसु) ते अन्यतीर्थिको जेवु ने कहे थे ते तेमनु अमत्त कथन मिथ्या-जेटुं थे (अह पुण गोयमा ! एवमाहस्वामि जाव, परुषेमि एव खलु मय चत्वारि पुरिस जाया पण्णासा) हे गौतम ! मैं तो जेवु कहे छु, ' यावत् ' जेवी प्ररूपणा करे छु के चार पुरुष जेवां दाव थे (त जहा) हे जेमनी नीमि प्रभ जे प्रज्ञा पडे थे-(शीलसंपन्ने नाम एगे णो सुयसपन्ने १, सुयसपन्ने नाम एगे नो शीलसंपन्ने २, एगे शीलसंपन्ने वि

सम्पन्नः ४, तत्र खलु यः स प्रथमः पुरुषजातः, स खलु पुरुषः शीलवान् अश्रुत-
वान्, उपरतः, अविज्ञातधर्मा, एष खलु गौतम ! मया पुरुषो देशाराधकः प्रज्ञप्तः १,
तत्र खलु यः द्वितीयः पुरुषजातः स खलु पुरुषः अशालवान् श्रुतवान्, अनुपरतो
विज्ञातधर्मा, एष खलु गौतम ! मया पुरुषो देशविराधकः प्रज्ञप्तः २, तत्र खलु यः स
तृतीयः पुरुषजातः, स खलु पुरुषः शीलवान् श्रुतवान्, उपरतो विज्ञातधर्मा, एष

सुयसंपन्ने वि ३, एगे णो सीलसंपन्ने, नो सुयसंपन्ने ४) एक शील-
संपन्न होता है, पर श्रुतसंपन्न नहीं होता १, दूसरा श्रुतसंपन्न होता है
पर शीलसंपन्न नहीं होता है २, तीसरा-शील संपन्न भी होता है और
श्रुत संपन्न भी होता है ३, और चौथा ऐसा होता है जो न शीलसंपन्न
होता है और न श्रुतसंपन्न होता है। (तत्थ णं जे से पढमे पुरिसे जाए,
से णं पुरिसे सीलवं असुयवं, उवरए, अविन्नायधम्मे, एस णं गोयमा !
मए पुरिसे देसाराहए पण्णत्ते) इनमें जो प्रथम प्रकार का पुरुष है वह
शील वाला तो होता है परन्तु श्रुत वाला नहीं होता है। ऐसा यह पुरुष
पापादिक से उपरत-निवृत्त होता हुआ भी धर्म को जानता नहीं है।
हे गौतम ! ऐसे पुरुष को मैंने देश आराधक कहा है। (तत्थ णं जे से
दोच्चे पुरिसजाए, से णं पुरिसे असीलवं सुयवं, अणुवरए विन्नायधम्मे
-एस णं गोयमा ! मए पुरिसे देसविराहए पण्णत्ते) जो दूसरा पुरुष
है, वह शीलवाला तो नहीं होता है, परन्तु श्रुतवाला होता है ऐसा यह
पुरुष पापादिक से तो अनिवृत्त होता है, पर धर्म को जानता है। हे

वि सुयसंपन्ने वि एगे णो सीलसंपन्ने, णो सुयसंपन्ने ४,) (१) शीलयुक्त डोय
छे पणु ज्ञानयुक्त डोतो नथी, ज्ञानयुक्त डोय छे पणु शीलयुक्त डोतो नथी,
(३) शीलयुक्त पणु डोय छे अने ज्ञानयुक्त पणु डोय छे, (४) शीलयुक्त
पणु डोतो नथी अने ज्ञानयुक्त पणु डोतो नथी (तत्थणं जे से पढमे पुरिसे
जाए, से णं पुरिसे सीलवं असुयवं, उवरए, अविन्नायधम्मे, एस णं गोयमा !
मए पुरिसे देसाराहए पण्णत्ते) ते अर प्रकारना पुरुषोभाथी ने पडेदा प्रकारने।
पुरुष छे ते शीलवाणो तो डोय छे पणु श्रुतवाणो डोतो नथी अवे। ते पुरुष
पापादिकथी निवृत्त रडेवा छातां पणु धर्मने जणुतो नथी छे गौतम ! अवे।
पुरुषने मे देश (अंशत) आराधक कछो छे (तत्थ णं जे से दोच्चे पुरिस-
जाए, से णं पुरिसे असीलवं सुयवं, अणुवरए विन्नायधम्मे-एस णं गोयमा !
मए पुरिसे देसविराहए पण्णत्ते) भीन प्रकारने ने पुरुष छे ते शीलवाणो
डोतो नथी पणु श्रुतवाणो डोय छे, अवे। ते पुरुष पापादिकथी अनिवृत्त डोय

पातादिविरमणध्यानाध्ययनाविरूपाक्रियैव भेयः-अतिसूत्रेण प्रशस्त्यं श्लाघ्यं वर्तते
 मशस्तमित्यर्थं पुरुषार्थसाधकत्वात्, अथवा भेयम्-समाभ्ययणीय पुरुषार्थविशेषा
 र्थिना शीलमेवाभ्ययणीयमित्यर्थः, भयमाशयः-क्रेषित् अ-पतीर्थिका क्रियामात्रा
 १. देवामीष्टार्थसिद्धिमिच्छन्ति ज्ञानन्तु निष्प्रयोजनमेव प्रतिपादयन्ति तस्य निषेधत्वात्
 घटादिकरणप्रवृत्तौ आकाशादिपदार्थवत्, उक्तं च-

क्रियैव फलदा पुतां, न ज्ञान फलदं मतम् ।

यतः स्त्रीभक्ष्यभोगज्ञो न ज्ञानात् सुखितो भवेत् ॥ १ ॥

एवम्- 'जहा स्वरो वदणभारवाही, भारस्स भागी न हु वदणस्स

एवं सु नाणी चरणेण हीणो, नाणस्स भागी न हु सोगर्हण' ॥ १ ॥

ध्यान, अध्ययन आदि रूप जो शील है वही अतिशय रूप से प्रशस्त
 श्लाघ्य है। क्यों कि यही पुरुषार्थ का साधक है। अथवा-(सेय) का
 अर्थ पुरुषार्थ विशेष के अभिलाषी द्वारा समाभ्ययणीय है। तात्पर्य कहने
 का यह है-कि कितनेक अन्यतीर्थिक जन क्रियामात्रसे ही अभीष्ट अर्थ
 की सिद्धि होती है ऐसा मानते हैं। और साथमें ऐसा कहते हैं कि ज्ञान
 निष्प्रयोजनमूल ही है-उससे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि नहीं होती है।
 क्यों कि ज्ञान निष्प्रेष्ट रूप होता है। जैसे घटादि करने की प्रवृत्ति में
 आकाश पदार्थ निष्प्रेष्ट होता है। कहा भी है-"क्रियैव फलदा पुतां, न
 ज्ञान फलदं मतम्। यत स्त्री भक्ष्यभोगज्ञो न ज्ञानात् सुखितो भवेत्"
 क्रिया ही पुरुषों को फलदायक होती है, ज्ञान फलदायक नहीं होता है।
 क्यों कि स्त्री, भक्ष्य और भोजन के ज्ञानवाले व्यक्ति को उनका केवल
 ज्ञान सुखी नहीं करता है। तथा-

विरमणरूप अने ध्यान अध्ययनरूप के शील से अतिशय प्रशस्त-
 श्लाघ्य-उ शब्द के अर्थ पुरुषार्थनु साधक से अथवा 'सेय' ने अर्थ
 पुरुषार्थ विशेषना अभिलाषी द्वारा समाभ्ययणीय से कहेवानु तात्पर्य से से
 से कहेवाक अन्यतीर्थिकों के अनु माने से से क्रियामात्रही व अभीष्ट अर्थ की
 सिद्धि थाय से अने साथ अने पण कहे से से ज्ञाननु कर्ष प्रयोजन नहीं
 ज्ञान द्वारा अभीष्ट अर्थ की सिद्धि यती नहीं. शब्द के ज्ञान निष्प्रेष्ट रूप कहे
 से कहे पण से से-(क्रियैव फलदा पुतां, न ज्ञान फलदं मतम्। यत स्त्री
 भक्ष्य भोगज्ञो न ज्ञानात् सुखितो भवेत्) "क्रिया व भावसेने कहेवायक थाय
 न ज्ञान कहेवायक अनु नहीं. शब्द के स्त्री, भक्ष्य अने भोजनना ज्ञानवाग्जने

यथा खरश्चन्दनभारवाही, भारस्य भागी न तु चन्दनस्य ।

एवं खलु ज्ञानी चरणेन हीनो ज्ञानस्य भागी न तु सुगते । १ ॥

अतस्ते प्ररूपयन्ति—शीलं श्रेयः, इति, अन्ये पुनरन्यतीर्थिकाः ज्ञानादेवेष्टार्थसिद्धि-
मिच्छन्ति न क्रियातः, ज्ञानविकलस्य क्रियावतोऽपि फलसिद्धयदर्शनात्, उक्तं च-
विज्ञप्तिः फलदा पुंसां, न क्रिया फलदा मता ।

मिथ्याज्ञानात् प्रवृत्तस्य फलासंवाददर्शनात् ॥ १ ॥

(जहा खरो चंदण भारवाही भारस्सभागी न हु चंदणस्स ।

एवं खु नाणी चरणेण हीणो नाणस्स भागी नहु सोगईए ॥

जैसे—चंदन के भारवाला गधा केवल चन्दन के भार का ही भागी होता है चन्दन का नहीं, उसी प्रकार चारित्र-क्रिया से रहित ज्ञानी ज्ञान का ही भागी होता है सुगति का भागी नहीं होता है। इसी बात को लेकर वे ऐसी प्ररूपणा करते हैं कि शील ही श्रेयस्कर है। तथा दूसरे जो अन्यतीर्थिकजन हैं वे ऐसा कहते हैं कि केवल ज्ञानमात्र से ही इष्ट अर्थ की सिद्धि होती है, क्रिया से नहीं—प्राणाति-पातविरमण आदिरूप चारित्र से नहीं—क्यों कि ज्ञानविकल प्राणी को क्रियाशाली होने पर भी फलसिद्धि की प्राप्ति होती हुई नहीं देखी जाती है। सो ही कहा है—“ विज्ञप्तिः फलदा पुंसां ” इत्यादि ॥

विज्ञप्ति-विशिष्टज्ञान-सम्यग्ज्ञान ही पुरुषों को फलप्रद होता है। ज्ञानशून्य क्रिया फलप्रद नहीं होती है। जो व्यक्ति मिथ्याज्ञान से प्रवृ-

(जहा खरो चंदण भारवाही भारस्स भागी, न हु चंदणस्स ।

एवं खु नाणी चरणेण हीणो नाणस्स भागी न हु सोगईए)

जेभ चन्दनने। भारवाही। गधेडे। चन्दनना भारने। न लागी थाय छे, चन्दनने लागी थतो नथी, जेभ प्रभाणु चारित्र-क्रियाथी रद्धित ज्ञानी ज्ञानने। न लागी थाय छे, सुगतिने लागी थतो नथी. आ प्रकारनी मान्यताने आधारे तेजे जेवी प्ररूपणा करे छे के शील न श्रेयस्कर छे तथा भीज्ज अन्यतीर्थिके जेवु कडे छे के ज्ञान मात्रथी न धष्ट अर्थनी प्राप्ति थाय छे. क्रियाथी थती नथी—प्राणातिपात विरमण आदिइय चारित्र वडे अलीष्ट अर्थनी प्राप्ति थती नथी। कारणु के ज्ञानरद्धित एव क्रियाशाली डोय तो पणु तेने इलसिद्धिनी प्राप्ति थती जेवामां आवती नथी कहु पणु छे के—

विज्ञप्ति फलदा पुंसा इत्यादि ।

विज्ञप्ति (विशिष्ट ज्ञान-सम्यग्ज्ञान) न पुरुषेने इलदाथी नीवडे छे. ज्ञानशून्य (ज्ञानरद्धित) क्रिया इलप्रद नीवडती नथी. जे व्यक्ति मिथ्याज्ञानथी

સ્વલ્લ ગૌતમ ! મયા પુરુષઃ સર્વારાધકઃ પ્રજ્ઞસઃ૧, સપ્ત સ્વલ્લ યઃ સ ચતુર્થઃ પુરુષજ્ઞાતા, સ સ્વલ્લ પુરુષઃ અશીલવાન્, અધુતવાન્, અનુપરત્, અધિજ્ઞાતવર્મા, એવ સ્વલ્લ ગૌતમ ! મયા પુરુષઃ સર્વવિરાધકઃ પ્રજ્ઞસઃ૪ ॥ સૂ૦ ૧ ॥

ટીકા—‘રાયગિહ નપરે જ્ઞાન એ વયાસી’—રાજગૃહે નગરે યાવત્ સ્વામી સમવસ્યતાઃ, સમવસ્યત મગચત્તે ઘન્દિત્તુ નમસ્કર્ત્વે પર્યત્ નિર્ગન્છતિ, ઘન્દિત્વા નપ

ગૌતમ ! એસે પુરુષ કો મૈને દેશવિરાધક કહા હૈ । (તત્થ ણે જે સે તત્થે પુરિસજ્ઞાણ, સે ણે પુરિસે સીલલ્લ સુચવ, ‘હવરણ વિજ્ઞાણવમ્મે-એવ ણે ગોયમા ! મણ પુરિસે સન્ધારાહણ પણ્ણસે) જો તૃતીય પુરુષ હૈ જો શીલ લાલા મી હોતા હૈ ઓર શુભલાલા મી હોના હૈ । એસા વહ પુરુષ પ્રાણા-તિપાતાદિક સે નિવૃત્ત હોતા હૈ ઓર ધર્મ કા જ્ઞાતા હોતા હૈ । ઊસ પુરુષ કો મૈને સર્વારાધક કહા હૈ । (તત્થ ણે જે સે વચ્ચથે પુરિસજ્ઞાણ-સે ણે પુરિસે અસીલલ અસુચવ-મણુહરણ, અધિજ્ઞાણવમ્મે-એવ ણે ગોયમા ! મણ પુરિસે સન્ધવિરાહણ પણ્ણસે) તથા ઇન ચાર પુરુષોં કે વીચ મેં જો ધૌયાપુરુષ હૈ, વહ શીલવિના કો ઓર શુભવિના કા હોતા હૈ । એસા વહ પુરુષ પાપાદિક સે નિવૃત્ત મી નહીં હોતા હૈ ઓર ન ધર્મ કા જ્ઞાતા હી હોતા હૈ । એસે પુરુષ કો હૈ ગૌતમ ! મૈને સર્વવિરાધક કહા હૈ ।

ટીકાર્થ—નોંધે વહેશક મેં ય-ધાદિક પદાર્થોં કા નિરૂપણ ક્રિયા ગયા હૈ—ઇન ય-ધાદિકોં કા વિચાર શુભ શીલ સંપન્ન મનુષ્ય હી કરતે હૈ ।

એ, પણ ધર્મને જ્ઞાતા હોય છે કે ગૌતમ ! એવા પુરુષને મેં દેશવિરાધક કહ્યો છે (તત્થ ણે જે સે તથે પુરિસજ્ઞાણ, સે ણે પુરિસે સીલલ્લ સુચવ, હવરણ વિજ્ઞાણવમ્મે-એવ ણે ગોયમા ! મણ પુરિસે સન્ધારાહણ પણ્ણસે) ત્રીજા પ્રકારનો એ પુરુષ છે તે શીલવાન પણ હોય છે અને શુભવાન પણ હોય છે એવો તે પુરુષ પ્રાણાતિપાત આદિથી નિવૃત્ત હોય છે અને ધર્મને જ્ઞાતા હોય છે કે ગૌતમ ! એવા પુરુષને મેં સર્વારાધક કહ્યો છે (તત્થ ણે જે સે વચ્ચથે પુરિસ જ્ઞાણ-સે ણે પુરિસે અસીલલ અસુચવ-મણુહરણ, અધિજ્ઞાણવમ્મે-એવ ણે ગોયમા ! મણ પુરિસે સન્ધવિરાહણ પણ્ણસે) ધૌયા પ્રકારનો એ પુરુષ છે તે શીલ વિનાનો અને શુભ વિનાનો છે એવો તે પુરુષ પાપાદિકથી નિવૃત્ત પણ હોતો નથી અને ધર્મને જ્ઞાતા પણ હોતો નથી. કે ગૌતમ ! એવા પુરુષને મેં સર્વવિરાધક કહ્યો છે

ટીકાર્થ—નવમાં ઉદેશકમાં અધારિક પદાર્થોંનું નિરૂપણ કરવામાં આમ્ને આ અધારિકનો વિચાર શુભ શીલ સંપન્ન મનુષ્ય જ કરે છે તેથી એવ

स्कृत्य प्रतिगता पर्वत्, ततः शुश्रूपप्राणो नमरयन् विनयेन कृतपुटिताञ्जलिः गौतमः
एवम्-वक्ष्यमाणप्रकारेण अवादीत्-‘अन्नउत्थिया णं भंते । एवमाइक्खंति, जाव एवं
परुवेति’ हे भदन्त! अन्ययूथिका’ अन्यतीर्थिकाः खलु एवं वक्ष्यमाणरीत्या आख्यान्ति,
यावत् भाषन्ते, प्रज्ञापयन्ति एवं प्ररूपयन्ति-‘एवं खलु सीलं सेयं १, सुयं सेयं २,
सुयं सेयं, सीलं सेयं ३’ यत्-एवं लोकसिद्धन्यायेन खलु निश्चितं शीलमेव प्राणाति-

अतः इन्हीं श्रुतादि संपन्न मनुष्य आदिकों का विचार करने के लिये
सूत्रकार ने इस दशवें उद्देशक को प्रारंभ किया है। (रायगिहे नयरे
एवं वयासी) राजगृह नगर-में यावत् गौतम ने ऐसा पूछा-यहां
“ यावत् ” शब्द से ऐसा पाठ लिया गया है-राजगृह नगर में महावी-
रस्वामी पधारे, महावीरस्वामी को पधारे हुए सुनकर वहां की परिषद्
उनको वन्दना और नमस्कार तथा धर्मोपदेश सुनने के लिये उनके
समीप आई, उन्हें वन्दना और नमस्कार कर आई हुई परिषद् धर्मकथा
सुनकर पीछे वापिस गई। तब धर्म सुनने की इच्छा से प्रेरित हुए
गौतम ने बड़े विनय के साथ दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करके प्रभु
से ऐसा पूछा-(अन्नउत्थिया ण भंते । एवमाइक्खंति) हे भदन्त !
अन्यतीर्थिक जन जो ऐसा कहते हैं-यावत् ऐसा भाषण करते हैं, इस
प्रकार से प्रज्ञापन करते हैं, और इस प्रकार से प्ररूपणा करते हैं-(एवं
खलु सीलं सेयं १, सुयं सेयं २, सुयं सेयं सीलं सेयं) लोक सिद्ध न्याय
के अनुसार यह बात निश्चित है कि प्राणातिपातादिविरमणरूप एवं

श्रुतादि संपन्न मनुष्यादिकोना विचार कस्वाने माटे सूत्रकारे आ इसमा उद्दे-
शकने प्रारंभ कर्यो छे “ रायगिहे नयरे जाव एव वयासी ” राजगृह नगरमां
महावीर प्रभु पधार्या यावत् गौतमे आ प्रभाणे पूछयुं-(अही “ यावत् ”
पदथी नीयेने। सूत्रपाठ अडलु करवाभा आव्यो छे-महावीर प्रभुनां दर्शन
करवा माटे तथा धर्मोपदेश सांलणवा माटे परिषद नीकणी। तेमने वंछणु
नमस्कारादि करीने तथा धर्मोपदेश सांलणीने परिषद विअराध गध। त्पारणाद
धर्मतत्त्वने समजवानी जिज्ञासावाणा गौतम स्वामीओ धणु विनयपूर्वक अने
हाथ जोडीने नमस्कार करीने महावीर प्रभुने आ प्रभाणे प्रश्न पूछयो-
“ अन्नउत्थिया ण भंते ! एवमाइक्खंति ” हे भदन्त ! अन्य भतवादीओ अबुं
कडे छे, अबुं लाजे छे, ओवी प्रज्ञापना करे छे अने ओवी प्ररूपणा करे छे
(एवं खलु सीलं सेयं १, सुयं सेयं २, सुयं सेयं सीलं सेयं ३) (१) शील न
श्रेयस्कर छे-लोकसिद्ध न्यायानुसार ओ-बात निश्चित छे के प्राणातिपातादि

પાતાદિવિરમણધ્યાનાધ્યયનાદિરૂપાક્રિયૈવ ભેદઃ-મતિશ્ચયેન પ્રસસ્ય શ્લાઘ્ય પર્વતે પ્રશસ્તમિત્યર્થે પુરુષાર્થસાધકત્વાત્, અથવા ભેદયમ્-સમાભ્યષણીય પુરુષાર્થવિશેષાર્થિના શીલમેવાભ્યષણીયમિત્યર્થઃ, અથવા ભેદયમ્-કેચિત્ અન્યતીર્થિકા ક્રિયામાત્રા દેશામીષાર્થસિદ્ધિમિચ્છન્તિ જ્ઞાનન્તુ નિષ્પ્રયોજનમેષ પ્રતિપાદ્યન્તિ તસ્ય નિષેદસ્વાત્ ઘટાદિકરણમટ્તૌ આકાશાદિપદાર્થપત્, ઉક્ત ચ—

ક્રિયૈવ ફલદા પુર્તા, ન જ્ઞાન ફલદ્ મતમ્ ।

યત સ્ત્રીમદ્ભયમોગશ્ચો ન જ્ઞાનાત્ સુખિતો મયેત્ ॥ ૧ ॥

પદ્યમ્—'જહા સ્વરા વદણભારવાહી, મારસ્સ માગી ન હુ વદણસ્ત

પદ્યં સુ નાળી ચરણેણ હીણો, નાખસ્સ માગી ન હુ સોગર્ગપ' ॥ ૧ ॥

ધ્યાન, અધ્યયન આદિ રૂપ જો શીલ હૈ વહી અતિશયરૂપ સે પ્રશસ્ય શ્લાઘ્ય હૈ । ક્યોં કિ યહી પુરુષાર્થ કા સાધક હૈ । અથવા-(સેવ) કા અર્થ પુરુષાર્થ વિશેષ કે અમિલાપી ધારા સમાભ્યષણીય હૈ । તાત્પર્ય કહને કા યદ્ હૈ-કિ કિતનેક અન્યતીર્થિક જન ક્રિયામાત્રસે હી અમીષ્ટ અર્થ કી સિદ્ધિ હોતી હૈ એસા માનતે હૈં । ઓર સાયમેં એસા કહતે હૈં કિ જ્ઞાન નિષ્પ્રયોજનમૂત હી હૈ-ઉસસે અમીષ્ટ અર્થ કી સિદ્ધિ નહીં હોતી હૈ । ક્યોં કિ જ્ઞાન નિષ્કેષ્ટ રૂપ હોતા હૈ । જેસે ઘટાદિ કરને કી પ્રવૃત્તિ મેં આશક પદાર્થ નિષ્કેષ્ટ હોતા હૈ । કહા ણી હૈ-“ ક્રિયૈવ ફલદા પુર્તા, ન જ્ઞાન ફલદ્ મતમ્ । યતઃ સ્ત્રી મદ્ભયમોગશ્ચો ન જ્ઞાનાત્ સુખિતો મયેત્ ” ક્રિયા હી પુરુષોં કો ફલદાયક હોતી હૈ, જ્ઞાન ફલદાયક નહીં હોતા હૈ । ક્યોં કિ સ્ત્રી, મદ્ભય ઓર મોજન કે જ્ઞાનબાહે વ્યક્તિ કો ઇનકા કેબલ જ્ઞાન સુખી નહીં કરતા હૈ । તથા-

વિરમણરૂપ અને ધ્યાન, અધ્યયનરૂપ જે શીલ છે એવું જ્ઞાનના પ્રશસ્ત-સ્લાઘ્ય-એ કારણ કે એવું પુરુષાર્થનું સાધક છે અથવા 'સેવ' નો અર્થ પુરુષાર્થ વિશેષના અભિલાષી ધારા સમાભ્યષણીય છે કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે કેટલાક અન્યતીર્થિકો એવું માને છે કે ક્રિયામાત્રથી જ અમીષ્ટ અર્થની સિદ્ધિ થાય છે અને સાથે એવું પણ કહે છે કે જ્ઞાનનું કોઈ પ્રયોજન નથી જ્ઞાન ધારા અમીષ્ટ અર્થની સિદ્ધિ થતી નથી કારણ કે જ્ઞાન નિષ્કેષ્ટ રૂપ હોય છે કહ્યું પણ છે કે-(ક્રિયૈવ ફલદા પુર્તા, ન જ્ઞાન ફલદ્ મતમ્ । યતઃ સ્ત્રી મદ્ભય મોગશ્ચો ન જ્ઞાનાત્ સુખિતો મયેત્) " ક્રિયા જ માણસોને ફળદાયક થાય છે જ્ઞાન ફલદાયક મનુ નથી કારણ કે સ્ત્રી, ભય અને મોજનના જ્ઞાનબાજને

यथा खरश्चन्दनभारवाही, भारस्य भागी न तु चन्दनस्य ।

एवं खलु ज्ञानी चरणेन हीनो ज्ञानस्य भागी न तु सुगते । १ ॥

अतस्ते प्ररूपयन्ति—शीलं श्रेयः, इति, अन्ये पुनरन्यतीर्थिकाः ज्ञानादेवेष्टार्थसिद्धि-
मिच्छन्ति न क्रियातः, ज्ञानविकलस्य क्रियावतोऽपि फलसिद्धयदर्शनात्, उक्तं च—
विज्ञप्तिः फलदा पुंसां, न क्रिया फलदा मता ।

मिथ्याज्ञानात् प्रवृत्तस्य फलासंवाददर्शनात् ॥ १ ॥

(जहा खरो चंदण भारवाही भारस्सभागी न हु चंदणस्स ।

एवं खु नाणी चरणेण हीणो नाणस्स भागी नहु सोगईए ॥

जैसे—चंदन के भारवाला गधा केवल चन्दन के भार का ही भागी होता है चन्दन का नहीं, उसी प्रकार चारित्र्य-क्रिया से रहित ज्ञानी ज्ञान का ही भागी होता है सुगति का भागी नहीं होता है। इसी बात को लेकर वे ऐसी प्ररूपणा करते हैं कि शील ही श्रेयस्कर है। तथा दूसरे जो अन्यतीर्थिकजन हैं वे ऐसा कहते हैं कि केवल ज्ञानमात्र से ही इष्ट अर्थ की सिद्धि होती है, क्रिया से नहीं—प्राणाति-पातविरमण आदिरूप चारित्र्य से नहीं—क्यों कि ज्ञानविकल प्राणी को क्रियाशाली होने पर भी फलसिद्धि की प्राप्ति होती हुई नहीं देखी जाती है। सो ही कहा है—“ विज्ञप्तिः फलदा पुंसां ” इत्यादि ॥

विज्ञप्ति-विशिष्टज्ञान-सम्यग्ज्ञान ही पुरुषों को फलप्रद होता है। ज्ञानशून्य क्रिया फलप्रद नहीं होती है। जो व्यक्ति मिथ्याज्ञान से प्रवृ-

(जहा खरो चंदण भारवाही भारस्स भागी, न हु चंदणस्स ।

एवं खु नाणी चरणेण हीणो नाणस्स भागी न हु सोगईए)

जेभ चन्दननेो भारवाही गधेओ चन्दनना भारनेो न लागी थाय छे, चन्दननेो लागी थतो नथी, जेन प्रभाणुे चारित्र-क्रियाथी रहित ज्ञानी ज्ञाननेो न लागी थाय छे, सुगतिनेो लागी थतो नथी आ प्रकारनी मान्यताने आधारे तेओ जेवी प्ररूपणुा करे छे के शील न श्रेयस्कर छे. तथा जीन अन्यतीर्थिकेो जेपु कडे छे के ज्ञान मात्रथी न इष्ट अर्थनी प्राप्ति थाय छे क्रियाथी थती नथी—प्राणातिपात विरमणु आदिइप चारित्र वडे अलीष्ट अर्थनी प्राप्ति थती नथी. कारण के ज्ञानरहित एव क्रियाशाली डाय तो पणु तेने इलसिद्धिनी प्राप्ति थती जेवामा आवती नथी कहु पणु छे के—

विज्ञप्ति फलदा पुंसा इत्यादि ।

विज्ञप्ति (विशिष्ट ज्ञान-मध्यज्ञान) न पुरुषनेे इलदायी नीवडे छे. ज्ञानशून्य (ज्ञानरहित) क्रिया इलप्रद नीवडती नथी. जे व्यक्ति मिथ्याज्ञानथी

પ્રથમ—“ પઠમં નાણં તઓ દયા, एवं चिद्वद् सख्सजप ।

अज्ञानी किं काही ? किं वा न ही सेय पावगं ? ”

અતસ્તે પ્રરુપયન્તિ—શ્રુતં શ્રેયઃ ઇતિ, શ્રુતં શ્રુતજ્ઞાન તદેવ શ્રેયઃ અતિપ્રશસ્ત્યં વર્તેતે, શ્રેયમ્ આશ્રયણીય વા પુરુષાર્થસિદ્ધિહેતુસ્વાત્ નવુ શ્રીભૂમિતિ માયા, ઇતરે પુનરન્યતીર્થિકાઃ પરસ્પરનિરપેક્ષયોરેષ જ્ઞાનક્રિયયોઃ ? ફલમિચ્છન્તિ તેપામયમા શ્રય—જ્ઞાન ક્રિયારહિતમેષ ગૌણીભૂતક્રિયં વા ફલપદં મચતિ, ક્રિયાઽપિ જ્ઞાન રહિતા, ગૌણીભૂતજ્ઞાના વા ફલદ્યા મચતીતિ,

उक्तञ्च—“ किञ्चिद् वेदमयं पात्रं, किञ्चित्पात्रं तपोमयम् ।

आगमिष्यति तस्यान्नम्, यस्यान्नं तारयिष्यति ” इति,

સિ કરતા હૈ વસે તો ફલ મેં ચિસવાદ દેવા જાતા હૈ અતઃ એસા જ્ઞાન ફલપદ નહીં હોતા । તથા—‘ પઠમ નાણં તઓ દયા પ્રથ ચિદ્વદ્ સખ્સ જપ, અજ્ઞાણી કિં કાહી ? કિં વા નાહી સેય પાવય ’ અતઃ ઇમ સય ફલન કો લક્ષ્યમેં રચ્ચકર શ્રુત-શ્રુતજ્ઞાન કો અન્યતીર્થિકોં ને અતિપ્રશસ્ત માના હૈ । અથવા પુરુષાર્થ કા હેતુ હોને સે વસે હી આશ્રયણીય કહા હૈ । શીલ કો નહીં । તીસરે પ્રકાર કે જો અન્યતીર્થિક જન હૈં વે પરસ્પર નિરપેક્ષ જ્ઞાન ઓર ક્રિયા કો હી અભીપ્રાર્થ સંપાદક માનસે હૈં । ઇનકા મન્તમ્ય એસા હૈ કિ ક્રિયારહિત યા ઝિસમેં ક્રિયા ગૌણ હૈ એસા જ્ઞાન ફલપદ હોતા હૈ । તથા એસી ક્રિયા જો જ્ઞાનરહિત હોતી હૈ—અથવા જ્ઞાન ઝિસમેં ગૌણ હોતા હૈ ફલપદ હોતી હૈ । કહા મી હૈ—

“ किञ्चिद् वेदमयं पात्रं, ” इत्यादि ।

પ્રવૃત્તિ કરે છે તેને તો ફલમાં વિસવાદ જ નેવામાં આવે છે, તેથી એવું જ્ઞાન (મિથ્યાજ્ઞાન) ફલપદ નીવડતું નથી. તથા—(પઠમ નાણ તઓ દયા પ્રથ ચિદ્વદ્ સખ્સજપ અજ્ઞાણી કિં કાહી ? કિંવા નાહી સેય પાવય) આ અર્થમાં ક્ષયને ક્ષયમાં રાખીને શ્રુત (શ્રુતજ્ઞાન) ને અન્યતીર્થિકોંને અત્યન્ત પ્રશસ્ત મા શુ છે અથવા પુરુષાર્થના હેતુ (કારણ) રૂપ હોવાથી તેને જ આશ્રયણ મરુ છે—શીલને નહીં.

ત્યારે કેટલાક અન્યતીર્થિકોં પરસ્પર નિરપેક્ષ જ્ઞાન અને ક્રિયાને જ અવગીત અર્થનું સંપાદક બને છે તેમની એવી માન્યતા છે કે ક્રિયારહિત અથવા જેમાં ક્રિયા ઓણરૂપ છે એવું જ્ઞાન ફલદાથી નીવટે છે તથા જે જ્ઞાનરહિત રાખ છે—અથવા જેમાં જ્ઞાનનું મહત્વ ઓણ હોય છે એવી ક્રિયા ફલદાથી નીવટે છે કષ્ટુ ખલુ છે કે—કિચિદ્ વેદમયં પાત્રં ઇત્યાદિ ।

अतस्ते प्ररूपयन्ति—श्रुतं श्रेयः, तथा शीलं श्रेयः, द्वयोरपि प्रत्येकं पुरुषस्य पवित्रतानिबन्धनत्वात्। अन्ये पुनरन्यतीर्थिकाः प्ररूपयन्ति—शीलं श्रेयस्तावन्मुख्यवृत्त्या, तथा श्रुतं श्रेयः—श्रुतमपि श्रेयो गौणवृत्त्या, तदुपकारित्वात्, केचित्तु इत्थं प्ररूपयन्ति—श्रुतं श्रेयस्तावद् मुख्यवृत्त्या, एवं शीलमपि श्रेयो गौणवृत्त्या, तदुपकारित्वात्, हे भदन्त ! तत् कथमेतत् एवं सत्यं किम् ? एतस्य चान्ययूथिकमतस्य मिथ्यात्वं बोध्यम्—उक्तपक्षत्रयस्यापि फलसिद्धावनङ्गत्वात् समुदायपक्षस्यैव फल-

कोई पात्र वेदमय—केवल वेदशास्त्र का ज्ञातारूप पात्र—आवेगा, कोई पात्र केवल तपोमय—तपश्चरण करने वाला आवेगा—सो मुझे इस संसार समुद्र से पार कर देगा। इस श्लोक द्वारा परस्पर निरपेक्ष ज्ञान और क्रियाओं में संसारतारकता प्रकट की गई है। इस तरह से अन्यतीर्थिक जनों ने केवल श्रुत में केवल शील में और परस्पर निरपेक्ष श्रुत और शील में श्रेयस्त्व प्रकट किया है। अन्य और दूसरे तीर्थिक जन ऐसा कहते हैं कि शील में जो श्रेयस्त्व है वह मुख्यरूप से है—तथा—श्रुत में जो श्रेयस्त्व है वह गौणरूप से है—क्यों कि श्रुत शील का उपकारी होता है। कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि श्रुत में श्रेयस्त्व मुख्यरूप से है और शील में श्रेयस्त्व गौणरूप से है क्योंकि शील श्रुत का अपकारक होता है। अतः इन्हीं सब पक्षों को हृदय में रखकर गौतम ने प्रभु से ऐसा पूछा है कि हे भदन्त ! ये जो पूर्वोक्त मन्तव्य हैं सो क्या वे सत्य हैं ? प्रभु इन तीनों ही पक्षों में मिथ्यात्व प्रकट करने के लिये

“ कोऽपि पात्र वेदमय—केवल वेदशास्त्रना ज्ञातारूप पात्र—आवेशे, कोऽपि पात्र केवल तपोमय—तपश्चरण करनार आवेशे, ते मने आ संसार सागरमांथी पार करी दृशे. ” आ श्लोक द्वारा परस्पर निरपेक्ष ज्ञान अने क्रियाओंमां संसारतारकता प्रकट करवामा आवी छे आ रीते अन्य मतवादीओंके केवल श्रुत (ज्ञान) मां, केवल शीलमा अने परस्पर निरपेक्ष श्रुत अने शीलमा श्रेयस्करता प्रकट करी छे. त्पारे केटलाक अन्य मतवादीओंके जेवुं पणु कडे छे के शीलमा के श्रेयस्करता छे ते मुष्य रूपे छे अने श्रुतमां के श्रेयस्करता छे ते गौणरूपे छे, कारण के श्रुत शीलतु उपकारी डाय छे. त्पारे केटलाक अन्य तीर्थिके श्रुतमां मुष्यरूपे श्रेयस्करता माने छे अने शीलमा गौणरूपे श्रेयस्करता माने छे, कारण के शील श्रुततु उपकारक डाय छे. आ अधी मान्यताओंने अनुलक्षिने गौतम स्वामी महावीर प्रभुने जेवो प्रश्न पूछे छे के—“ हे भदन्त ! ते अन्यतीर्थिकेनी ते मान्यता शुं सत्य छे ? ”

सिद्धिकारणत्वादित्यभिप्रायेण भगवानाह—‘ गोयमा ! जं ण ते अन्नवत्तिया एवमाइक्खंति, जाव जे ते एवमाइसु मिच्छा ते एवमाइसु, हे गौतम ! यत् स्वप्नं ते अन्यपूयिका—अन्यतीर्थिका एवम् उक्तप्रकारम् आख्यान्ति यावत्—भाषणे, प्रज्ञापयन्ति, प्ररूपयन्ति च, ये ते एवमाहुः मिथ्या ते एवमुक्तप्रकारमाहुः । स्वसिद्धान्तं प्रतिपादयति—’ ॐ पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव परुबेमि हे गौतम ! अहं पुनरेव बक्ष्यमाणप्रकारम् भुतयुक्तं शीलं भवेत् इत्येषम् आख्यामि

और इनके समुदायपक्ष में सम्यक्त्व प्रकट करने के लिये गौतम से कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (ज ण ते अन्नवत्तिया एवमाइक्खंति, जाव जे ते एवमाइसु मिच्छा ते एवमाइसु) जो इन अन्यतीर्थिक जनों ने इस पूर्वोक्तस्वरूप से कहा है, यावत्—प्ररूपणा की है—सो सब गलत है—असत्य है । क्योंकि केवल शील, केवल धुत और परस्पर निरपेक्ष शील भुत, अपने २ फल की सिद्धि कराने में असमर्थ हैं । समुदाय पक्ष में ही ये तीनों फलसिद्धि के प्रति कारण हैं । इसलिये हे गौतम ! (एवमाइक्खामि, जाव परुबेमि) मैं ऐसा कहता हूँ यावत् प्ररूपित करता हूँ कि धुत युक्त शील श्रेष्ठ है । यहाँ पूर्वोक्त यावत् पद से “ भाषन्ते, प्रज्ञापयन्ति ” इन क्रियापदों का तथा (जाव परुबेमि) में आये हुए इस यावत् पद से (भाषे प्रज्ञापयामि) इन क्रियापदों का ग्रहण हुआ है । उन्होंने ने पूर्वोक्तस्वरूप से जो स्वसिद्धान्त का कथन किया

महावीर प्रभु ने प्रश्न भान्यताञ्जेभा मिथ्यात्व प्रकट करवा निमित्तो जने तेभना समुदाय पक्षे समान्त्व प्रकट करवाने आटे औतगत्थाभीने कहे थे—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! ‘ जं ण ते अन्नवत्तिया एवमाइक्खंति, जाव जे ते एवमाइसु मिच्छा ते एवमाइसु ” अन्यतीर्थिकाञ्जे जेवी जे पूर्वोक्त भान्यता कहे थे प्रज्ञापित करी छे (यावत्) जने अर्पित करी छे—ते तेभनी भान्यता मिथ्या (असत्य जोटी) छे कारण के मात्र शीलधी, के मात्र शानधी, के परस्पर निरपेक्ष शीलभुतधी जलीष्ट इणनी प्राप्ति अर्ध शकती नधी, ते त्रये समुदाय पक्षमां व (त्रयेना साथे उपयोग करवाधी) इतिदिदिना कारणरूप जने छे तेधी हे गौतम ! (एवमाइक्खामि जाव परुबेमि) हूँ तो जेउ कहुँ छु, जेवी प्रज्ञापना कहुँ छु (यावत्) जेवी अर्पणा कहुँ छु के भुतयुक्त शील व श्रेष्ठ छे जेही पूर्वोक्त ‘ यावत् पदधी ‘ भाषन्ते, प्रज्ञापयन्ति ” आ क्रियापदोने तथा ‘ जाव परुबेमि ” भां आवेता ‘ यावत् ’ पदधी “ भाषे, प्रज्ञापयामि ” आ क्रियापदोने अर्धव्य करवाभां आवेव छे कवे महावीर प्रभु

वच्मि, यावत् भाषे, प्रज्ञापयामि, प्ररूपयामि, तत्रैव युक्तिमाह—‘ एवं खलु मए चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, ’ हे गौतम ! एवं खलु वक्ष्यमाणरीत्या मया चत्वारः पुरुषजाताः—पुरुषप्रकाराः प्रज्ञप्ताः, तानेवाह—‘ तं जहा—सीलसंपन्ने णामं एगे, णो सुयसंपन्ने ? ’ तद्यथा—एकः खलु पुरुषः शीलसम्पन्नो नाम भवति नो श्रुतसम्पन्नो भवति १, ‘ सुयसंपन्ने णामं एगे, नो सीलसंपन्ने २ ’ एकोऽपरः खलु पुरुषः श्रुतसम्पन्नो नाम भवति, नो शीलसम्पन्नो भवति २ ‘ एगे सीलसंपन्ने वि, सुयसंपन्ने वि ३ ’ एकोऽन्यः पुनः पुरुषः शीलसम्पन्नोऽपि भवति, श्रुतसम्पन्नोऽपि भवति ३, ‘ एगे णो सीलसंपन्ने, णो सुयसंपन्ने ४ ’ एकः खलु चतुर्थः पुरुषः नो शीलसम्पन्नो भवति, नो श्रुतसम्पन्नो वा भवति ४, ‘ तत्थ णं जे से पढमे पुरिसजाए, से णं पुरिसे सीलवं असुयवं, उवरए, अविन्नायधम्मे ’

है वह मिथ्या है—इस में युक्ति को प्रदर्शित करने के निमित्त प्रभु कहते हैं—(एवं खलु मए चत्तारि पुरिस जाया पण्णत्ता) हे गौतम ! मेरे द्वारा इस विषय में चार प्रकार के पुरुष कहे गये हैं (तं जहा) जो इस प्रकार से हैं—(सील संपन्ने णामं एगे णो सुय संपन्ने १,) उन पुरुषों में एक प्रकार ऐसा है जो शीलसंपन्न तो होता है पर श्रुत संपन्न नहीं होता है । (सुयसंपन्ने णामं एगे, नो सीलसंपन्ने २) दूसरा प्रकार ऐसा है जो श्रुतसंपन्न होता है, शीलसंपन्न नहीं होता है । (एगे सीलसंपन्ने वि, सुयसंपन्ने वि) तीसरा प्रकार ऐसा है जो शीलसंपन्न भी होता है और श्रुतसंपन्न भी होता है । (एगे णो सीलसंपन्ने, णो सुयसंपन्ने) तथा चौथा प्रकार ऐसा है जो न शीलसंपन्न होता है और न श्रुतसंपन्नहोना है । (तत्थ णं जे से पढमे पुरिसजाए से णं पुरिसे सीलवं

परसिद्धान्तोऽनु ष डन करीने स्वसिद्धातनुं प्रतिपादन करवा भाटे नीचेना दृष्टान्ते आये छे—(एवं खलु मए चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता—तजहा) हे गौतम ! आ विषयनु प्रतिपादन करवा भाटे नीचेना चार प्रकारना पुरुषोनी मारा द्वारा प्रकृष्या करवाभा आवी छे—“ सीलसंपन्ने णामं एगे, णो सुयसंपन्ने १, ” ते चार प्रकारना पुरुषोभाथी ओक प्रकार ओवेो डोय छे के ने शीलसंपन्न तो डोय छे पणु श्रुतसंपन्न डोतो नथी. “ सुय संपन्ने णामं एगे, नो सील संपन्ने ” भीजे प्रकार ओवेो डोय छे के ने श्रुतसंपन्न डोय छे पणु शीलसंपन्न डोतो नथी. (एगे सीलसंपन्ने वि, सुयसंपन्ने वि) तीजे प्रकार ओवेो डोय छे के ने शीलसंपन्न पणु डोय छे अने श्रुतसंपन्न पणु डोय छे (एगे णो सीलसंपन्ने णो सुयसंपन्ने) तथा चोथी प्रकार ओवेो डोय छे के ने शीलसंपन्न पणु डोतो नथी अने श्रुतसंपन्न पणु डोतो नथी. (तत्थ णं जे से पढमे पुरिस

तत्र चतुर्थं मान्यं स्वच्छं यं स प्रथमः शीलसम्पन्नो नो भ्रुतसम्पन्नः पुष्पनातः वृद्धः,
 स स्वच्छं पुरुषः शीलवान् भ्रुतवान् व्यपदिश्यते, यतो हि उपरतः स्वच्छदया पाप
 भ्रुतः, अविज्ञातप्रमा, भावतोऽभिगतभ्रुतज्ञानो वाळवपस्वी भवति, गीतार्थानि
 भ्रुततपश्चरणनिरतोऽगीतार्थो वा भवतीति भावः, अत एव 'एष न गोयमा । स
 पुरिसे देसाराह्य पण्यसे' हे गौतम । एष स्वच्छं मयमप्रकारः पुरुषो मया देश
 रायकः मद्यतः, देशं स्तोकमल्पं मोक्षमार्गस्याशयमाराधयतीत्यर्थः, सम्पन्नोप

असुयव, उचरय अविज्ञायधम्मे) इन चारों में से जो प्रथम पुरुष
 प्रकार है—कि जो शीलसम्पन्न है, भ्रुतसंपन्न नहीं है ऐसा कहा गया है
 सो ऐसा वह पुरुष अपनी बुद्धि से—अर्थात् बुद्धिपूर्वक पाप से निवृत्त
 होता है परन्तु वह भाव भ्रुतज्ञान से अधिज्ञात—अनभिज्ञ रहता है ऐसा
 प्राणी बालतपस्वी होता है—गीतार्थ से अनिश्चित तपश्चरण में निरत है
 अपवा स्वयं अगीतार्थ होता है । इस कारण—(एषण गोयमा) मया पुरिसे
 देसाराह्य पण्यसे) हे गौतम । इस प्रथम प्रकारके पुरुषको मैंने देसाराह्य
 कहा है । " देशं स्तोकं अल्पं मोक्षमार्गस्याशयं आराधयतीति—देशारा
 यकः " इस ध्युत्पत्ति के अनुसार यह मोक्षमार्ग के आशय की पूर्णरूप
 से आराधना नहीं करता है किन्तु अल्प-देश रूप में करता है । देशरूप
 में करने का तात्पर्य ऐसा है कि यह सम्पन्नज्ञान से रहित होता है और
 क्रिया में तत्पर बना रहता है । " ज्ञानक्रियाम्यां मोक्ष " मोक्ष की प्राप्ति


आप से व पुरिसे सीद्ध असुयव उचरय अविज्ञायधम्मे) आ चार प्र
 रतं पुरुषोर्माधी २ चडेवा प्रकारन्य पुरुषो छ, तेजो शीलवान् डोव छ पञ्च
 भ्रुतवान् डोवा नथी आ प्रकारना पुरुषो बुद्धिपूर्वक पापधी निवृत्त डोव छ,
 पञ्च तेजो भाव भ्रुतज्ञानधी अनिश्चित (अनभिज्ञ) रहे छ जेवा लयेने
 बालतपस्वी (ज्ञानरहित तपश्चरण करनार) गण्यवामा आवे छ भवतपस्वी
 रहित अनिश्चित तपश्चरणमा तेजो बीन रहे छ अथवा तेजो पाते व
 अगीतार्थ छे सूत्रधी अनभिज्ञ डोव छ ते कारणे " एष न गोयमा । स
 पुरिसे देसाराह्य पण्यसे " हे गौतम । मया पडेवा प्रकारना पुरुषोने मे
 देशारायक कहा छे (देशं स्तोकं अल्पं मोक्षमार्गस्याशयं आराधयतीति देसारायकः ")
 आ ध्युत्पत्ति अनुसार ते मोक्षमार्गना आराधनी पूर्णरूपे आराधना करतो
 नथी, पञ्च अल्प (देश) रूपे आराधना करे छ देशरूपे आराधना करवातुं
 तत्पर्य जेतुं छे छे ते सम्पन्नज्ञानधी रहित डोव छ अने क्रियामा तत्पर रहे
 छ " ज्ञानक्रियाम्यां मोक्ष " मोक्षनी प्राप्ति लयने ज्ञान अने क्रिया, आ

રહિતત્વાત્, ક્રિયાતત્પરત્વાચ્ચેતિ ભાવઃ ૧, 'તત્થ ણં જે સે દોચ્ચે પુરિસજાણ, સે ણં પુરિસે અસીલવં સુયવં, અણુવરણ વિન્નાયધમ્મે' તત્રોક્તેષુ સ્વલુ ચતુર્ણુ મધ્યે યઃ સ દ્વિતીયઃ શ્રુતસમ્પન્નો નો શીલસમ્પન્નઃ પુરુષજાત ઉક્તઃ સ સ્વલુ પુરુષઃ અશીલવાન્, શ્રુતવાન્ વ્યપદિશ્યતે, યતો હિ અનુપરતઃ-પાપાદનિવૃત્તઃ, વિજ્ઞાતધર્મા અવિરતિસમ્યગ્દષ્ટિર્ભવતિ, સમ્યગ્બોધોત્પાદાત્, અત એવ 'એસ ણં ગોયમા ! મણ પુરિસે દેસવિરાહણ પણ્ણત્તે' હે ગૌતમ ! એષ સ્વલુ અશીલવાન્ શ્રુતવાન્ પુરુષો મયા દેશવિરાધકઃ પ્રજ્ઞસઃ, દેશં-સ્તોકં-સમ્યગ્જ્ઞાનાદિરૂપસ્ય મોક્ષમાર્ગસ્ય તૃતીય-ભાગરૂપં ચારિત્રલક્ષણમ્ અંશં વિરાધયતીત્યર્થઃ પ્રાપ્તસ્ય તસ્યાપાલનાત્, પ્રાપ્ત્ય-

જીવ કો જ્ઞાન ઓર ક્રિયા દોનો સે હોતી હૈ સો યહ જ્ઞાન સે અનભિજ્ઞ રહકર કેવલ ક્રિયા કે કરને મેં હી તછીન રહતા હૈ અતઃ હસે મોક્ષમાર્ગ કે આશય કા અલ્પરૂપ સે આરાધક કહા ગયા હૈ । (તત્થ ણં જે સે દોચ્ચે પુરિસજાણ, સે ણ પુરિસે અસીલવં સુયવં અણુવરણ વિન્નાયધમ્મે) પૂર્વોક્ત ચારપુરુષોં કે વીચ મેં જો દ્વિતીય પુરુષ કહા ગયા હૈ કિ જો શ્રુતસંપન્ન હોતા હૈ ઓર શીલરહિત હોતા હૈ-એસા વહ પુરુષ પાપ સે અનિવૃત્ત હોતા હૈ, પરન્તુ ધર્મ કા જ્ઞાતા હોતા હૈ-એસા વહ પુરુષ ચતુર્થગુણસ્થાનવર્તી અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિ હોતા હૈ । હસકા જ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાન રૂપ હોતા હૈ । હસલિયે (એસ ણં ગોયમા ! મણ પુરિસે દેસવિરાહણ પણ્ણત્તે) હે ગૌતમ ! હસ પુરુષ કો મૈને દેશવિરાધક કહા હૈ । " દેશં-સ્તોકં સમ્યગ્જ્ઞાનાદિત્રયરૂપસ્ય મોક્ષમાર્ગસ્ય તૃતીયભાગરૂપં અંશં વિરાધયતીતિ" હસ વ્યુત્પત્તિ કે અનુસાર સમ્યગ્જ્ઞાનાદિત્રયરૂપ મોક્ષમાર્ગકે

બન્નેની આરાધનાથી થાય છે. પરન્તુ આ પહેલા પ્રકારનો પુરુષ તે જ્ઞાનથી અનભિજ્ઞ રહીને કેવલ ક્રિયા કરવામાં જ લીન રહે છે, તેથી તેને મોક્ષમાર્ગના આશયનો અહપરૂપે-(અંશતઃ) આરાધક કહ્યો છે.

(તત્થ ણં જે સે દોચ્ચે પુરિસજાણ, સે ણ પુરિસે અસીલવં સુયવ અણુવરણ વિન્નાયધમ્મે) પૂર્વોક્ત આર પુરુષોમાંથી જે બીજો પુરુષ કહ્યો છે તે શ્રુતવાન હોય છે પણ શીલરહિત હોય છે. આ પ્રકારનો પુરુષ પાપથી અનિવૃત્ત હોય છે, પણ ધર્મતત્ત્વનો જ્ઞાતા હોય છે. આ પ્રકારનો પુરુષ ચોથા ગુણસ્થાનવર્તી અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિ હોય છે. તેનું જ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ હોય છે તેથી (એસ ણ ગોયમા ! મણ પુરિસે દેસવિરાહણ પણ્ણત્તે) હે ગૌતમ ! એવા પુરુષને મેં દેશ-વિરાધક કહ્યો છે (દેશ-સ્તોકં સમ્યગ્જ્ઞાનાદિત્રયરૂપસ્ય મોક્ષમાર્ગસ્ય તૃતીયભાગ રૂપં અંશં વિરાધયતીતિ) આ વ્યુત્પત્તિ અનુસાર સમ્યગ્જ્ઞાન આદિ ત્રણરૂપ



માવાદસ્થાન્યયઃ ૨, 'તત્ત્વ જં જે સે તત્ત્વે પુરિસજાણ સે જ પુરિસે સીલ્લં, સુવરં,
 ઠવરણ વિજ્ઞાયધમ્મે' તથ ચતુર્ણુ પૂર્વોક્તેષુ મધ્યે સ્તલુ ય સહૃતીયઃ શ્રાવસમ્પન્નઃ
 શ્રુતસમ્પન્ન પુરુષજાતઃ ઉક્તઃ સ સ્તલુ પુરુષ' શીલ્લવાન્ શ્રુતવાન્ વ્યપદિશ્યતે,
 યતઃ કિલ ઇપરત -સાવધમાણાતિપાતાદિ નિવૃત્તઃ, વિજ્ઞાતધર્મા-અભિરતિસમ્પન્ન
 પ્તિષ્ઠ મવતિ, અત એવ 'એસ જ ગોયમા ! મણ પુરિસે સમ્બારાણ્ણ પખ્ખાતે' જે
 ગૌતમ ! એવ સ્તલુ શીલ્લશ્રુતસમ્પન્નઃ પુરુષ મયા સર્વારાધકઃ મહ્મસ', સર્વ મિપ
 કારકમ્પિ સમ્પગ્ગ્ઞાનાવિસમ્પન્ન મોક્ષમાર્ગમારાધયતીત્થર્થ, શ્રુતશબ્દેનોમયોરપિ
 જ્ઞાનદર્શનયોઃ સમૃદ્ધીતત્વાત્, નદિ મિથ્યાદષ્ટિસ્તત્ત્વતો વિજ્ઞાતધર્મા મચિત્તર્મા

તૃતીય ભાગરૂપ ચારિત્ર કી इसमें विराधना रहती है। विराधना का
 तात्पर्य चारित्र की यहां अप्राप्ति से है। (तत्त्व जं જે સે તત્ત્વે પુરિસ
 જાણ સે જ પુરિસે સીલ્લ સુવર ઠવરણવિજ્ઞાયધમ્મે) इन चार पुरुषों के
 बीच में जो तृतीय पुरुष शीलसंपन्न और श्रुतसंपन्न कहा गया है वह
 पुरुष शीलवान् और श्रुतवान् कहलाता है क्योंकि यह सावधप्रणा
 तिपात आदि पाप से निवृत्त रहता है और भावश्रुतज्ञानरूप धर्म स
 युक्त होता है इस कारण (एव ज गौयमा ! मण पुरिसे सम्बाराण्ण
 मणिए) है गौतम ! ऐसे पुरुष में ने सर्वाराधक कहा है। सर्वाराधक
 जीव सम्पग्गज्ञानादित्रयरूप मोक्षमार्ग का आराधक होता है। ऐसा जीव
 छटे गुणस्थानवर्ती होता है और इससे भी आगे के गुणस्थानवर्ती होता
 है। श्रुतशब्द से ज्ञान और दर्शन इन दोनों का ग्रहण हुआ है। इस
 लिये ऐसे जीव को सम्पग्गज्ञानादित्रयरूप मोक्षमार्ग का आराधक कहा

મોક્ષમાર્ગનો તૃતીય ભાગરૂપ ચારિત્રની તેમાં વિરાધના થાય છે, ચારિત્રની
 અપ્રાપ્તિને અર્થે વિરાધનારૂપ ગણવામાં આવેલ છે (તત્ત્વ જં જે સે તત્ત્વે પુરિસ
 જાણ સે જ પુરિસે સીલ્લ સુવર ઠવરણવિજ્ઞાયધમ્મે) ઉપરોક્ત ચાર પુરુષોમાંથી
 જે ત્રીજો પુરુષ કહ્યો છે તે શીલવાન અને શ્રુતવાન છે તેને શીલવાન અને
 શ્રુતવાન કહેવાનું કારણ એ છે કે તે સાવધ પ્રાણાતિપાત આદિ પાપથી
 નિવૃત્ત રહે છે અને ભાવશ્રુત જ્ઞાનરૂપ ધર્મથી યુક્ત હોય છે તે કારણે
 (એવમ ગોયમા ! મણ પુરિસે સમ્બારાણ્ણ મણિય) છે ગૌતમ ! એવા પુરુષને
 મે સર્વારાધક કહ્યો છે સર્વારાધક એ સમ્પગ્ગ્ઞાન, સમ્પગ્ગ્ઞાન અને સમ્પ
 ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગનો આરાધક હોય છે એવો એવ છઠા ગુણસ્થાનવર્તી
 હોય છે અને તેના કરતાં પણ આગળના ગુણસ્થાનવર્તી હોય છે અર્થે યા
 યાંથી જ્ઞાન અને દર્શન એ બંનેને ગણવામાં આવેલ છે તેથી એવા છાને
 સમ્પગ્ગ્ઞાન, સમ્પદ્ગ્ઞાન અને સમ્પચ્ ચારિત્રરૂપ ત્રણે મોક્ષમાર્ગનો આરાધક

तीति ३, तथा च समुदितयोः शीलश्रुतयोरेव श्रेयस्त्वं सिद्धमिति, अथ सर्वतो
निकृष्टं पक्षमाह—‘तत्थ ण जे से चउत्थे पुरिसजाए, से णं पुरिसे असीलव,
असुयवं, अणुवरए, अविण्णायधम्मे’ तत्र खलु चतुर्षु पूर्वोक्तेषु मध्ये यः स
चतुर्थो नो शीलसम्पन्नः, नो श्रुतसम्पन्नः पुरुषजात उक्तः स खलु पुरुषः अशी-
लवान् अश्रुतवान् व्यपदिश्यते, यतोहि अनुपरतः पापादनिवृत्तः, अविज्ञातधर्मा च
भवति, अत एव ‘एस णं गोयमा ! मए पुरिसे सव्वविराहए पन्नत्ते’ हे गौतम !
एष खलु अशीलवान् अश्रुतवान् पुरुषो मया सर्वविराधकः प्रज्ञप्तः सर्वरिय मोक्ष-
मार्गत्रयस्य विराधकत्वात् ॥ सू० १ ॥

गया है। मिथ्यादृष्टि जीव वास्तविकरूप में विज्ञातधर्मा नहीं होता है।
इस तरह समुदित श्रुत और शील इन दोनों में ही श्रेयस्त्व सिद्ध
होता है। अब इन दोनों से रहित जो पक्ष है वह (तत्थ णं जे से चउत्थे
पुरिसजाए से णं पुरिसे असीलवं असुयवं अणुवरए अविण्णायधम्मे)
इस सूत्र पाठ द्वारा प्रकट किया गया है इसमें यह कहा गया है कि जो
चौथे नंबर का पुरुष है वह न शीलवाला होता है और श्रुतवाला होता
है—अतः वह न पाप से निवृत्त होता है और न धर्मज्ञान से युक्त होता
है। इस कारण (एस णं गोयमा ! मए पुरिसे सव्वविराहए पन्नत्ते) हे
गौतम ! मैंने ऐसे पुरुष को सर्वविराधक कहा है। क्यों कि सम्पूर्ण
मोक्षमार्गत्रय का विराधक होता है ॥ १ ॥

कह्यो छे मिथ्यादृष्टि एव वास्तविक इपे विज्ञातधर्मा (धर्मनो ज्ञाता) होतो
नथी आ रीते समुदित (समुदाय इप) शील अने श्रुत अने भन्नेनी आरा-
धना द्वारा न श्रेयस्त्वनी सिद्धि थाय छे. डवे आ भन्नेथी रहित ने पक्ष छे
तेनी वात करवाभां आवे छे—

“तत्थ ण जे से चउत्थे पुरिसजाए से णं पुरिसे असीलव’ असुयवं’
अणुवरए अविण्णायधम्मे” ते आर प्रकारना पुरुषोभांथी ने थोथा प्रकारने
पुरुष छे ते शीलवान पणु होतो नथी अने श्रुतवान पणु होतो नथी तेथी
ते पुरुष प्राणातिपातादि पापथी निवृत्त पणु थने नथी अने धर्मज्ञानथी युक्त
पणु होतो नथी ते करण्णे (एस ण गोयमा ! मए पुरिसे सव्वविराहए पणत्ते)
हे गौतम ! अथा पुरुषने मे सर्वविराधक कह्यो , करण्णु के ते अपूर्णरीने
मोक्ष मार्गत्रयने विराधक होय छे. ॥ सू. १ ॥

भाराधनावक्तव्यता

अथाराधकमस्तात्रादाराधनामेव वायत् स प्रकार प्ररूपयितुं प्रस्तौहि-
कइविहाण भते ! इत्यादि—

मूलम्—कइविहा ण भते ! आराहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा
आराहणा पण्णत्ता, त जहा नाणाराहणा, दसणाराहणा चरित्तरा-
हणा, णाणाराहणा ण भते ! कइविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा
पण्णत्ता, त जहा—उक्कोसिया, मज्झिमा, जहण्णा दसणाराहणा
णं भते ! कइविहा पण्णत्ता ? एव चेव तिविहा वि । एव चरि-
त्ताराहणा वि । जस्स णं भते ! उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स
उक्कोसिया दसणाराहणा, जस्स उक्कोसिया दसणाराहणा तस्स
उक्कोसिया णाणाराहणा ? गोयमा ! जस्स उक्कोसिया णाणा
राहणा तस्स दसणाराहणा उक्कोसिया वा, अजहन्नुक्को-
मिया वा, जस्स पुण उक्कोसिया दसणाराहणा तस्स नाणा
राहणा उक्कोसा वा, जहन्ना वा, अजहन्नमणुक्कोसा वा । जस्स
णं भते ! उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स उक्कोसिया चरित्ता-
राहणा, जस्सुक्कोसिया चरित्तराहणा, तस्सुक्कोसिया णाणा
राहणा, जहा उक्कोसिया णाणाराहणा य दसणाराहणा य भणिया,
तहा उक्कोसिया णाणाराहणा य, चरित्तराहणाय, भाणियन्वा । जस्स
णं भते ! उक्कोसिया दसणाराहणा, तस्सुक्कोसिया चरित्तराहणा,
जस्सुक्कोसिया चरित्तराहणा, तस्सुक्कोसिया दसणाराहणा ?
गोयमा ! जस्स उक्कोसिया दसणाराहणा, तस्स चरित्तराहणा
उक्कोसा वा, जहण्णा वा, अजहण्णमणुक्कोमा वा, जस्स पुण
उक्कोसिया चरित्तराहणा, तस्स दसणाराहणा नियमा उक्कोसा ।

उक्कोसियं णं भंते ! णाणाराहणं आराहेत्ता, कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ, जाव अंतं करेइ ? गोयमा ! अत्थेगइए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झइ, जाव अंतं करेइ, अत्थेगइए दोच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्झइ, जाव अंतं करेइ, अत्थेगइए कप्पोववणणएसु वा कप्पातीएसु वा उववज्जइ, उक्कोसियं णं भंते ! दंसणाराहणं आराहेत्ता कइहिं भवग्गहणेहिं, एवं चेव उक्कोसियं णं भंते ! चरित्ताराहणं आराहेत्ता, एवं चेव नवरं अत्थेगइए कप्पातीएसु उववज्जइ । मज्झिमियं णं भंते ! णाणाराहणं आराहेत्ता, कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ, जाव अंतं करेइ ? गोयमा ! अत्थेगइए दोच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्झइ, जाव अंतं करेइ, तच्चं पुण भवग्गहणं नाइक्कमइ । मज्झिमियं णं भंते ! दंसणाराहणं आराहेत्ता एवं चेव । एवं मज्झिमियं चरित्ताराहणं पि, जहन्नियं णं भंते ! णाणाराहणं आराहेत्ता कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ जाव अंतं करेइ ? गोयमा ! अत्थेगइए तच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्झइ जाव अंतं करेइ, सत्तद्वुभवग्गहणाइं पुण नाइक्कमइ । एवं दंसणाराहणं पि । एवं चरित्ताराहणं पि ॥ सू० २ ॥

छाया—कतिविधा खलु भदन्त ! आराधना प्रज्ञप्ता ? गौतम ! त्रिविधा आराधना प्रज्ञप्ता, तद्यथा—ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्र्याराधना । ज्ञानाराधना

आराधना वक्तव्यता—

(कइविहाणं भंते ! आराहणा पणत्ता ?) इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(कइविहा णं भंते ! आराहणा पणत्ता) हे भदन्त !

आराधना वक्तव्यता—

“ कइ विहाणं भंते ! आराहणा पणत्ता ? ” इत्यादि—

सूत्रार्थ—(कइ विहाण भंते ! आराहणा पणत्ता ?) हे भदन्त ! आरा

સ્વલ્લ મદન્ત ! કતિવિધા મહત્તા ? ગૌતમ ! ત્રિવિધા મહત્તા, તપયા ઉત્કૃષ્ટા, મધ્યમા, જઘન્યા । દર્શનારાધના સ્વલ્લ મદન્ત ! કતિવિધા મહત્તા ? એવમેષ ત્રિવિધાઽપિ । પર્વ ચારિત્રારાધનાઽપિ । યસ્ય સ્વલ્લ મદન્ત ! ઉત્કૃષ્ટા જ્ઞાનારાધના, તસ્ય ઉત્કૃષ્ટા પ્રાદર્શનારાધના, યસ્ય ઉત્કૃષ્ટા દર્શનારાધના, તસ્ય ઉત્કૃષ્ટા જ્ઞાનારાધના ? ગૌતમ !

આરાધના કિતને પ્રકાર કી કહી ગઈ છે ? (ગોયમા) છે ગૌતમ ! (તિવિહા આરાહ્ણા પળ્ણસા) આરાધના ત્રીન પ્રકાર કી કહી ગઈ છે । (તં જહા) જો હસ પ્રકાર સે છે (નાણારાહ્ણા, દસણારાહ્ણા, ચરિત્તારાહ્ણા) જ્ઞાનારાધના, દર્શનારાધના ઓર ચારિત્રારાધના । (નાણારાહ્ણા ણં મંતે । કહ્વિહા પળ્ણસા) છે મદન્ત ! જ્ઞાનારાધના કિતને પ્રકાર કી કહી ગઈ છે ? (ગોયમા-તિવિહા પળ્ણસા) છે ગૌતમ ! જ્ઞાનારાધના ત્રીન પ્રકાર કી કહી ગઈ છે । (તં જહા) જો હસ તરહ સે ણિ—(ઉક્કોસિયા-મજ્જિમા જહ્ણિયા) ઉત્કૃષ્ટ મધ્યમ ઓર જઘન્ય (દસણારાહ્ણા ણં મંતે । કહ્વિહા પળ્ણસા) છે મદન્ત ! દર્શનારાધના કિતને પ્રકાર કી કહી ગઈ છે ? (એવ એષ તિવિહા યિ એવ ચરિત્તારાહ્ણા યિ) છે ગૌતમ ! દર્શનારાધના હસી તરહ સે ત્રીન પ્રકાર કી કહી ગઈ છે । હસી તરહ સે ચારિત્રારાધના મી ત્રીન પ્રકાર કી કહી ગઈ છે । (જસસ ણં મંતે । ઉક્કોસિયા નાણારાહ્ણા તસસ ઉક્કોસિયા દસણારાહ્ણા) છે મદન્ત ! જિસ જીવ કે ઉત્કૃષ્ટ રૂપ સે જ્ઞાનારાધના હોતી છે હસ જીવ કો વ્યા

ધના કેટલા પ્રકારની કહી છે ? (ગોયમા) છે ગૌતમ ! (તિવિહા આરાહ્ણા પળ્ણસા-તં જહા) આરાધનાના ત્રીણે પ્રમાણે ત્રણ પ્રકાર કહ્યા છે—(નાણારાહ્ણા, દસણારાહ્ણા, ચરિત્તારાહ્ણા) (૧) જ્ઞાનારાધના, (૨) દર્શનારાધના અને (૩) ચારિત્રારાધના । (નાણારાહ્ણા ણં મંતે । કહ્વિહા પળ્ણસા ?) છે મદન્ત ! જ્ઞાનારાધના કેટલા પ્રકારની કહી છે ? (ગોયમા) તિવિહા પળ્ણસા-તં જહા) છે ગૌતમ ! જ્ઞાનારાધનાના ત્રીણે પ્રમાણે ત્રણ પ્રકાર કહ્યા છે—(ઉક્કોસિયા, મજ્જિમા જહ્ણિયા) (૧) ઉત્કૃષ્ટ (૨) મધ્યમ અને (૩) જઘન્ય (દસણારાહ્ણા ણં મંતે । કહ્વિહા પળ્ણસા ?) છે મદન્ત ! દર્શનારાધના કેટલા પ્રકારની કહી છે ? (એવ એષ તિવિહા યિ એવ ચરિત્તારાહ્ણા યિ) છે ગૌતમ ! દર્શનારાધના ત્રણ એજ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારની કહી છે, અને ચારિત્રારાધના ત્રણ એજ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારની કહી છે

(જસસ ણં મંતે । ઉક્કોસિયા નાણારાહ્ણા તસસ ઉક્કોસિયા દસણારાહ્ણા) છે મદન્ત ! એ એવ વડે ઉત્કૃષ્ટ રૂપે જ્ઞાનારાધના થાય છે એ એવ વડે મું

यस्य उत्कृष्टा ज्ञानाराधना, तस्य दर्शनाराधना उत्कृष्टा वा, अजघन्योत्कृष्टा वा, यस्य पुनरुत्कृष्टा दर्शनाराधना, तस्य ज्ञानाराधना उत्कृष्टा वा, जघन्या वा, अजघन्यानुत्कृष्टा वा । यस्य खलु भदन्त । उत्कृष्टाज्ञानाराधना, तस्य उत्कृष्टाचारित्राराधना, यस्य उत्कृष्टा चारित्राराधना, तस्य उत्कृष्टा ज्ञानाराधना, यथा उत्कृष्ट

उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है ? (जस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्स उक्कोसिया णाणाराहणा) जिसके उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है उसके क्या उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होनी है ? (जस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्स उक्कोसिया णाणाराहणा) तथा-जिसके उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है उसके क्या उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जस्स उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स दंसणाराहणा उक्कोसिया वा अजहन्नुक्कोसिया वा) जिस जीव को उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है, उसको उत्कृष्ट और मध्यम दर्शनाराधना होती है । (जस्स पुण उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्स नाणाराहणा उक्कोसा वा जहन्ना वा अजहन्नमणुक्कोसा वा) जिस जीव के उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है उसके ज्ञानाराधना उत्कृष्ट भी होती है, जघन्य भी होती है और मध्यम भी होती है । (जस्स णं भन्ते ! उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा, जस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्सुक्कोसिया णाणाराहणा) हे भदन्त ! जिस जीव को उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है, उस जीव को क्या उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है ? तथा जिस जीव के उत्कृष्ट

उत्कृष्ट इये दर्शनाराधना थाय छे भरी ? (जस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्स उक्कोसिया णाणाराहणा ?) अने ने एव वडे उत्कृष्ट दर्शनाराधना थाय छे, अे एव वडे शुं उत्कृष्ट ज्ञानाराधना थाय छे भरी ?

(गोयमा) ! हे गौतम ! (जस्स उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स दंसणाराहणा उक्कोसिया वा अजहन्न उक्कोसिया वा) ने एव वडे उत्कृष्ट ज्ञानाराधना थाय छे, ते एव वडे उत्कृष्ट अने मध्यम दर्शनाराधना थाय छे । (जस्स पुण उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्स नाणाराहणा उक्कोसा वा जहन्ना वा अजहन्नमणुक्कोसा वा) ने एव द्वारा उत्कृष्ट दर्शनाराधना थाय छे, तेना द्वारा ज्ञानाराधना उत्कृष्ट पणु थाय छे, जघन्य पणु थाय छे अने मध्यम पणु थाय छे (जस्स णं भन्ते ! उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा, जस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्सुक्कोसिया णाणाराहणा ?) हे भदन्त ! ने एवमा उत्कृष्ट ज्ञानाराधना डाय छे, ते एवमा शुं उत्कृष्ट चारित्राराधना डाय छे

જ્ઞાનારાધના વ ધર્શનાઽઽરાધના વ મળિયા, તથા ઉત્કૃષ્ટા જ્ઞાનારાધના વ
 ચારિત્રારાધના વ મળિયઠ્ઠા, યસ્ય સ્વલ્લ મદન્ત ! ઉત્કૃષ્ટા ધર્શનારાધના, તસ્ય
 ઉત્કૃષ્ટા ચારિત્રારાધના, યસ્ય ઉત્કૃષ્ટા ચારિત્રારાધના, તસ્ય ઉત્કૃષ્ટા ધર્શના
 રાધના ? ગૌતમ ! યસ્યોત્કૃષ્ટા ધર્શનારાધના, તસ્ય ચારિત્રારાધના ઉત્કૃષ્ટા વા,
 અધન્યા વા, અજધન્યાનુત્કૃષ્ટા વા, યસ્ય પુનસ્તુત્કૃષ્ટા ચારિત્રારાધના, તસ્ય ધર્શના

ચારિત્રારાધના હોતી હૈ વસ ઝીવ કો વયા ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનારાધના હોતી
 હૈ ? (જહા ઉક્ષોસિયા ણાણારાહણા ય દસણારાહણા ય મળિયા તહા
 ઉક્ષોસિયા ણાણારાહણા ય ચરિત્તારાહણા ય માળિયઠ્ઠા) હૈ ગૌતમ !
 જિસ પ્રકાર સે ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનારાધના ઓર ધર્શનારાધના કે વિષય મેં
 કહા ગયા હૈ—ઁસી પ્રકાર કે ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનારાધના ઓર ચારિત્રારાધના
 કે વિષય મેં મી કહના ચાહિયે । (જસ્સ ણં મંતે ! ઉક્ષોસિયા દસણારા-
 હણા તસ્સુક્ષોસિયા ચરિત્તારાહણા જસ્સુક્ષોસિયા ચરિત્તારાહણા, તસ્સ
 ઉક્ષોસિયા વંસણારાહણા) હૈ મદન્ત ! જિસ ઝીવકો ઉત્કૃષ્ટ ધર્શનારાધના
 હોતી હૈ, વસકે વયા ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રારાધના હોતી હૈ ? તથા જિસકે
 ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રારાધના હોતી હૈ, વસકે વયા ઉત્કૃષ્ટ ધર્શનારાધના હોતી
 હૈ ? (ગોયમા) હૈ ગૌતમ ! (જસ્સ ઉક્ષોસિયા દસણારાહણા તસ્સ ચરિ-
 ત્તારાહણા ઉક્ષોસા વા, જહણા વા, અજહણમણુક્ષોસા વા—જસ્સ પુણ

ખરી ? અને જે એવમાં ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રારાધના હોય છે, તે એવમાં શુ ઉત્કૃષ્ટ
 જ્ઞાનારાધના હોય છે ખરી ?

(જહા ઉક્ષોસિયા ણાણારાહણા ય દસણારાહણા ય મળિયા તહા ઉક્ષોસિયા
 ણાણારાહણા ય ચરિત્તારાહણા ય માળિયઠ્ઠા) હૈ ગૌતમ ! જે પ્રમાણે ઉત્કૃષ્ટ
 જ્ઞાનારાધના અને ધર્શનારાધનાના વિષયમાં કહેવામાં આવ્યું છે, એજ પ્રમાણે
 ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનારાધના અને ચારિત્રારાધનાના વિષયમાં પણ કહેવું જોઈએ.

(જસ્સ ણં મંતે ! ઉક્ષોસિયા દસણારાહણા તસ્સુક્ષોસિયા ચરિત્તારાહણા ?
 જસ્સુક્ષોસિયા ચરિત્તારાહણા, તસ્સુક્ષોસિયા દસણારાહણા ?) હૈ મદન્ત ! જે
 એવમાં ઉત્કૃષ્ટ ધર્શનારાધનાનો સદ્ભાવ હોય છે તે એવમાં શુ ઉત્કૃષ્ટ
 ચારિત્રારાધનાનો સદ્ભાવ હોય છે ખરી ? અને જે એવમાં ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર-
 આધનાનો સદ્ભાવ હોય છે તે એવમાં શુ ઉત્કૃષ્ટ ધર્શનારાધનાનો સદ્ભાવ
 હોય છે ખરી ?

(ગોયમા ! જસ્સ ઉક્ષોસિયા દસણારાહણા તસ્સ ચરિત્તારાહણા ઉક્ષોસા વા
 જહણા વા, અજહણમણુક્ષોસા વા જસ્સ પુણ ઉક્ષોસિયા ચરિત્તારાહણા તસ્સ

राधना नियमात् उत्कृष्टा, उत्कृष्टा खलु भदन्त ! ज्ञानाराधनामाराध्य कतिभिः भवग्रहणैः सिद्ध्यति, यावत् अन्तं करोति ? गौतम ! अस्त्येककः तेनैव भवग्रहणेन सिद्ध्यति, यावत् अन्तं करोति, अस्त्येककः द्वितीयेन भवग्रहणेन सिद्ध्यति, यावत् अन्तं करोति, अस्त्येककः कल्पोपपन्नकेषु वा, कल्पातीतकेषु वा, उपपद्यते,

उक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्स दंसणारहणा नियमा उक्कोसा) जिस जीव के उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है उसके उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम चारित्र्याराधना होती है । तथा जिस जीव के उत्कृष्ट चारित्र्याराधना होती है उसके नियम से दर्शनाराधना उत्कृष्ट होती है । (उक्कोसियं णं भंते ! णाणाराहणं आराहेत्ता, कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ जाव अंतं करेइ,) हे भदन्त ! उत्कृष्ट ज्ञानाराधना को आराधित करके जीव कितने भवों के बाद सिद्ध होता है यावत् समस्त दुःखों का अन्त करता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (अत्येगइए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झइ, जाव अंतं करेइ, अत्येगइए दाच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्झइ जाव अंतं करेइ, अत्येगइए कप्पोवएसु वा कप्पातिएसु वा उववज्जइ) एक जीव उसी भव से सिद्ध होता है, यावत् समस्त दुःखों का अन्त कर देता है । कोईएक जीव दो भव लेकर सिद्ध होता है । यावत् समस्त दुःखोंका अन्त कर देता है । कोईएक जीव कल्पोपपन्नक देवलोकों में अथवा कल्पातीत देवलोकों में उत्पन्न हो जाता है । (उक्कोसियं णं

दंसणाराहणा नियमा उक्कोसा) हे गौतम ! ७) ७) ७) दर्शनाराधना उत्कृष्ट होय छे, ते ७) ७) ७) चारित्र्याराधना उत्कृष्ट, ७) ७) ७) अने मध्यम होय छे. तथा ७) ७) ७) चारित्र्याराधना उत्कृष्ट होय छे, ते ७) ७) ७) दर्शनाराधना नियमथी ७) (अवश्य) उत्कृष्ट होय छे.

(उक्कोसियं णं भंते ! णाणाराहणं आराहेत्ता, कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ, जाव अंतं करेइ ?) हे भदन्त ! उत्कृष्ट ज्ञानाराधनानी आराधना करीने ७) ७) ७) केटला भवे। पछी सिद्धपद पावे छे यावत् समस्त दुःखेने। अंत करे छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (अत्येगइए तेणेव भवग्गहणे ण सिज्झइ, जाव अंतं करेइ, अत्येगइए दाच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्झइ जाव अंतं करेइ, अत्येगइए कप्पोवएसु वा कप्पातिएसु वा उववज्जइ) केटलाइ ७) ७) ७) भवे। ७) ७) ७) करीने सिद्ध थाय छे, यावत् समस्त दुःखेने। अंत करे छे, केटलाइ ७) ७) ७) भवे। ७) ७) ७) करीने सिद्ध थाय छे यावत् समस्त दुःखेने। अंत करे छे. अने केटलाइ ७) ७) ७) भवे। ७) ७) ७) आदि कल्पोपपन्नक देवलोकैमा अथवा कल्पातीत देवलोकैमां उत्पन्न थरं जाय छे.

उत्कर्षिकां स्वस्तु मदन्त ! दर्शनाराधनामाराध्यकृतिभिः भवप्रहणैः पृथगेव, उत्कर्षिकां स्वस्तु मदन्त ! चाग्निभाराधानाम् आराध्य, पृथगेव, नवरत्न-अस्त्येकक कल्याणोत्तम केपु उपपद्यते । मध्यमां स्वस्तु मदन्त ! ज्ञानाराधनाम् आराध्य कृतिभिः भवप्रहणैः सिध्यति, यावत् अन्त करोति ? गौतम ! अस्त्येकक द्वितीयेन भवप्रहणेन मते ! पञ्चाराहणं आराहेसा कहिं भवगहणेहिं) हे भदन्त ! जीव उत्कृष्ट दर्शनाराधना को आराधित करके कितने भवों के बाद सिद्ध होता है यावत् समस्त दुःखों का अन्त करता है ? (पृथगेव) हे गौतम ! इस विषय में पहिले की तरह से जानना चाहिये । (उक्तोसियण्णं मते । परिचाराहणं आराहेसा) हे भदन्त ! उत्कृष्ट चारित्र्याराधना को आराधित करके जीव कितने भवों के बाद सिद्ध होता है यावत् समस्त दुःखों का अन्त करता है ? (पृथगेव) हे गौतम ! इस विषय में भी पहिले की तरह से ही जानना चाहिये । (नवरत्नमप्येकक कल्याणोत्तमसु उभयज्जहं) परन्तु कौहएक जीव कल्पतीत भवों में उत्पन्न होता है । (मज्झिमिय णं मते ! णाणाराहणं आराहेसा कहिं भवगहणेहिं सिग्गहं, जाय अन्तकरेहं) हे भदन्त ! मध्यम ज्ञानाराधना को आराधित करके जीव कितने भवों के बाद सिद्ध होता है यावत् समस्त दुःखों का अन्त करता है ? (गौयमा) हे गौतम ! (अत्येकक दोषभेणं भव

(उक्तोसिय णं मते ! पञ्चाराहणं आराहेसा कहिं भवगहणेहिं) हे भदन्त ! उत्कृष्ट दर्शनाराधनामी आराधना करते हुए उठवा भवे करीने सिद्ध थाय है, यावत् समस्त दुःखोना अन्त करे है ?

(पृथगेव) हे गौतम ! आ विषयमां उत्कृष्ट ज्ञानाराधना केपु न भवत् समस्तु (उक्तोसियण्णं मते ! परिचाराहणं आराहेसा ?) हे भदन्त ! उत्कृष्ट चारित्र्याराधनामी आराधना करते हुए उठवा भवे करीने सिद्ध थाय है अने समस्त दुःखोना अन्त करे है ?

(पृथगेव) हे गौतम ! आ विषयमां पञ्च उत्कृष्ट ज्ञानाराधना भवत् प्रमावेतुं भवत् समस्तु (नवरत्नमप्येकक कल्याणोत्तमसु उभयज्जहं) पञ्च अर्थां ज्ञेयत्वं विशेषता है हे उठवाके लवे उपातीत देवेमां उत्पन्न थाय है सोधर्म आदि कर्षिमां उत्पन्न यदा नधी ज्जेम अर्थां कहेतुं लोपजे ।

(मज्झिमिय णं मते ! णाणाराहणं आराहेसा कहिं भवगहणेहिं सिग्गहं जाय अन्त करेहं) हे भदन्त ! मध्यम ज्ञानाराधनामी आराधना करीने हुए उठवा भवे करीने सिद्ध थाय है अने समस्त दुःखोना अन्त करे है ?

सिध्यति, यावत् अन्तं करोति तृतीयं पुनः भवग्रहणं नातिक्राम्यति, । मध्यमां खलु भदन्त ! दर्शनाराधनाम् आराध्य एवमेव, एवम् मध्यमाचारित्राराधनामपि । जघन्यिकां खलु भदन्त ! ज्ञानाराधनामाराध्य, कतिभिः भवग्रहणैः सिध्यति ' यावत् अन्तं करोति, गौतम ! अस्त्येककः ते नैव भवग्रहणेण सिध्यति । यावत् अन्तं

ग्राहणेणं सिञ्चद्, जाव अंतं करेइ, तच्चं पुण भवग्रहणं नाइक्कमइ) कोइएक जीव दो भव लेकर सिद्ध होता है यावत् समस्त दुःखोंका अन्त करता है । मध्यम ज्ञानाराधना को आराधन करने वाले जीव तृतीयभव का उल्लंघन नहीं करते हैं । मज्झिमियं णं भंते । दंसणाराहणं आराहेत्ता) हे भदन्त । मध्यम दर्शनाराधना को आराधित करके जीव कितने भवों के बाद सिद्ध होता है ? यावत् समस्त दुःखों का अन्त करता है ? (एवं चेव) हे गौतम ! इस विषय में पहिले की तरह से कथन जानना चाहिये । (एवं मज्झिमियं चरित्ताराहणं पि) इसी तरह से मध्यम चारित्र आराधना के विषय में भी जानना चाहिये । (जहणियणं भंते ! णाणाराहणं आराहेत्ता कइहिं भवग्रहणेहिं सिञ्चद्-जाव अंतं करेइ) हे भदन्त ! जघन्य ज्ञानाराधना को आराधित करके जीव कितने भवों को लेने के बाद सिद्ध होता है ? यावत् समस्त दुःखों का अन्त करता है ? (गोयमा) हे गौतम ! अत्येगइए तच्चेणं भवग्रहणेणं

जाव अंतं करेइ, तच्चं पुण भवग्रहणं माइक्कमइ) डेअड उव पे भव करीने सिद्ध थाय छे, अने समस्त दुःखोने अंत करे छे, मध्यम ज्ञानाराधनानी आराधना करनारे उव त्रीण भवनुं उल्लंघन करतो नथी.

(मज्झिमियं णं भंते ! दंसणाराहणं आराहेत्ता ?) हे भदन्त ! मध्यम दर्शनाराधनानी आराधना करीने उव डेटला भवे करीने सिद्ध थाय छे अने समस्त दुःखोने अंत करे छे ?

(एवं चेव) हे गौतम ! आ विषयनुं समस्त कथन पछेलाणा कथन प्रमाणे समज्जुं. (एवं मज्झिमियं चरित्ताराहणं पि) अने मध्यम चारित्र-आराधनाना विषयमां पणु अेभ ज् समज्जुं

(जहणियणं भंते ! णाणाराहणं आराहेत्ता कइ हिं भवग्रहणे हिं सिञ्चद्-जाव अंतं करेइ) हे भदन्त ! मध्यम ज्ञानाराधनानी आराधना करीने उव डेटला भवे करीने सिद्ध थाय छे अने समस्त दुःखोने अंत करे छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (अत्येगइए तच्चेणं भवग्रहणेणं सिञ्चद्, जाव

करोति, सप्ताष्टमवग्रहणानि पुनः नातिक्राम्यति, एव दर्शनाराधनापि, एव चारित्र्याराधनापि ॥ सू० २ ॥

टीका—‘कश्चिद्वा णं मते ! आराधना पण्यता ?’ गौतमः पृच्छति—हे भद्रन्त ! कश्चिद्वा क्विपत्यकारा खलु आराधना निरतिचारतयाऽनुपात्मना मद्गता ! भगवानाह—‘गोयमा ! त्रिविधा आराधना पण्यता’ हे गौतम ! त्रिविधा आराधना मद्गता ? ‘तं जहा—नाणाराधना, वंसणाराधना, चरित्ताराधना’ तथया—ज्ञाना

सिद्धमह, जाव अत करेह, सत्तट्टमवग्रहणाह पुण नाइक्कमह, एव वंसणाराधण पि, एव चरित्ताराधणं पि) कोइएक जीव तीसरे भय में सिद्ध होता है, यावत् समस्त दुःखोंका अंत कर देता है। यह जीव सात आठ भय से आगे भय धारण नहीं करता है। इसी तरह से अल्प दर्शना राधना और चरित्राराधना के विषय में भी जानना चाहिये।

टीकार्थ—आराधना का प्रकरण होने से सूत्रकार प्रकार सहित आराधना की प्ररूपणा इस सूत्र द्वारा कर रहे हैं—इसमें गौतम ने प्रभु से ऐसा पूछा है—(कश्चिद्वा णं मते ! आराधना पण्यता) हे भद्रन्त ! आराधना कितने प्रकार की कही गई है ? ज्ञानादि गुणों का अतिचार रहित होकर पालन करना इसका नाम आराधना है। उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (त्रिविधा आराधना पण्यता) आराधना तीन प्रकार की कही गई है। (तं जहा) जो इस प्रकार से है—(नाणाराधना, वंसणाराधना, चरित्ताराधना) ज्ञानाराधना, दर्शनारा

धत करेह, सत्तट्ट मवग्रहणाह पुण नाइक्कमह, एव वंसणाराधण पि, एव चरित्ताराधणं पि) केअह एव तीअ अवभां सिद्ध धाय छे अने अमस्त दुःखोने अत करे छे ते एव सात आठ अवधी वधारे अत करतां नहीं जेअ प्रभावे अल्प दर्शनाराधना अने अल्प चरित्ताराधनाया विषयभां पण्य समभवु

टीकार्थ—आराधनानुं निहपणु आदी रडेहूँ छेवाधी सूत्रकार आ सूत्र द्वारा प्रकार सहित आराधनानी प्ररूपणा करे छे—

गौतम स्वामी आ विषयने अनुवक्षीने मद्वावीर प्रभुने जेवो प्रभु पूछे छे हे—‘कश्चिद्वा णं मते ! आराधना पण्यता ?’ हे भद्रन्त ! आराधना केअ प्रभावे कही छे ? ज्ञानादि गुणोनु अतिचार रहित पालन करणु, तेनुं नाम आराधना छे

मद्वावीर प्रभुने उत्तर—“त्रिविधा आराधना पण्यता” हे गौतम ! आराधना त्रय प्रकारनी कही छे ‘नाणाराधना, वंसणाराधना, चरित्ताराधना’ जेवो प्रभावे छे


राधना, दर्शनाराधना, चारित्र्याराधना च, तत्र ज्ञानस्य योग्यकालेऽध्ययनविनया-
 धृष्टविधज्ञानाचारस्य पञ्चमकारकः श्रुतस्य वा आराधना-निरतिचारतया परिपालनं
 ज्ञानाराधना कालाद्युपचारकरणं, दर्शनस्य सम्यक्त्वस्यााराधना निःशङ्कितत्वाद्यष्ट-
 विधतदाचारानुपालनम् दर्शनाराधना, चारित्र्यस्य-सामायिकादेराराधना-निरति-
 चारतया पञ्चसमित्यादिचारित्र्याचारानुपालनम् चारित्र्याराधनोच्यते, इति भावः,
 गौतमः पृच्छति-‘ जाणाराहणा णं भंते ! कइविहा पण्णत्ता ’ हे भदन्त ! ज्ञानारा-

धना और चारित्र्याराधना इनमें ज्ञान की-योग्यकाल में अध्ययन विनय
 आदि अपने आठ अंगरहित ज्ञानाचार की अथवा पांच प्रकार के श्रुत
 की आराधना करना-अतिचार रहित होकर उसका पालन करना अर्थात्
 योग्य काल में श्रुत का अध्ययन करना उसका विनय करना, बहुमान
 करना, आदि जो ज्ञान के आठ अंग कहे गये हैं उन अंगों से युक्त
 होकर उसकी सेवा करना-यह ज्ञानाराधना है। सम्यक्त्व के जो निः-
 शङ्कित आदि आठ अंग कहे गये हैं उन अङ्गों से विशिष्ट होकर दर्शन
 की-सम्यक्त्व की आराधना करना सो दर्शनाराधना है। चारित्र्य की
 सामायिक आदि चारित्र्य की-अतिचार रहित होकर पालन करना-पांच
 समिति तीनशुषि आदि रूप चारित्र्य की सदा संभाल रखना इसका
 नाम चारित्र्याराधना है।

अब गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं-(जाणाराहणा णं भंते !
 कइविहा पण्णत्ता) हे भदन्त ! ज्ञानाराधना कितने प्रकार की कही गई

“ जाणाराहणा, दसणाराहणा, चरित्ताराहणा ” (१) ज्ञानाराधना, (२) दर्शना-
 राधना अने (३) चारित्र्याराधना. ज्ञानाराधनानु स्वरूप नीचे प्रभाषे छे—

ज्ञाननी-योग्यकालमें अध्ययन, विनय आदि तेना आठ अंगोसहित
 आराधना करवी अथवा पाच प्रकारना श्रुतनी आराधना करवी, अतिचार
 रहित थधने तेनु पालन करवु, अटवे के योग्यकाले श्रुतनुं अध्ययन करवुं,
 तेना विनय करवो, तेनुं बहुमान करवुं, आदि के ज्ञानना आठ अंग कथां
 छे ते अंगोथी युक्त थधने तेनी आराधना करवी, तेनु नाम ज्ञानाराधना छे
 सम्यक्त्वना के निःशङ्कित (शंका रहितता) आदि आठ अंग कडेवामा आव्यां
 छे, ते अंगोथी युक्त थधने दर्शननी (सम्यक्त्वनी) आराधना करवी तेनुं
 नाम दर्शनाराधना छे. सामायिक आदि चारित्र्यनु अतिचार रहित थधने पालन
 करवु, पाच समिति, त्रय शुषि आदिरूप चारित्र्यनी सदा संभाल राखवी तेनु
 नाम चारित्र्याराधना छे



चना खलु कतिविधा प्रज्ञता ? भगवानाह—‘गोयमा । तिविहा पण्णा’ हे गौतम ।
 ज्ञानाराधना त्रिविधा प्रज्ञता, ‘स जहा—उक्कोसिया, मज्झिमा, जहन्ना’ तथया—
 उत्कृष्टा, मध्यमा, अधन्या च, तत्र उत्कृष्टा ज्ञानाराधना—ज्ञानकृत्यानुष्ठानेषु प्रकृष्ट
 यत्नता, मध्यमा च तेष्वेव ज्ञानकृत्यानुष्ठानेषु मध्यमप्रयत्नता, जघन्या तु ज्ञाना-
 राधना तेष्वेव ज्ञानकृत्यानुष्ठानेषु न्यूनतमप्रयत्नतारूपा बोध्या, एवमेव दर्शना
 राधना, चारित्र्याराधना चावसेयेत्यभिप्रायेणाह—‘दंसणाराहणा णं भंते ! कइविहा
 पण्णा ? एव चैव तिविहा वि, एव चरिधाराहणा वि’ गौतमः पृच्छति—हे
 भदन्त ! दर्शनाराधना कतिविधा प्रज्ञता ? भगवानाह—हे गौतम ! एवमेव—ज्ञाना

हे ? उत्तर में प्रश्न कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! (तिविहा पण्णा)
 ज्ञानाराधना तीन प्रकार की कही गई है (स जहा) जो इस प्रकार से
 है—(उक्कोसिया, मज्झिमा, जहन्ना) उत्कृष्ट ज्ञानाराधना, मध्यमज्ञाना
 राधना और जघन्यज्ञानाराधना ज्ञान द्वारा साध्य अनुष्ठानों में प्रकृष्ट
 यत्न करते रहना इसका नाम उत्कृष्ट ज्ञानाराधना है वहीं ज्ञान द्वारा
 साध्य अनुष्ठानों में मध्यम प्रयत्न करते रहना इसका नाम मध्यम
 ज्ञानाराधना है और इन्हीं ज्ञान द्वारा साध्यकृत्यों—अनुष्ठानों में न्यूनतम
 प्रयत्न करते रहना—इसका नाम जघन्य ज्ञानाराधना है । इसी तरह से
 दर्शनाराधना और चारित्र्याराधना के विषय में भी जानना चाहिये इसी
 बात को गौतम प्रश्न से पूछते हैं—(दंसणाराहणा ण भंते ! कइविहा
 पण्णा) हे भदन्त ! दर्शनाराधना किन्ने प्रकार की कही गई है ? प्रश्न

इसे जीतम स्वामी महावीर प्रश्नने ज्येः भक्त पूछे थे—(ज्ञानाराहणा
 भंते ! कइविहा पण्णा ?) के जवाब— ज्ञानाराधना केवल प्रकारकी नहीं है ।
 महावीर प्रश्नने उत्तर— ‘ गोयमा । हे जीतम । “ तिविहा पण्णा ”
 ज्ञानाराधना त्रय प्रकारकी नहीं है ‘ संजहा ” के प्रकारे नीचे प्रभावे है
 (उक्कोसिया, मज्झिमा, जहन्ना) (१) उत्कृष्ट ज्ञानाराधना, (२) मध्यम
 ज्ञानाराधना, (३) जघन्य ज्ञानाराधना ज्ञान द्वारा साध्य अनुष्ठानोर्मा प्रकृष्ट
 (प्रकृष्ट) यत्न करता रहने में नाम उत्कृष्ट ज्ञानाराधना है ज्ये ज्ञानद्वारा
 साध्य अनुष्ठानोर्मा मध्यम प्रयत्न करता रहने में नाम मध्यम ज्ञानाराधना
 है और ज्ये ज्ञानद्वारा साध्य अनुष्ठानोर्मा न्यूनतम (ज्येष्ठार्मा ज्येष्ठ)
 प्रयत्न करता रहने में नाम जघन्य ज्ञानाराधना है ज्ये प्रभावे इसना
 राधना और चारित्र्याराधना के विषय में भी समझने ज्ये बात जीतम
 स्वामीने नीचेना भक्त द्वारा प्रकृत बाध है

राधनावदेव दर्शनाराधनाऽपि त्रिविधा प्रज्ञप्ता, उत्कृष्टा मध्यमा जघन्या च, एवमेव चारित्र्याराधनाऽपि त्रिविधा प्रज्ञप्ता उत्कृष्टा, मध्यमा, जघन्या चेति । अथोक्ता-
राधनाप्रकाराणामेव अन्योन्योपनिबन्धं सहयोगं प्रतिपादयितुमाह—‘ जस्स णं भंते !
उक्कोसिया णाणाराहणा, तस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा, जस्स उक्कोसिया दंसणा
राहणा तस्स उक्कोसिया णाणाराहणा ? ’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! यस्य
खलु जीवस्य उत्कृष्टा ज्ञानाराधना भवति, तस्य जीवस्य किम् उत्कृष्टा दर्शना-
राधना भवति ! एवं यस्य जीवस्य उत्कृष्टा दर्शनाराधना भवति, तस्य जीवस्य
किम् उत्कृष्टा ज्ञानाराधना भवति ? इति प्रश्नः, भगवानाह—‘ गोयमा ! जस्स

कहते हैं (एवं चेव तिविहा वि) हे गौतम ! ज्ञानाराधना की तरह
दर्शनाराधना भी तीन प्रकार की कही गई है—उत्कृष्ट दर्शनाराधना,
मध्यम दर्शनाराधना और जघन्य दर्शनाराधना (एवं चरित्ताराहणा
वि) इसी तरह से उत्कृष्ट चारित्र्याराधना, मध्यमचारित्र्याराधना और
जघन्यचारित्र्याराधनाके भेदसे चारित्र्याराधना भी तीन प्रकारकी कही गई
है । अब इसी बातको विशेषरूपसे समझनेके लिये गौतम प्रभुसे ऐसा
पूछते हैं—(जस्स णं भंते ! उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स उक्कोसिया
दंसणाराहणा, जस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्स उक्कोसिया णाण-
राहणा) हे भदन्त ! जो जीव उत्कृष्ट ज्ञानाराधना वाला है क्या उसके
उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है ? अथवा—जो जीव उत्कृष्ट दर्शनाराधना
वाला होता है क्या उसको उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है ? इसके उत्तर

गौतम स्वामीने प्रश्न—“ दंसणाराहणाण भंते ! कइ विहा पणत्ता ? ”

हे भदन्त ! दर्शनाराधना केटवा प्रकारनी कही छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—“ एवं चेव तिविहा वि ” हे गौतम ! ज्ञाना-
राधनानी जेम दर्शनाराधना पथु त्रथु प्रकारनी कही छे—(१) उत्कृष्ट दर्शना-
राधना, (२) मध्यम दर्शनाराधना अने (३) जघन्य दर्शनाराधना “ एवं
चरित्ताराहणा वि ” जेअ प्रभाणु उत्कृष्ट चारित्र्याराधना, मध्यम चारित्र्याराधना
अने जघन्य चारित्र्याराधनाना लेदधी चारित्र्याराधना पथु त्रथु प्रकारनी कही
छे डवे जेअ वातना वधु स्पधीकरणु माटे गौतम स्वामी भडावीर प्रभुने
आ प्रभाणु प्रश्न पूछे छे—(जस्स णं भंते ! उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स
उक्कोसिया दंसणाराहणा, जस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्स उक्कोसिया
णाणाराहणा ?) हे भदन्त ! जे एव उत्कृष्ट ज्ञानाराधनावाणो डाय छे, ते
एव शु उत्कृष्ट दर्शनाराधनावाणो डाय छे अरे ? अथवा—जे एव उत्कृष्ट
दर्शनाराधनावाणो डाय छे, ते एव शु उत्कृष्ट ज्ञानाराधनावाणो डाय छे अरे ?

उकोसिया णाणाराहणा, तस्स दसणाराहणाउकोसिया वा ममहन्नुकोसिया वा' हे गौतम ! यस्य जीवस्य उत्कृष्टा ज्ञानाराधना भवति, तस्य जीवस्य दर्शनाराधना उत्कृष्टा वा भवति, अजघन्योत्कृष्टा वा भवति, जघन्या चासौ उत्कृष्टा च अजघन्योत्कृष्टा तद्विमित्रा अजघन्योत्कृष्टा मध्यमेत्यर्थः, उत्कृष्टज्ञानाराधना यतो जीवस्याग्रे हे उत्कृष्टमध्यमारूप दर्शनाराधने भवतः, न पुन स्तृतीया जघन्यलक्षणा दर्शनाराधना भवति, तस्य तथास्वभावत्वात्, किन्तु 'जस्स पुण उकोसिया दसणाराहणा, तस्स नाणाराहणा उकोसा वा जहमा वा, अजहमणुकोसा वा' हे गौतम ! यस्य पुनर्जीवस्य उत्कृष्टा दर्शनाराधना भवति, तस्य जीवस्य ज्ञानाराधना उत्कृष्टा वा, जघन्या वा अजघन्यानुत्कृष्टा मध्यमा वा भवति, उत्कृष्टदर्शनाराधना यतो हि जीवस्य ज्ञानम्भति त्रिप्रकारकस्यापि उत्कृष्ट

में प्रसु कहते हैं—(गौयमा) हे गौतम ! (जस्स उकोसिया णाणाराहणा तस्स दसणाराहणा उकोमिया वा अजहम उकोसिया वा) जो जीव उत्कृष्ट ज्ञानाराधना वाला होता है उसके दर्शनाराधना उत्कृष्ट होती है और मध्यम होती है। जघन्यरूप में दर्शनाराधना उसके नहीं होती है। क्यों कि उसका ऐसा ही कोई स्वभाव होता है। किन्तु—(जस्स पुण उकोसिया दसणाराहणा तस्स नाणाराहणा उकोसा वा जहमा वा अजहमणुकोसा वा) जिस जीव के उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है उस जीव के ज्ञानाराधना उत्कृष्ट भी होती है, जघन्य भी होती है और मध्यम भी होती है। क्यों कि उत्कृष्ट दर्शनाराधना वाले जीव में ज्ञान के प्रति उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य रूप प्रयत्न की संभावना रहती है—अतः भजना से तीन प्रकार वाली ज्ञानाराधना इसको कही गई है।

भद्रवीर प्रभुने। उत्तर— गौयमा !' हे गौतम ! (जस्स उकोसिया णाणाराहणा तस्स दसणाराहणा उकोसिया वा अजहम उकोसिया वा) के लिये उत्कृष्ट ज्ञानाराधनावाला होय है ते लिये ही दर्शनाराधना उत्कृष्ट पक्ष होय है अने मध्यम पक्ष होय है जेवो लव अजघन्यरूप दर्शनाराधना करती नथी, कारण के तेने जेवो अ उअ स्वभाव होय है परन्तु (जस्स पुण उकोसिया दसणाराहणा तस्स नाणाराहणा उकोसा वा जहमा वा अजहमणुकोसा वा) के लिये उत्कृष्ट दर्शनाराधनाने आवश्यक होय है, ते लिये ही ज्ञानाराधना उत्कृष्ट पक्ष होय है अजघन्य पक्ष होय है अने मध्यम पक्ष होय है कारण के उत्कृष्ट दर्शनाराधनावाला लवर्मा ज्ञान प्रत्ये उत्कृष्ट, मध्यम अने अजघन्यरूप प्रयत्नकी संभावना रहे है ते कारणे जेवा लवनी ज्ञानाराधना त्रय प्रकारना विकल्पवाणी कडेवाया आवी है

मध्यम-जघन्यरूपस्य, प्रयत्नस्य संभवात् मजनया त्रिप्रकारापि तदागधना भव-
तीति भावः, गौतमः पृच्छति—‘जस्स णं भंते । उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स
उक्कोसिया चरित्ताराहणा, जस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्सुक्कोसिया णाणा-
राहणा ?’ हे भदन्त । यस्य खलु जीवस्य उत्कृष्टा ज्ञानाराधना भवति, तस्य
जीवस्य किम् उत्कृष्टा चारित्राराधना भवति ? एवं यस्योत्कृष्टा चारित्राराधना
तस्य किम् उत्कृष्टा ज्ञानाराधना भवति ? भगवानाह—‘जहा उक्कोसिया णाणा-
राहणा य, दंसणाराहणा य भणिया तथा उक्कोसिया नाणाराहणा य चरित्ताराहणा य
भाणियव्वा ’ हे गौतम ! यथा उत्कृष्टा ज्ञानाराधना च, दर्शनाराधना च पूर्व-
भणिता, तथैव उत्कृष्टा ज्ञानाराधना च चारित्राराधना च भणितव्या, एवं च
यस्योत्कृष्टा ज्ञानाराधना भवति तस्य चारित्राराधना उत्कृष्टा वा, मध्यमा वा

अथ गौतम प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं—(जस्स णं भंते । उक्कोसिया
णाणाराहणा तस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा, जस्स उक्कोसिया चरि-
त्ताराहणा तस्सुक्कोसिया णाणाराहणा) हे भदन्त ! जिस जीव को उत्कृष्ट
ज्ञानाराधना होती है, उस जीव के क्या उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है ?
तथा जिस जीव को उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है उस जीव को क्या
उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(जहा
उक्कोसिया णाणाराहणा य, दंसणाराहणा य भणिया तथा उक्कोसिया
नाणाराहणा य चरित्ताराहणा य भाणियव्वा) हे गौतम ! जिस प्रकार
से उत्कृष्ट ज्ञानाराधना और दर्शनाराधना पहिले कही गई है उसी तरह
से उत्कृष्ट ज्ञानाराधना और चारित्राराधना कहनी चाहिये—एवं च जिस
जीव के उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है उस जीव के चारित्राराधना उत्कृष्ट

गौतम स्वामीने प्रश्न—“जस्स णं भंते । उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स
उक्कोसिया चरित्ताराहणा, जस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्सुक्कोसिया णाणा-
राहणा ?” हे भदन्त ! उत्कृष्ट ज्ञानाराधनावाणा एवनी चारित्राराधना पणु
थु उत्कृष्ट न डोय छे ? तथा उत्कृष्ट चारित्राराधनावाणा एवनी ज्ञानाराधना
पणु थु उत्कृष्ट न डोय छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—(जहा उक्कोसिया णाणाराहणा य, दंसणाराहणा य
भणिया तथा उक्कोसिया नाणाराहणा य चरित्ताराहणा य भाणियव्वा) हे गौतम !
ने प्रभाणु उत्कृष्ट ज्ञानाराधना अने दर्शनाराधनाना विषयमा पडेवा कडेवाभा
आणु छे, अणु प्रभाणु उत्कृष्ट ज्ञानाराधना अने चारित्राराधना विषे पणु
कडेवु नेधणे. अणुवे के ने एवनी ज्ञानाराधना उत्कृष्ट डोय छे, ते एवनी

स्यात् उत्कृष्टज्ञानाराधनावतो जीवस्य चारित्र्यं प्रति न न्यूनतमप्रयत्नता भवति तस्य तत्त्वभावत्वात्, किन्तु उत्कृष्टचारित्र्याराधनावतो जीवस्य ज्ञानम्प्रति उत्कृष्टमध्यम जघन्यलक्षणप्रयत्नप्रयमपि भवति, इति भावः। गौतम पृच्छति—' जस्तं वं भंते ! उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्सुक्कोसिया चरिचाराहणा, जस्सुक्कोसिया चरिचाराहणा तस्सुक्कोसिया दंसणाराहणा ? ' हे भदन्त ! यस्य नञ् जीवस्य उत्कृष्टा दर्शनाराधना भवति, तस्य किम् उत्कृष्टा चारित्र्याराधना भवति ? एवमेव यस्योत्कृष्टा चारित्र्याराधना भवति, तस्य किमुत्कृष्टा दर्शनाराधना भवति ? मग धानाह—'गोयमा ! जस्त उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्स चारिचाराहणा उक्कोसा

मी होती और मध्यम मी होती हैं—क्यों कि उत्कृष्ट ज्ञानाराधनावाले जीव में चारित्र्याराधना के प्रति न्यूनतमप्रयत्नता नहीं होती है, क्यों कि उसका ऐसा ही कुछ स्वभाव होता है। किन्तु जो जीव उत्कृष्ट चारित्र्याराधना वाला होता है उस जीव में ज्ञान के प्रति उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य इन तीनों प्रकार के भी प्रयत्नों का सङ्घाट पाया जाता है।

अब गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं (जस्तं वं भंते ! उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्सुक्कोसिया चारिचाराहणा, जस्सुक्कोसिया चरिचाराहणा तस्सुक्कोसिया दंसणाराहणा) हे भदन्त ! जिस जीव के उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है, उस जीव के क्या उत्कृष्ट चारित्र्याराधना होती है ? तथा जिस जीव के उत्कृष्ट चारित्र्याराधना होती है उस जीव के क्या उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है ? इसके उत्तर में प्रश्न गौतम से कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (जस्त उक्कोसिया दंसणा

चारित्र्याराधना उत्कृष्ट प्रयत्न देव है अने मध्यम प्रयत्न देव है, शरत्तु के उत्कृष्ट ज्ञानाराधनावाला एवमां चारित्र्याराधना प्राये न्यूनतम प्रयत्नशीलता ही देती नथी तेनुं शरत्तु के है तेने स्वभाव न आवे देव है परतु ने एव उत्कृष्ट चारित्र्याराधनावाला देव है तेनी ज्ञानाराधना उत्कृष्ट मध्यम अने जघन्य देव है शरत्तु के ते एवमां नान प्रत्ये उत्कृष्ट, मध्यम अने जघन्य के तने प्रहारनी प्रयत्नशीलताने सङ्घाट आवेमां आवे है

गौतम स्वामीने प्रश्न—(जस्तं वं भंते ! उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्सुक्कोसिया चरिचाराहणा, जस्सुक्कोसिया दंसणाराहणा ?) हे भदन्त ! ने एवनी द्यनाराधना उत्कृष्ट देव है ते एवनी चारित्र्याराधना मध्यम प्रयत्न देव है ? तथा ने एवनी चारित्र्याराधना उत्कृष्ट देव है, ते एवनी द्यनाराधना मध्यम प्रयत्न देव है ?

વા, જહન્ના વા, અજહન્નમણુકકોસા વા ' હે ગૌતમ ! યસ્ય જીવસ્યોત્કૃષ્ટા દર્શના-
રાધના ભવતિ, તસ્ય ચારિત્રારાધના ઉત્કૃષ્ટા વા, જઘન્યા વા, અજઘન્યાનુત્કૃષ્ટા-
મધ્યમા વા ભવતિ કિન્તુ—' જસ્સ પુણ ઉક્કોસિયા ચરિત્તારાહણા, તસ્સ દંસણા-
રાહણા નિયમા ઉક્કોસા ' હે ગૌતમ ! યસ્ય પુનર્જીવસ્યોત્કૃષ્ટા ચારિત્રારાધના
ભવતિ, તસ્ય દર્શનારાધના નિયમાત્ નિયમતઃ ઉત્કૃષ્ટા એવ ભવતિ, તથા ચ યસ્યો-
ત્કૃષ્ટા દર્શનારાધના ભવતિ તસ્ય ચારિત્રારાધના ત્રિવિધાઽપિ ભજનયા રયાત્,
ઉત્કૃષ્ટ દર્શનારાધનાવતો જીવસ્ય ચારિત્રમ્પ્રતિ ત્રિવિધસ્યાઽપિ ઉત્કૃષ્ટ મધ્યમ-
જઘન્યરૂપસ્ય પ્રયત્નસ્યાવિરુદ્ધત્વાત્, કિન્તુ ઉત્કૃષ્ટચારિત્રારાધનાવતો જીવસ્યો-
ત્કૃષ્ટૈવ દર્શનારાધના ભવતિ પ્રકૃષ્ટચારિત્રસ્ય પ્રકૃષ્ટદર્શનાનુગામિત્વાત્, ઇતિભાવઃ,

રાહણા તસ્સ ચરિત્તારાહણા ઉક્કોસા વા જહન્ના વા અજહ્ણમણુકકો-
સા વા) જિસ જીવ કે ઉત્કૃષ્ટ દર્શનારાધના હોતી હૈ, ઉસ જીવ કે
ચારિત્રારાધના ઉત્કૃષ્ટ મી હોતી હૈ, જઘન્ય મી હોતી હૈ । ઓર મધ્યમ
મી હોતી હૈ । કિન્તુ જિસ જીવ કે (ઉક્કોસિયા ચરિત્તારાહણા, તસ્સ
દંસણારાહણા નિયમા ઉક્કોસા) ઉત્કૃષ્ટરૂપ મેં ચારિત્રારાધના હોતી હૈ
ઉસ જીવ કે દર્શનારાધના નિયમ સે ઉત્કૃષ્ટરૂપ મેં હી હોતી હૈ । તથા
ચ—જિસ જીવ કે ઉત્કૃષ્ટ દર્શનારાધના હોતી હૈ ઉસકે ચારિત્રારાધના
તીનોં પ્રકારકી મી હો સકતી હૈ ક્યોં કિ ઉત્કૃષ્ટ દર્શનારાધનાવાલા જો
જીવ હોતા હૈ ઉસમેં ચારિત્રકે પ્રતિ તીનોં પ્રકારકે ઉત્કૃષ્ટ, મધ્યમ ઓર
જઘન્ય—પ્રયત્નોં કા સદ્ભાવ પાયા જાતા હૈ । પરન્તુ જો જીવ ઉત્કૃષ્ટ
ચારિત્રારાધનાવાલા હોતા હૈ, વહ ઉત્કૃષ્ટ હી દર્શનારાધનાવાલા હોતા
હૈ—ક્યોંકિ જો પ્રકૃષ્ટ ચારિત્ર હોતા હૈ વહ પ્રકૃષ્ટ દર્શનાનુગામી હોતા હૈ ।

મહાવીર પ્રભુને ઉત્તર—“ ગોયમા ! ” હે ગૌતમ ! “ જસ્સ ઉક્કોસિયા
વજ્જારાહણા તસ્સ ચરિત્તારાહણા ઉક્કોસા વા જહન્ના વા અજહ્ણમણુકકોસા વા ”
ને એવની દર્શનારાધના ઉત્કૃષ્ટ હોય છે, તે એવની ચારિત્રારાધના ઉત્કૃષ્ટ
પણુ હોય છે, મધ્યમ પણુ હોય છે અને જઘન્ય પણુ હોય છે. તથા “ ઉક્કો-
સિયા ચરિત્તારાહણા, તસ્સ દંસણારાહણા નિયમા ઉક્કોસા ” ને એવની ચારિત્રા-
રાધના ઉત્કૃષ્ટ હોય છે, તે એવની દર્શનારાધના નિયમથી જ ઉત્કૃષ્ટ હોય છે
ઉત્કૃષ્ટ દર્શનારાધનાવાળા એવની ચારિત્રારાધના ત્રણે પ્રકારની હોઈ શકે છે
કારણ કે એવા એવમા ચારિત્રપાલનની દિશામાં ઉત્કૃષ્ટ, મધ્યમ અને જઘન્ય
પ્રયત્નોને સદ્ભાવ એવામાં આવે છે પરન્તુ ને એવ ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રારાધના-
વાળો હોય છે, તે ઉત્કૃષ્ટ દર્શનારાધનાવાળો જ હોય છે, કારણ કે ઉત્કૃષ્ટ
ચારિત્રારાધક એવ પ્રકૃષ્ટ દર્શનાનુગામી હોય છે,

भवारोपनापकाराणां फल मदर्शयितुमाह—‘उक्कोसिय ण भते ! णाणाराहण
 आराहेत्ता कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ, जाव अत्त करेइ ?’ गौतमः पूच्छति—हे
 भद्र ! उत्कृष्टां खलु ज्ञानाराधनाम् आराध्य-विषाय कतिमिः क्रियन्मिः भवग्रहणै-
 क्रियस्वरूपकैः भवग्रहणैस्त्विद्यैः सिध्यति जीव, यावत्-बुध्यते, मुच्यते, परिनि-
 र्वाति सर्षदुःखानामन्त करोति ? भगवानाह—‘गोयमा ! अत्थेगइए तेणेव भवमाहणेण
 सिज्झइ, जाव अत्त करेइ’ हे गौतम ! अस्त्येककः कश्चन मीवः उत्कृष्टां ज्ञानाराधना
 आराध्य उत्कृष्टचारिभारोपनायाः सख्ये तेनैव उपाधेनैव वर्धमानमवग्रहणेन सिध्यति,
 यावत् बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति सर्षदुःखानाम् अन्तं करोति च, ‘अत्थेगइए
 दोष्वेणं भवग्गहणेण सिज्झइ, जाव अत्त करेइ’ अस्त्येककः कश्चन जीवः उत्कृष्टां ज्ञाना-

अथ गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(उक्कोसिय ण भते ! णाणारा
 हणं आराहेत्ता कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ जाव अत्त करेइ) हे
 भद्रन्म ! जीव उत्कृष्ट ज्ञानाराधना को आराधित करके कितने भवों
 को ग्रहण करने के पाद सिद्ध होता है, यावत् समस्त दुःखों का अन्त
 करता है ? (यावत्) पद से यहाँ ‘बुध्यते, मुच्यते’ इन क्रियापदों
 का ग्रहण हुआ है। इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम !
 (अत्थेगइए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झइ, जाव अत्त करेइ) कोई एक
 जीव ऐसा होता है जो वसी गृहीत एक भय से उत्कृष्ट ज्ञानाराधना को
 आराधित करके उत्कृष्ट चारिभारोपना के सम्राव में सिद्ध होता है
 यावत् समस्त दुःखों का अन्त करता है। यहाँ पर भी यावत् शब्द से
 “सिध्यति, मुच्यते” इन क्रियापदों का ग्रहण हुआ है। (अत्थेगइए)
 तथा कोइएक जीव ऐसा होता है जो उत्कृष्ट ज्ञानाराधना को आराधित

गौतम स्वामीने भक्ष—(उक्कोसिय ण भते ! णाणाराहण आराहेत्ता
 कइहिं भवग्गहणे हिं सिज्झइ जाव अत्त करेइ) हे भद्रन्त ! उत्कृष्ट ज्ञाना
 राधनानुं आराधन करीने एव उट्ठा भव करीने सिद्धपद पाये छे पुद
 धाय छे, मुच्य धाय छे अने समस्त दुःखेने अत्त करे छे ? (अहो ‘यावत्
 पदधी ‘बुध्यते अने मुच्यत’ क्रियापदोने मद्धं करवामां आत्मां छे)
 भद्रावीर प्रभुने उत्तर—“गोयमा !” हे जीवम ! “अत्थेगइए तेणेव
 भवग्गहणेण सिज्झइ जाव अत्त करेइ” केअर्थ एव जेवे दोष छे के
 ने गृहीत जेक व भवमां उत्कृष्ट ज्ञानाराधनानुं आराधन करीने उत्कृष्ट
 चारिभारोपनाना सद्भावमां सिद्ध धाय छे पुद धाय छे मुच्य धाय छे अने
 समस्त दुःखेने अत्त करे छे ‘अत्थेगइए दोष्वेणं भवग्गहणेण सिज्झइ जाव
 अत्त करेइ” तथा केअर्थ एवे जेवा दोष छे के ने उत्कृष्ट ज्ञानाराधनानुं

राधनामाराध्य द्वितीयेन भवग्रहणेन सिध्यति, यावत्-बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति सर्वदुःखानामन्तं करोति च, 'अत्थेगइए कप्पोवएसु वा कप्पाईएसु वा उववज्जइ' हे गौतम! अस्त्येककः कश्चन जीवः उत्कृष्टां ज्ञानाराधनामाराध्य मध्यम चारित्रा-
राधनासत्त्वे कल्पोपपन्नकेषु वा सौधर्मादिदेवलोकेषु मध्ये उपपद्यते, कल्पातीतेषु वा देवलोकेषु ग्रैवेयकादिषु तु उत्कृष्टां ज्ञानाराधनामाराध्य मध्यमोत्कृष्टचारित्राराधना-
सत्त्वे उपपद्यते इति भावः, गौतमः पृच्छति—' उक्कोसियं णं भंते! दंसणाराहणं आरा-
हेत्ता कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ जाव अंतं करेइ ' हे भदन्त ! उत्कृष्टां खलु दर्शनाराधनाय आराध्य कतिभिः क्रियद्भिः भवग्रहणैः जीवः सिध्यति यावद् बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति सर्वदुःखानामन्तं करोति? इति प्रश्नः, भगवान्नाह—'एवंचेव'

करके (दोच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्झइ, जाव अंतं करेइ) द्वितीय भव धारण करके ही सिद्ध हो जाता है यावत् समस्त दुःखोंका नाश कर देता है। अर्थात् दूसरे मनुष्य भवमें सिद्ध हो जाता है। (अत्थेगइए कप्पो वएसु वा, कप्पाईएसु वा उववज्जइ) तथा कोईएक जीव ऐसा होता है जो उत्कृष्ट ज्ञानाराधना को आराधित करके मध्यम चारित्राराधना के सद्भावमें सौधर्मादिकल्पोपपन्नक देवलोकों में उत्पन्न होता है। अथवा ग्रैवेयक आदि कल्पातीत देवलोकों में उत्कृष्ट ज्ञानाराधना को आराधित करके मध्यम एवं उत्कृष्ट चारित्राराधना के सद्भाव में उत्पन्न होता है। अब गौतम ! प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं—(उक्कोसियं णं भंते ! दंसणाराहणं आराहेत्ता कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ, जाव अंतं करेइ) हे भदन्त ! जो जीव उत्कृष्ट दर्शनाराधना को आराधित करता है, वह कितने भवोंको लेने के बाद सिद्ध होता है यावत् समस्त दुःखों का

आराधन करीने भीजे लव धारणु करीने न सिद्ध, पुद्ध अने मुक्त थधने समस्त दुःखोने अंत करे छे, अेटले के भील मनुष्यभवमां सिद्ध थाय छे. (अत्थेगइए कप्पोवएसु वा, कप्पाईएसु वा उववज्जइ) डोछक एव अेवे डोय छे के ने उत्कृष्ट ज्ञानाराधना करीने मध्यम चारित्राराधनाना सहभावथी सौधर्म आदि कल्पोपपन्नक देवलोकोमां उत्पन्न थाय छे अथवा ग्रैवेयक आदि कल्पातीत देवलोकोमां—उत्कृष्ट ज्ञानाराधनानु आराधन करीने मध्यम अने उत्कृष्ट चारित्रा राधनाना सहभावथी उत्पन्न थध न्नाय छे

गौतम स्वामीने प्रश्न—(उक्कोसियं णं भंते ! दंसणाराहणं आराहेत्ता कइ हि भवग्गहणेहिं सिज्झइ जाव अंतं करेइ) हे भदन्त ! ने एव उत्कृष्ट दर्शनाराधनानु आराधन करे छे, ते डेटला लवे करीने सिद्ध थाय छे, पुद्ध थाय छे, मुक्त थाय छे अने समस्त दुःखोने अंत करे छे ?

हे गौतम ! एवमेव—ज्ञानाराधनावदेव अस्त्येकक कश्चन उत्कृष्टदर्शनाराधक
स्तेनैव मयप्रहणेन सिध्यति यावत् सर्वदुःस्वानामन्त करोति, इत्यादि पूर्ववदेव
सर्वं बोध्यम्, तद्भवसिद्ध्यादि च तस्यामुत्कृष्टदर्शनाराधनायां भवेत् चारित्रा-
राधनायास्तत्रोत्कृष्टायाः मध्यमायाश्चोक्तत्वात्, गौतमः पृच्छति—‘उक्कोसिपं च
मंते । चरिचाराहण आराहेत्ता फईहि मधग्गहणेहि सिज्झइ, जाव अंतं करेइ ?’ हे
मदन्त ! उत्कृष्टो खलु चारित्राराधनामाराध्य क्वचिभिः मयप्रहणै जीवाः सिध्यति
यावत् सर्वदुःस्वानामन्त करोति? इति मद्भनः, मगवानाह—‘एवं चैव’ एवमेव

अत करता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(एवं चैव) हे गौतम !
जैसा अभी ज्ञानाराधना के विषय में कहा गया है, वही तरह से यहाँ
पर भी जानाना चाहिये। अर्थात् उत्कृष्ट दर्शनाराधना को आराधित
करके कोईएक जीव ऐसा होता है जो वही गृहीत भव से सिद्ध होता
है याथम समस्त दुःखोंका अन्त कर देता है। कोईएक ऐसे होता है जो
द्वितीय भव में अर्थात् देवान्तरित दूसरे मनुष्य भव में सिद्ध होता है
यावत् समस्त दुःखोंका अन्त कर देता है। कोईएक जीव ऐसा भी होता
है जो उत्कृष्ट दर्शनाराधना को आराधित करके मध्यम चारित्राराधना
के सहाय में सौधर्माणि कल्पोपपन्नक देवलोकों में उत्पन्न हो जाता है।
अथवा मध्यम एव उत्कृष्ट चारित्राराधना के सहाय से उत्कृष्ट दर्शना-
राधनाको आराधित करके प्रैवेयकादि कल्याणीत देवलोकों में उत्पन्न हो
जाता है।

महावीर प्रभुने उत्तर—“एवंचैव” हे गौतम ! ने प्रभावे उत्कृष्ट
ज्ञानाराधनाना विषयमां दमज्जां कडेवामा भाव्युं ते, जेव प्रभावे अर्धी पय
समज्जुं जेव्हे ते उत्कृष्ट दर्शनाराधनानी आराधना करीने कौण्ठि एव
जुदीन भवमां च सिद्ध, पुद जने मुज्जा याव ते जने समस्त दुःखेनो अत
करे ते कौण्ठि एव जेवो पयुं दोव ते ते ने वीजे अच करीने—जेव्हे ते
देवान्तरित वीज भवमां सिद्ध, पुद जने मुज्जा याव ते जने समस्त
दुःखेनो अत करे ते कौण्ठि एव जेवो पयुं दोव ते ते ने उत्कृष्ट द्य
नाराधनानुं आराधन करीने मध्यम चारित्राराधनाना सहजावधी कौधर्माणि
इवेयपपत्ता देवदोकेमां उत्पत्त यइ जव ते जयरा मध्यम जने उत्कृष्ट
चारित्राराधनाना सहजावधी उत्कृष्ट द्यनाराधनानुं आराधन करीने प्रैवेय
आदि इवेयानीत देवदोकेमां उत्पत्त यइ जव ते

ज्ञानाराधनावदेव अस्त्येककः कश्चन जीवः ज्ञानस्य जघन्यायां सत्यामपि आराधनायाप् उत्कृष्टां चारित्राराधनामाराध्य तेनैव भवग्रहणेन सिध्यति, यावत् सर्वदुःखानामन्तं करोति, इत्यादि पूर्ववदेव सर्वं बोध्यम्, किन्तु 'नवरं अत्येगइए कर्पाईयएसु उववज्जइ' नवरं ज्ञानदर्शनाराधनापेक्षया चारित्राराधनायां विशेषस्तु अस्त्येककः कश्चनोत्कृष्टचारित्राराधनावान् जीवः कल्पातीतेषु ग्रैवेयकादिष्वेव देवलोकेषु उत्पद्यन्ते, नतु सौधर्मादिकल्पोपपन्नदेवलोकेषु, उत्कृष्टचारित्राराधना-

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(उक्कोसियं णं भंते ! चरित्तराहणं आराहेत्ता कहहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ, जाव अतं करेइ) हे भदन्त ! जो जीव उत्कृष्ट चारित्राराधना को आराधित करता है—वह जीव कितने भवों को धारण करनेके बाद सिद्ध होता है यावत् समस्त दुःखों का अन्त करता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(एवं चैव) हे गौतम ! ज्ञानाराधना की तरह यहां पर भी समझना चाहिये अर्थात्—ज्ञान की जघन्य भी आराधना हो परन्तु चारित्र की उत्कृष्ट आराधना को आराधित करके कोईएक जीव उसी गृहीत भव में सिद्ध होता है यावत् समस्त दुःखों का अन्त कर देता है इत्यादि पूर्व कथन के अनुसार यहां पर भी जानना चाहिये—(नवरं) परन्तु (अत्येगइए कर्पाईयएसु उववज्जइ) ज्ञानाराधना और दर्शनाराधना की अपेक्षा जो विशेषता यहां पर है वह ऐसी है कि—कोईएक उत्कृष्ट चारित्राराधना वाला जीव कल्पातीत ग्रैवेयक आदि देवलोकों में ही उत्पन्न होता है—सौधर्मादि कल्पोपपन्नक देवलोकों में नहीं। क्यों

गौतम स्वामीने प्रश्न—(उक्कोसियं णं भंते ! चरित्तराहणं आराहेत्ता कहहिं भवग्गहणे हिं सिज्झइ जाव अतं करेइ) हे भदन्त ! जे एव उत्कृष्ट चारित्राराधनानु आराधन करे छे, ते एव केटला लव करीने सिद्ध थाय छे, पुद्ध थाय छे, मुक्ता थाय छे अने समस्त दुःखेने अंत करे छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—“एवंचैव” हे गौतम ! आ विषयमा पणु ज्ञानाराधना प्रमाणे ज कथन समञ्जुं ओट्ठे के लखे ज्ञाननी जघन्य पणु आराधना डोय, परन्तु चारित्रनी उत्कृष्ट आराधनानु आराधन करीने डोयके एव ओज गृहीत लवमा सिद्ध थाय छे अने समस्त दुःखेने अंत करे छे, इत्यादि पूर्व कथनना जेपु ज कथन अर्ही पणु समञ्जु. “नवरं” परन्तु (अत्येगइए कर्पाईयएसु उववज्जइ) ज्ञानाराधना करता चारित्राराधनाना उत्कृष्ट आराधनाना विषयमा आ प्रमाणे विशेषता छे डोयके उत्कृष्ट चारित्राराधनावाणे एव कल्पातीत ग्रैवेयक आदि देवलोकेमां ज उत्पन्न थाय छे.

पतो जीवस्य सौधर्मादिकल्पोपपन्नकेषु देवलोकेषु गमनामावात्, अपितु कस्या
तीर्थेषु प्रैवेयकादियु एव उपपद्यते, सिद्धिगमनामावे तेषामनुचरसुरेषु गमनसङ्गा-
वात्। अय मध्यमाराधनामाभिस्य गौतम पृच्छति—'मज्झिमियं गं मंते ! पाणाराधन
आराहिषा कईहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ, भाव अंत करेइ ?' हे भदन्त ! मध्यमां स्तु
ज्ञानाराधनामाराध्य कतिमिः भवग्रहणे जीव सिध्यति, यावत्—पुध्यते मुच्यते,
परिनिर्वातिसर्षेदुःखानामन्त करोति ! इति प्रश्नः, भगवानाह—'गोयमा ! अत्येगइया दो
च्येण भवग्गहणेण मिज्झइ जाव अंत करेइ तथ पुणं भवग्गहणं नाइक्कमइ' हे गौ-
तम ! अत्येककः कश्चन जीव मध्यमां ज्ञानाराधनामाराध्य द्वितीयेन अधिष्ठतमनुष्य
कि उत्कृष्ट चारित्रिकी आराधनावाला जीव का सौधर्मादि कल्पोपपन्नक
देवलोकों में गमनका अभाव कहा गया है। उत्कृष्ट चारित्र्याराधना वाला
जीव को सिद्धि की प्राप्ति जयतक नहीं होती है—यह तपतक कल्पातीत
प्रैवेयकादिकों में या अनुत्तर देवों में उत्पन्न होता रहता है।

अय गौतम मध्यम आराधना को आश्रित करके प्रभु से ऐसा
पूछते हैं (मज्झिमियं गं मंते ! पाणाराधन आराहिषा कईहिं भव
ग्गहणेहिं सिज्झइ जाव अंत करेइ) हे भदन्त ! जीव मध्यम ज्ञाना
राधनाको आराधित करके कितने भवों को छेने के बाद सिद्ध होता है
यावत् समस्त दुःखों का अंत करता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं
(गोयमा) हे गौतम ! (अत्येगइया दोच्येणं भवग्गहणेण सिज्झइ,
जाव अंत करेइ, तच्च पुणं भवग्गहणं नाइक्कमइ) फोर्दणक जीव
ऐसा होता है जो मध्यमज्ञानाराधनाको आराधित करके अधिकृत मनुष्य

सौधर्मादि कल्पोपपन्न देवलोकों में उत्पन्न होते नहीं, कारण कि उत्कृष्ट चारित्रिकी
आराधनावाला एवमां सौधर्मादि कल्पोपपन्न देवलोकों में गमनना अभाव
होता है तथा मुभी चारित्र्याराधनावाला एवने सिद्धिनी प्राप्ति होती नहीं,
तथा मुभी ते कल्पातीत प्रैवेयकाभा अथवा तो अनुत्तरौपपातिक देवोभा न
उत्पन्न होते रहे है

द्वये औत्तम श्रामी मध्यम आराधनानी अनेशाये नीधेना प्रक्षो पूठे
उ—(मज्झिमियं गं मंते ! पाणाराधन आराहिषा कईहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ जाव
अंत करेइ) हे भदन्त ! एव मध्यम ज्ञानाराधनानु आराधन करीने केवल
भवे करीने सिद्ध भव उ अने गमनस्य दुःखोनेना अंत करे उ ?

भदानीर २ जुने उत्तर— गोयमा ! हे गौतम ! (अत्येगइया दोच्येणं
भवग्गहणं सिज्झइ जाव अंत करेइ तच्च पुणं भवग्गहणं नाइक्कमइ)
इति एव भवे। एव उ हे न मध्यम ज्ञानाराधनानु आराधन करीने

भवापेक्षया द्वितीयेन मनुष्यभवेनेत्यर्थः सिध्यति यावत्-बुध्यते, मुच्यते, परि-
निर्वाति सर्वदुःखानामन्त करोति च, तृतीयं पुनर्भवग्रहणम् अधिकृतमनुष्यभवग्रह-
णापेक्षया तृतीयमनुष्यभवग्रहणम् नातिक्रामति-नोल्लंघयति, अत्र ज्ञानाराधनाया
मध्यमत्वञ्चाधिकृतभवे एव निर्वाणभावात् इति बोध्यम्, भावे तु उत्कृष्टत्वमेवाव-
सेयमप्रत्यभाषित्वात्, निर्वाणाऽन्यथाऽनुपपत्तेः, गौतमः पृच्छति-‘ मज्झिमियं णं
भंते ! दंसणाराहणं आराहित्ता, एवं चेव । एवं मज्झिमियं चारित्ताराहणंपि’ हे भद्र-

भव की अपेक्षा से द्वितीय मनुष्यभव से सिद्ध होता है यावत् समस्त
दुःखों का अंत करता है । तृतीयभव का उल्लंघन नहीं करता है अर्थात्
देवभवान्तरित तीसरे मनुष्य भव में अवश्य मोक्ष में चला जाता है ।
यहां पर ज्ञानाराधना में जो मध्यमता प्रकट की गई है वह अधिकृत
मनुष्यभव में ही निर्वाण नहीं होने से प्रकट की गई है । यदि गृहीतभव
में ही आराधक जीव को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तो उस ज्ञाना-
राधना में मध्यमता न जानकर उत्कृष्टता ही जाननी चाहिये । क्यों कि
ज्ञान की उत्कृष्टता में ही निर्वाण की प्राप्ति होती है-और जब ज्ञाना-
राधनाराधक जीव को उसी गृहीत भव से मुक्ति प्राप्त हो चुकी है तो
उसके द्वारा आराधित वह ज्ञानाराधना “ निर्वाणान्यथानुपपत्तेः ” हेतु
से उत्कृष्ट ही मानी जावेगी

अब गौतम प्रश्न से ऐसा पूछते हैं-(मज्झिमियं णं भंते ! दंसणा-
राहणं आराहित्ता) हे भद्रन्त ! जो जीव मध्यम दर्शनाराधना को

अधिकृत मनुष्यभवनी अपेक्षासे द्वितीय मनुष्यभवमां सिद्ध थाय छे अने
समस्त दुःखानो अंत करे छे. ते एव तृतीयभवतुं उल्लंघन करतो नथी
ओटले के देवत्वान्तरित त्रीण मनुष्यभवमां अवश्य मोक्षे यात्यो जाय छे.
अर्ही ज्ञानाराधनामा ने मध्यमता प्रकट करवामां आवी छे ते अधिकृत मनुष्य-
भवमां निर्वाणनी प्राप्ति नही थवानी प्रकट करवामां आवी छे ने गृहीत
भवमां आराधक एवने निर्वाणनी प्राप्ति थयं जती छाय, तो ते ज्ञाना-
राधनामा मध्यमता न मानता उत्कृष्टता न मानवी लेथंओ, कारण के ज्ञाना-
राधनानी उत्कृष्टतानो सहलाव छाय त्यारे न निर्वाणनी प्राप्ति थाय छे. अने
ने ज्ञानाराधक एवने ओन गृहीत भव पूरे करीने मुक्तिनी प्राप्ति थयं चुकी
छाय तो तेना द्वारा आराधित ते ज्ञानाराधना “ निर्वाणान्यथानुपपत्तेः ” हेतुनी
दृष्टिसे उत्कृष्ट न मानवी पउथे.

गौतम स्वामीना प्रश्न--(मज्झिमियं णं भंते ! दंसणाराहणं आराहित्ता)

न्त । मध्यमां खलु दर्शनाराधनामाराध्य कतिभिः भवग्रहणं जीवः सिध्यति, यावत्
 पुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति सर्वदुःखानामन्तं करोति ? मगधानाह—एवञ्चैव-
 पूर्वोक्त मध्यमज्ञानाराधनावशेष मध्यमदर्शनाराधनमपि आराध्य अस्त्येककः कश्चन
 जीव द्वितीयमभवग्रहणेन सिध्यति यावत् सर्वदुःखानामन्तं करोति, किन्तु तृतीयं
 पुनर्भवग्रहणं नातिक्रामति, एवमेवोक्तरीत्या अस्त्येककः कश्चन जीव मध्यमां
 चारिशाराधनामपि आराध्य द्वितीयेन भवग्रहणेन सिध्यति, यावत् सर्वदुःखानामन्तं
 करोति, एताश्च मध्यमा उपर्युक्ता ज्ञानाधाराधनासम्बलिता चारिशाराधना एता
 त्रिविधसिता द्रष्टव्याः, अन्यथा अग्रे जघन्यज्ञानाराधनामाभिस्य वक्ष्यमाणस्य 'सप्त-
 दशमग्रहाणाह पुण आह्वयमति' इत्यस्यासंगत्यापत्तेः, यत्चारिशाराधनाया एव

आराधित करता है वह कितने भवोंके पाद सिद्ध होता है यावत् समस्त
 दुःखों का अंत करता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—हे गौतम !
 (एवं चैव) मध्यम दर्शनाराधना को आराधित करके कोईएक जीव
 द्वितीयभय में सिद्ध हो जाता है यावत् समस्त दुःखों का अंत कर देता
 हूँ—तृतीय भव को वह उल्लघन नहीं करता है । इसी तरह से कोईएक
 जीव मध्यम चारिशाराधना को आराधित करके द्वितीय भय में सिद्ध
 होता है यावत् समस्त दुःखोंका अंत करता है । तृतीय भव को वह उल्लं-
 घन नहीं करता है । यद्वा ये मध्यम ज्ञानादि आराधना और चारिशारा-
 धना मिली हुई ही विद्यक्षित हुई हैं ऐसा जानना चाहिये । नहीं तो
 फिर जो आगे जघन्य ज्ञानाराधना को लेकर (सप्तदशमग्रहाणाह पुण

हे भवन्त । मध्यम दर्शनाराधनानु आराधन करीने एव कटला भव करीने
 सिद्ध याव उ पुद्ध याव उ, मुक्त याव उ अने समस्त दुःखोने
 अंत करे उ ?

भद्रापीर प्रभुने उत्तर—“ एवं चैव ” मध्यम दर्शनाराधनानु आराधन
 करीने कौणिक एव जीव भवमां सिद्ध याव उ अने समस्त दुःखोने अंत
 करे उ ते त्रीलभवनु उल्लघन करतो नथी—जेटवे के त्रील भवमां तो
 अण्यथ निर्वाणु पाये उ जेच प्रभावे मध्यम चारिशाराधनानु आराधन
 करीने कौणिक एव जीव भवमां सिद्धया प.मे उ यावत् समस्त दुःखोने
 नाथ करे उ तेजो त्रील भवनु उल्लघन करतो नथी. जहाँ मध्यम ज्ञाना
 दि आराधना अने चारिशाराधनानु कथन जेक—सप्तपु ए जन्मवामा आभुं
 से, अम धमज्जु नहीं तो आगम जघन्य ज्ञानाराधनानी अपेक्षाजे
 “ सप्तदशमग्रहाणाह पुण आह्वयमति ” आ प्रभारतु जे कथन करेतामा आभुं

तत्फलस्य तत्रोक्तत्वात्, उक्तं च ' अदृभवाउचरित्ते ' च्चि चारित्र्ये जघन्यचारित्रा-
राधनायासु अदृभवायुर्भवतीति ।

अथ जघन्यज्ञानाद्याराधनामाश्रित्य गौतमः पृच्छति—'जहन्नियं णं भंते ! नाणा-
राहणं अराहित्ता, कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ, जाव अंतं करेइ ? हे भदन्त ! जघ-
न्याम् खलु ज्ञानाराधनामाराध्य कतिभिः भवग्रहणैः जीवः सिध्यति, यावत्-
बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति सर्वदुःखानामन्तं करोति ? भगवानाह—' गोयमा !
अत्येगइए, तच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्झइ जाव अंतं करेइ, सत्तदृभवग्गहणाइ पुण
नाइक्कमइ ' हे गौतम ! अस्त्येककः कश्चिज्जीवः तृतीयेन भवग्रहणेन सिध्यति

णाइक्कमइ) ऐसा जो कहा गया है सो उसकी संगति नहीं बैठ
सकेगी । क्यों कि चारित्र्याराधना का ही यह फल इस सूत्र द्वारा प्रकट
किया गया है । कहा भी है—(अदृभवाउचरित्ते) चारित्र्य जघन्य
चारित्र्याराधना में आठ भव होते हैं । अब जघन्य ज्ञानादिक आराधना
को आश्रित करके गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(जहन्नियं णं भंते !
नाणाराहणं अराहित्ता कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ जाव अंतं करेइ)
हे भदन्त ! जीव जघन्य ज्ञानाराधना को आराधित करके कितने भवों
के बाद सिद्ध होता है यावत् समस्त दुःखों का अंत करता है ? इसके
उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (अत्येगइए तच्चेणं भव-
ग्गहणं सिज्झइ, जाव अंतं करेइ) कोई जीव ऐसा होता है जो तृतीय
भव में सिद्ध होता है यावत् समस्त दुःखों का अंत करता है । (सत्तदृ
भवग्गहणाइ पुण नाइक्कमइ) मात आठ भवों का वह उल्लंघन नहीं

छे स संगत लागशे नहीं करणु के चारित्र्याराधनानुं ज ते इण आ सूत्र
द्वारा प्रकट करवामां आण्युं छे कल्लु पणु छे के—“ अदृभवाउचरित्ते ” जघन्य
चारित्र्याराधनामां आठ लव थाय छे.

डवे जघन्य ज्ञानादिकनी आराधनाने अनुलक्षिने गौतम स्वामी भडावीर
प्रभुने ज्येवे। प्रश्न पूछे छे के—(जहन्नियं णं भंते ! नाणाराहणं अराहित्ता कइहिं
भवग्गहणेहिं सिज्झइ जाव अंतं करेइ ?) हे भदन्त ! जघन्य ज्ञानाराधनानुं
आराधन करीने एव डेटला भव करीने सिद्ध थाय छे, पुद्ध थाय छे, मुक्ता
थाय छे अने समस्त दुःखेनो अंत करे छे ?

भडावीर प्रभुने। उत्तर—(गोयमा !) हे गौतम ! (अत्येगइए तच्चेणं
भवग्गहणेण सिज्झइ, जाव अंतं करेइ) डेअडि एव ज्येवे होय छे के जे
त्रीण लवमा सिद्ध थाय छे, पुद्ध थाय छे, मुक्ता थाय छे, अने समस्त
दुःखेनो अंत करे छे. (सत्तदृभवग्गहणाइ पुण नाइक्कमइ) सात आठ लवेनुं

न्व । मध्यमां गन्तुं दर्शनाराधनामाराध्य कतिभिः भवग्रहणैः जीव सिध्यति, यावत्
 पुष्यते, मृष्यते, परिनिर्वाति सर्वदुःखानामन्तं करोति ? मगवानाह—एवञ्चैव-
 पूर्वोक्त मध्यमज्ञानाराधनासद्वेव मध्यमदर्शनाराधनमपि आराध्य अस्त्येककः कश्चन
 जीव द्वितीयन भवग्रहणेन सिध्यति यावत् सर्वदुःखानामन्तं करोति, किन्तु तृतीयं
 पुनर्मध्यमं नातिक्रामति, एवमेवोक्तरीत्या अस्त्येककः कश्चन जीवः मध्यमां
 चारिभाराधनामपि आराध्य द्वितीयेन मध्यमग्रहणेन सिध्यति, यावत् सर्वदुःखानामन्तं
 करोति, एताश्च मध्यमा उपर्युक्ता ज्ञानाधाराधनासम्बन्धिता चारिभाराधना एषा
 प्रविशिता द्रष्टव्याः, अन्यथा अग्रे जघन्यज्ञानाराधनामाधित्य षडपमाणस्य 'सप्त-
 षडभगगाहणाइ पुण जाइकमति' इत्यस्यासंगत्यापत्तेः, यत्चारिभाराधनाया एव

आराधित करता है वह कितने भवोंके पाद सिद्ध होता है यावत् समस्त
 दुःखों का अन्त करता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—हे गौतम !
 (एव चैव) मध्यम दर्शनाराधना को आराधित करके कोईएक जीव
 द्वितीयभय में सिद्ध हो जाता है यावत् समस्त दुःखों का अन्त कर देता
 है—तृतीय भव को वह उच्छेदन नहीं करता है । इसी तरह से कोईएक
 जीव मध्यम चारिभाराधना को आराधित करके द्वितीय भय में सिद्ध
 होता है यावत् समस्त दुःखोंका अन्त करता है । तृतीय भय को वह उच्छे-
 दन नहीं करता है । यहाँ ये मध्यम ज्ञानादि आराधना और चारिभारा-
 धना मिली हुई ही विवक्षित हुई हैं ऐसा जानना चाहिये । नहीं तो
 फिर जो भागे जघन्य ज्ञानाराधना को लेकर (सप्तषडभगगाहणाइ पुण

के अन्त । मध्यम दर्शनाराधनाय आराधन करीने एव देखा एव करीने
 सिद्ध याव छे, पुद्ध याव छे, मुद्ध याव छे अने समस्त दुःखोना
 अन्त करे छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—“ एव चैव ” मध्यम दर्शनाराधनाय आराधन
 करीने केछेक एव जीव भवमां सिद्ध याव छे अने समस्त दुःखोना अन्त
 करे छे ते त्रीलभवनुं उच्छेदन करतो नही—जेटले के त्रील भवमां तो
 अन्वश्य निर्वाण पाये छे जेअ प्रभावे मध्यम चारिभाराधनाय आराधन
 करीने केछेक एव जीव भवमां सिद्धपद पाये छे यावत् समस्त दुःखोना
 नाश करे छे तेजो त्रील भवनुं उच्छेदन करतो नही. अहाँ मध्यम ज्ञान
 छे आराधना अने चारिभाराधनाय करत जेक—सबहु अ अन्ववामा आन्तुं
 छे, जेअ समस्तु नही तो आगत जघन्य ज्ञानाराधनायी अनेछाजे
 “ सप्तषडभगगाहणाइ पुण जाइकमति ” अय प्रकारनु जे कथन करवामां आन्तु

तत्फलस्य तत्रोक्तत्वात्, उक्तं च ' अद्भुतवाचचरित्ते ' ति चारित्र्ये जघन्यचारित्र्या-
राधनायाम् अष्टभवाद्युर्भवतीति ।

अथ जघन्यज्ञानाधाराधनामाश्रित्य गौतमः पृच्छति—'जहन्नियं णं भंते ! नाणा-
राहणं अराहिता, कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ, जाव अंतं करेइ ? हे भदन्त ! जघ-
न्याम् खलु ज्ञानाराधनामाराध्य कतिभिः भवग्रहणैः जीवः सिध्यति, यावत्-
बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति सर्वदुःखानामन्तं करोति ? भगवानाह—' गोयमा !
अत्येगइए, तच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्झइ जाव अंतं करेइ, सत्तद्भवग्गहणाइ पुण
नाइक्कमइ ' हे गौतम ! अस्त्येक्कः कश्चिज्जीवः तृतीयेन भवग्रहणेन सिध्यति

णाइक्कमइ) ऐसा जो कहा गया है सो उसकी संगति नहीं बैठ
सकेगी । क्यों कि चारित्र्याराधना का ही यह फल इस सूत्र द्वारा प्रकट
किया गया है । कहा भी है—(अद्भुतवाचचरित्ते) चारित्र्य जघन्य
चारित्र्याराधना में आठ भव होते हैं । अब जघन्य ज्ञानादिक आराधना
को आश्रित करके गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(जहन्नियं णं भंते !
नाणाराहणं अराहिता कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ जाव अंतं करेइ)
हे भदन्त ! जीव जघन्य ज्ञानाराधना को आराधित करके कितने भवों
के बाद सिद्ध होता है यावत् समस्त दुःखों का अंत करता है ? इसके
उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (अत्येगइए तच्चेणं भव-
ग्गहणं सिज्झइ, जाव अंतं करेइ) कोई जीव ऐसा होता है जो तृतीय
भव में सिद्ध होता है यावत् समस्त दुःखों का अंत करता है । (सत्तद्भव-
ग्गहणाइं पुण नाइक्कमइ) मात आठ भवों का वह उल्लंघन नहीं

छे स संगत लागशे नहीं कारखु के चारित्र्याराधनानु ञ ते इण आ सूत्र
दाश प्रकट करवामां आ०थुं छे. इधु पणु छे के—“ अद्भुतवाचचरित्ते ” जघन्य
चारित्र्याराधनामां आठ लव थाय छे

इवे जघन्य ज्ञानादिकनी आराधनाने अनुलक्षीने गौतम स्वामी महावीर
प्रभुने जेवो प्रश्न पूछे छे के—(जहन्नियं णं भंते ! नाणाराहणं अराहिता कइहिं
भवग्गहणेहिं सिज्झइ जाव अंतं करेइ ?) हे भदन्त ! जघन्य ज्ञानाराधनानुं
आराधन करीने एव डेटला लव करीने सिद्ध थाय छे, पुद्ध थाय छे, मुक्ता
थाय छे अने समस्त दु भोने अंत करे छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—(गोयमा !) हे गौतम ! (अत्येगइए तच्चेणं
भवग्गहणेणं सिज्झइ, जाव अंतं करेइ) डोईके एव जेवो होय छे के जे
त्रीण लवमा सिद्ध थाय छे, पुद्ध थाय छे, मुक्ता थाय छे, अने समस्त
दुःभोने अंत करे छे. (सत्तद्भवग्गहणाइं पुण नाइक्कमइ) सात आठ लवोनुं

યાચત્-પુષ્યતે, મુચ્યતે, પરિનિર્વાતિ, સર્વદુઃસ્વાનામન્તં કરોતિ કિન્તુ સપ્તા
 ઇમવપ્રહણાનિ પુનર્નાતિક્રામતિ, એવં ચ શ્રુતસમ્યક્ત્વદેશવિરતિમવાસ્ત્વસસ્યેયા
 રક્તા, તથાચારિત્રારાધના રહિતા જ્ઞાનદર્શનારાધના અસમ્યયેયમવિકા અપિ મર
 ન્તિ, ન ત્વઇમવિકા એવં 'એવં દમણારાહણં પિ, એવં ચરિત્રારાહણં પિ' એવં
 જઘન્યજ્ઞાનારાધનાયદેવ જઘન્યદર્શનારાધનાઽપિ વક્તવ્યા, તથા ચ-જઘન્યાં દર્શ
 નારાધનામારાધ્ય અસ્ત્યેકકઃ કશિષજ્ઞીવસ્તૃતીયેન મધ્યપ્રહણેન સિધ્યતિ, યાસ્ત
 પુષ્યતો, મુચ્યતે, સર્વદુઃસ્વાનામન્તં કરોતિ ચ, સપ્તાષ્ટમવપ્રહણાનિ ચ નાતિક્રા
 મતિ, એવમેષ અધર્મ્યાં ચારિત્રારાધનામપિ આરાધ્ય અસ્ત્યેકકઃ કમ્વન ધીરઃ
 સ્તૃતીયેન મધ્યપ્રહણેન સિધ્યતિ, યાવત્ પુષ્યતે મુચ્યતે, પરિનિર્વાતિ, સર્વ
 દુઃસ્વાનામન્તં કરોતીતિ માઠઃ ॥ સૂ. ૨ ॥

કરતા છે. એવં ચ શ્રુત સમ્યક્ત્વ એવં દેશવિરતિ સમયી મધ્ય તો પ્રસં
 ક્યાન કહે ગયે છે. હમ કારણ ચારિત્રારાધના સે રહિત જ્ઞાનદર્શનારા
 ધના અસંક્યાત મધ્યવાલી મી હતો છે. સાત આઠ મધ્યવાલી હી નહી
 હતો છે. (એવં દમણારાહણં પિ, એવં ચરિત્રારાહણં પિ) જઘન્ય જ્ઞાના
 રાધના કી તરહ હી જઘન્ય દર્શનારાધના મી કહલેની ચાહિયે. તથા ચ
 -જઘન્ય દર્શનારાધના કો આરાધિત કરકે કોઈ એક જીવ તૃતીય મધ્ય
 મેં સિદ્ધ થોતા છે યાચત્ સમસ્ત દુઃસ્વોં કા અંત કરતા છે. સાત આઠ
 યાચત્ સમસ્ત દુઃસ્વોંકા અંત કરતા છે. સાત, આઠ મધ્યોંકો વહ ઇલ્લં
 ઘા નહીં કરતા છે. હસી તરહ સે જઘન્ય ચારિત્રારાધનાકો મી આરા
 ધિત કરકે કોઈ એક જીવ તૃતીય મધ્ય મેં સિદ્ધ થોતા છે યાચત્ સમસ્ત
 દુઃસ્વોં કા અંત કરતા છે. યહાં સય જગહ (યાચત્) શબ્દ સે "પુષ્યતે
 મુચ્યતે" ઇન ક્રિયાપદોં કા મહણ હુઆ છે ॥ સૂ. ૨ ॥

તે ઉક્ત મત કરતો નથી શ્રુત, સમ્યક્ત્વ અને દેશવિરતિ અભી ભવ તો
 અસંખ્યાત કહ્યા છે તે કારણે ચારિત્રારાધનાથી રહિત જ્ઞાનદર્શનારાધના
 અસંખ્યાત ભવવાળી પણ કોય છે-સાત આઠ ભવવાળી ન કોતી નથી "એવં
 દમણારાહણં પિ, એવં ચરિત્રારાહણં પિ" જઘન્ય જ્ઞાનારાધના પ્રમાણે જ જઘન્ય
 દર્શનારાધના અને જઘન્ય ચરિત્રારાધનાનું જ્ઞાન પણ સમજવું એટલે કે
 જઘન્ય દર્શનારાધનાનું આરાધન કરીને કોઈક એવ ત્રીજા ભવમાં સિદ્ધ યાચ
 છે અને સમસ્ત દુઃખોને અંત કરે છે, એવો એવ સાત કે આઠ ભવનું
 ઉક્ત મત કરતો નથી. એજ પ્રમાણે જઘન્ય ચારિત્રારાધનાનું આરાધન કરીને
 કોઈક એવ ત્રીજા ભવમાં સિદ્ધ યાચ છે જુદ યાચ છે મુજબ યાચ છે અને
 સમસ્ત દુઃખોને અંત કરે છે એવો એવ સાત કે આઠ ભવનું ઉક્ત મત કરતો નથી
 અહીં અહીં જ્યાં "જાચ અંત કરે" સાથે વપરાયેલા જાય' પર દ્વારા
 'પુષ્યતે અને મુચ્યતે' વિશાધરોને બંધ કરવામાં આયાં છે ॥ સૂ. ૨ ॥

पुद्गलपरिणामवक्तव्यता

इतः पूर्वं जीवपरिणामः प्रोक्तः, परिणामाधिकारात् पुद्गलपरिणामवक्तव्यता-
माह—'कइविहे णं' इत्यादि ।

मूलम्—कइविहे णं भंते ! पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते ? गोयमा !
पंचविहे पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते, तं जहा वन्नपरिणामे १, गंधप-
रिणामे २, रसपरिणामे ३, फासपरिणामे ४, संठाणपरिणामे ५। वन्न-
परिणामे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ? पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा
कालवन्नपरिणामे, जात्र सुक्किल्लवन्नपरिणामे । एवं एएणं अभि-
लावेणं गंधपरिणामे दुविहे, रसपरिणामे पंचविहे, फासपरिणामे
अट्टुविहे, संठाणपरिणामे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा !
पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा-परिसंडलसंठाणपरिणामे जाव आय-
यसंठाणपरिणामे ॥ सू० ३ ॥

छाया—कतिविधः खलु भदन्त ! पुद्गलपरिणामः प्रज्ञप्तः ? गौतम ! पंचविधः
पुद्गलपरिणामः प्रज्ञप्तः, तद्यथा—वर्णपरिणामः १, गन्धपरिणामः २, रसपरिणामः ३,

पुद्गलपरिणाम वक्तव्यता—

(कइविहेणं भंते ! पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते) इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(कइविहेणं भंते ! पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते) हे भदन्त !
पुद्गल परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? (गोयमा) हे गौतम !
(पंचविहे पण्णत्ते) पुद्गल परिणाम पांच प्रकार का कहा गया है । (तं
जहा) जो इस प्रकार से है—(वन्नपरिणामे १, गंधपरिणामे २, रसप-
रिणामे ३, फासपरिणामे ४, संठाणपरिणामे ५) वर्णपरिणाम, गंधप-

पुद्गलपरिणाम वक्तव्यता—

“कइविहेण भंते ! पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते” इत्यादि—

सूत्रार्थ—(कइविहेण भंते ! पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते) हे भदन्त !
पुद्गलपरिणाम कितने प्रकार का कहा है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (पंचविहे
पण्णत्ते) पुद्गलपरिणाम पांच प्रकार का कहा है । (तंजहा) ते पांच प्रकार
नीचे प्रमाणों से—(वन्नपरिणामे, गंधपरिणामे, रसपरिणामे, फासपरिणामे, संठाण-

स्पर्शपरिणामः ४, सस्थानपरिणाम ५ । वर्णपरिणामः खलु भदन्त ! कठिविधः प्रहस्त
 गौतम । पञ्चविध प्रहस्तः, तद्यथा-कालवर्णपरिणामः, यावत् शुक्लवर्णपरिणामः,
 एवम् एतेन अभिलाषेण गन्धपरिणामो द्विविध प्रहस्तः, रसपरिणामः पञ्चविधः
 प्रहस्तः, स्पृशपरिणाम अल्पविध संस्थानपरिणामः खलु भदन्त ! कठिविधः,
 गौतम ! पञ्चविधः प्रहस्तः, तद्यथा-परिमण्डनसंस्थानपरिणामः यावत् आयतसं
 स्थानपरिणामः ॥ सू० ३ ॥

रिणाम रसपरिणाम स्पर्शपरिणाम और संस्थानपरिणाम (घण्टापरि
 णामेण भते ! कठिविधे पण्णसे) हे भदन्त ! वर्णपरिणाम किन्ने प्रकार
 का कहा गया है ? (पञ्चविधे पण्णसे) हे गौतम ! वर्णपरिणाम पाँच
 प्रकार का कहा गया है । (त जहा) जो इस प्रकार से है- (कालवर्णप
 रिणामे, जाय सुक्खिद्वयपरिणामे) कालवर्ण परिणाम यावत् शुक्लवर्ण
 परिणाम (एयं एण अभिलाषेण गन्धपरिणामे द्विविधे, रस परिणामे
 पञ्चविधे, फाम परिणामे अट्टपिठे) इसी प्रकार इसी अभिलाष से गन्ध
 परिणाम दो प्रकार का रस परिणाम पाँच प्रकार का, और स्पर्शपरि
 णाम आठ प्रकार का कहा गया है ऐसा जानना चाहिये । (संस्थानपरि
 णामे ण भते ! कठिविधे पण्णसे) हे भदन्त ! संस्थान परिणाम किन्ने प्रकार
 का कहा गया है ? (तोयमा) हे गौतम ! (पञ्चविधे पण्णसे) संस्थान
 परिणाम पाँच प्रकार का कहा गया है । (तं जहा-परिमण्डनसंस्थानपरि

परिणामे) (१) वज्रपरिणाम (२) गन्धपरिणाम, (३) रसपरिणाम (४) स्पृश
 परिणाम अने (५) संस्थान परिणाम (घण्टापरिणामेण भते ! कठिविधे
 पण्णसे) हे भदन्त ! वर्णपरिणामना हेतवा प्रकार इत्या उ ?

(पञ्चविधे पण्णसे-त जहा) हे गौतम ! वर्णपरिणामना नीचे प्रकार
 पाँच प्रकार इत्या उ- (कालवर्णपरिणाम, जाय सुक्खिद्वयपरिणामे) श्यामवर्ण
 परिणामापी ता ने शुक्लवर्ण परिणाम पानना पाँच वर्णपरिणामे अभिजात
 (एयं एण अभिलाषेण गन्धपरिणामे द्विविधे, रसपरिणामे पञ्चविधे, फामपरिणामे
 अट्टपिठे) आ प्रकारना अभिलाषादारा परिणाम ये प्रकार रसपरिणाम
 पाँच प्रकार, अने स्पृशपरिणाम आठ प्रकार के प्रकार आणु हे जेम
 अभिजात (संस्थानपरिणामे ण भते ! कठिविधे पण्णसे) हे भदन्त ! संस्थान-
 परिणामना हेतवा प्रकार इत्या उ ?

(तोयमा) हे गौतम ! (पञ्चविधे पण्णसे-त जहा) संस्थानपरिणाम
 नीचे प्रकार पाँच प्रकार इत्या उ- (परिमण्डनसंस्थानपरिणामे ण भते ! कठिविधे पण्णसे)

टीका—‘ कइविहे णं भंते ! पोग्गलपरिणामे पणत्ते ’ हे भदन्त ! कतिविधः खलु पुद्गलपरिणामः प्रज्ञप्तः ? भगवानाह—‘ गोयमा ! पंचविहे पोग्गलपरिणामे पणत्ते ’ हे गौतम ! पञ्चविधः पुद्गलपरिणामः प्रज्ञप्तः, ‘ तंजहा—वन्नपरिणामे १, गंधपरिणामे २, रसपरिणामे ३, फासपरिणामे ४, संठाणपरिणामे ५, ’ तद्यथा—वर्णपरिणामः १, गन्धपरिणामः २, रसपरिणामः ३, स्पर्शपरिणामः ४, संस्थानपरिणामश्च ५, तत्र यत् पुद्गलो वर्णान्तरत्यागाद् वर्णान्तरं प्राप्नोति असौ वर्णप-

णामे, जाय आद्यसंठाणपरिणामे) जो इस प्रकार से है—परिमण्डल संस्थानपरिणाम, यावत् आयतसंस्थानपरिणाम ।

टीकार्थ—इससे पहिले जीवपरिणाम कहा जा चुका है । परिणाम का अधिकार होने से सूत्रकार पुद्गलपरिणाम की वक्तव्यता कहते हैं—इसमेंसे गौतम ने प्रश्न ऐसा पूछा है—(कइविहे णं भंते ! पोग्गलपरिणामे पणत्ते) हे भदन्त ! पुद्गलपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? उत्तर में प्रश्न कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! (पंचविहे पोग्गलपरिणामे पणत्ते) पुद्गलपरिणाम पांच प्रकार का कहा गया है । (तंजहा जो इस तरह से है—(वन्नपरिणामे, गंधपरिणामे, रसपरिणामे, संठाणपरिणामे) वर्णपरिणाम, गंधपरिणाम, रसपरिणाम, स्पर्शपरिणाम और संस्थानपरिणाम—जो पुद्गल एक वर्ण के परित्याग से अन्यवर्ण को प्राप्त करता है वह वर्णपरिणाम है—इसी तरह से गंध आदि परिणामों को भी जानना चाहिये ।

परिणामे) परिमण्डल संस्थान परिणामथी लधने आयत संस्थान परिणाम पथन्तना पांय परिणाम अडी अडधु करवा

टीकार्थ—आ पडेलां एवपरिणामतु प्रतिपादन थध गयुं डवे परिणामने। अधिकार आलु डोवाधी सूत्रकार पुद्गलपरिणामतु निरूपणु करे छे—

गौतम स्वामी आ विषयने अनुलक्षिने भडावीर प्रभुने अवेो प्रश्न पूछे छे डे—(कइविहेणं भंते ! पोग्गलपरिणामे पणत्ते ?) डे भदन्त ! पुद्गल परिणामना डेटला प्रकार कइया छे ? भडावीर प्रभु तेने जवाग आपता कडे छे डे—(पंचविहे पोग्गलपरिणामे पणत्ते) डे गौतम ! पुद्गल परिणामना पांय प्रकार कइया छे “ तंजहा ” ते प्रकार नीचे प्रमाणे छे—“ वन्नपरिणामे ” वधु-परिणाम, “ रसपरिणामे ” रसपरिणाम, “ गंधपरिणामे ” गंधपरिणाम, “ फासपरिणामे ” स्पर्शपरिणाम अने “ संठाणपरिणामे ” संस्थान परिणाम ने पुद्गल ओक वधुने परित्याग करीने अन्य वधुने प्राप्त करे छे, ते परिणामने वधु परिणाम कडे छे ओज प्रमाणे गंध आदि परिणामो विसे पणु समजवु.

स्पर्शपरिणामः ४, सस्थानपरिणाम ५ । वर्णपरिणामः खलु भदन्त ! कतिचिः प्रहस्य
 गौतम ! पञ्चविधः प्रहस्य, तद्यथा—कालवर्णपरिणामः, यावत् शुक्लवर्णपरिणामः,
 एवम् एतेन अमिलापेन गन्धपरिणामो द्विविधः प्रहस्य, रसपरिणामः पञ्चविधः
 प्रहस्यः, स्पर्शपरिणामः अष्टविधः सस्थानपरिणामः खलु भदन्त ! कतिचिः,
 गौतम ! पञ्चविधः प्रहस्यः, तद्यथा—परिमण्डलसस्थानपरिणामः यावत् भावतसं
 स्थानपरिणामः ॥ सू० ३ ॥

रिणाम, रसपरिणाम स्पर्शपरिणाम और सस्थानपरिणाम (घण्टापरि
 णामेणं भते ! कइविहे पण्णसे) हे भदन्त ! वर्णपरिणाम किन्ने प्रकार
 का कहा गया है ? (पञ्चविहे पण्णसे) हे गौतम ! वर्णपरिणाम पाँच
 प्रकार का कहा गया है । (त जहा) जो इस प्रकार से है—(कालवर्णप
 रिणामे, जाय सुक्खिञ्जवणपरिणामे) कालवर्ण परिणाम यावत् शुक्लवर्ण
 परिणाम (एवं एवण अमिलापेणं गन्धपरिणामे दुविहे, रस परिणामे
 पञ्चविहे, फास परिणामे अट्टपिहे) इसी प्रकार इसी अमिलाप से गन्ध
 परिणाम दो प्रकार का रस परिणाम पाँच प्रकार का, और स्पर्शपरि
 णाम आठ प्रकार का कहा गया है ऐसा जानना चाहिये । (सठानपरि
 णामे णं भते ! कइविहे पण्णसे) हे भदन्त ! सस्थान परिणाम किन्ने प्रकार
 का कहा गया है ? (गोपमा) हे गौतम ! (पञ्चविहे पण्णसे) सस्थान
 परिणाम पाँच प्रकार का कहा गया है । (त जहा—परिमण्डलमठागपरि

परिणामे) (१) वज्र परिणाम (२) गन्धपरिणाम, (३) रसपरिणाम (४) स्पर्श
 परिणाम अने (५) सस्थान परिणाम । (घण्टापरिणामेणं मत ! कइ विहे
 पण्णसे ।) हे भदन्त ! वज्र परिणामना डेटवा प्रहार कया छै ?

(पञ्चविहे पण्णसे—तज्जहा) हे गौतम ! वज्र परिणामना नीचे प्रभावे
 पाँच प्रकार कया छै—(काष्ठममपरिणामे, जाव सुक्खिञ्जवणपरिणामे) रसामपञ्च
 परिणामथी छाने शुक्लवर्ण परिणाम यान्ताया पाँच वज्र परिणामे अमिलाप
 (एवं एवणं अमिलापेणं गन्धपरिणाम दुविह रसपरिणाम पञ्चविहे, स्पर्शपरिणामे
 अट्टपिहे) आ प्रहारना अमिलापद्वारा गन्धपरिणाम से प्रहारनु रसपरिणाम
 पाँच प्रकारनु अने स्पर्शपरिणाम आठ प्रकारनु कइगया आठनु छै अने
 सस्थान (परिणामे णं भते ! कइविहे पण्णसे) हे भदन्त ! सस्थान-
 परिणामना डेटवा प्रहार कया छै ?

(गोपमा ।) हे गौतम ! (पञ्चविहे पण्णसे तज्जहा) भदन्त एतन्मन्त्र
 नीचे प्रभावे पाँच प्रकार कया छै—(परिमण्डलमठागपरिणामे जाव अमिलापद्वारा—

टीका—' कइविहे णं भंते ! पोग्गलपरिणामे पणत्ते ' हे भदन्त ! कतिविधः खलु पुद्गलपरिणामः प्रज्ञप्तः ? भगवानाह—' गोयमा ! पंचविहे पोग्गलपरिणामे पणत्ते ' हे गौतम ! पञ्चविधः पुद्गलपरिणामः प्रज्ञप्तः, ' तंजहा—वन्नपरिणामे १, गंधपरिणामे २, रसपरिणामे ३, फासपरिणामे ४, संठाणपरिणामे ५, ' तद्यथा—वर्णपरिणामः १, गन्धपरिणामः २, रसपरिणामः ३, स्पर्शपरिणामः ४, संस्थानपरिणामश्च ५, तत्र यत् पुद्गलो वर्णान्तरत्यागाद् वर्णान्तरं प्राप्नोति असौ वर्णप-

णामे, जाव आग्रयसंठाणपरिणामे) जो इस प्रकार से है—परिमण्डल संस्थानपरिणाम, यावत् आयतसंस्थानपरिणाम ।

टीकार्थ—इससे पहिले जीवपरिणाम कहा जा चुका है । परिणाम का अधिकार होने से सूत्रकार पुद्गलपरिणाम की वक्तव्यता कहते हैं—इसमेंसे गौतम ने प्रभु ऐसा पूछा है—(कइविहे णं भंते ! पोग्गलपरिणामे पणत्ते) हे भदन्त ! पुद्गलपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! (पंचविहे पोग्गलपरिणामे पणत्ते) पुद्गलपरिणाम पांच प्रकार का कहा गया है । (तंजहा जो इस तरह से है—(वन्नपरिणामे, गंधपरिणामे, रसपरिणामे, संठाणपरिणामे) वर्णपरिणाम, गंधपरिणाम, रसपरिणाम, स्पर्शपरिणाम और संस्थानपरिणाम—जो पुद्गल एक वर्ण के परित्याग से अन्यवर्ण को प्राप्त करता है वह वर्णपरिणाम है—इसी तरह से गंध आदि परिणामों को भी जानना चाहिये ।

परिणामे) परिमण्डल संस्थान परिणामथी लधने आयत संस्थान परिणाम पर्यन्तना पाय परिणाम अडीं अडणु करवा

टीकार्थ—आ पडेलां एवपरिणामनुं प्रतिपादन थध गयुं डवे परिणामने अधिकार आलु डोवाधी सूत्रकार पुद्गलपरिणामनु निरूपणु करे छे—

गौतम स्वामी आ विषयने अनुलक्षीने मडावीर प्रलुने ओवेो प्रश्न पूछे छे के—(कइविहेणं भंते ! पोग्गलपरिणामे पणत्ते ?) हे भदन्त ! पुद्गल परिणामना डेटला प्रकार कइया छे ? मडावीर प्रलु तेना जवाम आपता डडे छे के—(पंचविहे पोग्गलपरिणामे पणत्ते) हे गौतम ! पुद्गल परिणामना पांच प्रकार कइया छे " तंजहा " ते प्रकारो नीचे प्रमाणे छे—' वन्नपरिणामे " वष्पु-परिणाम, " रसपरिणामे " रसपरिणाम, " गंधपरिणामे " गंधपरिणाम, " फासपरिणामे " स्पर्शपरिणाम अने " संठाणपरिणामे " संस्थान परिणाम जे पुद्गल ओक वष्पुने परित्याग करीने अन्य वष्पुने प्राप्त करे छे, ते परिणामने वष्पु परिणाम कहे छे ओज प्रमाणे गंध आदि परिणामो विधे पणु समजु.

रिणामः, एवमन्यऽपि घोष्या । गौतम पृच्छति—‘ पञ्चपरिणामे ण मंते ! क्वचिद्दे पण्णसे ? हे भवन्त ! वर्णपरिणामः खलु पचिविधः प्रकृतः ? मगवानाह—‘ गोयमा । पंचविद्दे पण्णसे ’ हे गौतम ! वर्णपरिणामः खलु पञ्चविधः प्रकृतः, ‘ तत्रा-
कालवन्नपरिणामे जाय सुबिह्वलवन्नपरिणामे ’ तद्यथा—कालवर्णपरिणामः १,
यावत् नीलवर्णपरिणाम २, लोहितवर्णपरिणामः ३, हरिद्रावर्णपरिणामः ४, शुक्ल
वर्णपरिणामश्च, ५ ‘ एवं एषण अभिजावेण गद्यपरिणामे दुबिद्दे, रसपरिणामे
पचविद्दे, फासपरिणामे अद्विविद्दे ’ एवमुक्त्वा एतेन वर्णत्रिपयकामिलापेन आसा

अथ गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(पञ्चपरिणामे ण मंते !
क्वचिद्दे पण्णसे) हे भवन्त ! वर्णपरिणाम कितने प्रकारका कहा गया है ?
उत्तरमें प्रभु कहते हैं—(पचविद्दे पण्णसे) हे गौतम ! वर्णपरिणाम पाँच
प्रकार का कहा गया है (तं जहा) जो इस तरह से है—(कालवन्नपरि-
णामे जाय सुबिह्वलवन्नपरिणामे) कालवर्णपरिणाम, यावत्-नीलवर्णप-
रिणाम, लोहित (लाल) वर्णपरिणाम, हरिद्रावर्णपरिणाम और शुक्ल
वर्णपरिणाम—(एवं एषण अभिजावेण गद्यपरिणामे दुबिद्दे, रसपरिणामे
पचविद्दे, फासपरिणामे अद्विविद्दे) उक्तरीतिके अनुसार इस वर्णत्रिपयक
अमिलाप-आलाप क्रम से गद्य परिणाम दो प्रकार का कहा गया है,
और यह सुरभि और दुर्गभि के भेद से दो प्रकार का होता है ।
तिक्त, फट्ट, कपाय, अम्ल और मधुर क भेद से रसपरिणाम पाँच
प्रकार का कहा गया है । कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, क्षीत, उष्ण, स्निग्ध
और सूक्ष्म के भेद से स्पर्शपरिणाम आठ प्रकार का कहा गया है ।

गौतम स्वामीने प्रश्न—‘ पञ्चपरिणामेण मंते ! क्वचिद्दे पण्णसे ? ’ हे
भवन्त ! पञ्चपरिणामना केटसा प्रकार कहा छे ?

भद्रापीर प्रभुने उत्तर—(गोयमा । पचविद्दे पण्णसे—तंजहा) पञ्चपरि-
णामना नीधे प्रभावे पांच प्रकार कहा छे—(कालवन्नपरिणाम जाय सुबिह्वल
परिणामे) (१) ग्याभवल्ल परिणाम (२) नीलवल्ल परिणाम, (३) लालवल्ल
परिणाम, (४) हरिद्रा (पीला) वल्ल परिणाम अने (५) शुक्लवल्ल परिणाम-
“ एवं एषण अभिजापणं गद्यपरिणामे दुबिद्दे रसपरिणामे पचविद्दे फासपरिणामे
अद्विविद्दे ” आ पचविधक अभिजाप (प्रभोत्तरो) ना कथयो गद्यपरिणाम मे
प्रकारेण इधु ७-१) सुरभिप्रथ अने (२) दुर्गभिप्रथ रसपरिणामना नीधे
प्रभावे पांच भेद कहा छे—नाजो, कडो, कपायो (गुरो), भाटो अने मधुर

पक्रमेण गन्धपरिणामो द्विविधः प्रज्ञप्तः सुरभिद्विसुरभिभेदात्, रसपरिणामः पञ्च-
विधः प्रज्ञप्तः, तिक्तकटुककषयास्लमधुरभेदात्, र्पशपरिणामः अष्टविधः प्रज्ञप्तः
कर्कशमृदुकगुरुकलघुकशीतोष्णस्निग्धरुक्षभेदात् ।

अथ संस्थानपरिणामं पृच्छति—‘ संठाणपरिणामे णं भंते । कइविहे पणत्ते ? ’
हे भदन्त ! संस्थानपरिणामः खलु कतिविधः प्रज्ञप्तः ? संस्थानम् आकारविशेषः
भगवानाह—‘ गोयमा ! पंचविहे पणत्ते ’ हे गौतम ! संस्थानपरिणामः पञ्चविधः
प्रज्ञप्तः, ‘ तंजहा-परिमंडलसंठाणपरिणामे जाव आययसंठाणपरिणामे ’ तद्यथा—
परिमण्डलसंस्थानपरिणामः, परिमण्डलसंस्थानं वलयाकारं मध्यशून्यं बोध्यम् १,
यावत्-वृत्तसंस्थानपरिणामः २, त्र्यस्रसंस्थानपरिणामः ३, चतुरस्रसंस्थानपरिणामः ४,

अथ गौतमस्वामी प्रश्नु से संस्थान परिणाम के विषय में पूछते हैं
(संठाणपरिणामेणं भंते ! कइविहे पणत्ते) हे भदन्त ! संस्थान परि-
णाम कितने प्रकार का कहा गया है ? इसके उत्तर में प्रश्नु कहते हैं—
(गोयसा) हे गौतम ! संस्थान परिणाम-आकार विशेष परिणाम पांच
प्रकार का कहा गया है—(तं जहा) जो इस प्रकार से है—(परिमंडल
संठाणपरिणामे, जाव आययसंठाणपरिणामे) परिमण्डलसंस्थानपरि-
णाम-मध्य में शून्य और वलय-चूडी के आकार जैसा परिणाम,
यावत्-वृत्तसंस्थान परिणाम, त्र्यस्रसंस्थानपरिणाम, चतुरस्रसंस्थानपरि-
णाम, और आयतसंस्थानपरिणाम, मोदक-लाडू के आकार जैसा जो
परिणाम है उसका नाम वृत्तसंस्थानपरिणाम है त्रिकोण-सिंघाडे के
आकार जैसा परिणाम का नाम त्र्यस्रसंस्थानपरिणाम है—चौकोरपरिणाम

कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध (सुंवाणुं) अने रुक्ष
(षडणयडुं) ना लेइथी र्पशपरिणामना आठ प्रकार कइया छे

इवे गौतम स्वामी संस्थान परिणामना विषयमां महावीर प्रश्नुने आ
प्रमाणे प्रश्न पूछे छे—(संठाणपरिणामेणं भंते ! कइविहे पणत्ते ?) हे भदन्त !
संस्थान परिणाम केटला प्रकारतुं कइछे छे ? तेनो उत्तर आपता महावीर प्रश्नु
कहे छे हे—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! संस्थान परिणामना-आकार विशेष परि-
णाम “पंचविहे पणत्ते-तंजहा” नीये प्रमाणे पांच प्रकार कइया छे—जे आ प्रमाणे
छे. (परिमंडलसंठाणपरिणामे जाव आययसंठाणपरिणामे) (१) परिमंडल संस्थान
परिणाम मध्यमा शून्य अने वलयना आकारतु-चूडीना आकारतुं परिणाम
(२) वृत्तसंस्थान परिणाम-लाडुना जेवा आकारना परिणामने वृत्तसंस्थान
परिणाम कहे छे (३) त्र्यस्रसंस्थान परिणाम-शिंघोडा जेवा आकारना परिणामने

नो द्रव्यं च द्रव्यदेशश्च, यावत् नो द्रव्याणि च द्रव्यदेशश्च, द्वौ भवन्त ! पुत्रस्त-
स्त्रिकायमदेशो किं द्रव्यम्, द्रव्यदेश पृच्छा ? तथैव, गौतम ! स्यात् द्रव्यम् १,
स्यात् द्रव्यदेशा २, स्यात् द्रव्याणि ३, स्यात् द्रव्यदेशा ४ स्यात् द्रव्यश्च द्रव्य
देशश्च ५, नो द्रव्यश्च, द्रव्यदेशश्च ६, शेषाः प्रतिषेद्धव्याः। प्रयो भवन्त ! पुत्रमा-
स्त्रिकायमदेशाः किं द्रव्य द्रव्यदेशः० ?-पृच्छा गौतम ! स्यात् द्रव्यम् १, स्यात्

द्रव्यरूप है, कथञ्चित् द्रव्यदेशरूप है, परन्तु यह अनेक द्रव्यरूप नहीं है,
अनेक द्रव्यदेशरूप नहीं है, द्रव्य और द्रव्यदेशरूप नहीं है और यावत्
यह अनेक द्रव्यरूप और अनेक द्रव्यदेशरूप नहीं है। (दो भंते !
पोग्गलत्तिकायपणमा किं द्रव्य द्रव्यदेशे पुच्छा तद्देव) हे भवन्त ! पुत्र-
लास्त्रिकाय के दो प्रदेश क्या एक द्रव्यरूप है १, या द्रव्यदेशरूप है ?
इत्यादि पूर्वोक्तरूप से यहाँ प्रश्नों का उद्गाहन कर लेना चाहिये। (गोयमा)
हे गौतम ! (मिय द्रव्य १ सिय द्रव्यदेशे २, सिय द्रव्याश्च ३ मिय द्रव्य
देशाश्च ४ सिय द्रव्य च द्रव्यदेशे य ५, नो द्रव्य च द्रव्यदेशा य ६ सेसा
पडिसेहेयव्या) पुत्रलास्त्रिकाय के दो प्रदेश कथञ्चित् एकद्रव्यरूप हैं ? १,
कथञ्चित् द्रव्यदेशरूप हैं २, कथञ्चित् अनेक द्रव्यरूप हैं ३, कथञ्चित् अनेक
द्रव्यदेशरूप हैं ४, कथञ्चित् एक द्रव्यरूप और एक द्रव्यदेशरूप है ५, पर
ये द्रव्य और अनेक द्रव्यदेशरूप नहीं हैं ६, याकी के समस्त विकल्पों
का यहाँ प्रतिषेध करना चाहिये। (तिसि भंते ! पोग्गलत्तिकायपणमा

पुत्रलास्त्रिकायने जेक प्रदेश क्यारिक द्रव्यरूप होय छे अने क्यारिक द्रव्यदेशरूप
पय होय छे परन्तु ते अनेक द्रव्यरूप नहीं अनेक द्रव्यदेशरूप पय नहीं
द्रव्य अने द्रव्यदेशरूप पय नहीं यावत् ते अनेक द्रव्यरूप अने अनेक द्र
देशरूप पय नहीं (दो भंते ! पोग्गलत्तिकायपणमा किं द्रव्य द्रव्यदेशे पुच्छा
तद्देव) हे भवन्त ! पुत्रलास्त्रिकायने जे प्रदेश छे जेक द्रव्यरूप छे ? हे द्रव्य
देशरूप छे ? इत्यादि प्रश्नों जहाँ पय पृच्छा जेधजे

“गोयमा !” हे गौतम ! (सिय द्रव्य सिय द्रव्यदेशे सिय द्रव्याश्च,
सिय द्रव्यदेशा, सिय द्रव्य च द्रव्यदेशे य, नो द्रव्य च द्रव्यदेशा य, शेषा पडि-
सेहेयव्या) (१) पुत्रलास्त्रिकायने जे प्रदेश क्यारिक जेक द्रव्यरूप होय छे,
(२) क्यारिक द्रव्यदेशरूप होय छे (३) क्यारिक अनेक द्रव्यरूप होय छे (४) क्यारिक
अनेक द्रव्यदेशरूप होय छे अने (५) क्यारिक जेक द्रव्यरूप अने जेक द्रव्य
देशरूप होय छे परन्तु तेजो द्रव्य अने अनेक द्रव्यदेशरूप होय नहीं
..... विधाने पय जहाँ स्त्रिकाय कथनां आये नहीं

द्रव्यदेशः २, एवं सप्त भङ्गा भणितव्याः, यावत् स्यात् द्रव्याणि च, द्रव्यदेशश्च, नो द्रव्याणि द्रव्यदेशाश्च, चत्वारो भदन्त ! पुद्गलास्तिकायप्रदेशाः किं द्रव्यम् ? पृच्छा, गौतम ! स्याद् द्रव्यम् १, स्याद् द्रव्यदेशः २, अष्टापि भङ्गाः भणितव्याः

किं द्रव्यं, द्रव्यदेसे० पुच्छा) हे भदन्त ! पुद्गलास्तिकाय के तीन प्रदेश क्या द्रव्यरूप हैं ? या एक द्रव्यदेशरूप हैं इत्यादि पूर्वोक्त रूप से यहां प्रश्नों का उद्गावन कर लेना चाहिये। (गोयमा) हे गौतम ! (सिय द्रव्यं १, सिय सव्वदेसे २, एवं सत्त भंगा भाणियव्वा) पुद्गलास्तिकाय के तीन प्रदेश कथंचित् एक द्रव्यरूप हैं, कथंचित् एक द्रव्यदेशरूप हैं ०, इस तरह से सात अंग कह लेना चाहिये। (जाव सिय दव्वाइं च दव्वदेसे य, नो दव्वाइ दव्वदेसा य) यावत् वे कथंचित् अनेक द्रव्यरूप और एक द्रव्यदेशरूप हैं। परन्तु वे अनेक द्रव्यरूप और अनेक द्रव्यदेशरूप नहीं हैं। (चत्तारि भंते ! पोग्गलत्थिकायपएसा किं दव्वं पुच्छा) हे भदन्त ! पुद्गलास्तिकाय के चार प्रदेश क्या द्रव्यरूप हैं ? इत्यादि पूर्वोक्तरूप से यहां प्रश्नों का उद्गावन कर लेना चाहिये। (गोयमा) हे गौतम ! (सिय दव्वं १ सिय दव्वदेसे २ अट्ट वि भंगा भाणियव्वा) पुद्गलास्तिकाय के चार प्रदेश कथंचित् एक द्रव्यरूप भी हैं ? कथंचित्

(तिन्नि भंते ! पोग्गलत्थिकायपएसा किं दव्वं, दव्वदेसे पुच्छा) हे भदन्त ! पुद्गलास्तिकायना त्रणु प्रदेशं शुं अेक द्रव्यरूपं छे ? के अेक द्रव्यदेशरूपं छे ? धत्थादि पूर्वोक्त प्रश्नो अर्डी पणु पूछना जेधये.

(गोयमा ।) हे गौतम ! (सिय दव्वं, सिय दव्वदेसे एवं सत्त भंगा भाणियव्वा) पुद्गलास्तिकायना त्रणु प्रदेशं क्यारेक अेक द्रव्यरूपं छेय छे, क्यारेक द्रव्यदेशरूपं छेय छे, आ प्रभाणु (जाव सिय दव्वाइं च दव्वदेसे य, नो दव्वाइं दव्वदेसा य) “ क्यारेक अनेक द्रव्यरूपं अने अेक द्रव्यदेशरूपं छेय छे ” थ्यां सुधीना सात विकल्पो कडेवा जेधये. परन्तु तेअो अनेक द्रव्यरूपं अने अनेक द्रव्यदेशरूपं छेयता नथी.

(चत्तारि भंते ! पोग्गलत्थिकायपएसा किं दव्वं पुच्छा) हे भदन्त ! पुद्गलास्तिकायना आर प्रदेशं शुं द्रव्यरूपं छे ? धत्थादि पूर्वोक्त प्रश्नो अर्डी पणु पूछना.

(गोयमा ।) हे गौतम ! (सिय दव्वं १, सिय दव्वदेसे, अट्ट वि भंगा भाणियव्वा) पुद्गलास्तिकायना आर प्रदेशं क्यारेक अेक द्रव्यरूपं छेय छे,

आयतसस्यानपरिणामश्च ५, तत्र वृत्तं नर्तुं लं मोदकाकारम्, स्वसं क्रिकोणम्,
चतुरस्रं चतुष्कोणम्, आयतम् वैर्ष्यमिति भाषा ॥ सू० ३ ॥

पुद्गलास्तिकायचक्रव्यता ।

पुद्गलाभिकारात्तद्विशेषपुद्गलास्तिकायचक्रव्यतामाह—' एगे भते ।'
इत्पादि ।

मूलम्—एगे भते । पोगलस्थिकायपणसे किं दव्व१, दव्वदेसे२,
दव्वाइ३, दव्वदेसा४, उदाहु दव्व च दव्वदेसे य५, उदाहु दव्व च
दव्वदेसा य६, उदाहु दव्वाइ च दव्वदेसे च ७, उदाहु दव्वाइ च
दव्वदेसा य८, गोयमा ! सिय दव्व, सिय दव्वदेसे, नो दव्वाइ,
नो दव्वदेसा, नोदव्वं च दव्वदेसे च जाव नोदव्वाइ च दव्व
देसा य । दो भते । पोगलस्थिकायपणसा किं दव्व दव्वदेसे
पुच्छा तहेव, गोयमा ! सिय दव्व१, सिय दव्वदेसे२, सिय
दव्वाइ३, सिय दव्वदेसा४, सिय दव्व च दव्वदेसे य५ नो
दव्व च दव्वदेसा य६, सेसा पडिसेहेयव्वा । तिल्लि भते । पोग
लस्थिकायपणसा किं दव्व दव्वदेसे०पुच्छा ? गोयमा ! सिय दव्व१,
सिय दव्वदेसे२, एव सत्त भगा भाणियव्वा, जाव सिय दव्वाइ च
दव्वदेसे य, नोदव्वाइ दव्वदेसा य, चत्तारि भते । पोगलस्थि-
कायपणसा किं दव्व ? पुच्छा, गोयमा । सियदव्व१, सियदव्व
देसे२, अट्ट विभगा भाणियव्वा जाव सिय दव्वाइ च दव्वदेसा

का नाम चतुरस्रमस्थानपरिणाम और क्षीपताहण-लट्टि के जैसा एम्पा
परिणाम का नाम आयतसस्यानपरिणाम है ॥ सू० ३ ॥

अत्रसस्यान परिणाम इति ॐ (५) चतुरस्रसस्यान परिणाम—यार भूवावाता
परिणामने चतुरस्रसस्यान परिणाम इति ॐ (५) आयतसस्यान परिणाम—
ताइयिना जया हीव (तामा) परिणामने आयतसस्यान परिणाम इति ॐ पसु, ३॥

यत्, जहा चत्तारि भणिया, एव पंच छ सत्त जाव असंखेजा,
अणंता भंते ! पोग्गलत्थिकायपएसा किं दव्वं० ? एवं चैव,
जाव सिय दव्वाइं च दव्वदेसा य ॥ सू०४ ॥

छाया—एको भदन्त ! पुद्गलास्तिकायप्रदेशः किं द्रव्यम् १, द्रव्यदेशः २,
द्रव्याणि ३, द्रव्यदेशाः ४, उताहो द्रव्यं च द्रव्यदेशश्च ५, उताहो द्रव्यं च
द्रव्यदेशश्च ६, उताहो द्रव्याणि च द्रव्यदेशश्च ७, उताहो द्रव्याणि च द्रव्यदेशश्च
८ ? गौतम ! स्यात् द्रव्यम्, स्यात् द्रव्यदेशः, नो द्रव्याणि, नो द्रव्यदेशाः,

॥ पुद्गलास्तिकाय वस्तव्यता ॥

‘ एगे भंते ! पोग्गलत्थिकायपएसे ’ इत्यादि ॥

सूत्रार्थ—(एगे भंते ! पोग्गलत्थिकायपएसे किं दव्वं, दव्वदेसे,
दव्वाइं, दव्वदेसा उदाहु दव्वं च दव्वदेसे य ५, उदाहु दव्वं च दव्वदेसा
य ६, उदाहु दव्वाइं च दव्वदेसे य ७, उदाहु दव्वाइ च दव्वदेसा य ८)
हे भदन्त ! पुद्गलास्तिकाय का एक प्रदेश क्या द्रव्यरूप है ? १, या
द्रव्यदेशरूप है ? २, या अनेक द्रव्यरूप है ? ३, अनेक द्रव्यदेशरूप है ?
४, अथवा द्रव्य और द्रव्यदेशरूप है ? ५, अथवा द्रव्य और अनेक
द्रव्यदेशरूप है ? ६, अनेक द्रव्य और एक द्रव्यदेशरूप है ? ७, अथवा—
अनेक द्रव्यरूप और द्रव्यदेशरूप है ८ ? (गोयमा) हे गौतम ! (सिय
दव्वं, सिय दव्वदेसे, नो दव्वाइं, नो दव्वदेसा, नो दव्वं च दव्वदेसे च,
जाव नो दव्वाइं च दव्वदेसा य) पुद्गलास्तिकाय का एक प्रदेश कथंचिन्

पुद्गलास्तिकाय वस्तव्यता—

“ एगे भंते ! पोग्गलत्थिकायपएसे ” इत्यादि—

सूत्रार्थ—(एगे भंते ! पोग्गलत्थिकायपएसे किं दव्वं, दव्वदेसे, दव्वाइं,
दव्वदेसा, उदाहु, दव्वं य, दव्वदेसे य ५, उदाहु दव्वं य दव्वदेसा य ६, उदाहु
दव्वाइं य दव्वदेसे य ७, उदाहु दव्वाइं य दव्वदेसा य ८) हे भदन्त ! पुद्गलास्तिकाय
कायनेो ओक प्रदेश (१) शु द्रव्यरूप छे ? के (२) द्रव्य देशरूप छे ? के (३)
अनेक द्रव्यरूप छे ? के (४) अनेक द्रव्य देशरूप छे ? अथवा (५) द्रव्य अने
द्रव्य देशरूप छे ? (६) द्रव्य अने अनेक द्रव्यदेशरूप छे ? अथवा (७) अनेक
द्रव्य अने ओक द्रव्यदेशरूप छे ? (८) अनेक द्रव्यरूप अने अनेक द्रव्यदेशरूप छे ?
“ गोयमा । ” हे गौतम ! (सिय दव्वं, सिय दव्वदेसे, नो दव्वाइं, नो
दव्वदेसा, नो दव्वं य दव्वदेसे य, जाव नो दव्वाइं य दव्वदेसाय) हे गौतम !

नो द्रव्यं च द्रव्यदेशश्च, यावत् नो द्रव्याणि च द्रव्यदेशाश्च, इती मवन्त । पुत्र-
स्तिकायप्रदेशो किं द्रव्यम्, द्रव्यदेशं पृच्छा ? तथैव, गौतम ! स्यात् द्रव्यम् १,
स्यात् द्रव्यदेशा २, स्यात् द्रव्याणि ३, स्याद् द्रव्यदेशा ४, स्याद् द्रव्यश्च द्रव्य-
देशश्च ५, नो द्रव्यश्च, द्रव्यदेशाश्च ६, शेषा प्रतिपेक्ष्यामः । प्रयो मवन्त । पुत्र-
स्तिकायप्रदेशाः किं द्रव्यं द्रव्यदेशाः ० ?—पृच्छा, गौतम ! स्यात् द्रव्यम् १, स्यात्

द्रव्यरूप है, कथंचित् द्रव्यदेशरूप है, परन्तु यह अनेक द्रव्यरूप नहीं है,
अनेक द्रव्यदेशरूप नहीं है, द्रव्य और द्रव्यदेशरूप नहीं है और यावत्
यह अनेक द्रव्यरूप और अनेक द्रव्यदेशरूप नहीं है । (दो भते !
पोग्गलत्थिकायपपसा किं द्रव्यं द्रव्यदेशे पृच्छा तद्देव) हे भवन्त ! पुत्र-
स्तिकाय के दो प्रदेश क्या एक द्रव्यरूप है १, या द्रव्यदेशरूप है ?
इत्यादि पूर्वोक्तरूप से यहाँ प्रश्नों का उद्गायन कर लेना चाहिये । (गोपमा)
हे गौतम ! (मिय द्रव्य १ सिय द्रव्यदेशे २, सिय द्रव्याश्च ३ मिय द्रव्य-
देशाश्च ४ मिय द्रव्यश्च द्रव्यदेशे ५ नो द्रव्यश्च द्रव्यदेशाश्च ६ सेषा
प्रतिपेक्ष्यामः) पुत्रस्तिकाय के दो प्रदेश कथंचित् एकद्रव्यरूप हैं ? १,
कथंचित् द्रव्यदेशरूप हैं २, कथंचित् अनेक द्रव्यरूप हैं ३, कथंचित् अनेक
द्रव्यदेशरूप हैं ४, कथंचित् एक द्रव्यरूप और एक द्रव्यदेशरूप हैं ५, या
वे द्रव्य और अनेक द्रव्यदेशरूप नहीं हैं ६, याकी क समस्त विकल्पों
का यहाँ प्रतिपेक्ष करना चाहिये । (निमि भते ! पोग्गलत्थिकायपपसा

पुत्रस्तिकायने ज्येष्ठ प्रदेश द्वारिक द्रव्यरूप दोष्ये ते अने द्वारिक द्रव्यदेशरूप
पञ्च दोष्ये ते परन्तु ते अनेक द्रव्यरूप नथी अनेक द्रव्यदेशरूप पञ्च नथी
द्रव्य अने द्रव्यदेशरूप पञ्च नथी, यावत् ते अनेक द्रव्यरूप अने अनेक द्र-
व्यदेशरूप पञ्च नथी (दो भते ! पोग्गलत्थिकायपपसा किं द्रव्यं द्रव्यदेशे पृच्छा
तद्देव) हे भवन्त ! पुत्रस्तिकायने ज्येष्ठ प्रदेश शु ज्येष्ठ द्रव्यरूप है ? है द्रव्य-
देशरूप है ? द्वारिक प्रश्नों अर्थात् पञ्च पृच्छा ज्येष्ठे ।

“ गोपमा ! ” हे गौतम ! (मिय द्रव्य सिय द्रव्यदेशे सिय द्रव्याश्च,
सिय द्रव्यदेशा मिय द्रव्यश्च द्रव्यदेशे य नो द्रव्यं च द्रव्यदेशमा य, सेषा प्रति-
पेक्ष्यामः) (१) पुत्रस्तिकायने ज्येष्ठ प्रदेश द्वारिक ज्येष्ठ द्रव्यरूप दोष्ये ते
(२) द्वारिक द्रव्यदेशरूप दोष्ये ते (३) द्वारिक अनेक द्रव्यरूप दोष्ये ते, (४) द्वारिक
अनेक द्रव्यदेशरूप दोष्ये ते अने (५) द्वारिक ज्येष्ठ द्रव्यरूप अने ज्येष्ठ द्रव्य-
देशरूप दोष्ये ते परन्तु तेजो द्रव्य अने अनेक द्रव्यदेशरूप दोष्ये ते नथी
याकीना समस्त विकल्पोंने पञ्च अर्थात् पृच्छा द्वारिक आये नथी ।

द्रव्यदेशः २, एवं सप्त भङ्गा भणितव्याः, यावत् स्यात् द्रव्याणि च, द्रव्यदेशश्च,
नो द्रव्याणि द्रव्यदेशाश्च, चत्वारो भदन्त ! पुद्गलास्तिकायप्रदेशाः किं द्रव्यम् ?
पृच्छा, गौतम ! स्याद् द्रव्यम् १, स्याद् द्रव्यदेशः २, अष्टापि भङ्गाः भणितव्याः

किं द्रव्यं, द्रव्यदेशे० पुच्छा) हे भदन्त ! पुद्गलास्तिकाय के तीन प्रदेश
क्या द्रव्यरूप हैं ? या एक द्रव्यदेशरूप हैं इत्यादि पूर्वोक्त रूप से यहां
प्रश्नों का उद्भावन कर लेना चाहिये । (गोयमा) हे गौतम ! (सिय
द्रव्यं १, सिय सव्वदेशे २, एवं सत्त भंगा भाणियव्वा) पुद्गलास्तिकाय
के तीन प्रदेश कथंचित् एक द्रव्यरूप हैं, कथंचित् एक द्रव्यदेशरूप हैं २,
इस तरह से सात भंग कह लेना चाहिये । (जाव सिय दव्वाइं च दव्व-
देशे य, नो दव्वाइं दव्वदेशा य) यावत् वे कथंचित् अनेक द्रव्यरूप
और एक द्रव्यदेशरूप हैं । परन्तु वे अनेक द्रव्यरूप और अनेक द्रव्यदे-
शरूप नहीं हैं । (चत्तारि भन्ते ! पोग्गलत्थिकायपएसा किं दव्वं पुच्छा)
हे भदन्त ! पुद्गलास्तिकाय के चार प्रदेश क्या द्रव्यरूप हैं ? इत्यादि
पूर्वोक्तरूप से यहां प्रश्नों का उद्भावन कर लेना चाहिये । (गोयमा) हे
गौतम ! (सिय दव्वं १ सिय दव्वदेशे २ अट्ट वि भंगा भाणियव्वा)
पुद्गलास्तिकाय के चार प्रदेश कथंचित् एक द्रव्यरूप भी हैं ? कथंचित्

(तिन्नि भन्ते ! पोग्गलत्थिकायपएसा किं दव्वं, दव्वदेशे पुच्छा) हे भदन्त !
पुद्गलास्तिकायना त्रसु प्रदेशं शुं अेकं द्रव्यरूपं छे ? के अेकं द्रव्यदेशरूपं छे ?
इत्यादि पूर्वोक्त प्रश्नो अर्ही पणु पृच्छवा लेधये.

(गोयमा !) हे गौतम ! (सिय दव्वं, सिय दव्वदेशे एवं सत्त भंगा
भाणियव्वा) पुद्गलास्तिकायना त्रसु प्रदेशं क्यारेकं अेकं द्रव्यरूपं छेय छे, क्यारेकं
द्रव्यदेशरूपं छेय छे, आ प्रभाणु (जाव सिय दव्वाइं च दव्वदेशे य, नो
दव्वाइं दव्वदेशा य) “ क्यारेकं अनेकं द्रव्यरूपं अने अेकं द्रव्यदेशरूपं छेय
छे ” त्या सुधीना सात विकल्पो कडेवा लेधये. परन्तु तेअो अनेकं द्रव्यरूपं
अने अनेकं द्रव्यदेशरूपं छेयता नथी.

(चत्तारि भन्ते ! पोग्गलत्थिकायपएसा किं दव्वं पुच्छा) हे भदन्त !
पुद्गलास्तिकायना आर प्रदेशं शुं द्रव्यरूपं छे ? इत्यादि पूर्वोक्त प्रश्नो अर्ही
पणु पृच्छवा.

(गोयमा !) हे गौतम ! (सिय दव्वं १, सिय दव्वदेशे, अट्ट वि भंगा
भाणियव्वा) पुद्गलास्तिकायना आर प्रदेशं क्यारेकं अेकं द्रव्यरूपं छेय छे,

યાવત્ સ્યાત્ દ્રવ્યાણિ ચ દ્રવ્યવેદ્યામ્ ૮, યથા ચત્વારો મણિશા પૃથ પથ, ૫દ્, સમ, યાવત્ અસચ્ચેપા । અનન્તાઃ મદન્ત ! પુદ્ગલાસ્તિકાપમદ્શાઃ કિં દ્રવ્યં ? ।
 एषमेव यावत् स्यात् द्रव्याणि च, द्रव्यवेद्याम् ॥ सू० ४ ॥

દ્રવ્યવેદ્યારૂપ 'મી' હૈં' હત્યાદિ પૂર્વોક્ત રૂપ સે યહાં આઠ મંગ કહના ચાહિયે ।
 યાવત્ વે (સિય વચ્ચાઈ ચ દવ્યવેદ્યામ્ ય ૮) કયચિત્ અનેક દ્રવ્યરૂપ
 મી હૈં' ઓર અનેક દ્રવ્યવેદ્યારૂપ મી હૈં' (જહા ચત્વારિ મણિયા, પૃથ પથ,
 ૫, સમ, જાવ અસચ્ચેપા) જિસ તરહ સે યે પુદ્ગલાસ્તિકાપ કે ચાર
 પ્રવેશા કહે ગયે હૈં, વસી તરહ સે પાથ, છદ્, માત યાવત્ અસચ્ચ પ્રવેશ
 મી કહ લેના ચાહિયે (અણતા મંતે । પોગલત્પિકાપપરસા કિં દ્રવ્ય ?)
 હૈં મદન્ત ! પુદ્ગલાસ્તિકાપ કે અનંતપ્રવેશ કયા દ્રવ્યરૂપ હૈં ? હત્યાદિ
 પૂર્વોક્ત રૂપ સે યહાં પ્રશ્નો કા ઉત્તરબન કર લેના ચાહિયે । (પૃથ વેચ
 જાવ સિય વચ્ચાઈ ચ દવ્યવેદ્યામ્ ય) હૈં ગૌતમ ! પુદ્ગલાસ્તિકાપ કે અનંત
 પ્રવેશા યાવત્ કયચિત્ અનેક દ્રવ્યરૂપ મી હૈં' ઓર કયચિત્ અનેક દ્રવ્યવેદ્યા
 રૂપ મી હૈં'—હસ તરહસે સમસ્ત કથન યહાં પૂર્વોક્તરૂપસે જાનના ચાહિયે ।

ટીકાર્થ—પુદ્ગલ કા અધિકાર હોને સે પુદ્ગલવિશેષરૂપ પુદ્ગલાસ્તિ
 કાપ પ્રવેશા કી ચક્તચ્યતા કા કથન હસ સુત્ર ઘારા સુત્રકાર ને કિયા હૈં

અને ક્યારેક દ્રવ્યવેદ્યરૂપ પથ હોય છે આ પ્રમાણે (સિયવચ્ચાઈ ચ દવ્યવેદ્યામ્ ય) “ ક્યારેક અનેક દ્રવ્યરૂપ અને અનેક દ્રવ્યવેદ્યરૂપ પથ હોય છે ” આ
 આકામાં વિકલ્પ પચન્તના બધા નિરુપ્યોના બહી સ્વીકાર કરવામા આવ્યો છે
 (જહા ચત્વારિ મણિયા પૃથ પથ ૫ ૫૫ જાવ અસચ્ચેપા) કે પ્રશ્ને
 પુદ્ગલાસ્તિકાપના ચાર પ્રવેશના વિષયમા કહેવામા આવ્યું છે એજ પ્રમાણે
 પથ, ૫ સાત અને અસચ્ચાત પચન્તના પ્રવેશ વિષે પથ સમજવું (અણતા
 મંતે । પોગલત્પિકાપપરસા કિં દ્રવ્ય હત્યાદિ ?) કે મદન્ત ! પુદ્ગલાસ્તિકાપના
 અનેક પ્રવેશ શું દ્રવ્યરૂપ છે ? હત્યાદિ આઠ વિકલ્પો બહી પથ પ્રશ્નપે પ્રકલ્પ
 કરવા (પૃથવેચ—જાવ સિય વચ્ચાઈ ચ દવ્યવેદ્યામ્ ય) કે ગૌતમ ! પુદ્ગલાસ્તિ
 કાપના અનંત પ્રવેશ વિષયક સમસ્ત કથન એજ પ્રમાણે સમજવું ‘ પુદ્ગલા
 સ્તિકાપના અનંત પ્રવેશો ક્યારેક અનેક દ્રવ્યરૂપ અને અનેક દ્રવ્યવેદ્યરૂપ
 પથ હોય છે ” આ આકામા કાજ પચન્તના આઠે કામેના બહી સ્વીકાર
 કરવામા આવ્યો છે એમ સમજવું

ટીકાર્થ—પુદ્ગલને અધિકાર વાલી શહો છે તેથી પુદ્ગલ વિશેષરૂપ પુદ્ગ
 લાસ્તિકાપ પ્રવેશની સૂત્રકારે આ સૂત્ર ઘારા પ્રવેશવા કરી છે આ વિષયને

टीका—‘ एगे भंते ! पोग्गलत्थिकायप्पएसे किं दव्वं ? ’ गौतमः पृच्छति—
हे भदन्त ! एकः पुद्गलास्तिकायप्रदेशः पुद्गलास्तिकायस्य एकाणुकादिपुद्गलराशेः
प्रदेशः—निरंशोऽगः पुद्गलास्तिकायप्रदेशः परमाणुरूपः किं द्रव्यम्—गुणपर्याययोगि
वर्तते ? ‘ किं वा—‘ दव्वदेसे २, दव्वाइं ३, दव्वदेसा ४, ’ द्रव्यदेशो द्रव्यावयवो
वर्तते, अथवा द्रव्यप्रदेशा वा ? वर्तते, इत्येवमेकत्ववहुत्वाभ्यां चत्वारः प्रत्येकं
विकल्पा भवन्ति, एवं द्विकसंयोगेऽपि चतुरो विकल्पान् प्रशयति—‘ उदाहु दव्वं
च दव्वदेसे य ५ ’ उताहो अथवा उक्तपरमाणुरूपः पुद्गलास्तिकायप्रदेशः किं

इसमें गौतम ने प्रश्न से ऐसा पूछा है—(एगे भंते ! पोग्गलत्थिकायप्पएसे
किं दव्वं) हे भदन्त ! पुद्गलास्तिकाय का एक प्रदेश—एक परमाणु आदि
वाली पुद्गलराशिका—निरंश अंश रूप एक प्रदेश एक पुद्गल परमाणु—क्या
द्रव्यरूप है—गुणपर्यायवाला है। “ गुण पर्यायवद्द्रव्यम् ” ऐसा द्रव्य का
लक्षण है अतः जिसमें गुण और पर्याय पाये जाते हैं वह द्रव्य है सो
क्या पुद्गलास्तिकाय का एक परमाणुरूप प्रदेश द्रव्यरूप है ? या “ दव्व-
देसे २ ” द्रव्य का एक अवयवरूप है ? (दव्वाइं) दव्वदेसा ” या वह
अनेक द्रव्यरूप है ? या द्रव्य के अनेक अवयवरूप है ? इस तरह से
एकत्व को लेकर २ विकल्प और अनेकत्व को लेकर २ विकल्प इस
प्रकार ये ४ विकल्प यहां किये गये हैं। इनमें से द्विक संयोग को लेकर
अब और ४ विकल्प इस प्रकार से पूछे गये हैं—क्या वह पुद्गलास्तिकाय
का एक प्रदेश (उदाहु दव्व दव्वदेसे य) एक द्रव्यरूप भी है—गुणपर्या-

अनुलक्षीने गौतम स्वामी महावीर प्रभुने એવો પ્રશ્ન પૂછે કે—(एगे भंते !
पोग्गलत्थिकायप्पएसे किं दव्वं) हे भदन्त ! पुद्गलास्तिकायने એક પ્રદેશ—એક
પરમાણુ આદિવાળી પુદ્ગલ રાશિના નિરંશ અશરૂપ એક પ્રદેશ—એક પુદ્ગલ
પરમાણુ—શું દ્રવ્યરૂપ છે (ગુણ પર્યાયવાળો છે) ? “ગુણપર્યાયવદ્દ્રવ્યમ્” આ
પ્રકારનું દ્રવ્યતું લક્ષણ છે જેમા ગુણ અને પર્યાયનો સદ્ભાવ હોય છે, તેને
દ્રવ્ય કહે છે અહીં એવો પ્રશ્ન પૂછવામા આવ્યો છે કે “ શું પુદ્ગલાસ્તિકાયને
એક પરમાણુરૂપ પ્રદેશ દ્રવ્યરૂપ છે ? કે “ દવ્વદેસે ” “ દ્રવ્યના એક અવયવ
રૂપ છે ? ” “ દવ્વાઈં, દવ્વદેસા ? ” કે “ તે અનેક દ્રવ્યરૂપ છે ? ” કે “ તે
દ્રવ્યના અનેક અવયવરૂપ છે ? ” આ પ્રમાણે એકત્વની અપેક્ષાએ બે વિકલ્પ
અને અનેકત્વની અપેક્ષાએ બે વિકલ્પ મળીને ચાર વિકલ્પ બન્યા છે હવે
દ્વિક સંયોગની અપેક્ષાએ બે ચાર વિકલ્પ થાય છે, તેમને વિષે આ પ્રમાણે
પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે—“ શું તે પુદ્ગલાસ્તિકાયને એક પ્રદેશ “ ઉદાહુ
દવ્વં દવ્વદેસે ય ? ” એક દ્રવ્યરૂપ પણ છે (ગુણપર્યાયવાળી છે) અને દ્રવ્યના

द्रव्यं च गुणपर्याययोगि, द्रव्यप्रदेशश्च द्रव्यावयवरूपोऽपि वर्तते ५ । 'उदाहृ दम्बं च दम्बदेसाय च' उदाहो अथवा स किं द्रव्यञ्च द्रव्यप्रदेशश्च वर्तते ? 'उदाहृ दम्बाह च दम्बदेसे य ७' उदाहो किं वा स द्रव्याणि च द्रव्यप्रदेशश्च वर्तते? 'उदाहृ दम्बाह च दम्बदेसा य ८' उदाहो' अथवा स परमाणुरूप पुद्गलास्तिकाय प्रदेशः किं द्रव्याणि च द्रव्यप्रदेशश्च वर्तते ? इत्येवं सर्वैरपविकल्पै प्रश्नाः, तत्र प्रथमप्रश्नद्रव्योक्तविकल्पैश्च स्वीकुर्वन् शेषान् पह विकल्पान् प्रत्याख्यानो मगवानाह—' गौयमा ! मिय दम्बदेसे, ' हे गौतम ! स परमाणुरूपः पुद्गलास्तिकायप्रदेशः स्यात् कदाचित् द्रव्यान्तरसम्बन्धे सति गुणपर्याययोगिरूपं द्रव्यं स्यात्, स्यात् कदाचित् द्रव्यान्तरसम्बन्धे सति द्रव्यावयवरूपो द्रव्यप्रदेश स्यात्,

ययोगी है, और द्रव्य का अवयवरूप भी है ५, " उदाहृ दम्ब दम्बदेसे य ६ " अथवा क्या वह स्वयं एक द्रव्यरूप भी है और द्रव्य का अनेक अवयवरूप भी है ? उदाहृ " दम्बाह य दम्बदेसे य ७ " अथवा क्या वह अनेक द्रव्यरूप भी है और एक प्रदेशरूप भी है ? " उदाहृ दम्बाह य दम्बदेसा य ' अथवा वह अनेक द्रव्यरूप भी है और अनेक प्रदेश रूप भी है ? इस प्रकार से ये सप्त आठ विकल्प एक पुद्गलास्तिकायप्रदेश के विषय में किये गये हैं। इनमें से प्रथम प्रश्न त्रय उक्त विकल्प त्रय को स्वीकार करते हुए प्रश्न शेष ६ विकल्पों को स्वीकार नहीं करते हैं—इसी बात की वे (गौयमा ! मिय दम्ब मिय दम्बदेसे) हम सूत्रपाठ द्वारा स्पष्ट करते हैं—कहते हैं हे गौतम ! पुद्गलास्तिकाय का एक परमाणु रूप प्रदेशाकर्षणित द्रव्यरूप है और कयचित् द्रव्यप्रदेशरूप है। इसका

अवयव रूप है ? " उदाहृ दम्ब दम्बदेसा य " अथवा " शु ते स्वयं ज्येष्ठ द्रव्यरूप पञ्च है अने द्रव्यानां अनेक अवयवरूप पञ्च है ? " (उदाहृ दम्बाह य दम्बदेसे य ' अथवा " शु ते अनेक द्रव्यरूप है अने ज्येष्ठ प्रदेशरूप पञ्च है ? " " उदाहृ दम्बाह य दम्बदेसा य " अथवा " शु ते अनेक द्रव्यरूप पञ्च है अने अनेक प्रदेशरूप पञ्च है ? " आ हीते ज्येष्ठ पुद्गलास्तिकायना विषयार्था आह वैकल्पिक प्रश्नो पूज्यार्थं आम्बा ० आ आह विकल्पोभाभी पठेत्वा ते प्रश्नोभां ने विकल्पो जतावयवार्थं आम्बा ० तेभनो स्वीकारे करणार्था आ यो ० ज्येष्ठ पाठ सूत्रादे नीयेना उत्तररूप सूत्र द्वारा व्यक्त करी है—(गौयमा ! मिय दम्ब, मिय दम्बदेसे ' हे गौतम ! पुद्गलास्तिकायने ज्येष्ठ प्रदेशा क्यारेण द्रव्यरूप उच्यते अने क्यारेण द्रव्यप्रदेशरूप उच्यते अथ अथानु स्पष्टीकरण नीये प्रथमे च न्याये ते पुद्गलास्तिकायने ज्येष्ठ प्रदेश स्वतन्त्र सति है—इति । द्रव्यनी धारो भगवन् नधी त्वादे ते स्वयं (योते) मनुष्योपधि ते मुञ्चते

शेषान् पद् विकल्पान् प्रतिषेधयति—‘ नो द्वाइं १, नो द्वादेसा २, नो द्वां च द्वादेसेय ३, जाव नो द्वाइं च द्वादेसा य ६, ’ स पुद्गलास्तिकायप्रदेशो नो द्रव्याणि स्यात् १, नो वा द्रव्यदेशाः भवति, परमाणोरेकत्वेन बहुत्वासद्भावात् २, नापि स परमाणुः द्रव्यं च द्रव्यदेशश्च भवति, तस्यैकत्वेन अवयविरूपत्वस्य अवयवरूपत्वस्य विरुद्धस्य द्विकसंयोगस्यासंभवात् ३, एवमेव यावत् स नो

तात्पर्य ऐसा है कि जब वह पुद्गलास्तिकाय का एक प्रदेश स्वतन्त्र रहता है—किसी द्रव्य के साथ नहीं मिलता है—स्वयं गुणपर्याय से युक्त रहने के कारण द्रव्यरूप माना गया है और जब वह किसी दूसरे द्रव्य के साथ मिल जाता है तब वह द्रव्य का अवयवरूप हो जाता है। इस तरह किसी अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय का एक प्रदेश द्रव्यरूप और किसी अपेक्षा अवयव-व्यप्रदेशरूप होता है। (नो द्वाइं, नो द्वादेसा, नो द्वां च द्वादेसे य, जाव नो द्वाइं च द्वादेसा य ” अनेक द्रव्यरूप, अनेक द्रव्यदेशरूप, द्रव्य और द्रव्यदेशरूप यावत् अनेक द्रव्य और अनेक द्रव्यदेशरूप नहीं है। इन ६ विकल्पों को नहीं मानने का कारण ऐसा है कि परमाणु स्वयं एक होता है—इसलिये उसमें अनेकता का सद्भाव नहीं हो सकता है यदि अनेकता का सद्भाव उसमें होता तो वह अनेक द्रव्यरूप माना जा सकता। इसी तरह से वह परमाणु युगपत् अवयवी अवयवरूप भी नहीं हो सकता है। क्यों कि ये दोनों

वाने कारणे द्रव्यरूप गणाय छे पणु न्यारे ते कोष्ठ भीजा द्रव्यनी साथे भणी नय छे, त्यारे ते द्रव्यना अवयवरूप भनी नय छे आ रीते अेक दृष्टिअे विचार करतां पुद्गलास्तिकायने ते अेक प्रदेश द्रव्यरूप होय छे अने भीज दृष्टिअे विचार करता ते अवयवरूप (द्रव्यदेशरूप) पणु होय छे.

(नो द्वाइं, नो द्वादेसा, नो द्वां च द्वादेसे य, जाव नो द्वाइं च द्वादेसा य) परन्तु ते अनेक द्रव्यरूप, अनेक द्रव्यदेशरूप, द्रव्य अने द्रव्यदेशरूप यावत् अनेक द्रव्य अनेक द्रव्यदेशरूप होतो नथी. आ छ विकल्पाने मान्य नहीं करवानु कारण अे छे के परमाणुं स्वय अेक होय छे. तेथी तेमां अनेकता सलवी शकती नथी. जे तेमा अनेकताने सद्भाव होत ते तेने अनेक द्रव्यरूप भानी शकत. आ रीते ते परमाणुने अेक साथे अवयवी अने अवयवरूप पणु भानी शकय नहीं, कारण के ते अने वाते परस्पर विशधी लागे छे. आ रीते अेक परमाणुमा ते अनेने अेक न कारणे समावेश कही

द्रव्य च द्रव्यदेशाश्च, नो वा द्रव्याणि च द्रव्यदेशाश्च, नापि द्रव्याणि च द्रव्य
देशाश्च समवति उक्तयुक्त ६ ।

अथ द्वौ पुद्गलास्तिकायप्रदेशौ आधिस्य गौतमः पृच्छति—' दो भंते !
पोगलस्तिकायपपसा किं द्रव्य द्रव्यदेशे पुच्छा तद्देव ' हे भदन्त ! द्वौ
पुद्गलास्तिकायप्रदेशौ किमेक गुणपर्याययोगिरूप द्रव्यं भवत ? किं वा
द्रव्यदशो भवत , एव द्रव्याणि वा, द्रव्यदेशा वा, द्रव्य च द्रव्यदेशश्च वा,
द्रव्यश्च द्रव्यदेशश्च वा द्रव्याणि च द्रव्यदेशश्च वा द्रव्याणि च द्रव्यदेशश्च वा
किं भवतः ? इत्येष, तथैव — एकपुद्गलास्तिकायप्रदेशवदेव द्विपुद्गलास्तिकायप्रदेश
योरपि अष्टविकल्पानां पृच्छा प्रश्न ? उक्तेषु अष्टसु विकल्पेषु मध्ये आधा

यातें परस्पर में विकृष्ट हैं। अतः उस परमाणुमें एक ही का एक काल
में समावेश कथमपि नहीं हो सकने से वह (नो द्रव्य च द्रव्यदेशे च)
द्रव्य और द्रव्याद्यवयरूप नहीं माना गया है। इसी तरह से वह युगपत्
एक द्रव्य और अनेक द्रव्यदेशरूप भी नहीं होता है। और न वह
अनेक द्रव्यरूप और अनेक द्रव्यदेशरूप भी होता है।

अथ गौतम प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(दो भंते ! पुग्गलस्तिकायपपसा
किं द्रव्य द्रव्यदेशे पुच्छा तद्देव) हे भदन्त ! पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदश
क्या एक द्रव्यरूप है ? या द्रव्यप्रदेशरूप है ? या अनेक द्रव्यरूप है ? या
अनेक द्रव्यदेशरूप है ? या युगपत् एक द्रव्यरूप और एक द्रव्यदेशरूप
है ? या युगपत् एक द्रव्यरूप और अनेक द्रव्यदेशरूप है ? या युगपत्
अनेक द्रव्यरूप और एक द्रव्यदेशरूप है ? या—युगपत् अनेक द्रव्यरूप
और अनेक द्रव्यदेशरूप है ? इस तरह एक पुद्गलास्तिकायप्रदेश की

पक्ष धर्म शकते नथी. तेथी मो द्रव्य च द्रव्यदेशे च " तेने द्रव्य अने द्रव्य
देश (द्रव्यावयव) इय भावनामा आवेष नथी. ज्येष्ठ प्रभाज ते ज्येष्ठ साये
ज्येष्ठ द्रव्य अने अनेक द्रव्यदेशरूप पक्ष दोतुं नथी.

गौतम स्वामीने प्रश्न—(दो भंते ! पुग्गलस्तिकायपपसा किं द्रव्य द्रव्य
देश, पुच्छा तद्देव) हे भदन्त ! पुद्गलास्तिकायना के प्रदेश शु ज्येष्ठ द्रव्यरूप
उ ? के द्रव्यप्रदेशरूप उ ? के अनेक द्रव्यरूप उ ? के अनेक द्रव्यदेशरूप उ ?
के ज्येष्ठ साये ज्येष्ठ द्रव्यरूप अने ज्येष्ठ द्रव्यदेशरूप उ ? के ज्येष्ठ द्रव्यरूप अने
अनेक द्रव्यदेशरूप उ ? के अनेक द्रव्यरूप अने ज्येष्ठ द्रव्यदेशरूप उ ? के
अनेक द्रव्यरूप अने अनेक द्रव्यदेशरूप उ ? आ रीते ज्येष्ठ पुद्गलास्तिकाय
प्रदेशनी १/४ अर्थात् ने पुद्गलास्तिकाय प्रदेशाना विषयमा पक्ष आः प्रश्नो पूर्वोक्त
रीते १/४ पुष्पामा आः ३ आ आः प्रश्नोभाषी इया इया प्रश्नो स्वीः

पञ्च भवन्ति न शेषास्त्रयः, इत्यभिप्रायेण भगवानाह—' गौयमा ! सिय द्रव्यं १, सिय द्रव्यदेसे २, सिय द्रव्याड ३, सिय द्रव्यदेसा ४, मिय द्रव्यं च द्रव्यदेसे य ५, नो द्रव्यं च द्रव्यदेसा य ६, सेसा पडिसेहेयव्वा' हे गौतम ! द्वौ पुद्गलास्तिकाय-प्रदेशौ स्यात् कदाचित् द्विप्रदेशिकस्कन्धतया परिणतिदशायां गुणपर्याययोगि-रूपमेकं द्रव्यं स्याताम् १, एवं स्यात् कदाचित् द्व्यणुकस्कन्धभावप्राप्तयोरेतयो-द्रव्यान्तरसम्बन्धदशायां तौ द्रव्यदेशः स्याताम् २, एवं स्यात् कदाचित् तौ द्वावपि भेदेन व्यवस्थितिदशायां द्रव्ये स्याताम् ३, एव स्यात् कदाचित् तावेव द्वौ

तरह यहां पर दो पुद्गलास्तिकायप्रदेशों के विषय में भी आठ प्रश्न पूर्वोक्तरूप से कर लेना चाहिये ।

अब इन आठ प्रश्नों में से कौन २ से प्रश्न इस विषय में मान्य किये गये हैं—इस बात को सूचित करने के लिये प्रश्नु गौतम से कहते हैं—(गौयमा) हे गौतम ! (सिय द्रव्यं १, सिय द्रव्यदेसे २, सिय द्रव्याड ३, सिय द्रव्यदेसा ४, सिय द्रव्यं च द्रव्यदेसे य) पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश किसी अपेक्षा एक द्रव्यरूप हैं, और किसी अपेक्षा द्रव्यदेश-रूप हैं—तात्पर्य इस का ऐसा है—जब पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश द्विप्रदेशिकस्कन्धरूप से परिणत होते हैं—तब वे उस स्थिति में गुणपर्यायवाले एक द्रव्य हो जाते हैं । तथा द्व्यणुक स्कन्धरूप से प्राप्त हुए वे जब किसी अन्य द्रव्य के साथ मिल जाते हैं उसदशा में वे एक द्रव्यदेश हो जाते हैं । तथा जब वे दोनों स्वतन्त्ररूप से अलग २ रहते हैं—तब वे दो द्रव्य रूप हो जाते हैं ३ । तथा—जब वे द्व्यणुकस्कन्धरूप परिणति को प्राप्त

करवाना आये, ते हुवे सूत्रकार नीचे प्रमाणे उत्तररूपे प्रकट करे छे

(गौयमा !) हे गौतम ! “ सिय द्रव्यं, सिय द्रव्यदेसे, सिय द्रव्याड, सिय द्रव्यदेसा, सिय द्रव्यं च द्रव्यदेसे य) पुद्गलास्तिकायना जे प्रदेश अमुक दृष्टिजे विचार करता ओक द्रव्यरूप छे, अने अमुक दृष्टिजे विचार करता द्रव्यदेश रूप पणु छे आ कथननुं स्पष्टीकरणु आ प्रमाणे समञ्जसुं-न्यारे पुद्गलास्तिकायना जे प्रदेश द्विप्रदेशिक स्कन्धरूपे परिणुमे छे, त्यारे जे स्थितिमा तेजो शुणु पर्यायवाणा ओक द्रव्यरूप थध नय छे तथा द्व्यणुक (जे अणुवाणा) स्कन्धरूपे परिणुमेला ते जे प्रदेशो न्यारे अन्य द्रव्यनी साथे मणी नय छे, त्यारे (ते परिस्थितिमां) तेजो ओक द्रव्यदेशरूप थध नय छे. तथा न्यारे तेजो भन्ने स्वतन्त्ररूपे अलग अलग रहे छे, त्यारे तेजो जे द्रव्यरूप थध नय छे. तथा न्यारे तेजो द्व्यणुक स्कन्ध रूपे परिणुत थता नथी, पणु द्रव्या-

द्रव्य च द्रव्यदेशाश्च, नो वा द्रव्याणि च द्रव्यदेशाश्च, नापि द्रव्याणि च द्रव्य-
देशाश्च समवति उक्तयुक्त ६ ।

अथ द्वौ पुद्गलास्तिकायप्रदेशौ जाधित्य गौतमः पृच्छति— ' दो मते ।
पुगलस्तिकायप्रदेशा किं द्रव्य द्रव्यदेशे पुच्छा तद्देव ' हे मदन्त । द्वौ
पुद्गलास्तिकायप्रदेशौ किमेकं गुणपर्याययोगिरूपं द्रव्यं भवतः ? किं वा
द्रव्यदेशो भवतः, एष द्रव्याणि वा द्रव्यदेशा वा, द्रव्य च द्रव्यदेशश्च वा,
द्रव्यश्च द्रव्यदेशश्च वा द्रव्याणि च द्रव्यदेशश्च वा द्रव्याणि च द्रव्यदेशश्च वा
किं भवतः ? इत्येषं, तथैव — एकपुद्गलास्तिकायप्रदेशवदेव द्विपुद्गलास्तिकायप्रदेश-
योऽपि अष्टविकल्पानां पृच्छा प्रश्नः ? उक्तेषु अष्टसु विकल्पेषु मध्ये आधाः

धार्ते परस्पर में विरुद्ध हैं । अतः उस परमाणुमें एक दो का एक काल
में समावेश कथमपि नहीं हो सकने से वह (नो द्रव्य य द्रव्यदेशे य)
द्रव्य और द्रव्यावयवरूप नहीं माना गया है । इसी तरह से वह युगपत्
एक द्रव्य और अनेक द्रव्यदेशरूप भी नहीं होता है । और न वह
अनेक द्रव्यरूप और अनेक द्रव्यदेशरूप भी होता है ।

अथ गौतम प्रश्न से ऐसा पूछते हैं— (दो मते ! पुगलस्तिकायप्रदेशा
किं द्रव्यं द्रव्यदेशे पुच्छा तद्देव) हे मदन्त ! पुद्गलास्तिकाय कं दो प्रदेश
क्या एक द्रव्यरूप हैं ? या द्रव्यप्रदेशरूप हैं ? या अनेक द्रव्यरूप हैं ? या
अनेक द्रव्यदेशरूप हैं ? या युगपत् एक द्रव्यरूप और एक द्रव्यदेशरूप
हैं ? या युगपत् एक द्रव्यरूप और अनेक द्रव्यदेशरूप हैं ? या युगपत्
अनेक द्रव्यरूप और एक द्रव्यदेशरूप हैं ? या—युगपत् अनेक द्रव्यरूप
और अनेक द्रव्यदेशरूप हैं ? इस तरह एक पुद्गलास्तिकायप्रदेश की

पक्ष धर्म शकते नथी तेधी नो द्रव्य च द्रव्यदेशे य " तेने द्र य अने द्रव्य
देश (द्रव्यावयव) इय मानवामा आवेस नथी, ज्येज प्रभासु ते ज्येक साधे
ज्येक द्रव्य अने अनेक द्रव्यदेशरूप पक्ष क्खंतु नथी

गौतम स्वामीने प्रश्न— (दो मते ! पुगलस्तिकायप्रदेशा किं द्रव्यं द्रव्य
देशे, पुच्छा तद्देव) हे मदन्त ! पुद्गलास्तिकायना के प्रदेश शु ज्येक द्रव्यरूप
छे ? के द्रव्यप्रदेशरूप छे ? के अनेक द्रव्यरूप छे ? के अनेक द्रव्यदेशरूप छे ?
के ज्येक साधे ज्येक द्रव्यरूप अने ज्येक द्रव्यदेशरूप छे ? के ज्येक द्रव्यरूप अने
अनेक द्रव्यदेशरूप छे ? के अनेक द्रव्यरूप अने ज्येक द्रव्यदेशरूप छे ? के
अनेक द्रव्यरूप अने अनेक द्रव्यदेशरूप छे ? आ रीते ज्येक पुद्गलास्तिकाय
प्रदेशनी नेम अर्ही जे पुद्गलास्तिकाय प्रदेशोना विषयमा पक्ष जाठ प्रश्नो पूरोअ
रीते न पक्षोअर्ही जाण्हा छे आ आठ प्रश्नोअर्ही अमा अमा पक्षोअर्ही स्थीअर

द्रव्ये च द्रव्यदेशश्च संभवतः, नो वा द्रव्ये च द्रव्यदेशो च तौ संभवतः उक्तयुक्तेः ।
 अथ त्रिपुद्गलास्तिकायप्रदेशान् आश्रित्य गौतमः पृच्छति—‘ तित्रि भंते !
 पोग्गलत्थिकायपएसा किं दव्वं, दव्वदेसे० पुच्छा ? ’ हे भदन्त ! त्रयः पुद्गला-
 स्तिकायप्रदेशा किं द्रव्यम् एकं गुणपर्याययोगिरूपं भवन्ति ? १, किं वा
 द्रव्यदेशः २, द्रव्याणि वा ३, द्रव्यदेशा वा ४, द्रव्यं च द्रव्यदेशश्च वा ५, द्रव्यं

सकती है क्यों कि परस्पर विरोधी दो धर्मयुगपत् एकत्र संभावित नहीं
 हो सकते हैं। इसी तरह ये दोनों युगपत् दो द्रव्यरूप भी बने रहें और
 एक द्रव्यदेशरूप भी हो जावें—यह भी बात नहीं बनती है—क्यों कि जब
 ये दो द्रव्यरूप बने रहेंगे तब इनमें एक द्रव्यदेशना नहीं बन सकेगी
 और जब एक द्रव्यदेशता बनेगी—तब दो द्रव्यरूपता नहीं बनेगी—अतः
 यह सातवां विकल्प भी स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसी तरह
 से ये एक साथ दो द्रव्यरूप भी रहे और दो द्रव्यदेशरूप भी हो जावें—
 यह भी विकल्प नहीं बनता है ।

अब पुद्गलास्तिकाय के तीन प्रदेशों को लेकर गौतम ने प्रश्न से ऐसा
 पूछा है । (तित्रि भंते ! पोग्गलत्थिकायपएसा किं दव्वं, दव्वदेसे० पुच्छा)
 हे भदन्त ! पुद्गलास्तिकाय के तीन प्रदेश क्या एक द्रव्यरूप हैं ? किं वा
 एक द्रव्यदेशरूप हैं ? अथवा अनेक द्रव्यरूप हैं ? या अनेक द्रव्यदेशरूप
 हैं ? या युगपत् एक द्रव्यरूप भी हैं और एक द्रव्यदेशरूप भी हैं ? ५,

येवी वात संलवी शकती नथी कारणे के परस्पर विरोधी ये धर्म युगपत्
 ऐकत्र संलवी शकता नथी ऐञ्च प्रमाणे ते णन्ने ऐक साथे ये द्रव्यरूप
 पणु कायम रहे अने ऐक द्रव्यदेशरूप पणु णनी लय—येवी वात पणु संलवी
 शकती नथी, कारणे के ले तेओ ये द्रव्यरूप णनी लथे तो तेमनामां ऐक
 द्रव्यदेशता संलवी शकथे नडीं, अने ले तेमनामां ऐक द्रव्यदेशता डथे तो
 ये द्रव्यरूपता संलवी शकथे नडीं तेथी आ सातमा विकल्पने पणु स्वीकार
 करी शकथे तेम नथी तेम साथे ये द्रव्यरूप पणु रहे अने ये द्रव्यदेशरूप
 पणु रहे आ विकल्प पणु णनी शकते नथी.

डेवे पुद्गलास्तिकायना त्रणु प्रदेशाना विषयमा गौतम स्वाभी मडावीर
 प्रणुने आ प्रमाणे प्रश्न पूछे छे के—(तित्रि भंते ! पोग्गलत्थिकायपएसा किं
 दव्वं, दव्वदेसे पुच्छा) डे लदन्त ! पुद्गलास्तिकायना त्रणु प्रदेशा शुं ऐक
 द्रव्यरूप छे ? के ऐक द्रव्यदेशरूप छे ? अथवा अनेक द्रव्यरूप छे ? के अनेक
 द्रव्यदेशरूप छे ? अथवा ऐक साथे द्रव्यरूप पणु छे अने ऐक द्रव्यदेशरूप

દ્રવ્યગુણસ્ફુર્યતામનાપણ દ્રવ્યાન્તરેણ ગુમ્વવાપગતી સ્વ્યાં દ્રવ્યવેશી મવત ૪, એ સ્યાત કદાચિત્ તયોરેકસ્ય કેવલ્લતયા સ્થિતી દ્વિતીયસ્ય ચ દ્રવ્યાન્તરેણ સમ્ભવે સતિ તયોરેવૈકો દ્રવ્યચ્ચ, અપરચ્ચ દ્રવ્યવેશ્યેતિ ૫ પચ્ચમો વિકલ્પ, શ્લેષવિકલ્પપ્રપ્ત્ય તુ પ્રતિષેષોઽસમવાત્, इत्यभिप्रायेणाह—'नो दृष्य च दृष्यदेसा य ६' ती द्वौ नो द्रव्यच द्रव्यवेशी मवत', तथा—' सेसा पडिमेहेयव्या ' शेषा अन्तिमाद्यः प्रतिषेढव्या तत्र षष्ठस्य प्रतिषेधः कृत् एव, सप्तषाष्टस्योः प्रतिषेधस्तु— तौ नो

नहीं करके द्रव्यान्तर के साथ सम्बन्धित होते हैं—उस स्थिति में वे दो द्रव्यदशरूप से कहे जाते हैं। तथा जय उन दोनों प्रदेशों में से एक प्रदेश स्वतन्त्र रहता है और एक दूसरा प्रदेश द्रव्यान्तर के साथ जुड़ जाता है, उस स्थिति में एक द्रव्यरूप और दूसरा द्रव्यदशरूप हो जाता है ५। इस तरह से पांच विकल्प यहां मान्य किये गये हैं। इनके अतिरिक्त तीन विकल्प यहां मान्य नहीं किये गये हैं। क्यों कि इन तीन विकल्पों की यहा सभावना असभावित है। इसी अभिप्राय को लेकर (नो दृष्य य दृष्यदेसा य ६, सेसा पडिसेहे यव्या) ऐसा कहा गया है। (नो दृष्य य दृष्यदेसा य) यह छठा विकल्प है। तथा 'नो दृष्याह य दृष्यदेसे य ७, नो दृष्याहं य दृष्यदेसा य ८,' सातवें और आठवें हैं। एते चो क्यो नहीं होते हैं—इस विषय में पहिले युक्ति प्रदर्शित की जा चुकी है। अर्थात् पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश एक ही समय में द्रव्यरूप और द्रव्यदशरूप हो जायें यह बात नहीं बन

तर (अन्य द्रव्य) नी साथे सम्बन्धित होय છે ત્યારે તેઓ બે દ્રવ્યદશરૂપ માની શકાય છે તથા બ્યારે તે બે પ્રદેશોમાંથી બેક પ્રદેશ સ્વતન્ત્ર રહે છે અને બીજો પ્રદેશ અન્ય દ્રવ્યની સાથે મળી બન્ય છે, ત્યારે (બીવી સ્થિતિનાં) બેક દ્રવ્યરૂપ અને બીજો દ્રવ્યદેશરૂપ બની બન છે આ રીતે પાંચ વિકલ્પનો અર્થો સ્વીકાર કરવામાં આવેલ છે બાકીના ત્રણ વિકલ્પોનો અર્થો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો નથી, કારણ કે તે ત્રણ વિકલ્પોની સભાવના અર્થો અસભવિત છે તે કારણે સુત્રકારે કહ્યું છે કે (ના દ્રવ્ય ચ દ્રવ્યદેસા ય સેસા પડિ સહયજ્ઞ) બેટલે કે છઠ્ઠા, સાતમાં અને આઠમાં વિકલ્પને અર્થો અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે છઠ્ઠા વિકલ્પ આ પ્રમાણે છે— 'ના દ્રવ્ય ચ દ્રવ્યદેસા ય' સાતમો વિકલ્પ આ પ્રમાણે છે— 'ના દ્રવ્યાહ ય દ્રવ્યદેસે ય' આઠમો વિકલ્પ આ પ્રમાણે છે— 'ના દ્રવ્યાહ ય દ્રવ્યદેસા ય' આ વિકલ્પોનો અસ્વીકાર કરવાનું કારણ આત્રગ આપી દેવામાં આવ્યું છે કહેવાનું તાત્પર્ય બે છે કે પુદ્ગલાસ્તિકાવના બે પ્રદેશ બંધજ સમયે દ્રવ્યરૂપ અને દ્રવ્યદેશરૂપ બની બન

દેશો' ભવન્તિ ૨, એવં રીત્યા સમ્મ ભજ્ઞા વિકલ્પા મણિતવ્યાઃ, તથા ચ યાવત્-
 યદા તે ત્રયોઽપિ મેદેન વ્યવસ્થિતાઃ દ્વૌ વા દ્વયણુકીભૂતૌ, એકસ્તુ કેવલ એવ
 સ્થિતસ્તદા 'દ્રવ્યાણિ' તે ભવન્તિ ૩, યદાતુ તે ત્રયોઽપિ સ્કન્ધતામનાગતા એવ
 દ્વૌ વા દ્વયણુકીભૂતૌ, એકસ્તુ કેવલ એવેત્યેવં દ્રવ્યાન્તરેણ સમ્બદ્ધાસ્તદા દ્રવ્યદેશાસ્તે
 ભવન્તિ ૪, યદા તુ તેપાં દ્વૌ દ્વયણુકતયા પરિણતૌ એકથ્ચ દ્રવ્યાન્તરેણ સમ્બદ્ધઃ,
 અથવા એકઃ કેવલતયૈવ સ્થિતો દ્વૌ તુ દ્વયણુકતયા પરિણમ્ય દ્રવ્યાન્તરેણ સમ્બદ્ધૌ

અપેક્ષા યે કથંચિત્ એક દ્રવ્યદેશરૂપ હો જાતે હૈં। (એવં સત્ત મંગા
 મ્ભાણિયઠ્ઠવા) ઇસી તરહ સે સાત મંગ કહ લેના ચાહિયે। તથા ચ-વે
 જવ તીનોં હી પ્રદેશ સ્વતન્ત્રરૂપ સે અલગ ૨ રહતે હૈં-તવ વે સ્વતંત્ર
 તીન દ્રવ્યરૂપ કહે જાતે હૈં। અથવા ઇસ તરહ સે મી વે તીન પ્રદેશ અનેક
 દ્રવ્યરૂપ હો સકતે હૈં-દો પ્રદેશ તો પરસ્પર મેં મિલકર એક દ્વયણુકરૂપ
 હો જાવેં ઓર એક પ્રદેશ સ્વતંત્ર રહે-ઇસ તરહ સે "એકં મિન્નં અને-
 કમ્" કે અનુસાર યહાં દો સ્વતન્ત્ર પ્રદેશ ઓર સ્વતન્ત્ર એક પ્રદેશ યે
 દો દ્રવ્ય અનેક દ્રવ્ય હો ગયે। (દ્રવ્યદેશા) વે ઇસ પ્રકાર સે હો સકતે
 હૈં કિ વે તીનોં પ્રદેશ સ્વતંત્ર રહેં ઓર સ્વતંત્ર રહકર ફિર વે કિસી
 અન્ય દ્રવ્ય કે સાથ મિલ જાવેં, અથવા-દો પ્રદેશ દ્વયણુકરૂપ હો જાવેં
 ઓર એક સ્વતંત્ર રહે-ફિર જાકર યે કિસી અન્ય દ્રવ્ય કે સાથ જુડ
 જાવેં-તવ ઇસ સ્થિતિ મેં યે દ્રવ્ય કે અનેક દેશરૂપ મી કહે જા સકતે

દેશરૂપ પશુ બની નય છે આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા "ક્યારેક તેઓ એક
 દ્રવ્ય પ્રદેશરૂપ હોય છે," એ વાત પશુ સિદ્ધ થાય છે

આ રીતે સાત વિકલ્પનો સ્વીકાર કરતું કથન અહીં થવું જોઈએ જેમકે
 બ્યારે તે ત્રણ પ્રદેશો સ્વતંત્રરૂપે અલગ અલગ રહે છે, ત્યારે તેમને ત્રણ
 સ્વતંત્ર દ્રવ્યરૂપે માની શકાય છે અથવા આ પ્રમાણે પશુ તે ત્રણ પ્રદેશો
 અનેક દ્રવ્યરૂપ હોઈ શકે છે-જે પ્રદેશ તો પરસ્પરમા મળી જઈને એક દ્વયણુક
 સ્કન્ધરૂપ બની નય અને એક પ્રદેશ સ્વતંત્ર રહે આ રીતે "એકં મિન્નં
 અનેકમ્" ની અનુસાર અહીં જે સ્વતંત્ર પ્રદેશ અને સ્વતંત્ર એક પ્રદેશ, આ
 જે દ્રવ્ય અનેક દ્રવ્યરૂપ બની ગયા "દ્રવ્યદેશા" તેઓ દ્રવ્યદેશરૂપ આ પ્રમાણે
 થઈ શકે છે તે ત્રણ પ્રદેશ સ્વતંત્ર રહે અને સ્વતંત્ર રહીને તેઓ કોઈ અન્ય
 દ્રવ્યની સાથે મળી નય. અથવા-જે પ્રદેશ દ્વયણુક બની નય અને એક
 સ્વતંત્ર રહે અને ત્યારબાદ તેઓ કોઈ અન્ય દ્રવ્યની સાથે મળી નય. તે
 એ પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં તે દ્રવ્યોને અનેક દેશરૂપ પશુ કહી શકાય છે. આ

य द्रव्यदेशश्च वा ६, द्रव्याणि च द्रव्यदेशश्च ७, किं वा, द्रव्याणि च द्रव्यदेशश्च
 ८ भवन्ति १, इति रीत्या अष्टविधरूपपृच्छा, त्रिपुरल्लास्तिकायप्रदेशेषु अष्टम-
 विधेरर्थः सप्त विधेरर्थः समग्रतीत्यभिप्रायेणाह—' गोयमा ! सिय दृष्य १,
 सिय दृष्यदेशे २ एव सप्त भंगा भाजियञ्चा जात्र दृष्याइ च दृष्यदेशे य, नो दृष्याइ
 दृष्यदेशा य ' हे गौतम ! अयं पुरल्लास्तिकायप्रदेशा स्यात् कदाचित् त्रिप्रदेशिक
 स्वरूपतया परिणतिद्वारा गुणपर्याययोगि एकं द्रव्य भवन्ति?, एव स्यात् कदा-
 चित् भयानां त्रिप्रदेशिकस्वरूपतापरिणताभावेन द्रव्यान्तरसम्बन्धे सति ते 'द्रव्य

या एक द्रव्यरूप भी हैं और अनेक द्रव्यदेशरूप भी हैं? ६, या अनेक
 द्रव्यरूप भी हैं और एक द्रव्यदेशरूप भी हैं? ७, अथवा—अनेक द्रव्य
 रूप भी हैं और अनेक द्रव्यदेशरूप भी हैं। ८ इस तरहसे यहाँ ये आठ
 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के निमित्त प्रश्न कहते हैं—(गोयमा)
 हे गौतम ! (सिय दृष्य १, सिय दृष्यदेशे २, एवं सप्त भंगा भाजि-
 यञ्चा जात्र दृष्याइ च दृष्यदेशे य, नो दृष्याइ दृष्यदेशा य) इस विषय
 में यहाँ अष्टम विधेरर्थ को छोड़कर सात विधेरर्थ सम्भावित होते हैं—जो
 इस प्रकार से हैं—पुरल्लास्तिकाय के तीन प्रदेश किसी कपेसा एक
 द्रव्यरूप भी हैं अर्थात् जब ये त्रिप्रदेशिक स्वरूप से परिणत हो जाते
 हैं—तब उस स्थिति में ये गुणपर्याययोगी एक द्रव्यरूप हो जाते हैं।
 तथा जब ये त्रिप्रदेशिक स्वरूप से परिणत होकर द्रव्यान्तर के साथ
 सम्बन्धित होते हैं तब ये द्रव्य के एक देशरूप भी हो जाते हैं—अतः इस

पक्ष से १ अथवा अनेक द्रव्यरूप से अनेक अनेक द्रव्यदेशरूप पक्ष से १ अथवा
 अनेक द्रव्यरूप पक्ष से अनेक अनेक द्रव्यदेशरूप पक्ष से अथवा अनेक द्रव्यरूप
 पक्ष से अनेक अनेक द्रव्यदेशरूप पक्ष से १ आ रीति अर्थात् आठ प्रश्नों
 पूछना भी सम्भव है

आ प्रश्नोने उत्तर आपता महावीर प्रश्न कहे से—(" गोयमा । "
 हे गौतम ! (सिय दृष्य १, सिय दृष्यदेशे २, एवं सप्त भंगा भाजियञ्चा जात्र
 दृष्याइ च दृष्यदेशे य नो दृष्याइ दृष्यदेशा य " आ विधेरर्थः अर्थात् आठम
 विधेरर्थ सिधयना सात विधेरर्थ सम्बन्धी शक्ये से, ने आ प्रश्नोने से—

(१) पुरल्लास्तिकायना त्रय प्रदेशो अयुक्त इतिने विचार करवा जे
 द्रव्यरूप पक्ष से होवे से—कहेवातुं तात्पर्य जे से के अर्थे तेजे त्रिप्रदेशिक
 स्वरूप पक्ष से तब अर्थ से त्वारे (ते परिस्थितिमा) तेजे त्रयपर्याय
 योगी अनेक द्रव्यरूप जनी जय से (२) अर्थे तेजे त्रिप्रदेशिक स्वरूप
 साके भणी जय से, त्वारे तेजे द्रव्यान्तर

भवन्ति ७, 'द्रव्याणि च द्रव्यप्रदेशाश्च' इत्यष्टमविकल्पस्तु न संभवति, उभयत्र त्रिषु प्रदेशेषु बहुवचनाभावात्, इत्यभिप्रायेणाह—' नो द्रव्याणि च द्रव्यदेशाश्च ' इति, पुद्गलास्तिकायचतुष्टयादौ तु अष्टमोऽपि विकल्पः सम्भवति इत्यभिप्रायेणाह—' चत्वारि भन्ते ! पोगलत्थिकायपएसा किं दव्वं पुच्छा ' गौतमः पृच्छति—

हैं इसी बात को एक से लेकर सात विकल्पों द्वारा प्रकट किया गया है। आठवां विकल्प यहां इसीलिये नहीं बनता है कि इन तीन प्रदेशों में "अनेक द्रव्य और अनेक द्रव्यदेश" एक साथ होने में इस तरह बहुवचन का अभाव आता है। अर्थात् जिस काल में ये तीन प्रदेश अनेक द्रव्यरूप से व्यवहृत होते हैं उस काल में अनेक द्रव्यदेशरूप से व्यवहृत नहीं हो सकते हैं और जिस काल में ये अनेक द्रव्यदेशरूप से व्यवहृत होते हैं उस काल में ये अनेक द्रव्यरूपसे व्यवहृत नहीं हो सकते। एक काल में या तो ये अनेक द्रव्यरूप से ही व्यवहृत होंगे या अनेक द्रव्यदेशरूप ही। युगपत् ये इस प्रकार से व्यवहृत नहीं हो सकेंगे। इसीलिये आठवां विकल्प यहां नहीं बनता है ऐसा सूत्रकार ने "द्रव्याणिच द्रव्यदेशाश्च इत्यष्टमविकल्पस्तु न संभवति" इस सूत्र पाठ द्वारा प्रकट किया है हां, पुद्गलास्तिकाय के चार प्रदेश आदिकों में तो यह अष्टम विकल्प भी घटित हो जाना है इस बात को अब सूत्रकार प्रश्नोत्तरपूर्वक इन आगे के सूत्रों द्वारा स्पष्ट करते हैं। इनमें गौतम ने

न्यारे तेओ अन्य द्रव्यनी साथे मणी नय छे, त्यारे तेओ देशनी सज्ञाभां आवी नय छे आ वातने ओकथी लधने सातभां पर्यन्तना विकल्प द्वारा प्रकट करवाभां आवेल छे. अही आठमे विकल्प स्वीकारी शक्य तेम नथी कारण के "ते त्रषु प्रदेशोभां अनेक द्रव्य अने अनेक द्रव्यदेश" आ अन्ने अहु-पयनवाणी वस्तुओ संलवी शकती नथी ओटले के जे काणे ते त्रषु प्रदेशने अनेक द्रव्यरूपे गणी शक्य छे, ते काणे तेमने अनेक द्रव्यदेशरूप गणी शकाता नथी, अने न्यारे तेमने अनेक द्रव्यदेशरूप गणी शक्य छे त्यारे तेमने अनेक द्रव्यरूप मानी शकाता नथी ओक जे काणे कां तो तेमने अनेक द्रव्यरूपे गणी शकाशे, का तो अनेक द्रव्यदेशरूपे गणी शकाशे पण तेमने ओक साथे आ प्रकारे मानी शकाशे नही. तेथी जे अही आठमा विकल्पने स्वीकार करवाभां आओ नथी. ओज वात सूत्रकारे (द्रव्याणि च द्रव्यदेशाश्च इत्यष्टमविकल्पस्तु न संभवति) आ सूत्रपाठ द्वारा प्रकट करी छे डा, पुद्गला-स्तिकायना चार आदि प्रदेशोभां तो आ आठमे विकल्प संलवी शके छे. ओज वात सूत्रकारे नीचेना प्रश्नोत्तर सूत्रे द्वारा डवे प्रकट करवा भागे छे.

तदा 'द्रव्यञ्च द्रव्यदेशश्च' ते भवन्ति ५, यदा तु ययामेकः केवलतयैव स्थितो द्वौ च भेदेन द्रव्यान्तरेण सम्बद्धौ तदा ते 'द्रव्यञ्च द्रव्यदेशौ च' भवन्ति ६, यदा तु तेषां द्वौ भेदेन स्थितौ एकञ्च द्रव्यान्तरेण सम्बद्धस्तदा ते 'द्रव्ये च द्रव्यदेशञ्च'

हैं ४। "एक द्रव्यरूप और एक द्रव्यदेशरूप" ये इस प्रकार से युगपत् कहे जा सकते हैं कि इनमें के दो प्रदेश तो एक द्रव्यणुरूप में परिणत हो जायें और एक प्रदेश द्रव्यान्तर के साथ जुड़ जावे। अथवा "द्रव्यं च द्रव्यदेशञ्च" यह विकल्प इस तरह से भी घटित होता है कि एक प्रदेश केवलरूप में रहे—किसी वृत्तरे द्रव्य के साथ सम्बंधित न हो, और दो प्रदेश द्रव्यणुरूप से परिणत होकर वृत्तरे द्रव्य के साथ मिल जावे। "द्रव्यं च द्रव्यदेशौ च" यह विकल्प इस तरह से घटित होता है कि इनमें से एक स्वयंत्र रूप से बना रहे और दो प्रदेश मिल २ रूप में दो द्रव्यों के साथ जुड़ जावे। "द्रव्ये द्रव्यदेशञ्च" यह सातवां विकल्प इस तरह से घटित होता है कि इनमें से दो प्रदेश स्वतंत्र रूप से अलग २ बने रहें और एक प्रदेश किसी वृत्तरे द्रव्य के साथ मिल जावे। तात्पर्य कहने का यही है कि जब ये प्रदेश स्वयंत्र बने रहते हैं—स्वरूप से परिणत नहीं होते हैं—तब द्रव्यकोटिमें आ जाते हैं और जब ये द्रव्यान्तर के साथ सम्बन्धित हो जाते हैं तब ये देश की सज्ञा में आ जाते

रीते बोधा विवक्षयना स्वीकारतु पञ्च प्रतिपादन यथं लभ्यते "एक द्रव्यञ्च अन्ये एक द्रव्यदेशश्च" आ विवक्षयना आ रीते स्वीकार करी शक्यते तेभांभी वे प्रदेश द्रव्यणुरूपे परिवृत्त यथं लभ्यते अन्ये एक प्रदेश अन्य द्रव्यनी साथे भगी लभ्यते अथवा "द्रव्यं च द्रव्यदेशञ्च" आ पंचमो विवक्षय आ प्रभावे पञ्च पञ्चमी शक्यते—एक प्रदेशतु स्वतंत्र अस्तित्व रहे जेठे ठे ते कोष्ठ अन्य द्रव्यनी साथे भगी लभ्यते नही अन्ये वे प्रदेशो द्रव्यणुरूपे परिवृत्त यथं अन्य द्रव्यनी साथे भगी लभ्यते "द्रव्यं च द्रव्यदेशौ च" आ विवक्षयने आ रीते पञ्चमी शक्यते—ते त्रय देशोभांभी एक स्वतंत्ररूपे ल रहे अन्ये वे प्रदेश मिल मिलरूपे वे द्रव्योनी साथे भगी लभ्यते "द्रव्ये द्रव्यदेशञ्च" आ सातमो विवक्षय आ प्रभावे पञ्चमी शक्यते—ते त्रय प्रदेशोभांभी वे प्रदेश स्वतंत्ररूपे अत्र अलग अलग रहे अन्ये एक प्रदेश कोष्ठ अन्य द्रव्यनी साथे भगी लभ्यते इदेषानु तात्पर्य जे ठे ठे ते प्रदेशो अपारे स्वतंत्ररूपे कायम रहे जे—अन्यरूपे परिवृत्त बना नथी—तयारे द्रव्यकोटिमा आधी लभ्यते, अन्ये

भवन्ति ७, 'द्रव्याणि च द्रव्यप्रदेशाश्च' इत्यष्टमविकल्पस्तु न संभवति, उभयत्र त्रिषु प्रदेशेषु बहुवचनाभावात्, इत्यभिप्रायेणाह—' नो द्रव्याणि च द्रव्यदेशाश्च ' इति, पुद्गलास्तिकायचतुष्टयादौ तु अष्टमोऽपि विकल्पः सम्भवति इत्यभिप्रायेणाह—' चत्वारि भन्ते ! पोगलत्थिकायपएसा किं दवं पुच्छा ' गौतमः पृच्छति—

हैं इसी बात को एक से लेकर सात विकल्पों द्वारा प्रकट किया गया है। आठवां विकल्प यहां इसीलिये नहीं बनता है कि इन तीन प्रदेशों में "अनेक द्रव्य और अनेक द्रव्यदेश" एक साथ होने में इस तरह बहुवचन का अभाव आता है। अर्थात् जिस काल में ये तीन प्रदेश अनेक द्रव्यरूप से व्यवहृत होते हैं उस काल में अनेक द्रव्यदेशरूप से व्यवहृत नहीं हो सकते हैं और जिस काल में ये अनेक द्रव्यदेशरूप से व्यवहृत होते हैं उस काल में ये अनेक द्रव्यरूपसे व्यवहृत नहीं हो सकते। एक काल में या तो ये अनेक द्रव्यरूप से ही व्यवहृत होंगे या अनेक द्रव्यदेशरूप ही। युगपत् ये इस प्रकार से व्यवहृत नहीं हो सकेंगे। इसीलिये आठवां विकल्प यहां नहीं बनता है ऐसा सूत्रकार ने "द्रव्याणि च द्रव्यदेशाश्च इत्यष्टमविकल्पस्तु न संभवति" इस सूत्रपाठ द्वारा प्रकट किया है हां, पुद्गलास्तिकाय के चार प्रदेश आदिकों में तो यह अष्टम विकल्प भी घटित हो जाता है इस बात को अब सूत्रकार प्रश्नोत्तरपूर्वक इन आगे के सूत्रों द्वारा स्पष्ट करते हैं। इनमें गौतम ने

न्यारे तेऽप्ये अन्य द्रव्यनी साथे भणी नय छे, त्यारे तेऽप्ये देशनी संभार्या आवी नय छे आ वातने ऐकथी लधने सातमां पर्यन्तना विकल्प द्वारा प्रकट करवामां आवेल छे अर्ही आठमो विकल्प स्वीकारी शक्य तेम नथी दाशयु के "ते त्रषु प्रदेशोमां अनेक द्रव्य अने अनेक द्रव्यदेश" आ भन्ने गद्दु-पचनवाणी वस्तुओ संलवी शकती नथी. ऐटले के ने काणे ते त्रषु प्रदेशने अनेक द्रव्यइपे गण्णी शक्य छे, ते काणे तेमने अनेक द्रव्यदेशइप गण्णी शकाता नथी, अने न्यारे तेमने अनेक द्रव्यदेशइप गण्णी शक्य छे त्यारे तेमने अनेक द्रव्यइप भानी शकाता नथी ऐक न काणे कां तो तेमने अनेक द्रव्यइपे गण्णी शकाशे, कां तो अनेक द्रव्यदेशइपे गण्णी शकाशे. पषु तेमने ऐक साथे आ प्रकारे भानी शकाशे नर्ही. तेथी न अर्ही आठमा विकल्पने स्वीकार करवामां आव्ये नथी. ऐन वात सूत्रकारे (द्रव्याणि च द्रव्यदेशाश्च इत्यष्टमविकल्पस्तु न संभवति) आ सूत्रपाठ द्वारा प्रकट करी छे. डा, पुद्गला-स्तिकायना चार आदि प्रदेशोमा तो आ आठमो विकल्प संलवी शके छे. ऐन वात सूत्रकार नीचेना प्रश्नोत्तर सूत्रो द्वारा छे प्रकट करवा भाजे

तदा 'द्रव्यञ्च द्रव्यदेशश्च' ते भवन्ति ५, यदा तु येषामेका केवलतयैव स्थितौ द्वौ च भेदेन द्रव्यान्तरेण सम्बन्धी तदा ते 'द्रव्यञ्च द्रव्यदेशौ च' भवन्ति ६, यदा तु तेषां द्वौ भेदेन स्थितौ एकञ्च द्रव्यान्तरेण सम्बद्धस्तदा ते 'द्रव्ये च द्रव्यदेशश्च'

हैं ४। "एक द्रव्यरूप और एक द्रव्यदेशरूप" ये इस प्रकार से युगपत् कहे जा सकते हैं कि इनमें के दो प्रदेश तो एक द्रव्यणुरूप में परिणत हो जायें और एक प्रदेश द्रव्यान्तर के साथ जुड़ जावे। अथवा "द्रव्य च द्रव्यदेशश्च" यह विकल्प इस तरह से भी घटित होता है कि एक प्रदेश केवलरूप में रहे-किसी वृत्तरे द्रव्य के साथ सम्यग्चित न हो, और दो प्रदेश द्रव्यणुरूप से परिणत होकर वृत्तरे द्रव्य के साथ मिल जावे। "द्रव्य च द्रव्यदेशौ च" यह विकल्प इस तरह से घटित होता है कि इनमें से एक स्वतंत्र रूप से बना रहे और दो प्रदेश भिन्न २ रूप में दो द्रव्यों के साथ जुड़ जावे। "द्रव्ये द्रव्यदेशश्च" यह सातवां विकल्प इस तरह से घटित होता है कि इनमें से दो प्रदेश स्वतंत्र रूप से भलग २ बने रहें और एक प्रदेश किसी वृत्तरे द्रव्य के साथ मिल जावे। तात्पर्य कहने का यही है कि जब ये प्रदेश स्वतंत्र बने रहते हैं-एकचरूप से परिणत नहीं होते हैं-तब द्रव्यकोटिमें आ जाते हैं और जब ये द्रव्यान्तर के साथ सम्यग्चित हो जाते हैं तब ये देश की सजा में आ जाते

रीते बोधा विकल्पना स्वीकारतु यत् प्रतिपादनं यत् अथ छे "एक द्रव्यरूप
 अने एक द्रव्यदेशश्च" आ विकल्पने आ रीते स्वीकार करी शक्य छे
 तेभांसी के प्रदेश द्रव्यरूप रूपे परिवृत्त यत् अथ अने एक प्रदेश अन्य
 द्रव्यनी साथे भगी अथ अथवा "द्रव्य च द्रव्यदेशश्च" आ पांचमो विकल्प
 आ प्रभावे यत् यदापी शक्य छे-एक प्रदेशतु स्वतंत्र अस्तित्व रहे जेठवे
 छे ते केअ अथ द्रव्यनी साथे भगी अथ नही अने के प्रदेशो द्रव्यरूप रूपे
 परिवृत्त यत् अने अन्य द्रव्यनी साथे भगी अथ "द्रव्य च द्रव्यदेशौ च" आ
 विकल्पने आ रीते यदापी शक्य-ते त्रय देशोभांसी एक स्वतंत्ररूपे अ रहे
 अने के प्रदेश भिन्न भिन्नरूपे के द्रव्योनी साथे भगी अथ 'द्रव्ये द्रव्यदेशश्च'
 आ सातमो विकल्प आ प्रभावे यदापी शक्य-ते त्रय प्रदेशोभांसी के प्रदेश
 स्वतंत्ररूपे अलग अलग अ रहे अने एक प्रदेश केअ अन्य द्रव्यनी साथे
 भगी अथ, कडेवानु तात्पर्य अ छे छे ते प्रदेशो न्यारे स्वतंत्ररूपे शक्य
 कडे द्रव्यरूपे परिवृत्त यत् नही-साके द्रव्यकोटिमें आ जाते अथ ते अने

स्युः ५, स्यात् कदाचित् द्रव्यञ्च द्रव्यदेशाश्च स्युः ६, स्यात् कदाचित् द्रव्याणि च द्रव्यदेशश्च स्युः ७, स्यात् कदाचित् ते चत्वारः पुद्गलास्तिकायप्रदेशाः द्रव्याणि च द्रव्यदेशाश्च स्युः ८, इत्येवमष्टौ विकल्पाः स्वयमूहनीयाः ।

‘जहा चत्वारि भणिया, एवं पंच, छ, सत्त, जाव असंखेज्जा’ यथा चत्वारः पुद्गलास्तिकायप्रदेशा भणिताः उपर्युक्तविकल्पैः प्रतिपादिताः एवं तथैव पञ्च, षट्, सप्त यावत् अष्ट नव, दश संख्याताः, असंख्याताश्च पुद्गलास्तिकायप्रदेशाः प्रतिपत्तव्या अष्टविकल्पैरित्यर्थः, अधानन्तपुद्गलास्तिकायप्रदेशानाश्रित्य गौतमः पृच्छति—‘अणंता भंते ! पोगलत्थिकायपएसा किं दवं ० ?’ हे

कदाचित् एक द्रव्यरूप और द्रव्य के अनेक देशरूप ६, कदाचित् अनेक द्रव्यरूप और द्रव्यके एक देशरूप ७, और कदाचित् अनेक द्रव्यरूप और अनेक द्रव्यदेशरूप होते हैं ऐसे “ये चार विकल्प और यहां ग्रहण कर लेना चाहिये। इनका स्पष्टीकरण पूर्वोक्तरूप से स्वयं अपनी बुद्धि से किया जा सकता है। (जहा चत्वारि भणिया—एवं पंच, छ, सत्त, जाव असंखेज्जा) जिस तरह से पुद्गलास्तिकाय के चार प्रदेश कहे गये हैं—उपर्युक्त विकल्पों द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं—इसी तरह से पुद्गलास्तिकायके पांच प्रदेश, छह प्रदेश सात प्रदेश यावत्—आठ प्रदेश, नौ प्रदेश दश प्रदेश, संख्यात प्रदेश, और असंख्यातप्रदेश, भी इन पूर्वोक्त आठ विकल्पों द्वारा प्रतिपादित करलेना चाहिये।

अब सूत्रकार पुद्गलास्तिकाय के अनन्तप्रदेशों को लेकर गौतम-स्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(अणंता भंते ! पोगलत्थिकायपएसा किं

डोय छे, (६) क्यारेक तेओ अेक द्रव्य अने अनेक द्रव्यदेशरूप डोय छे, (७) क्यारेक अनेक द्रव्यरूप अने द्रव्यना अेक देशरूप डोय छे अने (८) क्यारेक तेओ अनेक द्रव्यरूप अने द्रव्यना अनेक देशरूप डोय छे आ आठे विकल्पेनु स्पष्टीकरण पूर्वोक्त रीते पोतानी बुद्धिथी नतेन करी शकय तेम छे. (जहा चत्वारि भणिया—एवं पंच, छ, सत्त, जाव असंखेज्जा) नेवी रीते पुद्गलास्तिकायना चार प्रदेशेनु उपर्युक्त विकल्पे द्वारा प्रतिपादन करवामां आण्यु छे, अेन प्रमाणे पुद्गलास्तिकायना पांच प्रदेश, छ प्रदेश, सात प्रदेश, आठ प्रदेश, नव प्रदेश, दस प्रदेश, संख्यात प्रदेश अने असंख्यात प्रदेशेनु पञ्च पूर्वोक्त आठ विकल्पे द्वारा प्रतिपादन करी शकय छे, अने तेमां आठे वैकल्पिक प्रश्नोना स्वीकारात्मक उत्तर आपवो न्नेधये.

डेवे गौतम स्वामी पुद्गलास्तिकायना अनन्त प्रदेशोनी अपेक्षां अे आ प्रमाणे प्रश्न पूछे छे—(अणंता भंते ! पोगलत्थिकायपएसा किं दवं ?) डे अदन्त !

हे भवन्त ! चत्वारः पुद्गलास्तिकायप्रदेशाः किं द्रव्यम् १, द्रव्यप्रदेशः २, द्रव्याणि ३, द्रव्यप्रदेशाः ४, द्रव्यञ्च द्रव्यप्रदेशश्च ५, द्रव्य च द्रव्यप्रदेशश्च ६, द्रव्याणि च द्रव्यप्रदेशश्च ७, द्रव्याणि च द्रव्यप्रदेशश्च ८, किं भवन्ति ! भगवान्वा-
 'गोयमा ! सिय दृक् १, सिय दृक्प्रदेशे २, अद्भुवि भगा माणियञ्चा, जात्र सिव
 दृक्चाई च दृक्प्रदेशा य' हे गौतम ! चत्वार पुद्गलास्तिकायप्रदेशा स्यात्
 कदाचित् द्रव्य गुणपर्याययोगिरूपं स्यु १, स्यात् कदाचित् द्रव्यप्रदेश स्यु २,
 स्यात् कदाचित् द्रव्याणि स्युः ३, स्यात् कदाचित् द्रव्यप्रदेशाः स्युः ४, एव रीत्या
 अष्टाऽपि भद्रा विकल्पा मणितव्याः यावत्-स्यात् कदाचित् द्रव्यञ्च द्रव्यप्रदेशश्च

प्रश्नु से ऐसा पूछा है—(चत्वारि भते ! पोग्गलास्तिकायप्रदेशा किं दृक्
 पुच्छा) हे भवन्त ! पुद्गलास्तिकाय के चार प्रदेश क्या एक द्रव्यरूप हैं ?
 या द्रव्यके एक देश रूप हैं ? या अनेक द्रव्यरूप हैं ? या द्रव्य के अनेक
 देशरूप हैं ? या एक द्रव्य और एक द्रव्यप्रदेशरूप हैं ? या एक द्रव्यरूप
 और द्रव्यके अनेक देशरूप हैं ? या अनेक द्रव्यरूप और एक द्रव्यरूप हैं ?
 या अनेक द्रव्य और अनेक द्रव्यप्रदेशरूप हैं ? इसके उत्तर में प्रश्नु कहते
 हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (सिय दृक् १, सिय दृक्प्रदेशे २, अद्भुवि भगा
 माणियञ्चा) पुद्गलास्तिकाय के चार प्रदेश कदाचित् गुणपर्याय योगी
 एक द्रव्यरूप भी होते हैं १, और कदाचित् एक द्रव्यप्रदेशरूप भी होते
 हैं २ । कदाचित् वे अनेक द्रव्यरूप भी होते हैं ३, कदाचित् वे द्रव्य के
 अनेक देशरूप भी होते हैं ४, इस रीति से आठों ही विकल्प यहाँ पर
 कहना चाहिये । अर्थात् शेष ' एक द्रव्यरूप और एक द्रव्यप्रदेशरूप '

जीनम स्वाभीने प्रश्न—(चत्वारि भते ! पोग्गलास्तिकायप्रदेशा किं दृक्
 पुच्छा) हे भवन्त ! पुद्गलास्तिकायना चार प्रदेश शुं जेक द्रव्यरूप छे ? के
 द्रव्यना जेक देशरूप छे ? के अनेक द्रव्यरूप छे ? के द्रव्यना अनेक देशरूप
 छे ? के जेक द्रव्य अने जेक द्रव्यप्रदेशरूप छे ? के जेक द्रव्य अने अनेक
 द्रव्यप्रदेशरूप छे ? के अनेक द्रव्य अने जेक द्रव्यप्रदेशरूप छे ? के अनेक द्रव्य
 अने अनेक द्रव्यप्रदेशरूप छे ?

भद्रावीर प्रश्नुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे जीनम ! ' सिय दृक् सिय
 दृक्प्रदेशे अद्भु वि भगा माणियञ्चा " पुद्गलास्तिकायना चार प्रदेश क्यारिक प्रश्नु
 पर्याययोगी जेक द्रव्यरूप पवु छेय छे, अने क्यारिक जेक द्रव्यप्रदेशरूप पवु
 छेय छे क्यारिक द्रव्यरूप पवु छेय छे, क्यारिक ते द्रव्यना अनेक देशरूप
 पवु छेय छे आ रीते चार विकल्पो जन्ना जाहीना चार विकल्पो करे
 आप्पाभां आवे छे—(५) क्यारिक तेज्जे जेक द्रव्य अने जेक द्रव्यप्रदेशरूप

स्युः ५, स्यात् कदाचित् द्रव्यञ्च द्रव्यदेशश्च स्युः ६, स्यात् कदाचित् द्रव्याणि च द्रव्यदेशश्च स्युः ७, स्यात् कदाचित् ते चत्वारः पुद्गलास्तिकायप्रदेशाः द्रव्याणि च द्रव्यदेशाश्च स्युः ८, इत्येवमष्टौ विकल्पाः स्वयमूहनीयाः ।

‘जहा चत्वारि भणिया, एवं पंच, छ, सत्त, जाव असंखेज्जा’ यथा चत्वारः पुद्गलास्तिकायप्रदेशा भणिताः उपर्युक्तविकल्पैः प्रतिपादिताः एवं तथैव पञ्च, षट्, सप्त यावत् अष्ट नव, दश संख्याताः, असंख्याताश्च पुद्गलास्तिकायप्रदेशाः प्रतिपत्तव्या अष्टविकल्पैरित्यर्थः, अथानन्तपुद्गलास्तिकायप्रदेशानाश्रित्य गौतमः पृच्छति—‘अणंता भंते ! पोगलत्थिकायपएसा किं दव्वं ?’ हे

कदाचित् एक द्रव्यरूप और द्रव्य के अनेक देशरूप ६, कदाचिद् अनेक द्रव्यरूप और द्रव्यके एक देशरूप ७, और कदाचित् अनेक द्रव्यरूप और अनेक द्रव्यदेशरूप होते हैं ऐसे “ये चार विकल्प और यहां ग्रहण कर लेना चाहिये। इनका स्पष्टीकरण पूर्वोक्तरूप से स्वयं अपनी बुद्धि से किया जा सकता है। (जहा चत्वारि भणिया—एवं पंच, छ, सत्त, जाव असंखेज्जा) जिस तरह से पुद्गलास्तिकाय के चार प्रदेश कहे गये हैं—उपर्युक्त विकल्पों द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं—इसी तरह से पुद्गलास्तिकायके पांच प्रदेश, छह प्रदेश सात प्रदेश यावत्—आठ प्रदेश, नौ प्रदेश दश प्रदेश, संख्यात प्रदेश, और असंख्यात प्रदेश, भी इन पूर्वोक्त आठ विकल्पों द्वारा प्रतिपादित करलेना चाहिये।

अब सूत्रकार पुद्गलास्तिकाय के अनन्तप्रदेशों को लेकर गौतम-स्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(अणंता भंते ! पोगलत्थिकायपएसा किं

डोय छे, (६) क्यारेक तेओ ओक द्रव्य अने अनेक द्रव्यदेशइय डोय छे, (७) क्यारेक अनेक द्रव्यइय अने द्रव्यना ओक देशइय डोय छे अने (८) क्यारेक तेओ अनेक द्रव्यइय अने द्रव्यना अनेक देशइय डोय छे आ आठे विकल्पेनु स्पष्टीकरण पूर्वोक्त रीते पोतानी बुद्धिथी नतेन करी शकय तेम छे. (जहा चत्वारि भणिया—एव पंच, छ, सत्त, जाव असंखेज्जा) जेवी रीते पुद्गलास्तिकायना आठ प्रदेशोनु उपर्युक्त विकल्पो द्वारा प्रतिपादन करवामां आओय छे, ओन प्रमाणे पुद्गलास्तिकायना पांच प्रदेश, छ प्रदेश, सात प्रदेश, आठ प्रदेश, नव प्रदेश, दस प्रदेश, संख्यात प्रदेश अने असंख्यात प्रदेशोनु यथ पूर्वोक्त आठ विकल्पो द्वारा प्रतिपादन करी शकय छे, अने तेमां आठे वैकल्पिक प्रश्नोना स्वीकारात्मक उत्तर आयवो जेधओ.

इवे गौतम स्वामी पुद्गलास्तिकायना अनन्त प्रदेशोनी अपेक्षाओ आ प्रमाणे प्रश्न पूछे छे—(अणंता भंते ! पोगलत्थिकायपएसा किं दव्वं ?) हे अन्त !

मदन्व ! अनन्ता पुद्गलास्तिकायप्रदेशाः क्रियेक गुणपर्याययोगि द्रव्य भवन्ति ? १, किं वा ते अनन्ता प्रदेशाः किं द्रव्यप्रदेशो भवन्ति ? २, एवमप्यापि पूर्वोक्ता विकल्प्या वक्तव्या इति प्रश्नः, भगवानाह—' एव चेव जाव सिय दब्बाइ च, दम्ब देसा य' हे गौतम ! एवमेव पूर्वोक्त चतुः पुद्गलास्तिकायप्रदेशवदेव पञ्च-पद्-सप्ता ऽष्ट-नव-दश-सख्याताऽसंख्यात-पुद्गलारितिकायप्रदेशवदेव अनन्तपुद्गला स्तिहायप्रदेशाः यावत्-स्यात् द्रव्य १, स्यात् द्रव्यप्रदेशः २, स्यात् द्रव्याणि ३, स्यात् द्रव्यप्रदेशा ४, स्यात् द्रव्यञ्च द्रव्यदेशञ्च ५, स्यात् द्रव्य द्रव्यदेशञ्च ६, स्यात् द्रव्याणि च द्रव्यदेशञ्च ७, स्यात् द्रव्याणि च द्रव्यप्रदेशञ्च भवन्ति ॥ सू० ४ ॥

वृत्त) हे भदन्त ! पुद्गलारितिकाय के अनन्तप्रदेश क्या एक द्रव्यरूप होते हैं ? क्या वे एक द्रव्यदेशरूप होते हैं ? इसी तरह पूर्वोक्त आठों विकल्प की तरह शेष ६ विकल्प यहाँ कहना चाहिये । इसके उत्तरमें प्रश्नु कहते हैं (एव चेव जाव सिय दब्बाइ च, दब्बदेसा य) हे गौतम ! पूर्वोक्त चार पुद्गलास्तिकायप्रदेशों की तरह और पांच, छह, सात, यावत् आठ नौ दश, सख्यात असंख्यात पुद्गलास्तिकाय के प्रदेशों की तरह अनन्त पुद्गलास्तिकायप्रदेश कदाचित् एक द्रव्यरूप होते हैं, कदाचित् एक द्रव्य देशरूप होते हैं । कदाचित् अनेक द्रव्यरूप होते हैं । कदाचित् अनेक द्रव्यदेशरूप होते हैं । कदाचित् एक द्रव्यरूप और एक द्रव्यदेशरूप होते हैं । कदाचित् एक द्रव्यरूप और अनेक द्रव्यदेशरूप होते हैं । कदाचित् अनेक द्रव्यरूप और एक द्रव्यदेशरूप होते हैं और कदाचित् अनेक द्रव्यरूप और अनेक द्रव्यदेशरूप होते हैं ॥ सू० ४ ॥

पुद्गलास्तिकायना अनन्तप्रदेश शु अेक द्रव्यरूप दोष छे ? (२) शु तेजेजे अेक द्रव्य देशरूप दोष छे ? अेव प्रभासे भाषीना छ विकल्पो पव् अहीं छेदेवा अेधअे भदावीर प्रभुने उत्तर—(एव चेव जाव सिय दब्बाइ च दब्बदेसा य) हे गौतम ! पूर्वोक्त चार पुद्गलास्तिकाय प्रदेशोना जेवुं अे अने पांच छ, सात, आठ, नव इस सख्यात अने असख्यात पुद्गलास्तिकायना प्रदेशोना जेवुं अे अनन्त पुद्गलास्तिकाय प्रदेशोनुं पव् अयन समज्जु छेदेवानुं तात्पर्य अे छे हे अनन्त पुद्गलास्तिकाय प्रदेशोः द्वारिक अेक द्रव्यरूप पव् दोष छे, द्वारिक अेक द्रव्यदेशरूप पव् दोष छे द्वारिक अनेक द्रव्यरूप पव् दोष छे द्वारिक अनेक द्रव्यदेशरूप पव् दोष छे द्वारिक अेक द्रव्यरूप अने अेक द्रव्य देशरूप पव् दोष छे द्वारिक अेक द्रव्यरूप अने अनेक द्रव्यदेशरूप पव् दोष छे द्वारिक अनेक द्रव्यरूप अने अेक द्रव्यदेशरूप पव् दोष छे तथा क्या छे अनेः द्रव्यरूप अने अनेक द्रव्यदेशरूप पव् दोष छे ॥ सूत्र ४ ॥

लोकाकाशप्रदेशवक्तव्यता ।

इतः पूर्वं परमाण्वादिवक्तव्यता प्रतिपादिता, परमाण्वादयश्च लोकाकाश-
प्रदेशावगाहिनो भवन्ति, इति तद्वक्तव्यतामाह—‘ केवइया णं भंते’ इत्यादि ।

मूलम्—केवइया णं भंते ! लोगागासपएसा पन्नत्ता ? गोयमा !
असंखेज्जा लोगागासपएसा पन्नत्ता, एगमेगस्स णं भंते !
जीवस्स देवइया जीवपएसा पणत्ता ? गोयसा ! जावइया
लोगागासपएसा, एगमेगस्स णं जीवस्स एवइया जीवपएसा
पणत्ता ॥ सू० ५ ॥

छाया—कियन्तः खलु भदन्त ! लोकाकाशप्रदेशाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! असं-
ख्येया लोकाकाशप्रदेशाः प्रज्ञप्ताः । एकैकस्य खलु भदन्त ! जीवस्य कियन्तो
जीवप्रदेशाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! यावन्तो लोकाकाशप्रदेशाः, एकैकस्य खलु
जीवस्य एतावन्तो जीवप्रदेशाः प्रज्ञप्ताः ॥ सू० ५ ॥

लोकाकाशप्रदेश वक्तव्यता

‘ केवइया णं भंते ! लोगागासपएसा पन्नत्ता ’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(केवइया णं भंते ! लोगागासपएसा पन्नत्ता) हे भदन्त !
लोकाकाश के प्रदेश कितने कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (असं-
खेज्जा लोगागासपएसा पन्नत्ता) लोकाकाशके प्रदेश असंख्यात कहे गये
हैं । (एगमेगस्स णं भंते ! जीवस्स केवइया जीवपएसा पन्नत्ता ।) हे
भदन्त ! एक एक जीव के जीव प्रदेश कितने कहे गये हैं ? (गोयमा)
हे गौतम ! (जावइया लोगागासपएसा—एगमेगस्स णं जीवस्स एवइया
जीवपएसा पणत्ता) कितने प्रदेश लोकाकाश के कहे गये हैं—इतने ही
जीव प्रदेश एक एक जीव के कहे गये हैं ।

लोकाकाश प्रदेश वक्तव्यता—

“ केवइया णं भंते ! लोगागासपएसा पणत्ता ” इत्यादि—

सूत्रार्थ—(केवइया णं भंते ! लोगागासपएसा पणत्ता ?) हे भदन्त !
लोकाकाशना केटला प्रदेश कइया छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (असंखेज्जा
लोगागासपएसा पणत्ता) लोकाकाशना प्रदेश असंख्यात कइया छे (एगमेग-
स्स णं भंते ! जीवस्स केवइया जीवपएसा पणत्ता ?) हे भदन्त ! ओक ओक
अवना अवप्रदेश केटला कइया छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जावइया
लोगागासपएसा—एगमेगस्स णं जीवस्स एवइया जीवपएसा पणत्ता) लोकाकाशना
केटला प्रदेश कइया छे, ओकला न ओक ओक अवना अवप्रदेश कइवामा आब्या छे.

टीका—'केवइया ण मंते ! लोगागासपएसा पण्णसा ?' हे मइन्त ! कियन्त खलु लोकाकाशप्रदेशा मइप्पता ? मगवानाह—'असखेज्जा लोगागास पएसा पण्णसा' हे गौतम ! असखयेया लोकाकाशप्रदेशाः मइप्पता, सोइस्या सख्यातप्रदेशिकत्तया तस्य प्रदेशानामपि असख्यातत्वात् । प्रदेशाधिकारादाह 'एगमेगस्स ण मंते ! जीवस्स केवइया जीवपएसा पण्णसा ?' हे मइन्त ! एकैकस्य खलु जीवस्स कियन्तो जीवप्रदेशा मइप्पता ? मगवानाह—'गोयमा ! आणइया लोगागासपएसा, एगमेगस्स णं जीवस्स एवइया जीवपएसा पण्णसा' हे गौतम ! यावन्तो लोकाकाशप्रदेशाः सन्ति एतान्त खलु एकैकस्य जीवस्य जीवप्रदेशा मइप्पताः । कय चावत् यावन्तो लोकाकाशस्य प्रदेशान्तान्त एकै

टीकार्थ—इससे पहिले परमाणु भावि की वक्तव्यता कही जा चुकी है । ये परमाणु भावि पदार्थ लोकाकाश के प्रदेशों में अचगाही रहते हैं इसलिये सूत्रकार ने इस सूत्र द्वारा लोकाकाश के प्रदेशों की वक्तव्यता प्रतिपादित की है । इस में गौतम ने प्रश्न से ऐसा पूछा है—(केवइया ण भते ! लोगागासपएसा पण्णसा) हे मइन्त ! लोकाकाश के प्रदेशा कितने कहे गये हैं ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं—हे गौतम ! (असखेज्जा लोगागासपएसा पण्णसा) लोकाकाशके प्रदेश असख्यात कहे गये हैं ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(एगमेगस्स णं भते ! जीवस्स केवइया जीवपएसा पण्णसा) हे मइन्त ! एक २ जीव के जीव प्रदेश कितने कहे गये ? उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (आणइया लोगागासपएसा, एगमेगस्स णं जीवस्स एवइया जीवपएसा

टीकार्थ—आ पहले ही परमाणु भावि प्रतीपादन कराना अभी जगु ते परमाणु भावि पदार्थ लोकाकाशना प्रदेशोभा अचगाहना करीने रहे थे आ सूत्रधने अनुवक्षीने सूत्रद्वारे आ सूत्रद्वारा लोकाकाशना प्रदेशोभा अचगाहना प्रतिपादन कर्तुं थे—आ विषयने अनुवक्षीने गौतम स्वामी भदावीर प्रश्नने जेवो प्रश्न पूछे थे हे—(केवइया णं भते ! लोगागासपएसा पण्णसा ?) हे मइन्त ! लोकाकाशना प्रदेश इटला कइला जथा थे ?

भदावीर प्रश्नने उत्तर—'गोयमा ! असखेज्जा लोगागासपएसा पण्णसा' हे गौतम ! लोकाकाशना प्रदेश असख्यात कइला थे

गौतम स्वामीने प्रश्न—(एगमेगस्स णं भते ! जीवस्स केवइया जीवपएसा पण्णसा ?) हे मइन्त ! जेक जेक (प्रत्येक) एवना इटला एवप्रदेश कइला थे ?

भदावीर प्रश्नने उत्तर—(आणइया लोगागासपएसा एगमेगस्स णं जीवस्स एवइया जीवपएसा पण्णसा) हे गौतम ! लोकाकाशना प्रदेश इटला प्रदेश थे, जेक

कस्य जीवस्य प्रदेशा भवन्तीति चेदत्रोच्यते—यतो हि—जीवः केवलिसमुद्घातकाद्ये सर्वं लोकाकाशं व्याप्य अवतिष्ठते तस्मात् लोकाकाशप्रदेशप्रमाणास्ते जीव प्रदेशाः सन्तीति भावः ॥ सू० ५ ॥

कर्मप्रकृतिवक्तव्यता ।

पूर्वं जीवप्रदेशाः प्ररूपिताः, तेषां प्रायः कर्मप्रकृतिभिरनुनेतृत्वात् कर्मप्रकृति वक्तव्यतामाह—‘ कइ णं भंते ! ’ इत्यादि ।

मूलम्—कइ णं भंते ! कम्मपगडीओपणत्ताओ ? गोयमा ! अट्टु कम्मपगडीओ पणत्ताओ, तं जहा-नाणावरणिज्जं जाव अंतराइयं, नेरइयाणं भंते ! कइ कम्मपगडीओ पणत्ताओ ? गोयमा ! अट्टु । एवं सव्वजीवाणं अट्टु कम्मपगडीओ ठावेयव्वाओ जाव वेमाणियाणं । नाणावरणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइया अविभागपलिच्छेया पणत्ता?, गोयमा ! अणंता अविभागपरिच्छेया पणत्ता, नेरइया णं भंते ! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवइया अविभागपलिच्छेया पणत्ता? गोयमा ! अणंता अविभागपलिच्छेया पणत्ता । एवं सव्वजीवाणं जाव वेमाणिया णं पुच्छा, गोयमा ! अणंता अविभागपलिच्छेया पणत्ता, एवं जहा नाणावरणिज्जस्स अविभागपलिच्छेया भणिया तथा अट्टण्ह वि कम्मपगडीणं भाणियव्वा जाव वेमाणियाणं । एगमेगस्स

पणत्ता) जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, एक २ जीव के इतने ही प्रदेश कहे गये हैं । क्यों कि जीव जिस समय केवलिसमुद्घात अवस्थामें रहता है, वह उस समय समस्त लोकाकाश को व्याप्त करलेता है—अतः एक जीव के प्रदेश लोकाकाश के प्रदेशोंके बराबर कहे गये हैं ॥सू०५॥

ता ७ ओक ओक एवना एवप्रदेश छे. कारण के एव न्यारे केवलिसमुद्घात अवस्थामा रहे छे, ते समये ते समस्त लोकाकाशने व्याप्त करी वे छे, तेथी ओक एवना एवप्रदेश लोकाकाशना प्रदेशोनी अरापर कडेवामां आव्या छे. सू. ५

णं भते ! जीवस्स एगमेगे जीवपप्से णाणावरणिउजस्स कम्म
 स्स केवइएहिं, अविभागपलिच्छेएहिं आवेढिय परिवेढिए सिया?
 गोयमा ! सिय आवेढियपरिवेढिए, सिय नो आवेढियपरि
 वेढिए, जइ आवेढियपरिवेढिए नियमा अणतेहिं, एगमेग
 स्स ण भते ! नेरइयस्स एगमेगेजीवपप्से णाणावरणिउजस्स
 कम्मस्स केवइएहिं अविभागपलिच्छेएहिं आवेढियपरिवेढिए ?
 गोयमा ! नियमा अणतेहिं, जहा नेरइयस्स एव जाव वेमा
 णियस्स, नवर मणूसस्स जहा जीवस्व । एगमेगस्स णं भते !
 जीवस्स एगमेगे जीवपप्से दरिसणावरणिउजस्स कम्मस्स
 केवइएहिं, एव जहेव नाणावरणिउजस्स तहेव दढगो भाणिय
 व्वो जाव वेमाणियस्स, एव जाव अतराइयस्स भाणियव्व, नवर
 वेयणिउजस्स, आउयस्स, णामस्स, गोयस्स, एएहिं चउणइ वि
 कम्माण मणूसरस्स जहा नेरइयस्स तहा भाणियव्व सेस
 त चेव ॥ सू० ६ ॥

छाया—कृति स्वस्तु भदन्त ! कर्मप्रकृतयः प्रकृताः ? गौतम ! अष्ट कर्मप्र
 कृतयः प्रकृताः, तद्यथा—ज्ञानावरणीय यावत्—प्रान्तरायिकम् । नैरविच्छायां

कर्मप्रकृति वस्तुव्यथा—

(कइ णं भते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ) इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(कइ ण भते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ) हे भदन्त !
 कर्मप्रकृतियां कितनी कही गई हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (अष्ट कम्म
 पपडीओ पण्णत्ताओ) कर्मप्रकृतियां आठ कही गई हैं । (त जहा) जो

कर्मप्रकृति वस्तुव्यथा—

(कइ ण भते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ) इत्यादि—

सूत्रार्थ—(कइ ण भते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ) हे भदन्त ! कर्म
 प्रकृतियों के कितने हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (अष्ट कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ)
 आठ कर्मप्रकृतियों के हैं । (त जहा) जो तेमना नाम नीचे प्रभावे है (मात्रा

भदन्त । कति कर्मप्रकृतयः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ? अष्ट, एवं सर्वजीवानाम् अष्ट कर्मप्रकृतयः स्थापयितव्याः यावत् वैमानिकानाम् । ज्ञानावरणीयस्य खलु भदन्त ! कर्मणः क्रियन्तः अविभागपरिच्छेदाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ता अविभागपरिच्छेदाः प्रज्ञप्ताः । नैरयिकाणां भदन्त ! ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः क्रियन्तः अविभागपरिच्छेदाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ता अविभागपरिच्छेदाः प्रज्ञप्ताः । एव सर्व

इस प्रकार से हैं—(नाणावरणिज्जं जाव अंतराहयं) ज्ञानावरणीय यावत् आन्तरायिक (नेरहयाणं भंते ! कइ कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ) हे भदन्त ! नैरयिक जीवों के कितनी कर्मप्रकृतियां कही गई हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (अट्ट) नैरयिक जीवों के आठ कर्मप्रकृतियां कही गई हैं । (एव सव्वजीवाणं) इसी तरह से सर्व जीवों के (कम्मपयडीओ ठावेयव्वा) आठ कर्मप्रकृतियां कही गई है (जाव वैमाणियाणं) यावत् वैमानिक देवों तक । (नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवइया अविभागपलिच्छेया पण्णत्ता) हे भदन्त ! ज्ञानावरणीय कर्म के कितने अविभागी परिच्छेद कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (अणंता अविभागपलिच्छेया पण्णत्ता) ज्ञानावरणीय कर्म के अविभागी परिच्छेद अनन्त कहे गये हैं । (नेरहयाणं भंते ! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवइया अविभागपलिच्छेया पण्णत्ता) हे भदन्त ! नैरयिक जीवों के ज्ञानावरणीय कर्म के अविभागी परिच्छेद कितने कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (अण्णंता अविभागपलिच्छेया पण्णत्ता) नैरयिक जीवों के ज्ञानावरणीय

वरणिज्जं, जाव अंतराहयं) ज्ञानावरणीयथी अन्तराय सुधीनी आठ कर्मप्रकृतियो छे. (नेरहयाणं भंते ! कइ कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ ?) हे भदन्त ! नारक लोकोनी केटली कर्मप्रकृतियो कही छे ? (गोयमा ! अट्ट) हे गौतम ! नारक लोकोनी आठ कर्मप्रकृतियो कही छे. (एवं सव्वजीवाणं) एव प्रमाणेसर्व लोकोनी (कम्मपयडीओ ठावेयव्वा जाव वैमाणियाणं) वैमानिक देवो पर्यन्तना समस्त लोकोनी आठ कर्मप्रकृतियो कही छे (नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवइया अविभागपलिच्छेया पण्णत्ता ?) हे भदन्त ! ज्ञानावरणीय कर्मना केटला अविभागी परिच्छेद कडेवामां आल्या छे ? (गोयमा ! अणंता अविभागपलिच्छेया पण्णत्ता ?) हे गौतम ! ज्ञानावरणीय कर्मना अनन्त अविभागी परिच्छेद कइया छे. (नेरहयाणं भंते ! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवइया अविभागपलिच्छेया पण्णत्ता ?) हे भदन्त ! नारकोना ज्ञानावरणीय कर्मना अविभागी परिच्छेद केटला कइया छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (अण्णंता अविभागपलिच्छेया पण्णत्ता) नार-

जीवानाम् यावत् वैमानिकानाम् पृच्छा, गौतम ! अनन्ता अविभागपरिच्छेदा
 मङ्गला, एवं यथा ज्ञानावरणीयस्य अविभागपरिच्छेदा मणितास्तथा अष्टा
 नामपि कर्मप्रकृतीनां मणितव्याः, यावत् - वैमानिकानाम् । एकैस्स्य तस्य
 मद्दन्त ! जीवस्य एकैको जीवमवेशः, ज्ञानावरणीयस्य कर्मण कियन्निरविभाग
 परिच्छेदः आवेष्टितः परिवेष्टितः स्यात् ! गौतम ! स्यात् आवेष्टितः परिवेष्टितः,

कर्म के अविभागी परिच्छेद अनन्त कहे गये हैं । (एव सञ्चजीवाण
 जाय) इसी तरह से समस्त जीवों के जानना चाहिये—यावत् (वैमा
 गिया णं पृच्छा) हे मद्दन्त ! वैमानिक जीवों के ज्ञानावरणीय कर्म के
 अविभागी परिच्छेद कितने कहे गये हैं ? (गोयमा ! अणंता अविभाग
 पलिच्छेया पण्णसा) हे गौतम ! वैमानिक जीवों के ज्ञानावरणीय कर्म
 अविभागी परिच्छेद अनन्त कहे गये हैं । (एव जहा णाणावरणिज्जस्स
 अविभागपलिच्छेया मणिया तद्वा अट्टण्ह वि कम्मपगडीण भाणियव्वा)
 जिस प्रकार से ज्ञानावरणीय कर्म के अविभागीपरिच्छेद कहे गये हैं
 उसी तरह दोष सात कर्मों के भी अविभागी परिच्छेद जानना चाहिये ।
 (जाय वैमाणियाणं) यावत् वैमानिक देवों के भी ज्ञानावरणीय आदि
 आठ कर्मों के अविभागी परिच्छेद अनन्त होते हैं । (एगमेगस्स ण
 भंते ! जीवस्स एगमेगे जीवपएसे णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केषइएहिं
 अविभागपलिच्छेएहिं आवेष्टियपरिवेष्टिय सिया) हे मद्दन्त ! एक एक
 जीव का एक २ जीव प्रवेश ज्ञानावरणीय कर्म के कितने अविभागप

ठाना ज्ञानावरणीय कर्मना अनन्त अविभागी परिच्छेद कया छे (एव सञ्च
 जीवाण-यावत् वैमाणियाणं) ज्येष्ठ प्रभावे वैमानिक देवो पयन्तना समस्त
 एवेना ज्ञानावरणीय कर्मना अविभागी परिच्छेद अनन्त कडेवामां आन्धा छे

(एव जहा णाणावरणिज्जस्स अविभागपलिच्छेया मणिया तद्वा अट्टण्ह वि
 कम्मपगडीय माणियव्वा) ज्येष्ठी रीते ज्ञानावरणीय कर्मना अविभागी परिच्छेद
 अनन्त कडेवामां आन्धा छे ज्येष्ठ प्रभावे आधीनां सात कर्मोना अविभागी
 परिच्छेद पय अनन्त समञ्जसा (जाय वैमाणियाणं) वैमानिक देवो पयन्तना
 समस्त एवेना ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मोना अविभागी परिच्छेद पय
 अनन्त छे ज्येष्ठ समञ्जसु

(एगमेगस्स ण भंते ! जीवस्स एगमेगे जीवपएसे णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स
 केषइएहिं अविभागपलिच्छेएहिं आवेष्टियपरिवेष्टिय सिया ?) हे मद्दन्त ! ज्येष्ठ

स्यात् नो आवेष्टित परिवेष्टित., यदि आवेष्टितपरिवेष्टितो नियमात् अनन्तैः ।
 एकैकरय खलु भदन्त ! नैरयिकस्य एकैको जीवप्रदेशः ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः
 क्रियद्भिः अविभागपरिच्छेदैः आवेष्टितपरिवेष्टितः ? गौतम ! नियमात् अनन्तैः
 यथा नैरयिकस्य एवं यावत् वैमानिकस्य, तत्र मनुष्यस्य यथा जीवस्य एकैकस्य

रिच्छेदों से आवेष्टितपरिवेष्टित हो रहा है ? (गौतम) हे गौतम !
 (सिय आवेष्टियपरिवेष्टिय, सिय नो आवेष्टियपरिवेष्टिय) एक २ जीव
 का एक एक प्रदेश ज्ञानावरणीय कर्म के अविभाग परिच्छेदों से कदा-
 चित् आवेष्टितपरिवेष्टित होता भी है और कदाचित् आवेष्टितपरि-
 वेष्टित नहीं भी होता है । (जह आवेष्टियपरिवेष्टिय नियमा अणतेहिं)
 यदि वह आवेष्टित परिवेष्टित हो तो नियम से ज्ञानावरणीय कर्म के
 अनन्त अविभागपरिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित रहा करता है ।
 (एगमेगरस णं भन्ते ! नेरइयस्स एगमेगे जीवपएसे णाणावरणिज्जस्स
 कम्मस्स केवइएहिं अविभागपलिच्छेएहिं आवेष्टियपरिवेष्टिय) हे भदन्त !
 एक एक नैरयिक का एक एक जीव प्रदेश ज्ञानावरणीय कर्म के कितने
 अविभाग परिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित हो रहा है ? (गौतम !
 नियमा अणतेहिं) हे गौतम ! एक एक नैरयिक का एक एक जीव प्रदेश
 नियम से ज्ञानावरणीय कर्म के अनन्तप्रदेशों से आवेष्टित परिवेष्टित

એક જીવનો એક એક જીવપ્રદેશ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના કેટલા અવિભાગી
 પરિચ્છેદો સાથે આવેષ્ટિત પરિવેષ્ટિત થઈ રહ્યો હોય છે ? (ગૌતમ !) હે
 ગૌતમ ! (સિય આવેષ્ટિયપરિવેષ્ટિય, સિય નો આવેષ્ટિયપરિવેષ્ટિય) એક એક
 જીવનો એક એક પ્રદેશ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના અવિભાગી પરિચ્છેદોની સાથે
 ક્યારેક આવેષ્ટિત પરિવેષ્ટિત હોય છે અને ક્યારેક આવેષ્ટિત પરિવેષ્ટિત
 નથી પણ હોતો. (જહ આવેષ્ટિય પરિવેષ્ટિય નિયમા અણતે હિં) એ તે આવે-
 ષ્ટિત પરિવેષ્ટિત હોય તો નિયમથી જ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના અનંત અવિભાગી
 પરિચ્છેદોની સાથે આવેષ્ટિત પરિવેષ્ટિત રહ્યા કરે છે.

(એગમેગરસ ણં ભન્તે ! નેરઇયસ્સ એગમેગે જીવપપસે ણાણાવરણિજ્જસ્સ કમ્મસ્સ
 કેવઇએહિં અવિભાગપલિચ્છેએહિં આવેષ્ટિયપરિવેષ્ટિય ?) હે ભદન્ત ! એક એક
 નારક જીવનો એક એક જીવપ્રદેશ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના કેટલા અવિભાગી
 પરિચ્છેદોની સાથે આવેષ્ટિત પરિવેષ્ટિત થઈ રહ્યો હોય છે ? (ગૌતમ !
 નિયમા અણતેહિં) હે ગૌતમ ! એક એક નારક જીવનો એક એક જીવપ્રદેશ
 નિયમથી જ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના અનંત અવિભાગી પરિચ્છેદોની સાથે આવે-



स्त्रु मदन्त ! जीवस्य एकैको जीवप्रदेशो दर्शनारणीयस्य क्षमणः क्रियन्ति; एवं यथैव ज्ञानारणीयस्य तथैव दण्डको मणितक्यो यावद् वैमानिकस्य, एव यावद् आन्तरायिकस्य मणितक्यम्, नवर वेदनीयस्य, आयुष्कस्य, नान्तः, गोपस्य एतेषां, चतुर्णामपि कर्मणां मनुष्यस्य नैरपिक्स्य तथा मणितक्यम्, शेषं तदेव ॥ सू० ६ ॥

हो रहा है। (जहा नेरइयस्स एव जाव वेमाणियस्स-नवर मणूसस्स जहा जीवस्स) तैसा नैरपिकों के विषय में कहा गया है वैसे ही यावत् वैमानिकों के विषय में भी जानना चाहिये। परन्तु मनुष्यों को जीव की तरह से कहना चाहिये। (एगमेगस्स ण भंते। जीवस्स एगमेगे जीवपएसे वरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स केयइएहिं०) हे मदन्त ! एक एक जीव का एक एक जीवप्रदेश दर्शनारणीय कर्म के किनने अधि भाग परिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित हो रहा है? (एव जहेव नाणावरणिज्जस्स तहेव वडगो भाणियक्खो जाव वेमाणियस्स एव जाव अंतराइयस्स भाणियक्खं) हे गौतम ! जिस तरह से ज्ञानारणीय कर्म के विषय में दण्डक कहा गया है उसी तरह से यहाँ पर भी यावत् वैमानिक तक दण्डक कहना चाहिये। इसी तरह से यावत् अन्तराय-तक कथन जानना चाहिये। (नवरं वेयणिज्जस्स आउयस्स णामस्स गोयस्स एएहिं चउण्हं वि कम्मण मणूसस्स जहा नेरइयस्स तहा

ष्टित पशवेष्टित यथं शब्दो डोयं छे (जहा नेरइयस्स एव जाव वेमाणियस्स नवर मणूसस्स जहा जीवस्स) हे गौतम ! आ विषयने अनुत्क्षीने नारडोना विषे नेवुं कडेवाभां आब्धुं छे, जेवुं ए कथन वैमानिक देवे पञ्चन्तना एव विषे सभञ्जं पञ्च मनुष्यना विषयभां एवना नेवुं कथन सभञ्जं

(एगमेगस्स ण भंते ! जीवस्स एगमेगे जीवपएसे वरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स केयइएहिं ?) हे मदन्त ! जेक जेक एवने जेक जेक एवप्रदेश इशानारणीय कर्मना केट्ठा अविभासी परिच्छेदे साधे आवेष्टित परिवेष्टित यथं शब्दो डोयं छे ? (एव जहेव नाणावरणिज्जस्स तहेव वडगो भाणियक्खो जाव वेमाणियस्स एव जाव अंतराइयस्स भाणियक्खं) हे गौतम ! ने दीते ज्ञाना नारणीय कर्मना विषयभां उत्तराद्या एव कडेवाभां आब्धे छे जेक प्रभावे वैमानिक पञ्चन्तना देवेना विषयभां इशानारणीय कर्म विषेने आहाक पञ्च सभञ्जे जेक प्रभावेनुं कथन पञ्चन्तनाय पञ्चन्तना कर्मना विषयभां पञ्च सभञ्जं (नवरं वेयणिज्जस्स आउयस्स णामस्स गोयस्स एएहिं चउण्हं वि कम्मण मणूसस्स जहा नेरइयस्स तहा भाणियक्खं, सेसं तं वेव) परन्तु वेदनीय, आहु

टीका—‘कइ णं भंते ! कम्मपगडीओ पणत्ताओ ?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! कति—क्रियत्यः खलु कर्मप्रकृतयः प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह—‘गोयमा ! अट्ट कम्म पगडीओ पणत्ताओ’ हे गौतम ! अट्ट कम्मप्रकृतयः प्रज्ञप्ताः, ता आह—‘तं जहा’ तद्यथा—‘नाणावरणिज्जं जाव अंतराइयं’ ज्ञानावरणीयं, यावत्—दर्शनावरणीयं, वेदनीयं, मोहनीयम्, आयुष्यम्, नाम, गोत्रम्, आन्त-

भाणियव्वं सेसं तं चेव) किन्तु वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र इन चार अघातियां कर्मों द्वारा आवेष्टित परिवेष्टित होने का कथन जैसा नैरयिकों में कहा गया है वैसा ही मनुष्यों में जानना चाहिये। बाकी का और सब कथन पहिले जैसा ही जानना चाहिये।

टीकार्थ—पहिले जीवप्रदेशों का निरूपण किया गया है। ये जीव-प्रदेश प्रायः कर्मप्रकृतियों से अनुगत—युक्त होते हैं, यहाँ पर सूत्रकार ने उन्हीं कर्मप्रकृतियों का कथन किया है इसमें गौतम ने प्रभु से ऐसा पूछा है (कइ णं भंते ! कम्मपगडीओ पणत्ताओ) हे भदन्त ! जीव के प्रत्येक प्रदेशों को आवृत्त करने वाली कर्मप्रकृतियां कितनी कही गई हैं ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा ! अट्ट कम्मपगडीओ पणत्ताओ) हे गौतम ! कर्मप्रकृतियां आठ कही गई हैं। (तं जहा) जो इस प्रकार से हैं—(नाणावरणिज्जं जाव अंतराइयं) ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और आन्तरायिक।

नाम अने गोत्र, अे आर अघातिया कर्मों द्वारा आवेष्टित परिवेष्टित थवानुं कथन जेवुं नारकेना विषयमां कहुं छे, जेवुं ज मनुष्येमां पणु समज्जु. भाडीनुं समस्त कथन पडेलाना कथन (ज्ञानावरणीयना कथन) प्रमाणे ज समज्जु

टीकार्थ—पडेला जवप्रदेशोनु निरूपणु करवामा आणु. ते जवप्रदेश सामान्य रीते कर्मप्रकृतियोथी अनुगत (युक्त) छे। ते सपंधने अनु-लक्षिने सूत्रकारे अही कर्मप्रकृतियोनुं कथन कथुं छे. आ विषयने अनुलक्षिने गौतम स्वामी भडावीर प्रभुने आ प्रमाणे प्रश्न पूछे छे—

(कइ णं भंते ! कम्मपगडीओ पणत्ताओ ?) हे भदन्त ! जवना प्रत्येक प्रदेशोने आवृत्त करनारी कर्मप्रकृतियो केटली कही छे ? तेनो उत्तर आपता भडावीर प्रभु कहे छे—“गोयमा !” हे गौतम ! “अट्ट कम्मपगडीओ पणत्ताओ” कर्मप्रकृतियो आठ कही छे “तजहा” तेमना नाम नीचे प्रमाणे छे—(नाणावरणिज्जं जाव अंतराइयं) (१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयुष्य, (६) नाम, (७) गोत्र अने (८) आन्तराय.

रायिक च, गौतम पृच्छति-नेरइयाण भंते ! कइ कम्म पगढीओ पण्णसाओ ?
 हे भदन्त ! नेरयिकाणां कति कर्मप्रकृतयः प्रवृत्ताः ? भगवानाह- 'गोपमा !
 अट्ट' हे गौतम ! नेरयिकाणाम् अष्ट कर्मप्रकृतयः प्रवृत्ताः ताश्च प्रतिपादिता एव
 'एव सध्वजीवाण अट्ट कम्मपगढीओ ठायेयव्वाओ जाव पेमाणियाण ' एवम्
 उक्तरीन्या सध्वजीवानाम् अष्ट कर्मप्रकृतयः स्यादप्यितव्याः-प्रतिपादयितव्या यान्
 भयनपति-पृथिवीकापिकायेकेन्द्रिय-दीन्द्रिय-श्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रिय-तिर्य-
 ग्योनिह-मनुष्य-दानव्यन्तर-ज्योतिषिक-वैमानिकानां षट्षिंशतिदण्डकपदमति
 पाद्यानाम् अष्ट कर्मप्रकृतयः प्रतिपादयितव्याः । गौतमः पृच्छति-'नाणारणि

अथ गौतमस्यामी प्रभु से पेसा पूछते हैं-(नेरइया ण भंते ! कइ
 कम्मपगढीओ पण्णसाओ) हे भदन्त ! नारक जीवों के कितनी कर्मप्र-
 कृतिया कही गई हैं ? उत्तर में प्रभु कहते हैं-(गोपमा ! अट्ट) हे
 गौतम ! नारक जीवों के आठ कर्मप्रकृतियां कही गई हैं । (एवं सध्व
 जीवाण अट्ट कम्मपगढीओ ठायेयव्वाओ जाव पेमाणियाण) इसी तरह
 से ममस्म जीवों के आठ कर्मप्रकृतियां हैं ऐसा कथन करना चाहिए ।
 अर्थात्-भयनपति, पृथिवीकापिक आदि एकेन्द्रिय जीव, द्वीन्द्रिय जीव,
 श्रीन्द्रिय जीव, चतुरिन्द्रियजीव, पञ्चेन्द्रियजीव, मनुष्य, दानव्यन्तर,
 ज्योतिषिक, और वैमानिक इन शौधीमदण्डक प्रतिपाद्य जीवों के ज्ञाना-
 यरणीय आदि आठ कर्मप्रकृतिया कही गई हैं ।

अथ गौतमस्यामी प्रभु से पेसा पूछते हैं (नाणारणिअस्स णं
 भंते ! कम्मस्स वेयइया अयिमागपल्लिज्जोगा पण्णसा) हे भदन्त !

श्रीमद् भगवद्गीता प्रश्न- 'नेरइयाण भंते ! कइ कम्मपगढीओ पण्णसाओ ?
 हे भदन्त ! नरक लोको की कितनी कर्मप्रकृतियां हैं ?

भगवान् प्रभुने उत्तर- "गोपमा ।" २ श्रीमद् । "अट्ट" नारक
 लोको के आठ कर्मप्रकृतियो के सूचाय देय है (एव सध्वजीवाण
 अट्ट कम्मपगढीओ ठायेयव्वाओ जाव पेमाणियाण) अथ प्रभुने वैमानिक
 जीवो पण्णसा ममस्म लोको के पण्णसा कर्मप्रकृतियो के सूचाय देय
 है अथ हे भयनपति पृथिवीकापिक आदि एकेन्द्रिय लोको द्वीन्द्रिय लोको,
 श्रीन्द्रिय लोको मनुष्यिन्द्रिय लोको चतुरिन्द्रिय लोको पञ्चेन्द्रिय लोको
 मनुष्य, दान
 व्यन्तर ज्योतिषिक अने वैमानिक आदी ममस्म ३३ प्रतिपाद्य लोको
 ३३ कर्मप्रकृतियो के सूचाय देय है

अथ गौतम श्यामी भदन्त प्रभुने लोको प्रश्न ५) है हे- (नाणारणि
 अस्स णं भंते ! कम्मस्स वेयइया अयिमागपल्लिज्जोगा पण्णसा) हे भदन्त !

उजस्स णं भंते कम्मस्स केवइया अविभागपरिच्छेया पणत्ता ? १ ज्ञानावरणीयस्य खलु कर्मणः क्रियन्तोऽविभागपरिच्छेदाः प्रजप्ताः ? परिच्छिद्यन्ते इति परिच्छेदाः—अंशास्ते च सविभागा अपि भवन्ति अतो विशिष्यन्ते—अविभागा अविभाज्याश्च ते परिच्छेदा अविभागपरिच्छेदाः निरंशाः अंशा इत्यर्थः, ते च निरंशा अंशाः कर्मपरमाणूनामपेक्षया, अथवा ज्ञानस्य यावतामविभागपरिच्छेदानामशानामाच्छादनं कृतं वर्तते तदपेक्षया ज्ञानावरणीयस्य कर्मण अनन्ताः सन्ति, एतेन ज्ञानावरणीयं यावतो ज्ञानस्याविभागान् अंशान् आच्छादयति तावन्त एव तस्य ज्ञानावरणीयस्याविभागपरिच्छेदाः, दलिकापेक्षया वाऽनन्ततत्परमाणुरूपाः सन्तीति फलितम् इत्यभिप्रायेण भगवानाह—‘गोयमा! अणंता अविभागपरिच्छेया पणत्ता’ हे गौतम ! ज्ञानावरणीयस्य कर्मण अनन्ता अविभागपरिच्छेदाः—

ज्ञानावरणीय कर्म के अविभागपरिच्छेद कितने कहे गये हैं ? जिनका दूसरा अंश नहीं हो सकता है ऐसे निरंश अंशों का नाम अविभागपरिच्छेद हैं। परिच्छेद शब्द का अर्थ अंश है ये अंश विभाग सहित भी होते हैं। परन्तु जिन अंशों का विभाग नहीं होता है वे अंश अविभागपरिच्छेद शब्द से यहां प्रकट किये गये हैं। ऐसे अविभाग परिच्छेद—निरंश अंश ज्ञानावरणीय कर्म में कितने होते हैं ऐसा गौतम ने प्रश्न से प्रश्न किया है—सो इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! ज्ञानावरणीय कर्म के अविभागपरिच्छेद (अणंता पणत्ता) अनन्त कहे गये हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि ज्ञानावरणीय कर्म पौद्गलिक स्कन्धरूप है—पौद्गलिक स्कन्ध अनन्त प्रदेशों वाला भी होता है। क्यों कि संख्यात, असंख्यात और अनन्तप्रदेश पुद्गल के सिद्धान्त में कहे

ज्ञानावरणीय कर्मना अविभागी परिच्छेदो केटला क्ख्वा छे ? (वेभनो जीने अंश थं शकतो नथी एवा निरंश अशोने अविभाग परिच्छेद क्खे छे. परिच्छेदो एटवे अंश ते अश विभागसहित पणु संखी शके छे परन्तु वे अंशोने विभाग थतो नथी एवा अशोने अर्धी ‘अविभाग परिच्छेद’ शब्द द्वारा प्रकट करवामा आवेल छे ज्ञानावरणीय कर्मना एवा अविभाग परिच्छेद (निरंश अंश) केटला छे, एवु अर्धी गौतम स्वाभीअे म्हावीर प्रभुने पूछ्युं छे

म्हावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! ज्ञानावरणीय कर्मना अविभागी परिच्छेदो “ अणंता पणत्ता ” अनन्त क्ख्वा छे आ कथनं तु तात्पर्य अे छे के ज्ञानावरणीय कर्म पौद्गलिक स्कन्धरूप छे—पौद्गलिक अनन्त

निरश्वा अग्रा प्रवृत्ता, ते चोक्तस्वरूपा बोध्याः । गौतम पृच्छति—'नेरहयाण मते ! णाणावरणिज्जस्स केवइया अविभागपरिच्छेया पण्णात्ता ?' हे भदन्त ! नैरयिकाणां ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः कियन्त अविभागपरिच्छेया प्रवृत्ता ? भगवानाह—'गोयमा ! अणत्ता अविभागपरिच्छेया पण्णात्ता ' हे गौतम ! नैरयिकाणां ज्ञानावरणीयस्य कर्मण अनन्ता अविभागपरिच्छेया प्रवृत्ता । ' एव सत्त्वं

गये हैं । अतः यहाँ जो ज्ञानावरणीय कर्म के अनन्त अविभागपरिच्छेद कहे गये हैं—ये कर्मपरमाणुओं की अपेक्षा से, अथवा ज्ञान के जितने अविभाग अंशों को उन कर्मपरमाणुओं ने आच्छादित-आवृत कर रखा है, उस अपेक्षा से कहे गये हैं । क्यों कि ज्ञान के अविभागपरिच्छेद अनन्त हैं और इन अनन्त अविभागपरिच्छेदों को ज्ञानावरणीय कर्म के अविभाग परिच्छेद दलिकों की अपेक्षा से तत्परमाणुरूपा निरंश अक्ष आवृत किये हुए हैं—अतः ये भी अनन्त ही हैं । इसी अपेक्षा से यहाँ ज्ञानावरणीय कर्म के अविभागपरिच्छेद अनन्त कहे गये हैं ।

अथ गौतमस्यामी प्रसु से ऐमा पृच्छते हैं—(नेरहयाण मते ! णाणावरणिज्जस्स केवइया अविभागपरिच्छेया पण्णात्ता) हे भदन्त ! नारक जीवों के ज्ञानावरणीय कर्म के कितने अविभागपरिच्छेद कहे गये हैं ? उत्तर में प्रसु कहते हैं—(गोयमा ! अणत्ता अविभागपरिच्छेया पण्णात्ता) हे गौतम ! नैरयिक जीवों के ज्ञानावरणीय कर्म के अविभागपरिच्छेद

प्रदेशोवाणे पण्णं होय उं कारणं उं पुद्दवना सज्जातं, अज्जातं, अने अनंत प्रदेश सिद्धान्तमां कथा उं तेषी ज्ञानावरणीय कर्मना ने अनंत अविभागी परिच्छेद अर्थां कहेवाभा आब्या उं ते कर्मपरमाणुजोनी अपेक्षाके, अथवा ज्ञानना नेटलां अविभागी अशोने ते कर्मपरमाणुजोने आच्छादित आवृत-करी सजेलां उं जे अपेक्षाके कहेवाभा आवेक उं कारणं उं ज्ञानना अविभागी परिच्छेद अनंत उं, अने ते अनंत अविभागी परिच्छेदाने ज्ञानावरणीय कर्मना अविभाज-परिच्छेद इतिहेनी अपेक्षाके ते परमाणुरूपा निरंश अथ आवृत करेव होय उं तेषी तेजो पण्णं अनंत उं उं अज्जातं विचार करिने ज्ञानावरणीय कर्मना अविभाग परिच्छेद अनंत करेवाभा आब्या उं

औतम एवाभीना प्रथ—(नेरहयाण मते ! णाणावरणिज्जस्स केवइया अविभागपरिच्छेया पण्णात्ता) हे भदन्त ! नारक जीवोना ज्ञानावरणीय

जीवाणं जाव वेमाणियाण पुच्छा' एवं नैरयिक्रानामिव सर्वजीवानां यावत् भवनपतिमारभ्य वैमानिकपर्यन्तानां ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः क्रियन्तोऽविभागपरिच्छेदाः प्रज्ञप्ताः ? इति पृच्छा-प्रश्नः, भगवानाह- ' गोयमा ! अणंता अविभागपलिच्छेया पणत्ता ' हे गौतम ! सर्वेषां जीवानां ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः अनन्ता अविभागपरिच्छेदाः प्रज्ञप्ताः, ' एवं जहा णाणावरणिज्जस्स अविभागपलिच्छेया भणिया तथा अट्टण्हवि कम्मपगडीणं भाणियव्वा, जाव वेमाणियाणं । ' एवं पूर्वोक्तरीत्या यथा ज्ञानावरणीयस्य कर्मणोऽविभागपरिच्छेदाः तथैव अप्टानामपि ज्ञानावरणीयादीनाम् आन्तरायिक्रान्तानाम् कर्मप्रकृतीनाम् अनन्ता अविभागपरिच्छेदाः भणितव्याः यावत् वैमानिकानां नैरयिकादि वैमानिकपर्यन्तानाम्

अनन्त कहे गये हैं । (एवं सब्बजीवाणं जाव वेमाणियाणं पुच्छा) हे भदन्त ! समस्त जीवों के भवनपति से लेकर वैमानिक देवों तक के जीवों के कितने अविभागपरिच्छेद कहे गये हैं ? उत्तर में प्रभु कहते हैं - (गोयमा) हे गौतम ! (अणंता अविभागपलिच्छेया पणत्ता) भवनपति से लेकर वैमानिक देवों तक के जीवों के ज्ञानावरणीय कर्म के अविभागपरिच्छेद अनन्त कहे गये हैं । (एवं जहा णाणावरणिज्जस्स अविभागपलिच्छेया भणिया तथा अट्टण्हं वि कम्मपगडीणं भाणियव्वा जाव वेमाणियाणं) इस तरह जैसे भवनपति से लेकर वैमानिक देवों तक के जीवों के ज्ञानावरणीय कर्म के अविभागपरिच्छेद अनन्त कहे गये हैं उसी प्रकार से इन समस्त जीवों के दर्शनावरणीय आदि आठों कर्मों के अविभागपरिच्छेद अनन्त कहे गये हैं ऐसा जानना चाहिये ।

भडावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! अणता अविभागपलिच्छेया पणत्ता) हे गौतम ! नारक लुवेना ज्ञानावरणीय कर्मना अनन्त अविभागी परिच्छेद कइया छे. “ एवं सब्ब जीवाणं जाव वेमाणियाणं पुच्छा ” हे भदन्त ! भवनपतिथी लधने वैमानिक पर्यन्तना समस्त लुवेना ज्ञानावरणीय कर्मना अविभागी परिच्छेदो कटला कइया छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—“ अणंता अविभागपलिच्छेया पणत्ता ” हे गौतम ! भवनपतिथी लधने वैमानिको पर्यन्तना लुवेना ज्ञानावरणीय कर्मना अविभागी परिच्छेदो अनन्त कइया छे. (एवं जहा णाणावरणिज्जस्स अविभागपलिच्छेया भणिया तथा अट्टण्हं वि कम्मपगडीणं भाणियव्वा-जाव वेमाणियाणं) जेवी रीते नारकथी लधने वैमानिक देवो पर्यन्तना ज्ञानावरणीय कर्मना अविभागी परिच्छेदो अनन्त कडेवाभां आण्यो छे, जेज्ज प्रभाषे नारकथी लधने

जीवानां दर्शनावरणीयस्य, वेदनीयस्य, मोहनीयस्य, आयुष्यस्य, नाम्नः गोप्तस्य, मान्तरायिकस्य च कर्मणोऽनन्ता अविभागपरिच्छेदाः प्रज्ञापनीया । गौतमः पृच्छति-
 'एगमेगस्स णं भंते ! जीवस्स एगमेगे जीवपपसे णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स क्वा
 एहिं अविभागपरिच्छेदं हि आवेदियपरिवेदिए सिया ' हे भवन्त ! एकैकस्य सल्ल
 जीवस्य एकैको जीवप्रदेशो ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः कियद्दिः अविभागपरिच्छेदं
 परमाणुरूपै निरञ्जादीः आवेष्टितः आ ईपत्परिष्टितः परिवेष्टितः अत्यन्त परिष्टितः
 स्यात् ? मगवानाह—'गोपमा ! मिय आवेदियपरिवेदिए, सिय नो भावदियपरिवे
 दिए' हे गौतम ! एकैकजीवप्रदेशो ज्ञानावरणीयकर्माविभागपरिच्छेदः परमाणुरूपैः

अर्थान् नारक से लेकर वैमानिक तक के जीवों के दर्शनावरणीय, वेद
 नीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय इन कर्मप्रकृतियों
 के अविभागपरिच्छेद अनन्त होते हैं ऐसा जानना चाहिये अथ गौतम
 प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(एगमेगस्स ण भंते ! जीवस्स एगमेगे जीवपपसे
 णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवइएहिं अविभागपरिच्छेदं हि आवेदिए
 परिवेदिए सिया) हे भवन्त ! आपने एक जीव के अस्ख्यात प्रदेश
 कहे हैं—सो एक एक जीव का एक एक प्रदेश ज्ञानावरणीय कर्म ऋ
 कितने अविभागपरिच्छेदों से परमाणुरूप निरञ्जा अशों से आवेष्टित-
 इपत् परिष्टित, परिवेष्टित—अत्यन्त परिष्टित हैं ? इसके उत्तर में प्रश्न
 कहते हैं—(गोपमा मिय आवेदियपरिवेदिए, सिय नो आवेदियपरि
 वेदिए) हे गौतम ! ऐसा नियम नहीं है कि एक एक जीव का एक

वैमानिकों पर तब सबस्त अवेना द्यनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य,
 नाम, गोत्र अने अन्तराय, जे अठे कर्माना अविभागी परिच्छेदो अनन्त
 होय छे, जेभ समस्तु

इवे गौतम स्वाभी भदावीर प्रभुने जेवे प्रश्न करे छे हे—(एगमेगस्स
 णं भंते ! जीवस्स एगमेगे जीवपपसे णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवइएहिं अविभाग-
 परिच्छेदं हि आवेदियपरिवेदिए सिया) हे भवन्त ! आपने जेठ अवेना अस
 अज्ञात प्रदेश कहा छे तो जेठ जेठ अवेना जेठ जेठ प्रदेश ज्ञानावरणीय
 कर्मना केटका अविभागी परिच्छेदोधी (परमाणु इप निरञ्जा अशोधी आवेष्टित
 परिवेष्टित होय छे ? (आवेष्टित जेटके सामान्यरूपे परिष्टित अने परिवेष्टित
 जेटके अत्यन्त परिष्टित आवे आ अने पराने अथ थाय छे)

भदावीर प्रभुने उत्तर—(गोपमा ! मिय आवेदियपरिवेदिए द्विय नो
 आवेदियपरिवेदिए) हे गौतम ! जेवे कौण नियम नहीं है जेठ जेठ

निरंशाशैः स्यात् कदाचित् आवेष्टितपरिवेष्टितः स्यात्, स्यात् कदाचित् नो आवेष्टितपरिवेष्टितः स्यात् । तत्र केवलिनोऽपेक्षया नो आवेष्टितपरिवेष्टितः स्यात् इत्युक्तम्, केवलिनो हि, क्षीणज्ञानावरणत्वेन तत्प्रदेशस्य ज्ञानावरणीयाविभागपरिच्छेदैरावेष्टनपरिवेष्टनाभावात्, केवलिभिन्नमनुष्याद्यपेक्षया तु आवेष्टितः स्यादित्युक्तम् केवलिभिन्नमनुष्यादेरक्षीणज्ञानावरणत्वेन तत्प्रदेशस्य ज्ञानावरणीयाविभागपरिच्छेदैरावेष्टनपरिवेष्टनसद्भावात्, तत्रापि 'जड आवेष्टियपरिवेष्टिण्

एक जीव प्रदेश ज्ञानावरणीय कर्म के अविभागपरिच्छेदों से-परमाणु-रूप निरंश अशों से-आवेष्टित परिवेष्टित ही ही-हमलिये कदाचित् वह आवेष्टित परिवेष्टित है भी और कदाचित् वह आवेष्टित परिवेष्टित नहीं भी हैं । केवली भगवान् की अपेक्षा से जीव का प्रदेश ज्ञानावरणीय कर्म के अविभाग परिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित नहीं होता है । क्यों कि केवली भगवान् के ज्ञानावरणीय कर्मका सर्वथा नाश हो जाना है-अतः उनको जीव प्रदेश ज्ञानावरणीयकर्म के अविभागपरिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित नहीं रहता है । जो जीव केवली-भगवान् से भिन्न हैं-अर्थात् छद्मस्थ हैं-ऐसे मनुष्यादिक जीवों की अपेक्षा से एक एक जीव प्रदेश ज्ञानावरणीयकर्मके अविभागपरिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित रहा करता है । क्यों कि उनके ज्ञानावरणीय-कर्म क्षीण नहीं होता है । (जड आवेष्टिय परिवेष्टिण् नियमा अणंतेहि)

अपनो अेक अेक प्रदेश ज्ञानावरणीयकर्मना अविभागपरिच्छेदोथी (परमाणु रूप निरंश अशोथी) आवेष्टित परिवेष्टित (वीटजायेवो) न डाय छे क्यारेक ते आवेष्टित परावेष्टित डाय छे, अने क्यारेक आवेष्टित परिवेष्टित नथी पणु डोतो केवली भगवान्नी अपेक्षाअे अपनो प्रदेश ज्ञानावरणीय कर्मना अविभागी परिच्छेदोथी आवेष्टित परिवेष्टित डोतो नथी, कारणु के केवली भगवान्ना ज्ञानावरणीय कर्मना सर्वथा नाश थछ न्दय छे. तेथी तेमना अुवप्रदेश ज्ञानावरणीय कर्मना अविभाग परिच्छेदोथी आवेष्टित परिवेष्टित (वीटजायेवो) डोतो नथी. परन्तु केवली भगवान् सिवायना-अेटवे के छद्मस्थ-मनुष्य आदि अपनो अेक अेक अुवप्रदेश ज्ञानावरणीय कर्मना अविभागी परिच्छेदोथी आवेष्टित परिवेष्टित डुडाय छे, कारणु के तेमना ज्ञानावरणीय कर्मना क्षय थयो डोतो नथी. (जड आवेष्टियपरिवेष्टिण् नियमा अणंतेहि) ते कारणु छद्मस्थ

જીવાનાં દર્શનાવરણીયસ્ય, વેદનીયસ્ય, મોહનીયસ્ય, આયુષ્યસ્ય, નામ્નઃ ગોષ્પસ્ય, આન્તરાયિકસ્ય ચ કર્મણોઽનન્તા અધિમાગરિચ્છેદાઃ પ્રજ્ઞાપનીયાઃ । ગૌતમ પૂચ્છતિ-
' ઇગમેગસ્ત્ત ગં મતે ! જીવસ્ત્ત ઇગમેગે જીવપપસે જાણાવરણિજ્જસ્ત્ત કમ્મસ્ત્ત કેવહ્
ઈહિ અધિમાગપલિચ્છેઈહિ આલેહિયપરિવેહિઈ સિયા ' હે મદન્ત ! એકસ્ય સ્વ
જીવસ્ય એકૌ જીવપદેશો જ્ઞાનાવરણીયસ્ય કર્મણઃ કિયદ્ધિઃ અધિમાગપરિચ્છેદૈ
પરમાણુરૂપે નિરંશ્ચાંશીઃ આલેષ્ટિત્ત' આ ઈપત્પરિવૃત્તઃ પરિવેષ્ટિત્તઃ અત્પન્ત પરિવૃત્તઃ
સ્પ્યાત્ ? મગજ્ઞાનાહ- 'ગોપમા ! સિય આલેહિયપરિવેહિઈ, સિય નો આલેહિયપરિ
વેહિઈ' હે ગૌતમ ! એકજીવપદેશો જ્ઞાનાવરણીયકર્માધિમાગપરિચ્છેદૈઃ પરમાણુરૂપેઃ

અર્થાન્ નારક સે લેકર યૈમાનિક તક કે જીર્ષો કે વર્શનાવરણીય, વેદ
નીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોષ્ઠ અને અન્તરાય જન કર્મપ્રકૃતિયો
કે અધિમાગપરિચ્છેદ અનન્ત હોતે હૈં એસા જાનના યાહિયે અપ ગૌતમ
પ્રશ્ન સે એસા પૂછતે હૈં-(ઇગમેગસ્ત્ત ગં મતે ! જીવસ્ત્ત ઇગમેગે જીવપપસે
જાણાવરણિજ્જસ્ત્ત કમ્મસ્ત્ત કેવહ્ઈહિ અધિમાગપરિચ્છેઈહિ આલેહિઈ
પરિવેહિઈ સિયા) હે મદન્ત ! આપને એક જીવ કે અસસ્પ્યાત પ્રવેશ
કહે હૈં-સો એક એક જીવ યા એક એક પ્રવેશ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કે
કિતને અધિમાગપરિચ્છેદો સે પરમાણુરૂપ નિરંશ અશો સે આલેષ્ટિત-
ઈપત્ પરિવૃત્ત, પરિવેષ્ટિત-અત્પન્ત પરિવૃત્ત હૈં ? હસકે ઉત્તર મેં પ્રશ્ન
કહતે હૈં-(ગોપમા સિય આલેહિયપરિવેહિઈ, સિય નો આલેહિયપરિ
વેહિઈ) હે ગૌતમ ! એસા નિયમ નહીં હૈં કિ એક એક જીવ યા એક

યૈમાનિકો પય તન્ના સમસ્ત ઇવોના ઇશંનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય
નામ, ગોષ્ઠ અને અન્તરાય, જે આઠે કમીના અધિમાગી પરિચ્છેદો અન્ત
હોય છે એમ સમજવુ

હવે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર પ્રશ્નને જોવો પ્રશ્ન કરે છે કે-(ઇગમેગસ્તમ
મતે ! જીવસ્ત્ત ઇગમેગે જીવપપસે જાણાવરણિજ્જસ્ત્ત કમ્મસ્ત્ત કેવહ્ઈહિ અધિમાગ-
પરિચ્છેદૈ ઈ આલેહિઈ પરિવેહિઈ સિયા) કે મદન્ત ! આપે એક જીવના અસ
સ્પ્યાત પ્રવેશ કયા છે તો એક એક જીવનો એક એક પ્રવેશ જ્ઞાનાવરણીય
કર્મના કેટલા અધિમાગી પરિચ્છેદોથી (પરમાણુ રૂપ નિરંશ અશોથી આલેષ્ટિત
પરિવેષ્ટિત હોય છે ? (આલેષ્ટિત એટલે સામાન્યરૂપે પરિવૃત્ત અને પરિવેષ્ટિત
એટલે અત્પન્ત પરિવૃત્ત બંને બાબતોને ધરોને અર્થ થાય છે)

મહાવીર પ્રશ્નને ઉત્તર-(ગોપમા ! સિય આલેહિયપરિવેહિઈ, સિય નો
આલેહિયપરિવેહિઈ) હે ગૌતમ ! જોવો કેઈ નિયમ નહીં હૈં એક એક

निरंशांशैः स्यात् कदाचित् आवेष्टितपरिवेष्टितः स्यात्, स्यात् कदाचित् नो आवेष्टितपरिवेष्टितः स्यात् । तत्र केवलिनोऽपेक्षया नो आवेष्टितपरिवेष्टितः स्यात् इत्युक्तम्, केवलिनो हि, क्षीणज्ञानावरणत्वेन तत्प्रदेशस्य ज्ञानावरणीयाविभागपरिच्छेदैरावेष्टनपरिवेष्टनाभावात्, केवलिभिन्नमनुष्याद्यपेक्षया तु आवेष्टितः स्यादित्युक्तम् केवलिभिन्नमनुष्यादेरक्षीणज्ञानावरणत्वेन तत्प्रदेशस्य ज्ञानावरणीयाविभागपरिच्छेदैरावेष्टनपरिवेष्टनसद्भावात्, तत्रापि 'जड आवेष्टियपरिवेष्टिण्

एक जीव प्रदेश ज्ञानावरणीय कर्म के अविभागपरिच्छेदों से—परमाणु-रूप निरंश अशों से—आवेष्टित परिवेष्टित ही ही—हमलिये कदाचित् वह आवेष्टित परिवेष्टित है भी और कदाचित् वह आवेष्टित परिवेष्टित नहीं भी हैं । केवली भगवान् की अपेक्षा से जीव का प्रदेश ज्ञानावरणीय कर्म के अविभाग परिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित नहीं होता है । क्यों कि केवली भगवान् के ज्ञानावरणीय कर्मका सर्वथा नाश हो जाता है—अतः उनको जीव प्रदेश ज्ञानावरणीयकर्म के अविभागपरिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित नहीं रहता है । जो जीव केवली-भगवान् से भिन्न हैं—अर्थात् छद्मस्थ हैं—ऐसे मनुष्यादिक जीवों की अपेक्षा से एक एक जीव प्रदेश ज्ञानावरणीयकर्मके अविभागपरिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित रहा करता है । क्यों कि उनके ज्ञानावरणीय-कर्म क्षीण नहीं होता है । (जड आवेष्टिय परिवेष्टिण् नियमा अणंतेहिं)

एवमेव एक एक प्रदेश ज्ञानावरणीयकर्मना अविभागपरिच्छेदोत्थी (परमाणु रूप निरंश अशोत्थी) आवेष्टित परिवेष्टित (वीटणायेत्तौ) न डोय छे क्यारेक ते आवेष्टित परावेष्टित डोय छे, अने क्यारेक आवेष्टित परिवेष्टित नथी पणु डोतो डेवली भगवाननी अपेक्षाअे एवमेव प्रदेश ज्ञानावरणीय कर्मना अविभागी परिच्छेदोत्थी आवेष्टित परिवेष्टित डोतो नथी, कारणे डे डेवली भगवानना ज्ञानावरणीय कर्मना सर्वथा नाश थर्छ ज्य छे, तेथी तेमना एवप्रदेश ज्ञानावरणीय कर्मना अविभाग परिच्छेदोत्थी आवेष्टित परिवेष्टित (वीटणायेत्तौ) डोता नथी परन्तु डेवली भगवान् सिवायना—अेतत्ते डे छद्मस्थ—मनुष्य आदि एवमेव एक एक एवप्रदेश ज्ञानावरणीय कर्मना अविभागी परिच्छेदोत्थी आवेष्टित परिवेष्टित डोय छे, कारणे डे तेमना ज्ञानावरणीय कर्मना क्षय थयो डोतो नथी. (जड आवेष्टियपरिवेष्टिण् नियमा अणंतेहिं) ते कारणे छद्मस्थ

नियमा अणतेहि' आवेष्टितपरिवेष्टितो जीवप्रदेशः स्याद्यदा स नियमात् नियमत अनन्तैः ज्ञानावरणीयाविभागपरिच्छेदैरावेष्टितपरिवेष्टितोऽवसेयः ।

अथ नैरयिकमाधित्य गौतम पृच्छति—' एगमेगस्म ण भंते । नेरइयस्स एगमेगे जीवपएसे णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवइएहिं अविभागपमिच्छेएहिं आवेष्टियपरिवेष्टिए ? ' हे मद्दन्त ! एकैकस्य स्वतु नैरयिकस्य एकैको जीवप्रदेशो ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः क्रियद्भिः अविभागपरिच्छेदैः परमाणुरूपैर्निरञ्जितैरावेष्टितपरिवेष्टितो भवति ? मगधानाह—' गोयमा । नियमा अणतेहिं ' हे गौतम ! एकैको नैरयिकजीवप्रदेशो नियमात् नियमतो ज्ञानावरणीयकर्मणः अनन्तैराविभागपरिच्छेदैः आवेष्टितपरिवेष्टितो भवति, ' जहा नेरइयस्स एव जाव वेमाणि

इसलिये छद्मस्य जीव का जो जीवप्रदेश ज्ञानावरणीयकर्म से आवेष्टित परिवेष्टित है वह नियम से ज्ञानावरणीयकर्म के अनन्त अविभागपरिच्छेदों से ही आवेष्टित परिवेष्टित है ऐसा जानना चाहिये ।

अथ गौतमस्वामी नैरयिक जीव की अपेक्षा लेकर प्रश्नसे एसा पूछ रहे हैं—(एगमेगस्स णं भंते । नेरइयस्स एगमेगे जीवपएसे णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवइएहिं अविभागपरिच्छेएहिं आवेष्टिए परिवेष्टिए) हे मद्दन्त एक एक नैरयिक का एक २ जीवप्रदेश ज्ञानावरणीयकर्म के फिन्ने अविभागपरिच्छेदों से—परमाणुरूप निरञ्ज अंशों से—आवेष्टित परिवेष्टित होता है ? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम (नियमा अणतेहिं) एक एक नैरयिक का जीवप्रदेश नियम से ज्ञानावरणीयकर्म के अनन्त अविभागपरिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित होता है ? (जहा

एवमेव ? एवप्रदेश ज्ञानावरणीय कर्मों की आवेष्टित परिवेष्टित होय छे ते नियमधीन ज्ञानावरणीय कर्मना अनन्त अविभागी परिवेष्टितोऽपी आवेष्टित परिवेष्टित होय छे जेभ समज्जु

इवे गौतम गामी नारक एवमेव अनुवक्षीने जेने प्रश्न पूछे छे ई— (एगमेगस्स णं भंते । नेरइयस्स एगमेगे जीवपएसे णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवइएहिं अविभागपरिच्छेएहिं आवेष्टियपरिवेष्टिए ?) हे मद्दन्त ! जेक जेक नारकने जेक जेक एवप्रदेश ज्ञानावरणीय कर्मना इएव अविभागी परिवेष्टितोऽपी (परमाणुरूप निरञ्ज अंशोऽपी) आवेष्टित परिवेष्टित (निरञ्जितोऽपी) होय छे । मद्दन्त प्रश्नोत्तर— गोयमा । " हे गौतम ! (नियमा अणतेहिं) प्रश्नोत्तर नारक एवमेव प्रत्येक एवप्रदेश नियमधीन ज्ञानावरणीय कर्मना अनन्त अविभागी परिवेष्टितोऽपी निरञ्जितोऽपी होय छे (जहा नेरइयस्स एव जाव वेमाणि

यस्स, नवरं मणूसस्स जहा जीवस्स ' यथा नैरयिकस्य जीवप्रदेशो ज्ञानावरणीयरुर्मणोऽनन्तरविभागपरिच्छेदैर्नियमात् आवेष्टितपरिवेष्टित उक्तः एवं तथैव यावत् पृथिवीकायिकाद्येकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-पञ्चेन्द्रिय-तिर्यग्योनिक-भवनपति-वानव्यन्तर-ज्योतिषिक-वैमानिकस्य जीवप्रदेशोऽपि ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः अनन्तरविभागपरिच्छेदैर्नियमतः आवेष्टितपरिवेष्टितो भवति, किन्तु नवरम् विशेषस्तु मनुष्यस्य जीवप्रदेशो यथा समुच्चयजीवस्य प्रदेशः स्यात् आवेष्टितपरिवेष्टितः, स्यात् नो आवेष्टितपरिवेष्टितो भवति इत्युक्तम् तथैव केवलीनोऽपेक्षया नो आवेष्टितपरिवेष्टितः स्यात्, केवलीभिन्नमनुष्यापेक्षया तु आवेष्टितपरिवेष्टितः स्यादिति वक्तव्यमित्याशयः, मनुष्यापेक्षया उभयस्यैव आवेष्टितपरिवेष्टितत्वस्य अना-

नेरह्यस्स एवं जाव वेमाणियस्स नवरं मणूसस्स जहा जीवस्स) जैसा एक नैरयिक का एक जीवप्रदेश ज्ञानावरणीयकर्म के अनन्त अविभागपरिच्छेदों से नियमतः आवेष्टितपरिवेष्टित कहा गया है उसी तरह से यावत्-पृथिवीकायिक आदि एकेन्द्रिय का, विकलेन्द्रियका, पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक का, भवनपति का, वानव्यन्तर का, ज्योतिषिक का और वैमानिक का, जीव प्रदेश भी ज्ञानावरणीयकर्म के अनन्त अविभागपरिच्छेदोंसे नियमतः आवेष्टितपरिवेष्टित होता है। किन्तु-मनुष्य का जीवप्रदेश समुच्चय जीवप्रदेश की तरह आवेष्टितपरिवेष्टित होता है। अर्थात्-वह कदाचित् ज्ञानावरणीयकर्म के अनन्त अविभागपरिच्छेदों से आवेष्टितपरिवेष्टित होता है और कदाचित् नहीं होता है। केवली भगवान की अपेक्षा वह ऐसा नहीं होता है- और केवलीभिन्न मनुष्य की अपेक्षा वह ऐसा होता है। इस तरह मनुष्य की अपेक्षा जीवप्रदेश

णियस्स, नवरं मणूसस्स जहा जीवस्स) जेम प्रत्येक नारकनो प्रत्येक एवप्रदेश ज्ञानावरणीय कर्मना अनन्त अविभागी परिच्छेदोथी वीटणायेदो डोय छे, जेज प्रभाणु पृथ्वीकायिक आदि एकेन्द्रियनो, विकलेन्द्रियनो, पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनो, भवनपतिनो, वानव्यन्तरनो, ज्योतिषिकनो अने वैमानिकनो एवप्रदेश पणु ज्ञानावरणीय कर्मना अनन्त अविभागी परिच्छेदोथी नियमथी ज वीटणायेदो डोय छे पन्तु मनुष्यनो एवप्रदेश सामान्य एवप्रदेशनी जेम क्यारेक ज्ञानावरणीय कर्मना अविभागी परिच्छेदोथी आवेष्टित परिवेष्टित डोय छे अने क्यारेक नथी पणु डोयो केवलीभगवाननी अपेक्षाजे मनुष्यनो एवप्रदेश ज्ञानावरणीय कर्मना अनन्त अविभागी परिच्छेदोथी वीटणायेदो डोयो नथी, पणु केवली सिवायना मनुष्यनो एवप्रदेश तेमनाथी वीटणायेदो डोय छे.

वेष्टितपरिवेष्टितत्वस्य च संमत्तात्, ज्ञानावरणीयवदेव दर्शनावरणीय मोहनीयान्त
 रायेष्वपि वक्तव्यम्, वेदनीयायुष्मन्नामगोत्रेषु तु जीवपदे एव केचन्यपेक्षया मजना
 वक्तव्या, मनुष्यपदे तु नासौ मजना, सप्र वेदनीयादीनां निपमतो भावादित्यभिभा-
 पेण प्राह—' एगमेगस्त ण मंते ! जीवस्त एगमेगे जीवपपसे दरिसणावरणि-
 जस्त कम्मस्त केवइण्हिं० ? ' गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! एकैकस्य सत्
 जीवस्य एकैको जीवमदेशो दर्शनावरणीयस्य कर्मणः कियन्निः अविभागपरिच्छेदः
 परमाणुरूपै आवेष्टितपरिवेष्टितो भवति ? भगवानाह—' एवं भवेन्न नाम्पार

में आवेष्टितपरिवेष्टित होने का और नहीं होने का सद्भाव पाया जाता
 है। जिस तरह से ज्ञानावरणीयकर्म के विषय में यह कथन किया गया
 उसी तरह से दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन कर्मों के
 विषय में भी कथन करना चाहिये। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र
 इनचार अघातिया कर्मों में तो जीवपद में ही होता है। इस अपेक्षा
 मजना का कथन किया गया है मनुष्य पद में मजना नहीं ऐसा
 जानना चाहिये। क्यों कि पाषण्मात्र मनुष्यों में इन चार कर्मों का
 सद्भाव पाया ही जाता है।

अथ गौतमस्यामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं—(एगमेगस्त ण मंते !
 जीवस्त एगमेगे जीवपपसे दरिसणावरणिजस्त कम्मस्त केवइण्हिं)
 हे भदन्त ! एक एक जीव का एक एक जीवप्रवेश दर्शनावरणीयकर्म के
 कियने अविभागपरिच्छेदों से—परमाणुरूप निर्देश अर्शों से आवेष्टित
 परिवेष्टित होता है ? इसके उत्तर में प्रश्नु कहते हैं—(एय जहेय नाणाप

आ रीते मनुष्यन्ती अपेक्षाके एवप्रवेशमां आवेष्टित परिवेष्टित दोषानो
 अने नहीं दोषानो सद्भाव जेवामां आवे छे जेवी रीते ज्ञानावरणीय कर्मना
 विषयमां आ कथन करवामां आओ छे, जेवी रीते इशनावरणीय, मोहनीय
 अने अन्तराय जे प्रजु कर्मिना विषयमां प्रजु कथन समज्जु परन्तु वेदनीय,
 आयु नाम अने गोत्र, जे चार अघातिया कर्मिमां तो एवपदमां अ मजना
 अदिनुं (वेदविषय) कथन करवामां आओ छे मनुष्यमां अजनावात्तु
 (विदवावात्तु) कथन करवामां आओ नहीं, जेम समज्जु कसलु के जेटवा
 मनुष्यो छे ते अर्थां मनुष्योमां आ चार कर्मिना सद्भाव दोष छे

गौतम इत्यामीना प्रश्न—(एगमेगस्त ण मंते ! जीवस्त एगमेगे जीवपपसे
 दरिसणावरणिजस्त कम्मस्त केवइण्हिं ?) हे भदन्त ! प्रत्येक एवने प्रत्येक
 एवप्रदेश इशनावरणीय कर्मना जेटवा अविभागी परिवेष्टितो—परमाणुरूप
 निर्देश अर्शो—आवेष्टित परिवेष्टित दोष छे ?

णिज्जस्स तहेव दंडओ भाणियव्वो जाव वेमाणियस्स' एवमुक्तरीत्या यथैव ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः अनन्तै रविभागपरिच्छेदैः आवेष्टित परिवेष्टितः प्रतिपादितस्तथैव दण्डको-दर्शनावरणीयस्यापि कर्मणः अनन्तैरविभागपरिच्छेदैः एकैकजीवप्रदेशः आवेष्टितपरिवेष्टितो भवति इतिरूपो दण्डको भणितव्यः, यावत्-नैरयिकादारभ्य वैमानिकपर्यन्तस्य जीवप्रदेशो दर्शनावरणीयकर्मणः अनन्तै रविभागपरिच्छेदैरावेष्टितपरिवेष्टितो भवति, ' एवं जाव अंतराइयस्स भाणियव्वं' एवं पूर्वोक्तरीत्यैव यावत्-वेदनीय मोहनीय-आयुष्क-नाम-गोत्रस्य-आन्तरायिकस्य च कर्मणः अनन्तैरविभागपरिच्छेदैर्यावत्प्रदेश आवेष्टितपरिवेष्टितो भवति इति भणितव्यम् किन्तु ' नवरं वेयणिज्जस्स आउयस्स, णामस्स, गोयस्स, एएसिं चउण्ह वि कम्माणं मणूसस्स जहा नेरइयस्स तथा भाणियव्वं, सेसं तं

रणिज्जस्स तहेव दंडओ भाणियव्वो-जाव वेमाणियस्स) हे गौतम ! जिस तरह से नैरयिक से लेकर वैमानिक तक के एक एक जीव का एक एक जीव प्रदेश ज्ञानावरणीयकर्म के अनन्त अविभागपरिच्छेदों से आवेष्टितपरिवेष्टित कहा गया है, उसी तरह से नैरयिक से लेकर वैमानिक तक के एक एक जीव का एक एक जीवप्रदेश दर्शनावरणीय कर्म के अनन्त अविभागपरिच्छेदों से आवेष्टितपरिवेष्टित होता है। (एवं जाव अन्तराइयस्स भाणियव्वं) इसी तरह से वेदनीय, मोहनीय आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तरायिककर्म के अनन्त अविभागपरिच्छेदों से नरक से लेकर वैमानिक तक के एक २ जीव एक एक जीवप्रदेश आवेष्टितपरिवेष्टित होता है। (नवरं) किन्तु-(वेयणिज्जस्स, आउयस्स णामस्स, गोयस्स एएसिं चउण्ह वि कम्माणं मणूसस्स जहा नेरइयस्स

भडावीर प्रभुने। उत्तर—(एवं जहेव नाणावरणिज्जस्स तहेव दंडओ भाणियव्वो जाव वेमाणियस्स) हे गौतम ! जे रीते नारकथी लधने वैमानिक सुधीना प्रत्येक एवनेो प्रत्येक एवप्रदेश ज्ञानावरणीय कर्मना अनन्त अविभागी परिच्छेदो वडे आवेष्टित परिवेष्टित होय छे, जेज प्रभाणे नारकथी लधने वैमानिक पर्यन्तना प्रत्येक एवनेो प्रत्येक एवप्रदेश दर्शनावरणीय कर्मना अनन्त अविभागी परिच्छेदोवडे आवेष्टित परिवेष्टित होय छे, जेम समज्जुं. (एवं जाव अंतराइयस्स भाणियव्वं) जेज प्रभाणे नारकथी लधने वैमानिक पर्यन्तना प्रत्येक एवनेो प्रत्येक एवप्रदेश वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र अने अंतराय कर्मना अविभागी परिच्छेदोथी आवेष्टित परिवेष्टित होय छे जेम समज्जु " नवर " परन्तु (वेयणिज्जस्स, आउयस्स, णामस्स, गोयस्स, ए एसिं' चउण्ह वि कम्माणं मणूसस्स जहा नेरइयस्स तथा भाणियव्वं

वेद' नयरं विशेषस्तु वेदनीयस्य आयुष्कस्य, नाप्नः, गोत्रस्य च एतर्णा घतुर्वांमि
 कर्मणाम् अनन्तरविभागपरिच्छेदः मनुष्यस्य जीवप्रदेशो नियमतः आवेष्टितपरि
 ष्टितो मरति, यथा नैरयिकस्य प्रतिपादितस्तथैव भणितव्यः, शेष तदेव=पूर्वप्रदेशः,
 तथा च मनुष्यस्य श्रीयप्रदेशखतुर्णां घातिकर्मणां—ज्ञानावरणीय—दर्शनावरणीय मोह
 नीयाऽन्तरायरूपाणामनन्तरविभागपरिच्छेदः भजनया आवेष्टितपरिवेष्टितो मरति,
 केवलिनं तदमावात्, अघातिनां तु चतुर्णां वेदनीया—ऽऽयुष्क नाम गोत्र—रूपाणां
 कर्मणापनन्तरविभागपरिच्छेदो नियमतो मनुष्यजीवप्रदेश आवेष्टितपरिवेष्टितो

तद्वा भाणियच्च, सेस त थैव) वेदनीय, आयु नाम और गोत्र इन
 चार कर्मों के अनन्त अविभागपरिच्छेदों से मनुष्यमात्र का एक एक
 जीव प्रदेश आवेष्टितपरिवेष्टित होता है। जैसे नारक का एक एक
 जीवप्रदेश आठ कर्मों के अनन्त अविभागपरिच्छेदोंसे आवेष्टितपरि
 वेष्टित होता है। तात्पर्य कहने का यह है कि मनुष्य पद में घातिया
 कर्मों के अनन्त अविभागपरिच्छेदों से आवेष्टितपरिवेष्टित होने के
 पहिले जैसी केवली मनुष्य की अपेक्षा लेकर भजना कही गई है वह
 भजना यद्वा पर—वेदनीय आदि ४ आघातिया कर्मों के अनन्त अविभा
 गपरिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित होनेमें नहीं कही गई है। क्योंकि
 केवली मनुष्यका भी एक एक जीवप्रदेश इन आघातिया कर्मों के अनन्त
 अविभागपरिच्छेदोंसे नियमतः आवेष्टितपरिवेष्टित होता है। सिद्धोंको
 कर्मोंका अभाव हो जानेसे सिद्ध जीवका प्रदेश कर्मों के अनन्त अविभा
 गपरिच्छेदोंसे आवेष्टित परिवेष्टित नहीं होता है। निष्कर्ष इम कथन

सेसं तथैव) अत्येक मनुष्यने अत्येक एवप्रदेश वेदनीय, आयु नाम अने
 नेत्र, जे चार अघातिया कर्मोंना अनन्त अविभागी परिच्छेदोधी आवेष्टित
 परिवेष्टित होय छे, जेभ समस्तु जेछे के आ चार कर्मोंधी आवेष्टित
 परिवेष्टित तथा नियेनु कथन अर्द्धी नारकोना जेवु न समस्तु जेधजे. आ
 कथननु तात्पर्य जे छे के ज्ञानावरणीय आदि चार घातिया कर्मोंनी अनन्त
 अविभागी परिच्छेदोधी मनुष्यने अत्येक एवप्रदेश अनेष्टित परिवेष्टित होय
 छे पनु अरै अने नही पत्र देतो। परन्तु वेदनीय आदि चार अघातिया
 कर्मोंना अनन्त अविभागी परिच्छेदोधी मनुष्यमात्रने अत्येक एवप्रदेश निय
 मधीन आवेष्टित परिवेष्टित होय छे कारण के केवली मनुष्यने पत्र अत्येक
 एवप्रदेश आ वेदनीयादि चार अघातिया कर्मोंना अनन्त अविभागी परिच्छे
 दोधी नियमतः आवेष्टित परिवेष्टित होय छे सिद्ध एयेनां कर्मोंना अभाव
 होय अर्ध अभायी सिद्ध एवने एवप्रदेश होय पत्र कथन अनन्त अविभागी

भवति केवलनामपि तत्सद्भावादित्याशयः, मनुष्यभिन्नानां त्रयोविंशतेः
जीवानां तु प्रदेशाः अष्टानां कर्मणामनन्तरविभागपरिच्छेदोऽवेष्टितपरिवेष्टितो
नियमतो भवत्येव, सिद्धानां कर्माभावेन तज्जीवप्रदेशस्य कर्मानन्ताविभाग-
परिच्छेदः आवेष्टनपरिवेष्टनासंभवात्, ॥ सू० ६ ॥

ज्ञानावरणीयादिकर्मणां परस्परसम्बन्धवक्तव्यता ।

अथ ज्ञानावरणादिप्रस्तावात् तेषामेव शेषैः सह परस्परं सामानाधिकरण्यां
वैयधिकरण्यं च यथायोगं प्रतिपादयितुमाह—‘ जस्स णं भंते । ’ इत्यादि ।

मूलम्—जस्स णं भंते ! नाणावरणिज्जं तस्स दंसणावरणिज्जं,
जस्स दंसणावरणिज्जं तस्स नाणावरणिज्जं ? गोयमा !
जस्स णं नाणावरणिज्जं तस्स दंसणावरणिज्जं नियमा अत्थि,
जस्स णं दरिस्सणावरणिज्जं, तस्स वि नाणावरणिज्जं नियमा
अत्थि । जस्स णं भंते ! णाणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्जं, जस्स
वेयणिज्जं, तस्स णाणावरणिज्जं ? गोयमा ! जस्स नाणावर-
णिज्जं, तस्स वेयणिज्जं नियमा अत्थि, जस्स पुण वेयणिज्जं
तस्स णाणावरणिज्जं सिय अत्थि, सिय नत्थि । जस्स णं भंते !
णाणावरणिज्जं, तस्स मोहणिज्जं, जस्स मोहणिज्जं तस्स
नाणावरणिज्जं ? गोयमा ! जस्स नाणावरणिज्जं तस्स

का यही है कि मनुष्यभिन्न तेबीस दण्डक के जीवों के प्रदेश नियम से
आठ कर्मों के अनन्त अविभागपरिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित होते
ही हैं । सिद्धोंके कर्माभाव के कारण सिद्धजीव प्रदेशमें कर्मानन्तविभा-
गपरिच्छेदों द्वारा आवेष्टित परिवेष्टित न होनेकी असंभवता है ॥सू०६॥

परिच्छेदोऽथी आवेष्टित परिवेष्टित होतो नथी आ कथनो लावार्थं अे छे
के मनुष्य सिवायना २३ दंडकना लोवोना लवप्रदेश नियमथी न आठे आठ
कर्मोना अनंत अविभागी परिच्छेदो वडे आवेष्टित परिवेष्टित होथ छे,
परन्तु सिद्धलोवोमा कर्मोना अभाव होवार्थी सिद्धलव प्रदेशमां कर्मोना अनंत
अविभागी परिच्छेदोऽथी आवेष्टित परिवेष्टित होवानी वात संभवी शकती नथी, सू० ६

मोहणिउज सिय अत्थि, सिय नत्थि, जस्स पुणमो
हणिउज तस्स नाणावरणिज्जं नियमा अत्थि । जस्स णं
भते । णाणावरणिज्ज तस्स आउय एव जहा वेयणिज्जेण सम
भणिय तथा आउएण वि सम भाणियव्व, एव नामेण वि ।
एव गोएण वि सम, अतराइएण सम जहा दरिसणावरणि-
ज्जेण सम तद्देव नियमा परोप्पर भाणियव्वाणि १ । जस्स णं
भते । दरिसणावरणिउज तस्स वेयणिज्ज, जस्स वेयणिउज
तस्स दरिसणावरणिउज ? जहा नाणावरणिउज उवरिमेहिं सत्तहिं
कम्मेहिं सम भणिय, तथा दरिसणावरणिउजपि उवरिमेहिं
छहिं कम्मेहिं सम भाणियव्व जाव अतराइएण२, जस्स ण भते ।
वेयणिउज तस्स मोहणिउज, जस्स मोहणिउज तस्स वेयणिउज ?
गोयमा ! जस्स वेयणिउज तस्स मोहणिउज सिय अत्थि, सिय
नत्थि, जस्स पुण मोहणिउज तस्स वेयणिउज नियमा अत्थि ।
जस्स णं भते ! वेयणिउज तस्स आउय०? एव एवाणि परोप्पर
नियमा, जहा आउएण सम, एव नामेण वि, गोएण वि सम
भाणियव्वं । जस्स णं भते । वेयणिउज तस्स अतराइय०? पुच्छा,
गोयमा ! जस्स वेयणिउज तस्स अतराइय सिय अत्थि, सिय
नत्थि, जस्स पुण अतराइय तस्स वेयणिउज नियमा अत्थि३ । जस्स
णं भते । मोहणिउज तस्स आउय, जस्स आउय तस्स मोहणिउज
गोयमा ! जस्स मोहणिउज तस्स आउय नियमा अत्थि, जस्स पुण
आउय तस्स पुण मोहणिउज सिय अत्थि, सिय नत्थि । एवं नाम,
गोय, अतराइय च भाणियव्व४ । जस्स णं भते । आउय तस्स नाम,

जस्स णं भंते ! मोहणिज्जं तरस्स आउयं, जस्स आउयं तस्स
मोहणिज्जं ? गोयमा ! जस्स मोहणिज्जं तस्स आउयं नियमा
अत्थि, जस्स पुण आउयं तस्स पुण मोहणिज्जं सिय अत्थि,
सिय नत्थि । एवं नामं, गोयं, अंतराइयं च भाणियव्वं ४ ।
जस्स णं भंते ! आउयं तस्स नामं, जस्स पुण नामं तस्स
आउयं ? पुच्छा, गोयमा ! दो वि परोप्परं नियमा, एवं गोत्तेण
वि समं भाणियव्वं । जस्स णं भंते ! आउयं, तस्स अंतरा-
इयं, जस्स अंतराइयं, तस्स आउयं ? पुच्छा, गोयमा ! जस्स
आउयं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि, सिय नत्थि, जस्स पुण
अंतराइयं तस्स आउयं नियमा ५ । जस्स णं भंते ! णामं तस्स
गोयं, जस्स णं गोयं, तस्स णं नामं पुच्छा, गोयमा ! जस्स
णं णामं, तस्स णं नियमा गोयं, जस्स णं गोयं तस्स नियमा
णामं ? गोयमा ! दोवि एए परोप्परं नियमा । जस्स णं भंते !
णामं तस्स अंतराइयं, जस्स अंतराइयं, तस्स णामं पुच्छा ?
गोयमा ! जस्स णामं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि, सिय
नत्थि, जस्स पुण अंतराइयं तस्स णामं नियमा अत्थि ६ ।
जस्स णं भंते ! गोयं तस्स अंतराइयं, जस्स अंतराइयं तस्स
गोयं पुच्छा ? गोयमा ! जस्स णं गोयं तस्स अंतराइयं सिय
अत्थि, सिय नत्थि, जस्स पुण अंतराइयं तस्स गोयं नियमा
अत्थि ॥ सू० ७ ॥



मोहणिज्ज सिय अत्थि, सिय नत्थि, जस्स पुणमो
हणिज्ज तस्स नाणावरणिज्ज नियमा अत्थि । जस्स णं
भत्ते ! णाणावरणिज्ज तस्स आउय एव जहा वेयणिज्जेण सम
भणिय तहा आउएण वि सम भाणियव्व, एव नामेण वि ।
एव गोएण वि सम, अतराइएण सम जहा दरिसणावरणि
ज्जेण सम तद्देव नियमा परोप्पर भाणियव्वाणि १ । जस्स णं
भत्ते ! दरिसणावरणिज्ज तस्स वेयणिज्ज, जस्स वेयणिज्ज
तस्स दरिसणावरणिज्ज ? जहा नाणावरणिज्ज उवरिमेहिं सत्तहिं
कम्मेहिं सम भणिय, तहा दरिसणावरणिज्जपि उवरिमेहिं
त्तहिं कम्मेहिं सम भाणियव्व जाव अतराइएण२, जस्स ण भत्ते !
वेयणिज्ज तस्स मोहणिज्ज, जस्स मोहणिज्ज तस्स वेयणिज्ज ?
गोयमा ! जस्स वेयणिज्ज तस्स मोहणिज्ज सिय अत्थि, सिय
नत्थि, जस्स पुण मोहणिज्ज तस्स वेयणिज्ज नियमा अत्थि ।
जस्स णं भत्ते ! वेयणिज्ज तस्स आउय०? एव एयाणि परोप्पर
नियमा, जहा आउएण सम, एव नामेण वि, गोएण वि सम
भाणियव्व । जस्स ण भत्ते ! वेयणिज्ज तस्स अतराइय०? पुच्छा,
गोयमा ! जस्स वेयणिज्ज तस्स अतराइय सिय अत्थि, सिय
नत्थि, जस्स पुण अतराइय तस्स वेयणिज्ज नियमा अत्थि३। जस्स
णं भत्ते ! मोहणिज्ज तस्स आउय, जस्स आउय तस्स मोहणिज्ज ?
गोयमा ! जस्स मोहणिज्ज तस्स आउय नियमा अत्थि, जस्स पुण
आउय तस्स पुण मोहणिज्ज सिय अत्थि, सिय नत्थि । एवं नाम,
गोय, अतराइय च भाणियव्व४। जस्स णं भत्ते ! आउय तस्स नाम,

जस्स णं भंते ! मोहणिज्जं तरस आउयं, जस्स आउयं तस्स
मोहणिज्जं ? गोयमा ! जस्स मोहणिज्जं तस्स आउयं नियमा
अत्थि, जस्स पुण आउयं तस्स पुण मोहणिज्जं सिय अत्थि,
सिय नत्थि । एवं नामं, गोयं, अंतराइयं च भाणियव्वं ४ ।
जस्स णं भंते ! आउयं तस्स नामं, जस्स पुण नामं तस्स
आउयं ? पुच्छा, गोयमा ! दो वि परोप्परं नियमा, एवं गोत्तेण
वि समं भाणियव्वं । जस्स णं भंते ! आउयं, तस्स अंतरा-
इयं, जस्स अंतराइयं, तस्स आउयं ? पुच्छा, गोयमा ! जस्स
आउयं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि, सिय नत्थि, जस्स पुण
अंतराइयं तस्स आउयं नियमा ५ । जस्स णं भंते ! णामं तस्स
गोयं, जस्स णं गोयं, तस्स णं नामं पुच्छा, गोयमा ! जस्स
णं णामं, तस्स णं नियमा गोयं, जस्स णं गोयं तस्स नियमा
णामं ? गोयमा ! दोवि एए परोप्परं नियमा । जस्स णं भंते !
णामं तस्स अंतराइयं, जस्स अंतराइयं, तस्स णामं पुच्छा ?
गोयमा ! जस्स णामं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि, सिय
नत्थि, जस्स पुण अंतराइयं तस्स णामं नियमा अत्थि ६ ।
जस्स णं भंते ! गोयं तस्स अंतराइयं, जस्स अंतराइयं तस्स
गोयं पुच्छा ? गोयमा ! जस्स णं गोयं तस्स अंतराइयं सिय
अत्थि, सिय नत्थि, जस्स पुण अंतराइयं तस्स गोयं नियमा
अत्थि ॥ सू० ७ ॥



જાયા—યસ્ય સ્વહુ મદન્ત ! જ્ઞાનાવરણીય, તસ્ય દર્શનાવરણીયં, યસ્ય દર્શનાવરણીય, તસ્ય જ્ઞાનાવરણીયમ્ ? ગૌતમ ! યસ્ય સ્વહુ જ્ઞાનાવરણીય તસ્ય દર્શનાવરણીયં નિયમાત્ અસ્તિ, યસ્ય સ્વહુ દર્શનાવરણીય તસ્યાપિ જ્ઞાનાવરણીયં નિયમાત્ અસ્તિ । યસ્ય સ્વહુ મદન્ત ! જ્ઞાનાવરણીય તસ્ય વેદનીયમ્, યસ્ય વેદનીયં તસ્ય જ્ઞાનાવરણીમ્ ? ગૌતમ ! યસ્ય જ્ઞાનાવરણીય તસ્ય વેદનીયં નિયમાત્

-જ્ઞાનાવરણીયાદિક કર્મો ક્ષી પરસ્પરસયઘ ઘક્ષુઠ્યતા-

‘અસ્ત ણ મંતે! નાણાવરણિજ્જ તસ્સ દરિમ્પણાવરણિજ્જં’ ઇત્યાદિ ।

સૂત્રાર્થ—(અસ્ત ણ મંતે ! નાણાવરણિજ્જં તસ્સ દરિમ્પણાવરણિજ્જં જસ્ય દસણાવરણિજ્જ તસ્મ નાણાવરણિજ્જ) હે મદન્ત ! જિસ જીવ કે જ્ઞાનાવરણીયકર્મ હૈ ઇસ જીવકે કયા દર્શનાવરણીયકર્મ હૈ ? તથા જિસ જીવ કે દર્શનાવરણીયકર્મ હૈ ઇસ જીવ કે કયા જ્ઞાનાવરણીયકર્મ હૈ ? (ગોયમા) હૈ ગૌતમ ! (અસ્ત ણ નાણાવરણિજ્જ તસ્સ દસણાવરણિજ્જ નિયમા અત્થિ) જિસ જીવ કે જ્ઞાનાવરણીયકર્મ હૈ ઇસ જીવ કે નિયમ સે દર્શનાવરણીયકર્મ હૈ । (અસ્ત ણ દરિમ્પણાવરણિજ્જં તસ્સ વિ નાણાવરણિજ્જ નિયમા અત્થિ) ઇસી તરહ સે જિસ જીવ કે દર્શનાવરણીયકર્મ હૈ ઇસ જીવ કે નિયમ સે જ્ઞાનાવરણીયકર્મ હૈ । (અસ્ત ણ મંતે ! નાણાવરણિજ્જ તસ્મ વેયણિજ્જ, અસ્સ વેયણિજ્જ તસ્સ નાણાવરણિજ્જ)

જ્ઞાનાવરણીય વ્યાધિ કમોના પરસ્પરતા સબંધનું નિરૂપણ—

(અસ્ત ણ મંતે ! નાણાવરણિજ્જ તસ્સ દરિમ્પણાવરણિજ્જં) ઇત્યાદિ

સૂત્રાર્થ—(અસ્ત ણ મંતે ! નાણાવરણિજ્જ તસ્સ દરિમ્પણાવરણિજ્જં, અસ્સ દસણાવરણિજ્જ તસ્મ નાણાવરણિજ્જં ?) હે મદન્ત ! જે જીવમાં જ્ઞાનાવરણીય કમનો સદ્ભાવ હોય છે તે જીવમાં શું દર્શનાવરણીય કમનો સદ્ભાવ હોય છે ખરો ? તથા જે જીવમાં દર્શનાવરણીય કમનો સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં શું જ્ઞાનાવરણીય કમનો સદ્ભાવ હોય છે ખરો ?

(ગોયમા) જે જીવમાં (અસ્ત ણ નાણાવરણિજ્જ તસ્મ દસણાવરણિજ્જ નિયમા અત્થિ) જે જીવમાં જ્ઞાનાવરણીય કમનો સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં નિષમથી જ દર્શનાવરણીય કમનો સદ્ભાવ હોય છે (અસ્ત ણ દરિમ્પણાવરણિજ્જ તસ્મ વિ નાણાવરણિજ્જ નિયમા અત્થિ) એવ પ્રમાણે જે જીવમાં દર્શનાવરણીય કમનો સદ્ભાવ હોય છે તે જીવમાં નિષમથી જ જ્ઞાનાવરણીય કમનો સદ્ભાવ હોય છે (અસ્ત ણ મંતે ! નાણાવરણિજ્જ, તસ્મ વેયણિજ્જ અસ્સ વેયણિજ્જ તસ્મ નાણાવરણિજ્જ ?) હે મદન્ત ! જે જીવમાં જ્ઞાનાવરણીય કમનો

અસ્તિ, યસ્ય પુનર્વેદનીયં તસ્ય જ્ઞાનાવરણીયં સ્યાત્ અસ્તિ, સ્યાત્ ચારિત । યસ્ય
લલુ ભદન્ત । જ્ઞાનાવરણીયં તસ્ય મોહનીયં, યસ્ય મોહનીયં તસ્ય જ્ઞાનાવરણીયમ્ ?
ગૌતમ ! યસ્ય જ્ઞાનાવરણીયં તસ્ય મોહનીય સ્યાત્ અસ્તિ, સ્યાત્ નાસ્તિ, યસ્ય
પુનર્મોહનીયં તસ્ય જ્ઞાનાવરણીયં નિયમાત્ અરિત । યસ્ય લલુ ભદન્ત । જ્ઞાનાવરણીયં,

હે ભદન્ત । જિસ જીવ કે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ હૈ ક્યા ઉસ જીવ કે વેદ-
નીય કર્મ હૈ ઓર જિસજીવ કે વેદનીય કર્મ હૈ ઉસ જીવ કે ક્યા
જ્ઞાનાવરણીયકર્મ હૈ ? (ગોયમા) હૈ ગૌતમ । (જસસ નાણાવરણિજ્જં
તસસ વેયણિજ્જં નિયમા અત્થિ જસસ પુણવેયણિજ્જં તસસ નાણાવરણિજ્જં
સિય અત્થિ સિય નત્થિ) જિસ જીવ કે જ્ઞાનાવરણીયકર્મ હૈ ઉસ જીવ
કે તો નિયમ સે વેદનીય કર્મ હૈ ઓર જિસ જીવ કે વેદનીય કર્મ હૈ
ઉસ જીવ કે જ્ઞાનાવરણીયકર્મ હૈ બી ઓર નહીં બી હૈ । (જસસ ણ
મંતે ! નાણાવરણિજ્જં તસસ મોહણિજ્જં જસસ મોહણિજ્જં તસસ નાણાવ-
રણિજ્જં) હૈ ભદન્ત ! જિસ જીવ કે જ્ઞાનાવરણીયકર્મ હૈ ઉસ જીવ કે
ક્યા મોહનીય કર્મ હૈ ઓર જિસ જીવ કે મોહનીય કર્મ હૈ ઉસ જીવ કે
ક્યા જ્ઞાનાવરણીયકર્મ હૈ ? (ગોયમા) હૈ ગૌતમ ! (જસસ નાણાવરણિ-
જ્જં તસસ મોહણિજ્જં સિય અત્થિ, સિયનત્થિ, જસસ પુણમોહણિજ્જં તસસ
નાણાવરણિજ્જં નિયમા અત્થિ) જિસ જીવ કે જ્ઞાનાવરણીયકર્મ હૈ ઉસ

સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં શું વેદનીય કર્મનો પણ સદ્ભાવ હોય છે ?
તથા જે જીવમાં વેદનીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં શું જ્ઞાનાવરણીય
કર્મનો પણ સદ્ભાવ હોય છે ?

(ગોયમા ! જસસ નાણાવરણિજ્જં તસસ વેયણિજ્જં નિયમા અત્થિ, જસસ
વેયણિજ્જં તસસ નાણાવરણિજ્જં સિય અત્થિ, સિય નત્થિ) હૈ ગૌતમ ! જે
જીવમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં વેદનીય કર્મનો
અવશ્ય સદ્ભાવ હોય છે. અને જે જીવમાં વેદનીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે,
તે જીવમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે પણ ખરો અને નથી પણ હોતો.
(જસસ ણ મંતે ! નાણાવરણિજ્જં તસસ મોહણિજ્જં, વસસ મોહણિજ્જં તસસ નાણાવ-
રણિજ્જં) હૈ ભદન્ત ! જે જીવમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં
શું મોહનીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ? અને જે જીવમાં મોહનીય કર્મનો
સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં શું જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ?

(ગોયમા !) હૈ ગૌતમ ! (જસસ નાણાવરણિજ્જં તસસ મોહણિજ્જં સિય અત્થિ,
સિય નત્થિ, જસસ પુણ મોહણિજ્જં તસસ નાણાવરણિજ્જં નિયમા અત્થિ) જે

તસ્ય આયુષ્કમ્ , एवं यथा वेदनीयेन सम मणित तथा आयुष्केनापि समं मणित-
व्यम् । एवं नाम्नापि । एवं गोत्रेणापि समम् , आन्तराधिकेण सम यथा दर्शना
वरणीयेन सम तथैव नियमात् परस्परं मणितम्वे ? । यस्य स्वच्छ भदन्त ! दर्शना
वरणीयं, तस्य वेदनीय, यस्य वेदनीयं तस्य दर्शनावरणीयम् ? यथा ज्ञाना

जीव के मोहनीयकर्म है भी और नहीं भी है-परन्तु जिस जीव के
मोहनीय कर्म है उस जीव के नियम से ज्ञानावरणीयकर्म है। (जस्त
णं भते ! णाणावरणिज्ज तस्स आउय) हे भदन्त ! जिस जीव के ज्ञाना
वरणीयकर्म है उस जीव के क्या आयुष्य कर्म है इत्यादि ।

(एवं जहा वेमाणिञ्जेण सम मणियं तथा आउएण वि सम भाणियन्व
एव नामेण वि, एव गोएण वि सम) हे गौतम ! जैसा वेदनीय कर्म के
साथ कहा गया है, वैसा ही आयुष्य के साथ कहना चाहिये इसी तरह
से नाम और गोत्र कर्म के साथ भी जानना चाहिये। (अतराएएण
सम जहा वरिसगावरणिञ्जेण समं तहेव नियमा परोप्परं भाणियम्भाणि
१) तथा-जैसा दर्शनावरणीय कर्म के साथ कहा गया है वैसा ही
अन्तरायकर्म के साथ अवश्य परस्पर में कहना चाहिये। (जस्त ण
भते ! वरिसणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्ज, जस्त वेयणिज्ज तस्स वरि
सणावरणिज्जं) हे भदन्त ! जिस जीव के दर्शनावरणीय कर्म है, उस

જીવમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે તે જીવમાં મોહનીય કર્મનો
સદ્ભાવ હોય છે પણ ખરે અને નથી પણ હોતો પરંતુ જે જીવમાં મોહનીય
કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો અવશ્ય સદ્ભાવ હોય
છે (જસ્ત ણં મતે ! ણાણાવરણિજ્જ તસ્સ આઉય ?) કે ભદન્ત ! જે જીવમાં
જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં શું આયુષકર્મનો સદ્ભાવ
હોય છે ખરે ? ઈત્યાદિ

(एवं जहा वेयणिञ्जेण सम मणियं तथा आउएण वि समं माणियन्व
एव नामेण वि एव गोएण वि सम) हे गौतम ! वेदनीय कर्मोंनी साथे वेद
कथन करवायां आउयु छे, जेवु ए कथन आमु उकमं साथे पखु समञ्जु,
नामपमं અને ગોત્રકમ સાથે પણ જોવુ એ કથન સમજવુ (અતરાएएण समं
जहा वरिसणावरणिञ्जेण समं तहेव नियमा परोप्परं माणियम्भाणि १) तथा जेवु
कथन इति नावरणीय कर्मोंनी साथे करवायां आउयु छे जेवु ए कथन अतराएकम
अने ज्ञानावरणीय कर्मोंना परस्परना सद्भाव निवे अवश्य हडेवु जे/जे

(जस्त णं भते ! वरिसणावरणिज्जं, तस्स वेयणिज्ज, वरस वयणिज्ज
वस वरिसणावरणिज्ज ?) हे भदन्त ! જે જીવમાં દર્શનાવરણીય કર્મનો સદ્

वरणीयम् उपरिमैः सप्तभिः कर्मभिः समं भणितं तथा दर्शनावरणीयमपि उपरिमैः षड्भिः कर्मभिः समं भणितव्यम्, यावत् आन्तरायिकेण २ । यस्य त्वल्लु भदन्त ! वेदनीयं तस्य मोहनीयं, यस्य मोहनोय तस्य वेदनीयम्? गौतम ! यस्य वेदनीयं तस्य मोहनीयं स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, यस्य पुनर्मोहनीयं तस्य वेदनीयं नियमात् अस्ति।

जीव के क्या वेदनीय कर्म है ? और जिस जीव के वेदनीय कर्म है उस जीव के क्या दर्शनावरणीय कर्म है ? (जहा नाणावरणिज्जं उवरिमेहिं सत्तहिं कम्मेहिं समं भणियं, तथा दरिसणावरणिज्जं पि उवरिमेहिं छहिं कम्मेहिं समं भाणियव्वं जाव अंतराइएणं २) हे गौतम ! जिस तरह से ज्ञानावरणीय कर्म का संबंधरूप कथन ऊपर के सात कर्मों के साथ किया गया है उसी तरह से दर्शनावरणीय कर्म का भी संबंध कथन ऊपर के छह कर्मों के साथ कर लेना चाहिये । यावत् अन्तराय के साथ इसी तरह से कहना चाहिये (जस्स णं भंते ! वेयणिज्जं तस्स मोहणिज्जं जस्स मोहणिज्जं तस्स वेयणिज्जं) हे भदन्त ! जिस जीव के वेदनीय कर्म है उस जीव के क्या मोहनीय कर्म है और जिस जीव के मोहनीय कर्म है उस जीव के क्या वेदनीय कर्म है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जस्स वेयणिज्जं तस्स मोहणिज्जं सि्य अत्थि सि्य नत्थि, जस्स पुण मोहणिज्जं तस्स वेयणिज्जं नियमा अत्थि) जिस जीव के

भाव डोय छे, ते एवमा शुं वेदनीय कर्मोना सद्भाव डोय छे ? अने ने एवमां वेदनीय कर्मोना सद्भाव डोय छे, ते एवमां शुं दर्शनावरणीय कर्मोना सद्भाव डोय छे ? (जहा नाणावरणिज्जं उवरिमेहिं सत्तहिं कम्मेहिं समं भणियं, तथा दरिसणावरणिज्जं पि उवरिमेहिं छहिं कम्मेहिं समं भाणियव्वं जाव अंत राइएण २) हे गौतम ! उपरना सात कर्मो साथेना ज्ञानावरणीय कर्मोना संभध विषयक कथन करवामां आण्युं छे, अेज प्रभाएु उपरना छ कर्मो साथेना (वेदनीयथी अन्तराय पर्यन्तना छ कर्मो साथेना) दर्शनावरणीय कर्मोना संभध विषयक कथन पणु समज्जुं ।

(जस्स णं भंते ! वेयणिज्जं तस्स मोहणिज्जं, जस्स मोहणिज्जं तस्स वेयणिज्जं ?) हे भदन्त ! ने एवमां वेदनीय कर्मोना सद्भाव डोय छे, ते एवमां शुं मोहनीय कर्मोना सद्भाव डोय छे ? अने ने एवमां मोहनीय कर्मोना सद्भाव डोय छे, ते एवमां शुं वेदनीय कर्मोना सद्भाव डोय छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (जस्स वेयणिज्जं तस्स मोहणिज्जं सि्य अत्थि सि्य नत्थि, जस्स पुण मोहणिज्जं तस्स वेयणिज्जं नियमा अत्थि) ने एवमां

यस्य खलु भद्रं त। वेदनीय तस्य आयुष्यम् 'जस्स णं आउय तस्स घयमिज्ज?' एवम् एते परस्पर नियमात्, यथा आयुष्यकेण समम् एव नाम्नाऽपि, गोत्रेणापि सम मणित्थयम् । यस्य खलु भद्रं ! वेदनीय तस्य आन्तरायिकं, यस्य आन्तरायिकं तस्य वेदनीय ? पृच्छा, गौतम यस्य वेदनीय तस्य आन्तरायिकं स्यात् अस्ति,

वेदनीयकर्म है उस जीवके मोहनीयकर्म है भी और नहीं भी है। परन्तु -जिस जीव के मोहनीय कर्म है उस जीव के वेदनीय कर्म अवश्य है। (जस्स ण भते ! घेयणिज्ज तस्स आउय) है भद्रं ! जिस जीव के वेदनीय कर्म है उसके आयुष्य कर्म है क्या ? (एव एयाणि परोप्परं नियमा) है गौतम ! ये दोनों परस्पर में अवश्य होते हैं। अर्थात् जिसके वेदनीय कर्म है उसके आयुष्य कर्म है और जिसके आयुष्य कर्म है उसके वेदनीय कर्म है। (जहा आउएणं सम एव नामेण वि, गोएण वि सम भाणियन्व) जैसा आयुष्य के साथ वेदनीय का कथन किया गया है, इसी तरह से नाम और गोत्र के साथ भी वेदनीय का कथन कर लेना चाहिये। (जस्स ण भते ! घेयणिज्जं तस्स अतरायि पुरुष्ठा) है भद्रं ! जिस जीव के वेदनीय है उस जीव के अन्तराय कर्म है ! इत्यादि प्रश्न, (गोयमा) है गौतम ! (जस्स घेयणिज्ज तस्स अतरायि)

वेदनीय कर्मना सद्भाव होय छे ते एवमां वेदनीय कर्मना सद्भाव होय छे पक्ष अरे ! जने नधी पक्ष होतो पक्ष ने एवमां वेदनीय कर्मना सद्भाव होय छे, ते एवमां वेदनीय कर्मना अवश्य सद्भाव होय छे ! (जस्स ण भते ! घेयणिज्ज तस्स आउय ?) छे भद्रं ! ने एवमां वेदनीय कर्मना सद्भाव होय छे, ते एवमां आयुष्य कर्मना शु सद्भाव होय छे ! जने ने एवमां आयुष्य कर्मना सद्भाव होय छे ते एवमां वेदनीय कर्मना शु सद्भाव होय छे ? (एव एयाणि परोप्पर नियमा) छे गौतम ! ने एवमां वेदनीय कर्मना सद्भाव होय छे, ते एवमां आयुष्य कर्मना पक्ष अवश्य सद्भाव होय छे, जने ने एवमां आयुष्य कर्मना सद्भाव होय छे, ते एवमां वेदनीय कर्मना पक्ष अवश्य सद्भाव होय छे (जहा आउएणं सम एव नामेण वि गोएण वि, सम भाणियन्व) ने-री रीते आयुष्य कर्मनी साथ वेदनीय कर्मना कथन करवामां आणु छे, जेवी ज रीते नामकर्म जने साथ कर्मनी साथ पक्ष वेदनीय कर्मना कथन करु जेधजे (जस्स ण भते ! घेय विज्ज तस्स अतरायि पुरुष्ठा) छे भद्रं ! ने एवमां अतराय कर्मना सद्भाव होय छे, ते एवमां वेदनीय कर्मना सद्भाव होय छे ! इत्यादि प्रश्न

સ્યાત્ નાસ્તિ, યસ્ય પુનરાન્તરાયિકં તસ્ય વેદનીયં નિયમાત્ અસ્તિ૩ । યસ્ય સ્વહ્રુ
 ભદન્ત । મોહનીયં તસ્ય આયુષ્કમ્, યસ્ય આયુષ્કં તસ્ય મોહનીયમ્ ? ગૌતમ !
 યસ્ય મોહનીયં તસ્ય આયુષ્કં નિયમાત્ અસ્તિ, યસ્ય પુનરાયુષ્કં તસ્ય પુનર્મોહનીયં
 સ્યાત્ અસ્તિ, સ્યાત્ નાસ્તિ, એવં નામ, ગોત્રમ્, આન્તરાયિકં ચ મણિત્વમ્ ૪,

સિય અત્થિ સિય નત્થિ જરણ પુણ અંતરાહ્યં તસ્સ વેયણિજ્જં નિયમા
 અત્થિ ૩) જિસ જીવ કે વેદનીય કર્મ હૈ ઉસ જીવ કે અન્તરાય કર્મ હૈ
 મી ઓર નહીં મી હૈ પરન્તુ જિસ જીવ કે અન્તરાય કર્મ હૈ ઉસ જીવ
 કે વેદનીય કર્મ નિયમ સે હૈ । (જસ્સ પં મંતે ! મોહણિજ્જં તસ્સ આઝયં
 જસ્સ આઝય તસ્સ મોહણિજ્જં) હૈ ભદન્ત ! જિસ જીવ કે મોહનીય
 કર્મ હૈ ઉસ જીવ કે વ્યા આયુષ કર્મ હૈ ? ઓર જિસ જીવ કે આયુ
 કર્મ હૈ ઉસ જીવ કે વ્યા મોહનીય કર્મ હૈ ? (ગોયમા) હૈ ગૌતમ !
 (જસ્સ મોહણિજ્જં તસ્સ આઝયં નિયમા અત્થિ, જસ્સ પુણ આઝયં તસ્સ
 પુણ મોહણિજ્જં સિય અત્થિ, સિય નત્થિ) જિસ જીવ કે મોહનીય કર્મ
 હૈ ઉસ જીવ કે નિયમ સે આયુઃ કર્મ હૈ ઓર જિસ જીવ કે આયુ
 કર્મ હૈ ઉસ જીવ કે મોહનીય કર્મ હો મી ઓર નહીં મી હો-હસ તરહ
 સે આયુકર્મ કે સાથ મોહનીકર્મ કી ઝજના હૈ । (એવં નામં :ગોયં અંત-
 રાહ્યં ચ મણિયવ્વં ૪) હસી તરહ સે નામ, ગોત્ર, ઓર અન્તરાય કર્મ

(ગોયમા !) હૈ ગૌતમ ! (જસ્સ વેયણિજ્જં તસ્સ અંતરાહ્ય સિય અત્થિ
 સિય નત્થિ, જસ્સ પુણ અંતરાહ્ય તસ્સ વેયણિજ્જં નિયમા અત્થિ) હૈ એવમા
 વેદનીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે એવમાં અંતરાય કર્મનો સદ્ભાવ હોય
 છે પણ ખરો અને નથી પણ હોતો. પરન્તુ હૈ એવમાં અંતરાય કર્મનો
 સદ્ભાવ હોય છે, તે એવમાં વેદનીય કર્મનો અવશ્ય સદ્ભાવ હોય છે.
 (જસ્સ પં મંતે ! મોહણિજ્જં તસ્સ આઝયં, જસ્સ આઝયં, તસ મોહણિજ્જં) હૈ
 ભદન્ત ! હૈ એવમાં મોહનીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે એવમા શુ આયુષ્ય
 કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ? અને હૈ એવમાં આયુષ્ય કર્મનો સદ્ભાવ હોય
 છે, તે એવમાં શુ મોહનીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ?

(જસ્સ મોહણિજ્જં તસ્સ આઝયં નિયમા અત્થિ, જસ્સ પુણ આઝયં તસ્સ
 પુણ મોહણિજ્જં સિય અત્થિ, સિય નત્થિ) હૈ ગૌતમ ! હૈ એવમાં મોહનીય
 કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે એવમાં આયુષ્ય કર્મનો પણ અવશ્ય સદ્ભાવ
 હોય છે, પરન્તુ હૈ એવમાં આયુષ્ય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે એવમાં
 મોહનીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે પણ ખરો અને નથી પણ હોતો. (એવં
 નામં, ગોયં અંતરાહ્યં ચ મણિયવ્વં ૪) એજ પ્રમ, ગોત્ર અને અંત-

યસ્ય સ્વલ્લ મદન્ત ! આયુષ્ક તસ્ય નામ, યસ્ય નામ તસ્ય આયુષ્કમ્ ? પુચ્છા, ગૌતમ ! દ્વે અપિ પરસ્યર નિયમાત્, એવ ગોત્રેણાપિ સમં મપિતવ્યમ્ । યસ્ય સ્વલ્લ મદન્ત ! આયુષ્કં તસ્ય આન્તરાયિક્ યસ્ય આન્તરાયિક્ તસ્ય આયુષ્કમ્ ? પુચ્છા, ગૌતમ । યસ્ય આયુષ્ક તસ્ય આન્તરાયિક્ સ્યાત્ અસ્તિ, સ્યાત્ નાસ્તિ, યસ્ય

કો ણી કહના ણાહિયે । અર્થાત્ મોહનીય કર્મ કે હોને પર નામ, ગોત્ર ઓર અન્તરાય નિયમ સે હોતે હૈં । પર ઈન્કે હોને પર મોહનીય કર્મ હો મો ઓર ન ણી હો-ઈસ તરહ સે ઈન્કે સાથ મોહનીય કર્મ કી મજના જાનની ણાહિયે । (જસ્સ ણં મતે ! આઝયં તસ્સ નામ, જસ્સ પુણ નામં તસ્સ આઝયં પુચ્છા) હે મવન્ત ! જિસ જીવ કે આયુ કર્મ હૈં ઉસ જીવ કે ક્યા નામકર્મ હૈં ? ઓર જિસ જીવ કે નામકર્મ હૈં ઉસ જીવ કે ક્યા આયુ કર્મ હૈં ? (ગોયમા । દો ષિ પરોપ્પરં નિયમા) હે ગૌતમ ! યે દોનોં કર્મ આપમ મેં ઇક વૃસરે કે સાથ નિયમ સે હોતે હૈં । (એવ ગોત્રેણ ષિ સમ માણિયન્વ) ઈસી તરહ સે ગોત્ર કે સાથ ણી કહના ણાહિયે । (જસ્સ ણ મંતે આઝય તસ્સ અતરાહ્યં, જસ્સ અંતરાહ્ય તસ્સ આઝયં પુચ્છા) હે મવન્ત ! જિસ જીવ કે આયુ કર્મ હૈં ઉસ જીવ કે ક્યા અંતરાહ્યકર્મ હૈં ઓર જિસ જીવ કે અન્તરાય કર્મ હૈં ઉસ જીવ કે ક્યા આયુકર્મ હૈં ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (જસ્સ આઝય તસ્સ અતરા

રામ કમ વિપે પણ સમજવુ એટલે કે મોહનીય કર્મ દોષ ત્યારે નામ, યોત્ર અને અતરામ કર્મ અવશ્ય હોય છે પરન્તુ નામ યોત્ર અને અન્તરામ કર્મ દોષ ત્યારે મોહનીય કર્મ દોષ છે પણ ખરૂં અને નથી પણ હોતું (જાસખં મતે ! આઝય તરહ નામ, જસ પુણ મામ સ્વલ્લ આઝય પુચ્છા) હે મદન્ત ! ને છવમાં આયુષ્ય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે તે છવમાં શુ નામકર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ? અને ને છવમાં નામકર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે છવમાં શુ આયુષ્ય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ?

(ગોયમા ।) હે ગૌતમ ! (દો ષિ પરોપ્પર નિયમા) તે બન્ને કર્મો એક ણીબની સાથે અવશ્ય રહે છે (એવ ગોત્રેણ ષિ સમં માણિયમ્) એવ પ્રભાલે આયુષ્ય અને યોત્રકર્મં પણ એકણીબની સાથે અવશ્ય હોય છે. (જસ્સ ણં મતે ! આઝયં તસ્સ અતરાહ્યં, જસ્સ અતરાહ્ય તસ્સ આઝયં પુચ્છા) હે મદન્ત ! ને છવમાં આયુષ્ય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે છવમાં શુ અતરામ કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ? અને ને છવમાં અતરામ કર્મનો સદ્ ભાવ હોય છે, તે છવમાં શુ આયુષ્ય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ? (ગોવમા । જાસ આઝયં તરહ અતરાહ્યં ષિય અરિય, ષિય મસ્થિ) હે ગૌતમ ! ને છવમાં

પુનરાન્તરાયિકં તસ્ય આયુષ્કં નિયમાત્ ૫ । યસ્ય સ્વલુ ભદન્ત ! નામ તસ્ય ગોત્રમ્, યસ્ય સ્વલુ ગોત્રં તસ્ય સ્વલુ નામ ? પૃચ્છા, ગૌતમ ! યસ્ય સ્વલુ નામ તસ્ય સ્વલુ નિયમાત્ ગોત્રમ્, યસ્ય સ્વલુ ગોત્ર તસ્ય નિયમાત્ નામ, દ્વે અપિ એતે પરસ્પરં નિયમાત્ । યસ્ય સ્વલુ ભદન્ત ! નામ તસ્ય આન્તરાયિકમ્, યસ્ય આન્તરાયિકં તસ્ય નામ ? પૃચ્છા, ગૌતમ ! યસ્ય નામ તસ્ય આન્તરાયિકમ્ સ્યાદસ્તિ,

इयं सिय अत्थि सिय नत्थि) जिस जीव के आयुः कर्म है उसे अन्तराय कर्म अवश्य हो ऐसा नियम नहीं है उसके वह हो भी और न भी हो । परन्तु (जस्स पुण अन्तरायं तस्स आउयं नियमं अत्थि) जिस जीव के अन्तराय कर्म है उस जीव के आयु कर्म नियम से है ५ । (जस्स णं भंते ! णामं तस्स गोयं, जस्स णं गोयं तस्स णं नामं पुच्छा) हे भदन्त ! जिस जीव के नामकर्म है उस जीव के क्या गोत्र कर्म है ? और जिस जीव के गोत्र कर्म है उस जीव के क्या नामकर्म है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जस्स णं णामं, तस्स णं नियमा गोयं जस्स णं गोयं तस्स नियमा णामं, गोयमा ! दो वि एए परोप्परं नियमा अत्थि) जिस जीव के नामकर्म है, उस जीव के नियम से गोत्र कर्म हैं और जिस जीव के गोत्रकर्म है उस जीव के नियम से नाम-कर्म है—क्यों कि ये दोनों कर्म परस्पर में एक दूसरे के साथ नियम से रहते हैं । (जस्स णं भंते ! णामं तस्स अन्तरायं, जस्स अन्तरायं तस्स णामं

આયુષ્ય કર્મને સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં અંતરાય કર્મને સદ્ભાવ હોય છે પણ ખરો અને નથી પણ હોતો । પરન્તુ (જસ્સ પુણ અંતરાયં તસ્સ આઉયં નિયમ અત્થિ ૫) જે જીવમાં અંતરાય કર્મને સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં આયુષ્ય કર્મને અવશ્ય સદ્ભાવ હોય છે (જસ્સ ણં ભંતે ! ણામ તસ્સ ગોયં, જસ્સ ગોયં તસ્સ ણં નામં પુચ્છા) હે ભદ ત ! જે જીવમાં નામકર્મને સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં શું ગોત્રકર્મને સદ્ભાવ હોય છે ? અને જે જીવમાં ગોત્રકર્મને સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં શું નામકર્મને સદ્ભાવ હોય છે ?

(ગોયમા !) હે ગૌતમ ! “ જસ્સ ણ નામં, તસ્સ ણ નિયમા ગોય, જસ્સ ણ ગોયં તસ્સ નિયમા ણામં, ગોયમા ! દો વિ એએ પરોપ્પરં નિયમા) જે જીવમાં નામકર્મને સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં ગોત્રકર્મને સદ્ભાવ અવશ્ય હોય છે અને જે જીવમાં ગોત્રકર્મને સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં નામકર્મને પણ અવશ્ય સદ્ભાવ હોય છે, કારણ કે આ બે કર્મો અવશ્ય એકબીજાની સાથે જ રહે છે.



સ્વાત્ નાસ્તિ, યસ્ય પુનરાન્તરાયિકં તસ્ય નામ નિયમાદસ્તિ ૬ । યસ્ય સદ્ધ
મદન્ત ! ગોપ્રસ્ તસ્ય આન્તરાયિક્મ્ સ્પાદસ્તિ, સ્પાદાસ્તિ, યસ્ય પુનરાન્તરાયિકં
તસ્ય ગોપ્ર નિયમાદસ્તિ ॥ સૂ૦ ૭ ॥

પુચ્છા) હે મદન્ત ! જિસ જીવ કે નામકર્મ હૈ ઉસ જીવ કે કયા અન્ત-
રાયકર્મ હૈ ? ઓર જિસ જીવ કે અન્તરાયકર્મ હૈ ઉસ જીવ કે કયા
નામકર્મ હૈ ? (ગોયમા) હૈ ગૌતમ ! (જસ્સ પામ તસ્સ અન્તરાયિક સિય
અત્થિ સિય નત્થિ, જસ્સ પુણ અન્તરાયિક તસ્સ પામ નિયમા અત્થિ ૬)
જિસ જીવ કે નામકર્મ હૈ ઉસ જીવ કે અન્તરાયકર્મ હો મી ઓર ન
મી હો-પેસા નિયમ નહીં હૈ ફિ નામકર્મ કે સન્નાય મેં અન્તરાયકર્મ
અવશ્યમાપી હો । પર હાં, યહ નીયમ હૈ જિસકે અન્તરાયકર્મકા સન્નાય
હૈ ઉમ કે નિયમ સે નામકર્મ હૈ । (જસ્સ ણ મતે ! ગોયં તસ્સ અન્તરા
યિક, જસ્સ અન્તરાયિક તસ્સ ગોયંપુચ્છા) હે મદન્ત ! જિમ જીવ કે ગોપ્ર
કમ પા સન્નાય હૈ કયા ઉસ જીવ કે અન્તરાયકર્મ કા સન્નાય હૈ ? ઓર
જિસ જીવ કે અન્તરાયકર્મકા સન્નાય હૈ ઉસ જીવ કે કયા ગોપ્રકર્મ કા
સન્નાય હૈ ? (ગોયમા) હૈ ગૌતમ ! (જસ્સ ણં ગોયં તસ્સ અન્તરાયિક
મિયઅત્થિ સિય નત્થિ, જસ્સ પુણઅન્તરાયિક તસ્સ ગોય નિયમા અત્થિ)
જિસ જીવ કે ગોપ્રકર્મ કા સન્નાય હૈ ઉમકે અન્તરાય કા સન્નાય હોતા

(જસ્સ ણં મતે ! પામ તસ્સ અન્તરાયિક અસ્સ અન્તરાયિક તસ્સ પામં પુચ્છા)
હે મદન્ત ! જે છવમાં નામકર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે છવમાં શુ અન્તરાય
કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ? અને જે છવમાં અન્તરાય કર્મનો સદ્ભાવ હોય
છે, તે છવમાં શુ નામકર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ?

(ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જસ્સ પામ તસ્સ અન્તરાયિક સિય અત્થિ,
સિય નત્થિ જસ્સ પુણ અન્તરાયિક તસ્સ પામ નિયમા અત્થિ) જે છવમાં નામ
કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે તે છવમાં અન્તરાય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે પણ
ખરે અને નથી પણ હોતો. પરન્તુ જે વાત તે અવશ્ય અને જ છે કે જે
છવમાં અન્તરાય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે તે છવમાં નામકર્મનો પણ સદ્
ભાવ હોય છે (જસ્સ ણં મતે ! ગોય તસ્સ અન્તરાયિક અસ્સ અન્તરાયિક તસ્સ ગોય
પુચ્છા) હે મદન્ત ! જે છવમાં ગોપ્રકર્મનો સદ્ભાવ હોય છે તે છવમાં શુ
અન્તરાય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ? અને જે છવમાં અન્તરાય કર્મનો સદ્
ભાવ હોય છે તે છવમાં શુ ગોપ્રકર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ? (ગોયમા !)
હે ગૌતમ ! (જસ્સ ણં ગોય તસ્સ અન્તરાયિક સિય અત્થિ સિય નત્થિ, જસ્સ
પુણઅન્તરાયિક તસ્સ ગોય નિયમા અત્થિ) જે છવમાં ગોપ્રકર્મનો સદ્ભાવ

ટીકા—જસ્ય જ્ઞં મંતે ! નાનાવરણિજ્જં તસ્ય દરિસણાવરણિજ્જ, જસ્ય દરિ-
સણાવરણિજ્જં, તસ્ય નાનાવરણિજ્જં ? ' ગૌતમઃ પૃચ્છતિ—હે ભદન્ત ! યસ્ય
સ્વલુ જીવસ્ય જ્ઞાનાવરણીયં કર્મ ભવતિ તસ્ય કિં દર્શનાવરણીયમપિ કર્મ ભવતિ ?
એવં યસ્ય જીવસ્ય દર્શનાવરણીયં કર્મ ભવતિ, તસ્ય કિં જ્ઞાનાવરણીયમપિ કર્મ
ભવતિ ? ભગવાનાહ—' ગોયમા ! જસ્ય જ્ઞં નાનાવરણીજ્જં તસ્ય દંસણાવરણિજ્જં

મી હૈ ઓર નહીં મી હોતા હૈ—પર જિસ જીવ કે અન્તરાય કા સદ્ભાવ
હોતા હૈ ડસ જીવ કે નિયમ સે ગોત્ર કા સદ્ભાવ હોતા હૈ ।

ટીકાર્થ—જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોં કા કથન ચલ રહા હૈ અતઃ સૂત્ર-
કાર ઇન્હીં કર્મોં કી આપસમેં એક દૂસરે કે સાથ યથાયોગ્ય—સમાનાધિ-
કરણતા ઓર ભિન્નાધિકરણતા પ્રતિપાદન કરતેહૈ—ઇસમેં ગૌતમને પ્રશ્નસે
એસા પૂછા હૈ (જસ્ય જ્ઞં મંતે ! નાનાવરણિજ્જં, તસ્ય દરિસણાવરણિજ્જં,
જસ્ય દરિસણાવરણિજ્જં તસ્ય નાનાવરણિજ્જં) હૈ ભદન્ત ! જિસ જીવકે
જ્ઞાનાવરણીયકર્મકા સદ્ભાવ હોતા હૈ ડસ જીવકે કયા દર્શનાવરણીયકર્મ
કા મી સદ્ભાવ હોતા હૈ ? ઇસી તરહસે જિસ જીવકે દર્શનાવરણીકર્મ કા
સદ્ભાવ હોતા હૈ ડસકે કયા જ્ઞાનાવરણીયકર્મ કા સદ્ભાવ હોતા હૈ ?
ઉત્તર મેં પ્રશ્ન કહતે હૈ—(ગોયમા) હૈ ગૌતમ ! હાં એસી હી વાત હૈ કિ-
(જસ્ય જ્ઞં નાનાવરણિજ્જં તસ્ય દરિસણાવરણિજ્જં નિયમા અત્થિ, જસ્ય

હોય છે, તે જીવમા અંતરાય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે પણ ખરે અને નથી
પણ હોતો. પરન્તુ જે જીવમા અંતરાયનો સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમા ગોત્ર
કર્મનો અવશ્ય સદ્ભાવ હોય છે.

ટીકાર્થ—જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોંનુ કથન ચાલી રહ્યું છે. તેથી સૂત્રકાર આ
સૂત્રદ્વારા તે કર્મોંની પરસ્પરની એક બીજા સાથેની યથાયોગ્ય સમાનાધિકરણતા
અને અસમાનાધિકરણતાનું પ્રતિપાદન કરે છે તે વિષયને અનુલક્ષીને નીચેના
પ્રશ્નોત્તરોંનું આ સૂત્રમાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે.

મહાવીર પ્રશ્નને ગૌતમ સ્વામીને પ્રશ્ન—(જસ્ય જ્ઞં મંતે ! નાનાવરણિજ્જં,
તસ્ય દરિસણાવરણિજ્જં, જસ્ય દરિસણાવરણિજ્જં તસ્ય નાનાવરણિજ્જં ?) હે
ભદન્ત ! જે જીવમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમા શું
દર્શનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ? અને જે જીવમા દર્શનાવરણીય કર્મનો
સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમા શું જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો પણ સદ્ભાવ હોય છે.

મહાવીર પ્રશ્નને ઉત્તર—(ગોયમા !) હે ગૌતમ ! હા, એવું જ અને
છે, (જસ્ય જ્ઞં નાનાવરણિજ્જં તસ્ય દરિસણાવરણિજ્જં નિયમા અત્થિ, જસ્ય જ્ઞં

नियमा अस्ति, जस्स णं दरिसणावरणिज्जं तस्स वि नाणावरणिज्जं नियमा अस्ति' हे गौतम ! यस्य स्वप्न जीवस्य ज्ञानावरणीय कर्म भवति तस्य दर्शनावरणीयमपि कर्म नियमात् नियमतोऽस्ति भवत्येष, एव यस्य स्वप्न जीवस्य दर्शनावरणीय कर्म नियमात् नियमतोऽस्ति भवत्येवेति भाषाः, परस्परमनयोरविनाशवत्त्वात् सन्न संपाद्य । गौतमः पृच्छति—' जस्स णं भंते ! पाणावरणिज्जं, तस्स वेयणिज्जं जस्स वेयणिज्जं तस्स पाणावरणिज्जं ? हे भदन्त ! यस्य स्वप्न जीवस्य ज्ञानावरणीय

णं दरिसणावरणिज्जं तस्स वि नाणावरणिज्जं नियमा अस्ति) जिस जीव के ज्ञानावरणीयकर्म का सञ्जाव होता है, उसके नियम से दर्शनावरणीयकर्म का भी सञ्जाव होता है और जिस जीव के दर्शनावरणीयकर्म का सञ्जाव होता है उस जीव के ज्ञानावरणीयकर्म का भी सञ्जाव होता है । इस तरह इन दोनों कर्मों का परस्पर में एक दूसरे के साथ सम्बन्ध कहा गया है । क्यों कि आत्मा के ज्ञान और दर्शन गुण एक साथ आत्मा में रहते हैं और इन्हीं दोनों गुणों को ये दोनों कर्म आवृत करते हैं । इस लिये इन दोनों कर्मों का एक साथ एक जीव में रहना कहा गया है—यही इन दोनों की एकाधिकरणता है । इनमें एक दूसरे को छोड़कर रहना नहीं होता है इसलिये ये अविनाशय सम्बन्धवाले हैं और साथ २ रहने के कारण ये सहचारी भी कहे गये हैं ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(जस्स णं भंते ! पाणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्जं, जस्स वेयणिज्जं तस्स पाणावरणिज्जं) हे भदन्त ! जिस जीव के ज्ञानावरणीयकर्म का सञ्जाव होता है, उस

दरिसणावरणिज्जं तस्स वि नाणावरणिज्जं नियमा अस्ति) ने एवमां ज्ञानावरणीय कर्मना सङ्गाव ढोय उ ते एवमां निबभधी ज् दर्शनावरणीय कर्मना सङ्गाव ढोय उ, अने ने एवमां दर्शनावरणीय कर्मना सङ्गाव ढोय उ, ते एवमां निबभधी ज्ञानावरणीय कर्मना पयु सङ्गाव ढोय उ आ प्रकाशने आ ज ने कर्मिना परस्परने स लध अतावपामां आन्यो उ, काशु के आत्माना ज्ञान अने दर्शनना शुद्धो ज्के साथे आत्मानां रहे उ अने ते वन्ने शुद्धोने आ वन्ने कर्म आवृत करे उ ज्के ज्के ज्के ज्के ज्के समानाधिकरवृत्तात् उ तेजा ज्के भीजने उादीने रहेता नधी तेभी तेभने अविनाशय स लधवाणां कथा उ अने साथे रहेथाने काशु तेभने सहचारी पयु कथा उ

गौतम स्वामीना प्रश्न—(जस्स णं भंते ! पाणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्जं तस्स वेयणिज्जं तस्स पाणावरणिज्जं ?) हे भदन्त ! ने एवमां ज्ञानावरणीय कर्मना सङ्गाव

णीयं कर्म भवति तस्य किं वेदनीयमपि कर्म भवति, ? एवं—यस्य जीवस्य वेदनीयं कर्म भवति तस्य किं ज्ञानावरणीयमपि कर्म भवति ? भगवानाह—‘गोयमा । जस्स नाणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्जं नियमा अत्थि, जस्स पुण वेयणिज्जं तस्स णाणावरणिज्जं सिय अत्थि, सिय नत्थि, ’ हे गौतम ! यस्य खलु जीवस्य ज्ञानावरणीयं कर्म भवति तस्य वेदनीयं कर्म नियमात् नियमतोऽस्ति भवत्येव, किन्तु यस्य पुनर्जीवस्य वेदनीयं कर्म भवति तस्य ज्ञानावरणीयं कर्म स्यात् कदाचित् अस्ति भवति, स्यात् कदाचित् नास्ति न भवति तत्र अकेवलिनो हि वेदनीय ज्ञानावरणीयं चास्ति, केवलिनस्तु केवलं वेदनीयमस्ति ज्ञानावरणीयं नास्तीति

जीव के क्या वेदनीयकर्म का भी सद्भाव होता है, और जिस जीव के वेदनीयकर्म का सद्भाव होता है, उस जीव के क्या ज्ञानावरणीयकर्म का भी सद्भाव होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (जस्स नाणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्जं नियमा अत्थि, जस्स पुण वेयणिज्जं तस्स णाणावरणिज्जं सिय अत्थि सिय नत्थि) जिस जीव के ज्ञानावरणीयकर्म का सद्भाव होता है उस जीव के नियम से वेदनीयकर्म का सद्भाव होता है । परन्तु वेदनीय के सद्भाव में ज्ञानावरणीयकर्म का सद्भाव अवश्यंभावी नहीं है । क्यों कि केवलज्ञानी मनुष्य के वेदनीयकर्म का सद्भाव तोरहता है पर यहां ज्ञानावरणीयकर्म का सद्भाव नहीं होना है तथा केवलभिन्न आत्माओं में वेदनीय के साथ ज्ञानावरणीयकर्म का सद्भाव पाया जाता है । इसीलिये सूत्रकारने वेदनीय के साथ ज्ञानावरणीयकर्म की भजना कही है ।

अने जे एवमां वेदनीय कर्मनो सहलाव डोय छे, ते एवमां शुं ज्ञानावरणीय कर्मनो सहलाव डोय छे ?

भडावीर प्रभुनो उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (जस्स नाणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्जं नियमा अत्थि, जस्स वेयणिज्जं, तस्स नाणावरणिज्जं सिय अत्थि सिय नत्थि) जे एवमां ज्ञानावरणीय कर्मनो सहलाव डोय छे, ते एवमां वेदनीय कर्मनो पणु अवश्य सहलाव डोय छे. परन्तु जे एवमां वेदनीय कर्मनो सहलाव डोय छे, ते एवमां ज्ञानावरणीय कर्मनो अवश्य सहलाव डोय छे, जेवु नथी, क्यारेक ते एवमां ज्ञानावरणीय कर्मनो सहलाव डोय छे अने क्यारेक अलाव पणु डोय छे. कारणु के केवणज्ञानी मनुष्यमां वेदनीय कर्मनो सहलाव रडेतो नथी. केवणज्ञानी सिवायना मनुष्योमां वेदनीयनी साथे ज्ञानावरणीय कर्मनो पणु सहलाव डोय छे. ते कारणु सूत्रकारे वेदनीय कर्मनी साथे ज्ञानावरणीय कर्मनो सहलाव विकस्ये अताथो छे.

માઃ । ગૌતમ પૂચ્છતિ—‘ જસ્સ ણ મત્તે ! નાણાવરણિજ્જ તસ્સ મોહણિજ્જ, જસ્સ મોહણિજ્જં તસ્સ નાણાવરણિજ્જ ? ’ હે મદન્ત ! યસ્ય સ્વલુ ળીવસ્ય જ્ઞાનાં વરણીય કર્મ ભવતિ તસ્ય કિં મોહનીયમપિ કર્મ ભવતિ एवं યસ્ય જીવસ્ય મોહનીય કર્મ ભવતિ સ્ય કિં જ્ઞાનાવરણીયમપિ કર્મ ભવતિ ? મગવાનાદ— ‘ ગોયમા ! જસ્સ નાણાવરણિજ્જ તસ્સ મોહણિજ્જ સિય અત્થિ, સિય નત્થિ, જસ્સ પુણ મોહણિજ્જં તસ્સ નાણાવરણિજ્જ નિયમા અત્થિ ’ હે ગૌતમ ! યસ્ય જીવસ્ય જ્ઞાનાવરણીયં કર્મ ભવતિ, તસ્ય મોહનીય કર્મ સ્યાત્ કદાપિત્ અસ્તિ ભવતિ,

અથ ગૌતમસ્વામી પ્રશ્નુ સે એસા પૂછતે હૈં (જસ્સ ણ મત્તે ! નાણા વરણિજ્જં તસ્સ મોહણિજ્જ, જસ્સ મોહણિજ્જ તસ્સ નાણાવરણિજ્જં) હે મદન્ત ! જહાં પર જ્ઞાનાવરણીય કા સદ્માવ ઘોતા હૈં કયા વહાં મોહનીય કા મી સદ્માવ હોતા હૈ, ઓર જહાં મોહનીય કા સદ્માવ હોતા હૈ યહા કયા જ્ઞાનાવરણીય કા મી સદ્માવ હોતા હૈ ? હસકે ઘત્તર મૈં પ્રશ્નુ કહતે હૈં—(ગોયમા) હે ગૌતમ ! (જસ્સ નાણાવરણિજ્જં તસ્સ મોહણિજ્જં સિય અત્થિ, સિય નત્થિ, જસ્સ પુણ મોહણિજ્જં તસ્સ નાણા વરણિજ્જ નિયમા અત્થિ) જિસ જીવ કે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કા સદ્માવ હોતા હૈ ડસ જીવ કે મોહનીય હોતા મી હૈ ઓર નહીં મી હોતા હૈ પરન્તુ જિસ જીવ કે મોહનીય હોતા હૈ ડસ જીવ કે નિયમ સે જ્ઞાના વરણીય કર્મ હોતા હૈ એસા નિયમ હૈ । તાત્પર્ય ક હને કા એસા હૈ કિ જો

ગૌતમ સ્વામીનો પ્રશ્ન—(જસ્સ ણ મત્તે ! નાણાવરણિજ્જ તસ્સ મોહણિજ્જ, જસ્સ મોહણિજ્જ તસ્સ નાણાવરણિજ્જ ?) હે મદન્ત ! એ જીવમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં શું મોહનીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ? અને એ જીવમાં મોહનીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં શું જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ?

મહાવીર પ્રશ્નને ઉત્તર—(ગોયમા ! જસ્સ નાણાવરણિજ્જ તસ્સ મોહણિજ્જ સિય અત્થિ, સિય નત્થિ, જસ્સ પુણ મોહણિજ્જ તસ્સ નાણાવરણિજ્જ નિયમા અત્થિ) હે ગૌતમ ! એ જીવમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં મોહનીય કર્મનો સદ્ભાવ ક્યારેક હોય પણ છે અને ક્યારેક નથી પણ હોતો પરંતુ એ જીવમાં મોહનીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો પણ અવશ્ય સદ્ભાવ હોય છે

આ કર્મનું તાત્પર્ય એ છે કે એ જીવ અશ્વપક હોય છે, તે જીવમાં તો જ્ઞાનાવરણીય અને મોહનીય, એ બન્ને કર્મોનો એક સાથે સદ્ભાવ હોય છે,

સ્યાત્ કદાચિત્ નાસ્તિ ન ભવતિ, કિન્તુ યસ્ય પુનર્મોહનીયં કર્મ ભવતિ તસ્ય જ્ઞાનાવરણીયં કર્મ નિયમાત્ નિયમતોઽસ્તિ મદત્યેવ અક્ષપકસ્ય દિ જ્ઞાનાવરણીયં મોહનીયં ત્વાસ્તિ, ક્ષપકસ્ય તુ મોહન્યે યાવત્ કેવલજ્ઞાનં નોત્પદ્યતે તાવત્ જ્ઞાનાવરણીયમસ્તિ, મોહનીયં તુ નાસ્તીતિ ભાવઃ । ગૌતમઃ પૃચ્છતિ—‘ જસ્ય ણં મંતે ! ણાણાવરણિજ્જં તસ્સ આઝયં ? ’ હે ભદન્ત ! યસ્ય સ્વલુ જીવસ્ય જ્ઞાનાવરણીયં કર્મ ભવતિ, તસ્ય કિમ્ આયુષ્કમપિ કર્મ ભવતિ ? એવં યસ્ય આયુષ્કં કર્મ ભવતિ તસ્ય કિં જ્ઞાનાવરણીયમપિ કર્મ ભવતિ ? મગવાનાહ—‘ એવં જહા વેયણિજ્જેણ સમં મણિયં તહા આઝણ વિ સમં મણિયવ્વં, એવં નામેણ વિ, એવં ગોણ વિ સમં ’

જીવ અક્ષપક છે તેને જ્ઞાનાવરણીય અને મોહનીય એ બંને કાર્ય સાથે રહેતે છે પરંતુ જો ક્ષપક જીવ હોય છે તેને મોહના કાર્ય જાણે પરંતુ જો જીવતે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન નથી થતું તો તેને જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ તો રહેતો જ છે એટલે જ્ઞાનાવરણીયના સદ્ભાવમાં મોહનીયના સદ્ભાવની મજા કરી શકાય છે ।

અવ ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન કરે છે—(જસ્ય ણં મંતે ! ણાણાવરણિજ્જં તસ્સ આઝયં) હે ભદન્ત ! જિસ જીવના જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ પાયા જાણાય છે, તે જીવના કયા આયુષ્ય કર્મનો સદ્ભાવ પાયા જાણાય છે, અને જિસ જીવના આયુષ્ય કર્મનો સદ્ભાવ પાયા જાણાય છે તે જીવના કયા જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ પાયા જાણાય છે ? ઇસના ઉત્તરમાં પ્રશ્ન કરે છે—(એવં જહા વેયણિજ્જેણ સમં મણિયં તહા આઝણ વિ સમં મણિયવ્વં, એવં નામેણ વિ, એવં ગોણ વિ સમં) હે ગૌતમ ! ઇસ વિષયમાં એવો ઉત્તર જાણવો

પરંતુ જે ક્ષપક જીવ હોય છે, તેને મોહનીય કર્મનો કાર્ય થવા છતાં પણ જ્યાં સુધી તેને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી, ત્યાં સુધી તેને જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ જ નહીં છે તે કારણે જ્ઞાનાવરણીયનો સદ્ભાવ હોય ત્યારે મોહનીયનો વિકલ્પ સદ્ભાવ કહી શકાય છે.

હવે ગૌતમ સ્વામી મહાવીર પ્રશ્ન કરે છે—(જસ્ય ણં મંતે ! ણાણાવરણિજ્જં, તસ્સ આઝય. ઈત્યાદિ) હે ભદન્ત ! જે જીવને જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવને આયુષ્ય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ? અને જે જીવને આયુષ્ય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવને જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ?

મહાવીર પ્રશ્નનો ઉત્તર—(એવં જહા વેયણિજ્જેણ સમં મણિયં, તહા આઝણ વિ સમં મણિયવ્વં, એવં નામેણ વિ, એવં ગોણ વિ સમં) હે ગૌતમ !

એવં પૂર્વોક્તરીત્યા યથા વેદનીયેન કર્મણા સમ જ્ઞાનાવરણીયં કર્મ મણિત તપૈષ આયુષ્કેણાપિ કર્મણા સમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ મણિતવ્યમ્ એવમેવ વેદનીયેન સમ મેષ નામ્નાપિ કર્મણા સમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ મણિતવ્યમ્ । એવમેષ ગોત્રેણાપિ સમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ મણિતવ્યમ્ । તથા ય યસ્ય જ્ઞાનાવરણીયં મવતિ તસ્ય આયુષ્કં, નામ, ગોત્રં ચ, નિયમાદ મવત્યેવ, યસ્ય પુનરાયુષ્ક, નામ, ગોત્રં ચ કર્મ મવતિ તસ્ય જ્ઞાનાવરણીય મજનયા સ્પાદસ્તિ, સ્પાદ્ નાસ્તિ ચેતિ વૌધ્યમ્, ઉક્તરીત્યા એતેયુ ચતુર્થુ જ્ઞાનાવરણીયસ્ય મજનાયાઃ સદ્માવાત । અય આન્તરાયિકેણ કર્મ્ના

કિ જેસા ઉત્તર મૈને વેદનીય કર્મ કે વિષય મેં કહા હૈ-અર્થાત્ જિસ જીવ કે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ્ના સદ્માવ હૈ વસકે નિયમ સે આયુકર્મ્ના સદ્માવ હૈ હસી તરહ જિસ જીવ મેં જ્ઞાનાવરણીય કર્મ્ના સદ્માવ હૈ વસ જીવ કે નામ ઓર ગોત્ર્ના જ્ઞાનાવરણીય કર્મ્ના સદ્માવ હૈ । પરન્તુ જિસ જીવ કો આયુકર્મ્ના સદ્માવ હૈ વસ જીવ કો જ્ઞાનાવરણીય કર્મ્ના સદ્માવ નિયમતઃ હો હી એસી યાત નહીં હૈ-વહ્ વહા હો મી સકતા હૈ ઓર નહીં મી હો સકતા હૈ । કયોં કિ કેવલજ્ઞાની આત્મામેં આયુ, નામ ઓર ગોત્ર્ના જ્ઞાનાવરણીય કર્મ્ના સદ્માવ હોને પર મી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ્ના સદ્માવ નહીં માના ગયા હૈ હસીલિયે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ્ના સદ્માવ મજના સે કહા ગયા હૈ કેવલી મિદ્ધ જીવોં મેં જ્ઞાનાવરણીય કર્મ્ના સદ્માવ ઓર જ્ઞાનાવરણીય કે સાથે હસકા પરસ્પર મેં સમ્પર્ચ રહા કરતા હૈ । હસ તરહ વેદનીય, આયુ, નામ ઓર ગોત્ર્ના જ્ઞાનાવરણીય કર્મ્ના સદ્માવ મજના પ્રકટ કી-

એવે ઉત્તર વેદનીય કર્મ્ના વિષયમાં આપે છે, એવે જ ઉત્તર આયુષ્ક કર્મ્ના વિષયમાં પણ સમજવે છે એવે કે જે જીવમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મ્ના સદ્માવ હોય છે, તે જીવમાં આયુ, નામ અને ગોત્ર કર્મ્ના સદ્માવ હોય છે પણ જે જીવમાં આયુ કર્મ્ના સદ્માવ હોય છે, તે જીવમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મ્ના સદ્માવ હોય છે પણ ખરે અને નથી પણ દોતો જેમકે કેવલજ્ઞાની આત્મામાં આયુ, નામ અને ગોત્ર જે ત્રણ કર્મ્ના સદ્માવ હોવા છતાં પણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ્ના સદ્માવ હોતો નથી. તેથી જ જે કર્મ્ની સાથે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ્ના સદ્માવ વિષયે બતાવવામાં આપે છે પરન્તુ કેવલી સિવાયના જીવોમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મ્ની સાથે આ ત્રણ કર્મ્ના અને આ ત્રણ કર્મ્ની સાથે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ્ના પરસ્પર સમ્પર્ચ રહ્યા હોય છે આ રીતે વેદનીય, આયુ, નામ અને ગોત્ર આ ત્રણ કર્મ્ના સદ્માવ હોય છે ત્યારે જ્ઞાનાવરણીય વિષયે સદ્માવ બતાવે છે

समं ज्ञानावरणीयं कर्म, दर्शनावरणीयवदेव भजनारहितं नियमतो वक्तव्यमित्य-
भिप्रायेणाह—‘ अंतराङ्गण समं जहा दरिसणावरणिज्जेण समं तद्देव नियमा
परोप्परं भाणियव्वाणि ’ आन्तरायिकेण समं ज्ञानावरणीयं यथा दर्शनावरणीयेन
समं भणितं भजनया रहितं प्रतिपादितं तथैव नियमात् नियमतो भजनया रहिते
आन्तरायिक-ज्ञानावरणीये परस्परं भणितव्ये, तथा च—यस्य ज्ञानावरणीयं तस्य
नियमतः आन्तरायिकं, यस्य आन्तरायिकं तस्यापि नियमतो ज्ञानावरणीयं भवती-

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—कि हे भदन्त ! जिस जीव
में ज्ञानावरणीय कर्म का सद्भाव है उस जीव में क्या अन्तराय कर्म
का भी सद्भाव होता है ? और जिस जीव में अन्तराय कर्म का सद्-
भाव होता है उस जीव में क्या ज्ञानावरणीय कर्म का भी सद्भाव
होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(अंतराङ्गण समं जहा दरिस-
णावरणिज्जेण समं तद्देव नियमा परोप्परं भाणियव्वाणि) हे गौतम !
जिस तरह से दर्शनावरणीय कर्म के साथ ज्ञानावरणीय कर्म कहा गया
है अर्थात् भजना से रहित प्रतिपादित किया गया है उसी तरह से
अन्तराय कर्म के साथ भी ज्ञानावरणीय कर्म भजना रहित प्रतिपादित
किया गया है—इस तरह ये दोनों कर्म आपस में भजना से रहित कहे
गये हैं—तथा च जिस जीवके ज्ञानावरणीय कर्मका सद्भाव है उस जीव
के नियमतः अन्तराय कर्मका भी सद्भाव है और जिस जीवके अन्तराय
कर्मका सद्भाव है, उस जीवके नियमसे ज्ञानावरणीय कर्मका सद्भाव है ।
इस तरहसे ज्ञानावरणीय कर्मके अन्य सात कर्मोंके सात विकल्प हैं ? ।

गौतम स्वामीने प्रश्न—हे भदन्त ! जे एवमां ज्ञानावरणीय कर्मने
सद्भाव डोय छे, ते एवमां शुं अन्तराय कर्मने सद्भाव डोय छे ? अने
जे एवमां अन्तराय कर्मने सद्भाव डोय छे, ते एवमां शुं ज्ञानावरणीय
कर्मने सद्भाव डोय छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—(अंतराङ्गणं समं जहा दरिसणावरणिज्जेण समं
तद्देव नियमा परोप्परं भाणियव्वाणि) हे गौतम ! जेवी रीते दर्शनावरणीय
कर्मनी साथे ज्ञानावरणीय कर्मने अविनाशावी संबन्ध आगण प्रकट करवामां
आव्यो छे जेव प्रभावे ज्ञानावरणीय अने अन्तराय कर्मने पणु अविनाशावी
संबन्ध समजवो. जेटदे के जे एवमां ज्ञानावरणीय कर्मने सद्भाव डोय
छे, ते एवमां अन्तराय कर्मने पणु नियमधीव सद्भाव डोय छे, तथा
जे एवमां अन्तराय कर्मने सद्भाव डोय छे, ते एवमां ज्ञानावरणीय कर्मने

ત્યેયમનયોઃ પરસ્પર નિપમો વક્તવ્યઃ । એવ ઘ જ્ઞાનાવરણીસ્ય અન્યૈઃ સત્તમિઃ
 કમમિઃ સત્ત ત્રિકલ્પા મવન્તીતિ સિદ્ધમ્ ’, અથ દ્શનાવરણીયસ્ય શેષૈઃ પશ્ચમિઃ
 સદ્ પશ્ચત્રિકલ્પાન્ પ્રરુપવિતુમાહ—‘ જસ્સ ણ મંતે ! દ્શિસણાવરણિજ્જ તસ્સ વેય
 ણિજ્જં, જસ્સ વેયણિજ્જં તસ્મ દ્શિસણાવરણિજ્જ ’ ગૌતમઃ પૃચ્છતિ—હે મદત !
 યસ્ય સ્ક્લુ જીવસ્ય દ્શનાવરણીય કર્મ મવતિ, તસ્ય કિં વેદનીય કર્મ મવતિ ?
 યસ્ય ઘ વેદનીય કર્મ મવતિ, તસ્ય કિં દ્શનાવરણીયમપિ કર્મ મવતિ ? ।
 મગધાનાહ—‘ જહા નાણાવરણિજ્જ ઉવરિમેહિં સચ્ચહિં સમ મણિય, તદ્દા
 દ્શિસણાવરણિજ્જપિ ઉવરિમેહિં છહિં કમ્મહિં સમ માણિયથ્થ જાણ
 અંતરાણ્ણ ૩ ’ હે ગૌતમ ! યયા જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ઉવરિમેઃ ઉવરિનિરિંદ્દે

અથ સૂત્રકાર દર્શનાવરણીય કર્મ કે શેષ છદ્ધ કર્મોં કે સાથ દ
 ઘિપલ્પોં કી પ્રરુપણા પરતે હે—હસમેં ગૌતમ ને પ્રશ્નુ સે યેસા પૂજા હૈ—
 (જસ્સ ણ મંતે ! દ્શિસણાવરણિજ્જ તસ્સ વેયણિજ્જ, જસ્સ વેયણિજ્જ
 તસ્સ દ્શિસણાવરણિજ્જ) હે મદન્ત ! જિસ જીવ કે દ્શનાવરણીય કર્મ
 ઘા સદ્ભાવ હૈ, તસ જીવ કે વેદનીય કર્મ ઘા સદ્ભાવ હોતા હૈ ।
 ઓર જિમ જીવ કે વેદનીય કર્મ ઘા સદ્ભાવ હોતા હૈ કયા તસ જીવ
 કે દર્શનાવરણીય કર્મઘા સદ્ભાવ હોતા હૈ કયા ? હનકે ઉત્તરમેં પ્રશ્નુ
 વદ્ધતે હે—(જહા નાણાવરણિજ્જ ઉવરિમેહિં સચ્ચહિં કમ્મેહિં સમ મણિય,
 તદ્દા દ્શિસણાવરણિજ્જ ઉવરિમેહિં છહિં કમ્મેહિં સમ માણિયથ્થ જાણ
 અંતરાણ્ણ ૨) હે ગૌતમ ! જિમ તરહ રે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ દ્શનાવ

પણુ નિયમથી જ સદ્ભાવ હોય છે આ રીતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના અન્ય સાત
 કર્મોં સાથે સાત વિષય યાવ છે

હવે સૂત્રકાર દર્શનાવરણીય કર્મની બાકીના છ કર્મોં સાથે પ્રશ્નુ કરે
 છે, તેના છ વિષયો નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવ્યા છે—

જોતમ શ્વામીને પ્રશ્ન—(જસ્સ ણ મંત ! દ્શિસણાવરણિજ્જ તસ્સ વેય
 ણિજ્જ જામ વેયણ્ણ તસ્મ દ્શિસણાવરણિજ્જ ?) હે મદન્ત ! ને છવમાં
 દ્શનાવરણીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે ત છવમાં શુ વેદનીય કર્મનો પણ
 સદ્ભાવ હોય છે ? અને ને છવમાં વેદનીય કર્મનો સદ્ભાવ હોય છે, તે
 છવમાં શુ દ્શનાવરણીય કર્મનો પણ સદ્ભાવ હોય છે ?

મદાવીર પ્રશ્નનો ઉત્તર—(જહા માણાવરણિજ્જ ઉવરિમેહિં છહિં કમ્મહિં
 સમ મણિય, તદ્દા દ્શિસણાવરણિજ્જ ઉવરિમેહિં છહિં કમ્મહિં સમ માણિયથ્થ)
 હે ગૌતમ ! જેવી રીતે દ્શનાવરણીય આદિ સાત કર્મોંના જ્ઞાનાવરણીય કર્મ

दर्शनावरणीयादिभिः सप्तभिः कर्मभिः समं भणितं तथा दर्शनावरणीयमपि कर्म
 उपरिमैः उपरिनिर्दिष्टै, वेदनीयादिभिः षड्भिः कर्मभिः समं भणितव्यम्, यावत्-
 वेदनीयेन, मोहनीयेन, आयुष्केण, नाम्ना, गोत्रेण, आन्तरायिकेण सममित्यर्थः २ ।
 एवं चायं दर्शनावरणीयकर्मणो गमो ज्ञानावरणीयकर्मगमसमान एव बोध्यः,
 स च प्रतिपादित एव । अथ वेदनीयं कर्म शेषैः षड्भिः सह प्ररूपयितुमाह-
 'जस्स णं भंते ! वेयणिज्जं तस्स मोहणिज्जं, जस्स मोहणिज्जं तस्स वेयणिज्जं ?'
 गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! यस्य खलु जीवस्य वेदनीयं कर्म भवति, तस्य किं
 मोहनीयमपि कर्म भवति ? एवं यस्य मोहनीयं कर्म भवति तस्य किं वेदनीयमपि
 कर्म भवति ? भगवानाह- 'गोयमा ! जस्स वेयणिज्जं तस्स मोहणिज्जं, सिय अत्थिं,

रणीय आदि सात कर्मों के साथ कहा गया है, उसी तरह से दर्शना-
 वरणीय कर्मको भी ऊपरके वेदनीय आदि अन्तरायान्तर्क कर्मों के साथ
 कहना चाहिये । इस तरह दर्शनावरणीय कर्म का यह गम ज्ञानावरणीय
 कर्म के गम जैसा ही है ऐसा जानना चाहिये । यह कैसा है ? सो यह
 ऊपर कहा ही जा चुका है ।

अब सूत्रकार वेदनीय कर्म की प्ररूपणा शेष पांच कर्मों के साथ
 करते हैं-इसमें गौतम ने प्रभु से ऐसा पूछा है-(जस्स णं भंते ! वेय-
 णिज्जं तस्स मोहणिज्जं, जस्स मोहणिज्जं तस्स वेयणिज्जं) हे भदन्त !
 जिस जीव के वेदनीय कर्म का सद्भाव पाया जाता है क्या उस जीव
 के मोहनीय कर्म का भी सद्भाव पाया जाता है ? और जिस जीव के
 मोहनीय कर्म का सद्भाव पाया जाता है क्या उस जीव के वेदनीय
 कर्म का भी सद्भाव पाया जाता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं-

साथेना सद्भाव विषयक कथन करवामां आण्युं छे, अण् प्रमाणे दर्शनावरणीय
 कर्मनी साथे पणु वेदनीयथी अन्तराय पर्यन्तना कर्मेणु कथन समज्जुं आ
 रीते दर्शनावरणीय कर्मना अन्य छ कर्मों साथेना संभध विषयक आलापके
 ज्ञानावरणीय साथेना तेमना संभध विषयक आलापके जेवाण छे अण् समज्जुं.
 ज्ञानावरणीय साथेना तेमना संभधनु कथन तो आगण आपवामां आण्युं छे.

इसे सूत्रकार वेदनीय कर्मनी प्ररूपणा षड्भिः पात्र कर्मों साथे करे छे.
 गौतम स्वामीने प्रश्न-(जस्स णं भंते ! वेयणिज्जं तस्स मोहणिज्जं,
 जस्स मोहणिज्जं तस्स वेयणिज्जं) हे भदन्त ! जे एवमां वेदनीय कर्मनी
 सद्भाव होय छे, ते एवमां शु मोहनीय कर्मनी पणु सद्भाव होय छे ?
 अने जे एवमां मोहनीय कर्मनी सद्भाव होय छे, ते एवमां शु वेदनीय
 कर्मनी पणु सद्भाव होय छे ?

सिय नत्थि, जस्स पुण मोहणिज्ज तस्स वेयणिज्ज नियमा अत्थि' हे गौतम ! यस्य जीवस्य वेदनीय कर्म भवति तस्य मोहनीय स्यात् कदाचित् अस्ति भवति, स्यात् कदाचित् नास्ति न भवति, एतन्न अपीणमोहस्य हि वेदनीय मोहनीय चास्ति, क्षीणमोहस्य तु वेदनीयं केवलमस्ति मोहनीयं नास्तीत्याश्रय, किन्तु यस्य पुनर्मोहनीय कर्म अस्ति तस्य वेदनीयमपि नियमात् नियमतोऽस्ति । गौतमः पृच्छति-

(गौतम) हे गौतम ! ऐसा नियम नहीं है कि जिसके वेदनीय कर्म का सद्भाव पाया जाता है उसके मोहनीय कर्म का भी सद्भाव पाया जाता है, क्यों कि भगवान के वेदनीय का सद्भाव तो पाया जाता है पर मोहनीय कर्म का सद्भाव नहीं पाया जाता इसीलिये (जस्स वेयणिज्ज तस्स मोहणिज्ज सिय अत्थि सिय नत्थि) सूत्रकार ने ऐसा कहा है कि जिसके वेदनीय कर्म का सद्भाव होता है उसके मोहनीय कर्म का सद्भाव होता भी है और नहीं भी होता है क्षीणमोहयितराग भिन्न जीवों में वेदनीय के साथ मोहनीय का सद्भाव पाया ही जाता है । इसी लिये वेदनीय के साथ मोहनीय कर्म की भजना कही गई है । परन्तु (जस्स पुण मोहणिज्ज तस्स वेयणिज्ज नियमा अत्थि , यह नियम है कि जिस आत्मा में मोहनीय कर्म है उस आत्मा में वेदनीय कर्म अवश्य ही है । इसी बात को टीकाकार ने " अक्षीणमोहस्य हि वेदनीय मोहनीय चास्ति, क्षीणमोहस्य तु वेदनीयं केवलमस्ति मोहनीयं नास्ति " इस परिक्र द्वारा स्पष्ट की है ।

भट्टाक्षर प्रभुने उत्तर— गौतम ! " हे गौतम ! जेवो देहं निबभ नधी के ने एवमां वेदनीय कर्मना सद्भाव डोय ते एवमां मोहनीय कर्मना पणु सद्भाव ज डोय, कएणु के देवही भगवानमां वेदनीय कर्मना सद्भाव तो जेवामा आवे छे पणु तेमनामां मोहनीय कर्मना सद्भाव ज्युतो नधी परन्तु क्षीण मोहवाण वीतराज सिवायना एवोमां वेदनीय कर्मना साथे मोहनीय कर्मना पणु सद्भाव जेवामा आवे छे आ रीते वेदनीयनी साथे मोहनीय कर्मना सद्भाव क्यारेक डोय छे जने क्यारेक डोयो नधी जेव वात सूत्रारे आ सूत्र द्वारा ब्रह्म करी छे— (जस्स वेदणिज्ज तस्स मोहणिज्ज सिय अत्थि सिय नत्थि) परन्तु (जस्स पुण मोहणिज्ज तस्स वेयणिज्ज नियमा अत्थि) जेवो नियम तो ब्रह्म छे के ने आत्मायां मोहनीय कर्मना सद्भाव डोय छे, ते आत्मायां वेदनीय कर्मना पणु अपरथ सद्भाव डोय छे जेव वात सूत्रारे " अक्षीणमोहस्य हि वेदनीयं मोहनीयं चास्ति क्षीण मोहस्य तु वेदनीयं केवलमस्ति मोहनीयं नास्ति " आ पत्ति द्वारा ब्रह्म करी छे

‘जस्स णं भंते ! वेयणिज्जं तस्स आउयं० ?’ हे भदन्त ! यस्य खलु जीवस्य वेदनीयं कर्म भवति तस्य किम् आयुष्कं कर्म भवति ? एवं यस्य आयुष्कं कर्म भवति तस्य किं वेदनीयमपि कर्म भवति ? भगवानाह—‘एवं एयाणि परोप्परं नियमा । जहा आउएण समं एवं नामेण वि, गोयेण वि समं भाणियव्वं’ एवं पूर्वोक्तरीत्या एते—वेदनीयायुष्के परस्परं नियमात् नियमतो भवतः, तथा च यस्य वेदनीयं कर्म तस्य नियमत आयुष्कमपि कर्म, एवं यस्य आयुष्कं तस्य नियमतो वेदनीयमपि भवतीत्येवमेते परस्परं तुल्ये वक्तव्ये । एवं नाम—गोत्राभ्यामपि

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—“जस्स णं भंते ! वेयणिज्जं तस्स आउयं०” हे भदन्त ! जिस जीव के वेदनीय कर्म का सद्भाव है क्या उस जीव के आयुष्क कर्म का भी सद्भाव होता है ? और जिस जीव के आयुष्क कर्म का सद्भाव होता है क्या उस जीव के वेदनीय कर्म का भी सद्भाव होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(एवं एयाणि परोप्परं नियमा) हे गौतम ! इन दोनों कर्मों का आपस में नियम से संबंध है । तथा च—जिस जीव के वेदनीय कर्म का सद्भाव होता है उस जीव के नियम से आयुष्क कर्म का सद्भाव होता है और जिस जीव के आयुष्क कर्म का सद्भाव होता है उस जीव के नियम से वेदनीय कर्म का सद्भाव होता है । तात्पर्य कहने का यह है कि वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये चार अघातिया कर्म हैं । इनका परस्पर में एक दूसरे के साथ संबंध होने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है । केवली भगवान् के चार घातिया कर्मों का

गौतम स्वामीने। प्रश्न—(जस्स णं भंते ! वेयणिज्जं तस्स आउयं० । धत्थादि) हे भदन्त ! जे एवमां वेदनीय कर्मने। सद्भाव होय छे, ते एवमां शुं आयुष्य कर्मने। पणु सद्भाव होय छे ? अने जे एवमां आयुष्य कर्मने। सद्भाव होय छे, ते एवमां शुं वेदनीय कर्मने। पणु सद्भाव होय छे ?

भडावीर प्रभुने। उत्तर—(एवं एयाणि परोप्परं नियमा) हे गौतम ! आ अन्ने कर्मने। परस्पर साथे नियमथी जे संबंघ होय छे कडेवानुं तात्पर्य अे छे के जे एवमां वेदनीय कर्मने। सद्भाव होय छे, ते एवमां आयुष्य कर्मने। पणु अवश्य सद्भाव होय छे अने जे एवमां आयुष्य कर्मने। सद्भाव होय छे, ते एवमां वेदनीयने। पणु अवश्य सद्भाव होय छे. वेदनीय, आयु, नाम अने गोत्र, आ चार अघातिया कर्म छे. ते चारेने। अेक भीअनी साथे संबंघ होवामां केअपणु आधा (अुशकेली) नउती नथी. केवली

સમ વેદનીયં વક્તવ્યમિત્યભિપાયણાહ—યયા આયુષ્કેવલ સમ મણિતમ્ એવમેષ તથૈવ
 નાન્નાપિ સમ ગોષ્ટેનાપિ સમ મણિતવ્યમ્, અન્તરાયણ તુ સમં વેદનીય મમનયા
 મચતિ, યતોહિ વેદનીયમ્ આન્તરાયિકં ચ કેવલિમિદાનાં મચતિ કેવલિનાં તુ
 કેવલં વેદનીય મચતિ, ન ત્વાન્તરાયિક કર્મ્મ ઇત્યાશયેન મદ્નોત્તરં પ્રાહ—‘ જસ્સ ણ
 મંતે ! વેયગિન્જ તસ્સ અંતરાય્યં ? પુચ્છા ’ હે મદન્ત ! યસ્ય ત્વલ્લ જીવસ્ય

અભાવ હોને પર મ્હી ફનકા ડનમેં વિના કિસી આપસી વિરોધ કા સન્નાવ
 રહતા હૈ। ઘાતિયા કર્મોં મેં ઝૈસા જ્ઞાનાવરણીય ઝૌર મોહનીય મેં વિરોધ
 ઇક તરફાં કહા ગયા હૈ ડસ પ્રકાર કા વિરોધ ફનમેં ન ઇક તરફાં હૈ
 ઝૌર ન ડોનોં તરફ સે હૈ। ઇસી ઘાત કો સૂચિત કરને કે લિયે (જહા
 આઈર્ણ સર્મ, ઇષ નામેણ વિ, ગોર્ણ વિ સર્મ આણિયવ્ધં) સૂત્રકાર
 ને ઇસા કહા હૈ। જિસ પ્રકાર સે વેદનીય ઝૌર આયુ કા પરસ્પર મેં
 સંપર્ષ પ્રકટ ક્રિયા ગયા હૈ, ડસી પ્રકાર સે વેદનીય કે સાય નામ ઝૌર
 ગોષ્ટ કા મ્હી પરસ્પર મેં સંપર્ષ હૈ ઇસા જાનના ઘાહિયે। અન્તરાય કે
 સાય વેદનીય કા ઇસા સંપર્ષ નહીં હૈ કિન્તુ મજના સે હી અન્તરાય કે
 સાય વેદનીય કા સંપર્ષ હૈ ઇસ ઘાત કો પ્રકટ કરને કે લિયે સૂત્રકાર
 મજ્જોત્તરસ્પ સૂત્ર આગે કહતે હૈ—જસમેં ગૌતમ ને જય પ્રમ્હુ સે (જસ્સ
 ણ મંતે ! વેયગિન્જ તસ્સ અંતરાય્યં પુચ્છા) ઇસા પૂછા કિ હૈ મદન્ત !

કાગવાનમાં આર ઘાતિયા કમોના (જ્ઞાનાવરણીય, ઇશનાવરણીય મોહનીય અને
 અન્તરાય) અભાવ ડોવા ઇતાં પણ ઇપમુહ્ય આર અઘાતિયા કમોના તે
 સૂદ્ધભાવ જ રહે છે ઘાતિયા કમોમાં (જેમકે જ્ઞાનાવરણીય અને મોહનીયમાં)
 જેવી રીતે એકતરફી વિશેષ જતાવવામાં આવ્યો છે, એવો એક તરફી વિશેષ
 અઘાતિયા કમોમાં ડોતો નથી એટલું જ નહિ પણ જન્ને તરફી વિશેષને
 પણ તેમાં અભાવ છે એજ વાત બ્યહા ડરવાને માટે “ જહા આઈર્ણ સર્મ,
 ઇષ નામેણ વિ, ગોર્ણ વિ સર્મ આણિયવ્ધ ” સૂત્રકારે આ પ્રમાણે કહ્યું છે જે
 પ્રકારને વેદનીય અને આયુ વચ્ચેનો સંબધ (અવિનાભાવી સંબધ) પ્રકટ
 કરવામાં આવ્યો છે, એજ પ્રકારને વેદનીયનો નામકર્મ અને ગોત્રકર્મ સાથેનો
 પણ અવિનાભાવિ સંબધ ડોવ છે પરંતુ અન્તરાયના સામે વેદનીયનો એવો
 સંબધ નથી ત્યારે કેવો સંબધ છે ? તેમનો કેવો સંબધ છે તે નીચેના
 પ્રશ્નોત્તરો દ્વારા સૂત્રકારે પ્રકટ કહ્યું છે

મૌતમ રવામીનો પ્રશ્ન—(જસ ણ મંતે ! વેયગિન્જ તસ્સ અંતરાય્યં
 પુચ્છા) હે માન્ત ! જે ઇશના વેદનીય કમોનો સદમાર ડોવ છે, તે ઇષમાં

वेदनीयं कर्म भवति तस्य किम् आन्तरायिकं कर्म भवति ? एवं यस्य आन्तरायिकं भवति तस्य किं वेदनीयमपि भवति ? इति पृच्छा, भगवानाह—‘ गोयमा । जस्स वेयणिज्जं तस्स अंतराइयं, सिय अत्थि, सिय नत्थि, जस्स, पुण अंतराइयं तस्स वेयणिज्जं नियमा अत्थि ’ हे गौतम । यस्य जीवस्य वेदनीयं भवति तस्य आन्तरायिकं स्यात् कदाचित् अस्ति भवति स्यात् कदाचित् नास्ति न भवति, अकेवलिनामुभयं भवति, केवलिनां तु वेदनीयमेव नान्तरायिकमिति भावः, किन्तु यस्य पुनरान्तरायिकं कर्म भवति तस्य वेदनीयं नियमात् नियमतोऽस्ति

जिस जीव के वेदनीय कर्म का सद्भाव होता है, क्या उसके अन्तराय कर्म का भी सद्भाव होता है ? तथा जिसके अन्तराय कर्म का सद्भाव होता है उसके वेदनीय कर्म का भी सद्भाव होता है ? तब प्रभु ने उनसे ऐसा कहा—(गोयमा) हे गौतम ! (जस्स वेयणिज्जं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि, सिय नत्थि, जस्स पुण अंतराइयं तस्स वेयणिज्जं नियमा अत्थि) जिस जीव के वेदनीय कर्म का सद्भाव होता है उसके अन्तराय कर्म का भी नियमतः सद्भाव हो ऐसा एकान्तिक नियम नहीं है—क्यों कि केवली भगवान के वेदनीय तो होता है पर अन्तराय कर्म नहीं होता है । कारण चार घातिया कर्मों का ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय—इनका केवली में सर्वथा अभाव हो जाता है । अकेवलीको ही वेदनीय के सद्भाव में अन्तराय का सद्भाव पाया जाता है । इसीलिये वेदनीयके सद्भावमें अन्तराय कर्मका होना और न होना भजनासे प्रकट किया गया है । परन्तु जहां पर अन्तराय कर्म

शु अंतराय कर्मना सद्भाव डाय छे जरे ? अने जे लवमां अंतराय कर्मना सद्भाव डाय छे, ते लवमां शु वेदनीय कर्मना पणु सद्भाव डाय छे ?

मडावीर प्रभुना उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (जस्स वेयणिज्जं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि, सिय नत्थि, जस्स पुण अंतराइयं तस्स वेयणिज्जं नियमा अत्थि) जे लवमां वेदनीय कर्मना सद्भाव डाय छे, ते लवमां अंतराय कर्मना सद्भाव डाय छे पणु जरे अने नथी पणु डायतो. जेभेके केवली भगवानमां वेदनीय कर्मना सद्भाव डाय छे पणु अंतराय कर्मना सद्भाव डायतो नथी, कारणे के ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय अने अंतराय, जे चार घातिया कर्मना ते केवलीमां अभाव न डाय छे परन्तु केवली सिनायता मनुष्येमां वेदनीय कर्मनी साथे अंतराय कर्मना पणु सद्भाव रडे छे. तेथी जे वेदनीयना सद्भावमां अंतरायना सद्भाव विकल्पे

મરત્યેવ ૩। અથ મોહનીયં શ્લેષ્વતુર્મિ સહ પ્રરુપયતિ—‘જસ્સ ણં મંતે । મોહણિજ્જ તસ્સ આઠય, જસ્સ આઠયં તસ્સ મોહણિજ્જં ?’ હે મદન્ત ! યસ્ય સહ્ જીવસ્ય મોહનીયં કર્મ મવતિ તસ્ય કિમ્-આયુષ્કં કર્મ મવતિ ? एवं यस्य आयुष्कं कर्म मवति तस्य किं मोहनीयमपि कर्म मवति ? भगवानाह—‘गोयमा । जस्स मोह णिज्ज तस्स आठय नियमा अत्थि, जस्स पुण आठयं तस्स पुण मोहणिज्ज સિય અત્થિ, સિય નત્થિ, एष नाम, गोय, अतराहयं च भाणियब्बं’ હે ગૌતમ ! યસ્ય જીવસ્ય મોહનીય મવતિ તસ્ય આયુષ્કં નિયમાત્ નિયમત્તોઽસ્તિ મરત્યેવ, કિન્તુ, યસ્ય પુનરાયુષ્કં મવતિ તસ્ય પુનમોહનીય સ્યાત્ કદાચિત્ કસ્યચિદસ્તિ, સ્યાત્

का सद्भाय होता है वहां नियमसे वेदनीय कर्मका सद्भाव होता है । ३।

अथ गौतम स्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(जस्स णं मंते । मोह णिज्ज तस्स आठय, जस्स आठयं तस्स मोहणिज्ज) हे मदन्त ! जिस जीव के मोहनीय कर्म का सद्भाव होता है क्या उस जीव के आयु कर्म का सद्भाव होता है ? तथा जिस जीव के आयु कर्म का सद्भाव होता है उस जीव के मोहनीय कर्म का भी सद्भाव होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (जस्समोहणिज्जं तस्स आठय नियमा अत्थि, जस्स पुण आठय तस्स पुणमोहणिज्ज सिय अत्थि, सिय नत्थि, एवं नामं, गोयं अतराहयं च भाणियब्बं) जिस जीव के मोहनीय कर्मका सद्भाव है, उसके आयु कर्मका सद्भाव नियमसे है, और जिस जीव के आयु कर्म का सद्भाव है उस जीव के मोहनीय का

બતાવે છે પરંતુ એવું જરૂર બની શકે છે કે જે જીવમાં અતરણ કરનાર સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં વેદનીય કરનાર પણ અવશ્ય સદ્ભાવ હોય છે

હવે ગૌતમ સ્વામી મોહનીય કરનાર બાકીના ચાર કર્મો સાથેના સબ ધને અનુલક્ષીને મહાવીર પ્રભુને પૂછે છે કે—(જસ્સ ણં મંતે । મોહણિજ્જ તસ્સ આઠય, જસ્સ આઠયં તસ્સ મોહણિજ્જં ?) હે મદન્ત ! જે જીવમાં મોહનીય કરનાર સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં શુ આયુષ્ય કરનાર પણ સદ્ભાવ હોય છે ? અને જે જીવમાં આયુષ્ય કરનાર સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં શુ મોહનીય કરનાર પણ સદ્ભાવ હોય છે ?

મહાવીર પ્રભુને ઉત્તર—“ગોયમા । જસ્સ મોહણિજ્જં તસ્સ આઠયં નિયમા અત્થિ, જસ્સ પુણ આઠય તસ્સ પુણ મોહણિજ્જં સિય અત્થિ, સિય નત્થિ ” હે ગૌતમ ! જે જીવમાં મોહનીય કરનાર સદ્ભાવ હોય છે, તે જીવમાં આયુષ્ય કરનાર પણ નિયમથી જ સદ્ભાવ હોય છે, પરન્તુ જે જીવમાં આયુષ્ય કરનાર

कदाचित् कस्यचिन्नास्त्येव, तत्र यस्य मोहनीयं तस्यायुर्नियमादकेवलिन इव भवत्येव, यस्य पुनरायुस्तस्य मोहनीयं भजनयो भवति, यतोऽक्षीण मोहस्यायुर्मोहनीयं चास्ति, क्षीणमोहस्य त्वायुरेवेति भावः । एवमेव मोहनीयेन समम् आयुष्कमिव नाम, गोत्रम्, आन्तराधिकं च नियमतो भवत्येव । यस्य पुनर्नामादित्रयं भवति तस्य स्यात् कदाचित् मोहनीयं भवति अक्षीणमोहस्येव, स्यात् कदाचित् मोहनीयं न भवति क्षीणमोहस्येवेति भावः ४, अथायुष्कं शेषैस्त्रिभिः समं प्ररूप-

सद्भाव अवश्य हो ही ऐसा नियम नहीं है । मोहनीय के सद्भाव में आयुर्कर्म का सद्भाव अकेवली आत्मा की तरह सब जीवों के होते ही है । परन्तु जिस जीव के आयु का सद्भाव होता है उस जीव के मोहनीयकर्म का सद्भाव भजना से होता है—इनमें आक्षीणमोहवाले जीव के तो आयु और मोहनीय का सद्भाव युगपत् रहता है और जो क्षीणमोहवाला जीव है उसके केवल आयु का ही सद्भाव रहता है । मोहनीय के साथ आयुष्क की तरह नाम, गोत्र और अन्तराय ये सब नियम से होते हैं, पन्तु जिनके ये नामादित्तिक होते हैं उन के मोहनीय कदाचित् होता भी है और कदाचित् नहीं भी होता है । अक्षीणमोहवाले जीव के मोहनीय के साथ नाम, गोत्र और अन्तराय ये होते हैं और क्षीणमोहवाले जीव के ये मोहनीयकर्म के बिना भी होते हैं । ४।

सद्भाव डोय छे, ते एवमां मोहनीय कर्मनो सद्भाव न डोय छे एवे। केछ नियम नथी। मोहनीयना सद्भावमा आयुष्य कर्मनो सद्भाव अकेवली आत्मानि न्नेम समस्त एवोमां डोय छे. परन्तु न्ने एवमां आयुष्य कर्मनो सद्भाव डोय छे, ते एवमां मोहनीयनो सद्भाव विकल्पे डोय छे अक्षीण मोहवाणा एवोमां तो आयु अने मोहनीयनो सद्भाव अेक साथे न् रडे छे, परन्तु क्षीण मोहवाणा एवोमां तो केवण आयुष्यनो न् सद्भाव रडे छे पण् आयुष्यनी साथे मोहनीयनो सद्भाव रडेतो नथी मोहनीय कर्मनी साथे आयुष्यनी न्नेम न् नाम, गोत्र अने अंतराय, आ त्रणेनो सद्भाव नियमथी न् डोय छे. परन्तु न्ने एवमां नाम, गोत्र अने आयुर्कर्मनो सद्भाव डोय छे. ते एवमां मोहनीय कर्मनो सद्भाव डोय छे पण् अरे। अने नथी पण् डोतो। अक्षीण मोहवाणा एवमां मोहनीयनी साथे नाम, गोत्र अने अंतराय कर्मनो सद्भाव न् रडे छे. परन्तु क्षीण मोहवाणा एवमां अे त्रण् मोहनीय कर्म विना पण् डोय छे डवे आयुर्कर्मनी साथेना आडीना त्रण् कर्मना संबन्ध विषयक विकल्पे अताववामा आवे छे.

यति-‘ जस्त ण भंते ! आउर्यं तस्स नामं० ? पुच्छा ’ गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! यस्य खलु जीवस्य आयुष्य कर्म भवति तस्य किं नाम कर्म भवति ? एवं यस्य नाम कर्म भवति तस्य किम् आयुष्कर्मपि कर्म भवति ? इति पृच्छा, भगवानाह-‘ गोयमा ! दोषि परोप्परं नियमा, एवं गोसेण वि समं भाणियस्सं ’ हे गौतम ! हे अपि आयुष्कनाम्नी, परस्परं नियमात् भवतः तथा च यस्पायुष्कं तस्य नियमतो नाम कर्म भवत्येव, एवं यस्य नाम कर्म भवति तस्य नियमत आयुष्क कर्म भवत्येवेति भावः, एवमेव गोत्रेणापि एवम् नियमत आयुष्क कर्म भणितव्यम् । गौतम पृच्छति-‘ जस्त णं भंते ! आउर्यं तस्स अंतराहं० ?

अथ गौतमस्वामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं-(जस्त णं भंते ! आउर्यं तस्स नामं०पुच्छा) हे भदन्त ! जिस जीवके आयुष्क कर्म होता है, उस जीव के क्या नाम कर्म भी होता है ? और जिस जीव के नामकर्म होता है उस जीव के क्या आयुष्क कर्म भी होता है ? इसके उत्तर में प्रश्नु कहते हैं-(गोयमा ! दोषि परोप्परं नियमा एव गोसेण वि समं भाणियस्सं) हे गौतम ! ये गोत्र और नाम दोनों कर्म परस्पर नियम से होते हैं । इसलिये जिसके आयुष्क कर्मका सद्भाव होता उस जीवके नियमसे नाम कर्मका सद्भाव होता है और जिस जीवके नामकर्मका सद्भाव होता है उसके आयुष्क कर्म का सद्भाव होता है । इसी तरह से गोत्र कर्म के साथ भी नियम से आयुष्क कर्म कहना चाहिये ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं (जस्त णं भंते ! आउर्यं तस्स अंतराहं०) हे भदन्त ! जिस जीव के आयुष्कर्म का सद्भाव

औतम स्वामीना प्रश्न-(जस्त णं भंते ! आउर्यं तस्स नामं पुच्छा) हे भदन्त ! ये अत्रमां आयुष्क कर्मना सद्भावो देय उ, ते अत्रमां शु नामकर्मना पञ्च सद्भावो देय उ ? अने ये अत्रमां नामकर्मना सद्भावो देय उ, ते अत्रमां शु आयुष्क कर्मना पञ्च सद्भावो देय उ ?

भद्वीर प्रश्नुना उत्तर-“ गोयमा ! दोषि परोप्परं नियमा, एवं गोसेण वि समं भाणियस्सं ’ हे गौतम ! गोत्रकर्म अने नामकर्मना अविनाशपि सद्भावो देयाथो आयुष्कर्मना सद्भावो देयाथो अत्रमां गोत्रकर्मने पञ्च नियमधीन सद्भावो देय उ अने गोत्रकर्मना सद्भावो देयाथो अत्रमां आयुष्कर्मना पञ्च सद्भावो देय उ अथ प्रमाद्ये आयुष्कर्मनी साथे गोत्रकर्मना अने गोत्रकर्मनी साथे आयुष्कर्मना पञ्च नियमधीन सद्भावो देय उ

औतम स्वामीना प्रश्न-(जस्त णं भंते ! आउर्यं तस्स अंतराहं ?) हे भदन्त ! ये अत्रमां आयुष्क कर्मना सद्भावो देय उ, ते अत्रमां शु

पुच्छा ' हे भदन्त ! यस्य खलु जीवस्य आयुष्कं कर्म भवति तस्य किम् आन्तरा-
यिकं कर्म भवति ? एवं यस्य आन्तरायिकं कर्म भवति तस्य किम् आयुष्कं कर्म
भवति ? इति पृच्छा, भगवानाह—' गोयमा ! जस्स आउयं तस्स अंतराइयं सिय
अत्थि; सिय नत्थि जस्स पुण अंतराइयं तस्स आउयं नियमा ५ ' हे गौतम ! यस्य
जीवस्य आयुष्कं कर्म भवति तस्य आन्तरायिकं स्यात् कदाचित् कस्यचित्
अस्ति, स्यात् कदाचित् कस्यचित् नास्ति, तथा च अकेवलिन आयुरस्ति
आन्तरायिकं चास्ति, केवलिनस्तु आन्तरायिकं नास्ति इत्येवं भजना
बोध्या, किन्तु यस्य पुनरान्तरायिकं कर्म भवति तस्य आयुष्कं नास्ति
इत्येव भजना बोध्या, किन्तु यस्य पुनरान्तरायिकं कर्म भवति तस्य आयुष्कं
नियमात् नियमतो भवति ५ । अथ नामकर्म शेषद्वयेन समं प्ररूपयति—

होता है उस जीवके क्या अन्तरायकर्मका भी सद्भाव है और जिस जीव
के अन्तरायकर्म का सद्भाव होता है उस जीव के क्या आयुकर्म का
भी सद्भाव होता है ? इसके उत्तर प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम !
(जस्स आउयं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि, सिय नत्थि, जस्स पुण
अंतराइयं तस्स आउयं नियमा ५) जिस जीव के आयुष्क कर्म का
सद्भाव होता है, उस जीव के अन्तरायकर्म का सद्भाव नियम से होता
ही है ऐसा नियम नहीं है—ऐसे जीव के अन्तराय होता भी है और
नहीं भी होता है ऐसी आयुकर्म के साथ अन्तरायकर्म की भजना है ।
जो जीव अकेवली है—उसके आयुकर्म भी है और अन्तरायकर्म भी है ।
परन्तु जो जीव केवली हैं उनके आयुकर्म तो है परन्तु अन्तराय नहीं है ।
इस तरहसे आयुकर्मके साथ अन्तरायकर्मकी भजना है । किन्तु जिस
जीवके अन्तरायकर्म होता है, उसके नियम से आयुष्ककर्म होता है ॥५॥

अन्तराय कर्मने पणु सद्भाव डोय छे अरे ? अने ने एवमां अन्तराय
कर्मने सद्भाव डोय छे, ते एवमां शु आयुष्य कर्मने पणु सद्भाव डोय छे ?

महावीर प्रश्नो उत्तर—(गोयमा ! जस्स आउयं तस्स अंतराइयं सिय
अत्थि, सिय नत्थि, जस्स पुण अंतराइयं तस्स आउयं नियमा) हे गौतम !
ने एवमां आयुष्य कर्मने सद्भाव डोय छे, ते एवमां अन्तराय
कर्मने सद्भाव डोय छे अने अन्तराय सद्भाव नथी पणु डोतो. केवलीमां
आयुकर्मने सद्भाव डोय छे पणु अन्तराय कर्मने सद्भाव डोतो नथी,
परन्तु केवली सिवायना एवमां आयु अने अन्तराय, अने अने कर्मने अन्तराय
साथे सद्भाव डोय छे ते अन्तराय आयुकर्मनी साथे अन्तराय कर्मने विकल्पे
सद्भाव कर्हो छे परन्तु ने एवमां अन्तराय कर्मने सद्भाव डोय छे, ते
एवमां आयुष्य कर्मने पणु अवश्य सद्भाव न डोय छे.

‘अस्त ण भते ! णामं तस्स गोयं जस्स णं गोय तस्स णं णामं पुच्छा ’ गौतम-
पृच्छति—हे भदन्त ! यस्य खलु जीवस्य नामकर्म भवति तस्य किं गोत्रं कर्म
भवति ? एव-यस्य खलु गोत्रं कर्म भवति तस्य किं नाम कर्म भवति ? इति
पृच्छा, भगवानाह—‘ गोयमा ! अस्त ण णाम तस्स ण नियमा गोय, अस्त ण
गोय तस्स नियमा णामं, दो वि एए परोप्परं नियमा ’ हे गौतम ! यस्य खलु नाम
कर्म भवति, तस्य खलु नियमात् नियमतो गोत्र कर्म भवति—एव यस्य खलु गोत्रे
कर्म भवति तस्य नियमात् नियमतो नाम कर्म भवत्येव, द्वे अपि एते नाम गोत्रे
कर्मभौ परस्पर नियमतो भवत । गौतमः पृच्छति—‘ अस्त ण भते ! णाम तस्स
अंतराह्यं पुच्छा ! ’ हे भदन्त ! यस्य खलु नाम कर्म भवति तस्य किम् भान्तरा

अथ गौतम प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं—(अस्त ण भते ! णाम तस्स
गोय जस्स ण गोय तस्स णं णाम पुच्छा) हे भदन्त ! जिस जीवके नाम
कर्म होता है उस जीव के क्या गोत्रकर्म भी होता है और जिस जीव
के गोत्रकर्म होता है उस जीव के क्या नामकर्म भी होता है ? इसके
उत्तरमें प्रश्नु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (अस्त णं णामं तस्स ण नियमा
गोय अस्त णं गोय, तस्स नियमा णामं दो वि एए परोप्परं नियमा)
जिस जीवके नामकर्म होता है उस जीवके नियम से गोत्रकर्म होता है
और जिस जीव के गोत्रकर्म होता है उस जीव के नियम से नामकर्म
होता है—क्यों कि ये दोनों कर्म आपस में नियम से एक दूसरे के
साथ रहनेवाले हैं ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्नुसे ऐसा पूछते हैं—(अस्त णं भते ! णामं तस्स
अंतराह्यं पुच्छा) हे भदन्त ! जिस जीवके नामकर्म होता है क्या उस

जीवम स्वाभीना प्रश्नु—(अस्त णं भते ! णामं तस्स गोय, अस्त णं गोय
तस्स णं णामं पुच्छा) हे भदन्त ! ने एवमा नामकर्मना सदृशाव दोष छे,
ते एवमां शु गोत्र कर्मना पशु सदृशाव दोष छे ? जने ने एवमां गोत्र
कर्मना सदृशाव दोष छे ते एवमां शु नामकर्मना पशु सदृशाव दोष छे ?
भट्टाचार्य प्रश्नुने उत्तर—(गोयमा ! अस्त णं णामं तस्स णं नियमा गोय,
अस्त णं गोय तस्स नियमा णामं दो वि एए परोप्परं नियमा) हे जीवम !
ने एवमां नामकर्मना सदृशाव दोष छे ते एवमां गोत्रकर्मना पशु निश्च
मधी ए सदृशाव दोष छे जने ने एवमां गोत्रकर्मना सदृशाव दोष छे ते
एवमां नामकर्मना पशु अक्षय सदृशाव दोष छे, कश्चु के ते जने कर्म
निश्चमधी ए लोक जीवानी साथे रहेनाश छे

यिकं कर्म भवति ? एवं यस्य आन्तरायिकं कर्म भवति तस्य किं नाम कर्माऽपि भवति ? इति पृच्छा, भगवानाह—‘ गोयमा ! जस्स णामं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि, सिय नत्थि, जस्स पुण अंतराइयं तस्स णामं नियमा अत्थिद ’ हे गौतम ! यस्य नाम कर्म भवति तस्य आन्तरायिकं कर्म स्यात् कदाचित् अस्ति, स्यात् कदाचित् नास्ति, तत्राकेवलिनो नाम च अन्तरायंचास्ति, केवलिनस्तु अन्तरायं-नास्ति किन्तु यस्य पुनरन्तरायं कर्म भवति तस्य नाम कर्म नियमात् भवत्येवेति भावः । अथ गोत्रं कर्म आरायिकेण समं प्ररूपयति—‘ जस्स णं भंते ! गोयं तस्स

जीवके अन्तरायकर्म भी होता है ? और जिस जीवके अन्तरायकर्म होता है उस जीव के क्या नामकर्म भी होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (जस्स णामं तस्स अंतरायं सिय अत्थि सिय नत्थि जस्स पुण अंतराइयं तस्स णामं नियमा अत्थि) जिस जीव के नामकर्म होता है उस जीव के अन्तराय कर्म होता ही है ऐसा नियम नहीं है—क्यों कि नामकर्म के साथ अन्तरायकर्म की भजना से वृत्ति कही गई है—परन्तु ऐसा नियम है कि जिस जीव में अन्तरायकर्म होता है उस जीव में नियम से नाम कर्म का सद्भाव होता है अकेवली जीव के नाम और अन्तराय ये दोनों कर्म साथ २ रहते हैं, परन्तु जो केवली जीव हैं उनमें नामकर्म तो रहता है, पर अन्तरायकर्म नहीं रहता है । इसीलिये नामकर्म के साथ अन्तरायकर्म की भजना कही गई है ।

गौतम स्वामीने प्रश्न—(जस्स णं भंते ! णामं तस्स अंतराइयं पुच्छा) डे लद्धन्त ! जे एवमां नामकर्मने सद्भाव डोय छे, ते एवमां शुं अंतराय कर्मने पणु सद्भाव डोय छे ? अने जे एवमां अंतराय कर्मने सद्भाव डोय छे, ते एवमां शुं नामकर्मने पणु सद्भाव डोय छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—(गोयमा ! जस्स णामं, तस्स अंतराइयं सिय अत्थि, सिय नत्थि, जस्स पुण अंतराइयं तस्स णामं नियमा अत्थि) डे गौतम ! जे एवमां नामकर्मने सद्भाव डोय छे, ते एवमां अंतराय कर्मने क्यादेक सद्भाव डोय छे, अने क्यादेक सद्भाव नथी पणु डोतो. परन्तु एवे जे नियम छे डे जे एवमां अंतराय कर्मने सद्भाव डोय छे, ते एवमां नाम कर्मने पणु अवश्य सद्भाव डोय छे. अकेवली एवेमां नाम अने गोत्र कर्मो साथे जे रह छे, परन्तु केवली एवमां नामकर्मने तो सद्भाव डोय छे पणु अंतराय कर्मने सद्भाव डोतो नथी. ते माटे जे नामकर्म साथे अंतराय कर्मने विकल्पे सद्भाव डडेवामां आव्यो छे.

अंतराह्य० ? पुच्छा ' भवन्त ! यस्य खलु जीवस्य गोशं कर्म भवति तस्य किम्
 आन्तरायिक कर्म भवति ? एव यस्य आन्तरायिक कर्म भवति तस्य किं गोशं
 कर्म भवति ? इति पृच्छा, भगवानाह—' गोयमा ! जस्स ण गोय तस्स अतराह्य
 सिय अत्थि, सिय नत्थि, जस्स पुण अतराह्य तस्स गाय नियमा अत्थि ७ ' हे
 गौतम ! यस्य खलु जीवस्य गोशं कर्म भवति, तस्य आन्तरायिक कर्म, स्यात्
 कस्यचित् अस्ति, स्यात् कस्यचिद्नास्ति, अकेयलि उमयमस्ति केवल्लि
 आन्तरायिक नास्ति, किन्तु यस्य पुनरांतरायिक कर्म अस्ति, तस्य गोशं कमापि

अय गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(जस्स ण भते ! गोयं
 तस्स अतराह्य०पुच्छा) हे भवन्त ! जिम जीव के गोशकर्म का सद्भाव
 होता है उस जीव के क्या अंतरायकर्म का भी सद्भाव होता है ? और
 जिस जीव के अन्तरायकर्म का सद्भाव होता है, उस जीव के क्या
 गोशकर्म का भी सद्भाव होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—
 (गोयमा) हे गौतम ! (जस्स ण गोयं तस्स अतराह्य सिय अत्थि सिय
 नत्थि) हे गौतम ! जिस जीव के गोशकर्म का सद्भाव होता है उसी
 जीवके अन्तरायकर्मका सद्भाव होता ही है ऐसा नियम नहीं है—क्यों कि
 गोशकर्म के सद्भाव में अन्तरायकर्म होता भी है और नहीं भी होता
 है । परन्तु ऐसा नियम अयह्य है कि अन्तरायकर्म के सद्भाव में गोश
 कर्म अयह्य ही होता है । अकेयली जीव में ये दोनों कर्म होते हैं और
 केयली में गोश कर्म तो होता है पर अन्तरायकर्म नहीं होता है । इसी

गौतम स्वामीना प्रभ—(जस्स ण भते ! गोयं तस्स अतराह्यं पुच्छा)
 हे भवन्त ! ने एवमा गोशकर्मना सद्भावो ढोय उ, ते एवमां शु अतराय
 कर्मना पणु सद्भावो ढोय उ ? अने उ भवन्त ! ने एवमां अतरायकर्मना
 सद्भावो ढोय उ, ते एवमां शु गोशकर्मना पणु सद्भावो ढोय उ ?

भदाचीर प्रभुना उत्तर—' गोयमा ! उ गौतम ! (जस्स ण गोयं तस्स
 अतराह्यं सिय अत्थि, सिय नत्थि) अयेो ढोयं नियम नगी उ गोशकर्मना
 सद्भावमां अतराय कर्मना पणु सद्भावो ढोय उ अयेो ढोयं । अतराय
 कर्मना सद्भावो ढोय त्पारे अतराय कर्मना सद्भावो ढोय उ अने
 ढोयं नपी पणु ढोयते । परन्तु अयेो नियम ते अयह्य उ उ ढोयारे एवमां
 अतराय कर्मना सद्भावो ढोय उ, त्पारे गोशकर्मना पणु अयहा सद्भाव
 ो ढोय उ अयेो एवमां आ अ ने कर्मना अयेो सारे सद्भावो ढोय उ,

नियमात् नियमतोऽस्ति । तदेवमष्टानामपि वर्मणां परम्परं भजनया नियमतश्च सर्वे अष्टाविंशतिः विकल्पा भवन्ति २८ । तत्र ज्ञानावरणीयेन सप्त ७, दर्शनावरणीयेन षट्, वेदनीयेन पञ्च, मोहनीयेन चत्वारः ४, आयुष्येण त्रयः ३, नाम्ना द्वौ २ गोत्रेण एकः १ इति ७ + ६ + ५ + ४ + ३ + २ + १ = २८ योगः अष्टाविंशतिः ॥ सू० ७ ॥


जीवस्य पुद्गलादिवक्तव्यता ।

पूर्वोक्तस्य कर्मणः पुद्गलात्मकतया तदधिकारात् तद्वक्तव्यतामाह—
'जीवे णं भंते !' इत्यादि ।

मूलम्—जीवे णं भंते ! किं पोग्गली, पोग्गले ? गोयमा !
जीवे पोग्गली वि । पोग्गले वि, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ
जीवे पोग्गली वि, पोग्गले वि ? गोयमा ! से जहा नामए
छत्तेणं छत्ती दंडेणं दंडी, घडेणं घडी, पडेणं पडी, करेणं करी,
एवामेव गोयमा ! जीवे वि सोइंदिय—चक्खिंदिय—घाणिंदिय—
जिग्भिंदिय फासिंदियाइं पडुच्च पोग्गली, जीवं पडुच्च पोग्गले
से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ जीवे पोग्गली वि, पोग्गले
वि । नेरइए णं भंते ! किं पोग्गली, पोग्गले ? एवं चेव एवं

लिये गोत्र कर्म के साथ अन्तरायकर्म की भजना कही गई है । इस तरह आठों कर्मों के भजना से और नियम से—भजना की अपेक्षा से और नियम की अपेक्षा से—सब २८ विकल्प होते हैं । जैसे ज्ञानावरणीय के ७, दर्शनावरणीय के ६, वेदनीय के ५, मोहनीय के ४, आयु के ३, नाम के दो और गोत्र का एक इस तरह से ये सब २८ विकल्प मिलकर हो जाते हैं ॥ सू० ७ ॥

परन्तु केवलीमां गोत्रकर्मिणा सहसाव होवा छता अंतराय कर्मिणा असाव ज होय छे. ते कारणे गोत्रकर्मिणी साथे अंतराय कर्मिणा विकल्पे सहसाव कडे. वामां आव्ये छे. आ रीते आठे कर्मिणा विकल्पनी अपेक्षाअे तथा नियमथी जे २८ विकल्प थाय छे तेनुं प्रतिपादन अर्ही पूइ थाय छे. ज्ञानावरणीयना ७, दर्शनावरणीयना ६, वेदनीयना ५, मोहनीयना ४, आयुना ३, नामना २ अने गोत्रना १ विकल्प भणीने कुल २८ विकल्पानुं अर्ही प्रतिपादन करवामां आव्युं छे. ॥ सूत्र ७ ॥



जाव वेमाणिण, नवर जस्स जइ इंदियाइ, तस्स तइ वि
माणियवाइ । सिद्धेणं भते ! किं पोग्गला, पोग्गली ? गोयमा ।
नो पोग्गली पोग्गले । से केणट्टेण भते ! एव बुच्चइ जाव
पोग्गले ? गोयमा ! जीव पड्डुच्च, से तेणट्टेण गोयमा । एव
बुच्चइ सिद्धे नो पोग्गली, पोग्गले, सेव भते ! सेव भते ! चि ।

अट्टमसए दसमो उद्देशो समत्तो ॥ सू० ८ ॥

छाया—जीवः खलु मदन्त ! किं पुद्गली, पुद्गल, गौतम ! जीवः पुद्गली
अपि, पुद्गलोऽपि । तत्केनार्थेन मदन्त ! एवमुच्यते—जीवः पुद्गली अपि, पुद्गलोऽ
पि ? गौतम ! तद्यथा नाम छप्रेण छत्री, दण्डेन दण्डी, घटेन घटी, पटन पटी,
करणे करी, एवमेव गौतम ! जीवोऽपि भाषेन्द्रिय चक्षुरिन्द्रिय—घ्राणेन्द्रिय—जिह्वे

— जीव की पुद्गलादि वस्तुव्यताः—

‘ जीवे णं भते ! किं पोग्गली ? पोग्गले ? ’ इत्यादि ।

सुधार्थ—(जीवे ण भते ! किं पोग्गली ? पोग्गले ?) हे मदन्त ! जीव
पुद्गली है कि पुद्गल है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जीवे पोग्गली वि पोग्ग
ले वि) जीव पुद्गली भी है और पुद्गल भी है । (से केणट्टेण भते ! एव
बुच्चइ जीवे पोग्गली वि, पोग्गलेवि ?) हे मदन्त ! ऐसा भाष किस
कारण से कहते हैं कि जीव पुद्गली भी है और पुद्गल भी है । (गोयमा)
हे गौतम ! (से जहा नामए छप्रेण छत्री, दण्डेण दंठी, घटेण घटी,
पटनेण पटी, करणे करी एवामेव गोयमा । जीवे वि सोइदिय चक्षुरि

एवमि पुद्गलादि वस्तुव्यताः—

“ जीवे णं भते ! किं पोग्गली ? पोग्गले ? ” इत्यादि

सुधार्थ—(जीवे णं भते ! किं पोग्गली ? पोग्गले ?) हे मदन्त ! एव
पुद्गली है कि पुद्गल है ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जीवे पोग्गली वि,
पोग्गले वि) एव पुद्गली पणं है अने पुद्गल पणं है (से केणट्टेणं भते !
एव बुच्चइ जीवे पोग्गली वि पोग्गले वि ?) हे मदन्त ! आप था इतने
अनु इति है कि एव पुद्गली पणं है अने पुद्गल पणं है ? (गोयमा !)
हे गौतम ! (से जहा नामए छप्रेण छत्री, दण्डेण दंठी, घटेण घटी, पटनेण
पटी, करणे करी, एवामेव गोयमा । जीवे वि सोइदिय चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय,

न्द्रिय-स्पर्शेन्द्रियाणि प्रतीत्य पुद्गली, जीवं प्रतीत्य पुद्गलः, तत् तेनार्थेन गौतम !
 एवमुच्यते-जीवः पुद्गली अपि, पुद्गलोऽपि । नैरयिकः खलु भदन्त ! किं पुद्गली,
 पुद्गलः ? एवमेव, एवं यावत् वैमानिकः, नवरं यस्य यावन्तीन्द्रियाणि, तस्य तावन्ति
 भणितव्यानि । सिद्धः खलु भदन्त ! किं पुद्गली, पुद्गलः ? गौतम ! नो पुद्-

दिय, घाणेन्दिय, जिह्विन्दिय, फासिन्दियाइं पडुच्च पोगगली, जीवं पडुच्च
 पोगगले, से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ जीवे पोगगली वि) जैसे कोई
 पुरुष छत्र से छत्री, दण्ड से दण्डी घट से घटी, पट से पटी और कर
 से करी कहलाना है, उसी तरह से जीव भी श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुहन्द्रिय
 घ्राणेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय की अपेक्षा से पुद्गली कहलाता
 है तथा जीव की अपेक्षा से पुद्गल कहलाना है । इस कारण हे गौतम !
 मैंने ऐसा कहा है कि जीव पुद्गली भी है और पुद्गल भी हैं । (नेरइण णं
 भते । किं पोगगली, पोगगले) हे भदन्त ! नैरयिक जीव क्या पुद्गली है
 या पुद्गल है ? (एवं चेव-एवं जाव वेमाणिए-नवरं जस्स जइ इदियाइं
 तस्स तइ वि भाणियव्वाइं) हे गौतम ! इस विषय में जीव की तरह
 कथन जानना चाहिये । इसी तरह का कथन यावत् वैमानिक तक सम-
 झना चाहिये । किन्तु जिम जीव के जितनी इन्द्रियां हों उस जीव के
 उतनी इन्द्रियां कहनी चाहिये । (सिद्धेणं भते । किं पोगगली पोगगले) हे
 भदन्त ! सिद्ध क्या पुद्गली हैं या पुद्गल हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (नो

जिह्विन्दिय, फासिन्दियाइं पडुच्च पोगगली, जीवं पडुच्च पोगगले, से तेणट्टेणं
 गोयमा ! एवं बुच्चइ जीवे पोगगली वि पोगगले वि) जेम कोइ छत्रधारीने
 छत्री, दण्डीधारीने दंडी, घटधारीने घटी, पटवाणाने पटी अने उरवाणाने करी
 कडेवाभां आवे छे, जेअ प्रमाणे श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुधन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, उड्वा-
 धन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रियनी अपेक्षाअे पुद्गली कडेवाय छे तथा जवननी अपेक्षाअे
 पुद्गल कडेवाय छे हे गौतम ! ते कारण भे' जेवुं कहु छे के जव पुद्गली
 पणु छे अने पुद्गल पणु छे (नेरइण णं भते । किं पोगगली, पोगगले ?) हे
 भदन्त ! नारक जव शु पुद्गली छे के पुद्गल छे ? (एवं चेव-एवं जाव वेमा-
 णिए-नवरं जस्स जइ इदियाइं तस्स तइ वि भाणियव्वाइं) हे गौतम ! आ
 विषयभां जवना जेवुं कथन समजवु जेअ प्रकारनुं कथन वमानिक पर्य-
 न्तना जवो विषे पणु समजवुं. परन्तु जे जवने जेटली धन्द्रियो होय, ते
 जवनी तेटली धन्द्रियो कडेवी जेअ (सिद्धेणं भते । किं पोगगली, पोगगले ?)
 हे भदन्त ! सिद्ध शु पुद्गली छे के पुद्गल छे ? (गोयमा !) हे गौतम !

जाव वेमाणिण, नवर जस्स जइ इदियाइ, तस्स तइ वि
भाणियवाइ । सिद्धेण भते ! किं पोग्गला, पोग्गली ? गोयमा !
नो पोग्गली पोग्गले । से केणट्टेण भते ! एव बुच्चइ जाव
पोग्गले ? गोयमा ! जीव पड्डुच्च, से तेणट्टेण गोयमा ! एव
बुच्चइ सिद्धे नो पोग्गली, पोग्गले, सेव भते ! सेव भते ! त्ति ।

अट्टमसए दसमो उद्देशो समत्तो ॥ सू० ८ ॥

छाया—जीवः खलु मदन्त ! किं पुट्टली, पुट्टल, गौतम ! जीवः पुट्टली
अपि, पुट्टलोऽपि । तत्केनार्थेन मदन्त ! एवमुच्यते—जीवः पुट्टली अपि, पुट्टलोऽ
पि ? गौतम ! तद्यथा नाम छप्रेण छत्री, वण्डेन वण्डी, पटेन पटी, पटेन पटी,
करणे करी, एवमेव गौतम ! जीवोऽपि श्रोत्रेन्द्रियं चक्षुरिन्द्रियं—ब्राणेन्द्रियं—जिह्वे

—जीव की पुट्टलादि वस्तुव्यता—

‘जीवे णं भंते ! किं पोग्गली ? पोग्गले ?’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(जीवे णं भंते ! किं पोग्गली ? पोग्गले ?) हे मदन्त ! जीव
पुट्टली है कि पुट्टल है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जीवे पोग्गली वि पोग्ग
ले वि) जीव पुट्टली भी है और पुट्टल भी है । (से केणट्टेण भंते ! एव
बुच्चइ जीवे पोग्गली वि, पोग्गले वि ?) हे मदन्त ! ऐसा भाव किस
कारण से कहते हैं कि जीव पुट्टली भी है और पुट्टल भी है । (गोयमा)
हे गौतम ! (से जहा नामए छप्रेण छत्री, वण्डेण वण्डी, पटेण पटी,
पटेण पटी, करेण करी एवमेव गोयमा ! जीवे वि सोइदिय अकिंख

एवमी पुट्टलादि वस्तुव्यता—

“ जीवे णं भंते ! किं पोग्गली ? पोग्गले ? ” इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(जीवे णं भंते ! किं पोग्गली ? पोग्गले ?) हे मदन्त ! एव
पुट्टली है कि पुट्टल है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जीवे पोग्गली वि,
पोग्गले वि) एव पुट्टली पणु है अने पुट्टल पणु है (से केणट्टेण भंते !
एव बुच्चइ जीवे पोग्गली वि, पोग्गले वि ?) हे मदन्त ! ऐसा भाव
किस कारण से कहते हैं कि जीव पुट्टली भी है और पुट्टल भी है । (गोयमा)
हे गौतम ! (से जहा नामए छप्रेण छत्री, वण्डेण वण्डी, पटेण पटी,
पटेण पटी, करेण करी, एवमेव गोयमा ! जीवे वि सोइदिय अकिंख

ન્દ્રિય-સ્પર્શેન્દ્રિયાણિ પ્રતીત્ય પુદ્ગલી, જીવં પ્રતીત્ય પુદ્ગલઃ, તત્ તેનાર્થેન ગૌતમ !
 एवमुच्यते-जीवः पुद्गली अपि, पुद्गलोऽपि । नैरयिकः खलु भदन्त ! किं पुद्गली,
 पुद्गलः ? एवमेव, एवं यावत् वैमानिकः, नवरं यस्य यावन्तीन्द्रियाणि, तस्य तावन्ति
 मणितव्यानि । सिद्धः खलु भदन्त ! किं पुद्गली. पुद्गलः ? गौतम ! नो पुद्-

द्वि, घाणेन्द्रिय, जिर्विभद्वि, फामिन्दियाइं पडुच्च पोगगली, जीवं पडुच्च
 पोगगले, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चह जीवे पोगगली वि) जैसे कोई
 पुरुष छत्र से छत्री, दण्ड से दण्डी घट से घटी, पट से पटी और कर
 से करी कहलाना है, उसी तरह से जीव भी श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय
 घ्राणेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय की अपेक्षा से पुद्गली कहलाता
 है तथा जीव की अपेक्षा से पुद्गल कहलाना है । इस कारण हे गौतम !
 मैंने ऐसा कहा है कि जीव पुद्गली भी हैं और पुद्गल भी हैं । (नेरइण णं
 भते ! किं पोगगली, पोगगले) हे भदन्त ! नैरयिक जीव क्या पुद्गली है
 या पुद्गल है ? (एवं चेव-एवं जाव वेमाणिए-नवरं जस्स जइ इदियाइं
 तस्स तइ वि भाणियव्वाइं) हे गौतम ! इस विषय में जीव की तरह
 कथन जानना चाहिये । इसी तरह का कथन यावत् वैमानिक तक सम-
 झना चाहिये । किन्तु जिस जीव के जितनी इन्द्रियां हों उस जीव के
 उतनी इन्द्रियां कहनी चाहिये । (सिद्धेणं भते ! किं पोगगली पोगगले) हे
 भदन्त ! सिद्ध क्या पुद्गली हैं या पुद्गल हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (नो

जिर्विभद्वि, फासि दियाइ पडुच्च पोगगली, जीवं पडुच्च पोगगले, से तेणद्वेणं
 गोयमा ! एवं बुच्चह जीवे पोगगली वि पोगगले वि) જેમ કોઈ છત્રધારીને
 છત્રી, દડધારીને દંડી, ઘટધારીને ઘટી, પટવાળાને પટી અને કરવાળાને કરી
 કહેવામાં આવે છે, એજ પ્રમાણે શ્રોત્રેન્દ્રિય, ચક્ષુઇન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, શુદ્ધવા-
 ઇન્દ્રિય અને સ્પર્શેન્દ્રિયની અપેક્ષાએ પુદ્ગલી કહેવાય છે તથા જીવની અપેક્ષાએ
 પુદ્ગલ કહેવાય છે. હે ગૌતમ ! તે કારણ મેં એવું કહ્યું છે કે જીવ પુદ્ગલી
 પણ છે અને પુદ્ગલ પણ છે (નેરइण णं भते ! किं पोगगली, पोगगले ?) હે
 ભદન્ત ! નારક જીવ શુ પુદ્ગલી છે કે પુદ્ગલ છે ? (एवं चेव-एवं जाव वेमा-
 णिए-नवरं जस्स जइ इदियाइं तस्स तइ वि भाणियव्वाइ) હે ગૌતમ ! આ
 વિષયમાં જીવના જેવું જ કથન સમજવું એજ પ્રકારનું કથન વમાનિક પર્યા-
 ન્તાના જીવો વિષે પણ સમજવું. પરન્તુ જે જીવને જેટલી ઇન્દ્રિયો હોય, તે
 જીવની તેટલી ઇન્દ્રિયો કહેવી જોઈએ (સિદ્ધે ण મતે ! किं पोगगली, पोगगले ?)
 હે ભદન્ત !

गली, पुद्गल । तत्केनार्थेन भवन्त ! एवमुच्यते—यावत्-पुद्गलः ? गौतम !
जीव प्रसीत्य, तत् केनार्थेन गौतम ! एवमुच्यते—सिद्धो नो पुद्गली, पुद्गलः;
सदेवं भवत् ! तद्व भवन्त ! इति ॥ सू० ८ ॥

अष्टमशतके दशमोद्देशकः समाप्तः ।

टीका—'जीवे ण मते ! किं पोग्गली ? पोग्गळे ?' गौतम ! पृच्छति—हे भवन्त !
जीवः खलु किं पुद्गली उच्यते, अथवा पुद्गल उच्यते ? भगवानाह—' गोयमा !

पोग्गली, पोग्गळे) सिद्ध पुद्गली नहीं हैं, पुद्गल हैं । (से केणहेण भंते !
एव बुच्चइ, जाय पोग्गळे) हे भवन्त ! ऐसा आप किस कारण से कहते
हैं कि सिद्ध यावत् पुद्गल हैं । (गोयमा ! जीव पडुच्च-से तेणहेण
गोयमा ! एवं बुच्चइ सिद्धे नो पोग्गली पोग्गळे) हे गौतम ! जीव की
अपेक्षा से सिद्ध पुद्गल हैं—इस कारण हे गौतम ! मैं ने ऐसा कहा है
कि सिद्ध पुद्गली नहीं हैं पुद्गल हैं । (सेवं भंते ! सेव भंते ! सि) हे
भवन्त ! जैसा आपने कहा है वह सूर्यया मत्स्य है, हे भवन्त ! जैसा
आपने कहा है वह सूर्यया सत्य है । इस प्रकार कह कर वे गौतम यावत्
अपने स्थान पर बैठ गये ।

टीकार्थ—पूर्वोक्त कर्म पुद्गलात्मक होने से पुद्गल के अधिकार को
छेकर सूत्रकार ने यहाँ उसकी वस्तुस्थिता का कथन किया है—इसमें गौतम
ने प्रभु से ऐसा पूछा है—(जीवे ण भंते ! किं पोग्गली, पोग्गळे) हे
भवन्त ! जीव क्या पुद्गली है या पुद्गल है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते

(नो पोग्गली पोग्गळे) सिद्ध पुद्गली नहीं पण पुद्गल छे (से केणहेण भंते !
एव बुच्चइ, जाय पोग्गळे ?) हे भवन्त ! आप श्रु शरुत्ते ज्जेवु क्खो छे । के
सिद्ध पुद्गली नहीं पण पुद्गल छे ? (गोयमा ! जीव पडुच्च-से तेणहेण गोयमा !
एव बुच्चइ विद्धे नो पोग्गली, पोग्गळे) हे गौतम ! अपनी अपेक्षासे सिद्ध
पुद्गल छे हे गौतम ! ते शरुत्ते ज्जेवु क्खु छे के सिद्ध पुद्गली नहीं
पण पुद्गल छे (एव मते ! सेव मते ! सि) हे भवन्त ! आपे के क्खु
ते सग्गया सत्य छे हे भवन्त ! आपे आ विपक्खु के प्रतिपादन क्खु ते
अथवा सत्य छे आ प्रभात्ते क्खीने वड्ढा नमस्कार करीने गौतम स्वामी
पिताने स्थाने भेत्थी जया

टीका—पूर्वोक्त कर्म पुद्गलात्मक कीवधी पुद्गलना अधिकारनी अपेक्षासे
सूत्रकारे अर्थात् तेनी व गणतानु नीचे प्रभात्ते प्रतिपादन क्खु छे—
गौतम स्वामीने प्रश्न—(जीवे ण भंते ! किं पोग्गली पोग्गळे ?) हे
भवन्त ! एव श्रु पुद्गली छे के पुद्गल छे ? तेना उत्तर आपणा भगवतीर प्रभु

जीवे पोगगली वि, पोगगले वि ' हे गौतम ! जीवः पुद्गली इत्यपि व्यपदिश्यते, अथ च ' पुद्गलः ' इत्यपि व्यपदिश्यते । गौतमस्तत्र कारणं पृच्छति ' से केण-
द्वेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जीवे पोगगली वि, पोगगले वि, ' हे भदन्त ! तत् केना-
र्थेन कथं तावत् एवमुक्तरीत्या उच्यते-जीवः पुद्गली अपि, अथ च पुद्गलोऽपि
व्यपदिश्यते ? भगवानाह- ' गोयमा । से जहानामए छत्तेणं छत्ती, दंढेणं दंडी,
घडेणं घडी, पडेणं पडी, करेणं करी ' हे गौतम ! तद्यथानाम छत्रेण हेतुना
छत्री, छत्रमस्यास्तीति, छत्री, दण्डेन हेतुना दण्डी, दण्डोऽस्यास्तीति दण्डी, घटेन
हेतुना घटी, घटोऽस्यास्तीति घटी, पटेन हेतुना पटी पटोऽस्यास्तीति पटी, करेण

हैं-(गोयमा) हे गौतम ! (जीवे पोगगली वि पोगगले वि) जीव पुद्गली
भी कहा जाता है और पुद्गल भी कहा जाता है । तात्पर्य कहने का यह
है कि जिसमें पुद्गल हो वह पुद्गली और जो पूरण गलन स्वभाववाला
हो-अनन्तगुणा हानि वृद्धि वाला हो-वह पुद्गल है । गौतम प्रभु से
इसी बात को पूछते हैं कि-(से केणद्वेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जीवे पोगगली
वि पोगगले वि) हे भदन्त ! आप ऐसा किस कारण से कहते हैं कि
जीव पुद्गली भी कहा जाता है और पुद्गल भी कहा जाता है ? इसके
उत्तर में प्रभु कहते हैं-(गोयमा) हे गौतम ! (से जहा नामए छत्तेणं
छत्ती, दंढेणं दंडी, घडेणं घडी, पडेणं पडी, करेणं करी) जैसे कोई
मनुष्य छत्र के सम्बन्ध से छत्री कहा जाता है, दण्ड के सम्बन्ध से
दण्डी, घट के सम्बन्ध से घटी, पट के सम्बन्ध से पटी और कर के

कहे छे- " गोयमा ! " हे गौतम ! (जीवे पोगगली वि पोगगले वि) अपने
पुद्गली पणु कही शक्य छे अने पुद्गल पणु कही शक्य छे. कहेवानुं तात्पर्य
अे छे के जेमा पुद्गल होय ते पुद्गली अने जे पूरण अने गलनना स्वभाववाणुं
होय-अनंतगुणी हानिवृद्धिवाणुं होय-ते पुद्गल छे.

गौतम स्वामीना प्रश्न-(से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चइ-जीवे पोगगली
वि, पोगगले वि ?) हे भदन्त ! आप शा करणुं अेवुं कहे छे के अपने
पुद्गली पणु कही शक्य छे अने पुद्गल पणु कही शक्य छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर-" से जहा नामए छत्तेणं छत्ती, दंढेणं दंडी,
घडेणं घडी, पडेण पडी, करेणं करी " हे गौतम ! जेभ छत्रना संभधथी कोइ
व्यक्तिने छत्री कहेवाय छे, दंडना संभधथी दंडी कहेवाय छे, घट (घडा) ना
संभधथी घटी (घडी) कहेवाय छे, पट (पत्र) ना संभधथी पटी कहेवाय
छे अने कर (हाथ) ना संभधथी करी (हाथवाणो) कहेवाय छे, " एवामेव "

હેતુના કરી કરોડસ્યાસ્તીતિ કરી इति व्यपदिश्यते ' एवामेष गोयमा ! जीवे वि, सोइदिय-चक्खिदिय-घाणिदिय-जिह्मिदिय-फासिदियाइ-पडुच्च पोग्गली, जीवं पडुच्च पोग्गळे ' हे गौतम ! एवमेव तथैव जीवोऽपि भ्रोत्रेन्द्रिय-चक्षुरिन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय जिह्वेन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रियाणि प्रतीत्य=आधित्य पुद्गली पुरगल =भ्रोत्रेन्द्रियादिरस्यातीति पुद्गली इति व्यपदिश्यते, जीवं च प्रतीत्य आधित्य पुद्गल इति व्यपदिश्यते तथा च भ्रोत्रेन्द्रियाद्यपेक्षया ' पुद्गली इति, जीवापेक्षया च पुद्गल इति व्यपदिश्यते जीवस्य पुद्गलसङ्घत्वात् । तन्निगमयन्नाह- ' से तेण्हण गोयमा ! एवं बुच्चइ जीवे पोग्गली वि, पोग्गळे वि, ' हे गौतम ! तत् तेनार्थेन एवमुच्यते जीवः पुद्गली अपि इन्द्रियाद्यपेक्षया व्यपदिश्यते, अयं स्वापेक्षया ' पुद्गल ' ।

સપ્ત સે-કરી હાપલાલા કહા જાતા હૈ (ઇવામેષ) હસી તરહ સે (જીવે વિ) જીવ મી (સોઈદિય ચક્કિલ્લદિય, ઘાણિદિય, જિહ્મિદિય, ફાસિ દિયાઈ પડુચ્ચ પોગ્ગલી જીવ પડુચ્ચ પોગ્ગલે) હૈ ગૌતમ ! જીવ મી ભ્રોત્રેન્દ્રિયરૂપ, ચક્ષુરિન્દ્રિયરૂપ, ઘ્રાણેન્દ્રિયરૂપ, જિહ્વેન્દ્રિયરૂપ ઓર સ્પર્શનેન્દ્રિયરૂપ પુદ્ગલ બાલા હોને કે કારણ પુદ્ગલી પેસા કહા જાતા હૈ ઓર જીવ કી અપેક્ષા સે પુદ્ગલ પેસા કહા જાતા હૈ । ક્યોં કિ " પુદ્ગલ " પેસી સજ્ઞા જીવ કી હૈ । જીવ કી " પુદ્ગલ " પેસી સજ્ઞા હોને કા કારણ પહ હૈ કિ અસમેં અપેક્ષા કૃત પૂરણ ગલનતા-ગુણોં મેં હાનિ વૃદ્ધિ હોતી રહતી હૈ । (સે તેણ્હેણં ગોયમા ! એવં બુચ્ચઈ જીવે પોગ્ગલી વિ, પોગ્ગલે વિ) હસી કારણ સે હૈ ગૌતમ ! મૈને પેસા કહા હૈ કિ જીવ પુદ્ગલી મી કહા જાતા હૈ ઓર પુદ્ગલ મી કહા જાતા હૈ । ઇન્દ્રિયાવિકોંકી અપેક્ષાસે વહ પુદ્ગલી ઓર અપને જીવકી અપેક્ષાસે વહ પુદ્ગલ પેસા કહા જાતા હૈ ।

એજ પ્રમાણે " જીવે વિ " એવ પદ્ય (સોઈદિય ચક્કિલ્લ દિય, ઘાણિદિય, જિહ્મિદિય, ફાસિદિયાઈ પડુચ્ચ પોગ્ગલી જીવ પડુચ્ચ પોગ્ગલે) હૈ ગૌતમ ! ભ્રોત્રેન્દ્રિયરૂપ ચક્ષુરિન્દ્રિયરૂપ, ઘ્રાણેન્દ્રિયરૂપ, જિહ્વેન્દ્રિયરૂપ અને સ્પર્શેન્દ્રિયરૂપ પુદ્ગલવાળા જીવાને કારણે પુદ્ગલી કહેવાય છે અને એવની અપેક્ષાએ તેને પુદ્ગલરૂપ પણ કહી શકાય છે કારણ કે " પુદ્ગલ " એવી સજ્ઞા એવની છે. એવને ' પુદ્ગલ ' એવી સજ્ઞા આપવાનું કારણ એ છે કે તેમાં અપેક્ષાકૃત (અસુક અપેક્ષાએ) પૂરણ ગલનતા-ગુણોમાં હાનિવૃદ્ધિ થતી રહે છે ' સે તેણ્હેણં ગોયમા ! એવં બુચ્ચઈ જીવે પોગ્ગલી વિ, પોગ્ગલે વિ) હૈ ગૌતમ ! તે કારણે મેં એવું કહ્યું છે કે એવને પુદ્ગલી પણ કહી શકાય છે અને પુદ્ગલરૂપ પણ કહી શકાય છે ઇન્દ્રિયાવિકોંકી અપેક્ષાએ તે પુદ્ગલી કહેવાય છે અને એવની અપેક્ષાએ તે પુદ્ગલ કહેવાય છે

इत्यपि व्यपदिश्यते । गौतमः पृच्छति—‘नेरइए णं भंते । किं पोग्गली पुग्गळे ?’ हे भदन्त ! नैरयिकः खलु किं ‘पुद्गली’ किं वा ‘पुद्गलः’ इति व्यपदिश्यते ? भगवानाह—‘एवं चेव, एवं जाव वेमाणिए, नवरं जस्स जइ इंदियाइं, तस्स तइ वि भाणियव्वाइं’ हे गौतम ! एवमेव उक्तयुक्त्या समुच्चयजीववदेव नैरयिकोऽपि नैरयिकपञ्चेन्द्रियाद्यपेक्षया ‘पुद्गली’ व्यपदिश्यते, स्वापेक्षया च ‘पुद्गलः’ इति व्यपदिश्यते, एवं यावत्-पृथिवीकायिकाद्येकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय पञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-निक-मनुष्यभवनपति-वानव्यन्तर-ज्योतिषिक मानिकान्तो जीवः इन्द्रियाद्यपेक्षया पुद्गली, स्वापेक्षया च पुद्गल इति व्यपदिश्यते, नवरं विशेषस्तु यस्य जीवस्य यावन्ति इन्द्रियाणि भवन्ति तस्य जीवस्य तावन्ति इन्द्रियाणि भणितव्यानि-वक्त-

अथ गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(नेरइएणं भंते ! किं पोग्गली, पोग्गळे) हे भदन्त ! क्या नैरयिक पुद्गली कहलाता है या पुद्गल कहलाता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं (एवं चेव एवं जाव वेमाणिए नवरं जस्स जइ इंदियाइं तस्स तइवि भाणियव्वाइं) हे गौतम ! समुच्चय जीव की तरह नैरयिक भी अपनी पांच इन्द्रियों की अपेक्षा “पुद्गली” ऐसा कहा जाता है और अपने जीव की अपेक्षा वह (पुद्गल) ऐसा कहा जाता है । इसी तरह से यावत्-पृथिवीकायिक आदि एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, तिर्यच, मनुष्य, भवनपति, वान-व्यन्तर, ज्योतिषिक, और वैमानिक ये सब जीव इन्द्रियों की अपेक्षा से “पुद्गली” और अपनी अपेक्षा से “पुद्गल” ऐसा कहे जाते हैं । परन्तु-सब जीवों में पांच ही इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये,

गौतम स्वामीने भ—(नेरइयेणं भंते ! किं पोग्गली, पोग्गळे ?) हे भदन्त ! नारकने पुद्गली वाय छे के पुद्गल कडेवाय छे ?

भक्षावीर प्रभुने उट्—(एवं चेव, एवं जाव वेमाणिए, नवरं जस्स जइ इंदियाइ तस्स तइवि भाणिव्वाइं) हे गौतम ! समुच्चय जीवनी जेम नारकने पणु पोतानी पांच धणुनी अपेक्षाये “पुद्गली” कडी शकय छे, अने पोताना जीवनी अपेक्षायेने ‘पुद्गल’ कडी शकय छे. अजे प्रभाणु पृथ्वीकायिक आदि अकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय तिर्यच, मनुष्य, भवन-पति, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक अने निक जीवने पणु धणुनी अपेक्षाये ‘पुद्गली’ अने पोतानी अपेक्षाये जीवनी अपेक्षाये) “पुद्गल” कडी शकय छे. परन्तु समस्त जीवने धणुनी अपेक्षायेने पणुनी अपेक्षाये

હેતુના કરી કરોડ્વ્યાસ્તીતિ કરી इति व्यपदिश्यते ' एवमेव गोयमा ! जीव वि, सोइंदिय-चक्खिदिय-घाण्हिदिय-निग्गिंदिय-फासिंदियाइ-पहुच्च पोग्गली, जीव पहुच्च पोग्गळे ' हे गौतम ! एवमेव तथैव जीवोऽपि भ्रोत्रेन्द्रिय-चक्षुरिन्द्रिय-घ्राणेन्द्रिय जिह्वेन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रियाणि मतीत्य=माधित्य पुद्गली पुद्गल.=भ्रोत्रेन्द्रियादिरस्यातीति पुद्गली इति व्यपदिश्यते, जीव च मतीत्य माधित्य पुद्गल इति व्यपदिश्यते तथा च भ्रोत्रेन्द्रियाद्यपेक्षया ' पुद्गली इति, जीवापेक्षया च पुद्गल इति व्यपदिश्यते जीवस्य पुद्गलसंबन्धात् । सन्निगमयभाह- ' से तेणहेण गोयमा । एवं बुच्चइ जीवे पोग्गली वि पोग्गळे वि, ' हे गौतम ! तद् तेनार्येण एवमुच्यते जीव ' पुद्गली अपि इन्द्रियाद्यपेक्षया व्यपदिश्यते, अथ स्वापेक्षया ' पुद्गलः '

સંખ્ય સે-કરી હાયચાલા કહા જાતા હૈ (એવામેવ) હસી તરહ સે (જીવે વિ) જીવ મી (સોઈંદિય ચક્કિલ્લદિય, ઘાણ્હિદિય, નિગ્ગિંદિય, ફાસિંદિયાઈ પહુચ્ચ પોગ્ગલી જીવ પહુચ્ચ પોગ્ગલે) હૈ ગૌતમ ! જીવ મી ભ્રોત્રેન્દ્રિયરૂપ, ચક્ષુરિન્દ્રિયરૂપ, ઘ્રાણેન્દ્રિયરૂપ, જિહ્વેન્દ્રિયરૂપ ઔર સ્પર્શન ઈન્દ્રિયરૂપ પુદ્ગલ ચાલા હોને કે કારણ પુદ્ગલી એસા કહા જાતા હૈ ઔર જીવ કી અપેક્ષા સે પુદ્ગલ એસા કહા જાતા હૈ । ક્યોં કિ " પુદ્ગલ " એસી સંજ્ઞા જીવ કી હૈ । જીવ કી " પુદ્ગલ " એસી સંજ્ઞા હોને કા કારણ પહ હૈ કિ ઉસમેં અપેક્ષા કૃત પૂરણ ગલનતા-ગુણોં મેં જ્ઞાનિ વૃદ્ધિ હોતી રહતી હૈ । (સે તેણહેણં ગોયમા ! એવ બુચ્ચઈ જીવે પોગ્ગલી વિ, પોગ્ગલે વિ) હસી કારણ સે હૈ ગૌતમ ! મૈને એસા કહા હૈ કિ જીવ પુદ્ગલી મી કહા જાતા હૈ ઔર પુદ્ગલ મી કહા જાતા હૈ । ઈન્દ્રિયાદિકોંકી અપેક્ષાસે વહ પુદ્ગલી ઔર અપને જીવકી અપેક્ષાસે વહ પુદ્ગલ એસા કહા જાતા હૈ ।

એજ પ્રમાણે " જીવે વિ " એવ પણ (સોઈંદિય ચક્કિલ્લ દિય, ઘાણ્હિદિય, નિગ્ગિંદિય, ફાસિંદિયાઈ પહુચ્ચ પોગ્ગલી જીવ પહુચ્ચ પોગ્ગલે) હૈ ગૌતમ ! ભ્રોત્રેન્દ્રિયરૂપ, ચક્ષુરિન્દ્રિયરૂપ, ઘ્રાણેન્દ્રિયરૂપ, જિહ્વેન્દ્રિયરૂપ અને સ્પર્શેન્દ્રિયરૂપ પુદ્ગલવાળે ઠેવાને કારણે પુદ્ગલી કહેવાય છે અને એવની અપેક્ષાએ તેને પુદ્ગલરૂપ પણ કહી શકાય છે કારણ કે " પુદ્ગલ " એવી સંજ્ઞા એવની છે એવને ' પુદ્ગલ ' એવી સંજ્ઞા આપવાનું કારણ એ છે કે તેમાં અપેક્ષાકૃત (અમુક અપેક્ષાએ) પૂરણ ગલનતા-ગુણોમાં જ્ઞાનિવૃદ્ધિ થતી રહે છે ' સે તેણહેણ ગોયમા ! એવ બુચ્ચઈ જીવ પોગ્ગલી વિ, પોગ્ગલે વિ) હૈ ગૌતમ ! તે કારણે એ એવુ કહુ છે કે એવને પુદ્ગલી પણ કહી શકાય છે અને પુદ્ગલ પણ કહી શકાય છે ઈન્દ્રિયાદિકોંની અપેક્ષાએ તે પુદ્ગલી કહેવાય છે અને એવની અપેક્ષાએ તે પુદ્ગલ કહેવાય છે

इत्यपि व्यपदिश्यते । गौतमः पृच्छति—‘नेरइए णं भंते ! किं पोग्गली पुग्गले ?’
हे भदन्त ! नैरयिकः खलु किं ‘पुद्गली’ किं वा ‘पुद्गलः’ इति व्यपदिश्यते ?
भगवानाह—‘एवं चेव, एवं जाव वेमाणिए, नवरं जस्स जइ इंदियाइं, तस्स तइ
वि भाणियव्वाइं’ हे गौतम ! एवमेव उक्तयुक्त्या समुच्चयजीववदेव नैरयिकोऽपि
नैरयिकपञ्चेन्द्रियाद्यपेक्षया ‘पुद्गली’ व्यपदिश्यते, स्वापेक्षया च ‘पुद्गलः’ इति
व्यपदिश्यते, एवं यावत्-पृथिवीकायिकाद्येकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय पञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-
निक-मनुष्यभवनपति-वानव्यन्तर-ज्योतिषिक मानिकान्तो जीवः इन्द्रियाद्यपेक्षया
पुद्गली, स्वापेक्षया च पुद्गल इति व्यपदिश्यते, नवरं विशेषस्तु यस्य जीवस्य
यावन्ति इन्द्रियाणि भवन्ति तस्य जीवस्य तावन्ति इन्द्रियाणि भणितव्यानि-वक्त-

अथ गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(नेरइएणं भंते ! किं पोग्गली, पोग्गले) हे भदन्त ! क्या नैरयिक पुद्गली कहलाता है या पुद्गल कहलाता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं (एवं चेव एवं जाव वेमाणिए नवरं जस्स जइ इंदियाइं तस्स तइवि भाणियव्वाइं) हे गौतम ! समुच्चय जीव की तरह नैरयिक भी अपनी पांच इन्द्रियों की अपेक्षा “पुद्गली” ऐसा कहा जाता है और अपने जीव की अपेक्षा वह (पुद्गल) ऐसा कहा जाता है । इसी तरह से यावत्-पृथिवीकायिक आदि एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, तिर्यच, मनुष्य, भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक, और वैमानिक ये सब जीव इन्द्रियों की अपेक्षा से “पुद्गली” और अपनी अपेक्षा से “पुद्गल” ऐसा कहे जाते हैं । परन्तु-सब जीवों में पांच ही इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये,

गौतम स्वामीने प्र—(नेरइयेणं भंते ! किं पोग्गली, पोग्गले ?) हे भदन्त ! नारकने पुद्गली वाय छे के पुद्गल कडेवाय छे ?

भद्रवीर प्रभुने उ—(एवं चेव, एवं जाव वेमाणिए, नवरं जस्स जइ इंदियाइ तस्स तइवि भाणियव्वाइं) हे गौतम ! समुच्चय जीव अपनी जेभ नारकने पण्य पोतानी पांच इन्द्रियों की अपेक्षा से “पुद्गली” कही शक्य छे, अने पोताना जीव की अपेक्षा से “पुद्गल” कही शक्य छे. जेभ प्रमाणे पृथ्वीकायिक आदि एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय तिर्यच, मनुष्य, भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक अने मानिक जीवने पण्य इन्द्रियों की अपेक्षा से “पुद्गली” अने पोतानी अपेक्षा से “पुद्गल” कही शक्य छे. परन्तु समस्त जीवने इन्द्रियों की अपेक्षा से “पुद्गली” कही शक्य छे. परन्तु समस्त जीवने इन्द्रियों की अपेक्षा से “पुद्गल” कही शक्य छे.

व्यानि । गौतमः पृच्छति—‘सिद्धे णं भते । किं पोमाली, पोमाले ?’ हे भदन्त । सिद्धः खलु किं पुद्गली, किं वा पुद्गल इति व्यपदिश्यते ? भगवानाह—‘गोयमा ! नो पोगली, पोगले’ हे गौतम । सिद्धः खलु नो ‘पुद्गली’ इति व्यपदिश्यते तस्येन्द्रियाद्यभावात् अपि तु ‘पुद्गलः’ इत्येव व्यपदिश्यते तद्विषयापि पुद्गलसद्वत्त्वात् । गौतमस्तत्र कारणं पृच्छति—‘से केणहेणं भते ! एवं पुच्छं जाय पोगले ?’ हे भदन्त ! तत् केनार्येण एवमुच्यते—यावत् सिद्धः खलु नो पुद्गली, अपितु पुद्गल इति ? । भगवान् तत्र कारणमाह—‘गोयमा ! जीवं पइ ष्य’ हे गौतम ! जीव मतीत्य-आभित्य स्वजीवापेक्षया इत्यर्थः सिद्धः पुद्गल

किन्तु जिन जीवों के जितनी इन्द्रियां हो उसनी इन्द्रियों की वहां अपेक्षा लेकर उनमें “पुद्गली” होने का कथन करना चाहिये ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(सिद्धे णं भते । किं पोगली, पोगले) हे भदन्त ! सिद्ध जीव क्या पुद्गली कहे जाते हैं या पुद्गल कहे जाते हैं ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (नो पोगली पोगले) सिद्ध पुद्गली नहीं कहे जाते हैं किन्तु पुद्गल कहे जाते हैं । पुद्गल नहीं कहलाने का कारण उनमें पौद्गलिक इन्द्रियों के सङ्गाथ होने का अभाव है । तथा सिद्ध जीव भी पुद्गलसङ्गाथ वाला है इसलिये वह स्वमीष्यपेक्षा से पुद्गल कहा जाता है । इस बात को गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(से केणहेणं भते) एव पुच्छं जाय पोगले) हे भदन्त ! ऐसा आप किस कारण से कहते हैं—(गोयमा) हे

एवमेव पाश्चिमात्योऽपि सिद्धे णं भते । किं पोगली, पोगले ?

भदन्त ! सिद्ध एवमेव पुद्गली कही शक्य है पुद्गल की शक्य ?

भदन्त ! सिद्ध एवमेव पुद्गली कही शक्य नही पुद्गल कही शक्य है तेमने पुद्गली नहीं कहेवातुं शक्य है । अथवा पौद्गलिक इन्द्रियोः सङ्गाथ भवेत् तदा सिद्ध एव पुद्गलसङ्गाथो भवेत्, ते शक्ये एवमेव सिद्धे णं भते । सिद्धे णं भते । किं पोगली, पोगले ?

भदन्त ! सिद्ध एवमेव पुद्गली कही शक्य है । सिद्ध पुद्गली नहीं, पुद्गल है ।

इति व्यपदिश्यते नो पुद्गली व्यपदिश्यते तस्य तद्व्यपदेशहेतुभूतेन्द्रियाद्यभावात्, तदुपसंहरति—‘ से तेणट्टेणं गोयमा । एवं बुच्चइ सिद्धे नो पोग्गली, पोग्गले ’ हे गौतम ! तत् तेनार्थेन एव मुक्तरीत्या उच्यते—सिद्धः नो पुद्गली, अपितु पुद्गल इत्येव व्यपदिश्यते । अन्ते गौतमो भगवद्वाक्यं सत्यापयन्नाह—‘सेवं भंते ! सेव भंते ! ति’ हे भदन्त ! तदेवं भवदुक्तं सर्वं सत्यमेव, हे भदन्त ! भवदुक्तं सर्वं सत्यमेवेति ॥

इति श्री-विश्वविख्यात - जगद्बल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापालापक -प्रविशुद्गद्वयपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक

श्रीशाहूछत्रपतिकोल्हापुरराजप्रदत्त ‘ जैनशास्त्राचार्य ’—पदभूषित-कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकरपूज्यश्री घासीलालव्रतिविरचितायां श्री भगवतीसूत्रस्य-प्रमेयचन्द्रिकाख्यायां व्याख्यायामष्टम शतकस्य दशमोद्देशकः समाप्तः॥८-१०॥

गौतम ! (जीवं पडुच्च) जीव की अपेक्षा लेकर सिद्ध पुद्गल कहे गये हैं । “ पुद्गली नहीं कहे गये हैं ” इसका कारण “ पुद्गली ” इस तरह के व्यपदेश की हेतुभूत इन्द्रियां उनमें नहीं हैं है । (से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ सिद्धे नो पोग्गली पोग्गले) इस कारण हे गौतम ! मैंने सिद्ध को पुद्गली नहीं कहा है पुद्गल कहा है ।

अब अन्त में भगवान् के वचनों में स्वयः प्रमाणता को स्वीकार करते हुए गौतम उनसे (सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति) ऐसा कहते हैं कि हे भदन्त ! आपका कहा हुआ यह सब कथन सर्वथा सत्य ही है, हे भदन्त ! सर्वथा सत्य ही है । इस प्रकार कह कर वे गौतम अपने स्थान पर यावत् विराजमान हो गये ॥ सू०८ ॥

श्री जैनाचार्य जैनधर्म दिवाकर श्री घासीलालजी महाराजकृत “ भगवतीसूत्र ” की प्रमेयचन्द्रिका व्याख्याके आठवे शतकका दशवां उद्देशक समाप्त ॥ ८-१० ॥

महावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा । ” हे गौतम ! “ जीवं पडुच्च ” श्रवणी अपेक्षासे सिद्धने पुद्गल कही शक्य छे. तेमने पुद्गली कही शक्य नहीं कारण के “ पुद्गली ” कहेवा भाटे के इन्द्रियोने सहभाव होवे जेधजे, ते इन्द्रियो तेमने छोटी नथी. (से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ, सिद्धे नो पोग्गली, पोग्गले) हे गौतम ! ते कारणे भे सिद्धने पुद्गली कहेल नथी पण पुद्गल कहेल छे हवे आ उद्देशकेने उपसंहार करता गौतम स्वामी महावीर प्रभुनां वचनेने प्रमाणभूत मानीने कहे छे के—“ सेवं भंते ! सेव भंते ! ति ” हे भदन्त ! आप सायुं न कहे छे. हे भदन्त ! आ विषयनुं आपे के प्रतिपादन क्युं छे ते सर्वथा सत्य छे आ प्रमाणे कहीने श्रमण लगवान महावीरने वदण्ण नमस्कार करीने तेआ तेमने स्थाने जेसी गया. ॥ सू ८ ॥

जैनाचार्य श्री घासीलालजी महाराज कृत भगवती सूत्रनी प्रमेयचन्द्रिका व्याख्याना आठवां शतकेने दशमो-उद्देशक समाप्त ॥८-१०॥

नवमं शतकं प्रारभ्यते

॥ नवमं शतकस्य प्रमोदेषु ॥

अष्टमशतके त्रिषिधाः पदार्थाः प्ररूपिताः, अथ नवमे शतकेऽपि । त एव पदार्थाः प्रकारान्तरेण प्ररूप्यन्ते, इत्येव सम्बन्धेन प्राप्तस्य 'नवमशतकस्य उद्देशकानि सप्तसप्तचिकां गायामाह—' जंबुद्वीपे' इत्यादि,

मूलम्—'जंबुद्वीपे १, जोइसर, अतरदीवा ३०, असोच्च ३१, गांगेय ३२।

कुण्डगामे ३३, पुरिसे ३४, नवममि सप्त चउत्तीसा' ॥१॥

छाया—जंबुद्वीपः १, ज्योतिष्कः २, अन्तरद्वीपा ३०, कञ्जुत्वा ३१ गांगेयः ३२।

कुण्डग्रामः ३३, पुरुषः ३४, नवमे शतके चतुस्त्रिंशत् ॥ १ ॥

नौववे शतकका पहला उद्देशक

नौवें शतक के उद्देशकों में प्रतिपादित हुए विषयों को समग्र करके सूचित करनेवाली यह गाथा है—' जंबुद्वीपे ' इत्यादि ।

जंबुद्वीप १, ज्योतिष्क २, अन्तरद्वीप ३० असोच्च ३१, गांगेय ३२ कुण्डग्राम ३३ और पुरुष ३४ इसके संयोज में ये नौवें शतक में ३४ उद्देशक हैं ।

टीकार्थ—अष्टम शतक में अनेक प्रकार के पदार्थ कहे जा चुके हैं । अथ इस नौवें शतक में मृद्वकार उन्हीं पदार्थों की प्ररूपणा प्रकारान्तर से कर रहे हैं । इसी संयोज को लेकर प्राप्त इस नौवें शतक के उद्देशकों के अर्थ समग्र करके सूचित करनेवाली इस गाथा को वे कहते हैं—

नवमा शतकनो प्रारभ्यते पहिलो उद्देशक

नवमं शतकमा ने विषयानुं प्रतिपादन करवामां आभ्युं छे तेनुं सूचन करवी जाथा नीधि प्रभावे छे—' जंबुद्वीपे ' इत्यादि

आ नवमं शतकमा नीधि प्रभावे उच उद्देशकेनुं प्रतिपादन करवामां आभ्युं छे—(१) जंबुद्वीप, (२) ज्योतिष्क (३ बी ३०) अन्तरद्वीप (३१) असोच्च, (३२) गांगेय, (३३) कुण्डग्राम अने (३४) पुरुष.

टीकार्थ—आठमा शतकमा अनेक पदार्थानुं निरूपण करीने करे सूत्रकार नवमं शतकनो प्रारभ्य करे छे. आ शतकमां पद्य जेज पदार्थानि सूचकरे जील रीते प्ररूपण करी छे आ नवमं शतकनो उच उद्देशके छे जे उरे शकामां ने ने विषयानुं प्रतिपादन करवामां आभ्युं छे, ते ते विषयाने

टीका-नवमशतके जम्बूद्वीपवक्तव्यताविषयः प्रथमोद्देशकः १, ज्योतिषिकविषयो द्वितीयः उद्देशकः २, अन्तरद्वीपविषयाः अष्टाविंशतिरुद्देशकाः तृतीयादारभ्य त्रिंशत्पर्यन्ताः ३०, 'अश्रुत्वा धर्मलभेत' इत्यादि प्रतिपादनार्थः एकत्रिंशत्तमः ३१, गाङ्गेयाभिधानानगरवक्तव्यतार्थो द्वात्रिंशत्तमः ३२, ब्राह्मणकुण्डग्रामवक्तव्यतार्थस्त्रयत्रिंशत्तमः ३३ उद्देशकः, पुरुषः पुरुषं धनम्, इत्यादिवक्तव्यार्थश्चतुस्त्रिंशत्तमः ३४।।

जम्बूद्वीपवक्तव्यता ।

अथ जम्बूद्वीपवक्तव्यतामाह- 'तेणं कालेणं' इत्यादि ।

मूलम्-तेणं कालेणं, तेणं समएणं मिहिला नामं नयरी होत्था, वण्णओ, मणिभदे चेइए, वण्णओ, समोसढे, सामो परिसा निग्गया, जाव भगवं गोयमे पज्जुवासमाणे एवं वयासी-कहि णं भंते ! जंबुद्वीवे दीवे ? किं संठिए णं भंते ! जंबुद्वीवे दीवे ? एवं जंबुद्वीवपन्नत्ती भाणियव्वा जाव एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्वीवे

(जंबुद्वीवे) इत्यादि । इसमें जम्बूद्वीप संबंधी वक्तव्यता के विषय में प्रथम उद्देशक है । ज्योतिषिक संबंधी वक्तव्यता के विषय में द्वितीय उद्देशक है । अन्तरद्वीप संबंधी वक्तव्यता के विषय में २८ उद्देशक हैं । ये उद्देशक तीसरे से लेकर तीस उद्देशक पर्यन्त हैं । " नहीं सुनकर धर्म को प्राप्त कर सकता है " इत्यादि बात को प्रतिपादन करने वाला ३१ वां उद्देशक है । तथा गाङ्गेय नामक अनगर के द्वारा कृत प्रश्नों के विषयमें ३२ वां उद्देशक है । ब्राह्मणकुण्डग्राम के विषयमें ३३ वां उद्देशक है । तथा पुरुष को मारने वाले के विषय में ३४ वां उद्देशक है ।

"जंबुद्वीवे" पदार्थी शब्द यती गाथा द्वारा प्रकट करवाया आवेला छे. आ शनकना पडेल्ला उद्देशकमां जंबूद्वीप विषेनी वक्तव्यतानुं प्रतिपादन करायुं छे. पीला उद्देशकमां ज्योतिषिकनी वक्तव्यतानुं कथन कथुं छे. त्रीलाथी शब्द करीने त्रीसमां उद्देशक सुधीना २८ उद्देशकमां अन्तरद्वीपनी वक्तव्यतानुं कथन थयुं छे, अकत्रीसमां "असोअ्या" नामना उद्देशकमां "श्रवणु कयां विना पणु धमंने प्राप्त करी शके छे," वगेरे वातनुं प्रतिपादन करवायां आव्युं छे. अत्रीसमां उद्देशकमां गांगेय नामना अणुगारे पूछेला प्रश्नीना उत्तर आपवामां आव्या छे. तेत्रीसमां उद्देशकमां ब्राह्मणकुण्ड ग्रामनी वात करी छे तथा चोत्रीसमां उद्देशकमां मनुष्यने मारनार विषे कडेवामां आव्युं छे.

नवमं शतकं प्रारभ्यते

॥ नवमं शतकस्य प्रमोदेषु ॥

अष्टमशतके विविधाः पदार्थाः प्ररूपिताः, अथ नवमे शतकेऽपि । तेषु पदार्थां प्रकारान्तरेण प्ररूप्यन्ते, इत्येषु सम्बन्धेन प्राप्तस्य नवमशतकस्य उद्देशकार्यं समग्रदृष्टिर्वा गायामाह—‘जंबुद्वीपे’ इत्यादि,

मूलम्—‘जंबुद्वीपे १, जोङ्गसर, अतरदीवा ३०, असोच्चा ३१, गांगेय ३२।

कुण्डगामे ३३, पुरिसे ३४, नवममि सप चउत्तीसा’ ॥१॥

छाया—जंबुद्वीपः १, ज्योतिष्कः २, अन्तरद्वीपाः ३०, कञ्जुत्वा ३१ गांगेयः ३२।

कुण्डग्रामः ३३, पुरुषः ३४, नवमे शतके चतुस्त्रिंशत् ॥ १ ॥

नौववे शतकका पहला उद्देशक

नौववे शतक के उद्देशकों में प्रतिपादित हुए विषयों को समग्र करके सूचित करनेवाली यह गाथा है—‘जंबुद्वीपे’ इत्यादि ।

जंबुद्वीप १, ज्योतिष्क २, अन्तरद्वीप ३० असोच्चा ३१, गांगेय ३२ कुण्डग्राम ३३ और पुरुष ३४ इसके संबंध में ये नौववे शतक में ३४ उद्देशक हैं ।

टीका—अष्टम शतक में अनेक प्रकार के पदार्थ कहे जा चुके हैं । अथ इस नौववे शतक में मुख्यकार वन्हीं पदार्थों की प्ररूपणा प्रकारान्तर से कर रहे हैं । इसी संबंध को लेकर प्राप्त इस नौववे शतक के उद्देशकों के अर्थ समग्र करके सूचित करनेवाली इस गाथा को वे कहते हैं—

नवमा शतकना प्रारंभ पहेलो उद्देशक

नवमा शतकमां ने विषयानुं प्रतिपादन करवामां आन्धुं छे तेनु सूचन करती जाया नीधि प्रमाद्ये छे—‘जंबुद्वीपे’ इत्यादि

आ नवमां शतकमां नीधि प्रमाद्ये उच उद्देशानुं प्रतिपादन करवामां आन्धुं छे—(१) जंबुद्वीप, (२) ज्योतिष्क (३ वी ३०) अन्तरद्वीप (३१) असोच्चा, (३२) गांगेय, (३३) कुण्डग्राम अने (३४) पुरुष

टीका—आठम शतकमां अनेक पदार्थानुं निरूपण करीने छे सूत्रकार नवमां शतकना प्रारंभ करे छे आ शतकमां पलु अने पदार्थानुं सूत्रकार नीछे रीते प्ररूपण करी छे आ नवमां शतकना उच उद्देशके छे अ उद्देशकमां ने ने विषयानुं प्रतिपादन करवामां आन्धुं छे, ते ते विषयाने

टीका-नवमशतके जम्बूद्वीपवक्तव्यताविषयः प्रथमोद्देशकः १, ज्योतिषिकविषयो
द्वितीयः उद्देशकः २, अन्तरद्वीपविषयाः अष्टाविंशतिरुद्देशकाः तृतीयादारभ्य
त्रिंशत्पर्यन्ताः ३०, 'अश्रुत्वा धर्मलभेत' इत्यादि प्रतिपादनार्थः एकत्रिंशत्तमः ३१,
गाङ्गेयाभिधानानगारवक्तव्यतार्थी द्वात्रिंशत्तमः ३२, ब्राह्मणकुण्डग्रामवक्तव्यता-
र्थस्त्रयस्त्रिंशत्तमः ३३ उद्देशकः, पुरुषः पुरुषं धनम्, इत्यादिवक्तव्यार्थश्चतुस्त्रिंशत्तमः ३४॥

जम्बूद्वीपवक्तव्यता ।

अथ जम्बूद्वीपवक्तव्यतामाह- 'तेणं कालेणं' इत्यादि ।

मूलम्-तेणं कालेणं, तेणं समएणं मिहिला नामं नयरी होत्था,
वण्णओ, मणिभद्दे चेइए, वण्णओ, समोसडे, सामो परिसा
निग्गया, जाव भगवं गोयमे पज्जुवासमाणे एवं वयासी-कहि णं
भंते ! जंबुद्वीवे दीवे ? किं संठिए णं भंते ! जंबुद्वीवे दीवे ? एवं
जंबुद्वीवपन्नत्ती भाणियठ्वा जाव एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्वीवे

(जंबुद्वीवे) इत्यादि । इसमें जम्बूद्वीप संबंधी वक्तव्यता के विषय में
प्रथम उद्देशक है । ज्योतिषिक संबंधी वक्तव्यता के विषय में द्वितीय
उद्देशक है । अन्तरद्वीप संबंधी वक्तव्यता के विषय में २८ उद्देशक हैं ।
ये उद्देशक तीसरे से लेकर तीस उद्देशक पर्यन्त हैं । "नहीं सुनकर
धर्म को प्राप्त कर सकता है" इत्यादि बात को प्रतिपादन करने वाला
३१ वां उद्देशक है । तथा गाङ्गेय नामक अनगार के द्वारा कृत प्रश्नों के
विषयमें ३२ वां उद्देशक है । ब्राह्मणकुण्डग्राम के विषयमें ३३ वां उद्दे-
शक है । तथा पुरुष को मारने वाले के विषय में ३४ वां उद्देशक है ।

"जंबुद्वीवे" पदार्थी श३ यती गाथा द्वारा प्रकट करवाया आवेक छे. आ
शतकना पडैला उद्देशकमां जम्बूद्वीप विषेनी वक्तव्यतानुं प्रतिपादन करायुं छे.
पील उद्देशकमां ज्योतिषिकनी वक्तव्यतानु कथन कयुं छे त्रीलथी श३ करीने
त्रीसमां उद्देशक सुधीना २८ उद्देशकमां अन्तरद्वीपनी वक्तव्यतानु कथन थयुं
छे, अेकत्रीसमा "असोअ्या" नामना उद्देशकमां "अवणु कयां विना पणु
धर्मने प्राप्त करी शके छे," वगेरे वातनु प्रतिपादन करवायां आव्युं छे.
अत्रीसमां उद्देशकमां गागेय नामना अणुगारे पूछेला प्रश्नोना उत्तर आपवायां
आव्या छे तेत्रीसमां उद्देशकमां आहणुकुंड आमनी वात करी छे तथा चोत्री-
समां उद्देशकमां मनुष्यने भारतार विषे कडेवायां आ

दीवे चोक्षस सलिलासयसहस्ता छप्पन्न च सहस्ता भवतीति
मक्खाया, सेव भते । सेव भते । त्ति ॥ सू० १ ॥

नवम सयस्स पढमो उहेसो ।

छाया-तस्मिन् काले तस्मिन् समये मिथिला नाम नगरी भासीत्, वर्णकः,
मणिमद्र चैस्पम्, वर्णकः, स्वामी समरस्यत्, पर्पत् निर्गता, यावत् भगवन्तं गौतम
पर्युपासीन एवम् भवादीत्-कृत्र खल्ल मदन्त ! जम्बूद्वीपो द्वीपः, किंसंपाना
खल्ल मदन्त ! जम्बूद्वीपो द्वीपः ? एवं जम्बूद्वीपमभ्रसिः मणितव्या, यावत् एव

-जम्बूद्वीप वक्तव्यता-

‘तेण कालेण तेण समएण’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(तेण कालेण तेण समएण) उस काल और उस समय
में (मिथिला नाम नगरी होत्या) मिथिला नाम की नगरी थी। (वण्ण
ओ) उसका वर्णन (मणिमद्दे चैस्प) वहाँ मणिमद्र नामका चैस्प था
(वण्णओ) वर्णन (स्वामी समोसठे) वहाँ भगवान् महावीर स्वामी
पधारं (परिसा निग्गया) वहाँ की परिपद् उनको वदना के लिये गई
(जाव भगव गोयमे पज्जुवासमाणे एव वयासी-कहिण भते । जंबुद्वीवे
दीये ? किं सठिए ण भते ! जंबुद्वीवे दीये ?) यावत् भगवान् गौतम ने
पर्युपासना करते हुए इस प्रकार से पूछा-हे मदन्त ! जम्बूद्वीप नामका
द्वीप कहाँ पर है ? हे मदन्त ! जम्बूद्वीप नाम का द्वीप कैसे आकारवाला

जम्बूद्वीपनी वक्तव्यता—

“तेण कालेण तेण समएण” इत्यादि—

सूत्रार्थ—“तेण कालेण तेण समएण” ते काले अने ते समये
(मिथिला नाम नगरी होत्या) मिथिला नामे नगरी होती। (वण्णओ) तेनुं
वण्णन थापा नगरीना वण्णन प्रभावे समभवु (मणिमद्दे चैस्प) त्यां भाषि
अत्र नामे चैस्प इत्तुं (वण्णओ) तेनुं वर्णन पूर्वजत्र चैत्यना वण्णन प्रभावे
समभवु (स्वामी समोसठ) त्यां भगवान् महावीर स्वामी पधारं। (परिसा
निग्गया) तेभना दर्शन करवाने भाटे परिपद् नीकणी (जाव भगव गोयमे
पज्जुवासमाणे एव वयासी-कहिण भते ! जंबुद्वीवे दीये ? किं सठिए ण भते !
जंबुद्वीवे दीये ?) परिपद् विभ्रसिं जया पछी भगवान् गौतमे महावीर प्रभुने
वदव्वा नभरकार करीने विनयपूर्वक आ प्रभावे पूछनु-हे मदन्त ! जम्बूद्वीप
नामने द्वीप कहाँ आवेवे छे ? तेने आकार केवे छे ?

मेव सपूर्वापरेण जम्बूद्वीपो द्वीपः चतुर्दशसलिलासयसहस्राणि पट्टपञ्चाशत्सहस्राणि भवन्ति इति आख्यातम्, तदेवं भदन्त । तदेवं भदन्त । इति ॥ सू० १ ॥

॥ नवमशतकस्य प्रथम उद्देशः ॥

टीका—‘तेणं काळेणं तेणं समएणं मिहिला नामं नयरी होत्था’ वण्णओ ’ तस्मिन् काले तस्मिन् समये मिथिला नाम नगरी आसीत् वर्णकः, अस्याः

है ? (एवं जंबुद्वीप पन्नत्ती भाणियव्वा जाव एवामेव सपुत्रावरेणं जंबु-
द्वीवे दीवे चोदससलिलासयसहस्रा छप्पन्नं च सहस्रा भवन्तीति मक्खाया सेवं भन्ते ! सेवं भन्ते ! ति) हे गौतम यहाँ पर जैसा जम्बू-
द्वीपप्रज्ञप्ति में “चौदह लाख छप्पनहजार नदियां पूर्व पश्चिम में हैं”
यहाँ तक जम्बूद्वीप के विषय में पाठ कहा गया है वहीं तक का पाठ
कहना चाहिये । हे भदन्त ! आपका कहा हुआ यह विषय सर्वथा सत्य
है, हे भदन्त ! आपका कहा हुआ यह विषय सर्वथा सत्य है । इस
प्रकार कहकर वे गौतम यावत् अपने स्थान पर विराजमान हो गये ।

टीकार्थ—सूत्रकार ने इस सूत्र द्वारा जम्बूद्वीप संबंधी वक्तव्यता
का प्रतिपादन किया है—इसमें सर्वप्रथम इस वक्तव्यता का प्रतिपादन
करने वाले भगवान सहावीरस्वामी का मिथिला नगरी में पधारना और
वहाँ इस विषय में प्रश्नोत्तर होना यह कहा गया है—वे कहते हैं—(तेणं
कालेणं तेणं समएणं) उस काल में अर्थात् इस अवसरपिणी के चतुर्थ
काल में और जब भगवान सहावीर विचरते थे उस समय में (मिहिला
नामं नयरी होत्था) “मिथिला” इस नामकी नगरी थी । (वण्णओ)

(एवं जंबुद्वीपपन्नत्ती भाणियव्वा जाव एवामेव सपुत्रावरेणं जंबुद्वीवे दीवे
चोदससलिलासयसहस्रा छप्पन्नं च सहस्रा भवन्तीति मक्खाया सेवं भन्ते ! सेवं
भन्ते ! ति) हे गौतम ! आ विषयतुं ‘जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तिमां’ जेवुं प्रतिपादन
करवामां आओउ छे तेवुं प्रतिपादन अही पणुं समणुं देवुं “चौद लाख
छप्पन हजार नदीओ पूर्व-पश्चिममां छे,” अही सुधीने सूत्रपाठ अहणुं
करवो. गौतम स्वामी कहे छे के “हे भदन्त ! आपनी बात थरी छे हे
भदन्त ! आपे आ विषयतुं जे प्रतिपादन कयुं” ते सर्वथा सत्य छे ” आ
प्रमाणुं कहीने पदणुं नमस्कार करीने तेओ तेमने स्थाने भेसी गया.

टीकार्थ—सूत्रकारे आ सूत्रमां जम्बूद्वीपनी वक्तव्यतानु प्रतिपादन कयुं
छे. “तेणं काळेणं तेणं समएणं” आ अवसरपिणीना योथा आरामां न्यारे
सहावीर स्वामी विचरता हुता ते समये “मिहिला नामं नयरी होत्था”
मिथिला नामनी एक नगरी हुती. “वण्णओ” औपपातिक सूत्रमां जेवुं

वपनम् औपपातिके वर्णितम् चम्पानगरी वर्णनमिशावसेयम्, 'मणिमदे वेष्ट्, वण्णभो' मणिमद्र नाम चैत्यम् आसीत्, वर्णकः, अस्य वर्णनमपि औपपातिकसूत्रोक्तपूर्णमद्रचैत्यवदवसेयम् । 'सामी समोसठे, परिता निग्गया आच भगवं गोयमे पञ्जुवाममाणे एष वयासी'—स्वामी महावीरः समवसृतः मियिस्त-समागतः । समवसरणवर्णनमपि औपपातिकसूत्रे मत्कृतपीयूषवर्षिणीटीकायां प्रयोविश्वतिसूत्रादारम्य सप्तत्रिंशत्सूत्रपर्यन्तं त्रिलोकनीयम् । पर्यत् निर्गता—मग-बन्तं वदितुं नमस्कारमागता, यावत् नमस्विप्त्वा मठिगता पर्यत्, एतो भगवन्तं महावीरं गौतमः पर्युपासीन त्रिबिधया पर्युपासनया पर्युपासनां कृष्णाणं सन् एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण बरादीत्—'कहि ण मंते ! जंघुदीवे दीवे ! किं सठियं ण मंते ! जंघुदीवे दीवे ?' हे भदन्त ! क्व प्रवेशे स्वच्छ जम्बूद्वीपो नाम द्वीपो

इसका वर्णन जैसा औपपातिक सूत्रमें चम्पानगरी का वर्णन किया गया है वैसा ही जानना चाहिये । (मणिमदे वेष्ट्) यहाँ पर " मणिमद्र " इस नाम का यक्षावसन था । (वण्णभो) इसका वर्णन भी औपपातिक सूत्र में वर्णित पूर्णमद्र चैत्य की तरह जानना चाहिये । (सामी समो सठे) महावीर स्वामी यहाँ पर पधारे । समवसरण का वर्णन भी औपपातिक सूत्र में मेरे द्वारा की गई पीयूषवर्षिणी टीका में किया गया है जो २३ वें सूत्र से लेकर २७ वें सूत्र तक है । (परिता निग्गया) भगवान को बन्दना करने के लिये, उन्हें नमस्कार करने के लिये वहाँ की परिपद् आई पावत् वह बन्दना और नमस्कार कर धर्मकथा सुनकर के वहाँ से वापिस चली गई याद में त्रिबिध पर्युपासना से पर्युपासना करते हुए गौतम ने उनमें इस प्रकार पूछा—(कहि ण मंते ! जंघुदीवे

व पा नगरीन् वपनं कर्तुं छे जेवुं न तेनुं वपनं समञ्जु " मणिमदे वेष्ट् " त्वां मणिमद्र नाम चैत्य (यक्षावसन) कर्तुं वण्णभो " औपपातिक सूत्रमां जेवुं पूजयत्त चैत्यं वपनं कर्तुं छे जेवुं न तेनुं वपनं समञ्जु " सामी समोसठे " त्वां महावीर स्वामी पधायो समवसरणं वपनं पञ्च औपपातिक सूत्रानीं भासा भासा वण्णभेदी पीयूषवर्षिणी टीकायां २३ वीं २७ मुधीना सूत्राणां आम्हा प्रभावे समञ्जु परिता निग्गया " भगवानने वदन्ता नमस्कार करवा भाटे त्वांनीं जन्ता (परिपद) त्वां आप्ती. वदन्ता नमस्कार करीने तथा धर्मोपदेश सांख्यीने परिपद विज्जशठं जठं त्वां जाइ त्रिबिध पर्युपासनापूर्वकं पर्युपासना करीने गौतम स्वामीजे महावीर भक्तुने आ प्रभावे पूछ्युं—(कहिं मंते ! जंघुदीवे दीवे ! किं सठियं ण मंते !

वर्तते ? किंसंस्थितः किमाकारः खलु भदन्त ! जम्बूद्वीपो द्वीपः ? भगवानाह—
 ' एवं जंबुद्वीपपन्नती भाणियव्वा जाव एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्वीवे दीवे चोदस-
 सलिलासयसहस्सा छप्पन्नं च सहस्सा भवंतीतिमक्खाया ' हे गौतम ! एवं
 वक्ष्यमाणरीत्याऽत्र जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिः भणितव्याः, तथाचोक्तम्—केमहालएणं भंते !
 जंबुद्वीवे दीवे, किमागारभावपडोयारे णं भंते ! जंबुद्वीवे दीवे पणत्ते ? गोयमा !
 अयं णं जंबुद्वीवे दीवे सव्वदीवसमुद्दाणं सव्वमंतरए, सव्वखुड्ढाए, वट्टे तेरला-
 पूयसंठाणसंठिए वट्टे रहचक्कवालसंठाणसंठिए वट्टे, पुक्खरकणियासंठाणसंठिए वट्टे,
 पडिपुन्नचदसंठाणसंठिए पणत्ते, एणं जोयणसयसहस्सं आयामविकखंभेणं '

दीवे ? किं संठीए णं भंते ! जंबुद्वीवे दीवे) हे भदन्त ! किस प्रदेश में
 जम्बूद्वीप नामका द्वीप है ? तथा यह जंबूद्वीप नामका द्वीप कैसे आकार
 वाला है ? इसके उत्तर में प्रभु ने उनसे कहा (एवं जंबुद्वीपपन्नती
 भाणियव्वा, जाव एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्वीवे दीवे चोदस सलिला-
 सयसहस्सा छप्पन्नं च सहस्सा भवंतीतिमक्खाया) हे गौतम ! इस
 विषय को जानने के लिये यहां जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति का पाठ कहना चाहिये
 —और वह पाठ यहां " वहां जम्बूद्वीप में पूर्व पश्चिम में १४ वें लाख
 छप्पनहजार नदियां बहती हैं " यहां तक का कहना चाहिये—ग्रहण
 करना चाहिये । इसके पहिले का पाठ वहां पर इस प्रकार से है—(के
 महालए णं भंते ! जंबुद्वीवे दीवे, किमागारभावपडोयारे णं भंते ! जंबु-
 द्वीवे दीवे पणत्ते ? गोयमा ! अयं णं जंबुद्वीवे दीवे सव्वदीव समुद्दाणं
 सव्वमंतरए, सव्वखुड्ढाए, वट्टे, तिल्ल पूयसंठाणसंठिए वट्टे, रहचक्कवाल
 संठाणसंठिए वट्टे, पुक्खर कणियासंठाणसंठिए वट्टे, पडिपुण्णचदसंठा-

जंबुद्वीवे दीवे ?) हे भदन्त ! जम्बूद्वीप नामको द्वीप क्या प्रदेशमा आवेले
 छे ? हे भदन्त ! जम्बूद्वीपको आकार केवो छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—(एव जंबुद्वीप पन्नती भाणियव्वा, जाव एवामेव
 सपुव्वावरेणं जंबुद्वीवे दीवे चोदस सलिलासयसहस्सा छप्पन्नं च सहसा भव-
 तीतिमक्खाया " हे गौतम ! आ विषयनु समस्तं कथनं जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तिमा
 कथा प्रमाणे समञ्जसं. जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तिनु " जम्बूद्वीपमा पूर्वपश्चिमे १४ लाख
 छप्पन हजार नदीयो वडे छे, " अर्द्धीःसुधीनु कथनं ग्रहणं करवु जेधजे. आ
 कथनको पूर्वपाठ त्यां नीचे प्रमाणे आये छे—(के महालए णं भंते ! जंबु-
 द्वीवे दीवे ? किमागारभावपडोयारे णं भंते ! जंबुद्वीवे दीवे पणत्ते ? गोयमा !
 अयं णं जंबुद्वीवे दीवे सव्वदीवसमुद्दाणं सव्वमंतरए, सव्वखुड्ढाए, वट्टे, तिल्ल
 पूयसंठाणसंठिए वट्टे, रहचक्कवालसंठाणसंठिए वट्टे, पुक्खरकणिया संठाण

इत्यादि, किमहालयः न्वलु मदन्त ! जम्बूद्वीपो द्वीपः किमाकारभाषमस्यवतारः
 खलु मदन्त ! जम्बूद्वीपो द्वीपः प्रज्ञप्त ? गौतम ! अय खलु जम्बूद्वीपो
 द्वीपः सवद्वीपसमुदागां सवाम्पन्तरक सर्वसुदको वृष, वंछापूपसंस्थानसस्थितो
 वृषः, रथचक्रवाकसस्थानसंस्थितो वृष, पृष्करकर्णिकासस्थानसस्थितो वृष, प्रति
 पूर्णचन्द्रसम्भानसस्थितः प्रज्ञप्त, एक योजनशतसहस्रम् आयामविक्रमभेण इत्यादि ।
 जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तेन्याख्याया अत्रिमाह - यावत् तत्र जम्बूद्वीप द्वीपे सपूर्वापरेण
 पूर्वेण नदीवृन्देन सह अपर पश्चिमं नदीवृन्दमिति सपूर्वापर तेन चतुर्दशशतसहस्राणि
 चतुदशल्लभाणि, पट्टपञ्चाशत् सहस्राणि च सखिला महानयोभवन्ति इति आख्यातम्
 जम्बूद्वीपे पूर्वैर्नदीवृन्दसहितं पश्चिमनदीवृन्द पट्टपञ्चाशत्सहस्राधिकचतुर्दशल्ल
 सख्यश्च कथितमिति भावः, तत्र मरुतैरवतयोर्गङ्गासिंधुरक्तारक्तवत्पः प्रत्येकं

णसठिण् पण्णके, एगं जोयणसयमहस्स आयामविक्रमभेण) इत्यादि ।
 इस पाठ का भाव इस प्रकार से है—गौतम न प्रश्न से ऐसा पूछा है कि
 हे भदन्त ! यह जम्बूद्वीप नाम का द्वीप कितना बड़ा है ? इसका आकार
 कैसा है ? इसके उत्तर में प्रश्न ने ऐसा कहा है कि—हे गौतम ! यह
 जम्बूद्वीप नामका द्वीप एक लाख योजन का विस्तार वाला है । समस्त
 द्वीप और समुद्रों के बीच में यह है । दूमरे और द्वीपों की अपेक्षा यह
 छोटा है । गोल धाली के समान इसका संस्थान है । इसमें छह कुलाव
 ल्यवत्त और भरतादि सात क्षेत्र हैं । इसके बीच में एक लाख योजन
 ऊंचा सुमेरु पर्यंत है गंगा सिंधु आदि १४ लाख छप्पन हजार नदियाँ
 इसमें पड़ती हैं । इत्यादि । यहाँ जो नदियों की संख्या १४ लाख छप्पन
 हजार वहाँ गई है सो यह इस प्रकार से है भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु

मठिय वट् पठिपुण्णपरसत्थगसंठिर पण्णत्त एगं जोयणसयमहस्सं आयाम
 विक्रमभेण) इत्यादि च्च सूत्रपाठना भाषाय नीये प्रभाद्ये उ—

गौतम स्वामीने प्रश्न— हे भदन्त ! जम्बूद्वीप नामने द्वीप कटवो
 भवेत् ? तेनो आकार केवो ? भदावीर प्रश्नो उत्तर—हे गौतम ! आ
 जम्बूद्वीपने विस्तार क्षेत्र लाख योजनने उ आ द्वीप समस्त द्वीपि अने समुद्रोनी
 वन्धे आवेवो उ वीज द्वीपि अस्तां ते नानो उ तेनो आकार गोल धालीना
 नेवो उ तेभा ६ कुलावत्त पर्यंत अने भरतादि सात क्षेत्र उ तेनी वन्धे क्षेत्र
 लाख योजननी प्रियध्विना सुमेरु पर्यंत उ गंगा, सिंधु वनेर १४५६०००
 नदीन्ना तेभा वटे उ ” ते १४५६००० नदीन्नानेदिसाज नीधे प्रभात्ते समज्जवो—
 अस्त क्षेत्रभा गंगा अने सिंधु आ ने नदीन्ना वटे उ औरवत् क्षेत्रभा
 १४५६००० अने १४५६०००, आ ने नदीन्ना वटे उ आ प्रत्येक नदीने भगनारी

चतुर्दशभिर्नदीनां सहस्रैर्युक्ताः, हैमवतैरण्यवतयोः रोहिद्रोहितांशसुवर्णकूलाः रूप्य-
कूलाः, प्रत्येकमष्टाविंशत्यां सहस्रैर्युक्ताः, हरिवर्षरम्यकवर्षयोर्हरि-हरिकान्ता-
नरकान्ता नारीकान्ताः प्रत्येकं षट्पञ्चाशतां सहस्रैर्युक्ताः समुद्रमुपगच्छन्ति, एवं
महाविदेहे शीताशीतोदे प्रत्येकं पञ्चभिर्लक्षैर्द्रात्रिंशता च सहस्रैर्युक्ते समुद्रमुपग-

ये दो नदियां बहती हैं, ऐरावत क्षेत्र में रक्ता रक्तावती ये दो नदियां
बहती हैं। इनमें गंगा, मिन्धु इनकी परिवार नदियां और ऐरावत क्षेत्र
में बहने वाली रक्ता रक्तावती इनको प्रत्येक की परिवार नदियां १४-
१४ हजार हैं। इस प्रकार इन चारों नदियों की परिवार नदियों की
संख्या ५६ हजार आ जाती है। हैमवत और हैरण्यवत इन क्षेत्रों में
क्रमशः रोहित, रोहितांशा और सुवर्णकूला रूप्यकूला ये नदियां बहती
हैं इनकी सब की परिवार नदियां २८-२८ हजार हैं। इस तरह इनकी
सब परिवार नदियों की संख्या एक लाख बारह हजार हो जाती है।
हरिवर्ष में हरि, हरि कान्ता, रम्यकवर्ष में नरकान्ता नारीकान्ता, ये
नदियां बहती हैं। इनकी परिवार नदियां प्रत्येक की ५६-५६ हजार
हैं। महाविदेह में सीता सीतोदा ये दो नदियां हैं। इनकी प्रत्येक की
परिवार नदियां पांच ५ लाख बत्तीस ३२ हजार हैं। इनमें से दो दो
नदियों में पूर्व पूर्व की नदी पूर्व समुद्र में जाकर मिली है और शेष
नदियां पश्चिम समुद्र में जाकर मिली हैं। इस तरह इन सब की परि-
वार नदियों का प्रमाण १४ लाख छप्पन हजार होता है। सो जम्बूद्वीप
प्रज्ञप्ति का जम्बूद्वीप का वर्णन का पाठ यहां तक जम्बूद्वीप के वर्णन में

१४, १४ डगर शाखाओं के. आ आरे नदीओंनी साथे सगम पावती कुल
५६००० नदीओं के. हैमवत क्षेत्रमां रेहित अने रेहिताशा नामनी के
मुष्य नदीओं के हैरण्यवत क्षेत्रमा सुवर्णकूला अने रूप्यकूला नामनी के
मुष्य नदीओं के. आ अने क्षेत्रनी आर मुष्य नदीओंने २८, २८ डगर
नदीओं भजे के आ रीते तेमनी परिवार नदीओंनी कुल सभ्या ११२०००
थय के. हरिवर्ष क्षेत्रमां हरि अने हरिकान्ता, रम्यक वर्षमां नरकान्ता अने
नारीकान्ता नदीओं मुष्य के. ते हरिकनी परिवार नदीओंनी सभ्या ५६-५६
डगर के महाविदेह क्षेत्रमा सीता अने सीतोदा नामनी मुष्य नदीओं वडे
के. ते हरिकनी परिवार नदीओं (शाखाओं) नी सभ्या ५३२००० के आ
हरिक क्षेत्रनी के अण्ये नदीओं कडी के तेमानी पडेली नदी पूर्व समुद्रने भजे
के अने पीछे नदी पश्चिम समुद्रने भजे के आ रीते जम्बूद्वीपनी नदीओंनी
कुल सभ्या १४५६००० थय नथ के. जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तिना जम्बूद्वीपना वधु-

प्लवः सर्वासां नदीनां मेरुने ययोक्त नद्या सम्पद्यते । अन्ते गौतमो मगवद्वाक्यं
सत्यापयन्नाह—‘ सेर्वं मते ! सेव मते ! सि ’ हे भवन्त ! तदेव मवदुन्त सर्वं
सत्यमेव, हे भवन्त ! तदेवं भवदुन्तं सर्वं सत्यमेवेति ॥ सू० १ ॥

इति भी-विश्वविख्यात-अगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचकपञ्चदशभाषाकम्बितकलितक
लाषाळापक-प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-भीष्माहू-
प्रपत्तिकोल्हापुरराजप्रदत्त-‘ जैनशास्त्राचार्य ’ पदभूषित-कोल्हापुरराज
गुरु-बालभद्राचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मविषाकरपूज्यभी-घासीलाल-
प्रतिविरचितायां मगवतीसूत्रस्य प्रमेयचन्द्रिकाटीकायां
नवमशतकस्य प्रथमोद्देशक समाप्तः ॥

ग्रहण करना चाहिये । (सेर्वं मते ! सेव मते ! सि) अब गौतम अन्त
में प्रभु के वचनों में स्वतः प्रमाणता मानते हुए कहते हैं-हे भवन्त !
आप के द्वारा कहा गया यह सब विषय सर्वथा सत्य है-हे भवन्त !
आप के द्वारा कहा गया यह सब विषय सर्वथा सत्य है । इस प्रकार
कहकर वे गौतम अपने स्थान पर यावत् विराजमान हो गये ॥ सू० १ ॥

भी जैनाचार्य जैनधर्म विषाकर पूज्य भी घासीलालजी महाराज कृत
“ मगवतीसूत्र ” की प्रमेयचन्द्रिका टीका का नवम शतकका
पहला उद्देशक समाप्त ॥

ननु इयं अर्द्धां सुधीं प्रवक्ष्यं कश्चिन्नेच्छेत् । “ सेव मते ! सेर्वं मते ! सि ”
महावीर प्रभुना वचनाने प्रमाद्यभूत मानीने गौतम स्वाभी तेभने क्के छे छे
के लहन्त ! आ विषयतु आपे ने प्रतिपादन क्युं ते सवथा सत्य छे के
लहन्त ! आपनी बात सर्वथा सत्य छे आ प्रमाद्ये क्कीने महावीर प्रभुने
वदथा नभस्कार करीने तेन्ने पोत्ताने स्थाने बिस्ती गया ॥ १ ॥

भी जैनाचार्य जैनधर्म विषाकर पूज्य भी घासीलालजी महाराज कृत

“ मगवतीसूत्र ” की प्रमेयचन्द्रिका व्याख्याने नवम

शतकने पहिले उद्देशक समाप्त

नवमशतकस्य द्वितीयोद्देशकः

नवमशतके द्वितीयोद्देशकस्य विषयविवरणम्—

जम्बूद्वीपे चन्द्रप्रकाशस्य, लवणसमुद्रे चन्द्रप्रकाशस्य, धातकीखण्डे कालोदसमुद्रे, पुष्करवरद्वीपे, अभ्यन्तरपुष्करार्धे, पुष्करोदसमुद्रे च चन्द्रप्रकाशस्य वक्तव्यता ।

जम्बूद्वीपे चन्द्रादिज्योतिष्कवक्तव्यता

प्रथमोद्देशके जम्बूद्वीपवक्तव्यता परुषिता, द्वितीयोद्देशके तु जम्बूद्वीपादिषु ज्योतिष्कवक्तव्यतामभिधातुमाह—‘ रायगिहे ’ इत्यादि,

मूलम्—रायगिहे जाव एवं वयासी—जंबुद्वीवे णं भंते ! दीवे केवड्या चंदा पभासिंसु वा, पभासेति वा, पभासिस्संति वा ? एवं जहा जीवाभिगमे जाव—“एगं च सयसहस्सं तेत्तीसं, खलु भवे सहस्साइं । नवयसया पन्नासा तारागण कोडिकोडीओ ॥ ६२ ॥ सोभं, सोभिंसु, सोभिंति, सोभिस्संति ॥ सू० १ ॥

छाया—राजगृहे यावत् एवमवादीत्—जम्बूद्वीपे खलु भदन्त । द्वीपे कियन्त-चन्द्राः प्राभासिपत वा, प्रभासन्ते वा, प्रभासिष्यन्ते वा ? एव यथा जीवाभिगमे

नवमे शतकका दूसरा उद्देशक

इस नौवें शतक के द्वितीय उद्देशक में कथित विषय का विवरण संक्षेप से इस प्रकार है—जंबूद्वीप में, लवणसमुद्र में, धातकीखण्ड में, कालोदसमुद्र में पुष्करवरद्वीप में, आभ्यन्तरपुष्करार्ध में और पुष्करोदसमुद्र में चन्द्रप्रकाश संबंधी वक्तव्यता ।

जम्बूद्वीप में चन्द्रादि ज्योतिष्क संबंधी वक्तव्यता

‘ रायगिहे जाव एवं वयासी ’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(रायगिहे जाव एवं वयासी) राजगृह नगर में यावत् गौतम स्वामी ने प्रभु से ऐसा पूछा—(जंबुद्वीवे णं भंते ! दीवे केवड्या

नवमां शतकना षीजे उद्देशक—

आ नवमां शतकना षीजे उद्देशकमां प्रतिपादित विषयतुं संक्षिप्त विवरणु षु जंबूद्वीपमां, लवणसमुद्रमां, धातकी षण्डमां, कालोद समुद्रमां, पुष्करवरद्वीपमां, आभ्यन्तर पुष्करार्धमां अने पुष्करोद समुद्रमां चन्द्रप्रकाश विषयक वक्तव्यता.

जंबूद्वीपमां चन्द्रादि ज्योतिष्क संबंधी वक्तव्यता—

“ रायगिहे जाव एव वयासी ” इत्यादि—

सूत्रार्थ—(रायगिहे जाव एव वयासी) “ राजगृह नगरमां महावीर भुषु पधायी, आ कथनथी शइ षीजे गौतम स्वामीजे ने... ”

यावत्—“एकं च शतसहस्रं प्रपत्तिंश्चत् ग्वलु भवे सहस्राणि, नत्र च क्षतानि पञ्चाशत् तारागणकोटिकोटीनाम् ६२॥ शोभामशोभयन् शोभयन्ति, शोभयिष्यन्ति॥मू०१॥

टीका—‘ रायगिहे जाय एष वयासी ’ राजगृहे नगरे यावत् स्वामी समप सृजः, समपसृष्टं भगवन्त वन्दितु नमस्कृतु पर्वत् निर्गच्छति, वन्दित्वा नमस्यित्वा

अदा पमामिस्तु वा, पमासेति वा, पमामिस्संति वा) हेमदन्त ! जम्बू द्वीप में कितने चन्द्रमाओं ने प्रकाश किया है, कितने चन्द्रमा प्रकाश करते हैं और कितने चन्द्रमा प्रकाश करेंगे ? (एष जहा जीवामिगमे जाय एक च सयसहस्रं तेत्तीम ग्वलु भवे सहस्राड नव य सया पद्माना तारागण कोटिकोटीण । ६१॥ सोम, सोमिस्तु, सोमिति सोमि स्सति) हे गौतम ! इस विषयमें जैसा जीवामिगमसूत्र में यावत् एक मास्य तेतीम हजार नौ सौ पचाम कोटिकोटी ताराओं का समूह पहिले शोभा कर चुका है अथ शोभा कर रहा है और आगे भी शोभा करेगा” यहाँ तक कथन किया गया है किता ही यहाँ पर भी जानना चाहिये।

टीका—प्रथम उद्देशक में जम्बूद्वीप संपत्ती घक्तव्यता कही जा चुकी है। अथ इस द्वितीय उद्देशक में सूत्रकार जम्बूद्वीप आदिकों में उयोनिर्ग संपत्ती घक्तव्यता का प्रतिपादन कर रहे हैं—रायगिहे जाय एष वयासी) राजगृह नगर में यावत् महावीर स्वामी पचारे, महावीर स्वामी को पचारे भृगु जान कर यहाँ की परिषद् उनको घन्दना और

पूजयु, ' अर्द्धं सपीतु पूर्वोत्तं कथन अर्द्धं अर्द्धं ४२५ (ब्रह्मरीरेणं भते । दीवे केवइण चश पमासिस्तु वा पमासेति वा पमासिस्सति वा) दे भदन्त । जम्बूद्वीपमा हेत्वा चन्द्रमा प्रकाशता क्षता हेत्वा चन्द्रमा प्रकाशे ते अने हेत्वा प्रकाशे ? (एष जहा जीवामिगमे जाय एष च सयसहस्रं तेत्तीसं सलु नव महासाई नव य सया पद्माना तारागणकोटिकोटीणं । ६१॥ सोम, सोमिस्तु सोमिति सोमिस्सति) दे गौतम ! आ विषयने अनुकक्षीने एषा भिन्नम सूत्रमा ने कथन करवाभां आबुधु ते ते कथन अर्द्धं अर्द्धं ४२५

ज्येष्ठे वाप तेत्तीसं दत्तं नवसे पचास कोटिकोटी ताराज्येनो समूहं त्यं भूतकागमा शोभने क्षने नवमानमा शोभे ते अने भविष्यभां पक्ष शोभने.' अर्द्धं सुपीतु एवाभिन्नम सूत्रनु कथन अर्द्धं अर्द्धं ४२५ भां आबुधु ते ज्येष्ठे समज्यु टीका—पदेला उद्देशकभां जम्बूद्वीपं पक्ष न करवाभां आबुधु ते क्षने सूत्रकार जम्बूद्वीप वजरेभां प्रकाश आपनारा ज्येष्ठेति कोटीनी वक्ष्यन्तानु आ उद्देशकभां प्रतिपादन करे ते—(रायगिहे जाय एष वयासी) राजगृह नगरभां

प्रतिगता पर्वत्, शृश्रूषमाणो विनयेन प्राञ्जलिपुटो गौतमः पर्युपासीन एवं वक्ष्य-
माणप्रकारेण अत्रादीत्—‘जंबूद्वीवे णं भंते ! दीवे केवइया चंदा पभासिसु वा, पभा-
सेंति वा, पभासिस्संति वा ? ’ हे भदन्त ! जम्बूद्वीपे खलु द्वीपे कियन्तश्चन्द्राः
प्राभासिपत् प्राकाशयन् वा, प्रभासन्ते प्रकाशयन्ति वा, प्रभासिष्यन्ते प्रकाशयि-
ष्यन्ति वा ? भगवानाह—‘एवं जहा—जीवाभिगमे जाव—“ एगं च सयसहस्सं तेत्तीसं
खलु भवे सहस्साइं । नव य सया पन्नासा तारागणकोडिकोडीणं ’ ॥६२॥ हे गौतम !
एवं वक्ष्यमाणरीत्या यथा जीवाभिगमे सूत्रे ज्योतिष्कविषयवक्तव्यता उक्ता तथा
अत्रापि वक्तव्या, तथा चोक्त तत्र—“केवइया चंदा पभासिसु वा, पभासिति वा,

नमस्कार करने के लिये निकली प्रभु को वन्दना और नमस्कार कर
धर्मकथा सुनकर वह पीछे वापिस गई । त्रिविध पर्युपासना से प्रभु की
पर्युपासना करते हुए गौतम बड़े विनय के साथ दोनों हाथों को जोड़-
कर प्रभु से ऐसा पूछा—(जंबूद्वीवे णं भंते ! दीवे केवइया चंदा पभासिसु
वा पभासेंति वा, पभासिस्संति वा) हे भदन्त ! जम्बूद्वीप नामके द्वीप में
कितने चन्द्रमाओं ने पूर्वकाल में प्रकाश किया है, अब कितने चन्द्रमा
प्रकाश करते हैं और आगे कितने चन्द्रमा प्रकाश करेंगे ? इसके उत्तर
में प्रभु ने उनसे कहा—(एवं जहा जीवाभिगमे जाव एगं च सयसहस्सं
तेत्तीसं खलु भवे सहस्साइं, नव य सया पन्नासा तारागणकोडिकोडी-
णं) हे गौतम ! जीवाभिगमसूत्र में जिस प्रकार से ज्योतिष्क संबंधी
वक्तव्यता कही गई है, उसी तरह से वह वक्तव्यता यहां पर भी कहनी
चाहिये । यहां इस प्रकार से कहा गया है—“ केवइया चंदा पभासिसु

महावीर स्वामी पधार्या तेमना दर्शन करवा भाटे परिषद नीकणी तेमनां
दर्शन करीने तथा तेमने वदण्णु नमस्कार करीने तथा धर्मापदेश सांलणीने
परिषद पाथी करी. त्थारणाह महावीर प्रभुने वदण्णु नमस्कार करीने णन्ने
हाथ लेडीने गौतम स्वामीये विनयपूर्वकं आ प्रभाणे प्रश्न पूछथे—(जंबु-
द्वीवेणं भंते ! दीवे केवइया चंदा पभासिसु वा, पभासेंति वा, पभासिस्सति वा ?)
हे भदन्त ! जम्बूद्वीप नामना द्वीपमा भूतकाणमां डेटला चन्द्र प्रकाशता उता,
पर्वतानमां डेटला चन्द्र प्रकाशे छे, अने लविण्यमा डेटला चन्द्र प्रकाशसे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—(एवं जहा जीवाभिगमे जाव एगं च सयसहस्सं
तेत्तीसं खलु भवे सहस्साइं, नव य सया पन्नासा तारागण कोडिकोडीणं) हे
गौतम ! जीवाभिगम सूत्रमा ज्योतिषिके विषयक लेवी वक्तव्यता कडेवामां
आवी छे, जेवी ज वक्तव्यता अर्डी पणु समणु लेवी त्यां आ विषयने
अनुवक्षीने आ जहाणे उता छे—

पमासिस्सति वा, ? केवइया सूरिया तविंसु वा, तवति वा, तविस्सति वा ? केवइया नक्खत्ता जोय मोइसु वा, मोइति वा, मोइस्सति वा ? केवइया महग्गहा चारं चरिसु वा, चरति वा, चरिस्सति वा ? केवइयाओ तारागणकोडा कोडीओ सोह सोहिंसु, सोहति वा सोहिस्सति वा ? गोयमा ! जंजुहीये दीये दो अदा पमासिसु वा, पमासिति वा, पमासिस्सति वा, दो सूरिया तविंसु वा, तवति वा, तविस्सति वा, छप्पन्न नक्खत्ता जोगं जोइसु वा, जोइति वा, जोइस्सति वा, छावत्तरं गहसयं चारं चरिसु वा, चरिति वा, चरिस्सति वा ?” कियन्तः चन्द्राः प्रामासिपत्त वा, प्रमासन्ते वा ? प्रमासिष्यन्ते वा ? कियन्तः सूर्याः अतापयन् वा, तापयन्ति वा, तापयिष्यन्ति वा ? कियन्ति नममाणि योगं अयुञ्जन्, वा, युञ्जन्ति वा योष्यन्ति वा ? कियन्तो महाप्रशम्भारम् अचारिपुर्वा, चरन्ति वा,

वा पमासिति वा, पमामिस्सति वा ? केवइया सूरिया तविंसु वा, तवति वा तविस्सति वा ? केवइया नक्खत्ता जोइ जोइसु वा, जोइति वा जोइस्सति वा ? केवइया महग्गहा चारं चरिसु वा, चरति वा चरिस्सति वा ? केवइयाओ तारागणकोडाकोडीओ सोह सोहिंसु, सोहति वा, सोहिस्सति वा ? गोयमा ! जंजुहीये दीये दो अदा पमासिसु वा, पमासिति वा, पमासिस्सति वा दो सूरिया तविंसु वा, तवति वा, तविस्सति वा, छप्पन्न नक्खत्ताजोगं जोइसु वा, जोइति वा, जोइस्सति वा, छावत्तरं गहसयं चारं चरिसु वा चरिति वा, चरिस्सति वा” गौतमने प्रमुसे पेमा पूठा है—हे भवन्त ! इस जंजुहीप नामके द्वीप में कितने चन्द्रमा पड़िछे अमके हैं, वर्तमान में अमकते रहते हैं और आगे अमकेंगे ? कितने सूर्यो ने यहा पर प्रकाश दिया है, देसे हैं और देंगे ? कितने नक्षत्रों ने

(केवइया अदा पमासिसु वा पमासिति वा पमासिस्सति वा ? केवइया सूरिया तविंसु वा, तवति वा तविस्सति वा ? केवइया नक्खत्ता जोइ जोइसु वा जोइति वा, जोइस्सति वा ? केवइया महग्गहा चारं चरिसु वा चरति वा चरिस्सति वा ? केवइयाओ तारागणकोडाकोडीओ सोह सोहिंसु, सोहति वा सोहिस्सति वा ? गोयमा ! जंजुहीये दीये दो अदा पमासिसु वा, पमासिति वा, पमासिस्सति वा दो सूरिया तविंसु वा तवति वा तविस्सति वा छप्पन्न नक्खत्ता जोगं जोइसु वा जोइति वा जोइस्सति वा, छावत्तरं गहसयं चारं चरिसु वा चरिति वा, चरिस्सति वा) आ सूत्रपाठने आवायं नीचे प्रमाणे ऐ—

गौतम स्वामीने प्रश्न—‘ हे भवन्त ! आ जंजुहीप नामका द्वीपमां पदेसां देहता अन्त्रमा अमकता दत्ता, दासमां देहता अन्त्रमा अमकते ऽ अने लविष्ममां देहता अन्त्रमा अमकते ? देहता सूयो अदा पदेसां प्रकाशता

चरिष्यन्ति वा ? कियत्यस्तारागणकोटिकोट्यः शोभास् अशोभयन् वा, शोभ-
यन्ति वा, शोभयिष्यन्ति वा ? गौतम ! जम्बूद्वीपे दीपे द्वौ चन्द्रौ प्राभासिपाताम्
वा, प्रभासेते वा, प्रभासिष्येते वा, द्वौ सूर्यौ अतापयतां वा, तापयतो वा,
तापयिष्यतो वा ? पट्टपञ्चाशत् नक्षत्राणि योगम् अयुञ्जन् वा, युञ्जन्ति वा,
योक्ष्यन्ति वा, पट्टममत्यधिकं ग्रहशतं चारम् अवरद् वा, चरति वा, चरि-
ष्यति वा, जीवाभिगमसूत्रपाठस्य अत्रधिमाह-यावत्-“एगं च शतसहस्रं त्रयस्त्रि-
शत् खलु भवेयुः सहस्राणि । नत्र च शतानि पञ्चाशत् तारागणकोटिकोच्यः
पञ्चाशदधिकनवशतोत्तरत्रयस्त्रिंशत्सहस्राधिकैकलक्षकोटिकोटिसंख्यतारागणः शोभा-
मशोभयत् वा, शोभयति वा, शोभयिष्यति वा, इतिभावः ।

अङ्कतः—१३३९५०,००,०००,०००,०००,००० ॥ सू० १ ॥

यहां जगमगाहट की है, करते हैं और करेंगे-इत्यादि-इसके उत्तर में
प्रमुने कहा है-हे गौतम ! यहां पर दो चंद्रमाओंने प्रकाश दिया है, देते
हैं और देंगे । इसी तरहसे यहां पर दो सूर्य तपे हैं तपते हैं और आगे
भी तपेंगे इत्यादि पाठ सब सुखगम्य है । जीवाभिगम सूत्र का पाठ
इस विषय को स्पष्ट करने के लिये यहां तक का ग्रहण करना चाहिये-
तो इसके लिये कहा गया है-“ एगं च सयसहस्सं तेत्तोसं ” इत्यादि
यहां तक का पाठ ग्रहण करना चाहिये । अर्थात् चन्द्रादि ज्योतिष्क
संबंधी वक्तव्यता जीवाभिगम सूत्र में यहां तक कही गई है-सो वही
वक्तव्यता यहां पर भी इस विषय को जानने के लिये समझ लेनी
चाहिये । तारागणों की संख्या इस प्रकार से है-एक लाख तेतीसहजार
नवसो पचार (१३३९५०) करोडाकरोड है ॥ सू० १ ॥

इता, वर्तमानकाणमां प्रकाशे छे अने लविष्यमा प्रकाशे ? केटला नक्षत्रे
अर्धी यणकतां इतां, यणके छे अने यणकशे ? ” वगेरे

महावीर प्रबुने। उत्तर-“ हे गौतम ! आ जम्बूद्वीपमां लूतकाणमां जे
चन्द्रमा प्रकाशता इता, वर्तमानमां पणु प्रकाशे छे अने लविष्यमां पणु प्रका-
शे, अने प्रमाणे अर्धी जे सूर्य तपता इता, तपे छे अने तपशे ” वगेरे
सूत्रपाठ अर्धी अहणु कराये छे आ विषयने स्पष्ट करवा नाटे एवाभिगम
सूत्रने। कथां सुधीने। पाठ अहणु करवाे ते “ एगं च सयसहस्सं तेत्तोसं ” वगेरे
सूत्रपाठ द्वारा जताव्यु छे-अतरे के चन्द्रादि ज्योतिष्क विषयक वक्तव्यता
एवाभिगम सूत्रमा अर्धी सुधीना सूत्रपाठ द्वारा प्रकट करवामा आवी छे,
तारागणोनी संख्या अेक लाख तेतीस हजार नवसो पचास (१३३९५०)
करोडाकरोड छे ॥ सू० १ ॥

॥ लवणसमुद्रादौ ज्योतिष्कवक्तव्यता ॥

अथ ज्योतिष्कप्रस्तावात् लवणसमुद्रादौ चन्द्रादि ज्योतिष्कवक्तव्यतामाह—
'लवणे ण भते !' इत्यादि ।

मूक्य—लवणे ण भते ! समुद्रे केवइया च्चदा पभासिसु वा ?
पभासिति वा, पभासिस्सति वा, एव जहा जीवाभिगमे जाव
ताराओ । धायईसडे, कालोदे, पुक्खरवरे अठ्ठिभतरपुक्खरद्धम
णुस्तखेत्ते, एएसु सव्वेसु जीवाभिगमे जाव "एगससीपरिवारो
तारागणकोटिकोडीण" ॥ पुक्खरद्धेण भते ! समुद्रे केवइया च्चदा
पभासिसु वा, पभासेति वा, पभासिस्सति वा ? । एव सव्वेसु दीव
समुद्रेसु जोइसियाणं भाणियन्व जावसयभूरमणे जाव सोभिसु
वा, सोभिति वा, सोभिस्सति वा । सेव भते ! सेव भते ! च्चि ॥ सू० २ ॥

नवमसए धीओ उइसो समत्तो ॥ १-२ ॥

छाया—लवणे लल मदत्त ! समुद्रे कियन्तचन्द्राः प्रामासियत वा, प्रमा
सते वा, प्रमासिष्पन्ते ? एव यथा जीवाभिगमे यावत् ताराः, पातकीलण्डे,

लवणसमुद्र में ज्योतिष्क वक्तव्यता

'लवणेण भते ! समुद्रे केवइया च्चदा पभासिसु वा ?' इत्यादि ।

सुत्रार्थ—(लवणेण भते ! समुद्रे केवइया च्चदा पभासिसु वा ?
पभासिति वा, पभासिस्सति वा) हे भदन्त ! लवण समुद्र में किजने
चंद्रमाओं ने प्रकाश किया है ? किजने करते हैं ? और आगे किजने
करेंगे ? (एवं जहा जीवाभिगमे जाव ताराओ । धायईसडे, कालोदे,

लवणसमुद्रमा ज्योतिष्क वक्तव्यता—

'लवणेण भते ! समुद्र केवइया च्चदा पभासिसु वा ?' इत्यादि

सुत्रार्थ—(लवणेण भते ! समुद्रे केवइया च्चदा पभासिसु वा, पभा
सिति वा, पभासिस्सति वा) हे भदन्त ! लवण समुद्रमा डेट्ठा च्चन्द्रमा
प्रअशत्ता इत्ता डेट्ठा च्चन्द्रमा प्रअशे छे च्चने डेट्ठा च्चन्द्रमा प्रअशये ?
(एव जहा जीवाभिगमे जाव ताराओ । धायईसडे, कालोदे, पुक्खरवरे, अठ्ठिभ

कालोदे, पुष्करवरे आभ्यन्तरपुष्करार्द्धमनुष्यक्षेत्रे, एतेषु सर्वेषु यथा जीवाभिगमे यावत्-एकशशिपरिवारस्तारागणकोटिकोटीनाम् । पुष्करार्धे खलु भदन्त ! समुद्रे कियन्तश्चन्द्राः प्रभासिपत वा, प्रभासन्ते वा, प्रभासिष्यन्ते वा, एवं सर्वेषु द्वीप-समुद्रेषु ज्योतिष्काणां भणितव्यम्, यावत् स्वयम्भूरमणे यावत् शोभाम् अशोभ-यन् वा, शोभयन्ति वा, शोभयिष्यन्ति वा । तदेवं भदन्त ! तदेवं भदन्त ! इति सू० २॥
 नवमशतके द्वितीयोद्देशकः समाप्तः ॥ ९-२ ॥

पुष्करवरे, अर्द्धिभतरपुष्करद्वे मणूसखेत्ते-एएसु सव्वेसु जीवाभिगमे जाव एग ससीपरिवारो तारागण कोडिकोडीणं) हे गौतम ! जैसा जीवाभिगम सूत्र में कहा गया है उसी तरह से यावत् ताराओं की वक्तव्यता तक सब कथन जानना चाहिये । धातकीखंड, कालोदधि, तारागण है " यहां तक का सब कथन जानना चाहिये । (पुष्करद्वे णं भंते ! समुदे केवइया चंदा पभासिसु वा, पभासेंति वा, पभासिस्संति) हे भदन्त ! पुष्करार्धे समुद्रमें कितने चन्द्रमाओंने प्रकाश किया है, करते हैं, और कितने चन्द्रमा वहां प्रकाश करेंगे ? (एवं सव्वेसु दीव समुदेसु जोइमिया णं भाणियव्वं जाव सयंभूरमणे जाव सोभं सोमिसु वा, सोमिति वा, सोभिस्संति वा-सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति) हे गौतम ! जीवाभिगम सूत्र में कहे अनुसार संमस्त द्वीप और समुद्रों में ज्योतिष्क संबंधी चंद्रादिकों की वक्तव्यता " यावत् स्वयंभूरमण में उन्होंने ने यावत्

तरपुष्करद्वे मणूसखेत्ते एएसु सव्वेसु जीवाभिगमे जाव एग ससीपरिवारो तारागणकोडीकोडीणं) हे गौतम ! आ विषयने अनुलक्षिने एवाभिगम सूत्रमां ने प्रभाषे उडिवामां आ०युं छे, ते प्रभाषे अडी पणु समस्त कथन समजवुं. त्यां ताराओ पर्यन्तना विषयमां ने कथन करवामां आ०युं छे ते कथन अडी पणु अडणु करवु. धातकीखंड, कालोदधि, पुष्करवरे द्वीप, आभ्यन्तर पुष्करार्धे अने मनुष्यक्षेत्र संबंधी कथन पणु एवाभिगम सूत्रमां कइया प्रभाषे समजवुं. " एक चन्द्रनेो परिवार केटाकेटि तारागणु छे, " आ सूत्रपाठे सुधीनुं कथन अडणु करवु (पुष्करद्वेणं भंते ! समुदे केवइया चंदा पभासिसु वा, पभासेंति वा, पभासिस्संति वा ?) हे भदन्त ! पुष्करार्धे समुद्रमां केटला चन्द्रमा प्रकाशता डता ? केटला वर्तमानमां प्रकाशे छे ? अने केटला अविष्यमां प्रकाशशे ? (एवं सव्वेसु दीवसमुदेसु जोइसियाणं भाणियव्वं जाव सयंभूरमणे जाव सोभं सोमिसु वा, सोमिति वा, सोभिस्संति वा-सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति) हे गौतम ! एवाभिगम सूत्रमां कइया प्रभाषे समस्त द्वीपो अने समुद्रोमां चन्द्रादि ज्योतिषिकेनी वक्तव्यता समजवी. " स्वयंभूरमणमां

टीका—‘ लवणे ण मंते ! समुद्रे केवइया चंदा पमासिंसु वा, पमासिंसि वा, पमासिस्सति वा ? ’ गौतम पृच्छति—हे भदन्त ! लवणे म्वल्ल समुद्रे कियन्तवन्नाः पमासिपव वा, पमासन्ते वा, पमासिप्यते वा ? ‘ एव जहा जीवामिगमे ’ एवं बक्ष्यमाणरीत्या यथा जीवामिगमसुभे लवणसमुद्रादी चन्द्रादिज्योतिष्कविषयकवक्तव्यता उक्ता तथा अत्रापि लवणसमुद्रादी चन्द्रादिप्रकाशादि विषयकवक्तव्यता

शोभा को विस्तारा है, विस्तारते हैं और विस्तारेंगे । यहाँ तक कहना चाहिये । हे भदन्त ! आपके द्वारा कहा गया यह सय विषय सर्वथा सत्य है, हे भदन्त ! आपके द्वारा कहा गया यह सय विषय सर्वथा सत्य है इस प्रकार कहकर वे गौतम यावत् अपने स्थान पर विराजमान हो गये ।

टीकार्थ— यहाँ ज्योतिष्कों का प्रकरण चल रहा है—अतः लवण समुद्र आदिकों में चन्द्रादि ज्योतिष्कों की वक्तव्यता इस सूत्र द्वारा सूत्रकार ने कही है इसमें गौतम ने प्रभु से ऐसा पूछा है (लवणे ण मंते ! समुद्रे केवइया चंदा पमासिंसु वा, पमासिंसि वा, पमासिस्सति वा) हे भदन्त ! लवण समुद्र में कितने चन्द्रमा प्रकाशित हुए हैं, कितने वहाँ वर्तमान में प्रकाश करते हैं और आगे भी वहाँ कितने चन्द्रमा प्रकाश करेंगे ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(एवं जहा जीवामिगमे) हे गौतम ! बक्ष्यमाणरीति के अनुसार—जैसा जीवामिगम सूत्र में लवणसमुद्र आदिकों में चन्द्रादि ज्योतिष्क विषयक वक्तव्यता कही गई है उसी तरह से वह चन्द्रादिप्रकाशविषयवक्तव्यता यहाँ पर भी लव

तेजो शोभाया इत्या शोभे छे अने शोभये ” आ कथन पश्यन्तनु समस्त कथन अर्थात् अक्षय कश्चु नेधने छे कहन्त ! आपनी बात साची छे छे कहन्त ! आपे आ विषयनु ने प्रतिगहन कर्तुं ते सवथा सत्य छे आ प्रभासे कहीने प्रभुने बहणा नमस्कार करीने जीतम स्वाभी तेमने स्थाने लेखी तथा

टीकार्थ—ज्योतिषिकानो अधिहार याची रक्षी छेवाची सूत्रकारे लवण समुद्र वनेरेमा अत्रादि ज्योतिषिकानी वक्तव्यतानु आ सूत्र द्वारा कथन कर्तुं छे

जीतम स्वाभीने प्रश्न—(लवणेण मंते ! समुद्रे केवइया चंदा पमासिंसु वा, पमासिंसि वा पमासिस्सति वा ?) छे कहन्त ! लवण समुद्रमा भूतकालमा देहला चन्द्रमा प्रकाशता इत्या पवमानमा देहला चन्द्रमा प्रकाशे छे ? अनि अत्रां देहला चन्द्रमा प्रकाशये ?

भक्तवीर प्रभुने उत्तर—(एवं जहा जीवामिगमे) छे जीतम ! लवण सित्रम सूत्रमा लवण समुद्रादिकामा चन्द्रादि ज्योतिषिक विषयक लेखी पवत

वक्तव्या, तथा चोक्तं जीवाभिगमे—‘ केवह्या चंदा पभासिसु वा ३, केवह्या सूरिया तविसु वा ३? इत्यादि प्रश्नः पूर्ववदेव बोध्यः, उत्तरं तु—‘गोयमा ! लवणे णं समुद्वे चत्तारि चंदा पभासिसु वा ३, चत्तारि सूरिया तविसु वा, ३ वारसोत्तरं नक्खत्तसयं जोगं जोइंसु वा ३, तिननि वावन्ना महग्गहसया चारं चरिसु वा ३, दोन्नि, सयसहस्सा सत्तट्ठि च सहस्सा नवसया तारागण कोडिकोडीणं सोहं सोहिसु वा ३, ’ इति । कियन्तश्चन्द्राः प्राभासिपत वा ३, कियन्तः सूर्या अतापयन् वा ३? इत्यादि

णसमुद्रादिकों में कहनी चाहिये । जीवाभिगम में वह वक्तव्यता इस प्रकार से कही गई है—‘ केवह्या चंदा पभासिसु वा ३, केवह्या सूरिया तविसु वा ३ इत्यादि ’ हे अदन्त ! लवण समुद्र में कितने चंद्रमाओं ने प्रकाश किया है, अब कितने चंद्रमा वहाँ प्रकाश करते हैं और आगे भी वहाँ कितने चन्द्रमा प्रकाश करेंगे ? तथा कितने सूर्यों ने वहाँ प्रकाश किया है, अब वहाँ कितने सूर्य प्रकाश करते हैं और आगे भी वहाँ कितनेसूर्य प्रकाश करेंगे ? इत्यादि—इसके उत्तरमें प्रभुने कहा—(गोयमा) हे गौतम ! (लवणे णं समुद्वे चत्तारि चंदा पभासिसु वा, ३, चत्तारि सूरिया तविसु वा ३, वारसोत्तरं नक्खत्तसयं जोगं जोइंसु वा ३, तिननि वावन्ना महग्गहसया चारं चरिसु वा ३, दोन्नि सय सहस्सा सत्तट्ठि च सहस्सा नव सया तारागण कोडिकोडीणं सोहं सोहिसु वा ३) इति—लवण समुद्र में चार चन्द्रमाओं ने प्रकाश किया है, अब भी वे इतने ही वहाँ प्रकाश करते हैं और आगे भी वे इतने ही वहाँ प्रकाश करते

यना करवामां आवी छे अवी न वक्तव्यता अर्धी पण्ण थवी लेधये आ विषयने अनुलक्षीने त्यां नीये प्रमाणे उल्लु छे—(केवह्या चंदा पभासिसु वा ३, केवह्या सूरिया तविसु वा ३) इत्यादि “ छे लदन्त ! लवण समुद्रमां केटला चन्द्रमा प्रकाशता इता ? केटला प्रकाशे छे ? केटला प्रकाशसे ? तथा त्यां केटला सूर्यं तपता इता ? वर्तमानमां केटला सूर्यं तपे छे ? अने लविष्यमां केटला सूर्यं तपसे ? ” वगेरे.

भडावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” छे गौतम ! (लवणेणं समुद्वे चत्तारि चंदा पभासिसु वा ३, चत्तारि सूरिया तविसु वा ३, वारसोत्तरं नक्खत्तसयं जोगं जोइंसु वा ३, तिननि वावन्ना महग्गहसया चारं चरिसु वा ३, दोन्नि सयसहस्सा सत्तट्ठि च सहस्सा नव सया तारागण कोडीकोडीणं सोहं सोहिसु वा ३) इत्यादि. लवण समुद्रमां भूतकालमां चार चन्द्रमा प्रकाशता इता, वर्तमानमां केटला न चन्द्रमा प्रकाशे छे अने लविष्यमां पण्ण त्यां केटला न चन्द्रमा

टीका—‘सद्ये जं मते । समुद्रे केवइया च्चा पमासिसु वा, पमासिति वा, पमासिस्तिति वा ?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! लवणे खलु समुद्रे कियन्तश्चन्द्राः प्रामासिपत वा, प्रमासन्ते वा, प्रमामिष्यते वा ? ‘एष जहा जीवामिगमे’ एवं वक्ष्यमाणरीत्या यथा जीवामिगमसुभ्रे लवणसमुद्रादौ चन्द्रादिज्योतिष्कविषयकवक्तव्यता उक्ता तथा अत्रापि लवणसमुद्रादौ चन्द्रादिप्रकाशादि विषयकवक्तव्यता

शोभा को विस्तार है, विस्तारते हैं और विस्तारेंगे । यहाँ तक कहना चाहिये । हे भदन्त ! आपके द्वारा कहा गया यह सब विषय सर्वथा सत्य है, हे भदन्त ! आपके द्वारा कहा गया यह सब विषय सर्वथा सत्य है इस प्रकार कहकर ये गौतम यावत् अपने स्थान पर धिराजमान हो गये ।

टीकार्थ—यहाँ ज्योतिष्कों का प्रकरण चल रहा है—अतः लवण समुद्र आदिकों में चन्द्रादि ज्योतिष्कों की वक्तव्यता इस सूत्र द्वारा सूत्रकार ने कही है इसमें गौतम ने प्रश्न से ऐसा पूछा है (लवणे जं मते ! समुद्रे केवइया च्चा पमासिसु वा, पमासिति वा, पमासिस्तिति वा) हे भदन्त ! लवण समुद्र में कितने चन्द्रमा प्रकाशित हुए हैं, कितने यहाँ वर्तमान में प्रकाश करते हैं और आगे भी वहाँ कितने चन्द्रमा प्रकाश करेंगे ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(एवं जहा जीवामिगमे) हे गौतम ! वक्ष्यमाणरीति के अनुसार—जैसा जीवामिगम सूत्र में लवणसमुद्र आदिकों में चन्द्रादि ज्योतिष्क विषयक वक्तव्यता कही गई है उसी तरह से वह चन्द्रादिप्रकाशविषयकवक्तव्यता यहाँ पर भी सब

तेभ्यो शोभता इत्या शोभते छे अने शोभथे ” आ कथन पर्वन्तु सभस्त कथन लब्धी प्रदत्तु कस्य लोभजे छे भदन्त ! आपनी बात साची छे छे भदन्त ! आपी आ विषयनु के प्रतिपादन क्यु ते सबथा सत्य छे आ प्रभावे कहीने प्रभुने वक्ष्यमाणरीतिने जीवम स्वामी तेभने स्थाने भिसी जहा ।
टीकाय—ज्योतिषिकेभ्यो ज्योतिष्कान् आसी रथो छेवथी सूत्रकारे एवञ्च समुद्र वजरेभं य इति ज्योतिषिकेभ्यो वक्ष्यमाणानुं आ सूत्र द्वारा कथन क्युं छे जीवम स्वामीने प्रभा —(लवणे जं मते । समुद्रे केवइया च्चा पमासिसु वा, पमासिति वा पमासिस्तिति वा ?) छे भदन्त ! एवञ्च समुद्रमां लवणसुभ्रमां इदंथा य इमा प्रकाशता इत्या ? एतमानमा इदंथा चन्द्रमा प्रकाशे छे ? अथि ज्यमां इदंथा चन्द्रमा प्रकाशये ?

भदन्तीर प्रभुने उत्तर—(एवं जहा जीवामिगमे) छे जीवम । एषा किमम सूत्रमां एवञ्च समुद्रादिभ्यो चन्द्रादि ज्योतिषिके विषयक केपी यत्

अविभतरपुत्रखरद्वमणुस्सखेत्ते, एणसु सव्वेसु जहा जीवाभिगमे जाव—“एगससीपरि-
वारोतारागणकोडिकोडीणं ’ धातकीखण्डे कालोदे पुण्करवरे, आभ्यन्तरपुण्क-
रार्द्धमनुष्यक्षेत्रे, एतेषु सर्वेषु पञ्चसु यथा जीवाभिगमे चन्द्रादिप्रकाशादिकमुक्तं
तथैवात्रापि तद् वक्तव्यम्, तथा चोक्तं तत्र—‘धायईसंडे णं भंते! दीवे केवइया चंदा
पभासिसु वा ३, केवइया सूरिया तविसु वा ३, इत्यादि प्रश्नाः पूर्ववदेव कल्पनीयाः,
उत्तरं तु—‘गोयमा! वारसचंदा पभासिसु वा ३ वारससूरिया तविसु वा ३? एवं ।

चउवीसं ससिरविणो नक्खत्तसया य तिन्नि छत्तीसा ।

एगं च गहसहस्स छपन्नं धायईसंडे ॥ १ ॥

प्रकट करने के लिये सूत्रकार कहते हैं—(धायईसंडे, कालोदे, पुत्रखर-
वरे अविभतरपुत्रखरद्वमणुस्सखेत्ते एणसु सव्वेसु जहा जीवाभिगमे
जाव) “ एग ससी परिवारा तारागणकोडिकोडीणं ” धातकीखण्ड में,
कालोद में, पुण्करवर में, आभ्यन्तरपुण्करार्ध में और मनुष्यक्षेत्र में इन
पांच स्थानों में—जीवाभिगमसूत्रोक्त चन्द्रादिप्रकाशविषयक वक्तव्यता
की तरह चन्द्रादि ज्योतिष्क प्रकाश वक्तव्यता जाननी चाहिये वहां
वह वक्तव्यता इस प्रकार से कही गई है ‘ धायईसंडे णं भंते! दीवे
केवइया चंदा पभासिसु वा ३, केवइया सूरिया तविसु वा ३ ” इत्यादि,
हे भदन्त! धातकी खण्ड में कितने चन्द्रमाओं ने प्रकाश किया है ?
अब वहां कितने चन्द्रमा प्रकाश करते हैं और भी कितने चन्द्रमा वहां
प्रकाश करेंगे ? इसी तरह से सूर्यों के द्वारा प्रकाश करने की वक्तव्यता
के विषय में प्रश्न जानना चाहिये । इत्यादि—इसके उत्तर में प्रभु कहते
हैं—हे गौतम! धातकी खण्डमें १२ चन्द्रमाओं ने और १२ सूर्यों ने अपना
२ कार्य किया है, अब भी वे अपना २ कार्य करते हैं और आगे भी

(धायईसंडे, कालोदे, पुत्रखरवरे, अविभतरपुत्रखरद्वमणुस्सखेत्ते एणसु सव्वेसु
जहा जीवाभिगमे जाव एग ससी परिवारो तारागणकोडिकोडीणं) धातकीखंड,
कालोद, पुण्करवर, आभ्यन्तर पुण्करार्धं अने मनुष्यक्षेत्र, आ पांच स्थानोंमां
जीवाभिगम सूत्रमां कथा प्रमाणेण च चन्द्रादिना प्रकाशनी वक्तव्यता समञ्जवी.
त्यां ते वक्तव्यता नीचे प्रमाणे कही छे—

(धायईसंडे णं भंते! दीवे केवइया चंदा पभासिसु वा ३, केवइया सूरिया
तविसु वा ३) इत्यादि छे भदन्त! धातकीखंड द्वीपमां केटला चंद्रमा प्रका-
शता इता ? केटला चंद्रमा प्रकाशे छे ? अने केटला चंद्रमा प्रकाशता रइशे ?
अने प्रमाणे सूर्यना प्रकाश विषेनी वक्तव्यता विषयक प्रश्नो पणु समञ्जवा.
महावीर प्रभुनो उत्तर—धातकीखंडमां १२ सूर्यं अने १२ चंद्रमा
भूतकाणमा प्रकाशता इता, वर्तमानमां प्रकाशे छे अने लविध्यमां पणु प्रकाशसे.

मक्ष पूर्वोक्त एव, उक्तमाह—गोक्षम । रुचणे खलु समुद्रे चत्वारश्चन्द्राः मामासिषत्
 वा ३ चत्वार सूर्या अतानयन् वा, द्वादशक्षरं नक्षत्रं च योगम् अपुत्रन् वा ३ द्विषणा-
 शदधिकानि त्रीणि महाप्रदधानानि चारम् अवरन् वा ३, द्वे श्रुतसहस्रे सप्तपष्टि च सप्त
 स्राणि, नव श्रुतानि तागागजादिजाटीनाम् क्षोमामशोमयन् वा ३ । जीवाभिगम
 घृयपाठस्य भवषिमाह— मात्र ताराओ यावत् तारा तागपयन्त सत्सप्रायम् । अथ
 धातकीखण्डे चन्द्रादिप्रकाशादिवक्तव्यतामाह— ' धायान्दे, काशोदे पुक्करबरे

रहेगे । इसी प्रकार से यहाँ चार सूर्य पहिळे तपे हैं, अप भी इतने ही
 यहा आतप प्रदान करते हैं और आगे भी इतने ही सूर्य यहाँ आतप
 देते रहेंगे । ११० नक्षत्रों ने वहा उपोति को चमकाया है, अथ भी इतने
 ही नक्षत्र यहा अपनी उगानि को चमकाते हैं और आगे भी ये इतने
 ही अपनी उपोति को यहा चमकाते रहेंगे । ३५० महाप्रदों ने यहाँ
 अपनी चाल चली है अथ भी इतने ही ये यहाँ अपनी चाल चलते हैं
 और आगे भी ये इतने ही अपनी चाल पर चलते रहेंगे । दो लाख,
 सड़सठ हजार ना सौ तारागणों की कोटिकोटी ने यहाँ पहिळे अपनी
 जोमा बिस्ती है, अथ भी ये इतने ही अपनी जोमा बिस्तीरते हैं और
 आगे भी ये इतने ही अपनी जोमा बिस्तीरते रहेंगे । यहाँ पर जीवा
 भिगम का पाठ कर्त कर का ग्रहण करना चाहिये—इसके लिये (जाब
 ताराओ) ऐसा कहा गया है—म गोत्र तारागम्य यत्र पाठ ग्रहण करना
 चाहिये । अथ धातकी खण्ड में चन्द्रादि सप्तमी प्रकाश यत्सप्यता को

प्राथम्ये ज्येष्ठ प्रभावे त्वां वा ३ सूत्र पदेवा तपता दत्ता क्षीरभां तपे ऐ
 अने कविप्रभां पत्र तपये । त्वां ११२ नक्षत्रे भूतभाजभां पीतानो प्राथम्य
 आपता दत्ता वनमानभां पत्र ज्येष्ठान् नक्षत्रे त्वां प्राथम्य अपि ऐ अने
 कविप्रभां पत्र ज्येष्ठान् नक्षत्रे त्वां पीतानो प्राथम्य आपता इहेथे भूत
 भाजभां त्वां ३५२ मक्षप्रदो पीतानी भात धातव्य दत्ता वनमानभां
 पत्र ज्येष्ठान् मक्षप्रदो त्वां पीतानी भात आने ऐ, अने कविप्रभां पत्र
 ज्येष्ठान् मक्षप्रदो त्वां पीतानी भात आपता इहेथे २६७६०० तारागणोन्मी
 होरहोदि भूतभाज । त्वां पीतानी शोभा धनवन्ती इती वनमानभां पत्र तेजो
 त्वां पीतानी शोभा धनये ऐ अने कविप्रभां पत्र तेजो तेजनी ऐ वा
 धनवन्ती ऐथे अदी सप्तभिप्रम सूर्यो फल इया सुधी क्रमव ११११ने
 उ ते इव कर्तारो आ सूर्यो माग ०१५५५५५ ०५५५५५ ०५५५५५५
 त्वां ज्येष्ठान् मक्षप्रद १११५ इहेरुथ्य अ०५५ ० इवे सुभा
 अदीभ०५५ अ०५५ इ वनपी प्रा०५५५५५५ ५५५५५५ ५५५५५५ ५५५५५५ ५५५५५५

कालोदर्हिमि एए, चरन्ति संवद्धलेसागा ॥ १ ॥

नवखत्त सहस्र एगं, एग छात्रत्तरं च समयमन्ने ।

छत्र सया छत्रउया, महागहा तिन्नि य सहस्रा ॥ २ ॥

अट्टावीसं कालोदर्हिमि वारस य तह सहस्राइ ।

णव य सया पन्नासा, तारागणकीडिकोडीणं ॥ ३ ॥ सोहं सोहिंसु वा ३ ”

छाया—कालोदे खलु भदन्त ! समुद्रे क्रियन्तश्चन्द्राः प्राभासिपत वा ?

इत्यादि प्रश्नः पूर्ववदेव स्वयमूहनोयः, उत्तरं तु—हे गौतम ।।—

द्वाचत्वारिंशत् च दिनकरा दीप्ताः ।

कालोदधौ एते चरन्ति सम्वद्धलेश्याकाः ॥ १ ॥

नक्षत्रसहस्रमेकम् एकं पट्सप्ततिश्च, शतमन्यत् ।

पट् च शतानि पणवतिः महाग्रहाः त्रीणि च सहस्राणि ॥ २ ॥

अष्टात्रिंशतिः कालोदधौ द्वादश च तथा सहस्राणि ।

नव च शतानि पञ्चाशत् तारागणकोटिकीटीनाम् ॥ ३ ॥

शोभामशोभयन् वा शोभयन्ति वा, शोभयिष्यन्ति वा ।

तथा ‘ पुष्करवरदीवे णं भंते । दीवे केवइया चंदा पभासिसु वा ’ इत्यादि

प्रश्नः, उत्तरं तु—

(सोहं सोहिंसु वा ३) हे गौतम । कालोद समुद्र में ४२ चन्द्रमाओं ने और ४२ सूर्यों ने त्रिकाल संबंधी अपना २ प्रकाशन आदिरूप कार्य किया है । यहां ग्रहों की संख्या तीन हजार छसौ छियानवे ३६९६ हैं । नक्षत्रों की संख्या ग्यारह सौ छिहोत्तर ११७६ हैं तारागणों की अट्टाईस लाख बारह हजार नौ सौ पचास २८१२९५० कोटाकोटी की हैं । (पुष्करवरदीवे णं भंते । दीवे केवइ०) पुष्करवरद्वीप में भी कितने चंद्र सूर्यादिकोने त्रिकालवर्ती प्रकाशन आदि का कार्य किया है ॥१-३॥ इस विषय में गौतम ने पूर्वोक्तरूप से जब प्रश्नु से प्रश्न किया—तो इसके

भडावीर प्रभुने उत्तर—(गोयमा ! वायालीसं चदा) धत्यादि “ सोहं सोहिंसु वा ३ ” धत्यादि—हे गौतम ! कालोद समुद्रमां ४२ चंद्रमा अने ४२ सूर्य लूनकाणमां प्रकाशता इता, वर्तमानमां प्रकाशे छे अने लविष्यमां पणु प्रकाशता इशे. त्या तणु इन्दर छसे छन्नुं (३६९६) अडो छे, ११७६ नक्षत्रे छे अने अट्टावीस लाय पार इन्दर नवसे पचास केटाकेटि तारागणु छे. गौतम स्वामीने प्रश्न—(पुष्करवरदीवेणं भंते । दीवे केवइया) धत्यादि हे भदन्त ! पुष्करवर द्वीपमां केटला चंद्रमा अने सूर्यादिडे लूनकाणमां प्रकाशता इता, वर्तमानमां प्रकाशे छे अने लविष्यमा प्रकाशे ?

अष्टव सय-सहस्रा, तिस्रि सहस्राह सय य सयाइ ।

घायईसडे दीवे तारागण कोडिकोडीणं ॥ २ ॥ सोहसोहिंसु वा २, ”

छाया—घातकीखण्डे खल्ल मदन्त ! द्वीपे फियन्तवन्त्राः प्रामामिपत्त वा, प्रमासन्ते वा, प्रमासिष्यन्ते वा ? फियन्तव सूर्याः अतापयन् वा, तापयन्ति वा, तापयिष्यन्ति वा ? इत्यादि मन्त्राः, उचराणि सु-गौतम ! द्वादश चन्द्रास्तव प्रामामिपत्त वा ३, द्वादश सूर्या उत पयन् वा ३, एव रीत्या चतुर्विंशतिः अस्त्रि रव्यः, नपप्रश्नतानि च श्रीणि पट्टत्रिंशत्, एकं च ग्रहसहस्र पट्टपञ्चाशत् घातकीखण्डे, अष्टव शतसहस्राणि श्रीणि सहस्राणि सप्त च शतानि, घातकीखण्डेद्वीपे तारागणको टिकोटीनां श्लोमाम् अश्लोमयन् वा श्लोमयन्ति वा, श्लोमयिष्यन्ति वा, इति,

तथा—‘ कालोए णं मंते ! समुद्रे केवइया चदा पमासिंसु वा ’ इत्यादि प्रश्नः, उत्तरं तु—‘ गोयमा ।

“ वायाईस चंद्रा, वायाईसं च दिणयरा दिता ।

अपना २ कार्य वे करेगे । (एवं चउबीसं मसि रविणो नक्खल्ल सया य तिस्रि छत्तीसा एग च गह सहस्स छप्पन्न घायई सडे) इम तरह घातकी खण्ड में १२ चन्द्रमा और १२ सूर्य मिलकर २४ हो जाते हैं । नक्षत्रों की संख्या ३१६ और ग्रहों की संख्या १०५६ हो जाती है । तथा तारागणों की संख्या यहां पर “ अष्टवसयसहस्रा तिस्रि सह स्माई सत्त य सयाइ, घायईसडे दीवे तारागण कोडि कोडीण-सोई सोहिंसु वा ३ ” ८०३७०० कोटाकोटी की है । (कालोए ण मंते ! समुद्रे केवइया चंदा पमासिंसु वा) इत्यादि प्रश्न-अर्थात् गौतम ने प्रश्न से ऐसा पूछा-हे मदन्त ! कालोद समुद्र में कितने चन्द्र और सूर्य आदिकों ने अपना २ त्रिकाल मयधी प्रकाशन आदि रूप कार्य किया है ? उत्तर में प्रश्न ने कहा (गोयमा ! वायालीसं चदा) इत्यादि ।

(५५ चउबीस सखिरविणो नक्खल्ल सया य तिस्रि छत्तीसा, एग च गहसहसं छप्पन्नं घायईसडे) आ रीते घातकीखण्डमां १२ चंद्र अने १२ सूर्य भवानी तेमनी संख्या २४ थाय छे त्यां उउइ नक्षत्रे अने १०५६ ग्रहो छे तथा त्यां तारागणोनी संख्या ‘ अष्टवसयसहस्रा तिस्रि सहस्राइं घायईसडे दीवे तारागणकोडिकोडीण सोइ सोहिंसु वा ३) ८०३७०० कोटाकोटी छे

औतम इवाग्नीने प्रश्न—(कालोए णं मंते ! समुद्रे केवइया चदा पमा सिंसु वा) इत्यादि प्रश्नो छे मदन्त ! कालोद समुद्रमा कटला चंद्र अने सूर्य आदिकोले भूवकाशमां पीताने प्रकाश आये छे वर्तमानमां आपे छे अने अविष्यमां पय आपतां रहेये ?

कालोदहिमि एए, चरन्ति संवद्वलेसागा ॥ १ ॥

नक्षत्रसहस्र एगं, एगं छात्रत्तरं च सयमन्नं ।

छत्र सयां छत्रउया, महाग्रहा तिन्नि य सहस्सा ॥ २ ॥

अष्टावीसं कालोदहिमि वारस य तह सहस्साइ ।

णव य सया पन्नासा, तारागणकोटिकोटीणं ॥ ३ ॥ सोहं सोहिंसु वा ३ ”

छाया—कालोडे खलु भदन्त ! समुद्रे क्रियन्तश्चन्द्राः प्राभासिपत वा ?

इत्यादि प्रश्नः पूर्ववदेव स्वयमूहनीयः, उत्तरं तु—हे गौतम !—

द्वाचत्वारिंशत् च दिनकरा दीप्ताः ।

कालोदधौ एते चरन्ति सम्वद्वलेश्यागाः ॥ १ ॥

नक्षत्रसहस्रमेकम् एकं पट्टसप्ततिश्च, शतमन्यत् ।

पट्ट च शतानि पण्णवतिः महाग्रहाः त्रीणि च सहस्राणि ॥ २ ॥

अष्टाविंशतिः कालोदधौ द्वादश च तथा सहस्राणि ।

नव च शतानि पञ्चाशत् तारागणकोटिकीटीनाम् ॥ ३ ॥

शोभामशोभयन् वा शोभयन्ति वा, शोभयिष्यन्ति वा ।

तथा ‘ पुण्ड्रवरदीवे णं भन्ते ! दीवे केवइया चंदा पभासिसु वा ’ इत्यादि

प्रश्नः, उत्तरं तु—

(सोहं सोहिंसु वा ३) हे गौतम ! कालोद समुद्र में ४२ चन्द्रमाओं ने और ४२ सूर्यों ने त्रिकाल संबंधी अपना २ प्रकाशन आदिरूप कार्य किया है । यहाँ ग्रहों की संख्या तीनहजार छसौ छियानवे ३६९६ हैं । नक्षत्रों की संख्या ग्यारह सौ छिहत्तर ११७६ हैं तारागणों की अष्टाईस लाख बारह हजार नौ सौ पचास २८१२९५० कोटाकोटी की हैं । (पुण्ड्रवरदीवे णं भन्ते ! दीवे केवइ०) पुण्ड्रवरद्वीप में भी कितने चंद्र सूर्यादिकोने त्रिकालवर्ती प्रकाशन आदि का कार्य किया है ॥१-३॥ इस विषय में गौतम ने पूर्वोक्तरूप से जब प्रश्न से प्रश्न किया—तो इसके

भडावीर प्रभुने उत्तर—(गोयमा ! बायालीसं चंदा) धत्यादि “ सोहं सोहिंसु वा ३ ” धत्यादि—हे गौतम ! कालोद समुद्रमां ४२ चंद्रमां अने ४२ सूर्यं लूतकाणमां प्रकाशता इता, वर्तमानमां प्रकाशे छे अने लविष्यमां पण्यु प्रकाशता इशे त्या त्रणु इत्तर छसे छन्तुं (उ६६६) अडो छे, ११७६ नक्षत्रे छे अने अष्टावीसं लाभ गार इत्तर नवसे पचासं केटाकोटि तारागणु छे.

गौतम स्वामीने प्रश्न—(पुण्ड्रवरदीवेणं भन्ते ! दीवे केवइया) धत्यादि हे भदन्त ! पुण्ड्रवर द्वीपमां केटला चंद्रमां अने सूर्यादिडे लूतकाणमां प्रकाशता इता, वर्तमानमां प्रकाशे छे अने लविष्यमां प्रकाशे ?

અદ્વેષ સય-સહસ્તા, તિષ્ઠિ સહસ્તાઈ સઘ ય સયા ।

ધાયઈસઘે વીધે તારાગણ કોઢિકોઢીગ ॥ ૨ ॥ સોહસોઈંસુ ધા ૩, ”

છાયા—ઘાતકીલ્ખઘે સ્વલુ મદન્ત ! ઘીપે કિયન્તમન્ત્રાઃ પ્રામાસિપત ધા, પ્રમાસન્તે ધા, પ્રમાસિપ્યન્તે ધા ? કિયન્તમ સૂર્યા અતાપયન્ વા, સાપયન્તિ ધા, સાપયિપ્યન્તિ વા ? इत्यादि प्रश्नाः, उचराणि सु-गौतम ! द्वादश चन्द्रास्तव प्रामासिपत धा ३, द्वादश सूर्या उतपयन् धा ३, एवं रीत्या चतुर्विंशतिः षष्टि स्वयः, नक्षत्रशतानि च शीषि पद्त्रिंशद्, एकं च ग्रहसहस्र फूपञ्चाश्च घातकीलखण्डे, अद्वेष घतसहस्राणि भीषि सहस्राणि सप्त च क्षतानि, घातकीलखण्डेऽपी तारामन्त्रो टिकोटीनां श्लोमाम् अश्लोमय ३ वा श्लोमयन्ति वा, श्लोमयिष्यन्ति वा, इति,

तथा—‘कालोप णं मते ! समुद्रे केवहाया चंदा प्रमासिपु धा ” इत्यादि प्रश्नाः, उचर सु—‘ शोयमा ।

“ वायाईस चंदा, वायाईसं च दिगयरा दिता ।

અપના ૨ કાર્ય ઘે કરે ગે । (ઇયં અઝીસં મસિ રયિણો મક્લ્લસ સયા ય તિષ્ઠિ છત્તીસા ઇગં ય ગહ સહસ્તં ઉપ્પન્ન ધાયઈ સઘે) इम तरह घातकी लखण्ड में १२ चंद्रमा और १२ सूर्य मिलकर २४ हो जाते हैं । नक्षत्रों की संख्या ३३६ और ग्रहों की संख्या १०५६ हो जाती है । तथा तारागणों की संख्या यहाँ पर “ अद्वेषसयसहस्ता तिष्ठि सह स्माइ सस य सयाइ, धायईसઘે વીધે તારાગણ કોઢિકોઢીગ-સોહ સોઈંસુ ધા ૩ ” ૮૦૩૭૦૦ કોટાકોટી કી છે । (કાલોપ ણ મતે ! સમુદ્રે કેવહયા ચંદા પ્રમાસિપુ ધા) इत्यादि प्रश्न-अर्थात् गौतम ने प्रश्नु से ऐसा पूछा-हे भदन्त ! कालोद समुद्र में कितने चन्द्र और सूर्य आदिकों ने अपना २ घिकाल सपघी प्रकाशन आदि रूप कार्य किया है ? उत्तर में प्रश्नु ने कहा (शोयमा ! वायालीम चंदा) इत्यादि ।

(ઇયં અઝીસ સસિરવિણો મક્લ્લસ સયા ય તિષ્ઠિ છત્તીસા, ઇગ ય ગહસહસ્તં ઉપ્પન્ન ધાયઈસઘે) આ રીતે ધાતકીલખઢમાં ૧૨ ચંદ્ર અને ૧૨ સૂર્ય મળીને તેમની સંખ્યા ૨૪ થાય છે ત્યાં ૩૩૬ નક્ષત્રો અને ૧૦૫૬ ગ્રહો છે તથા ત્યાં તારામણોની સંખ્યા ‘ અદ્વેષસયસહસ્તા તિષ્ઠિ સહસ્તાઈ ધાયઈસઘે વીધે તારાગણકોઢિકોઢીગ સોહ સોઈંસુ ધા ૩) ૮૦૩૭૦૦ કોટાકોટી છે

ગૌતમ સ્વામીને પ્રશ્ન—(કાલોપ ણ મતે ! સમુદ્રે કેવહયા ચંદા પ્રમા સિપુ ધા) इत्यादि प्रश्ने. हे भदन्त ! कालोद समुद्रमा केटला चंद्र અને સૂર્ય આદિકોએ જુનકાળમાં પોતાનો પ્રકાશ આપ્યો છે વત માતમાં આપે છે અને બધિધમાં પણ આપતા રહેશે ?

भंते । केवइया चंदा पभासिसु वा ' इत्यादि प्रश्नः, उत्तरं तु- ' गोयमा ।
वावत्तरि च चंदा, वावत्तरि मेव दिनयरादित्ता ।

पुक्खवरदीवडे चरंति एए पभासिता ॥ १ ॥
तिन्नि सया छत्तीसा, छच्च सहस्सा महग्गहाणं तु ।
नक्खत्ताणं तु भवे, सोलाइं दुवे सहस्साइं ॥ २ ॥
अडयाल सयसहस्सा वात्रीसं खलु भवे सहस्साइं ।
दो य सय पुक्खरद्धे, तारागणकोडिकोडीणं ॥ ३ ॥ सोमं सोहिंसु वा ३ ”
छाया-अभ्यन्तरपुष्करार्द्धे खलु भदन्त ! कियन्तश्चन्द्राः प्राभासिपत वा ? ०
गौतम ! द्वासप्ततिश्च चन्द्राः, द्वासप्ततिरेव दिनकरा दीप्ताः ।
पुष्करवरद्वीपार्द्धे चरन्ति, एते प्रभासयन्तः ॥ १ ॥
त्रीणि शतानि पट्त्रिंशत् पट् च सहस्राणि महाग्रहाणां तु ।
नक्षत्राणां तु भवेयुः, षोडश द्वे सहस्रे ॥ २ ॥
अष्ट चत्वारिंशत् शतसहस्राणि, द्वाविंशतिः खलु भवेयुः सहस्राणि ।
द्वे च शते पुष्करार्द्धे तारागणकोटिकोटीनाम् ॥ ३ ॥

पभासिसु वा) हे भदन्त ! आभ्यन्तरपुष्करार्ध में कितने चन्द्रमाओं ने पहिले प्रकाशन कार्य किया है ? वर्तमानमें वे कितने वहां प्रकाशनकार्य करते हैं ? और आगे भी वे कितने वहां प्रकाशनकार्य करेंगे ॥१-३॥ इसी तरह से सूर्यादिकों के कार्य करने के विषय में प्रश्नों का उद्भावन कर लेना चाहिये-इसके उत्तर में प्रभु उनसे कहते हैं-(गोयमा) हे गौतम ! (वावत्तरि च चंदा) इत्यादि ।

(सोहं सोहिंसु वा ३) आभ्यन्तरपुष्करार्ध में ७२ चंद्रमाओं ने और ७२ ही सूर्यों ने अपना २ त्रिकालवर्ती प्रकाशनादिरूपकार्य किया है । यहाँ पर ग्रहों की संख्या ६३३६ और नक्षत्रोंकी संख्या २०१६ है ।

गौतमस्वाभीनो प्रश्न—(अभ्यन्तरपुष्करद्वेण भते ! केवइया चदा पभासिसु वा) हे भदन्त ! आभ्यन्तर पुष्करार्धमां डेटला चंद्रमा प्रकाशता हुता ? वर्तमानमां डेटला चंद्रमा प्रकाशे छे ? अने लविण्यमा डेटला चंद्रमा प्रकाशसे ? अण प्रभासे सूर्य वगेरेना विषयमां पणु त्रणे ढाण स'म'धी प्रश्नो समञ्जवा ।
महावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा । ” हे गौतम ! “ वावत्तरि च चदा ” इत्यादि. “ सोहं सोहिंसु वा ३ ” आभ्यन्तर पुष्करार्धमा ७२ चंद्रमाओं तथा ७२ सूर्यों त्रणे ढाणमां प्रकाश आदि आप्रदानुं कार्य कर्था करे छे. तेमां ६३३६ अडो, २०१६ नक्षत्रो अने ४८२२२०० डेटाडेटि तारागण छे.

' चोयाळ चंद्रसयं, चोयाळं चैव सूरियाण सय ।
 पुनखरवरमि दीवे, मर्मति एए पर्यामिता ॥ १ ॥
 चचारि सहस्साइ, चसीसं चैव होंति नखलत्ता
 छष सया वाचरि, महागहा धारस सहस्सा, ॥ २ ॥
 छमउइ सयसहस्सा, चोयाळीस मवे सहस्साइ ।
 चचारि सया पुक्खरि, तारागणकोटिकोटीण ॥ ३ ॥ सोई सोईसु वा ३ ।
 छाया-चतुमत्वारिंशत् चन्द्रशत, चतुमत्वारिंशत् चैव सूर्याणां शतम् ।
 पुष्करवरे द्वीपे भ्रमन्ति एते प्रकाशयन्तः ॥ १ ॥
 चत्वारि सहस्राणि द्वात्रिंशच्चैव भवन्ति नक्षत्राणि ।
 पट्ट च क्षतानि द्वासप्ततिः महाप्रहा द्वादश सहस्राणि ॥ २ ॥
 पण्णवतिः शतसहस्राणि चतुमत्वारिंशत् मवेयुः सहस्राणि ।
 चत्वारि शतानि पुष्करे तारागणकोटिकोटीनाम् ॥ ३ ॥
 क्षोमामक्षोमयन् वा, क्षोमयन्ति वा, क्षोमयिष्यन्ति वा ।

अत्र पुष्करवरद्वीपे चन्द्रसूर्याणां यत् भ्रमणं प्रोक्तं तत् पुष्करद्वीपाम्बन्तरार्धं
 चर्चिचन्द्रसूर्यानपेक्ष्य प्रोक्तम् । तदग्रे सूत्रकार एव वक्ष्यति । तथा ' अग्निमतरपुष्करवरे

उत्तर में प्रभु ने उनसे ऐसा कहा—(चोयाळ चंद्रसयं) इत्यादि ।

हे गौतम । पुष्करवर द्वीप में १४४ चन्द्रमाओं ने और १४४ सूर्यों
 ने त्रिकालवर्ती अपना प्रकाशन आविर्भाव कार्य किया है । यहाँ पर ग्रहों
 की संख्या १२६७२ है । नक्षत्रों की संख्या ४०३२ है तारागणों की संख्या
 ०६४४४०० छियासवे लाख कोटाकोटि की है । यहाँ पर जो पुष्करवरद्वीप
 में चन्द्र और सूर्यों का भ्रमण कहा गया है वह पुष्कर द्वीपके आम्बन्त
 रार्धवर्ती चन्द्र सूर्यों की अपेक्षा करके ही कहा गया है इसी बात को
 सूत्रकार आगे स्पष्ट कहेंगे । (अग्निमतरपुष्करवरेण भंते । केवहया चरा

महावीर प्रभुने उत्तर—“ चोयाळ चंद्रसयं ” इत्यादि । हे गौतम ।
 पुष्करवर द्वीपमां १४४ चन्द्रमां एव १४४ सूर्यं भूतकाणमां प्रकाशयन्तं तदा,
 वर्तमानमां प्रकाशेते एवने भविष्यमां पक्षु प्रकाशयेत् । त्वां १२६७२ नक्षत्रां एवने
 ४०३२ नक्षत्रां एव त्वां तारागणानि सूर्या ६६४४४०० कोटाकोटि प्रमाणा
 एवने एवने पुष्करवर द्वीपमां अत्र एवने सूर्यानां भ्रमणानी वात करीते ते
 पुष्करद्वीपना आम्बन्तरार्धवर्ती चन्द्र एवने सूर्यानी अपेक्षाको करीते एवने
 वात सूत्रकार आगण प्रकट करवाना छे

णं भंते । केवइया चंदा पभासिसु वा ' इत्यादि प्रश्नः, उत्तरं तु- 'गोयमा ।
वावत्तरि च चंदा, वावत्तरि मेव दिनयरादिता ।

पुक्खवरदीवडे चरंति एए पभासिता ॥ १ ॥

तिन्नि सया छत्तीसा, छच्च सहस्सा महग्गहाणं तु ।

नक्खत्ताणं तु भवे, सोलाइं दुवे सहस्साइं ॥ २ ॥

अडयाळ सयसहस्सा वावीसं खलु भवे सहस्साइं ।

दो य सय पुक्खरद्धे, तारागणकोडिकोडीणं ॥ ३ ॥ सोभं सोहिंसु वा ३ "

छाया-अभ्यन्तरपुष्करार्द्धे खलु भदन्त ! कियन्तश्चन्द्राः प्राभासिपत वा ? ०

गौतम ! द्वासप्ततिश्च चन्द्राः, द्वासप्ततिरेव दिनकरा दीप्ताः ।

पुष्करवरद्वीपार्द्धे चरन्ति, एते प्रभासयन्तः ॥ १ ॥

त्रीणि शतानि पट्त्रिंशत् पट् च सहस्राणि महाप्रहाणां तु ।

नक्षत्राणां तु भवेयुः, षोडश द्वे सहस्रे ॥ २ ॥

अष्ट चत्वारिंशत् शतसहस्राणि, द्वात्रिंशतिः खलु भवेयुः सहस्राणि ।

द्वे च शते पुष्करार्द्धे तारागणकोटिकोटीनाम् ॥ ३ ॥

पभासिसु वा) हे भदन्त ! आभ्यन्तरपुष्करार्ध में कितने चन्द्रमाओं ने पहिले प्रकाशन कार्य किया है ? वर्तमानमें वे कितने वहां प्रकाशनकार्य करते हैं ? और आगे भी वे कितने वहां प्रकाशनकार्य करेंगे ॥१-३॥ इसी तरह से सूर्यादिकों के कार्य करने के विषय में प्रश्नों का उद्भावन कर लेना चाहिये-इसके उत्तर में प्रभु उनसे कहते हैं-(गोयमा) हे गौतम ! (वावत्तरि च चंदा) इत्यादि ।

(सोहं सोहिंसु वा ३) आभ्यन्तरपुष्करार्ध में ७२ चन्द्रमाओं ने और ७२ ही सूर्यों ने अपना २ त्रिकालवर्ती प्रकाशनादिरूपकार्य किया है । यहाँ पर ग्रहों की संख्या ६३३६ और नक्षत्रोंकी संख्या २०१६ है ।

गौतमस्वाभीना प्रश्न—(अभ्यन्तरपुष्करद्वेण भंते ! केवइया चदा पभासिसु वा) हे भदन्त ! आभ्यन्तर पुष्करार्धमां डेटला अद्रमा प्रकाशता इता ? वर्तमानमां डेटला अद्रमा प्रकाशे छे ? अने लविण्यमां डेटला अद्रमा प्रकाशे ? अण प्रभासु सूर्य वगेरेना विषयमा पणु त्रणु ढाण स'अधी प्रश्नो समज्जवा

महावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा । ” हे गौतम ! “ वावत्तरि च चदा ” इत्यादि. “ सोहं सोहिंसु वा ३ ” आभ्यन्तर पुष्करार्धमां ७२ अद्रमाओ तथा ७२ सूर्यो त्रणु ढाणमां प्रकाश आदि आप्रवानुं कार्य कर्था करे छे. तेमां ६३३६ ग्रहो, २०१६ नक्षत्रो अने ४८२२२०० कोटाकोटि तारागणु छे.

श्रीमामशोभयन् वा, शोभयति वा, शोभयिष्यन्ति वा ।

तथा—‘मणुस्सखेचे णं मंते ! केवइया चदा पमासिसु वा’ इत्यादि प्रश्नः ।

उत्तरं तु—‘यचीस चदसय, यचीस चैव सूरियाण सय ।

सयसं मणुस्सलोयं, चरति एए पयासिवा ॥ १ ॥

एकारस य सहस्ता, छप्पि य सोला महागणणं तु ।

छप्प सया छण्णठया, गन्लवा विभि य सहस्ता ॥ २ ॥

अटसीइ सयसहस्ता, घालीससइस्स मणुयलोगमि ।

सच य सया मणूगा, तारागणकोटिकोटीग । ३॥ सोहं सोहिंसु वा ३।

छाया—मनुष्यक्षेत्र खलु भवन्त ! कियन्तश्चन्द्रा मामासिपत वा ? इत्यादि प्रश्नः ।

उत्तरमाह—हे गौतम !—

श्रामिष्वत् चन्द्रश्चतम्, श्रामिष्वत् चैव सूर्याणां शतम् ।

सकल मनुष्यलोके, चरन्ति एषे प्रकाशयन्त ॥ १ ॥

एकादश च सहस्राणि, पडपि (शतानि) पोडश महाप्रहाणां तु ।

पट् च शतानि पञ्चसिः, नक्षत्राणि प्रीणि च सहस्राणि ॥ २ ॥

अटशीति शतसहस्राणि, चत्वारिंशत् सहस्राणि मनुष्यलोके ।

सप्त च शतानि अन्यूनानि, तारागणकोटिकोटीनाम् ॥ ३ ॥

श्रीमामशोभयन् वा ३, इत्यादि ।

तारागणों की संख्या ४८२२०० कोटाकोटि की है ॥१-३॥ (मणुस्स खेक्षेणं मंते ! केवइया चदा पमासिसु वा) इत्यादि प्रश्न—इसके उत्तर में प्रश्नने ऐसा कहा—(यचीस चदसय) इत्यादि ।

(सोहं सोहिंसु वा ३) हे गौतम ! मनुष्यलोक में—बाईं द्वीप में— १३२ ऋतुमा और १३२ सूर्य प्रिकालसयची अपना २ प्रकाशनकार्य करते रहते हैं । यहा पर ग्रहों की संख्या ११६१६ है । नक्षत्रों की संख्या १६९६ है । तारागणों की संख्या ८८४०७०० कोटाकोटि की है ।

जीतमश्वाभीना प्रश्न—(मणुस्सखेचे णं मंते ! केवइया चदा पमासिसु वा) के भवन्त ! मनुष्यलोकां डेटवा यइमा अने सूर्यादिडे प्रहायणा इत्थ वतमानमां प्रहाये थे अने अविष्यमां प्रहायये ?

प्रहायिरे प्रभुने। उत्तर—‘यचीस चदसय’ इत्यादि ‘सोहं सोहिंसु वा ३’ के जीतम ! मनुष्यलोकां—अर्थात् द्वीपमां १३२ ऋतु अने १३२ सूर्य तवे कागमां प्रहाये अदि आपवानुं कायं इवां इरे थे त्यां ११६१६ ग्रहो ३६६६ नक्षत्रो अने ८८४०७०० कोटाकोटि ताद्यनय भूतारागणमां यम ज्जा इत्थ वतमानमां यमके थे अने अविष्यमां पठ अमपत्ता रहेये।

ज्योतिष्कगण कोष्टकम्

ज्योतिष्कगणः	चन्द्राः	सूर्याः	ग्रहाः	नक्षत्राणि	तारागणः
जम्बूद्वीपे	२ चन्द्रौ	२ सूर्यौ	१७६	६६	१,३३,९५० कोटीकोटीनाम्
लवणसमुद्रे	४ चन्द्राः	४ सूर्याः	३६२	११२	२,६७,९०० कोटीकोटीनाम्
धातकोखण्डे	१२ चन्द्राः	१२ सूर्याः	१०५६	३३६	८,०३,७०० कोटीकोटीनाम्
कालोदधिसमुद्रे	४२ चन्द्राः	४२ सूर्याः	६६९६	११७६	२८,१२,९५० "
(पुष्करवर्द्वीपे	१४४	१४४	१२६७२	४०३२	९६,४४,४०० ")
पुष्करवर्द्वीपा- भ्यन्तरार्द्धे	७२ चन्द्राः	७२ सूर्याः	६३३६	२०१६	४८,२२,२०० ,,
सार्धद्वीपद्वये	१३२ चन्द्राः	१३२ सूर्याः	११६१६	३६९६	८८,४०,७०० ,,

अथ जीवाभिगमसूत्रपाठस्य अवधिमाह—‘ जाव ’ इत्यादि, ‘ जाव एगससी-परिवारो तारागणकोडिकोडीणं ’ यावत्—एकशशिपरिवारस्तारागणकोटिकोटी-नाम्, अस्य पूर्वांशस्त्वेवम्—“ अट्टासीइं च गहा अट्टावीसं च होति नक्खत्ता । एगससीपरिवारो एत्तो तारागण वोच्छामि, छावट्टि सहस्साइं, नव चैव सयाइं पच सयलाइं ’ त्ति । अष्टाशीतिश्चग्रहाः, अष्टाविंशतिश्च भवन्ति नक्षत्राणि, एकशशिपरिवारः इत्तः तारागणं वक्ष्यामि—पट्टपण्डितः सहस्राणि नवचैव शतानि पञ्च सकलानि ।

इनकी संख्या बतानेवाला कोष्टक टीकामें दिया हैं जिज्ञासुजन वहांसे देख लें ।

इन पूर्वोक्त पांच स्थानों में जीवाभिगम सूत्र का पाठ कहांतक का लेना चाहिये इसके लिये सूत्रकार कहते हैं (जाव एगससीपरिवारो तारागणकोडिकोडीणं) कि यहां तक का जीवाभिगमसूत्रोक्त पाठ यहां ग्रहण करना चाहिये । इस पाठ का पूर्वांश (अट्टासीइं च गहा) इत्यादि । एक चन्द्र के परिवार में ८८ ग्रह, २८ नक्षत्र, ६६९७५ तारागण की कोटाकोटी होती है ।

उपर्युक्त साते स्थानोमां यंद्रमा, सूर्यो, अडो, नक्षत्रो अने तारागणुनी संभ्या अतावतो डोडो टीकामा आयेो छे—

आ पूर्वोक्त पाच स्थानोमा अत्राभिगम सूत्रो पाठ कथा सुधी अइल्लु करवानो छे ते सूत्रकारे “ जाव एग ससी परिवारो तारागणकोडिकोडीणं ” आ सूत्र द्वारा प्रकट कथुं छे. आ सूत्रपाठोने पूर्वांश “ अट्टासीइं च गहा ” इत्यादि छे. अट्टेके के अेक चन्द्रना परिवारमा ८८ अड, २८ नक्षत्रो अने ६६६७५ डोटाकोटि तारागणुने समावेश थाय छे

गौतमः पृच्छति 'पुष्करोदे णं मते ! समुद्रे केवइया घरा पमासिसु वा १ !' हे भदन्त ! पुष्करोदे खलु समुद्रे कियन्तमन्त्राः प्रामासिपत वा, प्रमासन्ते वा, प्रमासिप्यन्ते वा ? मगवानाह—'एव सन्धेसु दीवसमुद्रेसु जोइसियाणं माणियम्ब' हे गौतम ! एव वदपमाणरीत्या सर्वेषु द्वीपसमुद्रेषु ज्योतिष्काणां यथासम्भवं संख्याता असख्याताश्च चन्द्रादयः प्रामासिपत वा इत्यादि मणितज्यम्, तथा चेत्यम्—'पुष्करादे णं मते ! समुद्रे केवइया घरा पमासिसु वा २ ?' हे भदन्त ! पुष्करोदे खलु समुद्रे कियन्तमन्त्राः प्रामासिपत वा, प्रमासन्ते वा, प्रमासिप्यन्ते वा ?

अथ गौतम प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं—(पुष्करोदे णं मते ! समुद्रे केवइया घरा पमासिसु वा ?) हे भदन्त ! पुष्करोद समुद्र में कितने चन्द्रमाओं ने प्रकाश किया है ? अथ कितने चन्द्रमा प्रकाश करते हैं ? और आगे भी वहाँ कितने चन्द्रमा प्रकाश करेंगे ? उत्तर में प्रश्नु कहते हैं—(एवं सन्धेसु दीवसमुद्रेसु जोइसियाणं माणियम्ब) हे गौतम ! समस्त द्वीप समुद्रों में ज्योतिष्कगण के यथासम्भव संख्यात असख्यात चन्द्रमाओं ने पहिले प्रकाश किया है, अथ भी वे वहाँ पर प्रकाश करते हैं और आगे भी वे वहाँ पर प्रकाश करेंगे इत्यादिरूप से कहना चाहिये। जीवाभिगमसूत्र में ऐसा ही कहा है—(पुष्करोदे णं मते ! समुद्रे केवइया घरा पमासिसु वा ३ ?) गौतम ने प्रश्नु से ऐसा ही पूर्वोक्तरूप में पूछा है कि—हे भदन्त ! पुष्करोद समुद्र में कितने चन्द्रमाओं ने पहिले प्रकाश किया है, अथ भी वहाँ पर कितने चन्द्रमा प्रकाश करते हैं—अथा आगे भी वहाँ पर कितने चन्द्रमा प्रकाश करेंगे ? इत्या

गौतम स्वामीने प्रश्न—(पुष्करोदे णं मते ! समुद्रे केवइया घरा पमासिसु वा ?) हे भदन्त ! पुष्करोद समुद्रमां डेटला चन्द्रमा भूतकाणमां प्रकाशता इता वतमानमां प्रकाशे छे अने अविष्यमां प्रकाशये ?

भद्वीर प्रश्नुने उत्तर—(एवं सन्धेसु दीवसमुद्रेसु जोइसियाणं माणियम्ब) हे गौतम ! समस्त द्वीप समुद्रोंमां ज्योतिष्कगणता यथासम्भव संख्यात असख्यात चन्द्रमा आदिहोअे भूतकाणमां प्रकाश आप्थे इने, वतमानमां पत्तु तेअे त्वां प्रकाश आप्थे छे अने अविष्यमां पत्तु आप्थे अवाभिगम सूत्रमां आ विषयने अनुवक्षीने अेनु कसु छे—

गौतम स्वामीने प्रश्न—(पुष्करोदे णं मते ! समुद्रे केवइया घरा पमासिसु वा ३ ?) हे भदन्त ! पुष्करोद समुद्रमां पहिले डेटला अ इमा प्रकाशता इता ? वतमानकाणे त्वां डेटला अ इ प्रकाशे छे ? अविष्यमां त्वां डेटला चन्द्र प्रकाशये ? इत्यादि प्रश्ने अदीं अठवु इरवा अेछेअे

इत्यादि प्रश्ने उत्तरं—‘संखेज्जा चंदा पभासिसु वा ३’ हे गौतम ! पुष्करोदे समुद्रे संख्याताश्चन्द्राः प्राभामिपत वा, प्रभासन्ते वा, प्रभासिष्यन्ते वा, तदवधिमाह—‘जाव सयंभूरमणे जाव सोभं सोभिसु वा, सोभंति वा, सोभिस्संति वा’ यावत् स्वयंभूरमणे समुद्रे यावत्—असंख्याताश्चन्द्राः प्राभामिपत वा ३, एवमेव सूर्या अपि असंख्याता अतापयन् वा, तापयन्ति वा, तापयिष्यन्ति वा, एवं ग्रहणक्षत्रतारागणा असंख्याता एव यथासंभवं शोभामयन् वा, शोभयन्ति वा, शोभयिष्यन्ति वा । द्वीपसमुद्रनामानि चेत्थम्—पुष्करोदसमुद्रादनन्तरो वरुणवरो द्वीपः, तदनन्तरं वरुणोदः

दिरूप से पूछने पर प्रभु ने उनसे कहा—(संखेज्जा चंदा पभासिसु वा ३) हे गौतम ! पुष्करोद समुद्र से संख्यात चन्द्रमाओं ने प्रकाश किया है, अब भी वहाँ पर वे प्रकाश करते हैं और आगे भी वे वहाँ पर प्रकाश करेंगे । इनके प्रकाश करने का संबंध कहीं तक लेना चाहिये—इसके उत्तर में उसकी अवधि बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि (जाव सयंभूरमणे जाव सोभं सोभिसु वा, सोभंति वा, सोभिस्संति वा) यहाँ तक प्रकाश करने का संबंध लगा लेना चाहिये । अर्थात् यावत् स्वयंभूरमणसमुद्र में ज्योतिष्क संबंधी असंख्यात चन्द्रों ने प्रकाश किया है, वहाँ वे प्रकाश करते हैं आगे भी वहाँ वे प्रकाश करेंगे । इसी तरह से असंख्यात सूर्यों ने वहाँ अपना आतप फैलाया है, अब भी वे वहाँ अपना आतप फैलाते हैं, और आगे भी वे वहाँ अपना आतप फैलावेंगे । इसी तरह से असंख्यात, ग्रह, नक्षत्र और तारागणों ने भी यथासंभव वहाँ की शोभा को सुशोभित किया है, करते हैं और आगे भी वे वहाँ शोभा को सुशोभित करेंगे । द्वीप

भडावीर प्रभुने उत्तर—“सखेज्जा चंदा पभासिसु वा ३) हे गौतम ! पुष्करोद समुद्रमां पडेला संख्यात चन्द्रमा प्रकाशता इता, वर्तमानमां पणु तेजो त्यां प्रकाशे छे अने लविष्यमा पणु प्रकाशता रडेशे (जाव सयंभूरमणे जाव सोभं सोभिसु वा, सोभंति वा, सोभिस्संति वा) स्वयंभूरमणु समुद्र पर्यन्तनां स्थानेमां ज्योतिष्क संधी असंख्यात चन्द्रो पोताने प्रकाश इलावता इता, वर्तमानमां पणु इलावे छे अने लविष्यमा पणु इलावशे अने प्रमाणे असंख्यात सूर्यो भूतकाणमा त्या तपता इता, वर्तमानमा तपे छे अने लविष्यमा पणु तपशे अने प्रमाणे असंख्यात ग्रहो, नक्षत्रो अने तारागणो पणु त्या शोभा वधारता इता, वर्तमानमा शोभा वधारे छे छे अने लविष्यमा पणु शोभा वधारता रडेशे द्वीप समुद्रोना नाम नीजे

समुद्रः, एव क्षीरधर-क्षीरोदौ, घृतधर घृतोदौ, क्षोदधर क्षोदोदौ, नन्दीधरधर नन्दीधर-धरोदौ, अरुणाक्ष्णोदौ, अरुणधरा-क्ष्णधरोदौ, अरुणधराधमासार्कानराधमासोदौ, कुण्डल-कुण्डलोदौ, कुण्डलधर-कुण्डलधरोदौ, कुण्डलधराधमास-कुण्डलधराधमासोदौ, रुचक-रुचकोदौ, रुचकधर-रुचकधरोदौ, रुचकधराधमास-रुचकधराधमासोदौ, इत्यादीनि असख्यातानि सन्ति, यत असख्याता द्वीपसमुद्राः सन्ति । अन्ते गौतमो मगधवृषान्य सत्यापयन्नाह—' सेष मंते । सेषं मंते ! सि ' हे भवन्त ! तदेवं-मषदुक्तं

समुद्रों के नाम इस प्रकार से हैं—पुष्करोद समुद्र से आगे—वरुणधर द्वीप इसके बाद अरुणोदसमुद्र, इसी तरह से क्षीरधरद्वीप, क्षीरोद समुद्र, घृतधरद्वीप, घृतोदसमुद्र, क्षोदधरद्वीप, क्षोदसमुद्र, नन्दीधर द्वीप नन्दीधरसमुद्र अरुणद्वीप अरुणोदसमुद्र, अरुणधरद्वीप, अरुणधरोदसमुद्र, अरुणधराधमासद्वीप, अरुणधराधमासोदसमुद्र, कुण्डलद्वीप कुण्डलोदसमुद्र, कुण्डलधरद्वीप, कुण्डलधरोदसमुद्र, कुण्डलधराधमासद्वीप, कुण्डलधराधमासोदसमुद्र, रुचकद्वीप रुचकोदसमुद्र, रुचकधरद्वीप रुचकधरोद समुद्र, रुचकधराधमास द्वीप रुचकधराधमासोदसमुद्र, इत्यादि असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं । अन्त में स्वयंभूरमण समुद्र है । अन्त में गौतम मगधान् के वचनों में सत्यता की स्थापना करते हुए कहते हैं—(सेष मंते । सेषं मंते । सि) हे भवन्त ! आपके द्वारा कहा गया यह सप्त विषय सर्वथा सत्य है—हे भवन्त ! आपके द्वारा कहा गया यह सप्त विषय सर्वथा सत्य है । इस प्रकार कह कर वे

प्रभाषे थे—पुष्करोद समुद्र, त्वारणाध वरुणधर द्वीप, त्वारणाध वरुणोद समुद्र, क्षीरधर द्वीप, क्षीरोद समुद्र, घृतधर द्वीप, घृतोद समुद्र, क्षोदधर द्वीप, क्षोद समुद्र, नन्दीधर द्वीप, नन्दीधर समुद्र, अरुणु द्वीप, अरुणोद समुद्र, अरुणधर द्वीप, अरुणधरोद समुद्र, अरुणधराधमास द्वीप, अरुणधराधमासोद समुद्र, कुण्डल द्वीप कुण्डलोदसमुद्र, कुण्डलधर द्वीप कुण्डलधरोद समुद्र, कुण्डलधराधमास द्वीप, कुण्डलधराधमासोद समुद्र रुचक द्वीप रुचकोद समुद्र रुचकधर द्वीप, रुचकधरोद समुद्र, रुचकधराधमास द्वीप, रुचकधराधमासोद समुद्र इत्यादि असंख्यात द्वीप अने समुद्रो थे अने अन्ते स्वयंभूरमण समुद्र थे

इसे अममानना वचनोने प्रभाषणभूत गज्जिने जीतम स्वामी ठडे थे थे " सेष मंते । सेषं मंते । सि) हे भवन्त ! आपनी बात सत्य है ठे भवन्त ! आप विषयनुं आपने ने प्रतिपदन क्युं ते सप्तथा सत्य है ठे आ प्रभाषे क्वीने मङ्गलीर प्रभुने पदवा नभस्कार करीने तेवो पीताने स्थाने

सर्वं सत्यमेवास्ति हे भदन्त ! तदेवम्-भवदुक्तं सत्यमेवास्ति, श्रद्धातिशय
घोतनाय द्विरुक्तिः ॥ सू० २ ॥

इति श्री-विश्वविख्यात - जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक - पञ्चदशभाषाकलि-
तललितकलापालापक-प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-
श्रीशाहूत्रपतिकोल्हापुरराजप्रदत्त - ' जैनशास्त्राचार्यः ' - पदभूषित-
कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि- ' जनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री-
घासीलालव्रतिविरचितायां श्रीभगवतीसूत्रस्य प्रमेयचन्द्रिकाख्यायां
व्याख्यायाम् नवमशतकस्य द्वितीयोद्देशकः समाप्तः ॥ ९-२ ॥

गौतम यावत् अपने स्थान पर विराजमान हो गये। (यहाँ पर (सेव
भते ! सेव भते !) ऐसा जो दो बार गौतम ने कहा है वह प्रभु के वचनों
में अपनी श्रद्धा की अतिशयता प्रकट करनेके लिये ही कहा है ॥सू० २॥
श्री जैनाचार्य जैनधर्म दिवाकर श्री घासीलालजी महाराजकृत " भगव-
तीसूत्र"की प्रमेयचन्द्रिका व्याख्याके नववे शतकका दूसरा
उद्देशक समाप्त ॥ ९-२ ॥

भेसी गया. अर्ही " सेव भते ! सेव भते ! " आ प्रभाण्णे जे वार उडेवानुं
कारण्णे जे छे के आ प्रभाण्णे जे वार उडेवाथी मडावीर प्रलुना वचनेभां
गौतम स्वामीनी अपार श्रद्धा प्रकट थाय छे ॥ सू०२ ॥

जैनाचार्य श्री घासीलालजी महाराज कृत भगवती सूत्रनी प्रमेयच-
न्द्रिका व्याख्याना नवमा शतकनो धीजे उद्देशक समाप्त ॥६-२॥

द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे जुहु (क्षुद्र) हिमवतो वर्षधरपर्वतस्य पौरस्त्यात्
 चरमान्तात् लवणसमुद्रम् उत्तरपौरस्त्य श्रीणि योजनशतानि अचगाह्य, अत्र खलु दाधि
 णास्यानाम् एकोरुकमनुष्याणाम् एकोरुकद्वीपोनाम द्वीपः प्रकृतः । सः खलु हे
 गौतम ! श्रीणि योजनशतानि आयामविष्कम्भेण नव एकोनपञ्चाशत् योजनशतानि
 किञ्चिद्विशेषानानि परिहस्येण प्रकृतः, स खलु एकया पद्मवरवेदिकाया, एके
 न च वनपण्डेन सर्वतः समन्तात् सपरिधिः, द्वयोरपि प्रमाणं वर्णकश्च एवमेवेन

एकोरुक मनुष्यों का एकोरुक नामका द्वीप कहाँ पर कहा गया है ?
 (गोयमा) हे गौतम ! (जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्त पन्वयस्ता दाहिणेण
 जुहुहिमवतस्त धामहरपन्वयस्त पुरस्थिमिच्छामो चरिमताओ लवणस
 मुद्र उत्तरपुरस्थिमेण तिभि जोयणसयाहं भोगाहिस्ता एत्थ णं दाहिणि
 ह्माणं एगोरुकमणुस्ताणं एगोरुकद्वीपे नामं द्वीपे पण्णसे) जम्बूद्वीप नामके
 द्वीप में वर्तमान मन्दर पर्वत की दक्षिण दिशा में क्षुद्रहिमवान् वर्षधर
 पर्वत के पौरस्त्य चरमान्त प्रदेश से ईशानदिशा में लवणसमुद्र में
 तीन सौ योजन जाने के बाद ठीक यहाँ पर दक्षिणदिशा के एकोरुक-
 पुगल मनुष्यों का एकोरुक नाम का द्वीप कहा गया है । (तएण गोयमा
 तिभि जोयणसयाहं आयामविष्कम्भेणं णव एकोणवन्ने जोयणसए
 किञ्चि विसेसुणे परिक्खेवेणं पण्णसे) हे गौतम ! उस द्वीप की लंबाई
 और चौड़ाई तीन सौ योजन की है । और परिधि उसकी कुलकम ९४९
 योजन की है । (से णं एगाए पद्मवरवेइयाए एगेणं वणसंसेणं मन्वओ

ओडोरुक मनुष्येणो ओडोरुक नामेणो द्वीप क्वां आवेत्ते) ? (गोयमा) हे
 गौतम ! (जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्त पन्वयस्ता दाहिणेण जुहु हिमवतस्त धामहरपन्व
 यस्त पुरस्थिमिच्छामो चरिमताओ लवणसमुद्र उत्तरपुरस्थिमेण तिभि जोयणसयाहं
 भोगाहिस्ता एत्थ णं दाहिणि ह्माणं एगोरुकमणुस्ताणं एगोरुकद्वीपे नामं द्वीपे पण्णसे)
 जम्बूद्वीप नामका द्वीप में आवेता मन्दर पर्वत की दक्षिण दिशा में क्षुद्रहिमवान्
 वर्षधर पर्वत की पूर्वान्ता सीमान्त प्रदेश की ईशान दिशा में लवणसमुद्र की
 ३०० योजन आयाम वर्तता दक्षिण दिशाना ओडोरुक (जुहु) मनुष्येणो
 ओडोरुक नामेणो द्वीप आवेत्ते (तएण गोयमा ! तिभि जोयणसयाहं आयाम
 विष्कम्भेणं णव एकोणवन्ने जोयणसए किञ्चि विसेसुणे परिक्खेवेणं पण्णसे) हे
 गौतम ! ते द्वीप की लंबाई और चौड़ाई ३०० योजन की है और तेनी
 परिधि (परिमिति) ९४९ योजन वर्तता सहेव ओडी है (से णं एगाए
 पद्मवरवेइयाए एगेणं वणसंसेणं मन्वओ समता सपरिक्खेत्ते) ते द्वीप ओड

क्रमेण यथा जीवाभिगमे यावत् शुद्धदन्तद्वीपो यावत् देवलोकपरिगृहीताः ते मनुष्याः प्रज्ञप्ताः श्रमणायुष्मन् । एवम् अष्टाविंशतिरपि अन्तद्वीपाः स्वकेन स्वकेन आयाम-विष्कम्भेण भणितव्याः, नवर द्वीपे द्वीपे उद्देशकः, एवं सर्वेऽपि अष्टाविंशतिरुद्देशकाः भणितव्याः । तदेवं भदन्त ! तदेवं भदन्त ! इति ॥ सू० १ ॥

नवमस्य तृतीयादिकास्त्रिंशदन्ता उद्देशकाः समाप्ताः

ओ समंता संपरिक्खित्ते) वह द्वीप एक पद्मवरवेदिका से और एक वनखण्ड से चारों ओर से घिरा हुआ है । (दोण्हं वि पमाणं वण्णओ य एवं एणं कमेणं जहा जीवाभिगमे जाव सुद्धदत्त दीवे जाव देवलोग परिगगहिया णं ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो) इन दोनों का वर्णन और प्रमाण इस प्रकार से, इस क्रम से जैसा जीवाभिगम सूत्र में “ यावत् शुद्धदन्त द्वीप है, यावत् हे आयुष्मन् श्रमण ! इस द्वीप के मनुष्य मरकर देवगति में जाते हैं ” यहां तक कहा गया है वैसा है । अर्थात् जीवाभिगम के इस सूत्रतक इनका वर्णन जैसा जीवाभिगम में किया गया है वैसा ही वर्णन वहां से लेकर यहां पर भी करना चाहिये (एवं अट्टावीसंपि अंतरदीवा सएणं सएणं आयामविक्खंभेणं भाणियव्वा) इसी तरह से २८ अंतर्द्वीप भी अपनी २ लंबाई और चौड़ाई से कहना चाहिये । (नवरं दीवे दीवे उद्देशओ एवं सव्वे वि अट्टावीसं उद्देशगा भाणियव्वा-सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति) परन्तु एक एक द्वीप में एक २ उद्देशक जानना चाहिये । इस तरह सब अन्तर्द्वीपोंके उद्देशक

पद्मवरवेदिकाधी अने ओक वनखण्डधी आरे तरश्च घेरायेदीो छे. (दोण्हं वि पमाणं वण्णओ य एव एणं कमेणं जीवाभिगमे जाव सुद्धदत्तदीवे जाव देवलोग परिगगहियाण ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो) आ अन्नेनुं वण्णं जीवाभिगम सूत्रमा जे प्रमाणे करवाभां आवुं छे, ते प्रमाणे अर्धी पणु करवुं लेधये. आ विषयने अनुलक्षिने जीवाभिगम सूत्रमां “ शुद्धदन्त द्वीप छे, हे आयुष्मन् श्रमण ! आ द्वीपना मनुष्य मरीने देवगतिमां नय छे ” आ सूत्रपाठ पयन्तनुं जे कथन कथुं छे, ते कथन अर्धी अरुणु करवुं लेधये (एवं अट्टावीसंपि अंतरदीवा सएणं सएणं आयामविक्खंभेणं भाणियव्वा) आ रीते २८ अंतर्द्वीपाना प्रत्येकनी लंबाई अने पडोणाई कडेवी लेधये

(नवरं दीवे दीवे उद्देशओ एवं सव्वे वि अट्टावीसं उद्देशगा भाणियव्वा सेवं मते ! सेवं मते ! त्ति) परन्तु प्रत्येक द्वीपना ओक ओक उद्देशक समजवे. आ रीते २८ अन्तर्द्वीपाना २८ उद्देशके थाय छे गीतम स्वामी महावीर

टीका—'रायगिहे जाब एष बयासी' राजगृहे यावत् नगरे स्वामी समपद्यतं
मगधतं चन्द्रितु नमस्कृतुं पर्वतु निर्गच्छति, चन्द्रित्वा नमस्मित्वा प्रतिगता पर्वतु,
सतो गौतम शुभ्रमाणो विनयेन प्राञ्जलिपुत्रः पर्युपासीनः एव वक्ष्यमाणप्रकारेण
बधादीत्—' कहि ण भंते ! दाहिणिच्छाण एगोरुपमणुस्साण एगोरुपदीवे णाम
दीवे पण्णसे ? हे भदन्त ! कुत्र खलु दासिणास्यानां दक्षिणादिग्वासिनाम् एकोरुक
मनुप्पाणाम् एकोरुकद्वीपो नाम द्वीप' मत्तः, मगधानाह—' गोयमा ! जंजुरीवे

२८ हो जाते हैं हे भदन्त ! जैसा आपने कहा है वह सब सर्वथा सत्य
ही है—हे भदन्त ! वह सबथा सत्य ही है । इस प्रकार कहकर वे गौतम
यावत् अपने स्थान पर विराजमान हो गये ।

टीकार्थ—द्वितीय उद्देशक में द्वीपघर वक्ष्यता कही जा चुकी है ।
इस तृतीय उद्देशक में भी उसी वक्ष्यता को सूत्रकार प्रकारान्तर से
कह रहे हैं (रायगिहे जाब एष बयासी) राजगृह नगर में श्री महावीर
स्वामी पधारे उनको घन्ना करने के लिये वहाँ परिपद् उनके पास
आयी—वचना नमस्कार कर तथा धर्मकथा सुनकर फिर वह वापिस
अपने स्थानपर चली गई—इसके बाद त्रिविध पर्युपासनासे प्रभुकी पर्यु
पासना करते हुए गौतमने प्रभुसे बड़े विनयके साथ दोनों हाथ जोड़कर
इस प्रकार से पूजा—(कहि णं भंते ! दाहिणिच्छाणं एगोरुपमणुस्साणं
एगोरुपदीवे णामं दीवे पण्णसे) हे भदन्त ! दाक्षिणात्य—दक्षिणादिग्वासी

प्रभुना वचनाने प्रभावभूत गच्छीने कहे छे कहे छे भदन्त ! आपे ने कहे
ते सबथा सत्य छे कहे भदन्त ! आपे आ विषयनुं ने प्रतिपादन कयुं ते
सबथा सत्य छे आ प्रभाजे कहीने प्रभुने वदवा नमस्कार करीने तेजे
तेमने स्थाने लेखी गथा

टीकार्थ—वीज उद्देशकमां द्वीपघर वक्ष्यतानुं कथन करवानां आभ्यु छे
दवे आ त्रीज उद्देशकमां पयुं जेज वक्ष्यतानुं सूत्रकार वीज रीते कथन
करे छे ' रायगिहे जाब एष बयासी ' राजगृह नगरमां महावीर स्वामी
पधार्मां तेमने वदवा नमस्कार करवाने माटे पस्विद तेमनी पासे आनी
वदवा नमस्कार करीने तथा धर्मोपदेश संसज्जीने परिपद पाछी करी त्पार
जाद त्रिविध पयु पासनाधी प्रभुनी पयु पासना करीने जीतम स्वामीजे विनय
पूरक ज ने दाध लेखीने आ प्रभाजे प्रभु पूज्या—(कहिणं भंते ! दाहिणिच्छाणं
एगोरुपमणुस्साणं एगोरुपदीवे णामं दीवे पण्णसे !) हे भदन्त ! दक्षिणादिग्वासी
जेडोकक मनुष्याने जेडोकक द्वीप नामने द्वीप कथां आवेत्ते छे ?

दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं ' हे गौतम जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य मेरोः पर्व-
 तस्य दक्षिणे दक्षिणादिशि ' चुल्लाहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स पुरत्थिमिल्लाओ चरि-
 मंताओ' चुल्लाहिमवंतो वर्षधरपर्वतस्य पौरस्त्यात् पूर्वदिशायाः चरमान्तात् सीमा-
 न्तप्रदेशात् आनन्तरम् ' लवणसमुदं उत्तरपुरत्थिमेणं ' लवणसमुद्रम् उत्तरपौरस्त्ये
 उत्तरपूर्वयोस्तराले ईशानकोणे इत्यर्थः ' तिन्नि जोयणसयाइं ओगाहिता ' त्रीणि
 योजनशतानि अवगाह्य=उलङ्घ्य ' एत्थ णं दाहिणिल्लाणं एगोरुयमणुस्साणं एगो-
 रुयदीवे नामं दीवे पणत्ते ' अत्र खलु लवणसमुद्रस्य ईशानकोणे त्रियोजनशताव-
 गाहनस्थाने दाक्षिणात्यानां दक्षिणदिग्भवानाम् एकोरुकमनुष्याणाम् एकोरुकद्वीपो
 नाम द्वीपः प्रज्ञप्तः ' से णं गोयमा ! तिन्नि जोयणसयाइं आयामविक्खंभेणं णव

-एकोरुक मनुष्योंका एकोरुक द्वीप नामका द्वीप कहाँ पर कहा गया है ?
 उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (जंबुद्वीपे दीवे मंदरस्स
 पव्वयस्स दाहिणेणं) जम्बूद्वीप नामके द्वीप में स्थित सुमेरु पर्वत की
 दक्षिणदिशा में वर्तमान (चुल्लाहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स पुरत्थि-
 मिल्लाओ चरिमंताओ) चुल्ल (क्षुद्र) हिमवान् वर्षधर पर्वत के पूर्वदिशा
 संबंधी सीमान्तप्रदेश से आगे ईशानदिशा में (तिन्नि जोयणसयाइं
 ओगाहिता) लवणसमुद्र को तीन सौ योजन उलङ्घन करके अर्थात्
 आगे जाकरके (एत्थ णं दाहिणिल्लाणं एगोरुयमणुस्साणं एगोरुयदीवे
 नामं दीवे पणत्ते) ठीक इसी जगह पर दक्षिण दिग्वासी एकोरुक
 मनुष्य एकोरुक द्वीप नामका द्वीप कहा गया है । अर्थात् लवणसमुद्र
 की ईशानदिशा में तीन सौ योजन तक उस लवणसमुद्र में आने जाने
 के बाद एकोरुक मनुष्यों का जो कि दक्षिणदिग्वासी हैं एकोरुक नामका
 द्वीप है । (से णं गोयमा ! तिन्निजोयणसयाइं आयामविक्खंभेणं णव

महावीर प्रश्नोत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (जंबुद्वीपे दीवे मंद
 रस्स पव्वयस्स दाहिणेणं) जम्बूद्वीप नामका द्वीपमा आवेत्ता सुमेरु पर्वतनी
 दक्षिण दिशाया आवेत्ता (चुल्लाहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स पुरत्थिमिल्लाओ चरि
 मंताओ) सुदल (क्षुद्र) हिमवान् वर्षधर पर्वतनी पूर्वना सीमान्त प्रदेशथी
 आगण जतां ईशान कोणमा “ तिन्नि जोयणसयाइं ओगाहिता) लवण समु
 द्रथी आगण जता (एत्थणं दाहिणिल्लाण एगोरुयमणुस्साण एगोरुयदीवे नाम
 दीवे पणत्ते) दक्षिणदिग्वासी ओकोरुक मनुष्येनो ओकोरुक नामने द्वीप आवे
 छे ओरले छे लवण समुद्रनी ईशान दिशाया ३०० योजननु अंतर आदीने
 लवण समुद्रमा आगण जतां दक्षिणदिग्वासी ओकोरुक मनुष्येनो (युगल
 मनुष्येनो) ओकोरुक नामने द्वीप आवे छे । (से णं गोयमा ! तिन्निजोयणसयाइं आयामविक्खंभेणं णव

एषोणवन्ने जायणसयाइ किंविचिसेसूणाइ परिक्खेपेण पण्णसे' हे गीतम। स एको रुक्खीय श्रीणि योजनसत्तानि आयामविष्कम्भेन वैर्यविस्तारेण वर्तते अथ च एकोन पञ्चासदधिकानि नवयोजनसत्तानि किञ्चिद्विशेषोनानि परिक्खेपेण परिचिन्ना पञ्चास ' से ण एगाए पडमवरवेइयाए एगेण य वणसंखेणं सच्चओ समता उपपरिक्खित्ते ' स खलु एकोरुक्खीयः एकया पद्यवरवेदिकया, एकेन च वनखण्डेन सर्वतः समन्वात् परितः सपरिक्खितः परिवेष्टितो वर्तते, ' दोण्ह वि पमाण वसओ य, एव एण कमेण जहा जीवामिगमे जाव सुद्धवंतडीवे जाव देवलोमपरिग्गहिया णं ते मणुया पण्णसा समणाउसो ! ' हे गीतम । द्वयोरपि उपर्युक्तयोः एकोरुक्कमनुष्य

एषोणवन्ने जायणसए किंविचि चिसेसूणे परिक्खेपेणं पण्णसे) हे गीतम । इस द्वीप की लम्बाई चौड़ाई तीनसौ योजन की है । और परिधि इसकी कुछ कम ९४९ योजन की है ।

(से ण एगाए पडमवरवेइयाए एगेण वणसंखेण सच्चओ समता उपपरिक्खित्ते) यह एकोरुक्क द्वीप एक पद्यवर वेदिका से और एक वनखण्ड से चारों ओर घिरा हुआ है । (दोण्ह वि पमाण वसओ य, एव एण कमेण जहा जीवामिगमे जाव सुद्ध वत दीवे जाव देवलोम परिग्गहिया णं ते मणुया पण्णसा समणाउसो) हे श्रमणायुष्मन् गीतम । इन उपर्युक्त एकोरुक्कमनुष्य और एकोरुक्क द्वीप इन दोनों का प्रमाण एवं वर्णन पूर्वोक्तरीति से क्रमशः जैसा जीवामिगम सूत्र में (यावत् शुद्धवन्त नाम का २८ वां अन्तरद्वीप है और यहाँ के सब मनुष्य यावत् भरकर देवलोक में जाते हैं ” यहाँ तक किया गया है उसी

सयाइ आयामविष्कम्भेणं एक एषोणवन्ने जायणसए किंविचिसेसूणे परिक्खेपेणं पण्णसे) हे गीतम । आ द्वीप ३०० योजन लम्बा और ३०० योजन चौड़ा है । तेना परिधि (परिमिति) ६४६ योजन करवा योद्धी लम्बा है । (से ण एगाए पडमवरवेइयाए एगेण वणसंखेण सच्चओ समता उपपरिक्खित्ते) आ ओठोरुक्क द्वीप ओक वसए वेदिकाधी अने ओक वनखण्ठी चारे तररे वेसयेदी है । (दोण्ह वि पमाणं वसओ य एव एण कमेण जहा जीवामिगमे जाव सुद्धव व दीवे जाव देवलोमपरिग्गहिया णं ते मणुया पण्णसा समणाउसो)

हे श्रमणायुष्मन् गीतम । आ ओठोरुक्क मनुष्य अने ओठोरुक्क द्वीप प्रमाण अने वसुन पूर्वोक्त रीति क्रमशः ओठु ल्पामिगम सूत्रमां करवाओ आओ उ तेवु अर्दी पद्य करवु ओपजे. " शुद्धवन्त नामेना २८ मा अन्तर द्वीप है अने त्पाना लधा मनुष्या (यावत्) मरीने देवलोकमां देवानी पथमि उरुधम थाव है ' आ सूत्रपाठ सुधीनुं ल्पामिगम सूत्रनुं कथन अर्दी अरुप

एकोरुक्कद्वीपयोः प्रमाणं वर्णकश्च वर्णनमत्र वाच्यम् । एवं पूर्वोक्तरीत्या एतेन क्रमेण यथा जीवाभिगमसूत्रे प्रतिपादितरत्तथैवात्रापि प्रतिपत्तव्यः । अथ जीवाभिगमसूत्र-पाठस्य अवधिमाह—‘जाव’ इत्यादि, यावत्—शुद्धदन्तद्वीपः, तृतीयादारभ्य शुद्धदन्ता-भिधानलक्षणाष्टाविंशतितमान्तरद्वीपवक्तव्यतापर्यन्तमित्यर्थः, तद्वक्तव्यताया अपि अ-वधिमाह—‘जाव’ इत्यादि, यावत् देवलोकपरिग्रहिताः इति, देवलोकः परिग्रहो येषां ते देवलोकपरिग्रहिताः—देवलोकगतिगामिनः खलु मनुष्याः प्रज्ञाः, हे श्रमणायुष्मन् । एवं ‘अट्टावीसंपि अंतरदीवा दीवा सएणं सएणं आयामविकखंभेणं भाणियव्वा’ एवं रीत्या अष्टाविंशतिरपि अन्तरद्वीपाः स्वकेन स्वकेन—निजेन निजेन आयाम-विष्कंभेण भणितव्याः, ‘नवरं दीवे दीवे उद्देशो, एवं सव्वे वि अट्टावीसं उद्दे-

तरह से यहां पर भी कर लेना चाहिये । यहां जो (जाव देवलोकपरि-गगहिया) के साथ यावत् पद आया है वह—“ इन अन्तरद्वीपजमनुष्यों की वक्तव्यता की अवधि यहां तक है ” इस बात को सूचित करने के लिये आया है । तथा—(जाव सुद्धदंते) के साथ जो यावत् पद आया है वह इस बात को कहने के लिये आया है कि जीवाभिगमसूत्र का पाठ इन अन्तरद्वीपों के वर्णन में यहां तक का ग्रहण करना चाहिये । (एवं अट्टावीसंपि अंतरदीवा दीवा सएणं सएणं आयामविकखंभेणं भाणि-यव्वा) इसी तरह से २८ भी अन्तर द्वीप अपने २ आयाम और विष्कंभ से कहना चाहिये ।

अब सूत्रकार यह प्रकट करते हैं कि तीसरे उद्देशक से लेकर ३० वें उद्देशक तक २८ उद्देशक जो यहां कहे गये हैं वे उद्देशक किस तरह

४२वुं लेधये, येम समञ्जसुं. “ जाव देवलोकपरिगगहिया ” आ सूत्राशमा ने ‘जाव’ पद आण्यु छे ते आ वातने सूचित करवाने माटे आण्युं छे के “ आ अन्तरद्वीपना मनुष्योनी वक्तव्यतानी अवधि (भयादा) अर्द्धी सुधीनी छे. ” तथा “ जाव सुद्धदंते ” आ सूत्राशनी साथे ने “ जाव ” पद आण्यु छे ते ये वात प्रकट करे छे के एवाभिगम सूत्रमांथी आ अन्तरद्वीपोतु वर्णन करती वभते छेदा (२८ भा) शुद्धदत द्वीप सुधीना द्वीपोतुं वर्णन करवुं लेधये. “ एवं अट्टावीसंपि अंतरदीवा दीवा सएणं सएणं आयामविकखं-भेण भाणियव्वा ” आ रीते २८ अंतरद्वीपोमांता दरेके दरेक द्वीपनी लंभाध अने पडोणाध कडेवी लेधये डवे सूत्रकार ये वात प्रकट करे छे के त्रीण उद्देशकथी शङ् करीने ३० भा उद्देशक पर्यन्तना ने २८ उद्देशके अर्द्धी कडे.

सगा माणियञ्चा ' नवर विशेषस्तु द्वीप द्वीपे प्रत्येकद्वीपे उरेशका एकैकः उरेशो
 चक्रव्यः, एव रीत्या सर्वेऽपि अष्टाविंशतिः उरेशका मणितन्याः पक्तव्याः । प्रथे
 गौतमो भगवत्वाचय सत्यापयन्नाह— ' सेव भते । सेव भते । सि ' हे भदन्त !
 तदेव भवद्भक्त सर्व सत्यमेव, ह भदन्त ! तदेव-भवद्भक्त सर्व सत्यमेवेति ॥ सू० १ ॥

इति श्री-विश्वविख्यात - अगदुषल्लम-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशमापाकचित्त
 ललितकलापाठापक - प्रविशुद्धगयपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक
 श्रीशाहृछप्रपतिकोन्दापुरराजप्रदक्ष ' जैनशास्त्राचार्य '—पद्मपित्त-
 कोन्दापुरराजगुरु-बालग्रन्थधारि जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकरपूज्यधी
 यासीलाम्बवृत्तिविरचितायां श्री भगवतीसूत्रस्य-प्रमेयचन्द्रिकाख्यायां
 व्याख्यायां नवमशतकस्य तृतीयादिकान्तिप्रदन्ता

उरेशकाः समाप्ता ॥ ९-३-३० ॥

से कहे गये हैं ? ' नवर द्वीपे द्वीपे उरेशको, एवं मन्थे वि अष्टावीस
 उरेशगा माणियञ्चा ' तो इस विषय में वे कहते हैं कि एक २ अन्तर
 द्वीप में १-१ उरेशक कहा गया है इस रीति से २८ अन्तर द्वीप सबकी
 २८ उरेशक हो जाते हैं। जो यहां मणितन्य हैं। अन्त में गौतम भग
 धान के कथन में सर्वथा सत्यता का व्यापन करते हुए कहते हैं—(सेवे
 भते ! सेवे भते ! सि) हे भदन्त ! आपके द्वारा कहा गया यह सब
 विषय सर्वथा सत्य है। हे भदन्त ! आपके द्वारा कहा गया यह सब
 विषय सर्वथा सत्य है। इस प्रकार कहकर वे गौतम यावत् अपने स्थान
 पर विराजमान हो गये ॥ सू० १ ॥

नवमे शतकके तीनसे तीस तकके तीस उरेशक समाप्त ३-३० ॥

(नवर द्वीप द्वीपे उरेशको एव मन्थे वि अष्टावीस उरेशगा माणियञ्चा)
 इरेक अन्तरद्वीपेनो ज्येक ज्येक उरेशक उरेशगा आन्थे। ए अन्तरद्वीपिनी पुष
 अञ्चया २८ ए तेथी तमना विरेना पुष २८ उरेशक आय ए (२८ अन्तर
 द्वीपिना नाम आ उरेशकनुं सक्षिप्त पवुन करती बभते आपवामां आवेठ ए)

द्वे अत्रवाननां वयनेनां पित्तानी अदा व्यक्त करतीं गौतम स्वाभी
 उद ए- सब भते ! सेव भते ! सि ' हे भदन्त ! आ विषयनु आपे ने
 अनिधाने क्यु ते सपथा सत्य ए दे भदन्त ! आपे ने क्यु ते सर्वथा
 सत्य ए ए आ प्रभावे इदीने प्रजुने बहणा नभस्साइ इदीने गौतम स्वाभी
 पित्ताने स्थाने जेभी तथा ॥ सू० १ ॥

॥ नवमां शतकना त्रीअथी त्रिअमा सुधीना उरेशके समाप्त ॥

अथैकत्रिंशत्तमोद्देशकः प्रारभ्यते—

नवमशतकस्य एकत्रिंशत्तमोद्देशकस्य संक्षिप्तविषयविवरणम्—

केवलप्रभृतीनां सकाशाद् अश्रुत्वैव जीवस्य धर्मज्ञान भवति न वा ? इति प्रश्नोत्तरं बोधिः, सम्यग्दर्शनानुभवो भवति नवेति प्रश्नः, तद्वेतुश्च उक्तः, तथैव तस्य प्रव्रज्या भवति नवेति प्रश्नः, तद्वेतुश्च प्रतिपादितः, तथैव तस्य जीवस्य ब्रह्मचर्यं भवति नवेति प्रश्नः, ब्रह्मवर्षावासहेतुश्चोक्तः, एवमेवकेवलप्रभृतेः सकाशाद् अश्रु-

नववे शतकका एकत्तीसवां उद्देशक

इस नौवें शतक के ३१ वें उद्देशक का विषय विवरण संक्षेप से इस प्रकार है—केवली आदि के पास में धर्म को विना सुने ही क्या जीव के धर्मज्ञान हो सकता है या नहीं हो सकता? ऐसा प्रश्न और इसका उत्तर। बोधिरूप शुद्ध सम्यग्दर्शन का अनुभव केवली आदि के पास नहीं सुनने पर जीव को होता है या नहीं होता है? ऐसा प्रश्न—होता भी है और नहीं भी होता है ऐसा उत्तर, इसमें क्या कारण है—इसका प्रदर्शन इसी तरह केवली आदि के पास श्रवण किये विना क्या जीव के प्रव्रज्या होती है या नहीं होती है ऐसा प्रश्न—होती भी है और नहीं भी होती है ऐसा उत्तर, इसमें कारण प्रदर्शन। इसी तरह केवली आदि के पास श्रवण किये विना क्या जीव के ब्रह्मचर्य होता है या नहीं होता है? ऐसा प्रश्न—होता भी है और नहीं भी होता है ऐसा उत्तर, इसमें कारण प्रदर्शन इसी तरह केवली आदि के पास सुने विना

नवमा शतकनो अेकत्रीसमो उद्देशक

आ नवमां शतकना ३१ मा उद्देशकमा प्रतिपादित विषयोनुं संक्षिप्त विवरणु आ प्रमाणु छे—केवली आदिनी पासे धर्मनु श्रवणु कर्था विना सुने शु धर्मज्ञान थधु शके छे? आ प्रश्न अने तेना उत्तर “केवली आदिनी पासे देशना सांलज्या विना शु सुने बोधिइय शुद्ध सम्यग्दर्शनने अनुभव थाय छे?” आ प्रश्न उत्तर—“थाय छे पणु अरो अने नथी पणु थतो” आ प्रकारने उत्तर अने तेना कारणनु कथन “केवली आदिनी पासे देशना सांलज्या विना शु सुने प्रव्रज्या ले छे?” आ प्रकारने प्रश्न “प्रव्रज्या ले छे पणु अरो अने नथी पणु लेतो” अवे। उत्तर अने तेना कारणनु कथन “केवली आदिनी पासे देशना श्रवणु कर्था विना शु सुने ब्रह्मचर्य पाणे छे अरो?” आ प्रश्न “पाणे छे पणु अरो अने नथी पणु पाणतो” अवे। उत्तर अने तेना कारणनु प्रदर्शन. “केवली आदिनी पासे देशना

સ્વૈવ જીવસ્ય સંયમો મવતિ નવેતિમક્ષ્ણઃ, સયમહેતુચ્ચ પ્રતિપાદિતઃ, તસ્ય સવરો મવતિ નવેતિમક્ષ્ણઃ, સવરહેતુષોક્તઃ, આમિનિબોધિકજ્ઞાનમ્ આમિનિબોધિકજ્ઞાન-હેતુષોક્તઃ, एषमेव श्रुतज्ञानम्, अवधिज्ञानम् मन पर्यवज्ञानम्, केवलज्ञानम्, धर्मबोध, शुद्धसम्पत्त्वानुभवमभूति, केवल्यादिवचनश्रवण विनाऽपि कश्चित् धर्मादिकम् अनुभवति, तदेतुकथन च, केवल्यादिवचनश्रवण विनाऽपि कश्चित् सम्पत्त्वादिक स्वीकरोति, विमङ्गज्ञानोत्पत्तिः, सम्यग्दर्शनमाप्तिः, चारित्र्यस्वीकारः,

કયા જીવ કો સંયમ હોતા હે યા નહીં હોતા હે ? એસા પ્રશ્ન, હોતા મી હે ઓર નહીં મી હોતા હે એસા ઉત્તર, હસમેં કારણપ્રદર્શન, હસી પ્રકાર સે એસે જીવ કો સંવર હોતા હે યા નહીં હોતા હે એસા પ્રશ્ન, હોતા મી હે ઓર નહીં મી હોતા હે એસા ઉત્તર સંવર હોને મેં કારણપ્રદર્શન આમિ નિબોધિકજ્ઞાન, એસે જીવ કો હોતા મી હે ઓર નહીં મી હોતા હે એસા કથન અમિનિબોધિકજ્ઞાન હોને મેં હેતુપ્રદર્શન હસી તરહ સે શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃ પર્યવજ્ઞાન, કેવલજ્ઞાન, ધર્મબોધ, શુદ્ધસમ્પત્તવાનુભવ આદિ કો મી કેવલી આદિ કે વચનશ્રવણ કિયે વિના જીવ પ્રાપ્ત મી કર લેતા હે ઓર નહીં મી પ્રાપ્ત કરતા હે એસા કથન પ્રાપ્તિ હોને મેં હેતુપ્રદર્શન કેવલી આદિ કે વચનશ્રવણ કિયે વિના મી કોઈ જીવ સમ્પત્ત્ય આદિ કો સ્વીકાર કરતા હે એસા કથન વિમંગ્લજ્ઞાન કી વત્પત્તિ, સમ્યગ્દર્શન કી પ્રાપ્તિ, ચારિત્ર કી સ્વીકૃત્તિ, અવધિજ્ઞાન કી વત્પત્તિ, અવધિજ્ઞાની કી લેહ્યામોં કા કથન, અવધિજ્ઞાની કે જ્ઞાનોં કે

સાંભળ્યા વિના શુ એવ સયમી યાવ છે ખરે. ” જ્ઞેવો પ્રશ્ન યાવ છે પણ ખરે અને નથી પણ થતો ” જ્ઞેવો ઉત્તર અને તેના કારણુ પ્રદર્શન-જ્ઞેવ પ્રમાણે સવર યવા વિવેનો પ્રશ્ન. ‘ યાવ છે પણ ખરે અને નથી પણ થતો ” જ્ઞેવો ઉત્તર અને તેના કારણુ પ્રદર્શન-જ્ઞેવો એવને આમિનિબોધિક જ્ઞાન યાવ છે પણ ખરૂ અને નથી પણ થતું આમ જનવાના કારણુ પ્રદર્શન-જ્ઞેવ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાન અવધિજ્ઞાન, મન પર્યવજ્ઞાન, કેવલજ્ઞાન, શુદ્ધ સમ્પત્તવનો અનુભવ, આદિની પ્રાપ્તિ કેવલી આદિની દેશના સાભળ્યા વિના એવ કરી પણ શકે છે અને નથી પણ કરી શકતો આ પ્રમાણે કહેવા માટેના કારણુ કથન-કેવલી આદિના વચન શ્રવણ કર્યા વિના પણ કોઈ એવ સમ્પત્ત્ય આદિનો સ્વીકાર કરે છે એવુ પ્રતિપાદન વિભવજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ, સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ આદિની સ્વીકૃત્તિ અવધિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ અવધિજ્ઞાનીની લેહ્યામોં, અવધિ જ્ઞાનીના જ્ઞાનો તથા અવધિજ્ઞાની વિવચક મનોયોગી આદિ કોવાના કથન

अवधिज्ञानोत्पत्तिः, छैत्र्या, हानम्, मनोयोगी-इत्यादि, संघाननम्, संस्थानम्, उन्वैस्त्रम्, आयुष्यम्, वेदः-पुरुषवेदादिः, कषायः-संज्वलनक्रोधादि, अध्यवसायः-प्रशस्ताध्यवसाय, नारक-तिर्यक्-देव-मनुष्यभवेभ्यो मुक्तिः, अनन्तानुबन्ध्यादिकषायक्षयः, अश्रुत्वा केवली धर्मोपदेशं न करोति, प्रव्रज्यां न ददाति, सिद्धो भवति, ऊर्ध्वधरितर्यग्लोकेषु भवति, ऊर्ध्वलोके वृत्तवैताढ्ये भवति,

होने का कथन, अवधिज्ञानी के मनोयोगी आदि होने का कथन अवधिज्ञानी के कौनसा उपयोग होता है ऐसा प्रश्न और इसका उत्तर अवधिज्ञानी के संहनन और संस्थान होने का कथन; अवधिज्ञानी की ऊँचाई का कथन, अवधिज्ञानी के आयुष्क का कथन, वेद सहित होने का कथन, पुरुषवेद में वर्तमान होने का और पुरुषनपुंमरु वेद में वर्तमान होने का कथन, अवधिज्ञानी कषायसहित होता है ऐसा कथन, कषाययुक्त होने में उसके संज्वलन क्रोधादि कषाय ही होते हैं ऐसा कथन असंख्यात अध्यवसाय इसके अवधिज्ञानी को होता है ऐसा कथन, अध्यवसायों में भी प्रशस्त अध्यवसाय ही होते हैं ऐसा कथन, नारक, तिर्यच, देव, और मनुष्य भव इनसे उसकी छूट हो जाती है ऐसा कथन-इसके अनन्तानुबंधी आदि कषाय का क्षय कथन, अश्रुत्वा केवली धर्मोपदेश नहीं करता है प्रव्रज्या नहीं देता है, पर सिद्ध हो जाता है। अश्रुत्वा केवली ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में और तिर्यग्लोक में होता है। ऊर्ध्वलोक में वह वृत्तवैताढ्य में होता है। अधोलोक में

प्रतिपादन आ उद्देशकमां करवामां आ०युं छे. " अवधिज्ञानीमां कथे उपयोग डोय छे ? " जेवो प्रश्न अने तेनो उत्तर. अवधिज्ञानीना संहनन, संस्थान आदिनुं कथन अवधिज्ञानीनी आंखाई, अने तेना आयुष्यनुं कथन अवधिज्ञानी वेदसहित डोय छे जेवुं कथन पुरुषवेदमां वर्तमान डोवानुं अने पुरुष नपुंसक वेदमां वर्तमान डोवानुं कथन. अवधिज्ञानी कषाययुक्त डोय छे जेवुं कथन ते संज्वलन क्रोधादि कषायवाणो डोय छे जेवुं कथन अवधिज्ञानीना असंख्यात अध्यवसाय डोय छे, अने मात्र प्रशस्त अध्यवसाय न डोय छे जेवुं कथन नारक, तिर्यच, देव अने मनुष्य, आ लोकांमांथी तेजो छूटी नय छे जेवुं कथन. तेमना अनन्तानुबंधी आदिना क्षयनुं कथन.

अश्रुत्वा केवली (जेवुं केवलीनी देशना सालणी नथी जेवो एव) धर्मोपदेश करतो नथी, प्रव्रज्या देतो नथी, पण सिद्ध थई नय छे अश्रुत्वा केवली ऊर्ध्वलोकमां, अधोलोकमां, अने तिर्यग्लोकमां डोय छे ऊर्ध्वलोकमां



अधोभोग्यामादिषु भवति, तिर्यग्भाके पञ्चदशकर्मभूमिषु भवति, त एफरिम्न समये कियन्तो भवन्ति ? इति प्रश्नः, केवलयादिसकाशात् धर्मभुत्वा कश्चित् धर्मं कुरुते, कश्चित् लभते, केवलयादिसकाशात् धर्मोपदेशं भुत्वा सम्पद्दर्शनादिशास्त्रि-जीवस्य अविज्ञानादिप्राप्ति, छेदया ज्ञान, योग वेद, उपशान्तवेदः, क्षीणवेदो वा भवति ? स्त्रीवेदादि, सकृपायिण, अकृपायिणो वा, उपशान्ताः क्षीणकृपायिणो वा भवन्ति ? कियन्त कृपाया ? अध्यवसाय, धर्मोपदेशः, प्रव्रज्यादानं, शिष्य

यह अधोलोक ग्रामादिकों में होता है। तिर्यग्लोक में यह पद्म कर्मभूमियों में होता है ऐसा कथन-अभुत्वा केवली एक समयमें कितने होते हैं ? ऐसा प्रश्न-और इसका उत्तर-तथा केवली आदिके पास धर्मअवगण करके कोई जीव केवलीप्रज्ञप्त धर्मकी प्राप्ति करता है और कोई जीव धर्मकी प्राप्ति नहीं भी करता है ऐसा कथन-केवली आदि से धर्मोपदेश सुनकर सम्पद्दर्शनशाली जीव के अधविज्ञान आदि की प्राप्ति होने का कथन इसके छेदयार्थों का कथन। इसके ज्ञानवाला, योगवाला, वेदवाला, का और उपशान्त वेदवाला अधवा क्षीणवेदवाला होने का प्रश्न और उत्तर ये भुत्वा धर्मप्राप्तिकारक जीव किस वेदवाले होते हैं ? इनके कर्मायों की उपशान्तता होती है ? या क्षीणता होती है ? इनके कितनी कर्मायें होती हैं ? अध्यवसाय कितने होते हैं ? ये धर्मोपदेश करते हैं, या नहीं करते हैं ? दीक्षा देते हैं या नहीं देते हैं ? इनके शिष्यप्रशिष्य भी

ते वृत्तवैवाहिकमां डेय छे अधोभोग्यामां ते अधोभोग्यामां आमादिभोग्यां डेय छे, अने तिर्यग्भोग्यामां पञ्च दश कर्मभूमिभोग्यां ते डेय छे जेवु कथन. ' जेह सम्पत्तमां डेवता डेवती माय छे, ' जेवे प्रश्न अने तेना उत्तर. डेवती आदिनी पासे उपदेश सांभलीने कौछ एव डेवतिप्रज्ञप्त धर्मनी प्राप्ति करे छे अने कौछ एव तेनी प्राप्ति करेता नथी जेवु कथन. डेवती आदिनी पासे धर्मोपदेश सांभलीने सम्पद्दर्शनवाणे। एव अधविज्ञान आदिनी प्राप्ति करे छे, जेवु कथन. तेनी देशवाजेतु कथन. ते ज्ञानवाणे। योगवाणे। वेदवाणे अने उपशा त वेदवाणे अधवा क्षीण वेदवाणे डेय छे के नहीं, जेवा प्रश्न अने तेना उत्तर।तु कथन डेवती आदिनी पासे धर्मोपदेश अवलु करीने धर्मप्राप्ति करनाथ एव कथा वेदवाणा डेय छे ? तेमना कथायानी उपशान्तता के क्षीणता डेय छे अरी ? तेजे कटवा कथायवाणा डेय छे ? तेमना अध्यवसाय कटवा डेय छे ? तेजे धर्मोपदेश करे छे के नहीं ? तेजे दीक्षा दे छे के नहीं ? तेमना शिष्ये अने प्रशिष्ये दीक्षा दे छे के नहीं देवा ? तेजे सिद्ध माय

प्रशिष्याणामपि प्रत्रय्यादावृत्वम् । सिद्धो भवति । शिष्योऽपि सिद्धो भवति,
प्रशिष्योऽपि सिद्धो भवति ।

अश्रुत्वाधर्मादिलाभक्तव्यता

पूर्वोक्त स्वरूपाश्वार्थाः केवलधर्माद् ज्ञायन्ते, तं च धर्मं कश्चित् अश्रुत्वाऽपि
लभते इत्याद्यर्थप्रतिपादनार्थमाह—‘ रायगिहे ’ इत्यादि ।

पूछम्—रायगिहे जाव एवं वयासी—असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा
केवलिमावगस्स वा, केवलिसावियाए वा केवलिउवासगस्स वा,
केवलिउवासियाए वा, तप्पक्खियस्स वा, तप्पक्खियसावगस्स
वा, तप्पक्खियसावियाए वा, तप्पक्खियउवागस्स वा, तप्प-
क्खियउवासियाए वा केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए ?
गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा, जाव तप्पक्खियउवा-
सियाए वा, अत्थेगइए केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए,
अप्पेगइए केवलिपन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा सवणयाए । से केण-
द्वेणं भंते ! एवं तुच्चइ—असोच्चा णं जाव नो लभेज्जा सवणयाए ?
गोयमा ! जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कस्माणं खओवसमे कडे
भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा, जाव तप्पक्खिय
उवासियाए वा, केवलिपणत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए ।
जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कस्माणं खओवसमे नो कडे
भवइ, से णं असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिय-

क्या दीक्षा देते हैं ? ये सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं ? इनके शिष्य
भी सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं ? प्रशिष्य भी इनके सिद्ध होते हैं
या नहीं होते हैं इत्यादि प्रश्न और इनका उत्तर ।

छे के नर्दी ? तेमना शिष्यो सिद्ध थाय छे के नर्दी ? तेमना प्रशिष्यो सिद्ध
थाय के नर्दी ? आ प्रश्नो अने तेना उत्तरोनु प्रतिपादन आ उदेशकभां
कस्वामा आब्धुं छे.

उवासियाए वा केवलपन्नत्त धम्म नो लभेज्जा सवणयाए,
 से तेणट्टेणं गोयमा ! एव बुच्चइ त चेव जाव नो लभेज्जा सव
 णयाए । असोच्चा णं भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिय
 उवासियाए वा केवाल घोहिं बुज्जेज्जा ? गोयमा ! असोच्चा णं
 केवलिस्स वा जाव अत्थेगइए केवलं घोहिं बुज्जेज्जा, अत्थेगइए
 केवल घोहिं णो बुज्जेज्जा । से केणट्टेणं भते ! जाव नो बुज्जेज्जा ?
 गोयमा ! जस्स णं दरिसणावरणिज्जाण कम्माण खओवसमे
 कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवल घोहिं
 बुज्जेज्जा, जस्स णं दरिसणावरणिजाण कम्माण खओवसमे णो
 कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवल घोहिं णो
 बुज्जेज्जा, से तेणट्टेण जाव णो बुज्जेज्जा । असोच्चा णं भते !
 केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिय उवासियाए वा केवल मुडे भवित्तां,
 अगाराओ अणगारिय पव्वएज्जा ? गोयमा ! असोच्चा णं केव
 लिस्स वा जाव उवासियाए वा अत्थेगइए केवल मुडे भवित्ता
 अगाराओ अणगारिय पव्वएज्जा अत्थेगइए केवल मुडे
 भवित्ता अगाराओ अणगारिय नो पव्वएज्जा ? से
 केणट्टेण जाव नो पव्वएज्जा ? गोयमा ! जस्स णं धम्मंतरा
 इयाणं कम्माण खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केव
 लिस्स वा जाव केवल मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्व
 एज्जा, जस्स णं धम्मतराइयाणं कम्माण खओवसमे नो कडे भवइ,
 से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव मुडे भवित्ता जाव णो

पव्वएज्जा, से तेणट्टेणं गोयमा ! जाव नो पव्वएज्जा । असो-
 च्चा णं भंते ! केवलिस्स वा, जाव उवासियाए वा, केवलं बंभ-
 चेरवासं आवसेज्जेज्जा ? गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा
 जाव उवासियाए वा अत्थेगइए केवलं बंभचेरवासं आवसेच्चा,
 अत्थेगइए केवलं बंभचेरवासं नो आवसेज्जा । से केणट्टेणं भंते !
 एवं बुच्चइ-जाव नो आवसेज्जा ? गोयमा ! जस्स णं चरित्ता-
 वरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा
 केवलिस्स वा जाव केवलं बंभचेरवासं आवसेज्जा, जस्स णं
 चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ । से णं
 असोच्चा केवलिस्स वा जाव नो आवसेज्जा, से तेणट्टेणं जाव
 नो आवसेज्जा । असोच्चाणं भंते ! केवलिस्स वा जाव केव-
 लेणं संजमेणं संजमेज्जा ? गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स जाव
 उवासियाए वा अत्थेगइए केवलेणं संजमेणं संजमेज्जा, अत्थे-
 गइए केवलेणं संजमेणं नो संजमेज्जा । से केणट्टेणं जाव नो
 संजमेज्जा ? गोयमा ! जस्स णं जयणावरणिज्जाणं कम्माणं
 खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चाणं केवलिस्स वा जाव
 केवलेणं संजमेणं संजमेज्जा, जस्स णं जयणावरणिज्जाणं
 कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलि-
 स्स वा, जाव नो संजमेज्जा, से तेणट्टेणं गोयमा ! जाव अत्थे-
 गइए नो संजमेज्जा ।

असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा

केवलेण सवरेण सवरेज्जा ? गोयमा ! असोच्चा ण केवलिस्स
 जाव अत्थेगइए केवलेण सवरेण सवरेज्जा, अत्थेगइए केवलेणं
 जाव नो सवरेज्जा ! से केणट्टेणं जाव नो सवरेज्जा ? गोयमा !
 जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाण कम्माण स्वओवसमे कडे
 भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलेणं सवरेणं सव
 रज्जो जस्सणं अज्झवसाणा वरणिज्जाणं कम्माणं स्वओवसमे णो
 ना कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव नो सवरेज्जा,
 से तेणट्टेणं जाव नो सवरेज्जा । असोच्चा ण भते केवलिस्स जाव
 केवल आभिणिघोहियणाणं उप्पाडेज्जा ? गोयमा ! असोच्चा ण
 केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा अत्थेगइए केवल आभि
 णिघोहियणाणं उप्पाडेज्जा, अत्थेगइए केवल आभिणिघोहिय
 नाण ना उप्पाडेज्जा अत्थेगइए केवल आभिणिघोहियणाणं
 नो उप्पाडेज्जा । से केणट्टेणं जाव नो उप्पाडेज्जा ? गोयमा !
 जस्स णं आभिणिघोहियणाणावरणिज्जाणं कम्माणं स्वओ
 वसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं
 आभिणिघोहियणाण उप्पाडेज्जा, जस्स णं आभिणिघोहिय
 नाणावरणिज्जाणं कम्माणं स्वओवसमे ना कडे भवइ, से णं
 असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवल आभिणिघोहियणाण नो
 उप्पाडेज्जा, से तेणट्टेणं जाव नो उप्पाडेज्जा । असोच्चा णं
 भते ! केवलिस्स वा जाव केवल सुयणाण उप्पाडेज्जा, एवं जहा
 आभिणिघोहियणाणस्स वत्तञ्चया भणिया, तथा सुयणाणस्स

वि भाणियव्वा, नवरं सुयनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओव-
समे भाणियव्वं, एवं चेव केवलं ओहिनाणं भाणियव्वं, नवरं
ओहिनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे भाणियव्वे । एवं
केवलं मणपज्जवनाणं उप्पाडेज्जा, नवरं मणपज्जवणाणावर-
णिज्जाणं कम्माणं खओवसमे भाणियव्वं । असोच्चा णं भंते !
केवलिस्स जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलनाणं उप्पा-
डेज्जा, एवं चेव नवरं केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खए
भाणियव्वं, सेसं तं चेव, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-जाव
केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा । असोच्चा णं भंते ! केवलियस्स वा
जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा
सवणयाए, केवलं वोहिं बुज्जेज्जा केवलं मुंडे भवित्ता, अगा-
राओ अणगारियं पव्वएज्जा, केवलं वंभचेरवासं आवसेज्जा,
केवलेणं संजमेणं संजमेज्जा, केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, केवलं
आभिणिबोहियनाणं उप्पाडेज्जा जाव केवलं मणपज्जवनाणं
उप्पाडेज्जा, केवलनाणं उप्पाडेज्जा ? गोयमा ! असोच्चा णं
केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा अत्थेगइए केवलिपणत्तं
धम्मं लभेज्जा सवणयाए, अत्थेगइए केवलिपन्नत्तं धम्मं नो
लभेज्जा सवणयाए अत्थेगइए केवलं वोहिं बुज्जेज्जा, अत्थे-
गइए केवलं वोहिं नो बुज्जेज्जा, अत्थेगइए केवलं मुंडे भवित्ता
अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा, अत्थेगइए जाव नो पव्वएज्जा,
अत्थेगइए केवलं वंभचेरवासं आवसेज्जा, अत्थेगइए केवलं
वंभचेरवासं नो आवसेज्जा, अत्थेगइए केवलेणं संजमेणं संजमे-

उजा, अत्येगइए केवलेण सजमेणं नो सजमेज्जा । एव सवरेण
वि । अत्येगइए केवल आभिणिषोहियनाणं उप्पाहेज्जा, अत्ये
गइए जाव नो उप्पाहेज्जा, एव जाव मणपज्जवनाण, अत्येगइए
केवलनाणं उप्पाहेज्जा, अत्येगइए केवलनाणं नो उप्पाहेज्जा ।
से केणट्टेणं भते ! एव बुच्चइ असोच्चा णं, त चेष जाव
अत्येगइए केवलनाणं नो उप्पाहेज्जा ? गोयमा ! जस्स णं
नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ १ जस्स
णं दरिसणावरणिज्जाण कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ २,
जस्स णं धम्मतराइयाण कम्माण खओवसमे नो कडे भवइ ३,
एव चरित्तावरणिज्जाणं ४, जयणावरणिज्जाणं ५, अज्झव
साणावरणिज्जाणं ६, आभिणिषोहियनाणावरणिज्जाण ७,
जाव मणपज्जवनाणावरणिज्जाण कम्माणं खओवसमे नो
कडे भवइ १०, जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं जाव खए नो
कडे भवइ ११, से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलपन्नत्तं
धम्म नो लभेज्जा सवणयाए केवल घोहिं नो पुज्जेज्जा जाव
केवलनाण नो उप्पाहेज्जा, जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माणं
खओवसमे कडे भवइ, जस्स णं दरिसणावरणिज्जाण कम्माण
खओवसमे कडे भवइ, जस्स ण धम्मतराइयाणं एव जाव,
जस्स णं केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खए कडे भवइ, से ण
असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलपन्नत्तं धम्म लभेज्जा सवणयाए
केवल घोहिं पुज्जेज्जा जाव केवलनाण उप्पाहेज्जा ॥ सू० १ ॥

छाया—राजगृहे यावत् एवम् अत्रादीत्-अश्रुत्वा खलु भदन्त ! केवलिनो वा, केवलिश्रावकस्य वा, केवलिश्राविकाया वा, केवल्युपासकस्य वा, केवल्युपासिकाया वा, तत्पाक्षिकस्य वा, तत्पाक्षिकश्रावकस्य वा, तत्पाक्षिकश्राविकाया वा, तत्पाक्षिकोपासकस्य वा, तत्पाक्षिकोपासिकाया वा, केवलिप्रज्ञप्तं धर्मं लभेत श्रव-

अश्रुत्वा धर्मादिलाभवक्तव्यता

‘ रायगिहे जाव एवं वयासी ’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(रायगिहे जाव एवं वयासी) राजगृह नगर में यावत् गौतमने भगवान् से इस तरहसे पूछा—(असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा केवलि सावगस्स वा केवलि सावियाए वा, केवलि उवासगस्स वा, केवलिउवासियाए वा, तप्पक्खियस्स वा, तप्पक्खियसावगस्स वा, तप्पक्खियसावियाए वा, तप्पक्खियउवासगस्स वा, तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए ?) हे भदन्त ! केवली से अथवा केवली के श्रावक से, या केवली की श्राविका से, या केवली के उपासक के या केवली की उपासिका से या केवली के पाक्षिक-स्वयं बुद्ध से, या केवली के पाक्षिकश्रावक से, या केवली के पाक्षिक की श्राविका से या केवली के पक्ष के उपासक से, या केवली के पक्ष की उपासिका से विना सुने जीव को केवलज्ञानी द्वारा प्राप्त धर्मश्रवण का

— अश्रुत्वा (सांलज्या विना) धर्मादि लाभ वक्तव्यता —

“ रायगिहे जाव एव वयासी ” इत्यादि

सूत्रार्थ—(रायगिहे जाव एवं वयासी) राजगृह नगरमें ‘ यावत् ’ गौतमस्वामीने भगवान् महावीरने या प्रमाणे पूछ्युं—(असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा, केवलिसावगस्स वा, केवलिसावियाए वा, केवलिउवासगस्स वा, केवलिउवासियाए वा, तप्पक्खियस्स वा, तप्पक्खियसावगस्स वा, तप्पक्खियसावियाए वा, तप्पक्खियउवासगस्स वा, तप्पक्खियउवासियाए वा, केवलि पन्नत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए ?)

हे भदन्त ! केवली पासेथी, अथवा केवलीना श्रावक पासेथी, अथवा केवलीनी श्राविका पासेथी, अथवा केवलीना उपासक पासेथी, अथवा केवलीनी उपासिका पासेथी, अथवा केवलीना पाक्षिक (स्वयं बुद्ध) पासेथी, अथवा केवलीना पाक्षिक श्रावक पासेथी, अथवा केवलीना पाक्षिक श्राविका पासेथी, अथवा केवलीना पक्षना उपासक पासेथी अथवा केवलीना पक्षनी उपासिका पासेथी सांलज्या विना सुने शु केवलज्ञानी द्वारा प्राप्त धर्मश्रवणने लाभ शक्यं शक्यं छे अरे ?

गतया ? गौतम ! अभुत्वा खलु केवलिनो वा यावत्स्याधिकोपासिकाया वा
 अस्त्येककः केवलिप्रज्ञप्तं धर्मं लभेत भ्रवणतया, अस्त्येककः केवलिप्रज्ञप्तं धर्मं नो
 लभेत भ्रवणतया । तत् केनार्येण मदन्त ! एवमुच्यते—अभुत्वा खलु यावत् नो
 लभेत भ्रवणतया ? गौतम ! यस्य खलु ज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपश्रमः कृतो
 भवति, स खलु अभुत्वा केवलिनो वा यावत् तस्याधिकोपासिकाया वा केवलि-
 प्रज्ञप्तं धर्मं लभेत भ्रवणतया, यस्य खलु ज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपश्रमा नो

लाम हो सकता है क्या ? (गोपमा) हे गौतम ! (असोच्छा णं केव-
 लिस्म वा जाय तप्पक्खियउवासियाए वा अत्येगइए केवलिपन्नत घम्म
 लमेउजा, सबणयाए, अत्येगइए केवलिपन्नत घम्म नो लमेउजा सबण-
 याए) केवली से या यावत् केवली के पक्ष की उपासिका से बिना सुने
 भी किसी २ जीव को केवलिप्रज्ञप्त धर्मभ्रवण का लाभ हो सकता है
 और किसी २ जीव को नहीं हो सकता है । (से केणट्टेणं मंते ! एवं
 मुच्चइ असोच्छा णं जाय नो लमेउजा सबणयाए) हे भदन्त ! ऐसा
 आप किस कारण से कहते हैं कि केवली आदि से सुने बिना किसी २
 जीव को केवलिप्रज्ञप्त धर्म का लाभ हो सकता है और किसी २ जीव
 को नहीं हो सकता है ? (गोपमा) हे गौतम ! (जस्स णं नाणावर-
 णिउजार्णं कम्मार्णं खओवम्ममे कडे भवइ, से णं असोच्छा केवलिस्स
 वा जाय तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपन्नत घम्मं लमेउजा सबण-
 याए, जस्स णं नाणावरणिउजार्णं कम्मार्णं खओवम्ममे नो कडे भवइ

(गोपमा !) हे गौतम ! (असोच्छाणं केवलिस्स वा जाय तप्पक्खिय-
 उवासियाए वा अत्येगइए केवलिपन्नत घम्मं लमेउजा, सबणयाए, अत्येगइए
 केवलिपन्नत घम्म नो लमेउजा सबणयाए) केवली पासेधी ' यावत् ' केवलीना
 पक्षणी उपासिका पासेधी देशना सांख्य्या विना पणुं केधं केधं एवने केवली
 प्रज्ञप्त धर्म भ्रवणतो दास भणी शके छे एवने केधं केधं एवने भणी शकते
 नथी (से केणट्टेणं मंते ! एवं मुच्चइ असोच्छाणं जाय नो लमेउजा सबणयाए)
 हे भदन्त ! जेवुं आप या कारणे कडे छे हे केवली आदिनी देशना सांख्य्या
 विना केधं केधं एवने केवलिप्रज्ञप्त धर्मने दास भणी शके छे एवने केधं
 केधं एवने तेने दास भणी शकते नथी ?

(गोपमा !) हे गौतम ! (जस्स णं नाणावरणिउजार्णं कम्मार्णं खओवम्ममे
 कडे भवइ, से णं असोच्छा केवलिस्स वा जाय तप्पक्खियउवासियाए वा केवलि-
 पन्नत घम्मं लमेउजा सबणयाए, जस्स णं नाणावरणिउजार्णं कम्मार्णं खओवम्ममे

कृतो भवति, स खलु अश्रुत्वा केवलिनो वा यावत् तत्पाक्षिकोपासिकाया वा केवलिप्रज्ञप्तं धर्मं नो लभेत श्रवणतया, तत् तेनार्थेन गौतम ! एवमुच्यते—तदेव यावत् नो लभेत श्रवणतया । अश्रुत्वा खलु भदन्त ! केवलिनो वा यावत् तत्पाक्षिकोपासिकाया वा केवलां बोधिं बुध्येत ? गौतम ! अश्रुत्वा खलु केवलिनो वा

से णं असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए केवलिपन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा सवणयाए, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ, तं चेव जाव नो लभेज्जा सवणयाए) जिस जीव के ज्ञानावरणीयकर्म का क्षयोपशम किया हुआ होता है, उस जीव को केवली से या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से सुने बिना भी केवलिप्रज्ञप्त धर्मश्रवण का लाभ हो सकता है । परन्तु जिस जीव के द्वारा ज्ञानावरणीयकर्म का क्षयोपशम हुआ नहीं है, उस जीवको केवली से या यावत् उनके पाक्षिक की उपासिका से सुने बिना केवलिप्रज्ञप्त धर्मश्रवण का लाभ नहीं हो सकता है । इस कारण हे गौतम ! मैंने ऐसा कहा है उसको यावत् धर्मश्रवण का लाभ नहीं हो सकता है । (असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलबोहिं वुज्जेज्जा) हे भदन्त ! केवली से या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म को सुने बिना किसी जीव को क्या शुद्धबोधिरूप सम्यग्दर्शन

नो कडे भवइ से णं असोच्चाणं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए केवलिपन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा सवणयाए, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ, तं चेव जाव नो लभेज्जा सवणयाए) वे एवे ज्ञानावरणीय कर्मने। क्षयोपशम कर्था डोय छे, ते एव केवली पासेथी ' यावत् ' केवलीना पक्षनी उपासिका पासेथी देशना सांलल्या विना पणु केवलीप्रज्ञप्त धर्मश्रवणुने। लाभ प्राप्त करी शकें छे. परन्तु वे एव द्वारा ज्ञानावरणीय कर्मने। क्षयोपशम करायो नथी ते एव केवली आदिनी पासेथी श्रवणु कर्था विना केवलिप्रज्ञप्त धर्मश्रवणुने। लाभ प्रज्ञप्त करी शकते। नथी. हे गौतम ! ते कारणे मे एवुं कहु छे के केवली आदिनी पासे श्रवणु कर्था विना डोय डोय एवने केवलिप्रज्ञप्त धर्मश्रवणुने। लाभ भणे छे अने डोय डोय एवने ते लाभ भणी शकते। नथी. (असोच्चाणं भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलबोहिं वुज्जेज्जा ?) हे भदन्त ! केवली पासेथी अथवा केवलीना पक्षनी श्राविका पर्यन्तना उपयुक्त एवे। पासेथी केवलिप्रज्ञप्त धर्मनुं श्रवणु कर्था विना डोय एवने शु शुद्ध बोधिश्च सम्यग्दर्शनने। अनुभव थय शकें छे ?

यावत् अस्त्येककः केवली बोधिं पुष्येत, अस्त्येककः केवलीं बोधिं नो पुष्येत ।
 सत् केनार्येन भवन्त ! यावत् नो पुष्येत ? गौतम ! यस्य खलु दर्शनावरणीयानां
 कर्मणां क्षयोपशमः कृतो भवति, स खलु अधुत्वा केवलिनो वा यावत् केवलीं
 बोधिं पुष्येत, यस्य खलु दर्शनावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति,

का अनुभव हो सकता है ? (गोपमा) हे गौतम ! (असोक्खारणं केवलिस्स वा जाव अत्येगइप केवलं बोहिं पुज्जेज्जा, अत्येगइप केवलं बोहिं णो बुज्जेज्जा) केवली से यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञस धर्म का अघण किये बिना भी कोई २ जीव शुद्ध सम्यग्दर्शन का अनुभव कर सकता है और कोई २ जीव उसका अनुभव नहीं कर सकता है । (से केणट्ठेणं मंते ! जाव नो पुज्जेज्जा) हे भदन्त ! ऐसा आप किस कारणसे कहते हैं कि केवलीसे वा यावत् उनके पक्षकी उपासिकासे केवलिप्रज्ञस धर्मका अघण किये बिना भी कोई २ जीव शुद्ध सम्यग्दर्शनका अनुभव कर सकता है और कोई २ जीव नहीं कर सकता है ? (गोपमा) हे गौतम ! (जस्स णं वरिसणावरणिज्जाणं कम्मणं स्वभोवसमे कडे भवइ, से णं असोक्खा केवलिस्स वा जाव केवलं बोहिं पुज्जेज्जा, जस्स ण वरिसणावरणिज्जाण कम्मणं स्वभोवसमे णो कडे भवइ, से णं असोक्खा केवलिस्स वा जाव केवलं बोहिं णो बुज्जेज्जा, से तेणट्ठेण जाव णो

(गोपमा !) हे गौतम ! (असोक्खारणं केवलिस्स वा जाव अत्येगइप केवलं बोहिं पुज्जेज्जा, अत्येगइप केवलं बोहिं णो बुज्जेज्जा) केवली पासेधी अक्ख केवलीना पक्षणी आविष्ठा भवन्तना उपभुंत्ता एवे। पासेधी केवलीप्रज्ञस धर्मं तु अघय क्खीं विना पय्ठं केधं केधं एव शुद्ध सम्यग्दर्शनने। अनुभव करी शकं छे अने केधं केधं एव तेने। अनुभव करी शकता नथी।

(से केणट्ठेणं मंते ! जाव नो पुज्जेज्जा ?) हे भदन्त ! जेणु आप श्ठ शक्ये क्खे। छे के केवली आविष्ठा पासेधी केवलिप्रज्ञस धर्मने। सभज्जा विना पय्ठं केधं केधं एव शुद्ध सम्यग्दर्शनने। अनुभव करी शकं छे अने केधं केधं एव तेने। अनुभव करी शकता नथी ?

(गोपमा !) हे गौतम ! (जस्स णं वरिसणावरणिज्जाणं कम्मणं स्वभोवसमे कडे भवइ, से णं असोक्खा केवलिस्स वा जाव केवलं बोहिं पुज्जेज्जा, जस्स ण वरिसणावरणिज्जाण कम्मणं स्वभोवसमे णो कडे भवइ, से णं असोक्खा केवलिस्स वा जाव केवलं बोहिं णो बुज्जेज्जा, से तेण ज जाव णो बुज्जेज्जा)

स खलु अश्रुत्वा केवलिनो वा यावत् केवलां वोधिं नो बुध्येत, तत् तेनार्थेन यावत् नो बुध्येत। अश्रुत्वा खलु भदन्त ! केवलिनो वा यावत् तत्पाक्षिकोपासिकाया वा केवलां मुण्डो भूत्वा अगारात् अनगारितां प्रव्रजेत्? गौतम ! अश्रुत्वा खलु केवलिनो वा यावत् उपासिकाया वा, अस्त्येककः केवलां मुण्डो भूत्वा अगारात् अनगारितां

बुद्धेज्जा) जिस जीव के द्वारा दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम किया गया होता है, उस जीव को केवली से या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण किये बिना भी शुद्ध सम्यग्दर्शन का अनुभव हो सकता है और जिस जीव के द्वारा दर्शनावरणीय कर्म का-दर्शनमोहनीय का क्षयोपशम किया हुआ नहीं होता है उस जीव को केवली से या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण किये बिना शुद्ध सम्यग्दर्शन का अनुभव नहीं हो सकता है। इस कारण मैं ने हे गौतम ! यावत् उसको अनुभव नहीं हो सकता है ऐसा कहा है। (असोच्चा णं भन्ते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिय उवासियाए वा केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा) हे भदन्त ! केवली से अथवा यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण किये बिना क्या कोई जीव मुंडित होकर गृहवास छोड़ करके शुद्ध अगारावस्था को धारण कर सकता है? (गौयमा) हे गौतम ! (असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा अत्येग-

वे एव वडे दर्शनावरणीय कर्मने। क्षयोपशम करायो होय छे, ते एव केवली आदिनी पासे केवलिप्रज्ञप्त धर्मनुं श्रवणु कर्या विना पणु शुद्ध सम्यग्दर्शनने। अनुभव करी शके छे, परन्तु वे एव द्वारा दर्शनावरणीय कर्मने (दर्शन-मोहनीयने) क्षयोपशम थयो डोतो नथी, ते एव केवली आदिनी पासेथी केवलिप्रज्ञप्त धर्मनुं श्रवणु कर्या विना शुद्ध सम्यग्दर्शनने। अनुभव करी शकतो नथी. हे गौतम ! ते कारणे मे' एवु कहु छे के केड केड एव केवली आदिनी पासे केवलीप्रज्ञप्त धर्मनुं श्रवणु कर्या विना पणु शुद्ध सम्यग्दर्शनने। अनुभव करी शके छे अने केड केड एव ये रीते तेने अनुभव करी शकतो नथी.

(असोच्चा णं भन्ते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिय उवासियाए वा केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा ?) हे भदन्त ! केवली पासेथी अथवा केवलीना पक्षनी उपासिका पर्यन्तनी उपयुक्त व्यक्ति पासेथी केवलिप्रज्ञप्त धर्मनुं श्रवणु कर्या विना शु केड एव मुंडित थधने (प्रवन्था अ जी-कार करीने) गृहवास छोडीने अणुगारावस्थाने धारणु करी शके छे ?



પ્રજેત્ , અસ્ત્યકક્રઃ કેવલાં મુણ્ડો મૂત્સા અગારાત્ અનગારિતાં નો પ્રજેત્ । તત્ કેનાર્થેન યાવત્ નો પ્રજેત્ ? ગૌતમ ! યસ્ય સ્વલુ ધર્માન્તરાયિકાણાં કર્મનાંધપોપ ઘમ કૃતો ભવતિ, સ સ્વલુ અધુત્સા કેવલિનો યા યાવત્ કવલાં મુણ્ડોમૂત્સા આ-

૩૫ કેવલ મુઢે મવિસા અગારામો અણગારિય પઞ્ચપજ્ઞા, અત્યેગ૩૫ કેવલ મુઢે મવિસા અગારામો અણગારિય પઞ્ચપજ્ઞા) કોઈ જીવ એસા હોતા હૈ જો કેવલી સે યા યાવત્ ઇનકે પક્ષ ફી ઉપાસિકા સે કેવલિ પ્રજ્ઞસ ધર્મ કા અચળ કિયે વિના મી મુણ્ઢિત હોકર ગૃહસ્થાવસ્થા ઊઢ શુદ્ધ અનગારાવસ્થા ફો ધારણ કર સકતા હૈ ઓર કોઈ જીવ એસા હોતા હૈ જો કેવલી સે યા યાવત્ ઇનકે પક્ષ ફી ઉપાસિકા સે કેવલિપ્રજ્ઞસ ધર્મ કા અચળ કિયે વિના મુણ્ઢિત હોકર ગૃહસ્થાવસ્થા કો ધારણ નહીં કર સકતા હૈ । (સે કેળદ્વેળ જામ નો પઞ્ચપજ્ઞા) હૈ મદન્ત ! એસા આપ કિસ કારણ સે કહ્તે હૈં કિ કોઈ ઇક જીવ કેવલી સે યા યાવત્ ઇનકે પક્ષ ફી ઉપાસિકા સે કેવલી ઢારા કથિત ધર્મ કા અચળ કિયે વિના મી મુણ્ઢિત હોકર ગૃહસ્થાવસ્થા ઊઢ અનગારાવસ્થા ધારણ કર સકતા હૈ ઓર કોઈ ઇક કેવલી સે યા યાવત્ ઇનકે પક્ષ ફી ઉપાસિકા સે કેવલી ઢારા કથિત ધર્મ કા અચળ કિયે વિના મુણ્ઢિત હોકર ગૃહસ્થાવસ્થા ઊઢ અનગારાવસ્થા ધારણ નહીં કર સકતા હૈ ?

(ગોયમા ।) હે ગૌતમ ! (અસોષાળ કેવલિસ્ત યા જાવ ઇનાધિપાવ યા અત્યગ૩૫ કર્મ મુઢે મવિસા અગારામો અણગારિય પઞ્ચપજ્ઞા, અત્યેગ૩૫ કેવલ મુઢે મવિસા અણગારિય નો પઞ્ચપજ્ઞા) કોઈ જીવ એસા હોતા હૈ જો કેવલી પાસેથી અથવા તેમના પક્ષની ઉપાસિકા પધન્તની કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી કેવલિપ્રજ્ઞસ ધર્મનુ અવલુ કયા વિના પણ મુક્તિ યપને ગૃહસ્થાવસ્થા ઊઢીને અવગ્રાણાવસ્થા અગીકાર કરી શકે છે, અને કોઈ જીવ એવો પણ હોય છે કે જે કેવલી પાસેથી અથવા કેવલીના પક્ષની ઉપાસિકા પધન્તની કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી કેવલિપ્રજ્ઞસ ધર્મનુ અવલુ કયા વિના મુક્તિ યપને ગૃહસ્થાવસ્થાને ત્યાજ કરીને અવગ્રાણાવસ્થા ધારણ કરી શકતો નથી.

(સે કેળદ્વેળ જામ નો પઞ્ચપજ્ઞા ?) હે મદન્ત ! આપ શા કારણે એવુ કહે છે કે કોઈ જીવ કેવલી આદિની પાસે કેવલિપ્રરૂપિત ધર્મનુ અવલુ કયા વિના પણ મુક્તિ યપને ગૃહસ્થાવસ્થા ઊઢી હ ને અવગ્રાણાવસ્થા અગીકાર કરી શકે છે, અને કોઈ જીવ કેવલી આદિની પાસે કેવલિપ્રરૂપિત ધર્મનુ અવલુ કયા વિના મુક્તિ યપને ગૃહસ્થાવસ્થાને ઊઢીને અવગ્રાણાવસ્થા ધારણ કરી

रात् अनगारितां प्रव्रजेत्, यस्य खलु धर्मान्तरायिकाणां कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति, स खलु अश्रुत्वा केवलिनो वा यावत् मुण्डो भूत्वा यावन्नो प्रव्रजेत्, तत् तेनार्थेन गौतम ! यावत् नो प्रव्रजेत् । अश्रुत्या खलु भदन्त ! केवलिनो वा यावत् उपासिकाया या केवलं ब्रह्मचर्यवासम् आवसेत् ? गौतम ! अश्रुत्वा खलु

(गोयमा) हे गौतम ! (जस्स णं धम्मन्तराइयाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, सेणं असोच्चा केवलिसस वा जाव केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा, जस्स णं धम्मन्तराइयाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिसस वा जाव मुंडे भवित्ता जाव णो पव्वएज्जा, से तेणट्ठेणं गोयमा ! जाव नो पव्वएज्जा) जिस जीव को धर्मान्तरायकारक चारित्रमोहनीय कर्म का क्षयोपशम होता है उस जीव को केवली या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण किये बिना भी मुण्डित होकर गृहस्थावस्था के त्याग से अनगारावस्था का धारण करना हो सकता है और जिस जीव के धर्मान्तरायकारक-चारित्रमोहनीय-कर्म का क्षयोपशम नहीं होता है ऐसे जीव के केवली से या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण किये बिना मुण्डित होकर गृहस्थावस्था के त्याग से अनगारावस्था का धारण करना नहीं हो सकता है । इस कारण

शकतो नथी ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जस्स णं धम्मन्तराइयाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, सेणं असोच्चा केवलिसस वा जाव मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा, जस्स णं धम्मन्तराइयाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, सेणं असोच्चा केवलिसस वा जाव मुंडे भवित्ता जाव णो पव्वएज्जा, से तेणट्ठेणं गोयमा ! जाव नो पव्वएज्जा) ने श्रवणद्वारा धर्मान्तरायक-चारित्र मोहनीय कर्मको क्षयोपशम कराये होय छे, ते श्रव केवली पासेथी अथवा तेमना पक्षनी उपासिका पर्यन्तनी कोर्य पणु व्यष्टित पासेथी केवलिप्रज्ञप्त धर्मनु श्रवणु कर्या विना पणु मुडित थएने गृहस्थावस्थानो त्याग करीने अणुगारावस्था धारणु करी शके छे परन्तु ने श्रवना धर्मान्तरायकारक (चारित्र मोहनीय) कर्मको क्षयोपशम थये होतो नथी, ते श्रव केवली पासेथी अथवा तेमना पक्षनी उपासिका पर्यन्तनी कोर्य पणु व्यष्टित पासेथी केवलिप्रज्ञप्त धर्मनु श्रवणु कर्या विना मुडित थएने गृहस्थावस्थाने छोडीने अणुगारावस्था अंगीकार करी शकतो नथी हे गौतम ! ते कारणे मे अणु कहु छे के कोर्य श्रव केवली आदिनी

केवलिनो वा यावत् उपासिकाया वा अस्त्येककः केवल ब्रह्मचर्यवासम् भाव-
सेत्, अस्त्येकक केवल ब्रह्मचर्यवास नो आवसेत् । तत्केनार्थेन मदन्त ! एव
मुच्यते—यावत् नो आवसेत् ? गौतम ! यस्य खलु चारिषावरणीयाना कर्मणां

हे गौतम ! मैंने ऐसा कहा है कि यावत् वह अनगारावस्था धारण
नहीं कर सकता है। (असौद्या ण भते ! केवलिस्स वा जाव उवासियाए
वा केवल यमचेरवास आवसेज्जा) हे मदन्त ! केवली से या यावत्
उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म को बिना सुने क्या कोई
जीव शुद्धब्रह्मचर्यवास को धारण कर सकता है ? (गोपमा) हे गौतम !
(असौच्या ण केवलिस्स वा जाव उवासिया वा अत्येगइए केवल
आवसेज्जा, अत्येगइए केवलं यमचेरवास नो आवसेज्जा) केवली से
या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म का ध्रवण किये
बिना कोई जीव ऐसा भी होता है जो शुद्ध ब्रह्मचर्यवास को धारण कर
सकता है, और कोई जीव ऐसा होता है जो केवली या यावत् उनके
पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म का ध्रवण किये बिना शुद्ध
ब्रह्मचर्यवास को धारण नहीं कर सकता है। (से केणट्ठेणं भते ! एव
पुच्छइ जाव नो आवसेज्जा) हे मदन्त ! ऐसा आप किस कारण से

स्थावस्था छोड़ने अजगारावस्था धारण करी शकते थे, पण केवल एव जेवी
अजगारावस्था धारण करी शकते नहीं।

(असौद्याणं भते ! केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवल यमचेरवास
आवसेज्जा ?) हे मदन्त ! केवली पासोयी अथवा तेमना पक्षणी उपासिका
धर्मन्तनी उपपुत्ता केवल पण व्यङ्गि पासोयी केवलिप्रज्ञप्त धर्मन्तु अथवा इवा
बिना शु केवल एव शुद्ध ब्रह्मचर्यवास धारण करी शकते थे ?

(गोपमा ! असौद्याणं केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा अत्येगइए केवलं
आवसेज्जा आपणए केवल यमचेरवास नो आवसेज्जा) हे गौतम ! केवल एव
जेवी पण दोष थे के के केवली पसे अथवा तेमना पक्षणी उपासिका पक्ष
न्तनी केवल पण व्यङ्गि पासो केवलिप्रज्ञप्त धर्मन्तु अथवा इवा बिना पण शुद्ध
ब्रह्मचर्यवासने धारण करी शकते थे परन्तु केवल एव जेवी पण दोष थे के
के उपपुत्ता केवल पण व्यङ्गिन्तनी पासो केवलिप्रज्ञप्त धर्मन्तु अथवा इवा बिना
शुद्ध ब्रह्मचर्यवास धारण करी शकते नहीं।

(से केणट्ठेणं भते ! एव पुच्छइ जाव नो आवसेज्जा) हे मदन्त !
आप या इतने अनु करी थे के केवल एव केवली अथवा तेमनी उपासिका

क्षयोपशमः कृतो भवति, स खलु अश्रुत्वा केवलिनो वा यावत् केवलं ब्रह्मचर्यवासम् आवसेत्, यस्य खलु चारित्रावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति, स खलु अश्रुत्वा केवलिनो वा यावत् नो आवसेत्, तत् तेनार्थेन यावत् नो आवसेत्। अश्रुत्वा खलु भदन्त ! केवलिनो वा यावत् केवलेन संयमेन संयच्छेत् ? गौतम !

कहते हैं कि कोई जीव केवली या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म को सुने बिना शुद्ध ब्रह्मचर्यवास धारण कर सकता है और कोई जीव धारण नहीं कर सकता है ? (गौतम) हे गौतम ! (जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं वमचेरवासं आवसेज्जा-जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव नो आवसेज्जा, से तेणट्ठेणं जाव नो आवसेज्जा) जिस जीव के चारित्रावरणीय कर्मों का क्षयोपशम होता है ऐसा जीव केवली से या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण किये बिना भी शुद्ध ब्रह्मचर्य वास धारण कर सकता है। और कोई जीव केवली से या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म का श्रमण किये बिना शुद्ध ब्रह्मचर्यवास धारण नहीं कर सकता है। (असोच्चाणं भन्ते ! केवलिस्स वा जाव केवलेणं संजमेणं

पर्यन्तनी कोष्ठ व्यक्ति पासे केवलिप्रज्ञप्त धर्मनुं श्रवणु कर्था विना शुद्ध अक्षर्यप्रत धारणु करी शके छे अने कोष्ठ एव ते प्रत धारणु करी शकतो नथी ?

(गौतम !) हे गौतम ! (जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं वमचेरवासं आवसेज्जा-जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव नो आवसेज्जा, से तेणट्ठेणं जाव नो आवसेज्जा) वे एवना चारित्रावरणीय कर्मोः क्षयोपशम थयेदो डोय छे, ते एव केवली पासेथी अथवा तेमना पक्षनी उपासिका पर्यन्तनी कोष्ठ पणु व्यक्ति पासेथी केवलिप्रज्ञप्त धर्मनुं श्रवणु कर्था विना पणु शुद्ध अक्षर्यप्रतने धारणु करी शके छे परन्तु वे एवना चारित्रावरणीय कर्मोः क्षयोपशम थयो डोतो नथी, ते एव केवली पासे अथवा तेमनी उपासिका पर्यन्तनी कोष्ठ पणु व्यक्ति पासे केवलिप्रज्ञप्त धर्मनुं श्रवणु कर्था विना शुद्ध अक्षर्यप्रतने धारणु करी शकतो नथी हे गौतम ते कारणे में ओ प्रमाणे इहा रे—

(असोच्चाणं)

अधुरा खलु केवलिनो वा यावत् उपासिकाया वा अस्त्येककः, केवलेन संयमेन संयच्छेत्, अस्त्येककः केवलेन संयमेन नो संयच्छेत् । तत् केनार्थेन यावत् नो संयच्छेत् ? गौतम । यस्य खलु यतनावरणीयानां कर्मणां तपोपञ्चमः कृतो भवति, स खलु अथुत्वा खलु केवलिनो वा यावत् केवलेन संयमेन स य

सजमेउजा) हे भद्रन्त ! केवली या यावत् उनके पक्षकी उपासिका से केवलप्रज्ञस घर्म अघण किये बिना क्या कोई जीव शुद्ध सयम द्वारा सयमपतना कर सकता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (असोच्छाणं केवलिस्र वा जात्र उवासियाए वा अत्येगइए केवलेण सजमेण सजमेउजा अत्येगइए केवलेण संजमेण नो सजमेउजा) कोई जीव ऐसा होता है जो केवली या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलप्रज्ञस घर्म का अघण किये बिना भी सयम द्वारा संयमपतना कर सकता है । और कोई नहीं कर सकता है । (से केण्टेण जाय नो सजमेउजा) हे भद्रन्त ! ऐसा आप किस कारण से कहते हैं कि कोई जीव केवलि से या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलप्रज्ञस घर्म का अघण किये बिना भी सयमद्वारा सयमपतना कर सकता है और कोई जीव ऐसा होता है जो केवली से यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलप्रज्ञस घर्म का अघण किये बिना सयम द्वारा संयमपतना नहीं कर सकता है ।

हे भद्रन्त ! केवली पासेधी अथवा तेमना पक्षनी उपासिका पयन्तनी केड पलु अत्रि पासेधी केवलप्रज्ञस धमंनुं अपलु कर्वा विना केड एव शु शुद्ध संयम द्वारा संयमपतना करी शके छे ?

(गोयमा ।) हे गौतम ! (असोच्छाणं केवलिस्र वा जात्र उवासियाए वा अत्येगइए केवलेण सजमेण सजमेउजा, अत्येगइए केवलेण संजमेण नो सजमेउजा) केड एव जेवे केड छे के केवली पासेधी अथवा केवलीना पक्षनी उपासिका पयन्तनी केड पलु अत्रि पासेधी केवलप्रज्ञस धमंनुं अपलु कर्वा विना पलु संयम द्वारा संयमपतना करी शके छे जने केड एव करी शकते नभी । (से केण्टेण जाय नो सजमेउजा ?) हे भद्रन्त ! आप या कारणे जेवु कडे छे के केड एव केवली पासेधी अथवा तेमना पक्षनी उपासिका पयन्तनी केड अत्रि पासेधी केवलप्रज्ञस धमंनुं अपलु कर्वा विना पलु संयम द्वारा संयमपतना करी शके छे जने केड एव उपपुक्त केवली आदि केड पलु अत्रि पासेधी केवलप्रज्ञस धमंनुं अपलु कर्वा विना संयमद्वारा संयम

छेत्, यस्य खलु यतनावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति, स खलु अश्रुत्वा केवलिनो वा यावत् नो संयच्छेत्, तत् तेनार्थेन गौतम। यावत् अस्त्येककः नो संयच्छेत्। अश्रुत्वा खलु भदन्त। केवलिनो वा यावत् उवासिकाया वा केव-

(गोयमा) हे गौतम ! (जस्स णं जयणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव केवलेणं संजमेणं संजमेज्जा, जस्स णं जयणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव नो संजमेज्जा-से तेणट्टेणं गोयमा ! जाव अत्थेगइए नो संजमेज्जा) जिस जीव के यतनावरणीय कर्मों का क्षयोपशम होता है उस जीव के केवली से अथवा यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण किये बिना भी संयम से संयमयतना होती है और जिस जीव के यतनावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता है उस जीव के केवली से या यावत् केवली के पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण किये बिना संयम से संयमयतना नहीं होती है। इस कारण हे गौतम ! मैंने यावत् कोई जीव संयमद्वारा संयमयतना नहीं कर सकता है ऐसा कहा है। (असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा

(गोयमा !) हे गौतम ! (जस्सणं जयणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चाणं केवलिस्स वा जाव केवलेणं संजमेणं संजमेज्जा जस्स णं जयणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव नो संजमेज्जा-से तेणट्टेणं गोयमा ! जाव अत्थेगइए नो संजमेज्जा) ७७ एवना यतनावरणीय कर्मोने क्षयोपशम थये डोय छे, ते एव केवली पासेथी अथवा तेमनी उपासिका पर्यन्तनी कोइ पणु व्यक्ति पासेथी केवलिप्रज्ञप्त धर्मनु श्रवणु कर्था विना पणु संयमद्वारा संयमयतना करी शके छे, परन्तु ७८ एवना यतनावरणीय कर्मोने क्षयोपशम थये डोतो नथी, ते एव केवली पासेथी अथवा तेमना पक्षनी उपासिका पर्यन्तनी कोइ व्यक्ति पासेथी केवलिप्रज्ञप्त धर्मनु श्रवणु कर्था विना संयमद्वारा संयमयतना करी शकते नथी हे गौतम। ते कारणे मे अेषुं कहु छे के कोइ एव केवली आदि पासे केवलिप्रज्ञप्त धर्मनु श्रवणु कर्था विना पणु संयमद्वारा संयमयतना करी शके छे अने कोइ एव अे प्रमाणे कर्था विना संयमद्वारा संयमयतना करी शकते नथी

लेन सवरेण सवृणुयात् ? गौतम । अधुस्वा स्वलु केवलिनो यावत् अस्त्येककः
 केषलेन सवरेण सवृणुयात्, अस्त्येककः केषलेन यावत् नो सवृणुयात् । तत्
 केनार्येन यानत् नो सवृणुयात् ? गौतम । यस्य स्वलु अभ्यवसानावरणीयानां

केषलेणं सवरेणं सवरेज्जा) हे भदन्त ! केवली से या यावत् उनकी
 पाक्षिक उपासिका से केषलिप्रज्ञप्त धर्मश्रवण क्रिये बिना क्या कोई जीव
 शुद्ध सवर द्वारा आस्रवनिरोधरूप सवर करता है ? (गोपमा) हे
 गौतम ! (असोच्चा णं केषलिस्त जाव अत्येगइए केषलेणं सवरेणं
 सवरेज्जा, अत्येगइए केषलेणं जाव नो सवरेज्जा) केवली से या
 उनकी पाक्षिक उपासिका से केषलिप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण कर कोई
 जीव शुद्ध सवर द्वारा आस्रवनिरोधरूप सवर करता है और
 कोई जीव केवली से या यावत् उनकी पाक्षिक उपासिका से केष
 लिप्रज्ञप्त धर्मश्रवण क्रिये बिना शुद्ध सवर से आस्रवनिरोधरूपसवर
 नहीं करता है । (से केणट्टेणं जाव नो सवरेज्जा) हे भदन्त ! ऐसा
 भाप किस कारण से कहते हैं कि कोई जीव केवली से या केवली की

(असोच्चाण मते ! केषलिस्त वा साव उपासियाए वा केषलेण सवरेण
 सवरेज्जा !) हे भदन्त ! केवली पासेधी अथवा तेमना पक्षणी उपासिका
 पयन्तनी केठं पय् व्यक्ति पासेधी केवलिप्रज्ञप्त धर्मंनुं अथय् क्वां विना शु
 केठं एव शुद्ध सवरद्वारा आस्रवनिरोधरूप सवर करे छे ?

(गोपमा !) हे गौतम ! (असोच्चाण केषलिस्त जाव अत्येगइए केव
 लेणं सवरेण सवरेज्जा, अत्येगइए केषलेण जाव नो सवरेज्जा) केठं एव
 ज्जेवो डोय छे के के केवली पासेधी अथवा तेमना पक्षणी उपासिका पयन्तनी
 केठं पय् व्यक्ति पासेधी केवलिप्रज्ञप्त धर्मंनुं अथय् क्वां विना सवरद्वारा
 आस्रवोना निरोधरूप सवर करे छे अने केठं एव ज्जेवो पय् डोय छे के
 के केवली पासे अथवा तेमना पक्षणी उपासिका पयन्तनी केठं व्यक्ति पासे
 केवलीप्रज्ञप्त धर्मंनुं अथय् क्वां विना शुद्ध सवर वडे आस्रवोना निरोधरूप
 सवर करी शकते नथी

(से केणट्टेणं जाव नो सवरेज्जा !) हे भदन्त ! आप या भरहे जेवु
 क्खो छे के केठं एव केवली पासे अथवा केवलीपाक्षिक उपासिका पयन्तनी

कर्मणां क्षयोपशमः कृतो भवति, स खलु अश्रुत्वा केवलिनो वा यावत् केवलेन संवरेण संवृणुयात्, यस्य खलु अध्यवसानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति, स खलु अश्रुत्वा केवलिनो वा, यावत् नो संवृणुयात्, तत् तेनार्थेन

पाक्षिक उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण किये विना भी शुद्ध संवर द्वारा आस्रवनिरोधरूपसंवर करता है-और कोई जीव केवली से या यावत् उनकी पाक्षिक उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण किये विना शुद्ध संवर नहीं करता है? (गौयमा) हे गौतम ! (जस्सणं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव नो संवरेज्जा) जिस जीव अध्यवसानावरणीय-भावचारित्रावरणीय कर्मों का क्षयोपशम किया हुआ होता है, उस जीव केवली से या यावत् उनकी पाक्षिक उपासिका से केवलीप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण किये विना भी शुद्ध संवर द्वारा आस्रवनिरोधरूप संवर होता है। और जिस जीव के अध्यवसानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता है उस जीव के केवली से या यावत् उनकी पाक्षिक

कोई पणु व्यक्ति पासे केवलिप्रज्ञप्त धर्मंनुं श्रवणु कर्था विना पणु शुद्ध संवर द्वारा आस्रवनिरोधरूप संवर करी शकै छे अने कोछे एव केवली अथवा तेमना पक्षनी उपासिका पर्यन्तनी कोछे व्यक्ति पासेथी केवलिप्रज्ञप्त धर्मंनुं श्रवणु कर्था विना शुद्ध संवरवडे आस्रवनिरोधरूप संवर करी शकतो नथी ?

(गौयमा !) हे गौतम ! (जस्सणं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलेणं संवरेण संवरेज्जा, जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव नो संवरेज्जा) ने एवना अध्यवसानावरणीय (भावचारित्रावरणीय) कर्मेनि क्षयोपशम थये डेय छे, ते एव केवली पासेथी अथवा तेमना पक्षनी उपासिका पर्यन्तनी व्यक्ति पासेथी केवलिप्रज्ञप्त धर्मंनुं श्रवणु कर्था विना पणु शुद्ध संवरद्वारा आस्रवोना निरोधरूप संवर करी शकै छे परन्तु ने एवना अध्यवसानावरणीय कर्मेनि क्षयोपशम थये डेयो नथी, ते एव केवली आदिनी पासे केवलिप्रज्ञप्त धर्मंनुं श्रवणु कर्था विना शुद्ध संवरद्वारा आस्रवोना निरोधरूप संवर करी शकतो नथी. (से



यावत् ना सत्त्वुयात् । अभुत्वा त्वल्ल मदन्त ! केवलिनो यावत् केवलम् आमिनि
 षोधिकज्ञानम् उत्पादयेत् ? गौतम ! अभुत्वा त्वल्ल केवलिनो वा यावत् उपासि
 काया वा अस्त्येककः केवलम् आमिनिषोधिकज्ञानमुत्पादयेत्, अस्त्येककः
 केवलम् आमिनिषोधिकज्ञानं नो उत्पादयत् । तत् केनार्येन यावत् नो उत्पादयेत् ?

उपासिका से केवलप्रज्ञस धर्म का अर्घण किये बिना शुद्ध सवर द्वारा
 आस्यनिरोध रूप सवर नहीं होता है । (से तेणद्वेणं जाव नो सवरे
 ज्जा) इस कारण हे गौतम ! मैंने ऐसा कहा है कि यावत् सवर नहीं
 करता है । (असोष्वा णं भन्ते । केवलिस्स जाव केवल आमिणिपोहि
 यणार्ण उप्पाडेज्जा) हे भदन्त ! केवली से या यावत् उनके पक्ष की
 उपासिका से केवलप्रज्ञस धर्म का अर्घण किये बिना भी क्या कोई जीव
 शुद्ध आमिनिषोधिक ज्ञान उत्पन्न कर सकता है ? (गोयमा) हे गौतम !
 (असोष्वा णं केवलिस्स वा जाव उपासियाए वा अस्त्येगइए केवलं आमि
 णिपोहियणार्ण उप्पाडेज्जा, अस्त्येगइए केवलं आमिणिपोहियणार्ण नो
 उप्पाडेज्जा) केवली से या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलप्र
 ज्ञस धर्मका अर्घण किये बिना भी कोई एक जीव शुद्ध आमिनिषोधिक
 ज्ञान उत्पन्न कर सकता है, और कोई जीव शुद्ध आमिनिषोधिक ज्ञान
 उत्पन्न नहीं कर सकता है ? (से केणद्वेणं जाव नो उप्पाडेज्जा) हे भदन्त !
 आप किस कारण से कहते हैं कि केवली से या यावत् उनकी पाक्षिक
 उपासिका से केवलप्रज्ञस धर्म का अर्घण किये बिना भी कोई जीव शुद्ध
 तेणद्वेणं जाव नो सवरेज्जा) हे गौतम ! ते कश्चिं मे ज्ञेयुं कर्हं उ (अर्हं
 " सवर करी शकतो नधी, " त्मां भुभीना पाठं शक्यं करवे ।)

(असोष्वाणं भन्ते । कश्चित्स जाव केवल आमिनिषोहियणार्ण उप्पाडेज्जा ?)

हे भदन्त ! केवली पासेधी अथवा केवलीपाक्षिक उपासिका पयन्तनी केए पय
 अक्षि पासेधी केवलीप्रज्ञस धर्मं तु अयत्तु कर्मा विना कए एव शुद्ध आमि
 निषोधिक ज्ञान उत्पन्न करी शकं उ अरे ? (गोयमा ।) हे गौतम ! (असो-
 ष्वाणं कश्चित्स वा जाव उपासियाए वा अस्त्येगइए केवलं आमिनिषोहियणार्ण
 उप्पाडेज्जा, अस्त्येगइए केवलं आमिणिपोहियणार्ण नो उप्पाडेज्जा) केवली पासेधी
 अथवा तेमना पक्षनी उपासिका पयन्तनी कए अक्षि पासेधी केवलीप्रज्ञस
 धर्मं तु अयत्तु कर्मा विना पय केए एव शुद्ध आमिनिषोधिक ज्ञान उत्पन्न
 करी शकं उ अने केए एव शुद्ध आमिनिषोधिक ज्ञान उत्पन्न करी शकतो
 नधी (स कश्चिं जाव नो उप्पाडेज्जा ?) हे भदन्त ! आप या कश्चिं
 ज्ञेयुं कर्हं उ। हे केवली पासे अथवा तेमना पक्षनी उपासिका पयन्तनी केए

गौतम ! यस्य खलु आभिनिवोधिकज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमः कृतो भवति, स खलु अश्रत्वा केवलिनो वा यावत् केवलम् आभिनिवोधिकज्ञानम् उत्पादयेत्, यस्य खलु आभिनिवोधिकज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति, स खलु अश्रत्वा केवलिनो वा यावत् केवलम् आभिनिवोधिकज्ञानं नो उत्पादयेत्, तत् तेनार्थेन यावत् नो उत्पादयेत् । अश्रत्वा खलु भदन्त ! केवलिनो

आभिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न कर सकता है और कोई जीव शुद्ध आभिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जस्स आभिनिवोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं आभिनिवोहियनाणं उत्पाडेज्जा) जिस जीव के आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम किया हुआ होता है उस जीव के केवली से अथवा यावत् केवली की पाक्षिक उपासिका से केवलप्रज्ञस धर्म का श्रवण किये बिना भी शुद्ध आभिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न हो सकता है और (जस्स णं आभिनिवोहिय नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं आभिनिवोहियनाणं नो उत्पाडेज्जा) जिस जीव के आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम किया हुआ नहीं होता है, उस जीव के केवली से यावत् केवली की पाक्षिक उपासिका से केवली द्वारा धर्म का श्रवण किये बिना शुद्ध

पणु व्यक्ति पासे केवली प्रज्ञस धर्मनु श्रवणु कर्था विना पणु कोइ एव शुद्ध आभिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न करी शके छे अने कोइक एव शुद्ध आभिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न करी शकते नथी ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (जस्स आभिनिवोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं आभिनिवोहियनाणं उत्पाडेज्जा) वे एवे आभिनिवोधिकज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयोपशम कर्था होय छे, ते एव केवली पासेथी अथवा तेमना पक्षनी उपासिका पर्यन्तनी कोइ पणु व्यक्ति पासेथी केवलीप्रज्ञस धर्मनु श्रवणु कर्था विना पणु शुद्ध आभिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न करी शके छे. (जस्सणं आभिनिवोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं आभिनिवोहियनाणं नो उत्पाडेज्जा) परन्तु वे एवे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयोपशम कर्था होतो नथी, ते एव केवली पासेथी अथवा केवलीना पक्षनी उपासिका पर्यन्तनी कोइ व्यक्ति पासेथी केवलीप्रज्ञस धर्मनु श्रवणु कर्था विना शुद्ध आभिनिवोधिक ज्ञान प्राप्त करी शकते नथी.



या, यावत् केवलं भूतज्ञानम् उत्पादयेत् एवं यथा आभिनिबोधिकज्ञानस्य वक्तव्यता भणित्वा, तथा भूतज्ञानस्यापि भणितव्या, नवरम्-भूतज्ञानावरणीयानाम् कर्मणां क्षयोपशमो भणितव्यः । एवमेव केवलम् अवधिज्ञान भणितव्यम्, नवरम् अवधिज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो भणितव्यः । एव केवल मनःपर्यव-ज्ञानम् उत्पादयेत्, नवर मनःपर्यवज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो भणितव्यः ।

अभिनिबोधिक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। (से तेणहेणं जाव नो उप्पाडेज्जा) इस कारण है गौतम। मैंने यावत् एव उत्पन्न नहीं कर सकता ऐसा कहा है। (असोच्चा णं भते! केवलस्स वा जाव केवल सुयणाण उप्पाडेज्जा) है भदन्त! केवली से यावत् अघण किये बिना कोई जीव शुद्ध भूतज्ञान उत्पन्न कर सकता है? (एव जहा आभिणि बोद्धियणाणस्स वसव्वया भणिया तहा सुयणाणस्स वि भाणियव्वा) है गौतम! जिस प्रकार से आभिनिबोधिकज्ञान की वस्तुव्यता कही गई है उसी प्रकार से शुद्ध भूतज्ञान की भी वस्तुव्यता कहनी चाहिये। (नवरं सुयणाणावरणिज्जाणं कम्मार्णं खओवसमे भाणियव्वे) किन्तु भूतज्ञान की वस्तुव्यता में भूतज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम कहना चाहिये। (एव येव केवल ओह्निणाणं, भाणियव्व, नवरं ओह्निणाणवरणिज्जाणं कम्मार्णं खओवसमे भाणियव्वे एव केवल मणपउज्जवनाण उप्पाडेज्जा, नवर मणपउज्जवणाणावरणिज्जाणं कम्मार्णं खओवसमे

(से तेणहेणं जाव नो उप्पाडेज्जा) है गौतम! ते ३१३वे मे ३५५७८ ३५५ ३५५००" है (अर्था "आभिनिबोधिक ज्ञान उत्पन्न करी शकते नही," अर्था सुधीनु पूवेहेण ३५५ ३५५००

(अखोवसार्णं भते! केवलस्स वा जाव केवलं सुयणाण उप्पाडेज्जा!) है भदन्त! केवली आदिनी पासे केवलीअज्जस भभंनुं अवल्लु ३५५०० विना ३५५०० एव शु भूतज्ञान उत्पन्न करी शके है अरे! (एवं जहा आभिनिबोधियणाणस्स वसव्वया भणिया तहा सुयणाणस्स वि भाणियव्वा) है गौतम! जेवी एते आभिनिबोधिक ज्ञाननी वस्तुव्यता ३५५००० आवी है जेव नभावे शुद्ध भूतज्ञाननी वस्तुव्यता समन्वी। (नवर सुयणाणावरणिज्जाणं कम्मार्णं खओवसमे भाणियव्वे) परन्तु भूतज्ञाननी वस्तुव्यता करती वधते भूतज्ञानावरणीय कर्मोनि क्षयोपशम कडेवे। जेधवे (एव येव केवल ओह्निणाण भाणियव्वं, नवर ओह्निणाणवरणिज्जाणं कम्मार्णं खओवसमे भाणियव्वे केवल मणपउज्जवनाण उप्पाडेज्जा, नवर मणपउज्जवणाणावरणिज्जाणं कम्मार्णं खओवसमे भाणियव्वे)

अश्रुत्वा खलु भदन्त ! केवलिं वा यावत् तत्पाक्षिकोपासिकाया वा केवलज्ञान-
मुत्पादयेत्, एवमेव नवरं केवलज्ञानवरणीयानां कर्मणां क्षयो भणितव्यः, शेषं तदेव,
तेनार्थेन गौतम ! एवमुच्यते यावत् केवलज्ञानं नो उत्पादयेत् । अश्रुत्वा खलु

भाणियन्वे) इसी तरह से शुद्ध अवधिज्ञान की वक्तव्यता भी कहनी
चाहिये । इसमें अवधिज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम कहना चाहिये ।
शुद्ध मनःपर्यय ज्ञान की उत्पत्ति की वक्तव्यता भी इसी तरह से
समझनी चाहिये । इस वक्तव्यता में मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मों का
क्षयोपशम कहना चाहिये । (असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव
तप्पःखिखयउवासियाए वा केवलं नाणं उप्पाडेज्जा) हे भदन्त ! केवली
से या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण
किये बिना क्या कोई जीव केवलज्ञान को उत्पन्न कर सकता है ? (एवं
चेव, नवरं केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खए भाणियन्वे) हे गौतम !
इस विषय में समस्त कथन पूर्व की तरह से ही जानना चाहिये । परन्तु
इस केवलज्ञान की उत्पत्ति की वक्तव्यता में केवलज्ञानावरणीय कर्मों
का क्षय कहना चाहिये । (सेसं तं चेव-से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ
जाव केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा) बाकी का अवशिष्ट कथन पहिले के
जैसा ही कहना चाहिये । इस कारण हे गौतम ! मैं ने ऐसा कहा है कि

अथ प्रभाणु शुद्ध अवधिज्ञाननी वक्तव्यता पणु कडेवी नेधये, परन्तु तेमां
अवधिज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयोपशम कडेवे नेधये शुद्ध मनःपर्ययज्ञाननी
उत्पत्ति विषयक वक्तव्यतातुं पणु अथ प्रभाणु कथन थवु नेधये, परन्तु तेनी
वक्तव्यतामां मनःपर्यय ज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयोपशम कडेवे नेधये

(असोच्चाणं भंते ! केवलिस्स वा, जाव तप्पःखिखयउवासियाए वा केवल-
नाणं उप्पाडेज्जा ?) हे भदन्त ! केवली पासेथी अथवा तेमना पक्षनी उपा-
सिका पर्यन्तनी उपयुक्त कोर्ध पणु व्यक्ति पासेथी केवलीप्रज्ञप्त धर्मनु श्रवण
क्या बिना शुं कोर्ध एव केवलज्ञान उत्पन्न करी शके छे ?

(एवं चेव नवरं केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खए भाणियन्वे) हे
गौतम ! केवलज्ञान विषयं समस्त कथन आदिनिष्पेक्षिक ज्ञानना पूर्वोक्त कथन
प्रभाणु समञ्जुं. परन्तु आ केवलज्ञाननी उत्पत्तिनी वक्तव्यतामां केवलज्ञाना-
वरणीय कर्मोना क्षय कडेवे नेधये (सेसं तं चेव-से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ
जाव केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा) हे गौतम ! ते कारणु मे अणुं कहुं छे के कोर्ध
एव केवली आदिनी पासे केवलिप्रज्ञप्त धर्मनु श्रवण कया बिना पणु केवलज्ञान
उत्पन्न करी शके छे अने कोर्ध एव अरिंते केवलज्ञान उत्पन्न करी शकतो नथी.

भदन्त ! केवलिनो वा यावत् तत्पासिकधाविकाया वा केवलिप्रज्ञप्त धर्म छमेत्
 भवगतया, केवलां बोधिं युज्येत केवलां मुण्डो भूत्वा, अगारात् अनगारितां प्र
 जेत, केवल द्रव्यसर्ववासम् भावसेत्, केवलेन संयमेन सयच्छेत्, केवलेन सं
 रेण सवृणुयात्, केवलम् आमिनिषोधिकज्ञानमुत्पादयेत्, यावत् केवल मनःपर्य
 वज्ञानम् उत्पादयेत्, केवलज्ञानम् उत्पादयेत् ? गौतम ! अभुत्वा खलु केवलिनी

यावत् केवलज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता है। (असोच्चा ण भंते !
 केवलिस्म वा जाव तत्पक्खियवययासिघाए वा केवलिपन्नस धम्म
 छमेउजा सवणयाए, केवल पोहिं बुज्जेउजा, केवलं मुडे भविता, अगा
 राओ अणगारिय पच्चएउजा, केवलं वमचेरयास भावसेउजा केवलेण
 सजमेण सजमेउजा, केवलेण सवरेण सवरेउजा, केवल अमिणिबोहियना
 ण उप्पाडेउजा, जाव केवलं मणवउज्जवनाण उप्पाडेउजा, केवलनाणं
 उप्पाडेउजा) हे भदन्त ! केवली से या यावत् उनके पक्ष की उपासिका
 से केवलिप्रज्ञप्त धर्म को अग्रण किये बिना क्या कोई जीव केवलिप्रज्ञप्त
 धर्म भवण को प्राप्त कर सकता है ? शुद्धसम्यक्स्य का अनुभव कर
 सकता है ? मुण्डित होकर गृहस्थावस्था छोड़ अनगारावस्था स्वीकार
 कर सकता है ? शुद्ध द्रव्यसर्ववास में रह सकता है ? शुद्ध समय द्वारा
 समययतना कर सकता है ? शुद्धमंथर द्वारा आश्रय का निरोध कर
 सकता है ? शुद्ध आमिनिषोधिकज्ञान उत्पन्न कर सकता है ? यावत् शुद्ध
 मनः पर्यवज्ञान प्राप्त कर सकता है ? केवलज्ञान उत्पन्न कर सकता है ?

(असोच्चाणं भंते ! केवलिस्म वा जाव तदरक्खियवययासिघाए वा केवलि
 पन्नसं धम्मं छमेउजा सवणयाए केवलं पोहिं बुज्जेउजा केवलं मुडे भविता
 अगाराओ अणगारिय पच्चएउजा केवलं वमचेरयास भावसेउजा, केवलेण संजमेण
 सजमेउजा केवलेण सवरेण सवरेउजा केवल अमिनिबोहियनाण उप्पाडेउजा
 जाव केवलं मणवउज्जवनाणं उप्पाडेउजा, केवलनाणं उप्पाडेउजा ?) हे भदन्त !
 देवकीनी पासे अधरा देवकीपासिक उपासिका पयन्तनी व्यह्ति पासे देवकि
 प्रज्ञप्त धमनु भवण्ठ्यां विना शु कौडं एव देवकिप्रज्ञप्त धर्मभवण्ठ्युप दास
 प्राप्त करी शकं छे अरे ? शुद्ध सम्मत्त्वने अनुभव करी शकं छे अरे ?
 मुण्डित धरुने गृहस्थावस्थाने त्याग करीने अजुआरावस्था स्वीकारी शकं छे
 अरे ? शुद्ध प्रत्यक्ष मन पाणी शकं छे अरे ? शुद्ध समयद्वारा समययतना
 करी शकं छे अरे ? शुद्ध अवरदाश आश्रयने निरोध करी शकं छे अरे ?
 शुद्ध आमिनिषोधिक ज्ञान उत्पन्न करी शकं छे अरे ? सुतज्ञान, अवधिज्ञान,
 मनःपर्यवज्ञान आदि प्राप्त करी शकं छे अरे ? केवलज्ञान उत्पन्न करी शकं छे अरे ?

या यावत् उपासिकाया वा अस्त्येककः केवलप्रज्ञप्त धर्मं लभेत श्रवणतया,
अस्त्येककः केवलप्रज्ञप्तं धर्मं नो लभेत श्रवणतया अस्त्येककः केवलां
बोधिं बुध्येत, अस्त्येककः केवलां बोधिं नो बुध्येत, अस्त्येककः केवलां

(गोयमा) हे गौतम ! (अलोच्चा णं केवलिस्स वा जाव उवासियाए
वा अत्येगइए केवलपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा, सवणयाए, अत्येगइए
केवलप्रज्ञत्तं धम्मं नो लभेज्जा सवणयाए, अत्येगइए केवलंबोहिं बुज्जे
ज्जा, अत्येगइए केवलंबोहिं णो बुज्जेज्जा, अत्येगइए केवलंमुंडे भवित्ता
अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा, अत्येगइए जाव नो पव्वएज्जा,
अत्येगइए केवलं वंभचेरवासं आवसेज्जा, अत्येगइए केवलं वंभचेरवासं
नो आवसेज्जा, अत्येगइए केवलेणं संजमेणं संजमेज्जा, अत्येगइए
केवलेणं संजमेणं नो संजमेज्जा, एवं संवरेण वि अत्येगइए केवलं
आभिणिबोहियनाणं उप्पाडेज्जा, अत्येगइए जाव नो उप्पाडेज्जा, एवं
जाव मणपज्जवनाणं, अत्येगइए केवलनाणं उपाडेज्जा, अत्येगइए
केवलनाणं नो उपाडेज्जा) केवली से यावत् उनके पक्ष की उपासिका
से केवल प्रज्ञप्त धर्मको श्रवण किये बिना भी कोई जीव बोधि प्राप्त कर
सकता है, कोई जीव उस केवलप्रज्ञप्त धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता
है, कोई जीव शुद्ध सम्यक्त्व का अनुभव कर सकता है, कोई जीव
शुद्ध सम्यक्त्व का अनुभव नहीं कर सकता है, कोई जीव मुण्डित

(गोयमा !) हे गौतम ! (अलोच्चाणं केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा
अत्येगइए केवलपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए, अत्येगइए केवलपण्णत्तं धम्मं
नो लभेज्जा सवणयाए, अत्येगइए केवलं बोहिं बुज्जेज्जा, अत्येगइए केवलं बोहि
णो बुज्जेज्जा, अत्येगइए केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा,
अत्येगइए जाव नो पव्वएज्जा, अत्येगइए केवलं वंभचेरवासं आवसेज्जा, अत्ये-
गइए केवलं वंभचेरवासं नो आवसेज्जा, अत्येगइए केवलेणं संजमेणं संजमेज्जा
अत्येगइए केवलेणं संजमेणं नो संजमेज्जा एव संवरेण वि, अत्येगइए केवलं
आभिणिबोहियनाणं उप्पाडेज्जा, अत्येगइए जाव नो उप्पाडेज्जा, एव जाव मण-
पज्जवनाणं, अत्येगइए केवलनाणं उप्पाडेज्जा, अत्येगइए केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा)
केवली पासे अथवा तेमना पक्षनी उपासिका पर्यन्तनी पूर्वोक्ता डोअं पणु
व्यक्ति पासे केवलप्रज्ञप्त धर्मने श्रवण कया बिना पणु डोअं एव केवलप्रज्ञप्त
धर्मने प्राप्त करी शके छे अने डोअं एव केवलप्रज्ञप्त धर्मने प्राप्त करी शकते नथी,

मुण्डोभूत्वा भगारात् अनगारितां प्रयजेत्, अस्त्येकको यावत् नो प्रयजेत्,
 अस्त्येकक क्वचं ब्रह्मपर्यवासम् भावसेत्, अस्त्येककः केवलं ब्रह्मपर्यवास नो
 भासेत्, अस्त्येककः केवलेन समयेन संयच्छेत्, अस्त्येकक केवलेन संयमेन
 नो संयच्छेत् । एव मवरेणादि । अस्त्येककः केवलम् आभिनियोषिकज्ञानमुत्पाद
 येत् । अस्त्येकको यावत् नो उत्पादयेत् एव यावत् मनःपर्यवज्ञानम् । अस्त्येककः
 केवलज्ञानम् उत्पादयेत् अस्त्येकक केवलज्ञानं नो उत्पादयेत् । तस्केनार्येन मन्ता

होकर गृहस्थावस्था छोड़ अनगारावस्था रचीकार कर सफता है कोई
 जीव शुद्ध ब्रह्मपर्यवास में रह सकता है, कोई जीव शुद्ध ब्रह्मपर्यवास
 में नहीं रह सकता है, कोई जीव शुद्ध समयद्वारा समययतना कर
 सकता है, कोई जीव शुद्ध समयद्वारा समययतना नहीं कर सकता है,
 इसी तरह से सधर के विषय में भी जानना चाहिये । कोई जीव केव
 लिप्रज्ञप्त धर्म को केवली से या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से
 अथवा किये बिना शुद्ध आभिनियोषिकज्ञान को उत्पन्न कर सकता है
 और कोई जीव यावत् उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसी तरह से यावत्
 मनः पर्यव ज्ञानतक जानना चाहिये । कोई जीव केवलज्ञान उत्पन्न कर
 सकता है, और कोई जीव केवलज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता है । (से
 केण्डेण भते । एवं बुच्चइ असोकषा णं त चेव जाव अत्येगइप केवल-

कैऽथ एव शुद्ध अभ्यस्तने अनुभव करी शकें छे जने कैऽथ एव शुद्ध
 अभ्यस्तने अनुभव करी शकते नथी कैऽथ एव मुदित भधने गृहस्थावस्थानो
 त्मात्र करीने अणुत्राशवस्था अजीकार करी शकें छे जने कैऽथ एव ते रीते
 अणुत्राशवस्था अजीकार करी शकते नथी, कैऽथ एव ब्रह्मचर्यवत धारण करी
 शकें छे जने कैऽथ एव ब्रह्मचर्यवत धारण करी शकते नथी कैऽथ एव शुद्ध
 संयमद्वारा संयमयतना करी शकें छे जने कैऽथ एव शुद्ध संयमद्वारा संयम
 यतना करी शकते नथी जेव प्रभाजे सवरना विषयमां पणु समञ्जुं कैऽथ
 एव देवली पासे अथवा देवलीपाक्षिक उपासिका पर्यन्तनी शोर्क पणु व्यक्ति
 पासे देवलिप्रज्ञप्त धर्मने अवणु कर्मां विना शुद्ध आभिनियोषिक ज्ञान उत्पन्न
 करी शकें छे जने कैऽथ एव जे रीते आभिनियोषिक ज्ञान उत्पन्न करी शकते
 नथी जेव प्रभाजे मनाःपर्यवज्ञान पर्यन्तना विषयनी वक्तव्यता पणु सम
 न्नी जेव प्रभाजे कैऽथ एव देवज्ञान उत्पन्न करी शकें छे जने कैऽथ एव
 देवज्ञान उत्पन्न करी शकते नथी, (से केण्डेणं भते । एवं बुच्चइ असोकषाणं

एवमुच्यते-अश्रुत्वा खलु तदेव यावत्-अस्त्येककः केवलज्ञानं नो उत्पादयेत् ? गौतम ! यस्य खलु ज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति १ यस्य खलु दर्शनावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति २, यस्य खलु धर्मान्तरायिकाणां कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति ३, एवं चारित्रावरणीयानाम् ४,

नार्ण नो उत्पाडेज्जा) हे भदन्त ! इस तरह से आप किस कारण से कहते हैं कि धर्म को खुने बिना उस तरह से यावत् कोई जीव केवल-ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता है ? (गोयमा ! जस्स ण नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ १, जस्स णं दरिसणावज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ २, जस्स णं धम्मंतराइयाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ ३, एवं चरित्तावरणिज्जाणं ४, जयणावरणिज्जाणं ५, अज्झवसाणावरणिज्जाणं ६, आभिणिवाहियणावरणिज्जाणं ७, जाव मणपज्जवनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ १०, जस्स णं केवलनाणावरणिज्जाणं जाव खए नो कडे भवइ ११, से णं असोच्चा केवलित्स वा जाव केवलपन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा सवणयाए, केवलं वोहिं नो बुज्जेज्जा जाव केवलनाणं नो उत्पाडेज्जा) हे गौतम ! जिस जीव के ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम किया हुआ नहीं होता है, जिस जीव के दर्शनावरणीय कर्मों का क्षयोपशम किया हुआ नहीं होता है, जिस जीव के धर्मान्तरायिक

त चेव जाव अत्येगहए केवलनाणं उत्पाडेज्जा ?) हे भदन्त ! आप शा कारणे अपुं कडे छे के केवलिप्रज्ञम धर्मने श्रवणु कथां विना उपयुं कत “ केवणज्ञान उत्पन्न करी शकते नथी, ” त्या सुधीनु समस्त कथन थए शके छे ?

(गोयमा ! जस्स ण नाणावरणिज्जाणं कम्माण खओवसमे नो कडे भवइ १, जस्स णं दरिसणावज्जाणं कम्माण खओवसमे नां कडे भवइ २, जस्स णं धम्मंतराइयाण कम्माण खओवसमे नो कडे भवइ ३, एव चरित्तावरणिज्जाण ४, जयणावरणिज्जाण ५, अज्झवसाणावरणिज्जाण ६, आभिणिवोहियणावरणिज्जाण ७, जाव मणपज्जवनाणावरणिज्जाणं कम्माण खओवसमे नो कडे भवइ १०, जस्स णं केवलनाणावरणिज्जाण जाव खए नो कडे भवइ ११, से णं असोच्चा केवलित्स वा जाव केवलपन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा सवणयाए, केवलं वोहिं नो बुज्जेज्जा, जाव केवलनाण नो उत्पाडेज्जा) हे गौतम ! वे अवे ज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयोपशम कथो होतो नथी, वे अवे दर्शनावरणीय कर्मोना क्षयोपशम कथो होतो नथी, वे अवे धर्मान्तरायिक कर्मोना क्षयोपशम कथो होतो नथी, वे

यतनावरणीयानाम् ७, अध्यवसानावरणीयानाम् ८, आभिनिघोषिकज्ञानावरणीया
नाम् ७, यावत् मन पर्यवज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति १०,
यस्य खलु कथलज्ञानावरणीयानां यावत् क्षयो नो कृतो भवति ११, स खलु
अधुराश देवलिनी वा यावत् क्वचिन्मिहत्तं धर्मं नो लभेत भ्रवणतया, केवलं बोधिं
नो पुष्यत, यावत् केवलज्ञान नो उत्पादयेत्। यस्य खलु ज्ञानावरणीयानां कर्मणां
क्षयोपशमः कृतो भवति, यस्य खलु दर्शनावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमः कृतो

कर्मों का क्षयोपशम किया हुआ नहीं होता है, इसी तरह से जीव क
चारित्र्यावरणीयकर्मों का, यतनावरणीय कर्मों का, अध्यवसानावरणीय
कर्मों का, आभिनिघोषिकज्ञानावरणीयकर्मों का यावत् मन पर्यवज्ञाना
वरणीयकर्मों का क्षयोपशम किया हुआ नहीं होता है, तथा जिस जीव
के केवलज्ञानावरणीयकर्मों का क्षय किया हुआ नहीं होता है ऐसा वह
जीव केवलज्ञानी से यावत् उनके पक्ष की उपासिका से सुने बिना
केवलप्रज्ञप्त धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता है, शुद्ध सम्यक्त्व का अनु
भव नहीं कर सकता है, यावत् केवलज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता
है। (जस्म णं णाणावरणिज्जाणं कम्मण, खओघसमे कडे भयइ, जस्स
णं दरिस्सणावरणिज्जाणं कम्मणं ग्वओघसमे कडे भयइ, जस्स णं धम्मं
तराइयाणं एव जाय, जस्मणं कथलणाणावरणिज्जाणं कम्मण एव
कडे भयइ, से ण असोच्चा केवलस्स या जाय कवलपससा धम्म लभेज्जा
सयणयाए केवलपोहिं पुज्जेज्जा जाय केवलनाणं उपाडेज्जा) तथा जिस

एवे चारित्र्यावरणीय कर्मोना यतनावरणीय कर्मोना अध्यवसानावरणीय कर्मोना,
आभिनिघोषिक ज्ञानावरणीय कर्मोना तथा मनपर्यव ज्ञानावरणीय पर्यन्तया
कर्मोना क्षयोपशम कर्था हेतो नथी, तथा वे एवे केवलज्ञानावरणीय कर्मोना
क्षय होतो नातो नथी एवे ते एव केवलज्ञानी पासो अधुरा तेमनी उपासिका
या न पी हेअं पज्ज भवति पासो केवलीप्रज्ञप्त धमने श्रवण कर्था बिना केवलिप्रज्ञप्त
धमने प्राप्त करी शक्ते नथी शुद्ध सुवैश्वर्यो अनुभव करी शक्ते नथी खिन्न
प्रभावे ' केवलज्ञान उत्पाद करी शक्ते नथी' त्वां सुधीनुं समस्य कथन प्रदल्लारुदुं

(जस्स णं णाणावरणिज्जाणं कम्मण ग्वओघसमे कडे भयइ जाय णं
दरिस्सणावरणिज्जाणं कम्मणं ग्वओघसमे कडे भयइ जाय णं धम्मं तराइयाणं एव
जाय जाय एव कथलणाणावरणिज्जाणं कम्मण एव कडे भयइ से ण असोच्चा
केवलस्स या जाय कवलपससा धम्म लभेज्जा सयणयाए केवलपोहिं पुज्जेज्जा
जाय केवलनाणं उपाडेज्जा) परन्तु वे एव ज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयो

भवति, यस्य खलु धर्मान्तराधिकारणां कर्मणाम् एवं यावत्, यस्य खलु केवल-
ज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयः कृतो भवति, स खलु अश्रुत्वा केवलिनो वा यावत्
केवलिप्रज्ञप्तं धर्म लभेत श्रवणतया, केवलां वीरिं बुध्येत, यावत् केवलज्ञान-
मुत्पादयेत् ॥ सू० १ ॥

टीका—‘ रायगिहे जाव एवं वयासी ’ राजगृहे यावत् नगरे स्वामी समव-
सृतः, भगवन्तं महावीरं वन्दितुं पर्वत् निर्गच्छति, वन्दित्वा धर्मोपदेशादिकं च

जीव के ज्ञानावरणीयकर्मों का क्षयोपशम किया हुआ होता है, जिस
जीव के दर्शनावरणीयकर्मों का क्षयोपशम किया हुआ होता है, जिस
जीव के धर्मान्तराधिकारकों का क्षयोपशम किया हुआ होता है—इसी
तरह से चरित्रावरणीयकर्मों के क्षयोपशम से लेकर मनःपर्ययज्ञानाव-
रणीयकर्मों का क्षयोपशम किया हुआ होता है केवलज्ञानावरणीयकर्मों
का क्षय किया हुआ होता है ऐसा जीव केवली से या यावत् उनके
पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म को श्रवण किये बिना प्राप्त कर
सकता है, शुद्ध सम्यक्त्व का अनुभव कर सकता है, यावत् केवलज्ञान
को उत्पन्न कर सकता है ।

टीकार्थ—पूर्वोक्त स्वरूपवाले पदार्थ केवलिप्रज्ञप्त धर्म से जाने जाते
हैं और उस धर्म को कोई जीव बिना सुने भी प्राप्त कर लेता है इत्यादि
विषय को सूत्रकार ने इस सूत्र द्वारा प्रतिपादित किया है । (रायगिहे
जाव एवं वयासी) राजगृह नगर में महावीर स्वामी पधारे, उनको
वन्दना के लिये और उन्हें नमस्कार करने के लिये वहाँ की परिषद्

पशम थयो डोय छे, ने लवना दर्शनावरणीय कर्मोनि क्षयोपशम थयो डोय
छे, ने लवना धर्मान्तराधिक कर्मोनि क्षयोपशम थयो डोय छे, येअ प्रमाणे
ने लवना चरित्रावरणीय कर्मोथी लधने मनःपर्यय ज्ञानावरणीय कर्मोनि क्षय
थयो डोय छे, येवे लव केवजज्ञानी पासे अथवा तेमना पक्षनी उपसिका
पर्यन्तनी कोरि पणु व्यक्ति पासे केवलिप्रज्ञप्त धर्मनु श्रवण कर्था विना पणु
केवलिप्रज्ञप्त धर्मने प्राप्त करी शके छे, शुद्ध सम्यक्त्वने अनुभव करी शके
छे अने केवजज्ञान पर्यन्तनी उपर्युक्त समस्त वस्तुओ प्राप्त करी शके छे.

टीकार्थ—पूर्वोक्त स्वरूपवाला पदार्थोनि केवलिप्रज्ञप्त धर्मोथी लणु शक्य
छे अने ते धर्मने कोरि लव केवली आदिनी देशना सालण्वा विना पणु प्राप्त
करी ले छे, इत्यादि विषयोनु सूत्रकारे आ सूत्रद्वारा प्रतिपादन कर्तुं छे.

“ रायगिहे जाव एवं वयासी ” राजगृह नगरमां महावीर स्वामी
पधार्या. तेमने वंइणु नमस्कार करवाने त्यानी जना नीकणी पडी. वंइणु
नमस्कार करीने तथा तेमने धर्मोपदेश सालणीने बोडो योतयोताने स्थाने

भुत्वा प्रविगता पर्यन्तं, ततो विनयेन प्राञ्जलिपुटो गौतम पर्युपासीनः एव वक्ष्यमाणप्रकारेण अवादीत्—‘असोष्णा ण भते । केवलिस्स वा केवलिसावगस्स वा केवलिसावियाण वा ’ इ भदन्त ! कश्चिज्जीवः केवलिनो वा भिनस्य सकाञ्चान् मधुम्वा घर्मफलादिप्रतिपादकरचनध्वजम-तरेण पूर्वोपार्जितचनानुरागादेवति मात्र ‘केवलिभावकस्य वा सकाशात्, येन स्वयमेव केवली पृष्टः, धृत वा केवलित्रचन येन स केवलिभावकस्तस्य, केवलिधाविकाया वा पाश्चात् धर्मोपदेशादिश्चमधुत्वा केवलिसत्तं घर्म लमेत ध्वजतया किम् ? इत्यग्रेण सम्बन्ध, तदेवं विद्वदपति—‘केवलि उवासगस्स वा, केवलिउवासियाण वा ’ केवर्युपासकस्य, केवलिन उपासनां कुर्वत’, उपासनां कुर्वता यन अन्यस्मैकथ्यमानमुपदेशादिक भुत भवेत् स केवर्युपासकस्तस्य सकाशाद् वा, एवं केवर्युपासिकाया सकाशाद् वा तत्पत्नित्वस्य वा, तत्पत्नित्वस्यसावगस्स वा तत्पत्नित्वस्यसावियाण वा, तत्पत्नित्वस्य

निकली और चन्दना एवं नमस्कार करके तथा प्रभु का प्रदत्त घर्मोपदेश सुनकर वह वहाँ से अपने २ स्थान पर वापिस आगई। उस समय अचरत प्राप्त कर गौतम ने प्रभु की त्रिविध पर्युपासना से उपासना करते हुए पद्ये विनय के साथ दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूजा—(असोष्णा ण भते ! केवलिस्स वा केवलिसावगस्स वा, केवलिसावियाण वा) हे भदन्त ! कोई जीव केवली से—जिन से अथवा केवली ध्यायक से अथवा केवली की ध्यायिका से (केवलिउवासगस्स वा) अथवा केवली के उपासक से (केवलि उवासियाण वा) अथवा केवली की उपासिका से (तत्पत्नित्वस्य वा, तत्पत्नित्वस्यसावगस्स वा) अथवा केवली के पक्ष के स्वयमुद्द से अथवा केवली के पाक्षिक क-स्वयमुद्द क ध्यायक से (तत्पत्नित्वस्य सावियाण वा) अथवा केवली के पाक्षिक की

पूजा रूपी त्याग आदि धर्मतत्त्व समझवानी जिज्ञासावाला गौतम स्वामीसे भदावीर प्रभुनी त्रिविध पर्युपासना करीने विनयपूर्वक व ने साथ जेरीने आ प्रभावे प्रभु कर्पा—

(असोष्णं भते ! केवलिग वा, केवलिसावग वा, केवलिसावियाण वा) इ भदन्त ! केवलिसानी पासिणी अथवा केवलीना सावग पासिणी अथवा केवलीना सावियाण पासिणी ‘ केवलि उवासग वा, केवलि उवासियाण वा अथवा केवलीना उपासक पासिणी अथवा केवलीना उपासिका पासिणी (तत्पत्नित्वस्य वा तत्पत्नित्वस्यसावग वा तत्पत्नित्वस्यसावियाण वा) अथवा केवलीना पक्षना स्वयमुद्द कर्पा अथवा केवलीना पक्षना स्वयमुद्द कर्पा पासिणी अथवा केवलीना पक्षना सावियाण पासिणी ‘ तत्पत्नित्वस्य सावियाण वा अथवा केवलीना

उपासगस्स वा, तप्पक्खियउवासियाए वा केवल्लिपज्जसं धम्मं लभेज्जा सवणयाए' तत्पाक्षिकस्य वा तस्य-केवलिनः पाक्षिकस्य स्वयंबुद्धस्य सकाशाद् वा, तत्पाक्षिक-
 श्रावकस्य वा केवल्लिपाक्षिकस्वयंबुद्धश्रावकस्य सकाशाद् वा, तत्पाक्षिकश्राविकायाः
 सकाशाद् वा, तत्पाक्षिकोपासकस्य सकाशाद् वा, तत्पाक्षिकोपासिकायाः सकाशाद् वा
 अश्रुत्वैवेति पूर्वणान्वयः केवल्लिप्रज्ञसं जिनोपदिष्टं धर्मं श्रुतचारित्रलक्षणं श्रवणतया

श्राविका से, (तप्पक्खिय उवासगस्स वा, तप्पक्खिय उवासियाए वा)
 अथवा केवली के पाक्षिक के उपासक से, अथवा केवली के पाक्षिक की
 उपासिका से, केवल्लिप्रज्ञसं धर्म को नहीं सुनकर क्या श्रवणज्ञानरूप
 फल से उसे प्राप्त कर सकता है ? तीर्थंकर प्रकृति से युक्त केवलज्ञानी
 अर्हत प्रभु द्वारा उपदिष्ट जो श्रुतचारित्ररूप धर्म है वह यहाँ केवल्लिप्र-
 ज्ञसं धर्मरूप से कहा गया है। इस धर्म के फलादि को कहने वाले वचन
 का नहीं सुनना यह (अश्रुत्वा) पद से कहा गया है। जिसने स्वयं
 केवली से पूछा है अथवा केवली भगवान् के वचन जिसने सुने हैं वह
 केवली के श्रावक पद से समझाया गया है। इसी तरह से केवली की
 श्राविका समझनी चाहिये। केवली को उपासना करने वाला जीव यहाँ
 केवली का उपासक कहा गया है। यह उपासक दूसरे के लिये दिये गये
 उपदेशादि का सुनने वाला होता है। इसी तरह से केवली की उपासिका
 जाननी चाहिये। (तप्पक्खियस्स) पद से केवली के पाक्षिक-स्वयंबुद्ध

पक्षना उपासक पासेथी " तप्पक्खियउवासियाए वा " अथवा केवलीना पक्षनी
 उपासिका पासेथी केवल्लिप्रज्ञसं धर्मने श्रवणु कर्था विना शुं कोष्ठं एव श्रवणु-
 शानइय इण वडे तेने प्राप्त करी शके छे भरे ?

तीर्थंकर प्रकृतिथी युक्त केवलज्ञानी अर्हत भगवान द्वारा उपदिष्ट वे
 श्रुतचारित्ररूप धर्म छे तेने केवलीप्रज्ञसं धर्म कडे छे आ धर्मादिना इलाहिने
 कडेनारा वचन नही सांभजानार व्यक्तितुं " अश्रुत्वा " आ पद द्वारा सूचन
 थयु छे जेणे पोते केवली भगवाननां वचन सांभज्या डोय अथवा केवली
 भगवानने पूछीने पोतानी शक्योनुं निवारणु कर्थुं डोय जेवा पुरुषने
 केवलीना श्रावक कडे छे अने जेवी स्त्रीने केवलीनी श्राविका कडे छे केवलीनी
 उपासना करनार एवने केवलीना उपासक कडे छे ते उपासके केवली भग-
 वानने स्वमुणे उपदेश सांभज्यो डोतो नथी पणु अन्यना द्वारा-भगवानना
 शिष्य प्रशिष्य द्वारा-ते धर्मोपदेश श्रवणु कर्थो डोय छे जे प्रमाणे केवलीनी
 उपासिका विषे पणु समज्जु " तप्पक्खियस्स " आ पदथी केवलीना पाक्षिक

भयङ्गानरूपफलनाया समेत । प्राप्नुयात् किमिति प्रश्नः, भगवानाह- ' गोपमा ! असौषा ण केवलिस्म वा जाय तप्पक्खियउवासियाए वा अत्येगए केवलिपत्त घम्म लमेज्जा सवणयाए ' ह गौतम ! अस्त्येयकः कश्चिदयतम। पुरुष केवलिनो वा यावन् केवलिभावकस्य वा, केवलिधाविकाया वा, केवल्युपासकस्य वा, केवल्युगामिनाया वा सत्पासिकस्य वा सत्पासिकभावकस्य वा, सत्पासिकभावि

गृहीत किये गये हैं। इनके आयक अथवा आधिका (तप्पक्खियमाव गस्स वा सत्पक्खियसावियाए वा) इन पदों द्वारा प्रकट किये गये हैं। इसी तरह से इनके उपामक और उपासिका भी जानना चाहिये। यहाँ गौतम के प्रश्न का सारांश ऐसा है कि ऐसा जीव कि जिसने इन पूर्वोक्त केवली आदिकों के पाम से केवलीप्रज्ञप्त घर्म के फलादिक को प्रतिपादन करने वाले षचनों को नहीं सुना है-अर्थात् घर्म का यथार्थस्वरूप नहीं जाना है-केवल वह घर्मानुराग से ही घर्म का सेवन करता है तो क्या ऐसे जीव को घर्मोपदेश सुनने से घर्म का यथार्थ स्वरूप जानकर घर्म का सेवन करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल घर्मानुराग से सेवित किये गये घर्म से प्राप्त हो सकता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं- गोपमा) हे गौतम ! (अमोच्चा ण केवलिस्म वा जाय तप्पक्खिय उवागियाए वा अत्येगए केवलिपत्त घम्म लमेज्जा, सवणयाए) कोई एक जीव ऐसा होता है जो केवली से या यावत्-केवली के आयक से, केवली की आधिका से, केवली के उपामक से, केवली की उपासिका से,

स्वयंपुत्रे भद्रं कुरुतां आवेत्तं तेभना आयकं अने आधिकाने " त्वं त्पक्खियमावगस्स वा, तप्पक्खियसावियाए वा ' आ पदो द्वारा प्रकट कुरुतां आवेत्तं उ अने प्रभावे तेभना उपासकं अने उपासिकां किये पल्लु समञ्जसं गौतम शरभीना प्रश्नं तात्पर्यं अने उ के ने एवे पूर्वोक्त केवली आदिकोनी पामे केवलिप्रज्ञप्त घर्मना क्लृप्तिकुं प्रतिपादन कर्नाश वचन आच्छया नवी-अटवे के घमन्तु यथार्थं स्वरूपं लक्ष्मं नवी, केवल घर्मानुरागधी ने ते घर्मन्तु सेवत करे उ ते घर्मन्तु यथाव स्वरूपं लक्ष्मिने घर्मन्तु मेवत कर्नाथी ने इत प्राप्त थाय उ ते इतं शुं केवली आदिकोनी पामे घर्मन्तु स्वयं कर्पा निना मात्र घर्मानुरागधी प्रेरणानी सेवेता घम द्वारा प्राप्त थाय उ अइ ? भदानीर प्रभुने उत्तर- ' गोपमा ! " हे गौतम ! (अमोच्चाण केवलिस्म वा जाय तप्पक्खिय उवागियाए वा अत्येगए केवलिपत्तं घम्म लमेज्जा सवणयाए) कोई एक अने आवेत्तं योय उ के ने केवली पामेधी केवलीना आयक पामेधी, केवलीनी आधिका पामेधी, केवलीना उपासक पामेधी, केवलीनी उपा

काया वा, तत्पाक्षिकोपासकरूप वा, तत्पाक्षिकोपासिकाया वा सकाशात् धर्मो-
पदेशम् अश्रुत्वैव खलु केवलप्रज्ञप्तं धर्मं श्रुतचारित्ररूपं श्रवणतया श्रवणज्ञानरूप-
तया लभेत=प्राप्नुयात्, अत्येगइए केवलप्रज्ञप्तं धर्मं नो लभेज्जा सवणयाए'
अस्येककः कश्चिदपरः पुरुषः केवलप्रभृतेः सकाशात् धर्मोपदेशम् अश्रुत्वा=अना-
कर्ण्य केवलप्रज्ञप्तं धर्मं श्रुतचारित्ररूपं श्रवणतया-श्रवणज्ञानफलतया नो लभेत।
गौतमस्तत्र कारणं पृच्छति- 'से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-असोच्चा णं जाव

उनके पाक्षिक से, उनके पाक्षिक के श्रावक से, या उनकी श्राविका से,
उनके पाक्षिक के उपासक या उपासिका से केवलप्रज्ञप्त धर्म का उपदेश
नहीं सुन करके ही उस केवलप्रज्ञप्त श्रुतचारित्ररूप धर्म का फल श्रव-
णज्ञानरूप फल से प्राप्त कर लेता है-अर्थात् केवली आदि से साक्षात्
धर्मोपदेश सुन करके धर्म का यथार्थ स्वरूप जान करके जो उसके
सेवन से फल प्राप्त होता है वही फल किसी एक जीव को केवल धर्मा-
नुराग से सेवित किये गये धर्म से केवली आदि से विना सुने भी
प्राप्त होता है। (अत्येगइए केवलप्रज्ञप्तं धर्मं नो लभेज्जा सवणयाए)
तथा किसी एक जीव को केवली आदि के पास से धर्मोपदेश सुने विना
केवलप्रज्ञप्त धर्म के सेवन करने का फल केवल धर्मानुराग से सेवित
कियेगये धर्मसे प्राप्त नहीं होता है। इस विषयमें कारण जाननेकी इच्छा
से गौतम प्रभु से पूछते हैं- (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ, असोच्चा

सिका पासेथी, तेमना पाक्षिक स्वयंभुद्ध पासेथी, तेमना पक्षना श्रावक पासेथी,
तेमना पक्षनी श्राविका पासेथी, तेमना पक्षना उपासक पासेथी अथवा तेमना
पक्षनी उपासिका पासेथी केवलीप्रज्ञप्त धर्मने उपदेश सालज्या विना, केवलि-
प्रज्ञप्त श्रुतचारित्ररूप धर्मनुं इण श्रवणज्ञानरूप इलद्वारा प्राप्त करी ले छे,
अेटले के साक्षात् केवली आदिनी पासे धर्मोपदेश सालजीने धर्मनुं यथार्थ
स्वरूप लणी लधने तेनुं सेवन करवाथी ने इल प्राप्त थाय छे, अेअ इत
डोडके एव केवण धर्मानुरागथी प्रेराने सेवेला धर्मद्वारा-केवली आदि पासे
धर्मोपदेश सालज्या विना-पणु प्राप्त करी शके छे (अत्येगइए केवलप्रज्ञप्तं
धर्मं नो लभेज्जा सवणयाए) परन्तु डोडके एव अेयो पणु डोय छे के ने
केवली आदिनी पासे धर्मोपदेश सालज्या विना, मात्र धर्मानुरागथी प्रेराने
सेवेला धर्मद्वारा केवलप्रज्ञप्त धर्मना सेवननुं इण प्राप्त करी शकतो नथी.

इवे तेनुं कारण लणुवानी जिजासाथी गौतम स्वामी महावीर प्रभुने
पूछे छे के-(से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ, असोच्चाण जाव नो लभेज्जा

नो लमेज्जा सवणयाए ?' हे मदन्त ! एत्-प्रय केनोर्येन एवमुच्यते एत्-
 मधुत्वा खलु यावत् केवलिसमुतेः सकाशात् केवलिसमस्यं धर्मं कश्चित् लमेत् कश्चिन्नो
 लमेत् भ्रवणतया ? भगवानाह- ' गोपमा ! जस्स ण नागावरणिज्जाण कम्मार्ण
 ग्वओवसमे कडे मवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स आय तप्पक्खियउवासियाए वा
 केवलिपण्णसं घम्मं लमेज्ज सवणयाए ' हे गौतम ! यस्य खलु जीवस्य ज्ञानावर
 णीयानां कर्मणां क्षयोपशमः कृशो मवति स खलु भीष केवलिनो वा सकाशात्,
 यावत् केवलिभ्रायकममृतिसकाशात् वा तत्पासिकोपासिकाया' सकाशात् वा

णं जाव नो लमेज्जा सवणयाए) हे मदन्त ! ऐसा आप किस कारण
 से कहते हैं कि कोई जीव केवली से या यावत् उनकी उपासिका से
 केवलिसमस्यं धर्म का उपदेश सुने बिना केवल धर्मानुराग से सेवित
 किये गये धर्म से धर्मभ्रवण के जैसा फल प्राप्त कर लेना है और कोई
 नहीं करता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं- (जस्स नागावरणिज्जाण
 कम्मार्ण ग्वओवसमे कडे मवइ-से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव
 तप्पक्खिय उवासियाए वा केवलिपण्णसं घम्मं लमेज्जा सवणयाए) हे
 गौतम ! जिस जीव के ज्ञानावरणीय कर्मों का-ज्ञानावरणीय कर्मप्र
 कृतियों का क्षयोपशम-किन्तु एक सर्वघाती स्पन्दकों का उदयाभाषी क्षय
 और किन्तु एक सर्वघाति स्पन्दकों का सदवस्वरूप उपशम एव देशघाति
 स्पन्दकों का उदय होता है ऐसा वह जीव केवली से या केवली के भ्रायक
 आदि से अथवा तत्पाक्षिक उपासिका आदि से धर्मोपदेश सुने बिना

सवणयाए ?) हे मदन्त ! आप या द्वारे केवलु कडे हो। हे कोई एव केवली
 पासिधी अथवा तेमनी उपसिद्धा पयन्तनी केवलु अक्षित पासिधी केवलिसमस्यं
 धर्मो उपदेश भवणु कर्षा विना पणु केवण धर्मानुरागधी प्रेरणने सेवेता
 धम द्वारा पणु धर्मभ्रवणना केवलु ए इण प्राप्त करी दे छे अने केवलु केवलु
 इण प्राप्त करी शकते नथी ?

महावीर प्रभुने उत्तर- ' जस्स नागावरणिज्जाण कम्मार्ण ग्वओवसमे
 कडे मवइ से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलि
 पण्णसं घम्मं लमेज्जा सवणयाए " हे गौतम ! ने एवना ज्ञानावरणीय कर्मोनि
 (ज्ञानावरणीय कर्मप्रकृतियोनि) क्षयोपशम क्यो होय छे (केवलिक सर्वघाति
 स्पन्दकोनि) सदवस्वरूप सत्ताइय अथवा अस्तित्वरूप उदयभाषी क्षय अने
 केवलिक सवघाति स्पन्दकोनि (धर्मभ्रवणोनि) सदवस्वरूप (सत्ताइय) उप
 शम अने देशघाति स्पन्दकोनि उदय गाय छे) ते एव केवली पासिधी अथवा
 केवलीना आवक पासिधी अथवा तेमना बहनी तत्पाक्षिक आदि पासिधी धर्मो

धर्मोपदेशादिकमश्रुत्वाऽपि केवलप्रज्ञप्तं धर्मं श्रवणतया श्रवणज्ञानरूपफलतया लभेत । अत्र ज्ञानावरणीयानां कर्मणामिति बहुवचनेन मतिज्ञानावरणादिभेदेन अवग्रह मत्यावरणादिभेदेन भिन्नस्य सर्वस्यैव ज्ञानावरणीयस्य कर्मणो ग्रहणं भवतीति सूच्यते, क्षयोपशमग्रहणाच्च मत्यावरणाद्येव तद् ग्राह्यम्, न तु केवलावरणं तत्र

भी केवलप्रज्ञप्त धर्म को श्रवणज्ञानरूप फल से प्राप्त करलेता है । यहाँ पर जो (ज्ञानावरणीयानां कर्मणां) ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया है उसमें मति ज्ञानावरणीय आदि के भेद से तथा अवग्रह मत्यावरणादि के भेद से अनेकविध संपूर्ण ज्ञानावरणीयकर्म का ग्रहण किया गया है ऐसा सूचित होता है । यहाँ जो क्षयोपशम इनका ग्रहण किया गया है सो क्षयोपशम का संबंध मतिज्ञानावरणादि के साथ ही करना चाहिये और इन्हीं का क्षयोपशम यहाँ पर लेना चाहिये—ज्ञानावरक में जो केवलज्ञानावरण है उसका क्षयोपशमरूप से कथन नहीं करना चाहिये क्यों कि उसका क्षयोपशम नहीं होता है ? कारण कि वह सर्वघाति प्रकृति होने से उसका सर्वथा क्षय ही लिया जाता है—तब ही जाकर केवलज्ञान उत्पन्न होता है । तात्पर्य कहने का यह है कि क्षयोपशम में आवारक कर्म का सर्वथा अभाव नहीं रहता है—किन्तु उसका आंशिक रूप से सद्भाव रहता है इस तरह से केवलज्ञान को आवरण करनेवाले केवलज्ञानावरण में यह बात नहीं है यहाँ तो उसका सर्वथा क्षय होगा

पदेश सांख्य्या विना यद्यु केवलप्रज्ञप्त धर्मने श्रवण-ज्ञानरूप इत्य द्वारा प्राप्त करी ले छे. अर्द्धी ने "ज्ञानावरणीयानां कर्मणां" आ बहुवचनने प्रयोग करवासां आवेले छे तेना द्वारा मतिज्ञानावरणीय आदिना लेदथी तथा अवग्रह-मत्यावरणदिना लेदथी अनेक प्रकारना संपूर्ण ज्ञानावरणीय कर्मने अर्द्धु करवासां आवेले छे अेवुं सूचित थाय छे अर्द्धी ने तेमना क्षयोपशमनी वात करवासां आवी छे ते क्षयोपशमने संबध मतिज्ञानावरणदिनी साथे न अर्द्धी अर्द्धु करवे लेधये—अने तेमने न क्षयोपशम अर्द्धी अर्द्धु थवे लेधये ज्ञानावरणमां ने केवलज्ञानावरण छे तेना क्षयोपशमरूप कथन करवुं लेधये नर्द्धी, कारण के तेना क्षयोपशम थती नथी. ते सर्वघाति प्रकृति होवाथी तेना सर्वथा क्षय न अर्द्धु करवे लेधये अने तेना सर्वथा क्षय थाय त्यारे न केवलज्ञान उत्पन्न थाय छे. आ कथनतुं तात्पर्य अे छे के क्षयोपशममा आवारक कर्मने सर्वथा अभाव रहेतो नथी, यद्यु तेना अशतः सद्भाव रहे छे. परन्तु केवलज्ञानने आवरण करनारा केवलज्ञानावरणमा अेवी वात संबधित नथी, केवलज्ञानावरणीय कर्मने सर्वथा क्षय थाय त्यारे न केवलज्ञान उत्पन्न

ક્ષયોપશમય જ્ઞાનાવરણીયસ્ય ગિરિસરિખુપલયોલનાન્યાયેનાપિ
 કસ્યચિત્સ્યાત્ વત્સમ્ભાવે વાશ્વત્વાઽપિ ક્ષયજ્ઞાનફલતયા ઘમ લંઘતે ક્ષયોપશમ
 સ્યૈવ ધર્મલામેઽન્તરજ્ઞકારણાત્, કિન્તુ ' નસ્સ ણ નાણાવરણિજ્ઞાણ કમ્માણ
 ત્વમ્મોહસમે નો કહે મવહ, સે ણ અસોચ્ચા ણ કેવલિસ્સ ઘા જાવ તપ્પક્કિલ્લયઽવા
 સિયાપ ઘા કેવલિપમ્મ ઘમ્મં નો લમેઝ્ઞા સવળયાપ ' યસ્ય સલ્લ ઝીવસ્ય જ્ઞાના

તથા હી જાકર કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન હો સકેગા-હમી લિયે ટીકાકારને યહાં
 પર જ્ઞાનાવરણીયકર્મ કે ક્ષયોપશમ સે મતિજ્ઞાન કો મુમજ્ઞાન કો, અથ
 ધિજ્ઞાન કો એ મનઃ પર્યવજ્ઞાન કો આવરણ કરને ઘાલે તસાવાવરણીય
 કર્મો કા ક્ષયોપશમ લિયા ગયા હૈ આદિ આદિ યાત કો સૂચિત કરને
 કે લિયે " જ્ઞાનાવરણીયાનાં કર્મણાં " મેં બહુશ્વન કે પ્રયોગ કરને કી
 સાર્થકતા પ્રકટ કી હૈ । જિસ પ્રકાર સે પર્યત સે નિકલી નદી કા પત્થર
 પ્રવાહ કે આઘાતો સે સાલગરામ જૈસા ગોલ ઘન જાતા હૈ હમી તરહ સે
 જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મો કા ક્ષયોપશમ મી કિસી ૨ હી જીવ કે હોતા
 હૈ હસ ક્ષયોપશમ કે સમ્ભાવ મેં કેવલિપ્રજ્ઞ સ ધર્મ કો કેવલી આદિ કે
 સમીપ નહીં સુનને પર મી વ્યક્તિ અમણજ્ઞાનફલરૂપ સે પ્રાપ્ત કર લેતા
 હૈ । ક્યોં કિ ધર્મ કે લાભ મેં ક્ષયોપશમ અન્તરજ્ઞ-કારણ હોતા હૈ ।
 કિન્તુ (અસ્સ ણ નાણાવરણિજ્ઞાણ કમ્માણ ત્વમ્મોહસમે કહે નો મવહ
 સે ણ અસોચ્ચા ણ કેવલિસ્સ ઘા જાવ તપ્પક્કિલ્લયઽવાસિયાપ ઘા કેવ
 લિપમ્મ સ ધમ્મં નો લમેઝ્ઞા સવળયાપ) જિસ જીવ કે જ્ઞાનાવરણીયકર્મો

યાપ છે તેથી જ સૂત્રકારે અહીં જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમના ઉલ્લેખ
 દ્વારા મતિજ્ઞાન મુમજ્ઞાન અવધિજ્ઞાન અને મન પર્યવજ્ઞાનને આવરણ કરનારા
 તે તે પ્રકારના આવરણીય કર્મોના ક્ષયોપશમ અલબ્ધ કરવાનું કહ્યું છે અને
 એ જ વાત સૂચિત કરવાને માટે ' જ્ઞાનાવરણીયાનાં કર્મણાં " આ પદમાં
 બહુશ્વનનો પ્રયોગ કરવાની સામકતા પ્રકટ કરી છે જેથી રીતે પવતમાંથી
 નીકળેલી નદીના પ્રવાહમાં ઘસઘાતો પથ્થર, ઘસાઈ ઘસાઈને શાહીબ્રામ જેવો
 વોળ ઘડ બાધ છે, એજ પ્રમાણે જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોના ક્ષયોપશમ પણ
 કાઈ કાઈ સ્થાને ઘટો હોય છે, અને તે ક્ષયોપશમના સમ્ભાવથી કેવલિપ્રજ્ઞ
 ધર્મને કેવલી આદિની સમીપે અલબ્ધ નહીં કરવા છતાં પણ ન્યહિત અલબ્ધ
 જ્ઞાનસ્વરૂપે પ્રાપ્ત કરી લે છે કારણ કે ધમ લાભમાં ક્ષયોપશમજ અન્તરજ્ઞ કારણ
 મળ્યાય છે પરન્તુ (અસ્સ ણ નાણાવરણિજ્ઞાણ કમ્માણ ત્વમ્મોહસમે કહે નો મવહ,
 સ ણ અસોચ્ચાણ કેવલિપ્પ ઘા જાવ તપ્પક્કિલ્લય ઽવાસિયાપ ઘા કેવલિપમ્મ સ ધર્મ

वरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति स खलु जीवः अश्रुत्वा खलु केवलिनो वा यावत् केवलिश्रावकप्रभृतेः सकाशाद् वा तत्पाक्षिकोपासिकाया वा सकाशात् धर्मोपदेशादिकम् अश्रुत्वा केवलिप्रज्ञप्तं धर्मं श्रुतचारित्ररूपं श्रवणतया श्रवणज्ञानफलतया नो लभेत । तदुपसंहरन्नाह—से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ—तं चेव जाव नो लभेज्ज सवणयाए' हे गौतम ! तत् तेनार्थेन एवमुच्यते—तदेव यावत्—पूर्वोक्तरीत्या यस्य खलु ज्ञानावरणीयकर्मणां क्षयोपशमः कृतो भवति स केवलि-प्रभृतेः सकाशात् धर्मोपदेशादिकम् अश्रुत्वा केवलिप्रज्ञप्तं धर्मं श्रवणज्ञानफलतया लभेत, ज्ञानावरणीयकर्मणां क्षयोपशमाभावे नो लभते इति भावः गौतमः पृच्छति— ' असोच्चा णं भंते ! केवलिसस वा, जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं बोहिं

का क्षयोपशम नहीं होता है उस जीव के यावत् तत्पाक्षिक उपासिका से सुने विना केवलिप्रज्ञप्त श्रुतचारित्ररूप धर्म की प्राप्ति श्रवणज्ञानफल रूप से नहीं होती है । (से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ, तं चेव जाव नो लभेज्ज सवणयाए) इसी कारण हे गौतम ! मैं ने ऐसा कहा है कि जिस जीव के ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का क्षयोपशम होता है वह केवली आदि से धर्मोपदेश सुने विना भी केवलिप्रज्ञप्त धर्म को श्रवण-ज्ञान के फलरूप से प्राप्त कर लेता है और जिस जीव के ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता है वह जीव उसे प्राप्त नहीं कर पाता है ।

अब गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं (असोच्चा णं भंते ! केवलिसस वा तप्पक्खिय उवासियाए वा केवलं बोहिं बुज्जेज्जा) हे भदन्त ! जिस

नो लभेज्जा सवणयाए) ने एवना ज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयोपशम थये होतो नथी, ते एव केवली समीचे अथवा केवलीना पक्षणी उपासिका पर्थ-न्तनी कोइ अहित समीचे केवलिप्रज्ञप्त धर्मने सांख्य्या विना केवलिप्रज्ञप्त श्रुतचारित्ररूप धर्मनी प्राप्ति श्रवणज्ञान इत्यर्थे करी शकतो नथी.

(से तेणट्टेणं गोयमा ! एव बुच्चइ, तं चेव जाव नो लभेज्ज सवणयाए) हे गौतम ! ते कारणे मे' एवुं कहुं छे के ने एवना ज्ञानावरणीय आदि कर्मोना क्षयोपशम थये होय छे, ते एव केवली आदिनी समीचे धर्मोपदेश श्रवण कथां विना पणु केवलिप्रज्ञप्त धर्मने श्रवणज्ञानना इत्यर्थे प्राप्त करी वे छे. परन्तु ने एवना ज्ञानावरणीय आदि कर्मोना क्षय थये होतो नथी, ते एव तेने प्राप्त करी शकतो नथी

गौतम स्वामीना प्रश्न—(असोच्चाणं भंते ! केवलिसस वा जाव तप्पक्खिय-उवासियाए वा केवलं बोहिं बुज्जेज्जा ?) हे भदन्त ! ने एवे केवलीनी समीचे

गुग्गुलुमा ? हे मदन्त ! कथिज्जीव अश्रुत्या खलु केवलिनः सकाशाद् वा, यावत्
 क्वलिश्रावकप्रभृते सकाशाद्वा क्वाक्षिकोपासिनाया सकाशाद् वा पर्वोपदेश
 दिक्म् अश्रुत्या क्वला श्रुदां योधि-शुद्ध सम्पद्दर्शनं पुष्येत ? अनुभवत् ? यथा
 प्रत्यक्षपुद्गादिः, एवमग्रेऽपि षक्तभ्यम् । मंगलानाह-‘गोयमा ! असोच्चा ण केव
 त्तिस्स या जार अयेगइए केवल धाहिं पुज्जोत्ता’ इ गौतम । अस्त्यक्क कश्चित्
 केवलिन सकाशाद् वा यावत् केवलिश्रावकप्रभृते सकाशाद् वा सम्पद्दर्शनोपदे
 शम् अश्रुत्या खलु केवला योधि पुष्येत=अनुभवेत्, अथ च ‘ प्रत्येगइए केवल
 धाहिं णा पुज्जोत्ता ’ अस्त्येक्क कश्चित् क्वलिप्रभृते सकाशाद् हानोपदशादि

जीव ने केवली के समीप अथवा यावत् तत्संगक्षिक उपामिका के समीप
 केवलीप्रज्ञप्त धृतपारिव्रज्यरूप धर्म का उपदेश नहीं सुना है ऐसा जीव
 क्या केवल-शुद्ध योधिसम्पद्दान का अनुभव कर सकता है ? जैसे
 प्रत्यक्षपुद्गादि इसी तरह से आगे भी का लेना चाहिये-इसके उत्तर
 में प्रभु कहते हैं-(गोयमा) हे गौतम ! (असोच्चा ण केवलित्स्म या
 जाय अयेगइए केवल योधिं पुज्जोत्ता) केवली से या यावत् केवली के
 पक्ष की उपामिका से जिस जीव ने केवलप्रज्ञप्त सम्पद्दानरूप धर्म
 का उपदेश नहीं सुना है ऐसा यह कोई एक जीव शुद्ध सम्पद्दर्शन
 का अनुभव कर सकता है और कोई एक जीव केवली आदि से
 ज्ञानोपदगादिक का नहीं सुन कर क केवल योधि का अनुभव नहीं
 कर सकता है । इसमें कारण जानने की इच्छा से गौतम प्रभु से
 पूछते हैं-स कण्ठेण भंते ! जाय नो पुज्जोत्ता) हे मदन्त ! ऐसा

अथवा तमना पानी उपामिका पयन्तनी कोरि पत्तु वध्तिनी यभीपि केवली
 प्रज्ञा सुनय निवृत्त पमने उरेश्च आलभ्यो नयो जेरो एव एव पु-
 वेचिना (सम्पद्दानने) अनुभव करी शके ते अरो ? नेमके प्रपे
 पुद्गादि-संघ प्रभवे आमग पत्तु इरेपु ले जे.

प्रधानीर प्रभवे उतर-“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (असोच्चाणं क्व
 लिक्क वा जार वा जार कज्जं कोरि पुज्जोत्ता) केवलीतानी पमे अथवा तमना
 पानी उपामिका पयन्तनी कोरि पत्तु वध्तिना आगे केवलिप्रज्ञप्त सम्पद्दानरूप
 पमने अनुभव न शके देव जेरो कोरि एव एव सम्पद्दानने अनुभव करी
 शके, अन शके एव जेरो पत्तु देव उ के व केवली आदिनी यभीपि
 सम्पद्देश पमेरे आलभ्य विना शुद्ध वेचिना-सम्पद्दानने अनुभव
 करी शके नये.

कर्मश्रुत्वा केवला बोधिं नो बुध्येत-दानुभवेत्, गौतमरतत्र कारणं पृच्छति,-
'से केणट्टेणं नंते । जाव नो बुज्झेज्जा ? हे भदन्त । तत् अथ केनार्थेन यावत्
अस्त्येकरुः कश्चित् केवलीप्रभृतेः सकाशाद् दर्शनोपदेशादिकम् अश्रुत्वापि केवलां
बोधिं बुध्येत, अथ च अस्त्येकरोऽपरः कश्चित् केवलिप्रभृतेः सकाशात् दर्शनोपदे-
शमश्रुत्वा केवलां बोधिं नो बुध्येत ? भगवानाह-' गौयमा ! जस्स णं दरिसणा
वरणिज्जाणं कम्मणं खओवसमेकडे भवड, सेणं असोच्चा केवल्लिस्स जाव केवलं
बोहिं बुज्झेज्जा' हे गौतम ! यस्य खलु जीवस्य दर्शनावरणोयानां कर्मणां क्षयोऽशमः
कृतो भवति स खलु जीवः केवलिनः सकाशाद् वा, यावत् केवलिश्रावकप्रभृतेः

आप किस कारण से कहते हैं कि कोई एक जीव केवली आदि से दर्शनोपदेश आदि को नहीं सुनकरके भी केवल शुद्ध बोधिरूप सम्यग्दर्शन का अनुभव कर सकता है और कोई एक जीव केवली आदि के पास दर्शनोपदेश आदि को नहीं सुनकर केवल बोधि का अनुभव नहीं कर सकता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं-(गौयमा) हे गौतम ! (जस्स णं दरिसणावरणिज्जाणं कम्मणं खओवसमे कडे भवड, से णं असोच्चा केवल्लिस्स वा जाव केवलं बोहिं बुज्झेज्जा) जिस जीव के दर्शनावरणीय कर्मों का क्षयोपशम होता है ऐसा जीव केवली आदि से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का उपदेश सुने बिना भी केवल बोधि का अनुभव लाभ कर सकता है । यहाँ पर दर्शनावरणीयपद से दर्शन मोहनीय ग्रहण किया गया है । और बोधि से सम्यग्दर्शन ग्रहण किया गया है ।

गौतम स्वामीने प्रश्न—(से केणट्टेणं नंते ! जाव नो बुज्झेज्जा ?) हे भदन्त ! आप शा शरत्ते अेषु कडे छे के कोठकं एव केवली आदिनी पासे दर्शनोपदेश आदिनु श्रवणु कथां विना पणु केवल-शुद्ध बोधिइप सम्यग्दर्शनने अनुभव करी शकै छे, अने कोठं एव केवली आदिनी पासे दर्शनोपदेश आदि श्रवणु कथां विना शुद्ध बोधिइप सम्यग्दर्शनने अनुभव करी शकते नथी ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—“ गौयमा । ” हे गौतम ! (जस्स णं दरिसणावरणिज्जाणं कम्मणं खओवसमे कडे भवड, से णं असोच्चा केवल्लिस्स वा जाव केवल बोहिं बुज्झेज्जा) ने एवना दर्शनावरणीय कर्मोने क्षयोपशम थये होय छे, ते एव केवली आदिनी पासे दर्शनोपदेश आदि श्रवणु कथां विना पणु केवल बोधिने (शुद्ध सम्यग्दर्शनने) अनुभव करी शकै छे, अही दर्शनावरणीय पदना प्रयोगद्वारा दर्शनमोहनीयने अर्हणु करवामां आवेल छे, अने बोधिपदना प्रयोगथी सम्यग्दर्शनने अर्हणु करवामां आवेल छे, तेथी सम्यग्-

सकाशाद् वा सम्यग्दर्शनोपदेशम् अभुत्वाऽपि केवलां वाचिं बुध्येत, अप्र दर्शनावरणीयपदेन दर्शनमोहनीयं वृद्धते षोडशे सम्यग्दर्शनपर्यायत्वात् तत्त्वामस्य च तस्य योपशमजन्यत्वात् । अथ च ' जस्त ण दरिसणावरणिज्जाण कम्माण खओवसमे णो क्खे मवइ, से ण असोच्चा केवलित्त वा जाव केवल वोहिं णो पुज्जेज्जा ' यस्य खलु जीवस्य दर्शनावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति, स खलु जीव केवलिनो वा सकाशात् यावत् केवमिभायकमसृतेर्वा सकाशात् सम्यग्दर्शनोपदेशम् अभुत्वा केवलां वाचिं नो बुध्येत । तदुपसंहरन्नाह—'से तेणहेण जाव णो पुज्जेज्जा ' हे गौतम ! अथ तेनार्येण यावत् यस्य दर्शनावरणीय-

इसलिये जब सम्यग्दर्शनरूप बोधि का आकारक कर्म दर्शन मोहनीय होता है तब दर्शनावरण से दर्शनमोहनीय कर्म छेना चाहिये—क्यों कि सम्यग्दर्शनरूप बोधि का लाभ दर्शनमोहनीय कर्म के क्षयोपशम से ही होता है । तथा—(जस्त ण दरिसणावरणिज्जाण कम्माणं खओवसमे नो क्खे मवइ, से ण असोच्चा केवलित्त वा जाव केवल वोहिं णो पुज्जेज्जा) जिन जीव के दर्शनावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता है वह जीव केवली से या यावत् केवली के आचक आदि से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का उपदेश सुने बिना केवल बोधि को प्राप्त नहीं कर सकता है, (से तेणहेण जाव णो पुज्जेज्जा) इस कारण हे गौतम ! मैंने ऐसा कहा है कि यावत् जिस जीवके दर्शनावरणीय कर्मोंका क्षयोपशम नहीं होता है वह जीव केवली आदिसे दर्शन की प्राप्ति करनेका उपदेश सुने बिना केवल—शुद्ध बोधिका—सम्यग्दर्शनका अनुभव नहीं कर सकता है ।

यनइय भोधिनु आवारइ क्खे इशंनमोहनीय कोवाणी इशनावशु पइ इअइ इशंनमोहनीय कर्मअइयु यवु न्नेधये इअयु के इशंनमोहनीय कर्मोना क्खे पशमधी व सम्भज्जन इय भोधिनी प्राप्ति याव ते तथा (जरल णं दरिसणावरणिज्जाण कम्माण खओवसमे नो क्खे मवइ से णं असोच्चा केवलित्त वा जाव केवल वोहिं णो पुज्जेज्जा) के एतन्ना इशंनावशुयि क्खे मोना क्खे पशम धये कोतो नथी, ते एव केवली पासेधी आववा केवलीना यावक आदि पासेधी सम्भज्जननी प्राप्तिने उपदेश सांभल्या विना केवल भोधिनी-सम्भज्जननी-प्राप्ति करी शक्ते नथी. (से तेणहेण जाव णो पुज्जेज्जा) हे गौतम ! ते इअये मे येवु इअु ते के बोध एव केवली आदिनी पासे सम्भज्जननी प्राप्तिने उपदेश सांभल्या विना पयु सम्भज्जनं प्राप्त करी शक्ते ते अने कोइक एव केवली आदिनी समीपे इशने उपदेश सांभल्या विना शुद्ध भोधिने (सम्भज्जनने) अनुभव करी शक्ते नथी

कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति स जीवः केवलिप्रभृतेः सकाशात् दर्शनोपदेशम् अश्रुत्वा केवलं बोधिं नो बुध्येत इति, गौतमः पृच्छति—‘असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा ?’ हे भदन्त ! कश्चित्पुरुषः केवलिनः सकाशाद् वा यावत् केवलिश्रावकप्रभृतेः सकाशाद् वा तत्पाक्षिकोपासिकाया वा सकाशात् प्रब्रज्योपदेशम् अश्रुत्वा एव खलु मुण्डो भूत्वा अगारात् गृहस्थाश्रमात् वहिर्निःसृत्य केवलं शुद्धां सम्पूर्णां वा अनगारितां साधुपर्यायतां किं प्रव्रजेत् ? स्वीकुर्यात् ? भगवानाह—‘ गौयमा ! जस्स णं धम्मंतराइयाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा ’ हे गौतम ! यस्य खलु जीवस्य धर्मान्तरायिकाणां कर्मणाम्—अन्तरायो विघ्नः सोऽस्ति येषु तानि आन्तरायिकाणि धर्मस्य चारित्रप्रतिपत्तिलक्षणस्यान्तरायिकाणि

अब गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा) हे भदन्त ! जिस जीवने केवलीसे या यावत्-केवलीके श्रावक आदिसे प्रब्रज्याका उपदेश नहीं सुनाहै—ऐसा जीव क्या मुण्डित होकर गृहस्थावस्था के परित्याग से केवल-शुद्ध अथवा संपूर्ण साधु पर्याय को धारण कर सकता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गौयमा) हे गौतम ! (जस्स णं धम्मंतराइयाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा) जिस जीव के धर्मान्तरायिक कर्मों का अन्तराय-विघ्न है जिन्हों में वे आन्तरायिक कर्म हैं, धर्म के-चारित्र के धारण करने में अन्तरायरूप वीर्यान्तराय और चारित्रमोहनीय कर्मों का-क्षयो-

गौतम स्वामीने। प्रश्न—(असोच्चाण भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिय उवासियाए वा केवल मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा ?) हे भदन्त ! वे एवे डेवली पासेथी अथवा तेमना श्रावकादि पासेथी प्रवन्थानो उपदेश साल्लथो डोतो नथी, एवे एव शुं मुडित थधने गृहस्थावस्थानो परित्याग करीने शुद्ध अथवा संपूर्ण साधुपर्यायने अगीकार करी शके छे भरे ?

महावीर प्रभुने। उत्तर—“ गौयमा ! ” हे गौतम ! “ जस्स णं धम्मंतराइयाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा ” वे एवना धर्मान्तरायिक कर्मोने (धर्मने-चारित्रने धारणु करवामां विघ्नइप कर्मोने) अटले डे चारित्र धारणु करवामां-विघ्नकारक वीर्यान्तराय अने चारित्र मोहनीय कर्मोने क्षयोपशम थये।

परमान्तरायिकाणि तेषां वीर्यान्तरायचारित्रमोहनीयमेशात्मकानामित्यर्थं क्षयोप-
 शमः कृतो भवति, स खलु जीवः केवलिनः सकाशाद् वा यावत् केवलिभावकप्रभृते
 सकाशाद् वा मद्यज्योपदेशमधुत्वापि खलु मुण्डो भूत्वा अगारात् अनगारितात्
 मद्यजेत्, अथ च ' वस्तु ण घम्मंतराहयाण कम्मण स्वभोवसमे नो कडे भवइ,
 से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव मुडे मविता जाव णो पव्वएज्जा ' यस्य खलु
 जीवस्य परमान्तरायिकाणां कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति, स खलु जीवः
 केवलिनो वा सकाशात् यावत् केवलिभावकप्रभृतेषां सकाशात् मद्यज्योपदेश-
 मधुत्वा मुण्डो भूत्वा यावत् अगारात् अनगारितां नो मद्यजेत् । तन्निगमयन्नाह-
 से तेणहेण गोयमा ! भाव नो पव्वएज्जा ' हे गौतम ! तत् तेनार्येण यावत्-

पशाम किया हुआ होता है—अर्थात् जिस जीव के चारित्र्य धारण करने
 में विघ्नकारक वीर्यान्तराय और चारित्र्यमोहनीय कर्मों का क्षयोपशम
 होता है—ऐसा जीव केवली से या यावत् केवली के श्रावक आदि से
 प्रव्रज्या का उपदेश बिना सुने भी मुण्डित होकर गृहस्थावस्था के परि-
 त्यागपूर्वक अनगारावस्था को धा ण कर सकता है । तथा—(जस्म ण
 घम्मंतराहयाण कम्मणं स्वभोवसमे नो कडे भवइ—से ण असोच्चा
 केवलिस्स वा जाव मुडे मविता जाव णो पव्वएज्जा) जिस जीव के
 चारित्र्य धारण करने में वीर्यान्तराय और चारित्र्यमोहनीय का क्षयोप-
 शम किया हुआ नहीं होता है—ऐसा जीव के केवली से या यावत् उनके
 श्रावक आदि से प्रव्रज्या धारण करने का जयतक उपदेश नहीं सुनता
 तब तक वह मुण्डित होकर गृहस्थावस्था के परित्याग से अनगारावस्था
 को धारण नहीं कर सकता है । (से तेणहेण गोयमा ! भाव नो पव्व-
 एज्जा) इस कारण हे गौतम ! मैंने “ यावत् जिस के परमान्तरायिक

केश है, तो वह केवली पासिधी अथवा तेमना आवक वज्जेरे पासिधी भ्रम
 लाने। उपदेश सांभल्या बिना पव्व मुण्डित यधने अदृश्यावस्थाना परित्याग
 पूर्वक अज्जगारावस्था (साधु पर्याय) लगीकार करी शकें छे परन्तु ' वस्तु
 घम्मंतराहयाणं कम्मणं स्वभोवसमे नो कडे भवइ, से ण असोच्चा केवलिस्स वा
 जाव मुडे मविता जाव णो पव्वएज्जा ' से एवना वीर्यान्तराय अने चारित्र्य
 मोहनीयने क्षयोपशम यथे होतो नही, जेवो एव केवली पासिधी अथवा
 तेमना आवक वज्जेरे पासिधी प्रमत्या धारण करवाने। उपदेश ल्यां मुधी
 सांभजते नही त्यां मुधी ते अदृश्यावस्थाने परित्याग करीने
 अज्जगारावस्था धारण करी शकते नही. ' से तेणहेण गोयमा ! भाव नो पव्वएज्जा ”
 हे गौतम ! ते क्षरजे मे जेवुं कहुं छे के कोरुं एव केवली आदिनी समीरे

यस्य धर्मान्तरायिककर्मणां क्षयोपशमो न कृतो भवति स केवलप्रभृतेः सकाशात् प्रव्रज्योपदेशमश्रुत्वा मुण्डो भूत्वा अगारात्केवलाम् अनगारितां नो प्रव्रजेदिति भावः । गौतमः पृच्छति—‘ असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलं वंभचेरवासं आवसेज्जा ? ’ हे भदन्त ! कश्चित्पुरुषः केवलिनः सकाशाद् वा यावत् केवलिश्रावकप्रभृतेः सकाशाद् वा तत्पाक्षिकोपासिकायाः सकाशाद् वा ब्रह्मचर्योपदेशमश्रुत्वा खलु केवलं विशुद्धं ब्रह्मचर्यवासम् आवसेत् ? भगवानाह—‘ गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा अत्येगइए केवलं वंभचेरवासं आवसेज्जा ’ हे गौतम ! अस्त्येककः कश्चित् पुरुषः केवलिनः सकाशाद् वा, यावत् केवलिश्रावकप्रभृतेः सकाशाद् वा तत्पाक्षिकोपासिकायाः सका-

कर्मों का क्षयोपशम किया हुआ नहीं होता है—ऐसा वह जीव केवली से या यावत् उनके श्रावक आदि से प्रव्रज्या का उपदेश सुने विना मुण्डित होकर गृहस्थावस्था के परित्याग से अनगारावस्था को धारण नहीं कर सकता है ” ऐसा कहा है ।

अब गौतम प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—(असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलं वंभचेरवासं आवसेज्जा) हे भदन्त ! जिस जीव ने केवली से या यावत्—केवली के श्रावक आदि से शुद्ध ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं सुना है ऐसा वह जीव क्या शुद्ध ब्रह्मचर्यवास में रह सकता है ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा अत्येगइए केवलं वंभचेरवासं आवसेज्जा) कोई एक जीव ऐसा होता है जो ब्रह्मचर्यवास में रहने का केवली से या यावत् उनके श्रावक आदि से उपदेश सुने

प्रव्रज्यानां उपदेशं सांलज्या विना पणु मुण्डितं यमने गृहस्थावस्थानां त्याग करीने अणुगारावस्था धारण करी शके छे, अने कोछके एव केवली आदिना उपदेश सांलज्या विना अणुगारावस्था (साधु पर्याय) अंगीकार करी शकतो नथी.

गौतम स्वामीना प्रश्न—(असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलं वंभचेरवासं आवसेज्जा ?) हे भदन्त ! वे एवे केवली पासे अथवा तेमना श्रावक आदिनी पासे शुद्ध ब्रह्मचर्यना उपदेश श्रवणु करी होतो नथी, ते एव शुं ब्रह्मचर्यवासमा रही शके छे अरे ? (अथवे के शुं अथवा एव शुद्ध ब्रह्मचर्य पाणी शके छे अरे ?)

भडापीर प्रभुना उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा अत्येगइए केवलं वंभचेरवासं आवसेज्जा) कोछ एव अथवा होय छे के वे केवली अथवा तेमना पक्षनी उपासिका पर्यन्तनी कोछ

घाट् वा ब्रह्मचर्योपदेशमभ्युत्वाऽपि केवलं ब्रह्मचर्यवासम् आवसेत्, अथ च 'अस्ये
 गृह्ये केवलं धर्मचरवास नो आवसेज्जा' अस्त्येकक कश्चित्परः पुरुष केवलि-
 ममृते सकाशात् ब्रह्मचर्योपदेशमभ्युत्वा केवलं ब्रह्मचर्यवास नो आवसेत् । गौतम
 स्तत्र कारणं पृच्छति—' से केणहेण भंते ! एवं बुच्चइ जाव नो आवसेज्जा ?'
 हे भवन्त ! क्व केनार्थेन एवमुच्यते यत्—यावत्—अस्त्येककः कश्चित् पुरुषः
 केवलममृतेः सकाशात् वा ब्रह्मचर्योपदेशमभ्युत्वा केवलं ब्रह्मचर्यवास नो आव-
 सेत् ? मगवानाह—' गोयमा ! अस्स ण चरिणावरणिज्जाण कम्मण स्वओवसमे
 कडे मवइ, से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं धर्मचरवास आवसेज्जा,' हे

विना भी शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है और (अस्येगृह्ये
 केवलं धर्मचरवास नो आवसेज्जा) कोई एक जीव ऐसा होता है जो
 केवली से या उनके आवक आदि से जबतक ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं
 सुनता है जबतक वह शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है।
 इसमें कारण क्या है—इस बात को जानने की इच्छा से गौतम प्रभु से
 पूछते हैं (से केणहेण भंते ! एवं बुच्चइ, जाव नो आवसेज्जा) हे भवन्त !
 ऐसा आप किस कारण से कहते हैं कि कोई एक जीव ब्रह्मचर्य का
 उपदेश केवली आदि से सुने विना ब्रह्मचर्यव्रत धारण कर सकता है
 और कोई जीव धारण नहीं कर सकता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते
 हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (अस्स ण चरिणावरणिज्जाण कम्मणं
 स्वओवसमे कडे मवइ, से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं धर्म

पञ्च व्यष्टि समीपे ब्रह्मचर्येणो उपदेशे साधन्या विना पञ्च शुद्ध ब्रह्मचर्य
 मत्तु पालनं करी शके ते अने (अस्येगृह्ये केवलं धर्मचरवास नो आवसेज्जा)
 कोष एव ज्येते पञ्च कोषे ते के के केवली आदिनी समीपे न्या सुभी शुद्ध
 ब्रह्मचर्येणो उपदेशे साधनतो नथी त्वा सुभी ते शुद्ध ब्रह्मचर्येणो पालनं
 करी शकते नथी

इवे तेनु क्खण्णं क्खण्णवानी विज्ञासाधी जौतम स्वामी भद्धानीर प्रभुने
 पूछे ते के—' से केणहेण भंते ! एवं बुच्चइ जाव नो आवसेज्जा ?' हे भवन्त !
 आप या कारणे ज्येते कडे ते के कोषे एव केवली आदिनी समीपे ब्रह्म-
 चर्येणो उपदेशे साधन्या विना पञ्च ब्रह्मचर्यमत्तु धारण करी शके ते अने
 कोषे एव धारण करी शकते नथी ?

भद्धानीर प्रभुने उत्तर—' गोयमा !' हे गौतम ! (अस्स ण चरिणा
 वरणिज्जाणं कम्मणं स्वओवसमे कडे मवइ, से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव

गौतम ! यस्य खलु जीवस्य चारित्रावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमः कृतो भवति, स खलु जीवः केवलिनः सकाशाद् वा, यावत् केवलिश्रावकप्रभृतेः सकाशाद् वा ब्रह्मचर्योपदेशमश्रुत्वाऽपि केवलं विशुद्धं ब्रह्मचर्यवासम् आवसेत्, अत्र च वेदलक्षणानि चारित्रावरणीयानि विशेषतो ग्राह्याणि, मैथुनविरतिलक्षणस्य ब्रह्मचर्यवासस्य विशेषतस्तेषामेव आवारकत्वात् । अथ च ' जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव नो आवसेज्जा ' यस्य खलु जीवस्य चारित्रावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति, स खलु जीवः केवलिनः सकाशाद् वा, यावत् केवलिश्रावकप्रभृतेः सकाशात् वा ब्रह्मचर्योपदेशम् अश्रुत्वा केवलं ब्रह्मचर्यवासं नो आवसेत् । ' से तेणट्ठेणं जाव नो

चेरवासं आवसेज्जा) जिस जीव के चारित्रावरणीयकर्मों का-चारित्र-मोहनीयकर्मों का क्षयोपशम किया हुआ होता है-वह जीव केवली से या यावत् उनके श्रावक आदि से ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं सुन करके भी विशुद्ध ब्रह्मचर्यवास में रह सकता है, और (जस्स णं चारित्तावर-णिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलि-स्स वा जाव नो आवसेज्जा) जिस जीव के चारित्रावरणीयकर्मों का क्षयोपशम नहीं होता है, ऐसा वह जीव केवली से या यावत् उनके श्रावक आदि से ब्रह्मचर्य का उपदेश सुने विना ब्रह्मचर्यवास में नहीं रह सकता है । यहां चारित्रावरणीय कर्म से विशेषरूप में वेदरूप चादित्रावरणीयकर्मों का ग्रहण करना चाहिये-क्यों कि मैथुनविरतिरूप ब्रह्मचर्यवास के ये ही विशेषतः आवारक होते हैं । (से तेणट्ठेणं जाव नो आवसेज्जा) इस कारण हे गौतम ! मैंने ऐसा कहा है यावत् जिस

केवलं बंभचेरवासं आवसेज्जा) જે જીવના ચારિત્રાવરણીય કર્મોના ચારિત્ર મોહનીય કર્મોના ક્ષયોપશમ થયેલો હોય છે, તે જીવ કેવલી પાસે અથવા તેમના શ્રાવક આદિ પાસે બ્રહ્મચર્યનો ઉપદેશ સાંભળ્યા વિના પણ શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યવ્રતનું પાલન કરી શકે છે, પરંતુ " જસ્સ ણ ચરિત્તાવરણિજ્જાણ કમ્માણં खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव नो आवसेज्जा " જે જીવના ચારિત્રાવરણીય કર્મોના ક્ષયોપશમ થયો હોતો નથી, તે જીવ કેવલી પાસે અથવા તેમના શ્રાવક આદિ સમીપે બ્રહ્મચર્યનો ઉપદેશ સાંભળ્યા વિના બ્રહ્મચર્યવ્રત ધારણ કરી શકતો નથી. અહીં ચારિત્રાવરણીય કર્મથી વિશેષરૂપે વેદરૂપ ચારિત્રાવરણીય કર્મોને ગ્રહણ કરવા જોઈએ, કારણ કે મૈથુન વિરતિરૂપ બ્રહ્મચર્યવ્રતના તેઓ

आवसेज्जा' एत तेनार्येण यावत्-यस्य चारिआपरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो नो
 कृत्वा भवति, स क्वल्लिमभृष्टेः सकाशात् ब्रह्मचर्यापदेशमभ्युत्था केवलं ब्रह्मचर्यावास
 नो आवसेत् । गौतमः पृच्छति-‘असोच्चा णं भते ! केवल्लिस्स वा, जाव केवळेण
 सजमेणं सजमेज्जा’ हे भदन्त ! कच्चिज्जीव कवल्लिनः सकाशाद् वा यावत् केवल्लि
 आवरूपभृष्टे सकाशाद् वा सपमोपदेशमभ्युत्था केवळेण सपमेन सपच्छेत् ! सपम
 क्कुर्यात् ? सपमआप्रमतिपमचारिभस्य तदतिचारपरिहाराय यतनाविशेषोऽवसेयः ।
 मगवानाह-‘गोयमा ! असोच्चाणं केवल्लिस्स जाव उवासियाए वा भत्थेगए
 केवळेणं सजमेणं सजमेज्जा’ हे गौतम ! भत्थेककः कथित् पुण्य’ केवल्लिनः

के चारिआपरणीयकर्मों का क्षयोपशम नहीं होता है वह केवली से वा
 यावत् उनके आचर आदि से ब्रह्मचर्य का उपदेश सुने बिना शुद्ध
 ब्रह्मचर्यावास में नहीं रह सकता है ।

अथ गौतम प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं—(असोच्चा णं भते ! केवल्लिस्स
 वा जाव केवळेण सजमेण सजमेज्जा) हे भदन्त ! कोई जीव ऐसा भी
 होता है क्या जो केवली से वा यावत् केवली के आचर आदि से संयम
 के उपदेश को सुने बिना भी शुद्ध संयम द्वारा संयम की यत्ना कर
 सके ? संयम की यत्ना का तात्पर्य है कि स्वीकृत चारित्र के अतिचारों
 को दूर करने के लिये जो साधनानी रखी जाती है वह इसक उत्तर
 में प्रश्नु कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! (असोच्चा णं केवल्लिस्स जाव
 उवासियाए वा भत्थेगए केवळेणं सजमेणं सजमेज्जा) हाँ कोई एक

(से तेज्जेणं जाव नो आवसेज्जा) हे गौतम ! ते धारणे मे ज्ये पु क्कं
 छे हे कोट् एवेः केवली आदिना उपदेश सांभज्या विना पणु ब्रह्मचर्यमत्
 धारणु करी शके छे जने कोट् एव तेभने उपदेश सांभज्या विना ब्रह्मचर्य
 मत् धारणु करी शकते नही ।

गौतम स्वामीना प्रश्न—(असोच्चा णं भते ! केवल्लिस्स वा जाव केवळेणं
 सजमेणं सजमेज्जा) हे भदन्त ! केवली पासे अथवा तेभना आवर भजेरणी
 सभीपे सभनेना उपदेश सांभज्या विना शु एव शुद्ध सभभद्राश सभभनी
 यत्ना करी शके छे जरी ? (स्वीकृत चारित्रना अतिचाराने दूर करवा माटे
 के साधनेदी साधनानां आवे छे तेने सभभयत्ना कळे छे)

भद्रावीर प्रश्नुने उत्तर—“ गोयमा । ” हे गौतम ! (असोच्चाणं केव
 ल्लिस्स जाव उवासियाए वा भत्थेगए केवळेणं सजमेणं सजमेज्जा) कोट् एव

सकाशाद् वा यावत् केवलश्रावकप्रभृतेः सकाशाद् वा तत्पाक्षिकोपासिकायाः सकाशाद् वा संयमोपदेशमश्रुत्वाऽपि केवलेन विशुद्धेन संयमेन संयच्छेत् संयमं कुर्यात्, अथ च 'अत्येगइए केवलेण संजमेणं नो संजमेज्जा' अस्त्येककः कश्चित् पुरुषः केवलप्रभृतीनां सकाशात् संयमोपदेशमश्रुत्वा खलु केवलेन संयमेन नो संयच्छेत्, गौतमः प्राह—'से केणट्टेणं जाव नो संजमेज्जा ?' भदन्त ! तत् केनार्थेन यावत्—अस्त्येककः कश्चित् केवलप्रभृतेः सकाशाद् संयमोपदेशमश्रुत्वाऽपि केवलेन संयमेन संयमं कुर्यात्, अस्त्येककः अपरः कश्चित्तु तथाविधमकृत्वा केवलेन संयमेन नो संयच्छेत् ? भगवानाह—'गोयमा ! जस्स णं जयणावरणिज्जाणं

जीव ऐसा भी होता है जो केवली से या यावत् उनके श्रावक आदि से या तत्पाक्षिक उपासिका से संयम का उपदेश बिना सुने भी केवल संयम की यतना कर सकता है और (अत्येगइए केवलेण संजमेणं नो संजमेज्जा) कोई एक जीव ऐसा होता है जो केवली आदि से उपदेश सुने बिना शुद्ध संयम द्वारा संयम की यतना नहीं कर सकता है ? (से केणट्टेणं जाव नो संजमेज्जा) इसमें गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं कि हे भदन्त ! ऐसा आप किस कारण से कहते हैं कि कोई जीव केवली से या यावत् उनके श्रावक आदि से संयम का उपदेश नहीं सुने बिना भी केवल संयम के द्वारा संयम की यतना कर सकता है और कोई जीव संयम की यतना नहीं कर सकता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (जस्स णं जयणावरणिज्जाणं कम्माणं खओव-

अवेो पणु ङाय छे के के केवली पासे अथवा तेमना पक्षनी उपासिका पर्यन्तनी कोय व्यक्ति समीपे संयमनो उपदेश सांलज्या विना पणु शुद्ध संयम द्वारा संयमनी यतना करी शके छे, अने " अत्येगइए केवलेण संजमेणं नो संजमेज्जा " कोयक एव अवेो पणु ङाय छे के के केवली आदिनी पासे संयमनो उपदेश सांलज्या विना शुद्ध संयमद्वारा संयमनी यतना करी शकतो नथी.

गौतम स्वामीनो प्रश्न—“से केणट्टेणं जाव नो संजमेज्जा ?” हे भदन्त ! आप शा कारणे अवेुं कडे छे के कोय एव केवली वगेरेनी पासे संयमनो उपदेश सांलज्या विना पणु शुद्ध संयमद्वारा संयमनी यतना करी शके छे, अने कोय एव तेमनो उपदेश सांलज्या विना शुद्ध संयमद्वारा संयमनी यतना करी शकतो नथी ?

महावीर प्रभुनो उत्तर—“गोयमा !” हे गौतम ! (जस्स णं जयणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चाणं केवलस्स वा जाव

कम्माण स्वओवसमे कडे भवइ, से ण असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव केवळेणं सजमेणं सजमेज्जा ' हे मौत्तम ! यस्य खलु जीवस्य यतनावरणीयानां कर्मणां सपोपन्नमः कृतो भवति, स खलु जीवः केवलिनः सकाशाद् वा यावत् केवलि भावकप्रमृते सकाशाद् वा समयोपदेशमश्रुत्वाऽपि केवलेन संयमेन सपञ्चेत्, अत्र च यतनावरणीयानि कर्माणि चारित्र्यविशेषविषयवीर्यान्तरायस्सणानि अवसेयानि । ' जस्स णं नयणावरणिज्जाणं कम्माणं स्वओवसमे नो कडे भवइ, से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव नो सजमेज्जा ' यस्य खलु जीवस्य यतनावरणीयानां कर्मणां सपोपन्नमो नो कृतो भवति, स खलु जीवः केवलिप्रमृतीनां सकाशाद् वा यावत् केवलिगसिकापामिकाया सकाशाद् वा समयोपदेशमश्रुत्वा केवलेन संयमेन नो सपञ्चेत्, ' से तेणहेणं गोयमा ! जाव अत्थेगइए नो सब

समे कडे भवइ, सेण असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव केवळेणं सजमेणं सजमेज्जा) जिस जीव के यतनावरणीयकर्मों का क्षयोपशम होता है ऐसा वह जीव केवली से या यावत् उनके आचक आदि से संयम का उपदेश बिना सुने भी केवल संयम द्वारा ही संयम की यतना कर सकता है । यहाँ यतनावरणीय कर्म से चारित्र्यविशेष को आवृत्त करने वाले वीर्यान्तराय कर्म शूहीत हुए हैं । (जस्स णं जयणावरणिज्जाणं कम्माणं स्वओवसमे नो कडे भवइ, से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव नो सजमेज्जा) जिस जीव के यतनावरणीयकर्मों का क्षयोपशम नहीं होता है, वह जीव केवली से या यावत् उनके आचक आदि से संयम का उपदेश सुने बिना केवल संयम द्वारा संयम की यतना नहीं कर सकता है । (से तेणहेणं गोयमा ! जाव अत्थेगइए नो संज

केवळेणं सजमेणं सजमेज्जा) के एवना यतनावरणीय कर्मोना क्षयोपशम यथे दोय छे, ते एव केवली पासे अथवा तेभना आवकादि पासे संयमो उपदेश साकज्जा बिना पणु शुद्ध संयमद्वारा न संयमनी यतना करी शके छे अर्थात् ' यतनावरणीय कर्म ' आ पटना प्रयोगद्वारा चारित्र्य विशेषने आवृत्त करनार वीर्यान्तराय कर्मोने अक्षय्य करवानु छे ज्येभं अमज्जुं परन्तु ' जस्स णं जयणावरणिज्जाणं कम्माणं स्वओवसमे नो कडे भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव नो सजमेज्जा " के एवना यतनावरणीय कर्मोना क्षयोपशम यथे दोय नथी, ते एव केवली पासे अथवा तेभना आवकादि पासे संयमो उपदेश साकज्जा बिना केवल संयमद्वारा न संयमनी यतना करी शकते नथी

मेज्जा' हे गौतम ! तत् तेनार्थेन यावत्-अस्त्येककः कश्चित् केवलिप्रभृतेः सकाशात् संयमोपदेशमश्रुत्वाऽपि केवलेन संयमेन संयच्छेत्, किन्तु अस्त्येककः अपरः कश्चित् तथाविधमकृत्वा नो केवलेन संयमेन संयच्छेत् । गौतमः पृच्छति-‘असोच्चा णं भंते । केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा ? हे भदन्त ! कश्चित् पुरुषः केवलिनः सकाशाद् वा यावत् केवलिश्रावकप्रभृतेः सकाशाद् वा तत्पाक्षिकोपासिकायाः सकाशाद् वा संवरोपदेशमश्रुत्वा खलु केवलेन विशुद्धेन संवरेण किं संवृणुयात् ? संवरं शुभाध्यवसायवृत्तिरक्षणं कुर्यात् ? भगवानाह-‘गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव अत्येगइए केवलेणं संवरेणं संव-

मेज्जा) इस कारण हे गौतम ! “ यावत्-कोई एक जीव केवली से या केवली के श्रावक आदि से संयम का उपदेश सुने बिना भी केवल संयम द्वारा संयम की यतना कर सकता है और कोई एक इस प्रकार नहीं करके केवल संयम से संयम की यतना नहीं कर सकता है ” ऐसा ब्रह्मे कहा है ।

अब गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं (असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा) हे भदन्त ! क्या कोई जीव ऐसा भी होता है जो केवली से या यावत् उनकी उपासिका से संवर का उपदेश सुने बिना भी शुभाध्यवसाय वृत्तिरूप संवर-आस्रव का निरोध कर सके इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं (गोयमा) हे गौतम ! (असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव अत्येगइए केवलेणं संव-

(से तेणट्ठेण जाव अत्येगइए नो सजमेज्जा) हे गौतम ! ते कारणे मे' अर्धुं कहुं छे के के छोड़ छव केवली आदिनी पासे संयमने। उपदेश सांलज्जा विना पणु शुद्ध संयमद्वारा संयमनी यतना करी शकें छे अने छोड़ छव अवे। पणु डोय छे के के केवली आदिनी समीपे संयमने। उपदेश श्रवणु कर्या विना शुद्ध संयमद्वारा संयमनी यतना करी शकते। नहीं।

गौतम स्वामीने। प्रश्न—(असोच्चाणं भंते ! केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा ?) हे भदन्त ! छोड़ छव अवे। डोय छे के के केवली पासे अथवा तेमना पक्षनी उपासिका पर्यन्तनी छोड़ व्यक्ति पासे संवरने। उपदेश सांलज्जा विना पणु शुभ अध्यवसायवृत्तिरूप संवर द्वारा आस्रवोने। निरोध करी शकें छे ?

भडावीर प्रभुने। उत्तर—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (असोच्चाणं केवलिस्स वा जाव अत्येगइए केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा) छोड़ छव अवे। पणु

रेज्जा' हे गौतम ! अस्त्येकक' कश्चित् पुरुष केवलिनः सकाशात् वा यावत्-
 केवलिभावकप्रसूतेः सकाशात् वा संवरोपदेशमधुत्वाऽपि खलु केवलेन सवरेण
 सवृणुयात्, अथ च 'अत्येगइए केवलेण जाय नो सवरेज्जा' अस्त्येककः कश्चित्
 पुरुषः केवलिप्रसूतेः सकाशात् सवरोपदेशमधुत्वा केवलेन यावत् सवरेण नो संवृ-
 णुयात्, गौतमः प्राह—' से केणहेण जाय नो सवरेज्जा ' हे मद्दन्त ! तत्केना
 वेन यावत् अस्त्येकक' कश्चित् केवलिप्रसूतेः सकाशात् सवरोपदेशमधुत्वापि केव-
 लेन सवरेण सवृणुयात्, किन्तु अस्त्येककः कश्चित् अपस्तयाविषमकृत्वा केवलेन
 सवरेण नो सवृणुयात् ? मगधानाह—' गोयमा ! जस्स ण अज्जवसाणावरणिज्जापि
 कम्मणं सवोषसमे कडे मवइ, से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलेपं सव-

रेण सवरेज्जा) हां, कोई एक जीव ऐसा भी होता है जो केवलीसे या
 यावत् उनके आबक आदि से संवर का उपदेश सुने बिना भी शुभा-
 ष्यवसायवृत्तिरूप संवर कर सकता है ! और (अत्येगइए केवलेण जाव
 नो संवरेज्जा) कोई एक जीव ऐसा होता है जो केवली से या यावत्
 उनके आबक आदि से संवर का उपदेश सुने बिना केवल संवर से
 शुभाष्यवसायवृत्तिरूप संवर नहीं कर सकता है । (से केणहेण जाव
 णो सवरेज्जा) हे मद्दन्त ! ऐसा क्यों होता है कि कोई एक जीव
 केवली से या केवली के आबक आदि से संवर का उपदेश सुने बिना
 भी केवल संवरसे शुभाष्यवसाय वृत्तिरूप संवर कर सकता है ? और
 कोई जीव ऐसा नहीं करके केवल संवर से संवर नहीं कर सकता है ?
 इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा ! (जस्स ण अज्जवसाणावर

दोष छे के केवली पासे जयवा तेमना आवकादि पासे सवरने उपदेश
 सांभल्या बिना पण शुभाष्यवसायवृत्तिरूप संवर करी शके छे, जने (अत्ये
 गइए केवलेण जाव नो सवरेज्जा) कोछे एव जेवो दोष छे के केवली
 आदिनी अभीपि सवरने उपदेश सांभल्या बिना केवल संवरद्वारा शुभ
 ष्यवसायवृत्तिरूप संवर करी शकते नहीं।

जीवम स्वामीने प्रभु—(से केणहेण जाव नो सवरेज्जा ?) के मद्दन्त !
 जाप या कोछे जेवुं कहे छे के कोछे एव केवली जयवा तेमना आवक
 वसेरनी अभीपि सवरने उपदेश सांभल्या बिना पण शुभ संवरद्वारा जय
 वेने निशेध करी शके छे, जने कोछे एव जेवुं कर्षा बिना केवल संवरद्वारा
 जयवेने निशेध करी शकते नहीं ?

महावीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! ” के जीवम ! जस्स ण अज्जवसाणा
 वरणिज्जाणं कम्मणं सवोषसमे कडे मवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव

रेणं संवरेज्जा ' हे गौतम ! यस्य खलु जीवस्य अध्यवसानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमः कृतो भवति, स खलु जीवः केवलिनः सकाशाद् वा, यावत् केवलि-
श्रावकप्रभृतेः सकाशाद् वा संवरोपदेशमश्रुत्वाऽपि केवलेन संवरेण संवृणुयात् ।
संवरशब्देनात्र शुभाध्यवसायवृत्तेर्विवक्षिततया, तस्याश्च शुभाध्यवसायवृत्तेर्भावचारि-
त्ररूपत्वेन तदावरणक्षयोपशमलभ्यत्वात्, अध्यवसानावरणीयशब्देनात्र भावचा-
रित्रावरणीयानि कर्माणि अवसेयानि इति भावः, ' जस्स णं अज्झवसाणावरणि-
ज्जाणं कम्माणं खओवसमे णो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव णो
संवरेज्जा ' यस्य खलु जीवस्य अध्यवसानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो नो

णिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा
जाव केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा) हे गौतम ! जिस जीव को अध्यवसा-
नावरणीय कर्मों का क्षयोपशम किया हुआ होता है, वह जीव केवली
से या यावत् उनके श्रावक आदि से संवर का उपदेश सुने विना भी
केवल संवर से आश्रय निरोधरूप संवर कर सकता है । संवर शब्द से
यहां पर शुभाध्यवसायवृत्ति विवक्षित हुई है । यह शुभाध्यवसायवृत्ति
भावचारित्ररूप होती है । क्यों कि यह भाव चारित्र को आवरण करने
वाले कर्मों के क्षयोपशम से लभ्य होती है । अध्यवसानावरणीय शब्द
से यहां भावचारित्रावरणीय कर्म गृहीत हुए हैं । (जस्स णं अज्झव-
साणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे णो कडे भवइ) तथा जिस जीव
को अध्यवसानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम किया हुआ नहीं है (से णं
असोच्चा केवलिस्स वा जाव णो संवरेज्जा) वह जीव केवली से या
उनके श्रावक आदि से संवरोपदेश विना सुने केवल संवर नहीं कर

केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा) ने अपने अध्यवसानावरणीय कर्मों को क्षयोपशम
थी है, तो उसे केवली यासे अथवा तेमना श्रावक वगैरेंनी यासे
संवरनेो उपदेश सांलग्या विना पणु केवल संवरद्वारा आश्रयनेो निरोध
करी शकें छे, संवर शब्दना प्रयोगद्वारा अर्ही शुभाध्यवसायवृत्ति अर्हणु करा-
छे, ते शुभाध्यवसायवृत्ति भावचारित्ररूप होय छे, कारणु के ते भावचारित्रने
आवरणु करनारा कर्मोंना क्षयोपशमथी प्राप्त थाय छे, परन्तु " जस्सणं
अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे णो कडे भवइ, से णं असोच्चा केव-
लिस्स वा जाव णो संवरेज्जा) ने अवे अध्यवसानावरणीय कर्मोंना क्षयोपशम
करी होतो नथी, ते अवे केवली अथवा तेमना पक्षनी उपसिद्धा पर्थन्तनी

हृत्तो भवति, स खलु जीवः केवलिनः सकाशाद्वा, यावत् क्वचिन्भावकमश्नुतीनां सकाशाद् वा सवरोपदेशमभ्युत्वा केवलेन सवरेण नो सत्पुण्यात्—' से तेणहेण जाव नो संवरेज्जा' हे गौतम ! त्वं तेनार्थेन यावत्—अस्त्येककः कश्चित् केवलिन-मश्नुते सकाशात् संवरोपदेशमभ्युत्वाऽपि केवलेन संवरेण संपुण्यात्, अस्त्येककोऽपरस्तु तयाविषमभ्युत्वा केवलेन सवरेण नो सत्पुण्यात् । गौतमः पृच्छति असोच्चा णं भते ! केवलिस्स जाव केवल आमिणियोहियनाण उप्पावेज्जा ? ' हे मदान्त ! कश्चित्पुरुष केवलिनः सकाशाद् वा यावत् क्वचिन्भावकमश्नुते सकाशाद् वा अभ्युत्वा खलु केवलम् आमिनिवोषिकज्ञान मतिज्ञानलक्षणम् किम् उत्पादयेत् ? मगवानाह—' गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव त्वासियाए वा अत्येगाए

सकता है अर्थात् श्रुमाध्यवसायवृत्तिरूप संवर में नहीं रह सकता है । (से तेणहेण जाव नो संवरेज्जा) इस कारण हे गौतम ! “ कोई एक जीव केवलीसे या यावत् उनके भावक आदिसे संवरका उपदेश सुने बिना भी केवल संवरसे संवरकर लेता है और कोई जीव तथाविध उपदेश को नहीं सुने बिना केवल संवरसे संवर नहीं कर पाता है ” ऐसा मैंने कहा है ।

अथ गौतम प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं—“ असोच्चा णं भते ! केवलिस्स जाव केवल आमिणियोहियनाण उप्पावेज्जा) केवली से या केवली के भावक आदि से “ मतिज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है ” इस बात को नहीं सुन करके क्या कोई जीव आमिनिवोषिकज्ञानरूप मतिज्ञान को उत्पन्न कर सकता है ? इसके उत्तर में प्रश्नु कहते हैं (गोयमा) हे गौतम !

कोष्ठ पक्ष ऋद्धि समीपे संवरने उपदेश संभलया विना केवल संवर द्वारा आभवेने निशेध करी शकते नथी—अेतदे के शुभ आध्यवसाय रूप संवरमां रद्धी शकते नथी (से तेणहेण जाव नो संवरेज्जा) हे गौतम ! ते कारणे मे अेवुं कथुं छे के “ कोष्ठ एव केवली आदिनी पासे संवरने उपदेश संभलया विना पक्ष केवल संसार द्वारा आभवेने निशेध करी शकें छे, अने कोष्ठ एव ते प्रहारने उपदेश संभलया विना केवल संवर द्वारा आभवेने निशेध करी शकते नथी ”

गौतम स्वामीने प्रश्न—(असोच्चा णं भते ! केवलिस्स जाव केवल आमिणियोहियनाण उप्पावेज्जा ?) हे मदान्त ! केवली पासे अथवा केवलीना भाव आदि पासे मतिज्ञानकी उत्पत्ति केली रीते थाय छे, अे वातने संभलया विना शु कोष्ठ एव आमिनिवोषिक ज्ञानरूप मतिज्ञानने उत्पन्न करी शकें छे अथै ! अन्वापीर प्रश्नुने उपदेश—“ गोयमा ! ” हे गौतम ! (असोच्चा णं केव

केवलं आभिनिवोहियनाणं उप्पाडेज्जा ' हे गौतम ! अस्त्येककः कश्चित्पुरुषः केवलिनो वा सकाशात्, यावत् केवलिश्रावणप्रभृतेः सकाशाद् वा तत्पाक्षिकोपासिकायाः सकाशाद् वा अश्रुत्वा खलु केवलम् आभिनिवोधिकज्ञानमुत्पादयेत्, ' अत्येगइए केवलं आभिनिवोहियनाणं नो उप्पाडेज्जा ' अस्त्येककः कश्चिदपरः केवलिप्रभृतेः सकाशाद् अश्रुत्वा खलु केवलम् आभिनिवोधिकज्ञानं नो उत्पादयेत् । गौतमः प्राह—' से केणट्टेणं जाव नो उप्पाडेज्जा ? हे भदन्त ! तत् केनार्थेन यावत् अस्त्येककः कश्चित् केवलिप्रभृतेः सकाशात् अश्रुत्वाऽपि केवलम् आभिनिवोधिकज्ञानमुत्पादयेत्, किन्तु अस्त्येककः अपरः कश्चित् तथाविधमश्रुत्वा नो केवलम् आभिनिवोधिकज्ञानमुत्पादयेत् ? भगवानाह—' गोयसा ! जस्स णं आभिनिवोहिय

(अलोच्चा णं केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा अत्येगइए केवलं आभिनिवोहियनाणं उप्पाडेज्जा) कोई पुरुष केवलीसे या यावत् केवली के श्रावक आदि से नहीं सुन करके भी केवल आभिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न कर सकता है । तथा (अत्येगइए केवलं आभिनिवोहियनाणं नो उप्पाडेज्जा) कोई एक पुरुष तथाविध उपदेश सुने बिना केवल आभिनिवोधिकज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता है । (से केणट्टेणं जाव नो उप्पाडेज्जा) हे भदन्त ! ऐसा आर किस कारण से कहते हैं कि कोई एक जीव केवली आदि से आभिनिवोधिक ज्ञानोत्पादक वचनोंको सुने बिना केवल आभिनिवोधिक ज्ञान को उत्पन्न कर सकता है और कोई एक केवली आदि से तथाविध वचनों को बिना सुने आभिनिवोधिक ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता है इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं (जस्स

ल्लिस्स वा जाव उवासियाए वा अत्येगइए केवलं आभिनिवोहियनाणं उप्पाडेज्जा) कोई पुरुष केवली पासे अथवा केवलीना श्रावकादिनी समीपे आभिनिवोधिक्-ज्ञान प्राप्तिनो उपदेश साल्लया विना पणु शुद्ध आभिनिवोधिक् ज्ञान उत्पन्न करी शके छे तथा (अत्येगइए केवलं आभिनिवोहियनाणं नो उप्पाडेज्जा) कोई एव ते प्रकारनो उपदेश साल्लया विना शुद्ध आभिनिवोधिक् ज्ञान उत्पन्न करी शकतो नथी.

गौतम स्वामीने। प्रश्न—(से केणट्टेणं जाव नो उप्पाडेज्जा ?) हे भदन्त ! आप शा डारणे एवु डडो छे के कोई एव केवली पासे आभिनिवोधिक् ज्ञानोत्पादक वचनो श्रवणु कथा विना पणु शुद्ध आभिनिवोधिक् ज्ञान उत्पन्न करी शके छे, अने कोई एव केवली आदिनी पासे ते प्रकारनां वचनो श्रवणु कथा विना आभिनिवोधिक् ज्ञान उत्पन्न करी शकतो नथी ?

नापावरणिज्जाणं कम्मणं स्वओवसमे कडे भवइ, 'से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं आमिणिबोहियनाणं उप्पाडेज्जा' हे गौतम ! यस्य स्वलु जीवस्य आमिनिबोधिक्खानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमः कृतो भवति, स स्वलु जीवा केवलिनः सकाशाद् वा, यावत् केवलिभावकप्रसूतेः सकाशाद् वा अभ्युत्वाऽपि केवलम् आमिनिबोधिक्खानम् उत्पादयेत्, किन्तु 'जस्स णं आमिणिबोहियनाणावरणिज्जाणं कम्मणं स्वओवसमे नो कडे भवइ, से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं आमिणिबोहियनाणं नो उप्पाडेज्जा' यस्य स्वलु जीवस्य आमिनिबोधिक्खानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो नो कृतो भवति, स स्वलु केवलिनी वा सकाशाद् यावत् केवलिभावकप्रसूतेः सकाशाद् वा अभ्युत्वा केवलम् आमिनिबोधिक्खानं नो उत्पादयेत्, 'से तेणद्वेण जाव नो उप्पाडेज्जा' एत् तेनार्वेण

ण आमिणिबोहियनाणावरणिज्जाणं कम्मणं स्वओवसमे कडे भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं आमिणिबोहियनाणं उप्पाडेज्जा) हे गौतम ! जिस जीव को आमिनिबोधिक्खानावरणीयकर्मों का क्षयोपशम होता है वह जीव केवली आदि से तथाविध वचनों को सुने बिना भी आमिनिबोधिक्खान को उत्पन्न कर सकता है और (जस्स णं आमिणिबोहियनाणावरणिज्जाणं कम्मणं स्वओवसमे नो कडे भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं आमिणिबोहियनाणं नो उप्पाडेज्जा) जिस जीव को आमिनिबोधिक्खानावरणीयकर्मों का क्षयोपशम नहीं होता है वह जीव केवली आदि से तथाविध वचनों को सुने बिना केवल आमिनिबोधिक्खान को उत्पन्न नहीं कर सकता है। (से तेणद्वेण जाव नो उप्पाडेज्जा) इसलिये हे गौतम ! मैंने ऐसा

महावीर प्रभुने उत्तर—(स्वलु व आमिनिबोहिय नापावरणिज्जाणं कम्मणं स्वओवसमे कडे भवइ, से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं आमिनिबोहियनाणं उप्पाडेज्जा) हे गौतम ! ये एवे आमिनिबोधिक्खानावरणीय कर्मिणे क्षयोपशम कथीं देवते, ते एव केवली आमिनि नी पासे ते प्रशरणां वचनेन श्रवणं कथीं बिना पणु आमिनिबोधिक्खानं उत्पाद (प्राप्त) करी शकते ए परन्तु (जस्स णं आमिनिबोहियनाणावरणिज्जाणं कम्मणं स्वओवसमे नो कडे भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलं आमिनिबोहियनाणं नो उप्पाडेज्जा) ये एवना आमिनिबोधिक्खानावरणीय कर्मिणे क्षयोपशम कथीं देवते नथी, ते एव केवली आमिनि नी पासे ते प्रशरणां वचनेन श्रवणं कथीं बिना शुद्ध आमिनिबोधिक्खानं उत्पाद करी शकते नथी. (से तेणद्वेण जाव नो उप्पाडेज्जा)

यावत् कश्चित् केवलम् आभिनियोधिकज्ञानमुत्पादयेत्, कश्चित् केवलम् आभिनियोधिकज्ञानं नो उत्पादयेत् । गौतमः पृच्छति—‘ असोच्चा णं भंते ! केवलस्स वा जाव केवलं सुयनाणं उप्पाडेज्जा ? ’ हे भदन्त ! कश्चित् पुरुषः केवलिनो वा सकाशाद् यावत्—केवलिश्रावकप्रभृतेः सकाशाद् वा अश्रुत्वा खलु केवलं श्रुतज्ञानम् उत्पादयेत् किम् ? भगवानाह—‘ एवं जहा आभिणिबोहिय नाणस्स वत्तव्वया भणिया, तहा सुयनाणस्स वि भाणियव्वा ’ हे गौतम ! एवं पूर्वोक्तरीत्या यथा आभिनियोधिकज्ञानस्य वक्तव्यता भणिताः तथा श्रुतज्ञानस्यापि वक्तव्यता भणितव्याः ‘ नवरं सुयनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे भाणियव्वे ’ नवरम् मतिज्ञानापेक्षया श्रुतज्ञानस्य विशेषस्तु आभिनियोधिक-

कहा है कि यावत् कोई जीव आभिनियोधिकज्ञान उत्पन्न कर सकता है और कोई जीव आभिनियोधिकज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता है ।

अब गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(असोच्चाणं भंते ! केवलस्स वा जाव केवलं सुयनाणं उप्पाडेज्जा) हे भदन्त ! क्या कोई जीव ऐसा भी होता है जो केवली के यावत् उनके श्रावक आदि के श्रुतज्ञानोत्पादक वचन सुने बिना केवल श्रुतज्ञान को उत्पन्न कर सके ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(एवं जहा आभिणिबोहियनाणस्स वत्तव्वया भणिया तहा सुयनाणस्स वि भाणियव्वा) हे गौतम ! जिस प्रकार से आभिनियोधिकज्ञान की वक्तव्यता कही जा चुकी है उसी प्रकार से श्रुतज्ञान की वक्तव्यता भी कहनी चाहिये । (नवरं सुयनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे भाणियव्वे) परन्तु उस वक्तव्यता में और इस वक्तव्यता में यदि कोई अन्तर है तो वह श्रुतज्ञानावरणीयकर्मों के

हे गौतम ! ते कारणे मे अणु कल्लु छे के कोध एव आभिनियोधिक ज्ञान प्राप्त करी शके छे अने कोध एव तेने प्राप्त करी शकते नथी.

गौतम स्वामीने प्रश्न—(असोच्चाण भंते ! केवलस्स वा जाव केवलं सुयनाणं उप्पाडेज्जा ?) हे भदन्त ! कोध एव केवली पासे अथवा तेमना श्रावकादि पासे श्रुतज्ञानोत्पादक वचनो श्रावणु कर्या विना शुं श्रुतज्ञान उत्पन्न करी शके छे अरे ?

भडावीरप्रभुने उत्तर—(एवं जहा आभिणिबोहियनाणस्स वत्तव्वया भणिया तहा सुयनाणस्स वि भाणियव्वा हे गौतम ! आभिनियोधिक ज्ञाननी नेवी वक्षतव्वता उपर कडेवामां आवी छे, अेवी न श्रुतज्ञाननी वक्षतव्वता पणु समज्जीवी (नवरं सुयनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे भाणियव्वे) परन्तु ते वक्षतव्वता करतां आव वक्षतव्वतामां आटली विशेषता छे—अेम आभिनियोधिक ज्ञाननी उत्पत्तिनुं कारणु

ज्ञानावरणीयकर्मण्योपशमस्थाने ध्रुवज्ञानावरणीयानां कर्मणाम् क्षयोपशमो मणि
 त्व्यः । 'एव चैव केवल ओहिनाण माणियव्य' एवमेव गतिज्ञानादिवदेव केव-
 लम् अवधिज्ञानमपि मणित्व्यम्, किन्तु 'नवरं ओहिनाणावरणिजाणं कम्माण
 स्वभोवसमं माणियव्ये' नवरं मतिज्ञानाद्यपेक्षया अवधिज्ञानस्य विशेषस्तु अवधि
 ज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमः मणित्व्यः । 'एव केवल मणपञ्जवनाण
 उप्पाटेज्जा' एवं पूर्वोक्तरीत्या केवल मन पर्यवज्ञानमुत्पादयत् किन्तु 'नवर
 मणपञ्जवनाणावरणिज्जाण कम्माण स्वभोवसमे माणियव्ये' नवर विशेषेण मनः
 पर्यवज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमो मणित्व्यः । गौतमः पृच्छति—'अतो

क्षयोपशम का है—अर्थात् आभिनियोचिकज्ञान की वस्तुस्थिता में जिस
 प्रकार से आभिनियोचिक ज्ञान की उत्पत्ति का कारण आभिनियोचिक
 ज्ञानावरणीयकर्मों का क्षयोपशम कहा गया है उसी प्रकार से यहाँ
 पर आभिनियोचिक ज्ञानावरणीय कर्मक्षयोपशम के स्थान में ध्रुवज्ञाना
 वरणीय कर्मों का क्षयोपशम कहना चाहिये । (एवं येव केवल ओहि
 नाण माणियव्य) मतिज्ञान आदि की तरह से ही केवल अवधिज्ञान
 को भी कहना चाहिये (नवर) किन्तु (ओहिनाणावरणिज्जाण कम्मा
 ण स्वभोवसमे माणियव्ये) मतिज्ञान आदि की अपेक्षा अवधिज्ञान की
 उत्पत्ति में अवधिज्ञानावरणीयकर्मों का क्षयोपशम होता है ऐसा
 जानना चाहिये । (एवं केवल मणपञ्जवनाण उप्पाटेज्जा) इसी तरह
 से केवल मनः पर्यवज्ञान की उत्पत्ति के दिपय में भी जानना
 चाहिये । (नवर) पूर्व की अपेक्षा इसकी उत्पत्ति में जो विशेषता है
 वह मनः पर्यवज्ञानावरणीय कर्मों के क्षयोपशम को लेकर के है, अर्थात्

आभिनियोचिक ज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयोपशम इहेवामां आवेल उ जेव प्रभाते
 अतज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयोपशम इवासी ध्रुवज्ञान उत्पत्त थाय उ जेव समञ्ज
 (एवं येव केवल ओहिनाण माणियव्य) मतिज्ञानना जेवी ए अवधि
 ज्ञाननी पक्ष वस्तुस्थिता समञ्जवी ' नवर ' प १२ तु (ओहिनाणावरणिज्जाण
 कम्माण स्वभोवसमं माणियव्ये) जहाँ जेटही ए विशेषता समञ्जवानी उ के
 अवधिज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयोपशम इवासी अवधिज्ञान उत्पत्त थाय उ
 (एवं केवल मणपञ्जवनाण उप्पाटेज्जा) जेव प्रभाते मनपर्यवज्ञाननी उत्प
 त्तिना विषयगां पक्ष वस्तुस्थिता समञ्जवी ' नवर ' प १२ तु जहाँ जेटही ए
 विशेषता समञ्जवी जेहजे के मनपर्यवज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयोपशम इवासी
 मनपर्यवज्ञान उत्पत्त थाय उ

च्चा णं भंते । केवलिसस वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलनाणं उप्पा-
 डेज्जा ? ' हे भदन्त ! कश्चित्पुरुषः केवलिनो वा सकाशात्, यावत् तत्पाक्षिको-
 पासिकाया वा सकाशात् अश्रुत्वाऽपि खलु केवलज्ञानमुत्पादयेत् किम् ? भगवा-
 नाह—' एवं चेव नवरं केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खए भाणियव्वे, सेसं तं
 चेव ' एवमेव नवरं केवलज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयो भणितव्यः शेषं तदेव-
 पूर्ववदेव नवरं विशेषस्तु अत्र केवलज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयो भणितव्यः ' से

मनः पर्यवज्ञान की उत्पत्ति मनः पर्यय ज्ञानावरणीय कर्मों के क्षयोप-
 शम से होती है ऐसा कहना चाहिये ।

अब गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं (असोच्चा णं भंते ! केवलिसस
 वा जाव तप्पक्खिय उवानियाए वा केवलनाणं उप्पाडेज्जा) हे भदन्त !
 क्या कोई जीव ऐसा भी होना है जो केवली से या यावत् उनके श्रावक
 आदि से विना सुने भी केवलज्ञान को उत्पन्न कर लेता है ? इसके
 उत्तर में प्रभु कहते हैं—(एवं चेव नवरं केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं
 खए भाणियव्वे) हे गौतम ! हां, कोई ऐसा भी जीव होता है जो
 केवली से या यावत् उनके श्रावक आदि से विना सुने भी केवलज्ञान
 को उत्पन्न करलेता है । और कोई ऐसा होता है केवली से या यावत्
 उनके श्रावक आदि से विना सुने केवलज्ञान उत्पन्न नहीं कर पाता है ।
 जो विना सुने भी केवलज्ञान उत्पन्न कर लेता है उस जीव का केवल
 ज्ञानावरणीयकर्मों का क्षय होता है और जो केवलज्ञान उत्पन्न नहीं कर
 पाता है उसको केवल ज्ञानावरणीयकर्मों का क्षय नहीं होता है । (से

गौतम स्वामीने प्रश्न—(असोच्चा णं भंते ! केवलिसस वा जाव तप्पक्खिय
 उवासियाए वा केवलनाण उप्पाडेज्जा ?) हे भदन्त ! शुं कोधं एव ओवेो डोय
 छे के ने केवली पासो अथवा तेमना श्रावकादि पासो केवणज्ञानोत्पादक वयनेो
 श्रवणु कथां विना केवणज्ञान उत्पन्न करी शके छे ?

भङ्गावीर प्रभुनेो उत्तर—(एवं चेव नवरं केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं
 खए भाणियव्वे) हे गौतम ! अर्धी पणु पूर्वोक्त कथन प्रमाणुं कथन सम-
 ञ्जुं ओटले के कोधं एव ओवेो पणु डोय छे के ने केवली आदिनी समीपे
 उपदेश श्रवणु कथां विना केवणज्ञाननी प्राप्ति करनार एवना केवणज्ञानावरणीय
 कर्मोनी क्षय थध गयेो डोय छे. परन्तु कोधं एव ओवेो पणु डोय छे के ने
 तेमनेो ते प्रकारनेो उपदेश सांभल्या विना केवणज्ञान प्राप्त करी शकतो नथी,
 कारणु के ओवा एवना केवणज्ञानावरणीय कर्मोनी क्षय थयेो डोतो नथी. " से

तेणहेणं गोपमा ! एष घुच्चइ जाव केवलनार्णं नो उप्पावेज्जा ' हे गौतम ! त्व
 तेनार्येण एवमुच्यते—यावत्—यस्य केवलज्ञानावरणीयकर्मणां क्षयः कृतो भवति स
 केवलप्रभृतेः सकाशादधुत्वाऽपि केवलज्ञानमुत्पादयेत्, यस्य तु केवलज्ञानावरणीय
 कर्मणां क्षयो नो कृतो भवति स केवलप्रभृतेः सकाशाद् अधुत्वा केवलज्ञानं नोत्पा
 दयेदिति भावः । अथ पूर्वोक्तानेत्रायान् समुदायेनाह—'आसोच्चा णं भते । केव
 लिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलप्रभृत्तं धम्मं लभेज्जा सवण
 याए " इत्यादि सर्वं पूर्ववदेव व्याख्येयमिति ॥ सू० १ ॥

अधिज्ञानोत्पादकव्यता ।

अथ केवलप्रभृतेः सकाशादधुत्वेन यथा कश्चिज्जीवः केवलज्ञानमुत्पादयेद्यथा
 दर्शयितुमाह—' तस्स णं भते । ' इत्यादि ।

मूलम्—तस्स णं भते । छट्ट - छट्टेण अणिक्खित्तेण तथो
 कम्मेण उहुं वाहाओ पगिज्झिय पगिज्झिय सुराभिमुहस्स

तेणहेणं गोपमा ! एष घुच्चइ जाव केवलनार्णं नो उप्पावेज्जा) इसी
 कारण हे गौतम ! मैंने ऐसा कहा है कि जिस जीवका केवल ज्ञानावरणी
 यकर्मोंका क्षय किया हुआ होता है यह जीव केवलीसे या यावत् केवली
 के आचर आदि से बिना सुने भी केवलज्ञान उत्पन्न कर लेता है और
 जिस जीव का केवल ज्ञानावरणीयकर्मों का क्षय नहीं होता है यह जीव
 केवली से या केवली के आचर आदि से बिना सुने केवलज्ञान उत्पन्न
 नहीं कर सकता है । अथ इन्हीं पूर्वोक्त अर्थों को समुदाय से कहने के
 लिये (असोच्चा णं भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए
 वा केवलप्रभृत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए) इत्यादि ऐसा कहा है ।
 सो इन सब सूत्रों का अर्थ पहिले की तरह से ही प्रश्नोत्तर रूप में
 व्याख्यायुक्त करके समझलेना चाहिये ॥ सू० १ ॥

तेणहेण गोपमा ! एष घुच्चइ जाव केवलनार्णं नो उप्पावेज्जा) हे गौतम ! ते
 कारणे मे जेणु कथुं ते हे ने एवे केवलज्ञानावरणीय कर्मिणा क्षय कथीं उवा
 ते एव केवली आदिना उपदेश सांख्य्या बिना पणु केवलज्ञान उत्पन्न
 करी शके हे, परन्तु ने एवे केवलज्ञानावरणीय कर्मिणा क्षय कथीं उवाते नथी, ते
 एव केवली आदिना बन्नेना अणु कथां बिना केवलज्ञान उत्पन्न करी शकते
 नथी. एवे सूत्रकार पूर्वोक्त विषयेण समुदायश्चे कथन करवाने भाटे (असो
 च्चा णं भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिय उवासियाए वा केवलप्रभृत्तं धम्मं
 लभेज्जा सवणयाए) इत्यादि सूत्रपाठ कथीं हे ते सूत्रपाठमां आपत्त्या प्रश्नो-
 त्तरेण निश्चय भूय सूत्रार्थमां कथा प्रभावेण सगच्छु ॥ सू० १ ॥

आयावणभूमीए आयावेमाणस्स पगइभइयाए, पगइ-
उवसंतयाए पगइपवणु कोहमाणसायालोभयाए, मिउमइव-
संपन्नयाए, अल्लीणयाए, भइयाए, विणीययाए, अन्नया
कयाइं सुभेणं अज्झवसाणेणं सुभेणं परिणामेणं, लेस्साहिं
विसुज्जमाणीहिं २ तथावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं
ईहापोहमग्गणगवेसुणं करेमाणस्स विभंगे नामं अन्नाणे समु-
प्पज्जइ । से णं तेणं विभंगनाणेणं समुप्पन्नेणं जहणणेणं
अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं असंखेज्जइ ज्ञोयण-
सहस्ताइं जाणइ पासइ । तेणं विभंगनाणेणं समु-
प्पन्नेणं जीवे वि जाणइ, अजीवे वि जाणइ, पासंडत्थे सारंभे
सपरिग्गहे, संकिलिस्समाणे वि जाणइ, विसुज्जमाणे वि
जाणइ । से णं पुठ्वामेव सम्मत्तं पडिवज्जइ, संम्मत्तं पडिव-
ज्जित्ता समणधम्मं रोएइ समणधम्मं रोएत्ता चरित्तं पडिवज्जइ,
चरित्तं पडिवज्जित्ता लिंणं पडिवज्जइ, तस्स णं तेहिं मिच्छ-
त्तपज्जवेहिं परिहायमाणेहिं परिहायमाणेहिं सम्मदंसण-
पज्जवेहिं परिवड्ढमाणेहिं परिवड्ढमाणेहिं से विभंगे अन्नाणे
सम्मत्तपरिग्गहिंए खिप्पामेव ओही परावत्तइ ॥ सू०२ ॥

छाया—तस्य खलु भदन्त ! पठं-पण्डेन अनिक्षिप्तेन तपःकर्मणा ऊर्ध्वं
वाहू प्रगृह्य प्रगृह्य सूर्याभिमुखस्य आतापनाभूमौ आतापयतः प्रकृतिभइयाए प्रकृत्यु-

अवधिज्ञानोत्पादकवक्तव्यता—

(तस्स णं भंते ! छट्ठं छट्ठेणं अणिक्खित्तेणं तवो कम्मेणं) इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(तस्स णं भंते ! छट्ठं छट्ठेणं अणिक्खित्तेणं तवो कम्मेणं

अवधिज्ञानोत्पादके वक्तव्यता—

“ तस्स णं भंते ! छट्ठं छट्ठेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मणं ” इत्यादि.

सूत्रार्थ—(तस्स णं भंते ! छट्ठं छट्ठेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मणं उद्दं

पञ्चान्ततया प्रकृतिपतनुक्रोधमानमायालोमतया मृदुमार्दवसम्पन्नतया, आलीनतया, मद्रतया, विनीततया, अन्यदा कदाचित् शुभेन अभ्यवसानेन, शुभेन परिणामेन छेद्यामिः विशुध्यमानामिः विशुध्यमानामिः तदावरणीयानां कर्मणां सपोषमन ईहापोहमार्गणगवेपणं कुर्वतो विभङ्गनाम अज्ञान समुत्पद्यते, । स खलु तेन विभङ्ग-

उक्तं बाह्यो पगिज्ज्ञय पगिज्ज्ञय सुरामिमुहस्त आयावणमूमीए आयावेमाणस्त पगइमहयाए पगइ उवसतयाए, पगइपयणुकोइमाण माया लोमयाए, मिउमहयसपन्नयाए, अल्लीणयाए, महयाए, विणीपयाए, अन्नया कयाइ सुमेणं अज्ज्ञवसाणेण सुमेणं परिणामेणं, छेस्ताहिं विमुज्जमाणीहिं २ तथावरणिज्जाणं कम्मणं सधोवसमेणं ईहापोहम र्गणगवेसणं करेमाणस्त विभगे नाम अज्ञाने समुत्पद्यइ) निरन्तर छट्ट छट्ट की तपश्चर्या करने वाले, तथा आतापनामूमि में सूर्य के सन्मुख ऊँचा हाथ करके आतापना लेने वाले, तथा प्रकृति से मद्र होने के कारण एव प्रकृति से उपशान्त होने के कारण स्वभाव से अतिमन्द क्रोध, मान, माया और लोम वाले तथा मृदुमार्दव से युक्त, आलीनता से युक्त, मद्रगुण से युक्त, विनयगुण से युक्त होने के कारण किसी एक दिन शुभ अभ्यवसाय द्वारा शुभ परिणाम द्वारा, विशुद्धछेद्याओं द्वारा तदावरणीय कर्मों के क्षयोपशम से ईहा, अपोह, मार्गणा और गवेपणा करते हुए उस जीव को विभंग नाम का अज्ञान उत्पन्न होता है-वह

बाह्यो पगिज्ज्ञय पगिज्ज्ञय सुरामिमुहस्त आयावणमूमीए आयावेमाणस्त पगइ महयाए पगइ उवसतयाए, पगइपयणुकोइमाणमायालोमयाए, मिउमहयसपन्नयाए, अल्लीणयाए, महयाए, विणीपयाए अन्नया कयाइ सुमेणं अज्ज्ञवसाणेण सुमेणं परिणामेणं, छेस्ताहिं विमुज्जमाणीहिं २ तथावरणिज्जाणं कम्मणं सधोवसमेणं ईहापोहमरणगवेसणं करेमाणस्त विभगे नाम अज्ञाने समुत्पद्यइ) निरन्तर छट्ट छट्ट की तपश्चर्या करना, तथा तडावाणी भूमिमां सूर्यनी सामे दास उवा करीने आतापना लेना डोवाधी, तथा मद्र प्रकृतिवाजा डोवाधी, प्रकृतिथी उपशान्त डोवाधी, क्रोध, मान माया अने दोलने पातजा पाठया डोवाधी, मृदु-मार्दवथी मुह्य डोवाधी, आलीनताथी मुह्य डोवाधी, मद्रगुणथी अने विनयगुणथी मुह्य डोवाने कारणे ठोपं जेठ दिवस गुण अभ्यवसाय द्वारा शुभपरिणाम द्वारा, विशुद्ध छेद्याओं द्वारा, तेना व्यपशक्त कर्मिना क्षयोपशम यथाथी उवा अपोह, मार्गणा अने गवेपणा करता करता आ उरने विभंग नामनुं अज्ञान उत्पन्न भए जय ७

જ્ઞાનેન સમુત્પન્નેન જઘન્યેન અહુલસ્ય અસંખ્યેયભાગમ્ ઉત્કર્ષેણ અસંખ્યેયાનિ યોજનસદ્સાણિ જાનાતિ પશ્યતિ । સ ચલુ તેન વિભન્નજ્ઞાનેન સમુત્પન્નેન જીવા- નપિ જાનાતિ, અજીવાનપિ જાનાતિ, પાશ્વણ્ડસ્થાન્ સારમ્ભાન્, સપરિગ્રહાન્ સંકિલિશ્યમાનાનપિ જાનાતિ, વિશુદ્ધ્યમાનાનપિ જાનાતિ । સ ચલુ પૂર્વમેવ સમ્યક્ત્વં

(સે ણં તે ણં વિભંગનાણેણં સમુત્પન્નેણં જહણેણં અંગુલસ્સ અસંખેજ્જહ ભાગં, ઉક્કોસેણં અસંખેજ્જાહં જોયણસહસ્સાહં જાણહ પાસહ, જીવે વિ જાણહ, અજીવે વિ જાણહ, પાસંહત્થે, સારંભે, સપરિગ્ગહે, સંકિલિસ્સ- માણે વિ જાણહ વિસુજ્જમાણે વિ જાણહ, સે ણં પુઠ્ઠવામેવ સમ્મત્તં પઢિવજ્જહ, સમ્મત્તં પઢિવજ્જિત્તા સમણધમ્મં રોણહ, સમણધમ્મં રોણ્તા ચરિત્તં પઢિવજ્જહ, ચરિત્તં પઢિવજ્જિત્તા લિંગં પઢિવજ્જહ, તસ્સ ણં તેહિં મિચ્છાત્તપજ્જવેહિં પરિહાયમાણેહિં પરિહાયમાણેહિં સમ્મહંસણપજ્જવેહિં પરિવહુમાણેહિં ૨ સે વિભંગે અન્નાણે સમ્મત્તપરિગ્ગહિણે સ્વિપ્પામેવ ઓહી પરાવત્તહ) ઉત્પન્ન હુણે ઉસ વિભંગજ્ઞાન દ્વારા જઘન્ય સે-અહુલ કે અસંખ્યાતવેં ભાગ કો ઓર ઉત્કૃષ્ટ સે અસંખ્યાત હજાર યોજન કો જાનતા હૈ ઓર દેખતા હૈ । ઉસ ઉત્પન્ન હુણે વિભંગજ્ઞાન દ્વારા વહ જીવોં કો ભી જાનતા હૈ, અજીવોં કો ભી જાનતા હૈ, આરંભવાલે પરિગ્રહવાલે ંવં સંકલેગ સે યુક્ત હુણે પાશ્વણ્ડી જીવોં કો ભી જાનતા હૈ ઓર વિશુદ્ધ જીવોં કો ભી જાનતા હૈ । વહ વિભંગજ્ઞાની પહિલે સે હી સમ્ય-

(સે ણં તે ણ વિભંગનાણેણં સમુત્પન્નેણ જહણેણં અંગુલસ્સ અસંખેજ્જહ ભાગં, ઉક્કોસેણં અસંખેજ્જાહં જોયણસહસ્સાહ જાણહ પાસહ, જીવે વિ જાણહ અજીવે વિ જાણહ, પાસંહત્થે, સારંભે, સપરિગ્ગહે, સંકિલિસ્સમાણે વિ જાણહ વિસુજ્જમાણે વિ જાણહ, સે ણ પુઠ્ઠવામેવ સમ્મત્તં પઢિવજ્જહ, સમ્મત્તં પઢિવજ્જિત્તા સમણધમ્મં રોણહ, સમણધમ્મં રોણ્તા ચરિત્તં પઢિવજ્જહ, ચરિત્તં પઢિવજ્જિત્તા લિંગં પઢિવજ્જહ, તસ્સ ણં તેહિં મિચ્છાત્તપજ્જવેહિં પરિહાયમાણેહિં પરિહાયમાણેહિં સમ્મહં- સણપજ્જવેહિં પરિવહુમાણેહિં ૨ સે વિભંગે અન્નાણે સમ્મત્તપરિગ્ગહિણે સ્વિપ્પામેવ ઓહી પરાવત્તહ) ઉત્પન્ન થયેલા તે વિભંગજ્ઞાન દ્વારા તે ઓછામાં ઓછા અસંખ્યાતમાં ભાગપ્રમાણ અને વધારેમાં વધારે અસંખ્યાત હજાર યોજન પ્રમાણ ક્ષેત્રને બહુી શકે છે અને દેખી શકે છે. તે વિભંગજ્ઞાન દ્વારા તે જીવોને પણ બહુ છે અને અજીવોને પણ બહુ છે. તે આરંભવાળા, પરિ- ગ્રહવાળા, સંકલેશવાળા અને પાખંડી જીવોને પણ બહુ છે અને વિશુદ્ધ જીવોને પણ બહુ છે. તે વિભંગજ્ઞાની પ્રલેક્ષી જ સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્રતિપદ્યતે, સમ્યક્ત્વં પ્રતિપદ્ય શ્રમણધર્મં રોચયતિ, શ્રમણધર્મં રોચયિત્વા ચારિત્રં પ્રતિપદ્યતે, ચારિત્ર પ્રતિપદ્ય લિઙ્ગ પ્રતિપદ્યતે । તસ્ય સ્વલ્લ તૈ મિધ્યાત્વપર્યાયૈઃ પરિહીયમાણૈ પરિહીયમાણૈ સમ્યગ્દર્શનપર્યાયૈઃ પરિષર્દ્દમાણૈ પરિવર્ધમાણૈઃ તદ્ધિમદ્ધે અજ્ઞાનમ્ સમ્યક્ત્વપરિપુરિતં ક્ષિપ્રમેવ અથધિ પરાવર્તયતે ॥ સૂ૦ ૨ ॥

ટીકા—‘તસ્થ ણં મંતે ! છટ્ટ-છટ્ટેણં અનિક્ષિત્વણેણં તત્તોકમ્મેણં ઉઠ્ઠુ વાહામ્મો પગિજ્ઞિય પગિજ્ઞિય સુરામિમુહસ્સ આપાણમ્મૂમિપ આપાણેમાણસ્સ, ગૌતમઃ પૂચ્છતિ-હે મદન્ત ! તસ્ય સ્વલ્લ અધુતપર્માદિકસ્ય જીવસ્ય પ્પટ્ટ-પ્પટ્ટેન અનિક્ષિ

ત્વ કો પ્રાપ્ત કરતા હૈ, સમ્યક્ત્વ કો પ્રાપ્ત કરકે ઘહ શ્રમણધર્મ કપર રુચિ કરતા હૈ, રુચિ કરકે ઘહ ચારિત્ર કો સ્વીકાર કરતા હૈ, ચારિત્ર કો સ્વીકાર કરકે ઘહ લિઙ્ગરૂપ ઘેપ કો સ્વીકાર કરતા હૈ । પાદ મેં ઉમ યિમ્મ જ્ઞાની કે મિધ્યાત્વપર્યાયે ક્ષોણ હોતે હોતે ઓર સમ્યગ્દર્શન પર્યાયે પદતે પદતે ઘહ યિમ્મ અજ્ઞાન સમ્યક્ત્વ યુક્ત હો જાતા હૈ ઓર શીઘ્ર હી ઘહ અવધિરૂપ મેં પરિચર્નિત હો જાતા હૈ ।

ટીકાર્થ—જિસ પ્રકાર સે કોઈ જીવ કેવલી આદિ સે સુને ઘિના હી કે શલ્લજ્ઞાન ઉત્પન્ન કર લેના હૈ ડસી પ્રકાર સે સૂત્રકાર દિશ્વાતે હૈ (તસ્થ ણં મંતે ! છટ્ટ છટ્ટેણ અનિક્ષિત્વણેણ તત્તોકમ્મેણ ઉઠ્ઠુ વાહામ્મો પગિ જ્ઞિય પગિજ્ઞિય સુરામિમુહસ્સ આપાણમ્મૂમિપ આપાણેમાણસ્સ) હૈ મદન્ત । જિસ જીવ ને કેવલી આદિ કે સમીપ ધર્માદિક કા અવગણ નહીં ક્રિયા હૈ, તથા નિરતર આચરિસ છટ્ટ છટ્ટ કી તપસ્યા સે જો યુક્ત વના

સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે અવળ ધમ ઉપર રુચિ કરવા માટે છે, અને રુચિ કરીને તે ચારિત્રને સ્વીકાર કરે છે ચારિત્રને સ્વીકાર કરીને તે લિંગ રૂપ ઘેવને સ્વીકાર કરે છે ત્યારબાદ તે વિભજ્ઞાનીની મિધ્યાત્વ પર્યાયે ક્ષોણ થતા થતા અને સમ્યગ્દર્શનપર્યાયેની વૃદ્ધિ કરતાં છતાં તે વિભજ્ઞ જ્ઞાન સમ્યક્ત્વ યુક્ત ધર્મ બધ છે અને તુરંત જ તે અવધિજ્ઞાનરૂપે પરિવર્તિત ધર્મ બધ છે

ટીકાર્થ—કેવલી આદિની પાસે કેવલિમ્મદ્ધ ધર્મને અવળ કર્યા ઘિના કોઈ છવને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, એવું આગળ કહેવામાં આનું છે હવે એવું કેવી રીતે અને છે તે સૂત્રકાર અહીં પ્રકટ કરે છે—

(જમ્મગ મતે ! છટ્ટ છટ્ટેણ અનિક્ષિત્વણેણ તત્તોકમ્મેણ વહ્હ વાહામ્મો પગિજ્ઞિય પગિજ્ઞિય સુરામિમુહસ્સ આપાણમ્મૂમિપ આપાણેમાણસ્સ) ઠે મદન્ત ! ને છવે કેવલી આદિની સમીપે ધર્માદિકને અવળ કર્યા નથી, તથા નિરતર છવને

प्तेन निरन्तराचरितेन तपः-कर्मणा ऊर्ध्वंवाहू प्रगृह्य प्रगृह्य धृत्वा धृत्वा मूराभिमुखस्य
 सूर्यसम्मुखस्थस्य आतापनाभूमौ आतापयतः आतापनां कुर्वतः 'पगइभदयाए
 पगइउवसंतयाए' प्रकृतिभद्रतया प्रकृत्या स्वभावेन भद्रः शोभनः श्रेष्ठस्तस्य-
 भावस्तया स्वभावश्रेष्ठतया, प्रकृत्युपशान्ततया प्रकृत्या स्वभावेन उपशान्तः उप-
 शमवान् तस्य भावस्तया शान्तस्वभावतया इत्यर्थः 'पगइपयणुकोहमाणमाया-
 लोभयाए' प्रकृतिप्रतनुक्रोधमानमायालोभतया-प्रकृत्या स्वभावेन प्रतनवः क्रुशाः
 क्रोधमानमायालोभा यस्य तस्य भावस्तया 'मिउमद्वसंपन्नयाए' मृदुमार्दवसम्प-
 न्ततया-अत्यन्तकोमलस्वभावतया 'अल्लीणयाए, भदयाए, विणीययाए' आलीन-
 तया आलीन आश्रितः गुरोरनुशासनाभावेऽपि सुभद्रक एव, तस्य भावस्तया,
 भद्रतया, विनीततया, 'अन्नया कयाहं सुभेणं अज्झवसाणेणं, सुभेणं परिणामेणं'
 शुभेन अध्यवसानेन अध्यवसायेनेत्यर्थः शुभेन परिणामेन 'लेस्साहिं विसुज्झ-
 माणीहिं विसुज्झमाणीहिं' लेश्याभिः विशुद्धयमानाभिः विशुद्धयमानाभिः चारं
 चारं निरन्तरं विशुद्धिप्राप्नुवतीमिरित्यर्थः, 'तयावरणिज्जाणं कम्ममाणं खओवसमेणं'

हुआ है, एवं आतापना भूमि में उर्ध्वंवाहू करके जो सूर्य की ओर मुख
 करके आतापना लेना है. (पगइ भदयाए, पगइ उवसंतयाए) जो स्व-
 भाव से सरल है, स्वभाव से उपशमवाला है, स्वभाव से जिसकी
 क्रोध, मान, माया और लोभ कषायें कृश-अल्प हो गई हैं (अल्लीण-
 याए, भदयाए, विणीययाए) गुरु के अनुशासन के अभाव में भी जो
 भद्रक परिणामी होता है, विनय गुण जिसमें अच्छी तरह से भरा हुआ
 है, ऐसे उस बालतपस्वी जीव को (सुभेणं अज्झवसाणेणं) कि जो शुभ
 अध्यवसाय (सुभेणं परिणामेणं) एवं शुभ परिणाम द्वारा (लेस्साहिं
 विसुज्झमाणीहिं २) धीरे २ विशुद्ध बनती जाती अपनी लेश्याओं से

पारश्वे छट्टनी तपस्याथी युक्त छे, तथा तउकावाणी लूमिमां उर्ध्वं जाहु करीने
 अने सूर्यनी तरक्ष सुभ राणीने ने आतापना लेतो होय छे, (पगइ भदयाए,
 पगइ उवसंतयाए) ने स्वभावे सरल छे, ने उपशान्त छे, स्वाभाविक रीते
 नेना क्रोध, मान, माया अने दोलरूप कषायो पातणा पडी गयेला छे,
 (अल्लीणयाए, भदयाए, विणीययाए) गुरुना अनुशासनने अभाव होवा छतां
 पणु ने लद्रक परिणामी होय छे, नेनामां विनयगुणु भहु न वधारे प्रमाणुमां
 रहेला होय छे, (सुभेण अज्झवसाणेणं, सुभेणं परिणामेणं) शुभ अध्यवसाय
 अने शुभ परिणाम द्वारा (लेस्साहिं विसुज्झमाणीहिं २) धीरे धीरे विशुद्ध
 बनती जाती जाताथी लेश्याओथी ने युक्त थयेला छे, (तयावरणिज्जाणं

सदावरणीयानां विमङ्गलानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशममेव ' ईहापोहमगणगवे
 सर्ण करेस्समाणस्स विमंगे नाम अज्ञाणे समुप्पज्जइ ' ईहापोहमार्गगवेपणम् तत्र
 ईहा सदर्यामिहत्वा ज्ञानचेष्टा, अपोहस्तु विपत्तिनिरासः, मार्गणं च अन्वयधर्मा
 लोचन, गवेपणं तु व्यतिरेकरूपमौलोचनम्, कुर्वतः विमङ्गो नाम अज्ञान समुत्प
 पते । ' से णं सेणं विमंगनाणेण समुप्पन्नेण ' स खलु बाह्यपत्ती तेन पूर्वो
 क्त्वेन समुत्पन्नेन विमङ्गज्ञानेन करणभूतेन ' अहण्णेणं अंगुलस्स असखेज्जइमागं
 उक्कोसेणं अस खेज्जाई जोयणसइस्साई जाणइ पासइ ' जघ-येन अङ्गुलस्य असं
 ख्येयमागम्, उत्कर्षेण तु असख्येयानि योजनसइस्साणि जानाति पदपति । ' से णं
 सेणं विमंगनाणेण समुप्पन्नेण जीवेवि जागइ, अजीवेवि जाणइ ' स खलु तेन

युक्त पना सुभा है (सदावरणिज्ञाण कम्माण खओवसमेण) विमंग
 ज्ञानावरणीय कर्मों के क्षयोपशम से (अज्ञयाकयाई) कदाचित् (ईहा
 पोहमगणगवेपण करेमाणस्स) ईहा, अपोह, मार्गणा और गवेपणा
 करते समग्र (विमंगे नाम अज्ञाणे समुप्पज्जइ) विमंग नाम का अज्ञान
 उत्पन्न हो जाता है । सदर्थ की तरफ झुकती हुई जो ज्ञान की चेष्टा है
 उसका नाम ईहा, विपक्ष के धर्मों का निरास करने का नाम अपोह,
 अन्वयवत्प से वर्तमान धर्म की आलोचना करने का नाम मार्गण एव
 व्यतिरेक धर्मों की आलोचना करना इसका नाम गवेपण है । (से ण
 तेण विमंगनाणेण समुप्पन्नेण) उत्पन्न उस विमंगज्ञान से यह पाल
 तपस्वी (जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइभागं उक्कोसेणं असखेज्जाई
 जोयणसइस्साइ जाणइ पासइ) कम से कम अंगुल के असख्यातवै भाग
 प्रमाण क्षेत्र को और अधिक से अधिक असख्यात हजार योजनप्रमाण
 क्षेत्र को जानता है और देखता है । (से ण ते ण विमंगनाणेण

कम्माण खओवसमेण) ज्ञेया आहतपस्वी एवने विमंग ज्ञानावरणीय धर्मोना
 क्षयोपशम यथाधी (अज्ञया कयाइ) कथारिठ (ईहापोहमगणगवेपण करे
 माणस्स) एहा अपोह मार्गणा एवने जवेपणा करता करता (विमंगनाम
 अज्ञाणे समुप्पज्जइ) विमंग नामनुं अज्ञान उत्पन्न यथं अय छे सदर्थ-नी तरह
 कुर्वती जे ज्ञान-नी चेष्टा छे तेने एहा ' कडे छे विपक्षना धर्मोना निरास
 (ईहापोह द्वारा तेमनी मान्यताज्जने ज्येटी साधित करणी तेनुं नाम अपोह
 छे) करवे तेनुं नाम " अपोह " छे अन्वयधर्मे वर्तमान धर्म-नी आलोचना
 करणी तेनुं नाम मार्गण छे एवने व्यतिरेक (विरोधी) धर्मोनी आलोचना
 करणी तेनुं नाम जवेपणा छे

विभङ्गज्ञानेन समुत्पन्नेन जीवानपि जानाति अजीवानपि जानाति कथञ्चित्, न तु साक्षादेव, विभङ्गज्ञानस्य मूर्तमात्रगोचरत्वात् 'पासंडत्ये सारंभे सपरिग्रहे संकिलिस्समाणेवि जाणइ, विसुज्झमाणेवि जाणइ' पाखण्डस्थान् मिथ्यादम्भव्रतस्थान् सारम्भान् आरम्भयुक्तान् अत एव सपरिग्रहान् परिग्रहवतः संक्लिश्यमानानपि संक्लिष्टपरिणामयुक्तानपि तादृशपाखण्डस्थान्, जानाति, विशुध्यमानानपि विशुद्धपरिणामयुक्तानपि जानाति, आरम्भादिमतामेवं स्वरूपत्वात्। से णं पुव्वामेव सम्मत्तं पडिवज्जइ' स खलु असौ विभङ्गज्ञानी बालतपस्वी जीवाजीवस्वरूपपाखण्डस्थसंक्लिश्यमानतादिज्ञाता सन् पूर्वमेव चारित्रप्रतिपत्तेः प्रागेवेत्यर्थः, सम्यक्त्वं प्रतिपद्यते

समुत्पन्नेणं जीवे वि जाणइ, अजीवे वि जाणइ) उत्पन्न हुए उस विभंगज्ञान से वह कथंचित् रूप से जीवों को भी जानता है, अजीवों को भी जानता है। साक्षातरूप से वह उन्हें नहीं जानता है। क्यों कि विभंगज्ञान मूर्तपदार्थ को ही जानता है—अमूर्त पदार्थों को नहीं। (पासंडत्ये सारंभे सपरिग्रहे संकिलिस्समाणे वि जाणइ, विसुज्झमाणे वि जाणइ) आरंभ में वर्तमान परिग्रह से सहित और संक्लेशपरिणाम वाले पाखण्डी जीवों को जानता है। तथा—विशुद्धपरिणाम युक्त जीवों को भी जानता है। (से णं पुव्वामेव सम्मत्तं पडिवज्जइ) वह विभंगज्ञानी बालतपस्वी जीव-जीव के अजीव के स्वरूप को, आरम्भ परिग्रह और संक्लिष्टपरिणाम से युक्त पाखण्डी जीव को और विशुद्ध

(से ण तेण विभगनाणेणं समुत्पन्नेणं) उत्पन्न थयेदा विभंग ज्ञान वडे ते भाद तपस्वी (जहण्णेणं अंगुलस्स असखेज्जइभागं उक्कोसेणं असखेज्जाइं जोयणसयसहस्साइं जाणइ, पासइ) ओछाभां ओछा अंशुदना असंज्यातमां भागप्रभाणु क्षेत्रने अने वधारेमां वधारे असंज्यात येअन प्रभाणु क्षेत्रने लणु छे अने देणे छे. (से णं तेणं विभंगनाणेणं समुत्पन्नेणं जीवे वि जाणइ, अजीवे वि जाणइ) उत्पन्न थयेदा विभंगज्ञान वडे ते कंठिके अंशे लुवोने पणु लणु छे अने अलुवोने पणु लणु छे. ते तेमने साक्षात् इये लणुतो नथी, कारणु के विभंगज्ञानी मूर्त पदार्थोने न लणु शके छे—अमूर्त पदार्थोने लणु शकते नथी.

(पासंडत्ये, सारंभे, सपरिग्रहे संकिलिस्समाणे वि जाणइ, विसुज्झमाणे वि जाणइ) ते पाण्डीने, आरंभवाणाने, परिग्रहवाणाने अने संक्लेशयुक्त परिष्णामवाणाने पणु लणु छे अने विशुद्ध परिष्णामयुक्त लुवोने पणु लणु छे (से ण पुव्वामेव सम्मत्तं पडिवज्जइ) ते विभंगज्ञानी बालतपस्वी-लुव अने अलुवना स्वइपने आरंभ, परिग्रह अने संक्लिष्ट परिष्णामवाणा

तदावरणीयानां विभङ्गज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमेन ' ईहापोहमगगणवे
 सणं करेस्तमाणस्त विमगे नाम भ्रमाणे समुत्पञ्जइ ' ईहापोहमार्गणगवेपणम् तत्र
 ईहा सदर्यामिमुखा धानवेष्टा, अपोहस्तु विपन्निरासः, मार्गणं च अन्वपत्रमां
 लोचनं, गवेपणं तु व्यतिरेकधर्माच्छोचनम्, कुर्वत विमङ्गो नाम अज्ञान समुत्प
 षते । ' से णं तेणं विमगनाणेणं समुत्पन्नेण ' स खलु बाल्यवप्ती तेन पूर्वो
 षतेन समुत्पन्नेन विमङ्गज्ञानेन करणभूतेन ' जहणणेणं अगुलस्त असखेज्जइमार्गं
 उन्नोसेणं अस खेज्जाइं जोयणसहस्ताइं जाणइ पासइ ' नद्येन अङ्गुलस्य असं
 ख्येपमागम्, उतरुणं तु असख्ययानि योजनसहस्राणि जानाति पदपति । ' से ण
 तेयं विमगनाणेण समुत्पन्नेण जीवेविं जाणइ, अजीवेविं जाणइ ' स खलु तेन

युक्त पना ह्युभा द्वे (तयावरणिज्जाण कम्माण खओवसमेण) विभंग
 ज्ञानावरणीय कर्मों के क्षयोपशम से (अज्ञयाकयाइं) कदाचित् (ईहा
 पोहमगगणगवेपण करेमागस्त) ईहा, अपोह, मार्गणा और गवेपणा
 करते समय (विमगे नाम भ्रमाणे समुत्पञ्जइ) विमग नाम का भ्रमान
 उत्पन्न हो जाता है । सर्वधर्मों की तरफ झुकती हुई जो ज्ञान की चेष्टा है
 उमका नाम ईहा, विपक्ष के धर्मों का निरास करने का नाम अपोह,
 अन्वपत्र से वर्तमान धर्म की आलोचना करने का नाम मार्गण एवं
 व्यतिरेक धर्मों की आलोचना करना इसका नाम गवेपण है । (से ण
 तेण विमगनाणेण समुत्पन्नेण) उत्पन्न उम विभंगज्ञान से यह बाल
 तपस्वी (जहणणेण अगुलस्त असखेज्जइमार्गं उन्नोसेण असखेज्जाइं
 जोयणसहस्ताइं जाणइ पासइ) कम से कम अंगुल के असख्यामयें भाग
 प्रमाण क्षेत्र को और अधिक से अधिक असख्याम हजार योजनप्रमाण
 क्षेत्र को जानता है और दृग्गता है । (से ण ते ण विमगनाणेण

कम्माण खओवसमेण) ज्ञेया आहतवप्ती एवने विभंग ज्ञानावरणीय कर्मोनि
 क्षयोपशम धर्माधी (धर्मया कयाइ) कयाइक (ईहापोहमगगणगवेपण करे
 मागस्त) एदा अपोह, मार्गणा एने अवेण्णा करता करता (विमगनाम
 भ्रमाणे समुत्पञ्जइ) विमग नामभुं अज्ञान उत्पत्त यथैव ए अद्यनी तरइ
 भुनी ने ताननी चेष्टा ए तेने ' एदा ' कडे ए विपाना धर्मोनि निरास
 (रतीया दाया तेमनी भान्यताओने ओथी साजिन करवी तेनुं नाम अपोह
 ए) करीये तेनुं नाम " अरोह " ए अ यथैव वतान धमनी आतोयना
 करवी तेनुं नाम भान्ण ए एने व्यतिरेक (विरोधी) धर्मोनि आतोयना
 करवी तेनुं नाम अवेण्णा ए

विभङ्गज्ञानेन समुत्पन्नेन जीवानपि जानाति अजीवानपि जानाति कथञ्चित्, न तु साक्षादेव, विभङ्गज्ञानस्य मूर्तमात्रगोचरत्वात् 'पासंडत्ये सारंभे सपरिग्रहे संकिलिस्समाणेवि जाणइ, विसुज्झमाणेवि जाणइ' पाखण्डस्थान् मिथ्यादम्भव्रतस्थान् सारम्भान् आरम्भयुक्तान् अत एव सपरिग्रहान् परिग्रहवतः संक्लिश्यमानानपि संक्लिष्टपरिणामयुक्तानपि तादृशपाखण्डस्थान्, जानाति, विशुध्यमानानपि विशुद्धपरिणामयुक्तानपि जानाति, आरम्भादिमतामेवं स्वरूपत्वात् । से णं पुव्वामेव सम्मत्तं पडिवज्जइ' स खलु असौ विभङ्गज्ञानी बालतपस्वी जीवाजीवस्वरूपपाखण्डस्थसंक्लिश्यमानतादिज्ञाता सन् पूर्वमेव चारित्रप्रतिपत्तेः प्रागेवेत्यर्थः, सम्यक्त्वं प्रतिपद्यते

समुत्पन्नेणं जीवे वि जाणइ, अजीवे वि जाणइ) उत्पन्न ह्यए उस विभंगज्ञान से वह कथञ्चित् रूप से जीवों को भी जानता है, अजीवों को भी जानता है । साक्षातरूप से वह उन्हें नहीं जानता है । क्यों कि विभंगज्ञान मूर्तपदार्थ को ही जानता है—अमूर्त पदार्थों को नहीं । (पासंडत्ये सारंभे सपरिग्रहे संकिलिस्समाणे वि जाणइ, विसुज्झमाणे वि जाणइ) आरंभ में वर्तमान परिग्रह से सहित और संक्लेशपरिणाम वाले पाखण्डी जीवों को जानता है । तथा—विशुद्धपरिणाम युक्त जीवों को भी जानता है । (से णं पुव्वामेव सम्मत्तं पडिवज्जइ) वह विभंगज्ञानी बालतपस्वी जीव—जीव के अजीव के स्वरूप को, आरम्भ परिग्रह और संक्लिष्टपरिणाम से युक्त पाखण्डी जीव को और विशुद्ध

(से ण तेण विभंगनाणेणं समुत्पन्नेणं) उत्पन्न थयेदा विभंग ज्ञान वडे ते भाव तपस्वी (जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं उक्कोसेणं असंखेज्जाइं जोयणसयसहस्साइं जाणइ, पासइ) ओछाभां ओछा अंशुलना असंख्यातमां भागप्रमाणु क्षेत्रने अने वधारेमां वधारे असंख्यात येअन प्रमाणु क्षेत्रने लोखे छे अने द्देजे छे (से ण तेणं विभंगनाणेणं समुत्पन्नेणं जीवे वि जाणइ, अजीवे वि जाणइ) उत्पन्न थयेदा विभंगज्ञान वडे ते कंधंकि अंशे लोवोने पणु लोखे छे अने अलोवोने पणु लोखे छे. ते तेमने साक्षात् इये लोखुतो नथी, कारणु के विभंगज्ञानी मूर्त पदार्थोने न लोखी शके छे—अमूर्त पदार्थोने लोखी शकतो नथी.

(पासंडत्ये, सारंभे, सपरिग्रहे संकिलिस्समाणे वि जाणइ, विसुज्झमाणे वि जाणइ) ते पाण्डीने, आरम्भवाणाने, परिग्रहवाणाने अने संक्लेशयुक्त परिष्ठाभवाणाने पणु लोखे छे अने विशुद्ध परिष्ठाभयुक्त लोवोने पणु लोखे छे (से ण पुव्वामेव सम्मत्तं पडिवज्जइ) ते विभंगज्ञानी बालतपस्वी—लोव अने अलोवना स्वइपने आरंभ, परिग्रह अने संक्लिष्ट परिष्ठाभवाणाने

स्वीकरोति 'समत्त पडिवज्जिस्ता समणधम्म रोएइ' सम्यक्त्व प्रतिपद्य भ्रमण धर्म रोचयति-अद्दचे अमिप्रीतिविषयं करोति 'समणधम्म रोएत्ता चरिच पडि कज्जइ' भ्रमणधर्मसु साधुधर्मसु रोचयित्वा चारित्र्य प्रतिपद्यते 'चरिचं पडिवज्जिस्ता लिंण पडिवज्जइ' चारित्र्य प्रतिपद्य स्वीकृत्य लिङ्ग सदोरकमुम्बवस्त्रिकावद्द मुखादिरूपं मुनिषेपं प्रतिपद्यते-स्वीकरोति 'तस्स ण तेहिं मिच्छत्तपज्जवेहिं परिहायमाणेहिं परिहायमाणेहिं, सम्मदंसणपज्जवेहिं परिवहुमाणेहिं परिवहुमाणेहिं' तस्य स्वच्छ विमङ्गलानिनो घालत्तपस्विनः तै मिध्यात्वपर्यायै परिहीयमाणे परिहीयमाणे पौन पुन्येन निरन्तरं परिमुत्थयमानै, सम्यक्त्वदर्शनपर्यायै परिवर्द्धमानैः परिषर्द्धमानैः 'से विमंगे अज्ञाणे सम्मत्तपरिग्गहिण् खिप्पामेव ओही परावत्तइ' स विमङ्गो

परिणाम युक्त जीव को जानता हुआ चारित्र्यप्रतिपत्ति के पहिछे सम्यक्त्व को स्वीकार करता है (समत्त पडिवज्जिस्ता, समणधम्म रोएइ) सम्यक्त्व को स्वीकार करके भ्रमण धर्म के ऊपर वह अद्दा रसता है-अपनी अमिप्रीति का उसे विषय बनता है। (समणधम्म रोएत्ता चरिच पडिवज्जइ) उसे अपनी अमिप्रीति का विषय बनाकर चारित्र्य को वह स्वीकार कर लेता है। (चरिच पडिवज्जिस्ता) चारित्र्य को स्वीकार करके (लिंण पडिवज्जइ) सदोरक मुम्बवस्त्रिका यद्द मुखादिरूपवाले मुनिषेप को धारण करता है। (तस्स ण तेहिं मिच्छत्तपज्जवेहिं परिहायमाणेहिं २ सम्मदंसणपज्जवेहिं परिवहुमाणेहिं २) यहाँ उसकी निरन्तर मिध्यात्वपर्यायों से रहित बनी हुई पहिछे हुए सम्यक्त्वपर्यायों से उस घालत्तपस्वी विमङ्गलानि का (से विमंगे अज्ञाणे सम्मत्तपरिग्गहिण् खिप्पामेव

भाष्यी एवंने एवंनेते यत्ते चारित्र्य प्राप्तिना पूर्वं सम्यक्त्वने स्वीकार करे छे (समत्त पडिवज्जिस्ता समणधम्म रोएइ) सम्यक्त्वने स्वीकार करीने ते भ्रमण धर्म' ऊपर अद्दा राजे छे-ज्येठे छे तेना प्रत्ये वधाइने वधाइ अलि रुज्जिवाये यतो एवं छे (समणधम्म' रोएत्ता चरिच पडिवज्जइ) आ रीते भ्रमण धर्म' प्रत्ये अलि रुज्जिवाये अनीने ते चारित्र्यने अगीकार करे छे (चरिच' पडिवज्जिस्ता) चारित्र्यने अगीकार करीने (लिंण पडिवज्जइ) सदोरक मुम्बवस्त्रिकायुत्त मुनिषेपने धारण करे छे (तस्स ण तेहिं मिच्छत्तपज्जवेहिं परिहायमाणेहिं २ सम्मदंसणपज्जवेहिं परिवहुमाणेहिं २) त्थरे तेनी मिध्यात्व पर्यायो निरन्तर लीणु यतां यतां तेनी सम्यक्त्व पर्यायो वृद्धि पाववा भाठे छे आ भ्रमणस्य सम्यक्त्व पर्यायोनी वृद्धि यती वडेवाधी ते आलत्तपस्वी विमङ्गल शानीनुं (से विमंग अज्ञाणे सम्मत्तपरिग्गहिण् खिप्पामेव ओहीपरावत्तइ) ते

नाम अज्ञानं सम्यक्त्वपरिगृहीतः क्षिप्रमेव अवधिः अवधिज्ञानं परावर्तते अवधि-
ज्ञानतया परिणमति । अत्र यद्यपि चारित्रप्रतिपत्तिमादौ अभिधाय सम्यक्त्वपरि-
गृहीतं विभङ्गज्ञानमवधिज्ञानं भवतीति पश्चादुक्तं तथापि चारित्रप्रतिपत्तेः पूर्वमेव
सम्यक्त्वप्रतिपत्तिकाले एव विभङ्गज्ञानम् अवधिज्ञानतया परिणमतीति द्रष्टव्यम्
सम्यक्त्वचारित्राभावे विभङ्गज्ञानस्याभावादिति ॥ सू० २ ॥

पूर्वोक्तावधिज्ञानिनो लेश्यादिवक्तव्यता ।

अथोक्तविभङ्गज्ञानिनमेवावधिज्ञानितया परिणतं लेश्यादिभिः प्ररूपयित्तुमाह—
—‘ सेणं भंते । ’ इत्यादि ।

मूलम्—से णं भंते ! कइलेस्सासु होज्जा ? गोयमा ! तिसु विसुद्ध
लेस्सासु होज्जा, ते जहा—तेउलेस्साए, पम्हलेसाए सुक्कलेस्साए।
से णं भंते ! कइसु णाणेसु होज्जा ? गोयमा ! तिसु आभिणि-
वोहियणाण-सुयणाण-ओहिनाणेसु होज्जा ? । से णं भंते ! किं
सजोगी होज्जा, अजोगी होज्जा ? गोयमा ! सजोगी होज्जा,

ओही परावत्ताह) वह विभङ्गज्ञान सम्यक्त्व से परिगृहीत होकर जल्दी
ही अवधिज्ञान के रूप में बदल जाता है । यद्यपि “ यहाँ पर चारित्र
प्रतिपत्ति को आदि में कहकर सम्यक्त्व परिगृहीत होकर विभंगज्ञान
अवधिज्ञानरूप में बदल जाता है ” ऐसा पीछे कहा है तो भी यहाँ पर
ऐसा ही समझना चाहिये कि चारित्रप्रतिपत्ति से पहिले ही जीव जब
सम्यक्त्व प्रतिपत्ति कर लेता है उस काल में ही विभंगज्ञान अवधिज्ञान
रूप से परिणमित हो जाता है । क्यों कि सम्यक्त्व चारित्र के सङ्काव
में विभंगज्ञान का अभाव हो जाता है ॥ सू० २ ॥

विभंगज्ञान सम्यक्त्वयुक्त थधने तुरतञ्च अवधिज्ञान इपे परिष्णमित थध नय
छे. ने के “ अडीं चारित्र-प्रतिपत्तिने शइआतमां कडीने सम्यक्त्व परिगृहीत
थधने विभंगज्ञान अवधिज्ञान इपे परिवर्तित थध नय छे. ” अबुं पाछणथी
कडेवामां आण्यु छे, तो पण्यु अडीं अबुं समञ्जुं नोधये के चारित्रप्राप्तिना
पडेलां न एव न्यारे सम्यक्त्वनी प्राप्ति करी छे, ते काने न विभंगज्ञान
अवधिज्ञानइपे परिष्णमित थध नय छे, कअरथु के सम्यक्त्व चारित्रने सइभाव
डोय लारे विभंगज्ञानने अलाप थध नय छे. ॥स०२॥

नो अजोगी होज्जा । जइ सजोगी होज्जा किं मणजोगी होज्जा,
 षड्जोगी होज्जा, कायजोगी होज्जा ? गोयमा ! मणजोगी वा
 होज्जा, षड्जोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा । से णं
 भते ! किं सागारोवउत्ते होज्जा, अणागारोवउत्ते होज्जा ? गोयमा !
 सागारोवउत्ते वा होज्जा, अणागारोवउत्ते वा होज्जा । से ण भते !
 कयरंमि सघयणे होज्जा ? गोयमा ! षड्ढरोसभनारायसघयणे होज्जा ।
 से णं भते ! कयरमि सठाणे होज्जा ? गोयमा ! छण्ह सठाणाण
 अन्नयरे सठाणे होज्जा । से णं भते ! कयरमि उच्चत्ते होज्जा ?
 गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरयणीए, उक्कोसेणं पचघणुसइए होज्जा ।
 से ण भते ! कयरमि आउए होज्जा ? गोयमा ! जहण्णे, ण साइ
 रेगट्ठवासाउए, उक्कोसेण पुव्वकोट्टिआउए होज्जा । से णं भते !
 किं सवेदए होज्जा ? अवेदए होज्जा ? गोयमा ! सवेदए
 होज्जा, णो अवेदए होज्जा ? जइ सत्रेयए होज्जा किं
 इरथीवेयए होज्जा, पुरिसवेयए होज्जा, नपुसगवेयए होज्जा ?
 पुरिसनपुसगवेयए होज्जा ? गोयमा ! नो इरथीवेयए होज्जा,
 पुरिसवेयए वा होज्जा, नो नपुसगवेयए होज्जा, पुरिसनपु
 सगवेयए वा होज्जा । से ण भते ! किं सकसाई होज्जा,
 अकसाई होज्जा ? गोयमा ! सकसाई होज्जा, नो अकसाई
 होज्जा । जइ सकसाई होज्जा कइसु कसाएसु होज्जा ?
 गोयमा ! चउसु सजलणकोहमाणमायालोभेसु होज्जा ।
 तस्स णं भते ! फेयइया अज्जवसाणा पद्धत्ता ? गोयमा !

सत्था ? गोयमा ! पसत्था नो अप्पसत्था । से णं गोयमा !
 तेहिं पसत्थेहिं अज्झवसाणेहिं वड्डमाणेहिं अणंतेहिंतो नेरइय-
 भवग्गहणेहिंतो अप्पाणं विसंजोएइ, अणंतेहिंतो तिरिक्खजो-
 णियभवग्गहणेहिंतो अप्पाणं विसंजोएइ, अणंतेहिंतो मणुस्स-
 भवग्गहणेहिंतो अप्पाणं विसंजोएइ, अणंतेहिंतो देवभवग्गह-
 णेहिंतो अप्पाणं विसंजोएइ, जाओवि य से इमाओ नेरइयतिरि-
 क्खजोणियमणुस्सदेवगइनामाओ चत्तारि उत्तरपयडीओ, तासिं
 च णं उवग्गहिण्ण अणंताणुबंधी कोहमाणमायालोभे खवेइ, अणं-
 ताणुबंधी कोहमाणमायालोभे खवित्ता अपच्चक्खाणकसाए को-
 हमाणमायालोभे खवेइ, अपच्चक्खाणकसाए कोहमाणमाया-
 लोभे खवित्ता पच्चक्खाणावरणकोहमाणमायालोभे खवेइ,
 पच्चक्खाणावरणकोहमाणमायालोभे खवित्ता संजलणकोहमाण-
 मायालोभे खवेइ संजलण कोहमाणमायालोभे खवित्ता पंचविहं
 नाणावरणिज्जं, नवविहं दरिसणावरणिज्जं, पंचविहं अंतराइयं,
 तालमत्थाकडं च णं मोहणिज्जं कट्टु कम्मरयविकिरणकरं अपु-
 व्वकरणं अणुपविट्ठस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे
 कसिणे पडिपुण्णे केवलवरणाणदंसणे समुप्पन्ने ॥ सू० ३ ॥

छाया—स खलु भदन्त ! कतिलेश्यासु भवति ? गौतम ! तिस्रु विशुद्धले-
 श्यासु भवति, तद्यथा—तेजो

कतिपु ज्ञानेषु भवति ? गौतम ! त्रिषु—आमिनिषोषिकज्ञानं श्रुतज्ञाना—अवधिज्ञानेषु भवति । स खलु भवन्ति । किं सयोगी भवति, अयोगी भवति ? गौतम सयोगी भवति, नो अयोगी भवति, यदि सयोगी भवति, किं मनोयोगी भवति, षषोयोगी

पूर्वोक्त अवधिज्ञानी की छेइयादि वस्तुव्यता

‘से ण भते ! कइछेस्सासु होज्जा’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(से णं भते ! कइछेस्सासु होज्जा) हे भवन्त ! वस अवधिज्ञानी जीव के कितनी छेइयाएँ होती हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (तिसु विसुदछेस्सासु होज्जा) वस अवधिज्ञानी जीवको तीन विसुद छेइयाएँ होती है (तंजहा) जो इस प्रकार से हैं—(तेउछेस्साए, पद्य छेस्साए, सुक्खछेस्साए) तेजोछेइया, पद्यछेइया और शुक्लछेइया—(से ण कइ माणेषु होज्जा) हे भवन्त ! वह अवधिज्ञानी जीव कितने ज्ञानों में होता है ? अर्थात् अवधिज्ञानी जीव के कितने ज्ञान होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (तिसु आमिणिषोहियनाणसुयनाणओहिनाणेषु होज्जा) अवधिज्ञानी जीव आमिनिषोषिकज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान इन तीन ज्ञानों में होता है । (से णं भते ! किं सजोगी होज्जा, अजोगी होज्जा) हे भवन्त ! वह अवधिज्ञानी जीव सजोगी होता है या अजोगी होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सजोगी होज्जा नो अजोगी होज्जा) अवधिज्ञानी जीव सजोगी होता है, अयोगी नहीं होता है । (जइ स

पूर्वोक्त अवधिज्ञाननी वैश्वानिनी वस्तुव्यता—

(से णं भते ! कइ छेस्सासु होज्जा) इत्यादि—

सूत्रार्थ—(से णं भते ! कइ छेस्सासु होज्जा ?) हे भवन्त ! अवधिज्ञानी एव केटथी वैश्वानोपायो देव्ये उ ? (गोयमा ! तिसु विसुदछेस्सासु होज्जा तंजहा) हे गौतम ! अवधिज्ञानी एव नीधे प्रभासु तेषु विसुद वैश्वानोपायो युज्ज देव्ये उ (तेउछेस्साए, पद्यछेस्साए, सुक्खछेस्साए) तेनेवैश्वानोपायो अने शुक्लवैश्वानोपायो (से णं कइ माणेषु होज्जा ?) हे भवन्त ! अवधिज्ञानी एव केटथी ज्ञानवाणे देव्ये उ ? (गोयमा ! तिसु आमिणिषोहियनाण, सुयमाण, ओहिनाणेषु होज्जा) हे गौतम ! अवधिज्ञानी एवमां नीधे प्रभासु तेषु ज्ञानेषु अइमाण देव्ये उ (१) आमिनिषोषिक ज्ञान, (२) श्रुतज्ञान अने (३) अवधिज्ञान. (से णं भते ! किं सजोगी होज्जा, अजोगी होज्जा) हे भवन्त ! ते अवधिज्ञानी एव सयोगी देव्ये उ हे अयोगी देव्ये उ ? (गोयमा ! सजोगी होज्जा, नो अजोगी होज्जा) हे गौतम ! अवधिज्ञानी एव सयोगी देव्ये उ अयोगी देव्ये उ नहीं

भवति, काययोगी भवति ? गौतम ! मनोयोगी वा भवति, वचोयोगी वा भवति, काययोगी वा भवति । स खलु भदन्त ! किं साकारोपयुक्तो भवति ? अनाकारो-
युक्तो भवति ? गौतम ! साकारोपयुक्तो वा भवति, अनाकारोपयुक्तो वा भवति ।
स खलु भदन्त ! कतरस्मिन् संहनने भवति ? गौतम ! वज्ररूपभनाराचसंहनने
भवति । स खलु भदन्त ! कतरस्मिन् संस्थाने भवति ? गौतम ! पण्णां संस्थाना-

जोगी होज्जा किं मणजोगी होज्जा, वइजोगी होज्जा, कायजोगी होज्जा)
हे भदन्त ! यदि वह अवधिज्ञानी मजोगी-योगमहित होता है तो क्या
वह मनोयोग सहित होता है ? या वचनयोगसहित होता है ? या काय-
योगसहित होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (मणजोगी वा होज्जा,
वइजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा) वह अवधिज्ञानी जीव मनो
योगवाला भी होता है, वचनयोगवाला भी होता है और काययोगवाला
भी होता है । (से णं भंते ! किं सागारोवउत्ते होज्जा आणागारोवउत्ते
होज्जा) हे भदन्त ! वह अवधिज्ञानी जीव साकार उपयोगवाला होता
है या अनाकार उपयोगवाला होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! वह
अवधिज्ञानी जीव (सागारोवउत्ते वा होज्जा, अणागारोवउत्ते वा होज्जा)
साकार उपयोगवाला भी होता है और अनाकार उपयोगवाला भी होता
है । (से णं भंते ! कयरंमि संघयणे होज्जा) हे भदन्त ! वह अवधि-
ज्ञानी किस स हनन में होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! वह अवधि-
ज्ञानी (वइरोसभनाराच संघयणे होज्जा) वज्ररूपभनाराच स हनन में

(जइ सजोगी होज्जा किं मणजोगी होज्जा, वइजोगी होज्जा, कायजोगी होज्जा ?)
हे भदन्त ! जे ते अवधिज्ञानी सयोगी (योग सद्धित) डाय छे, ते शु ते
मनयोगसद्धित डाय छे, के वचनयोग सद्धित डाय छे, के काययोगसद्धित डाय
छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (मणजोगी वा होज्जा, वइजोगी वा होज्जा, काय
जोगी वा होज्जा) ते अवधिज्ञानी एव मनोयोगवाणे पणु डाय छे, वचन
योगवाणे पणु डाय छे अने काययोगवाणे पणु डाय छे (से णं भंते ! किं
सागारोवउत्ते होज्जा अणागारोवउत्ते होज्जा ?) हे भदन्त ! ते अवधिज्ञानी
एव साकार उपयोगवाणे डाय छे के अनाकार उपयोगवाणे डाय छे ?
(गोयमा !) हे गौतम ! ते अवधिज्ञानी एव (सागारोवउत्ते वा होज्जा, अणा
गारोवउत्ते वा होज्जा) साकार उपयोगवाणे पणु डाय छे अने अनाकार उप-
योगवाणे पणु डाय छे (से णं भंते ! कयरंमि संघयणे होज्जा ?) हे भदन्त !
ते अवधिज्ञानी केवां स हननवाणे डाय छे ? (गोयमा ! वइरोसभनाराच संघयणे)

नाम् अन्यतमस्मिन् सस्याने भवति । स खलु भदन्त ! क्वमस्मिन् उच्यते भवति !
 गौतम ! जघन्येन रत्नौ, उत्कृष्टेन पञ्चधनुःश्वे भवति । स खलु भदन्त ! क्वमस्मिन्
 आयुष्के भवति ? गौतम ! जघन्येन सातिरेकवर्षायुष्के, उत्कृष्टेन पूर्वकोट्या
 युष्के भवति । स खलु भदन्त ! किं सवेदको भवति ? अवेदको भवति ? गौतम !

होता है । (से ण भते ! कयरमि स ठाणे होज्जा) हे भदन्त ! वह अ-
 विज्ञानी किस स स्थानमें होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (छण्हं स ठा
 णाण अन्नपरे सठाणे होज्जा) ६ स्थानों में से वह किसी एक स स्थान
 में होता है । (से ण भते ! कयरमि स च्यप्से होज्जा) हे भदन्त ! वह
 अविज्ञानी कितनी ऊँचाईवाला होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं
 सत्तरयणीए, उक्कोसेणं पच घणुसइए होज्जा) वह अविज्ञानी कम
 से कम सात हाथ की ऊँचाई वाला होता है और अधिक से अधिक
 पाँच सौ धनुष की ऊँचाई वाला होता है । (से णं भते ! कयरमि
 आउए होज्जा) हे भदन्त ! वह अविज्ञानी कितनी आयुवाला
 होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! वह अविज्ञानी (जहण्णेण
 साहरेगट्ठवासाउए, उक्कोसेणं पुब्बकोट्टिमाउए होज्जा) कम
 से कम कुछ अधिक आठ वर्ष की आयुवाला होता है और अधिक
 से अधिक एक कोटिपूर्व की आयुवाला होता है । (से णं भते ! किं
 सवेदए होज्जा, अवेदए होज्जा) हे भदन्त ! वह अविज्ञानी वेदसहित

होज्जा) के गौतम ! ते अविज्ञानी वज्जसपत्तनाराज्य सडननवाणे दोष उ
 (से ण भते ! कयरमि स ठाणे होज्जा ?) के भदन्त ! ते अविज्ञानी के
 सस्थान (आडार) वाणे दोष उ ? (गोयमा !) के गौतम ! (छण्हं स ठा
 णाण अन्नपरे संगणे होज्जा) ७ स्थानोंमें से दोष उच्यते । (से ण भते ! कयरमि उच्यते होज्जा ?) के भदन्त ! ते अ-
 विज्ञानी के गौतम ! ते अविज्ञानी के दोष उच्यते ? (गोयमा !) के गौतम ! (जहण्णेणं
 सत्तरयणीए उक्कोसेणं पच घणुसइए होज्जा) ते अविज्ञानीनी कोठामां कोपी
 कोठामां सात दापनी अने नधारेमां नधारे कोठामां ५०० धनुषप्रमाण दोष
 उ (से ण भते ! कयरमि आउए होज्जा ?) के भदन्त ! ते अविज्ञानी
 के गौतम ! ते अविज्ञानी के आयुवाला दोष उ ? (गोयमा !) के गौतम ! (जहण्णेणं साहरे
 गट्ठवासाउए उक्कोसेणं पुब्बकोट्टिमाउए होज्जा) ते अविज्ञानीनी कोठामां
 कोठामां आयुष्के आठ वर्ष के गौतम ! ते अविज्ञानीनी कोठामां कोठामां
 आयुष्के कोटिपूर्व दोष उ (से णं भते ! किं सवेदए होज्जा, अवेदए

सवेदको भवति, नो अवेदको भवति । यदि सवेदको भवति, किं स्त्रीवेदको भवति पुरुषवेदको भवति, नपुंसकवेदको भवति, पुरुषनपुंसकवेदको भवति ? गौतम ! नो स्त्रीवेदको भवति, पुरुषवेदको वा भवति, नो नपुंसकवेदको, पुरुष नपुंसकवेदको वा भवति । स खलु भदन्त ! किं सकषायी भवति ? अकषायी भवति ?, गौतम ! सकषायी भवति नो अकषायी भवति । यदि सकषायी भवति, स खलु भदन्त ! कतिषु

होता है या वेदरहित होता है ? (गोयमा-सवेदए होज्जा णो अवेदए होज्जा) हे गौतम ! वह अवधिज्ञानी वेदसहित होता है, वेदरहित नहीं (जइ सवेयए होज्जा किं इत्थीवेयए होज्जा, पुरिसवेयए होज्जा, नपुंसगवेयए होज्जा) हे भदन्त ! यदि वह अवधिज्ञानी वेदसहित होता है तो क्या स्त्रीवेदसहित होता है या पुरुषवेद सहित है या नपुंसकवेदसहित होता है ? या (पुरिसनपुंसगवेयए होज्जा) पुरुष नपुंसक वेद सहित होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! वह अवधिज्ञानी (नो इत्थी वेयए होज्जा, पुरिसवेयए वा होज्जा, नो नपुंसगवेयए होज्जा, पुरिस नपुंसगवेयए वा होज्जा) स्त्रीवेद वाला नहीं होता है पुरुषवेद वाला होता है । नपुंसक वेदवाला नहीं होता है पुरुष नपुंसक वेदवाला होता है । (से णं भंते ! किं सकसाई होज्जा, अकसाई होज्जा) हे भदन्त ! वह अवधिज्ञानी सकषायी होता है या अकषायी होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! वह अवधिज्ञानी (सकसाई होज्जा, नो अकसाई होज्जा)

होज्जा ?) हे भदन्त ! ते अवधिज्ञानी वेदसहित होय छे के वेदरहित होय छे ? (गोयमा ! सवेदए होज्जा णो अवेदए होज्जा) हे गौतम ! ते अवधिज्ञानी वेदसहित होय छे, वेदरहित होतो नथी. (जइ सवेयए होज्जा किं इत्थीवेयए होज्जा, पुरिसवेयए होज्जा, नपुंसगवेयए होज्जा ?) हे भदन्त ! ते अवधिज्ञानी वेदसहित होय छे, तो थुं स्त्रीवेदसहित होय छे के पुरुषवेदसहित होय छे के नपुंसक वेदसहित होय छे ? के (पुरिसनपुंसगवेयए होज्जा) पुरुष नपुंसकवेदसहित होय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! ते अवधिज्ञानी (नो इत्थीवेयए होज्जा, पुरिसवेयए वा होज्जा, नो नपुंसगवेयए होज्जा, पुरिस नपुंसगवेयए वा होज्जा) स्त्रीवेदवाणे होतो नथी, पुरुषवेदवाणे होय छे, नपुंसक वेदवाणे होतो नथी, पुरुष नपुंसक वेदवाणे होय छे ? (से णं भंते ! किं सकसाई होज्जा, अकसाई होज्जा ?) हे भदन्त ! ते अवधिज्ञानी सकषायी होय छे के अकषायी होय छे ? (गोयमा ! सकसाई होज्जा, नो अकसाई होज्जा) हे गौतम ! ते अवधिज्ञानी सकषायी होय छे के अकषायी होय छे

कापायेषु मरति ? गौतम ! षट्पुं सञ्चलनकोष-मान-मायालोमेषु मरति । तस्य खलु मदन्त ! किपन्ति अध्यवसानानि प्रवृत्तानि ? गौतम ! असन्ध्येषानि अप्यवसानानि प्रवृत्तानि, तानि खलु मदन्त । प्रवृत्तानि ? अप्रवृत्तानि ? गौतम ! प्रवृत्तानि, नो अप्रवृत्तानि । स खलु गौतम ! तैः प्रवृत्तैः अप्यवसानैः पतमानैः अनन्तस्यो नैरपि मरद्ग्रहणेभ्य आत्मानं विसर्जयति अनन्तेभ्यस्तिपयो-

सकपायी होता है, अकपायी नहीं होता है । (जड़ सफसाई होज्जा फइसु कमाणसु होज्जा) हे भदन्त ! यह अवधिज्ञानी यदि सकपायी होता है तो किन्ती कपायों में होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (बउसु मंजलणकोहमाणमाया लोमेषु होज्जा) यह अवधिज्ञानी सञ्चलन कोष, मान, माया, लोम इन चार कपायों में होता है । (तस्म णं भते । केष इया अज्झयसाणा पण्णा) हे भदन्त ! उस अवधिज्ञानी के कितने अध्ययमाय कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! उस अवधिज्ञानी क (असखेज्जा अज्झयसाणा पण्णासा) असकपाय अध्ययमाय कहे गये हैं । (ते णं भंते ! किं पसत्या अपसत्या) हे भदन्त ! ये उसके असकपाय अध्ययमाय प्रवृत्त होते हैं या अप्रवृत्त होते हैं । (गोयमा) हे गौतम ! (पसत्या नो अपसत्या) ये उसके अध्ययमाय प्रवृत्त होते हैं, अप्रवृत्त नहीं होते हैं । (से ण गोयमा 'तेहि पसत्थेहि अज्झयमाणेहि पट्ठमाणेहि भणत्तेहि नो नरइय भयग्गहणेहि नो अप्पाणं विमज्जेणं) हे गौतम ! यह अवधिज्ञानी जीव उन वर्तमान अध्ययमायों द्वारा अनन्त

नहीं (जड़ सफसाई होज्जा फइसु कमाणसु होज्जा ?) हे भदन्त ! ये ते अवधिज्ञानी अकपायी तेषु ते ते उता कपायेषां तेषु ते । (गोयमा) बउसु मंजलणको(मानमायालोमेषु होज्जा) हे गौतम ! ते अवधिज्ञानी मंजलणकोष, मान, माया लोम, आ चार कपायों में अकपाय तेषु ते । (तस्म णं भते ! केष इया अज्झयसाणा पण्णा ?) हे भदन्त ! ते अवधिज्ञानी के कितने अध्ययमाय कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! ते अवधिज्ञानी क (असखेज्जा अज्झयसाणा पण्णासा) असकपाय अध्ययमाय कहे गये हैं । (ते णं भंते ! किं पसत्या अपसत्या) हे भदन्त ! ये उनके असकपाय अध्ययमाय प्रवृत्त होते हैं या अप्रवृत्त होते हैं । (गोयमा) ये उनके अध्ययमाय प्रवृत्त होते हैं, अप्रवृत्त नहीं होते हैं । (से ण गोयमा 'तेहि पसत्थेहि अज्झयमाणेहि पट्ठमाणेहि भणत्तेहि नो नरइय भयग्गहणेहि नो अप्पाणं विमज्जेणं) हे गौतम ! यह अवधिज्ञानी जीव उन वर्तमान अध्ययमायों द्वारा अनन्त

निकभ्रवग्रहणेभ्य, आत्मानं विसंयोजयति, अनन्तेभ्यो मनुष्यभ्रवग्रहणेभ्य आत्मानं विसंयोजयति, अनन्तेभ्यो देवग्रहणेभ्य आत्मानं विसंयोजयति, या अपि च ताः इमाः नैरयिक-तिर्यग्योनिक-मनुष्य-देवगति नाम्न्यश्चतस्रः उत्तरप्रकृतयः, तासां च खलु औपग्रहिकान् अनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमायालोभान् क्षपयति, अनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमायालोभान् क्षपयित्वा अपत्याख्यानकषायान् क्रोधमानमायालोभान् क्षपयति, अपत्याख्यानकषायान् क्रोधमानमायालोभान् क्षपयित्वा, प्रत्या-

नैरयिक भवों से अपने आपको दूर कर लेता है (अणंतेहितो तिरिक्ख जोणिय भवग्गहणेहितो अप्पाणं विसंजोएइ) अनन्त तिर्यच भवों से अपने आपको दूर कर लेता है, (अणंतेहितो मणुस्स भवग्गहणेहितो अप्पाणं विसंजोएइ) अनन्त मनुष्य भवों से अपने आपको दूर कर लेता है (अणंतेहितो देवभवग्गहणेहितो अप्पाणं विसंजोएइ) और अनन्त देव भवों से अपने आप को विमुक्त कर लेता है । (जाओ वि य से इमाओ नेरइय तिरिक्ख जोणिय मणुस्स देवगइ नामाओ चत्तारि उत्तर पयडीओ, तासिं च णं उवग्गहिए अणंताणुवंधी कोहमाणमाया लोभे खवेइ) तथा इसकी जो ये नरकगति, तिर्यश्चगति, मनुष्यगति, और देवगति इस नामकी चार उत्तर प्रकृतियां हैं सो इन चार उत्तर प्रकृतियों के आधार भूत जो अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ हैं इनका वह क्षय करता है । (अणंतानुबंधी कोहमाणमायालोभे खवित्ता अपच्चक्खाणकसाए कोहमाणमायालोभे खवेइ, अप-

वर्तमान (विद्यमान) अर्धवसाये द्वारा अनंत नैरयिक लोभांशी पोतानी जतने इर करी नाये छे, (अणतेहितो तिरिक्खजोणिय भवग्गहणेहितो अप्पाणं विसंजोएइ) अनंत तिर्यच लोभांशी पणु पोतानी जतने मुक्त करी नाये छे, (अणतेहितो मणुस्स भवग्गहणेहितो अप्पाणं विसंजोएइ) अनंत मनुष्य लोभांशी पोतानी जतने मुक्त करी नाये छे, (अणतेहितो देवभवग्गहणेहितो अप्पाणं विसंजोएइ) अने अनंत देवलोभांशी पणु पोतानी आत्माने मुक्त करी नाये छे ? (जाओ वि य से इमाओ नेरइयतिरिक्खजोणिय मणुस्स देवगइनामाओ चत्तारि उत्तरपयडीओ, तासिं च णं उवग्गहिए अणंताणुवंधी कोहमाण माया लोभे खवेइ) तथा तेनी आओ नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति अने देवगति नामनी चार उत्तर प्रकृतिओ छे, ते चार उत्तर प्रकृतिओना आधारभूत जे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया अने लोभ छे तेनी ते क्षय करें छे. (अणंतानुबंधी कोहमाणमाया लोभे खवित्ता अपच्चक्खाणकसाए कोह-

प्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोमान् क्षपयति, प्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमाया
लोमान् क्षपयित्वा, सज्वलनक्रोधमानमायालोमान् क्षपयति, संज्वलनक्रोधमानमाया
लोमान् क्षपयित्वा पञ्चविधं ज्ञानावरणीयम्, नवविधं दर्शनावरणीयं, पञ्चविधम्

वृक्षान्नाणकसाप कोहमाणमायालोमे खविष्ठा, पञ्चवृक्षान्नाणवरणकोह
माणमायालोमे खविष्ठा सज्वलनकोहमाणमायालोमे स्ववेद, सज्वलन
कोहमाणमायालोमे खविष्ठा पञ्चविह नाणावरणिज्ज नवविह हरिसणा
वरणिज्जं पञ्चविह अंतराहय, तालमत्पाकह व णं मोहणिज्जं कट्टु
कम्मरयधिकरणकरं अपुञ्चकरणं अपुपबिद्धस्स अणते अणुत्तरे निन्वा
घाप, निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरणाणदसणे समुप्पन्ने)
अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ इनका क्षय करके फिर वह
अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, मान, माया लोभ इनका क्षय करता है।
अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ इनका क्षय करके
फिर वह प्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ इनका
क्षय करता है। प्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ
का क्षय करके फिर वह संज्वलन संबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ
इनका क्षय करता है। सज्वलन संबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ
इनका क्षय करके फिर वह पांच प्रकार के ज्ञानावरणीय कर्म को, नौ

मायमाया लोभे स्ववेद, अपञ्चवृक्षान्नाणकसाप कोहमाणमायालोमे खविष्ठा, पञ्च
वृक्षान्नाणवरणकोहमाणमाया लोभे खविष्ठा सज्वलन कोहमाणमाया लोभे परेद,
सज्वलनकोहमाणमायालोमे खविष्ठा पञ्चविह नाणावरणिज्जं नवविह हरिसणा
वरणिज्जं पञ्चविह अंतराहय, तालमत्पाकह व णं मोहणिज्जं कट्टु कम्मरयधिक
रणकर अपुञ्चकरण अपुपबिद्धस्स अणते अणुत्तरे निन्वाघाप, निरावरणे कसिणे
पडिपुण्णे केवलवरणाणदसणे समुप्पन्ने) अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया
अने दोषने क्षय करीने ते अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, मान, माया अने
दोषने क्षय करे छे अप्रत्याख्यानवरण संबंधी क्रोध, मान, माया अने
दोषने क्षय करीने प्रत्याख्यानवरण संबंधी क्रोध, मान, माया अने
दोषने क्षय करे छे प्रत्याख्यानवरण संबंधी क्रोध, मान, माया अने
दोषने क्षय करे छे संज्वलन संबंधी क्रोध, मान, माया अने दोषने
क्षय करीने पांच प्रकारना ज्ञानावरणीय कर्मने, नव प्रकारना ज्ञानावरणीय

आन्तरायिकं, तालमस्तककृत्तं च खलु मोहनीयं कृत्वा कर्मरज्जोविकरणकरम्
अपूर्वकरणम् अनुप्रविष्टस्यानन्तम् अनुत्तरम् निर्व्याघातं निरावरणं कृत्स्नं प्रतिपूर्णं
केवलपरज्ञानदर्शनं समुत्पन्नम् ॥ सू० ३ ॥

टीका—'से णं भंते ! कइसु लेस्सासु होज्जा ?' गौतमः पृच्छति—हे भदन्त !
स खलु विभङ्गज्ञानी भूत्वा अवधिज्ञानं चारित्रं च प्रतिपन्नः पुरुषः कतिषु लेश्यासु
भवति ? भगवानाह—'गोयमा ! तिसु विसुद्धलेस्सासु होज्जा ' हे गौतम ! स
विभङ्गज्ञानी अवधिज्ञानं प्रतिपन्नः तिसृषु विशुद्धलेश्यासु भवति, यतो भावलेज्यासु

प्रकार के दर्शनावरणीय कर्म को, पांच प्रकार के अन्तराय कर्म को और
मोहनीय कर्म को छेदे गये मस्तक वाले तालवृक्ष के समान (क्षीण)
करके कर्मरज्जुको बिखेर देने वाले अपूर्वकरण में प्रविष्ट हुए उस अव-
धिज्ञानी के अनन्त, अनुत्तर, व्याघातरहित, आवरणरहित, सर्व पदार्थों
को पूर्णरूप से ग्रहण करने वाले, प्रतिपूर्ण और सर्वोत्तम ऐसा केवल
ज्ञान केवलदर्शन उत्पन्न हो जाता है।

टीकार्थ—सूत्रकार ने इस सूत्र द्वारा विभंगज्ञानी ही अवधिज्ञानी
रूप से परिणत हो जाता है इस बात को वे उसकी लेश्या आदिकों द्वारा
वर्णन करते हैं—इसमें गौतम ने प्रश्न से ऐसा पूछा है—(से णं भंते !
कइ लेस्सासु होज्जा) हे भदन्त ! वह जीव विभंगज्ञानी होकर अवधि-
ज्ञानवाला और चारित्रवाला बनकर कितनी लेश्याओं में होता है ?
पूछने का अभिप्राय ऐसा है कि वह जीव विभंगज्ञानी से अवधिज्ञान

कर्मने, पांच प्रकारना अन्तराय कर्मने अने मोहनीय कर्मने छेदी नापेला
मस्तकवाणा तालवृक्ष समान (क्षीण) करीने कर्मरज्जुने बिपेरी नापनार
अपूर्वकरणमां प्रविष्ट थयेला ते अवधिज्ञानीने अनन्त, अनुत्तर, व्याघातरहित
आवरणरहित, सर्व पदार्थोने पूर्णरूपे ग्रहण करनार, प्रतिपूर्ण अने सर्वोत्तम
केवलज्ञान, केवलदर्शन उत्पन्न थर्ष नथ छे.

टीकार्थ—विभंगज्ञानी न अवधिज्ञानी रूपे परिणत थर्ष नथ छे, अ
वातनुं प्रतिपादन करीने हवे सूत्रकार अवधिज्ञानी श्रवणी लेश्या वगेरेनुं प्रति-
पादन नीचेना प्रश्नोत्तरे द्वारा करे छे—

गौतम स्वामीने प्रश्न—(से णं भंते ! कइ लेस्सासु होज्जा ?) हे भदन्त !
विभंगज्ञानीमांथी अवधिज्ञानी रूपे परिणत थयेदी अने सम्यक्चारित्रयुक्त
अनेदी ते श्रव डेटली लेश्याओवाणो होय छे ? (लेश्याओ ६ छे. तेमाथी
पडेदी त्रयु लेश्याओ अशुभ होय छे अने छेदी त्रयु लेश्याओ शुभ होय छे.)

प्रयस्तास्वेत्र सम्यक्त्वादि प्रतिपद्येत् नाविशुद्धासु इति भावः । 'स जहा-तउलस्माए पम्हलेस्माए, सुम्हलेस्माए' तद्यथा-तेजोलक्ष्यायाम्, पद्मलेक्ष्यायाम्, शुम्हलेक्ष्यायाम् । गौतम पृच्छति-'से ण भन्ते ! कइसु णाणेषु होज्जा ?' हे भदन्त ! स खलु विमङ्गलानी अरविज्ञानितया परिणतः पुरुष कतिपु ज्ञानेषु भवति ? भगवानाह-'गोपमा ! तिसु आमिणिबोहियनाण-सुयनाण-ओहिनाणेषु होज्जा' हे भदन्त ! सविमङ्गलानी अरविज्ञानप्रतिपद्येत् पुरुषास्त्रिषु भामिनिबोधिक्कज्ञान-

पाला पन जाना है और सम्यक् चारित्र्य युक्त हो जाता है-तब उसके किनरी छेदपाएँ होती है ? छेदपाएँ छ हैं-इनमें शुभ और अशुभ के दो प्रकार की छेदपाएँ होती हैं-मो इस प्रकार के जीव में किनरी छेदपाएँ होती है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं-(गोपमा) हे गौतम ! (तिसु तिसुद्ध छेदपासु होज्जा) वह विमङ्गलानी जीव जय अरविज्ञान पाला पन जाना है तब यह तीन विशुद्ध छेदपाओं में होता है । क्या कि ऐसा सिद्धान्त का कथन है कि प्रज्ञान भाव छेदपाओं में ही जीव सत्व कत्व आदि को प्राप्त करता है, अविशुद्ध छेदपाओं में नहीं । (त जहा) ये प्रज्ञान तीन छेदपाएँ ये हैं-(सिउलेस्माए, पम्हलेस्माए, सुम्हलेस्माए) तेजोलेक्ष्या, पद्मलेक्ष्या और शुक्ललेक्ष्या-अब गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं-(से ण भन्ते ! कइसु णाणेषु होज्जा) हे भदन्त ! अरविज्ञानी के रूप में परिणत हुआ वह विमङ्गलानी जीव किनने ज्ञानों में होता है ? अर्थात् किनने ज्ञानोंवाला होता है ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं-(गोपमा) हे गौतम ! (तिसु आमिणिबोहियनाण-सुयनाण-ओहिनाणेषु होज्जा) वह अरविज्ञानको प्राप्त हुआ विमङ्गलानी पुरुष मग्गिण, भुण

भक्षणीर प्रभुने उत्तर—(गोपमा) हे गौतम ! (तिसु तिसुद्धेक्ष्यासु होज्जा) ते विमङ्गलानी एव न्यारे अरविज्ञानी जनी जय ते तत्र तिसुद्ध लेखाओपी भुण दोष ते ज्ञान के सिद्धान्तनु अर्जु ज्ञान के प्रयत्न जायतेखाओना अइम.व देव तोर एव सम्पत्त आदि प्राप्त है, अविशुद्ध लेखाओनाये तेनी प्राप्ति ही यातो नही

"जहा" ते तत्र प्रयत्न लेख ओना नाम भा प्रभाते ए-
(तजोवणं कइदेणं पम्हलेणं) (१) तेजोलेखा, (२) पद्मलेखा जने (३) शुक्ललेखा

गौतम २२ मीना २५—(से ण भन्ते ! कइसु णाणेषु होज्जा ?) हे भदन्त ! अरविज्ञानी पुरुष कतिपु ज्ञानेषु भवति ? भगवानाह-'गोपमा ! तिसु आमिणिबोहियनाण-सुयनाण-ओहिनाणेषु होज्जा' हे भदन्त ! सविमङ्गलानी अरविज्ञानप्रतिपद्येत् पुरुषास्त्रिषु भामिनिबोधिक्कज्ञान-

श्रुतज्ञाना-वधिज्ञानेषु भवति, सम्यक्त्वमतिश्रुताज्ञानिनां विभङ्गज्ञानविवर्तनकाले तस्य युगपद्भावादाद्ये ज्ञानत्रय एत्रासौ तदावर्तते इति । गौतमः पृच्छति-‘ से णं भंते ! किं सजोगी होज्जा, अजोगी होज्जा ? हे भदन्त ! स खलु विभङ्गज्ञानी प्रतिपन्नावधिज्ञानः किं सयोगी भवति ? किं वा अयोगी भवति ? भगवानाह- ‘ गोयमा ! सजोगी होज्जा, नो अजोगी होज्जा ’ हे गौतम ! स प्रतिपन्नावधि-ज्ञानचारित्रः सयोगी भवती, नो अयोगी भवति, अवधिज्ञानकालेऽयोगित्वस्या-भावात् । गौतमः पृच्छति-‘ जइ सजोगी होज्जा किं मणजोगी होज्जा, वइजोगी होज्जा, कायजोगी होज्जा ? ’ हे भदन्त ! यदि प्रतिपन्नावधिज्ञानः सयोगी

ज्ञान और अवधिज्ञान इन तीन ज्ञानोंमें होता है । क्यों कि-जब विभंग-ज्ञान का विवर्तनकाल होता है उस समय सम्यक्त्व, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ये तीन ज्ञान एक साथ ही उस जीव को हो जाते हैं ।

अब गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं-(से णं भंते ! किं सजोगी होज्जा, अजोगी होज्जा) अवधिज्ञान को प्राप्त हुआ वह विभंगज्ञानी जीव क्या योगसहित होता है या बिना योग का होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं-(गोयमा ! सजोगी होज्जा नो अजोगी होज्जा) हे गौतम ! प्रतिपन्न अवधिज्ञान चारित्रवाला वह विभंगज्ञानी योगसहित ही होता है-योगरहित नहीं होता है-क्यों कि अवधिज्ञान काल में अयोगिपने का अभाव रहना है ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं-(जइ सजोगी होज्जा किं मणजोगी वा होज्जा, वइजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा) हे

ज्ञानोपायो ङाय छे (१) आभिनिषेधिक ज्ञान (मतिज्ञान) (२) श्रुतज्ञान अने (३) अवधिज्ञान ते णवमां आ त्रणु ज्ञानेने सदुभाव ङोवानुं कारणु अे छे के न्यारे विभंगज्ञानेने विवर्तनकाण ङाय छे, त्त्यारे सम्यक्त्व, मति-ज्ञान, श्रुतज्ञान अने अवधिज्ञान, अे त्रणु ज्ञान अेक साथे ञ ते णवमां विद्यमान ङाय छे.

गौतम स्वामीने प्रश्न--(से णं भंते ! किं सजोगी होज्जा, अजोगी होज्जा) नेनु विभंगज्ञान अवधिज्ञानइये परिषुत थथेतु छे अेवे ते णव शुं योगसहित ङाय छे के योगरहित ङाय छे ? (मनयोग, वचनयोग अने काययोग नामना त्रणु योग कइया छे)

महावीर प्रभुने उत्तर--“ गोयमा ! ” छे गौतम ! (सजोगी होज्जा नो अजोगी होज्जा) प्रतिपन्न अवधिज्ञान आरित्रवाणे ते विभंगज्ञानी योग-

भवति, तदा किं स मनोयोगी भवति ? किं वा वचोयोगी भवति ? किं वा काययोगी भवति ? मगवानाह—' गौयमा ! मणजोगी वा होज्जा, वइजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा ' हे गौतम ! स प्रतिपन्नावधिज्ञानं पुंष्य मनोयोगी वा भवति, वचोयोगी वा भवति, काययोगी वा भवति, मनोयोगिस्त्वादिकं च एकयोगभाषायापेक्षयाऽत्रसेयम् । गौतमं पृच्छति—' से ण भते ! किं सागारोचठ्ठे होज्जा, अणागारोचठ्ठे होज्जा ? ' हे मद्दत्त ! खलु विमद्गज्ञानी प्रतिपन्नावधिज्ञानं किं साकारोपयुक्तो भवति ! किं वा अनाकारोपयुक्तो भवति ? मगवानाह—

भदन्त ! यदि प्रतिपन्न अवधिज्ञानवाला वह विभगज्ञानी जीव योग सहित होता है तो कौन से योग से युक्त होता है—यया मनोयोग से, या वचन योग से या काययोग से ? इसके उत्तर में प्रभु कहने हैं—(गौयमा ! मणोजोगी वा होज्जा, वइजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा) हे गौतम ! प्रतिपन्न अवधिज्ञानवाला वह विभगज्ञानी जीव मनोयोगी भी होता है, वचन योगी भी होता है और कायजोगी भी होता है यहाँ पर जो ऐसा वह कथन किया गया है वह एक योग की प्रधानता को लेकर किया गया है ।

अथ गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(से ण भते ! किं सागारोचठ्ठे होज्जा, अणागारोचठ्ठे होज्जा) हे मद्दत्त ! प्रतिपन्न अवधिज्ञानवाला वह विभगज्ञानी क्या साकार उपयोगवाला होता है या अनाकार

सहित वा होय छे, येअरहित होतो नथी, कश्च के अवधिज्ञानना कज्जमं अयोगीपवुत्तो अभाव वा रहो छे

गौतम स्वामीने प्रश्न—(वह मजोगी होज्जा किं मणजोगी होज्जा, वइजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा ?) हे भदन्त ! ने ते अवधिज्ञानी एव योगसहित होय छे, ते कया योगधी युज्ज होय छे ? सु गतायोगधी युज्ज होय छे, के वचनयोगधी युज्ज होय छे के काययोगधी युज्ज होय छे ?

मद्दानीर प्रभुने उत्तर—(गौयमा ! मणजोगी वा होज्जा, वइजोगी वा होज्जा कायजोगी वा होज्जा) हे गौतम ! प्रतिपन्न अवधिज्ञानवालो ते विभगज्ञानी एव मनोयोगी पवु होय छे वचनयोगी पवु होय छे अने काययोगी पवु होय छे अर्थात् ने आ प्रकारनुं कथन करवाभां आण्यु छे ते अेक योगीने प्रधानतानी अर्थमाओ करवाभां आ गु छे

गौतम स्वामीने प्रश्न—(से ण भते ! किं सागारोचठ्ठे होज्जा, अणागारोचठ्ठे होज्जा ?) हे भदन्त ! प्रतिपन्न अवधिज्ञानवालो ते विभगज्ञानी एव सु साकार उपयोगवालो होय छे के अनाकार उपयोगवालो होय छे ।

‘गोयमा ! सागारोवउत्ते वा होज्जा, अणागारोवउत्ते वा होज्जा’ हे गौतम !
 स प्रतिपन्नावधिज्ञान साकारोपयुक्तो वा भवति, अनाकारोपयुक्तो वा भवति,
 तस्य हि विभङ्गज्ञानान्निवर्तमानस्योपयोगद्वयेऽपि वर्तमानस्य सम्यक्त्वावधिज्ञान-
 प्रतिपत्तिसत्त्वात्, न च ‘सव्वाओ लद्धीओ सागारोवओगोवउत्तस्स भवंति’
 इत्यागमादनाकारोपयोगे सम्यक्त्वावधिलब्धिविरोधो भवतीति वाच्यम्, तस्या-
 गमस्य प्रवर्द्धमानपरिणामजीवविषयत्वेन विरोधाभावात्, अवस्थितपरिणामापे-
 क्षया च अनाकारोपयोगेऽपि लब्धिलाभसंभवात् । गौतमः पृच्छति—‘से णं भंते !

उपयोगवाला होता है ? इसके उत्तर में कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम !
 (सागारोवउत्ते वा होज्जा अणागारोवउत्ते वा होज्जा) प्रतिपन्न अवधि-
 ज्ञानवाला वह विभंगज्ञानी साकार उपयोगवाला भी होता है और
 अनाकार उपयोगवाला भी होता है । क्यों कि विभंगज्ञान से निवर्त-
 मान उसकी उपयोगों में स्थिति होती है—इसलिये सम्यक्त्व और अव-
 धिज्ञान की प्रतिपत्ति का उसमें सद्भाव कहा गया है । जब (सव्वाओ
 लद्धीओ ‘सागारोवओगोवउत्तस्स भवंति’ इस सिद्धान्तवाक्य के
 अनुसार अनाकार उपयोग में वर्तमान जीव के—सम्यक्त्व और अवधि
 लब्धि का विरोध कहा गया है तो फिर यहाँ पर अनाकार उपयोग में
 अवधिज्ञान का सद्भाव कैसे कहा गया है, तो इसका उत्तर ऐसा है कि
 अनाकार उपयोग में जो सम्यक्त्व और अवधिलब्धि का विरोध कहा
 गया है वह प्रवर्द्धमानपरिणामवाले जीव की अपेक्षा लेकर कहा गया

भडावीर प्रलुने। उत्तर—“गोयमा !” हे गौतम ! (सागारोवउत्ते वा,
 होज्जा, अणागारोवउत्ते वा होज्जा) प्रतिपन्न अवधिज्ञानवाणे। ते विलंगज्ञानी
 साकार उपयोगवाणे। पणु डोय छे अने अनाकार उपयोगवाणे। पणु डोय छे,
 कारणु के विलगज्ञानथी निवर्तमान अेषा ते एवनी अन्ने उपयोगेमा स्थिति
 डोय छे तेथी सम्यक्त्व अने अवधिज्ञाननी प्रतिपत्तिने। (प्राप्तिने) तेमां
 सदृशाव कहे छे

शंका—(सव्वाओ लद्धीओ सागारोवओगोवउत्तस्स भवति) आ सिद्धान्त
 वाक्य प्रमाणे तो अनाकार उपयोगमा वर्तमान एवमा सम्यक्त्व अने अवधि-
 लब्धिने विशेष प्रकट करवामा आव्ये छे, छता पणु अही अनाकार उप-
 योगमा अवधिज्ञानने सदृशाव केवी रीते कहेवामा आव्ये छे ?

समाधान—अनाकार उपयोगमा ने सम्यक्त्व अने अवधिज्ञानने विशेष
 दर्शावामा आव्ये छे ते प्रवर्द्धमान परिणामवाणा एवनी अपेक्षाअे भताव्ये।

कयरमि सघयणे होज्जा ' हे भदत ! स खलु विमङ्गलानी प्रतिपन्नावधिज्ञान-
 क्वमस्मिन् सहनने भवति ? मगवानाह—' गोयमा ! वइरोसमनारायसघयणे
 होज्जा ' हे गौतम ! स प्रतिपन्नावधिज्ञान—वअरुपमनाराचसहनने भवति,
 तस्य प्राप्तव्यकेवलज्ञानत्वात्, केवलज्ञानप्राप्तिश्च प्रथमसहनने एव समवधीति मावा।
 एवमप्रेऽपि बोध्यम् । गौतम पृच्छति—' से ण भंते ! कयरमि सठाणे होज्जा ? '
 हे भदन्त ! स खलु मतिप नावधिज्ञान क्वमस्मिन् सस्थाने भवति ।

हे—जिस जीव के परिणाम अवस्थित अवस्थावाले हैं उसकी अपेक्षा तो
 अनाकार उपयोग में भी लम्बि का लाभ हो सकता है।

अथ गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(से ण भंते ! कयरमि
 सघयणे होज्जा) हे भदन्त ! वह प्रतिपन्न अवधिज्ञानवाला विमंगलानी
 किस सहनन में होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे
 गौतम ! (वइरोसमनारायसघयणे होज्जा) वह प्रतिपन्न अवधिज्ञान
 वाला विमंगलानी वअरुपमनाराच सहनन में होता है। क्यों कि ऐसा
 जीव प्राप्तव्य केवलज्ञानवाला होता है और केवलज्ञान की प्राप्ति प्रथम
 सहनन में ही होती है इसलिये यहाँ ऐसा कहा है। इसी तरह से भागे
 भी जानना चाहिये।

अथ गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(से ण भंते ! कयरमि
 सठाणे होज्जा) हे भदन्त ! वह प्रतिपन्न अवधिज्ञानवाला विमंगलानी
 जीव किस सन्धान में होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा)

उ ने एवना पस्विम अवस्थित अवस्थावाला होय उ तेनी अपेक्षाजे ते
 अनाकार उपयोगमां पय लम्बिने दाण सलवी शके से.

गौतम स्वामीने प्रश्न—(से ण भंते ! कयरमि सघयणे होज्जा ?) हे
 भदन्त ! ते प्रतिपन्न अवधिज्ञानवाणे विमङ्गलानी क्वा सहननमुठ्ठव होय उ ?

भगवतीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा । ” हे गौतम ! (वइरोसमनाराय
 सघयणे होज्जा) ते वअरुपमनाराच सहननवाणे होय उ धारयु के ज्जेवे
 एव प्राप्तव्य केवलज्ञानवाणे होय उ अने केवलज्ञाननी प्राप्ति प्रथम सह
 ननमांज थाय उ, तेथी अर्हो आ प्रभावे उठ्ठु उ ज्जेव प्रभावे जाण
 पय समज्जु

गौतम स्वामीने प्रश्न—(से ण भंते ! कयरमि सठाणे होज्जा ?) हे
 भदन्त ! ते प्रतिपन्न अवधिज्ञानवाणे विमङ्गलानी एव क्खत्ता सन्धान
 (आकार) वाणे होय उ ?

भगवानाह—‘गोयमा ! छण्ह संठाणाणं अण्णयरे संठाणे होज्जा हे गौतम ! स प्रतिपन्नावधिज्ञानः पुरुषः षण्णां संस्थानानां मध्ये अन्यतमस्मिन् एकस्मिन् संस्थाने भवति । गौतमः पृच्छति से णं भंते ! कयरंमि उच्चत्ते होज्जा ?’ हे भदन्त ! स खलु प्रतिपन्नावधिज्ञानी कतमस्मिन् उच्चत्वे ऊर्ध्वत्वे भवति ? भगवानाह—‘गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरयणीए, उक्कोसेणं पंचधणुसइए होज्जा’ हे गौतम ! स प्रतिपन्नावधिज्ञानी जघन्येन सप्तरत्नौ सप्तरत्निप्रमाण इत्यर्थः भवति, उत्कृष्टेन तु पञ्चधनुः शतके पञ्चशतधनुःप्रमाण भवति । गौतमः पृच्छति—‘से णं भंते ! कयरंमि आउए होज्जा ?’ हे भदन्त ! स खलु प्रतिपन्नावधिज्ञानः कतमस्मिन् आयुष्के भवति कियदायुष्को भवति ? इति भावः, भगवानाह—‘गोयमा ! जहण्णेणं साहरे

हे गौतम ! (छण्हं संठाणाणं अण्णयरे संठाणे होज्जा) वह प्रतिपन्न अवधिज्ञानवाला विभंगज्ञानी छह संस्थानों में से किसी एक संस्थान में होता अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(से णं भंते ! कयरंमि उच्चत्ते होज्जा) हे भदन्त ! वह प्रतिपन्न अवधिज्ञान वाला विभंगज्ञानी कितनी ऊँचाई में होता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं सत्तरयणीए उक्कोसेणं पंचधणुसइए होज्जा) वह प्रतिपन्न अवधिज्ञानवाला विभंगज्ञानी जघन्य से सात हाथ की ऊँचाई में और उत्कृष्ट से पांचसौ धनुष की ऊँचाई में होता है ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(से णं भंते ! कयरंमि आउए होज्जा) हे भदन्त ! वह प्रतिपन्न अवधिज्ञानवाला विभंगज्ञानी किस आयुष्क में होता है ? अर्थात् कितनी आयु में होता है ? इसके

महावीर प्रभुने उत्तर—“गोयमा !” हे गौतम ! (छण्ह संठाणाणं अण्णयरे संठाणे होज्जा) अवे एव छ प्रकारना जे संस्थाने कइया छे, तेमांथी केहि पणु अेक संस्थानथी युक्ता डोय छे.

गौतम स्वामीने प्रश्न—(से णं भंते ! कयरंमि उच्चत्ते होज्जा) हे भदन्त ! ते प्रतिपन्न अवधिज्ञानवाणे विल गज्ञानी केटली, ठियाधवाणे डोय छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—“गोयमा !” हे गौतम ! (जहण्णेणं सत्तरयणीए, उक्कोसेणं पंचधणुसइए होज्जा) अवे एवनी ओछांमां ओछी ठियाध सात हाथप्रमाण अने वधारेमा वधारे ठियाध ५०० धनुषप्रमाण डोय छे.

गौतम स्वामीने प्रश्न—(से णं भंते ! कयरंमि आउए होज्जा ?) हे भदन्त ! ते प्रतिपन्न अवधिज्ञानवाणे विल गज्ञानीनुं आयुष्क केटलु डोय छे ?

ગઢવાસાટણ, ઠકોસેણ પુન્વકોઢિઆડણ હોજ્જા ' હ ગૌતમ ! સ પ્રતિપનારપિ જ્ઞાનઃ પુરુષો અચન્યેન સાતિરેકાણ્વર્વાયુક્કે, ઉત્કુપ્તન તુ પૂર્વકોટપાયુક્કે મવતિ । ગૌતમ પૂચ્છતિ—'સે ણ મતે ! કિં સવેદણ હોજ્જા અવદણ હોજ્જા' હે મદન્ત ! સ સ્વહ પ્રતિપન્નાથપિજ્ઞાનઃ કિં સવેદકો મવતિ ? કિં ઘા અવેદકો મવતિ ? મગવાનાહ— 'ગોયમા ! સવેદણ હોજ્જા, નો અવેદણ હોજ્જા ' હે ગૌતમ ! સ પ્રતિપન્નાથપિજ્ઞાનઃ સવેદકો મવતિ, નો અવેદકો મવતિ, વિમજ્ઞાનસ્ય અવધિજ્ઞાનપરિણતિકાણે નો સવેદક્ષયો મવતિ, અત્થ ઇવાસો સવેદ ઇત્થ મવતિ, નાવદ્ ઇતિ માયઃ । ગૌતમ પૂચ્છતિ 'જહ્ સવેદણ હોજ્જા, કિં ઇત્થી વેયણ હોજ્જા, પુરિસવેયણ હોજ્જા, નપુસગવેયણ હોજ્જા, પુરિસનપુસગવેયણ હોજ્જા ?' હે મદન્ત ! યદિ સ સવેદકો મવતિ તદા કિં સ્ત્રીવે

ઉત્તર મેં પ્રશ્ન કહતે હૈં—(ગોયમા) હે ગૌતમ ! જહ (જહણ્ણેણ સાતિરે ગઢવાસાટણ, ઠકોસેણ પુન્વકોઢિ આડણ હોજ્જા) અઘપસે કુચ્છ અધિક આઠ વર્ષ કી આયુમેં ઓર ઉત્કુપ્તસે ઇક પૂર્વકોટિકી આયુમેં હોતા હૈ ।

અય ગૌતમસ્થામી પ્રશ્ન સે ઇસા પૂછતે હૈં— સે ણ મતે ! કિં સવેદણ હોજ્જા, અવેદણ હોજ્જા) હે મદન્ત ! જહ પ્રતિપન્ન અધધિજ્ઞાનવાલા વિમ્બગજ્ઞાની પુરુષ કયા સવેદવાલા હોતા હૈ ? અવેદવાલા હોતા હૈ ? ઇસકે ઉત્તર મેં પ્રશ્ન કહતે હૈં—(ગોયમા ! સવેદણ હોજ્જા, નો અવેદણ હોજ્જા) હે ગૌતમ ! જહ સવેદવાલા હી હોતા હૈ—સવેદરહિત નહીં હોતા હૈ । કયોં કિં વિમ્બગજ્ઞાન અથ અધધિજ્ઞાન રૂપ મેં પરિણત હોતા હૈ ઉત્ત કાલ મેં સવેદ કા ક્ષય નહીં હોતા હૈ—ઇસલિપે જહ સવેદ મેં હી હોતા હૈ અવેદ મેં નહીં હોતા હૈ ।

અય ગૌતમ પ્રશ્ન સે ઇસા પૂછતે હૈં—(જહ સવેદણ હોજ્જા કિં ઇત્થી વેયણ હોજ્જા, પુરિસવેયણ હોજ્જા, નપુસગવેયણ હોજ્જા) હે મદન્ત !

મહાવીર પ્રશ્નને ઉત્તર—“ ગોયમા ! ” હે ગૌતમ ! (જહણ્ણેણ સાતિરે ગઢવાસાટણ, ઠકોસેણ પુન્વકોઢિ આડણ હોજ્જા) તેનું ઓછામાં ઓછું આયુષ્ય આઠ વર્ષ થી થોડું વધારે અને અધિકમાં અધિક આયુષ્ય એક પૂર્વકોટિનું હોય છે ગૌતમ સ્વામીને પ્રશ્ન—(સે ણ મતે ! કિં સવેદણ હોજ્જા, અવેદણ હોજ્જા ?) હે મદન્ત ! તે પ્રતિપન્ન અવધિજ્ઞાનવાળો વિમ્બગજ્ઞાની પુરુષ શું સવેદવાળો હોય છે કે અવેદવાળો હોય છે ? ઉત્તર—(ગોયમા ! સવેદણ હોજ્જા, નો અવેદણ હોજ્જા) હે ગૌતમ ! સવેદવાળો જ હોય છે, સવેદરહિત હોતો નથી તેનું અયુષ્ય એક છે કે વિમ્બગજ્ઞાન વધારે અવધિજ્ઞાનરૂપે પરિવૃત્ત થાય છે, તે કાળે સવેદને ક્ષય થતો નથી—તેથી તે સવેદરહિત જ હોય છે, સવેદરહિત હોતો નથી

दको भवति ? किं पुरुषवेदको भवति ? किं वा नपुंसकवेदको भवति ? किं वा पुरुषनपुंसकवेदको भवति? भगवानाह—‘गोयमा! नो इत्थी वेयए होज्जा’ हे गौतम! स प्रतिपन्नावधिज्ञानः नो स्त्रीवेदको भवति स्त्रिया एवविधस्य आतापनादेः स्वभावत-
एवाभावात् किन्तु ‘ पुरिसवेयए होज्जा’ स पुरुषवेदको भवति नो नपुंसगवेयए होज्जा’ नो नपुंसकवेदको भवति, ‘ पुरिसनपुंसगवेयए वा होज्जा ’ पुरुष-
नपुंसकवेदको वा भवति, वर्धितकत्वादिके सति जायमानो नपुंसकः पुरुषनपुंसको

यदि विभंगज्ञान का परिणमन जब अवधिज्ञान रूप से वेद अवस्था में ही होता है तो कौनसी वेद अवस्थामें होता है? क्या स्त्रीवेद अवस्था में होता है, या पुरुषवेद अवस्था में होता है? या नपुंसकवेद अवस्था में होता है? या (पुरिसनपुंसग वेयए होज्जा) या पुरुष नपुंसकवेद अव-
स्था में होता है? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(नो इत्थीवेयए होज्जा) हे गौतम! विभंगज्ञान का अवधिज्ञानरूप से परिणमन होता है, उस अवस्था में वह जीव स्त्रीवेदवाला नहीं होता है, क्यों कि स्त्रियों में इस प्रकार की आतापना आदि का स्वभाव से ही अभाव होता है, (पुरिस वेयए होज्जा) अतः ऐसा जीव पुरुष वेदवाला ही होता है। (नो नपुंसगवेयए होज्जा) वह नपुंसक वेदवाला नहीं होता है किन्तु हां (पुरिस नपुंसगवेयए वा होज्जा) ऐसा जीव पुरुष नपुंसक वेदवाला भी हो सकता है। जो मनुष्य कृत्रिम उपायों से नपुंसक बना दिया जाना है वह (पुरुषनपुंसक) कहा गया है (से णं भंते । किं सकसाई होज्जा,

गौतम स्वामीने प्रश्न—(जइ सवेदए होज्जा किं इत्थीवेयए होज्जा, पुरिसवेयए होज्जा, नपुंसगवेयए होज्जा, पुरिसनपुंसगवेयए होज्जा ?) हे लहन्त! जे विलगज्ञाननु अवधिज्ञानरूपे परिणमन वेदसङ्घितनी अवस्थाभांज थाय छे, तो केवा प्रकारनी वेद अवस्थाभां ते परिणमन थाय छे ? शुं स्त्रीवेद अवस्थाभां थाय छे, के पुरुषवेद अवस्थाभां थाय छे, के नपुंसकवेद अवस्थाभां थाय छे, के पुरुष नपुंसकवेद अवस्थाभां थाय छे ? (जे पुरुषने कृत्रिम उपा-
योथी नपुंसक अनावी दीधो होय छे, जेवा पुरुषने पुरुषनपुंसक कडे छे)
महावीर प्रभुने उत्तर—(नो इत्थीवेयए होज्जा ?) ज्यारे विलगज्ञाननु अवधिज्ञानरूपे परिणमन थाय छे, त्यारे ते एव स्त्रीवेदवाणो होतो नथी, कारण के स्त्रीओमा उपयुक्त वर्णवेदी आतापना आदिने स्वभावथी ज अलाव होय छे “ पुरिसवेयए होज्जा ” तेथी जेवो एव पुरुषवेदवाणो ज होय छे. “ नो नपुंसगवेयए होज्जा ” ते नपुंसक वेदवाणो पणु होतो नथी, पणु “ पुरिसनपुंसगवेयए वा होज्जा ” जेवो एव पुरुषनपुंसक वेदवाणो संभवी शके छे.

મરવતિ । ગૌતમ પૂછવતિ—‘સે જ મતે ! કિં સકસાર્ઈ હોજ્જા, અકસાર્ઈ હોજ્જા?’
 હે મદન્ત ! સ ત્વહ્ કિં સકપાપી મરવતિ? કિં ના અકપાપી મરવતિ ? મગવાનાહ—
 ‘ગોયમા ! સકસાર્ઈહોજ્જા, નો અકસાર્ઈ હોજ્જા ’ હે ગૌતમ ! સ પુરુવ સક
 પાપી મરવતિ, નો અકપાપી મરવતિ, વિમહ્જ્ઞાનસ્ય અવધિજ્ઞાનપર્યવસાનકષ્ટે
 કપાયક્ષયસ્પામાવાત્ । ગૌતમ પૂછવતિ—‘જહ્ સકસાર્ઈહોજ્જા, સેજં મતે !
 કહ્સુ કસાપસુ હોજ્જા ?’ હે મદન્ત ! યદિ સકપાપી મરવતિ તદ્વા સ ત્વહ્
 કતિપુ કપાયેપુ મરવતિ ? મગવાનાહ—‘ ગોયમા ! ચત્તસુ સંવ્રજ્ઞકોહમાગમાયા
 સોમસુ હોજ્જા ’ હે ગૌતમ ! સ પ્રતિપન્નાવધિજ્ઞાની ચતુર્પું સંવ્રજ્ઞનકોઘમાનમાયા

અકસાર્ઈ હોજ્જા) હે મદન્ત ! પ્રતિપન્ન અવધિજ્ઞાનવાલા વહ વિમગજ્ઞાત્રી
 સકપાપી હોતા હૈ યા અકપાપી હોતા હૈ ? હસકે સત્તર મેં પ્રમુ કહતે
 હૈ—(ગોયમા) હે ગૌતમ ! (સકસાર્ઈ હોજ્જા, નો અકસાર્ઈ હોજ્જા) વહ
 પુરુવ સકપાપી હોતા હૈ, અકપાપી નહીં હોતા હૈ । ક્યોં કિ જિસ કાલ
 મેં વિમગજ્ઞાન અવધિજ્ઞાનરૂપ મેં પરિણત્ત હોતા હૈ સસ કાલ મેં કપાય
 ક્ષય કા અમાવ રહતા હૈ ।

અય ગૌતમસ્વામી પ્રમુસે પેમા પૂછતે હૈ—(જહ્ સકસાર્ઈ હોજ્જા સે જ
 મંતે ! કહ્સુ કસાપસુ હોજ્જા) હે મદન્ત ! યદિ વહ્ જીવ સકપાપી હોતા
 હૈ તો કિતની કપાયોમિં હોતા હૈ ? હસકે ઉત્તરમેં પ્રમુ કહતે હૈ—(ગોયમા)
 હે ગૌતમ ! (ચત્તસુ સજ્જલ્લકોહમાગમાયાલોમેસુ હોજ્જા)વહ્ પ્રતિપન્ન અવધિ

ગૌતમ સ્વામીને પ્રશ્ન—(સે જ મતે ! કિં સકસાર્ઈ હોજ્જા, અકસાર્ઈ
 હોજ્જા ?) હે મદન્ત ! તે પ્રતિપન્ન અવધિજ્ઞાનવાળો વિમગજ્ઞાત્રી પુરુવ શુ
 સકપાપી હોય છે કે અકપાપી હોય છે ?

મદાવીર પ્રમુને ઉત્તર—“ ગોયમા ! ” હે ગૌતમ ! (સકસાર્ઈ હોજ્જા,
 નો અકસાર્ઈ હોજ્જા) સકપાપી હોય છે અકપાપી હોતો નથી. તેનુ કારણ એ
 છે કે જે કાળે વિમગજ્ઞાન અવધિજ્ઞાનરૂપે પરિવૃત્તન પામે છે, તે કાળે કપાય
 ક્ષયને અભાવ રહે છે

ગૌતમ સ્વામીને પ્રશ્ન—(જહ્ સકસાર્ઈ હોજ્જા સે જ મતે ! કહ્સુ કસા
 પસુ હોજ્જા ?) હે મદન્ત ! જે તે છવ સકપાપી હોય છે, તે તે છવમાં
 કેટલા કપાયોને સહભાવ રહે છે ?

મદાવીર પ્રમુને ઉત્તર—“ ગોયમા ! ” હે ગૌતમ ! (પત્તસુ સજ્જલ્લ
 કોહમાગમાયા સોમસુ હોજ્જા) પ્રિતે તપન્ન અવધિજ્ઞાનવાળો છવ સંવ્રજ્ઞન

लोभेषु कषायेषु भवति, तथाहि अवधिज्ञानत्वेन परिणतविभङ्गज्ञानस्य चरण-
प्रतिपन्नत्वेन तस्य च तत्काले चरणयुक्तत्वात् संज्वलनात्मका एव क्रोधादयो भवन्ति।
गौतमः पृच्छति—‘ तस्स णं भंते ! केवइया अज्जवसाणा पन्नत्ता ? ’ हे भदन्त !
तस्य खलु अवधिज्ञानप्रतिपन्नस्य पुरुषस्य कियन्ति अध्यवसानानि=अध्यवसायाः
प्रज्ञप्तानि ? भगवानाह—‘ गोयमा ! असंखेज्जा अज्जवसाणा पन्नत्ता ’ हे गौतम !
तस्यावधिज्ञानं प्रतिपन्नस्यासंख्येयानि असंख्यातानि अध्यवसानानि=अध्यवसायाः
प्रज्ञप्तानि । गौतमः पृच्छति—‘ ते णं भंते ! पसत्था, अपसत्था ? ’ हे भदन्त ! ते

ज्ञानवाला जीव चार संज्वलनसंबंधी क्रोध, मान, माया और लोभकषायोंमें
होता है इसका तात्पर्य ऐसा है कि विभंगज्ञानी का विभंगज्ञान जब
अवधिज्ञानरूप में परिणत हो जाता है तब वह अवधिज्ञानी चारित्र को
धारण करने से उसी काल में चरण युक्त होने के कारण संज्वलन
संबंधी क्रोध, मान, माया और लोभकषायवाला बना रहता है
क्यों कि सकलचारित्र को संज्वलन कषायें घातती नहीं है । इनके उदय
में ही सकलचारित्र होता है ।

अब गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं (तस्स णं भंते ! केवइया अज्ज-
वसाणा पणत्ता !) जो पुरुषविभंगज्ञानसे अवधिज्ञान को प्रतिपन्न हुआ
है उनके कितने अध्यवसाय होते हैं ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—
(असंखेज्जा अज्जवसाणा पन्नत्ता) हे गौतम ! उसके असंख्यात अध्य-
वसाय होते हैं ऐसा जिनेन्द्रदेवों का कथन है ।

संभंधी क्रोध, मान, माया अने दोल आ चार कषायेवाणो डोय छे तेनु
स्पष्टीकरण आ प्रमाणे समजवुं.

विलंगज्ञानीतुं विलगज्ञान न्यारे अवधिज्ञानरूपे परिष्कृत थछ ज्ञय छे,
त्यारे ते अवधिज्ञानी चारित्रने धारण करवाथी अेज्ज कण्णे अरथयुक्त डोवाने
कारणे संज्वलन संभंधी क्रोध, मान, माया अने दोलरूप कषायेवाणो यनी
रडे छे, कारणे के सकलचारित्रने संज्वलन कषाये घातती नथी तेमना उद-
यमा ज् सकलचारित्र संभवे छे.

डवे गौतम स्वाभी पूछे छे के (तस्स णं भंते ! केवइया अज्जवसाणा
पणत्ता) हे भदन्त ! जे पुरुषतु विलगज्ञान अवधिज्ञानरूपे परिष्कृत थछ
गयु डोय छे, ते पुरुषना केटला अध्यवसाय कथा छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—(असंखेज्जा अज्जवसाणा पणत्ता) हे गौतम !
तेना असंख्यात अध्यवसाय डोय छे, अेवुं जिनेन्द्र देवाये कडेल छे.

खलु अविज्ञानमतिपन्नस्य अप्यवसायाः प्रशस्ता भवन्ति ? अप्यवसाया वा भवन्ति ? मगधानाह—‘ गोयमा ! पसत्या, नो अपसत्या ’ हे गौतम ! अविज्ञानमतिपन्नस्य प्रशस्ता एव अप्यवसाया भवन्ति, नो अप्यवसाया अप्यवसाया भवन्ति, तथाहि—नाप्रशस्ताप्यवसानस्य पुरुषस्य विभक्तज्ञानमविज्ञानरूपेण परिणतमवति अत एव अविपरिणतविभक्तज्ञानस्य प्रशस्तान्येवाप्यवसायस्यानानि भवन्ति। ‘ से ण गोयमा ! तेहिं पसत्येहिं अज्जवसाणेहिं वट्टमाणेहिं ’ गौतम ! खलु मतिपन्नाविज्ञानी वै पूर्वोक्तैः प्रशस्तैः अप्यवसानैः वर्द्धमानैः अणतेहितो नैरइयमवगगहणेहितो अप्पाण विसज्जोपइ ’ अनन्तेभ्यो नैरयिकमवग्रहणेभ्यः—आत्मानं विसयोजयति विमोचयति तत्प्राप्तियोग्यतायाः अपनोदात् ‘ अवधे

अथ गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(तेण भते ! किं पसत्या अप्यवसाया) हे मद्भ्त ! जो उसके असख्यात अप्यवसाय होते हैं वे क्या प्रशस्त होते हैं या अप्रशस्त होते हैं ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा पसत्या नो अपसत्या) हे गौतम ! उस प्रतिपन्न अविज्ञानी पुरुष के जो असख्यात अप्यवसाय होते हैं—वे प्रशस्त ही होते हैं अप्रशस्त नहीं होते हैं। क्यों कि अप्रशस्त अप्यवसायवाले पुरुष का विभक्तज्ञान अविज्ञानरूप परिणत नहीं होता है। इसलिये अविज्ञान में परिणत विभक्तज्ञानवाले जीव के अप्यवसायस्थान प्रशस्त ही होते हैं। (से ण गोयमा ! तेहिं पसत्येहिं अज्जवसाणेहिं वट्टमाणेहिं) हे गौतम ! वह प्रतिपन्न अविज्ञानी मनुष्य उन वधमान प्रशस्त अप्यवसायों द्वारा ‘ अणतेहितो नैरइयमवगगहणेहितो अप्पाण विसज्जोपइ ’ अनन्त नैरयिक अवग्रहणों से अपने को बचा लेता है। (अणतेहितो

जीतम स्वाभीना प्रभु—(ठर्ण मते ! किं पसत्या अपसत्या) हे मद्भ्त ! तेना ते असख्यात अप्यवसाय प्रशस्त होय छे के अप्रशस्त होय छे ? मद्भावीर प्रभुने उत्तर—(गोयमा ! पसत्या नो अपसत्या) हे जीतम ! तेना ते असख्यात अप्यवसाय प्रशस्त छे होय छे अप्रशस्त होता नथी अरु के अप्रशस्त अप्यवसायवाला पुरुषनुं विभक्तज्ञान अविज्ञानरूपे परिणत नथी तथी अविज्ञानीरूपे परिणत भावेत्ता विभक्तज्ञानीना अप्यवसाय प्रशस्त छे होय छे (से ण गोयमा ! तेहिं पसत्येहिं अज्जवसाणेहिं वट्टमाणेहिं) हे जीतम ! ते प्रतिपन्न अविज्ञानी पुरुष ते वधमान प्रशस्त अप्यवसायों द्वारा (अणतेहितो नैरइयमवगगहणेहितो अप्पाण विसज्जोपइ) अनन्त नैरयिक अवग्रहणोंसे अपने आत्माने बचा ले छे, (अणतेहितो विरिचयज्जोयिय मव

हितो तिरिक्खजोणियभवग्गहणेहितो अप्पाणं विसंजोएइ' अनन्तेभ्यः तिर्यग्योनिक-
भवग्रहणेभ्यः आत्मानं विसंयोजयति विमोचयति, ' अणंतेहितो देवभवग्गहणे
हितो अप्पाणं विसंजोएइ ' अनन्तेभ्यो देवभवग्रहणेभ्यः आत्मानं विसंयोजयति
' जाओ वि य से इमाओ नेरइय-तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवगइनामाओ
चत्तारि उत्तरपयडीओ' याः अपि च ताः इमाः नैरयिक-तिर्यग्योनिक-मनुष्य-
देवगतिनाम्न्यः, एतदभिधानाश्चतस्रः उत्तरप्रकृतयो नामकर्माभिधानायाः मूल-
प्रकृतेरुत्तरभेदभूताः सन्ति ' तासिं च णं उवग्गहिए अणंताणुवंधी कोहमाण-
मायालोभे खवेइ ' तासां च खलु चतसृणां नैरयिकगत्याद्युत्तरप्रकृतीनाम् चशब्दा-

तिरिक्खजोणियभवग्गहणेहितो अप्पाणं विसंजोएइ) अनन्त तिर्यच
भवग्रहणों से अपने को छुड़ा लेता है, अर्थात् वह इन अध्यवसायों के
प्रभाव से मर कर तिर्यचगति में नहीं जाता है, (अणंतेहिं मणुस्सभ-
वग्गहणेहितो अप्पाणं विसंजोएइ) वह अनन्त मनुष्य सम्बन्धी भवग्र-
हणों से अपनी अत्मा को छुड़ा लेता है (अणंतेहिं देवभवग्गहणेहितो
अप्पाणं विसंजोएइ) अनन्त देवसंबन्धी भवग्रहणों से अपने को छुड़ा
लेता है । (जाओ वि य से इमाओ नेरइयतिरिक्खजोणियमणुस्स देव
गइनामाओ चत्तारि उत्तरपयडीओ) तथा इसकी जो ये नरक, तिर्यच,
मनुष्य और देवगति नाम की चार मूल नामकर्म की उत्तरप्रकृतियां
हैं सो (तासिं च णं उवग्गहिए०) इन प्रकृतियों के तथा (च) शब्द
से गृहीत अन्य प्रकृतियों के औपग्रहिक-आधारभूत (अणंताणु

गहणेहितो अप्पाणं विसंजोएइ) अनन्त तिर्यच लवअड्ढोधी पोताना आत्माने
अथावी दे छे (अणंतेहिं मणुस्सभवग्गहणेहितो अप्पाणं विसंजोएइ) अनन्त
मनुष्य सम्बन्धी लवअड्ढोधी पोताने मुक्त करे छे, (अणंतेहिं देवभवग्गहणेहिं
तो अप्पाणं विसंजोएइ) अने अनन्त देवसम्बन्धी लवअड्ढोधी पोताना आत्माने
मुक्त करी दे छे अट्ठे के आ अध्यवसायेना प्रभावथी ते एव मरीने
नारक, तिर्यच, मनुष्य के देवगतिमा जेतो नथं।

(जाओ वि य से इमाओ नेरइयतिरिक्खजोणिय मणुस्सदेवगइनामाओ
चत्तारि उत्तरपयडीओ) तथा तेनी जे नरक, तिर्यच, मनुष्य अने देवगति
नामनी चार मूल नामकर्मनी उत्तर प्रकृतिये छे, " तासिं च णं उवग्गहिए "
ते प्रकृतियेना तथा " च " पदथी गृहीत अन्य प्रकृतियेना औपग्रहिक
(आधारभूत) (अणंताणुवंधी कोहमाणमायालोभे खवेइ) अनन्ताणुवंधी क्रोध,
मन, माया अने दोलइप उपायेने क्षय करे छे, (अणंताणुवंधी कोहमाण-

दन्व्यासां च औपग्रहिकान् उपष्टम्भप्रयोजनान् भाषारभूतानि 'यर्थ' अनन्तानुपन्धिना
 क्रोधमानमायालोमान् क्षपयति, अथ च 'अणतानुपन्धी क्रोहमाणमायालोमे
 स्वविद्या अपचक्रमाणकसाए क्रोहमाणमायालोमे स्ववेइ' अनन्तानुपन्धिना
 क्रोधमानमायालोमान् क्षपयित्वा अपत्याख्यानकपायरूपान् क्रोधमानमायालोमान्
 क्षपयति, 'अपचक्रमाणकसाए क्रोहमाणमायालोमे स्वविद्या पञ्चस्वाणावरण
 क्रोहमाणमायालोमे स्ववेइ' अपत्याख्यानकपायान् क्रोधमानमायालोमान्
 क्षपयित्वा प्रत्याख्यानानावरणक्रोधमानमायालोमान् क्षपयति, 'पञ्चस्वाणावरण
 क्रोहमाणमायालोमे स्वविद्या सजलणक्रोहमाणमायालोमे स्ववेइ' प्रत्याख्यानानावरण
 क्रोधमानमायालोमान् क्षपयित्वा सजलण क्रोधमानमायालोमान् क्षपयति
 'सजलणक्रोहमाणमायालोमे स्वविद्या पचविह नाणावरणिर्ज्ज, नचविह' धृतिगणा-

पन्धी क्रोहमाणमायालोमे स्ववेइ) अनन्तानुपन्धी सम्पन्धी क्रोध,
 मान, माया, लोभ इन चार कपायों को नष्ट करता है,
 (अणतानुपन्धी क्रोहमाणमायालोमे स्वविद्या अपचक्रमाणकसाए क्रोह
 माणमायालोमे स्ववेइ) इन अनन्तानुपन्धी सम्पन्धी क्रोध, मान, माया
 और लोभ कपायों को नष्ट कर के फिर यह अपत्याख्यान सम्पन्धी क्रोध,
 मान, माया और लोभ इन चार कपायों को नष्ट करता है, (अपचक्र
 माणकसाए क्रोहमाणमायालोमे स्वविद्या पचक्रमाणानावरणक्रोहमाण
 मायालोमे स्ववेइ) इन अपत्याख्यान सम्पन्धी क्रोध मान, माया, लोभ को
 नष्ट करके फिर यह प्रत्याख्यानानावरण सम्पन्धी क्रोध मान माया लोभ को
 नष्ट करता है। (पचक्रमाणानावरणक्रोहमाणमायालोमे स्वविद्या सजल
 णक्रोहमाणमायालोमे स्ववेइ) प्रत्याख्यानानावरण सम्पन्धी क्रोध मान माया
 लोभ को नष्ट करके फिर यह सजलण सम्पन्धी क्रोध, मान माया और
 लोभ को नष्ट करता है। (सजलण क्रोहमाणमायालोमे स्वविद्या पचविह

मायालोभ स्वविद्या अपचक्रमाणकसाए क्रोहमाणमाया लोभे स्ववेइ) आ अन
 न्तानुपन्धी क्रोध मान, भाषा અને લોભ કાપાયોને નષ્ટ કરીને તે અપत्या
 ખ્યાન સંપન્ની ક્રોધ માન, માયા અને લોભ આ ચાર કપાયોને નષ્ટ કરે છે,
 (અપચક્રમાણકસાએ ક્રોહમાણમાયાલોભ સ્વવિદ્યા પચક્રમાણાનાવરણ ક્રોહ
 માણમાયાલોમે સ્વવેइ) અપત્યાખ્યાન સંપન્ની ક્રોધ માન, માયા અને લોભને
 નષ્ટ કરે છે (પચક્રમાણાનાવરણક્રોહમાણમાયાલોભ સ્વવિદ્યા સજલણક્રોહ
 માણમાયા લોભ સ્વવેइ) પ્રત્યાખ્યાનાવરણ સંપન્ની ક્રોધ, માન માયા અને
 લોભને નષ્ટ કરે છે (સજલણક્રોહમાણમાયાલોભ સ્વવિદ્યા પચવિહ નાનાવર

વરણિજ્ઞં, પંચવિહમંતરાઈયં તાલમત્થકહં ચ ણં મોહણિજ્ઞં કદ્દુ' સંજ્વલનક્રોધમા
 નમાયાલોભાન્ ક્ષપયિત્વા પંચવિધં જ્ઞાનાવરણીયં કર્મ, મતિજ્ઞાનાવરણીયાદિભેદાત્,
 નવવિધં દર્શનાવરણીયં કર્મ, ચક્ષુર્દર્શનાઘાવરણચતુષ્કસ્ય નિદ્રાપશ્ચકસ્ય ચ
 મેલનાન્નવપ્રકારકં બોધ્યમ્, પશ્ચવિધમ્ આન્તરાયિકં કર્મ, દાનલાભભોગોપભોગ-
 વીર્યભેદાત્ પશ્ચપ્રકારકમ્, ક્ષપયતીતિ પૂર્વેગાન્વયઃ તત્ક્ષણપ્રકારમાહ-તાલમસ્તક
 કૃત્તં ચ ' કૃત્તં-દુચ્યાદિના છિન્નં મસ્તકં યસ્યાસૌ મસ્તકકૃત્તઃ તાલશ્વાસૌ મસ્તક
 કૃત્તશ્ચેતિ તાલમસ્તકકૃત્તઃ આર્પત્વાત્ કૃત્તશબ્દસ્ય પૂર્વપ્રયોગાભાવઃ તથા ચ
 છિન્નમસ્તકતાલમિવ મોહનીયં કૃત્વા ઇત્યર્થઃ, અયમાશયઃ યથાહિ છિન્નમસ્તક-
 સ્તાલવૃક્ષ ક્ષીણો ભવતિ તથા મોહનીયં કર્મ ક્ષીણં કૃત્વેતિ ભાવઃ, ઇતિ મોહની-

નાણાવરણિજ્ઞં, નવવિહં દરિસણાવરણિજ્ઞં, પંચવિહમંતરાઈયં તાલમત્થ-
 કહં ચ ણં મોહણિજ્ઞં કદ્દુ) સંજ્વલન ક્રોધ માન માયા ઓર લોભ કો
 ક્ષય કરકે યહ પાંચ પ્રકાર કે-મતિજ્ઞાનાવરણીય, શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય
 આદિ કે ભેદ સે પાંચ પ્રકાર કે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કો, ચક્ષુર્દર્શનાવર-
 ણીય, અચક્ષુર્દર્શનાવરણીય આદિ કે ભેદ સે નૌ પ્રકાર કે દર્શનાવરણીય
 કર્મ કો, દાનાન્તરાય, લાભાન્તરાય, ભોગાન્તરાય ઉપભોગાન્તરાય ઓર
 વીર્યાન્તરાય કે ભેદ સે પાંચ પ્રકાર કે અન્તરાય કો નષ્ટ કરકે ઇવં
 છિન્નમસ્તક વાલે તાલવૃક્ષ કી તરહ મોહનીય કો કરકે યહ અપૂર્વકરણ
 મેં પ્રવિષ્ટ હોતા હૈ । “ તાલમસ્તક કૃત્તં ” યહાં પર કર્મધારય સમાસ
 હુઆ । “ મસ્તકકૃત્ત ” મેં બહુવ્રીહિ સમાસ હુઆ । આર્ષ હોને સે કૃત્ત
 શબ્દ કા પૂર્વપ્રયોગ નહીં હુઆ હૈ । જિસ પ્રકાર સે છિન્ન મસ્તક વાલા
 તાલવૃક્ષ ક્ષીણ હો જાના હૈ વસી તરહ ઉસકા મોહનીય કર્મ ક્ષીણ હો

ણિજ્ઞં, નવવિહં દરિસણાવરણિજ્ઞં, પંચવિહમંતરાઈયં તાલમત્થકહં ચ ણં મોહણિજ્ઞં
 કદ્દુ) સંજ્વલન ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને ક્ષય કરીને મતિજ્ઞાનાવર-
 ણીય, શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય આદિ પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનાવરણીય કર્મને, ચક્ષુર્દર્શ-
 નાવરણીય, અચક્ષુર્દર્શનાવરણીય આદિ નવ પ્રકારના દર્શનાવરણીય કર્મને,
 દાનાન્તરાય, લાભાન્તરાય, ભોગાન્તરાય, ઉપભોગાન્તરાય અને વીર્યાન્તરાય,
 એ પાંચ પ્રકારના અન્તરાય કર્મને ક્ષય કરીને અને મોહનીય કર્મને છિન્ન
 મસ્તકવાળા તાલવૃક્ષ સમાન કરી નાખીને તે અપૂર્વકરણમાં પ્રવિષ્ટ થાય છે.
 “ મસ્તકકૃત્ત ” માં બહુવ્રીહિ સમાસ થયો છે આર્ષ હોવાથી કૃત્તશબ્દને
 પૂર્વપ્રયોગ થયો નથી જેવી રીતે તેના મોહનીયકર્મ ક્ષીણ થઈ જાય છે. આ
 યહ મોહનીય કર્મના વિશેષણ તરીકે વપરાયેલું લાગે છે, છતાં પણ તેનો

यस्य विशेषणत्वमङ्गीकृत्योक्तम्, वस्तुतस्तु ज्ञानावरणीयादीनां सर्वेषां विशेषणमिदं, तथा च अनन्तानुषङ्गादिस्वभावे तत्र क्षपिते सति ज्ञानावरणीयादिक क्षपयत्येव, तथा चाप्रपञ्चे तालमस्तकस्य च कृत्व क्रिया यस्य तालमस्तककृत्वस्य तदेवाविषयं च मोहनीयं भवति, इति कृत्वा यथाहि तालमस्तकविनाशक्रिया अवश्यमभिविनाशविनाशा, एव मोहनीयकर्मविनाशक्रियाऽपि अवश्यं भाषि श्लेषकर्मविनाशा भवति, तथा चोक्तम्—

“ मस्तकसूचिविनाशे, तालस्य यथा ध्रुवो भवति नाशः ।

तद्वत् कर्मविनाशोऽपि मोहनीयस्यै नित्यम् ” ॥ १ ॥

जाता है। यह विशेषण मोहनीय कर्म का है ऐसा मानकर यह कहा गया है परन्तु देखा जाय तो यह विशेषण ज्ञानावरणीय आदि सब कर्मों का है। तथा च—अनन्तानुषङ्गी आदि का स्वभाव क्षपित होने पर ज्ञानावरणीय आदि को यह नष्ट कर ही देता है। इस पक्ष में “ तालमस्तक के समान है “ कृत्व ” क्रिया जिसकी वह तालमस्तक कृत्व है—इस प्रकार का जब तालमस्तककृत्व मोहनीय होता है। तब अवश्य ही श्लेषकर्मों का विनाश होता है। जैसे—अवश्य भाषी है ताल विनाश जिसमें ऐसी तालमस्तक विनाश क्रिया होती है, उसी तरह से अवश्य भाषी है श्लेष कर्मों का विनाश जिसमें ऐसी मोहनीय कर्म विनाश क्रिया मी होती है। कहा मी है—“मस्तकसूचिविनाशे”। इत्यादि

जिस प्रकार सूर्य के समान तीक्ष्ण ऐसे मस्तक के अग्रभाग का विनाश होने पर ताडवृक्ष का विनाश अवश्य भाषी है—उसी प्रकार से मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने पर श्लेष कर्मों का विनाश मी अवश्य

ज्ञानावरणीय आदि अर्थात् कर्मोंना विशेषरूपेण पञ्च प्रयोग यथे छे, जेभ मानवार्थां पञ्च केषु वापि न्युजातो नशी, वशी अनन्तानुषङ्गी आदिने स्वभाव क्षपित यदा ज्ञानावरणीय आदिने ते नष्ट करी नाये न छे जेभ ताडवृक्षना भस्तकने छेही नाभवार्थां आवे तो ताडवृक्ष क्षीयु बर्ध ज्ये छे, तेभ त्पारे मोहनीयने ‘ताडमस्तक कृत्व’ करी नाभवार्थां आवे छे—त्पारे मोहनीय कर्मोंना क्षय करी नाभवार्थां आवे छे त्पारे जाहीनां कर्मोंना पञ्च अवश्य नाश यथे ज्ये छे जेवी रीते ताडवृक्षना भस्तकने छेही नाभवार्थां ताडवृक्षने अवश्य विनाश यामे छे जेभ प्रभावे मोहनीय कर्मोंना विनाश यवार्थां जन्म कर्मोंना पञ्च अवश्य विनाश यामे छे कर्णु पञ्च छे कं—

मस्तकसूचिविनाशे । इत्यादि

सोचना समान तीक्ष्ण जेवा भस्तकना अव्ययार्थने विनाश यदा जेवी रीते ताडवृक्षने अवश्य विनाश यामे छे, जेभ प्रभावे मोहनीय कर्मोंना नाश यथे

इति । ततश्च 'कम्मरयविकरणकरं अपुव्वकरणं' कर्मरजोविकरणकरं कर्म-
रजोविक्षेपकम् अपूर्वकरणम् असदृशाध्यवसायविशेषणम्, 'अणुप्पविट्ठस्स अणंते-
अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुन्ने केवलवरणाणदंसणे समुप्पन्ने'
अनुप्रविष्टस्य प्रतिपन्नावधिज्ञानस्य पुरुषस्य विषयानन्त्यात् अनन्तम्, सर्वोत्तम-
त्वात् अनुत्तरम्, कटकुडघादिभिरप्रतिहननात् निर्व्याघातम्, सर्वथा स्वावरण-
क्षयात् निरावरणम्, सकलार्थग्राहकत्वात् कृत्स्नम्, सकलस्वांशयुक्ततयोत्पन्न-
त्वात् प्रतिपूर्णं, केवलवरज्ञानदर्शनम् अभिधानापेक्षया केवलम् केवलात्मक
मित्यर्थः ज्ञानान्तरापेक्षया वरं श्रेष्ठं ज्ञानं च दर्शनं च समुत्पन्नं भवति॥ सू० ३ ॥

भावी है। तात्पर्य इस कथन का यही है कि "मोहक्षयात् ज्ञानदर्शना-
वरणान्तरायक्षयाच्च केवलं" सब से प्रथम मोहनीय कर्म का क्षय क्रिया
जाता है इसके क्षय होते ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय
इनका क्षय होता है। यहां पर जो अनन्तानुबंधी आदि कषायों का क्षय
प्रकट किया गया है उससे सूत्रकार ने यही बात प्रदर्शित की है। इस
तरह (कम्मरयविकरणकरं अपुव्वकरणं अणुपविट्ठस्स) कर्मरज को
विखेरने वाले अपूर्वकरण में असदृश अध्यवसाय में प्रविष्ट हुए इस
प्रतिपन्न अवधिज्ञान वाले पुरुष को विषयों की अनन्तता से "अणंते"
अनन्त (अणुत्तरे) सर्वोत्तम होने से अनुत्तर, (निव्वाघाए) कट कुडघ
आदि द्वारा अप्रतिहत होने से निर्व्याघात (निरावरणे) आवरण कर्म
के सर्वथा क्षय होने से निरावरण, (कसिणे) सकलार्थ ग्राहक होने से
कृत्स्न (पडिपुन्ने) सकलस्वांशयुक्त रूप से उत्पन्न होने से प्रतिपूर्ण, ऐसे

जवाथी भाडीनां कर्मेनां पणु अवश्य विनाश थाय छे. आ कथनतुं तात्पर्यं ज्ये
छे के (मोहक्षयात् ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवल) सौथी प्रथम मोह-
नीय कर्मेनां क्षय करवाभां आवे छे, तेना क्षय थतां ज्ञानावरणीय, दर्शना-
वरणीय अने अन्तराय कर्मेनां क्षय यछ जय छे अडीं जे अनंतानुबंधी
आदि कषायेना क्षय प्रकट करवाभा आव्ये छे, तेना द्वारा सूत्रकारे ज्ये वात
प्रदर्शित करी छे. आ रीते (कम्मरयविकरणकरं अपुव्वकरणं अणुपविट्ठस्स)
कर्मरजने विषेरनार अपूर्वकरणमा असदृश अध्यवसायमां प्रविष्ट थथेला ते
प्रतिपन्न अवधिज्ञानवाणा पुरुषने "अणंते" अनन्त, (विषयेनी अनंततानी
अपेक्षाजे अनन्त) "अणुत्तरे" अनुत्तर (सर्वोत्तम), "निव्वाघाए" निर्व्या-
घात (यद्दुर्घ, द्विवाल आदि द्वारा अचरोधी न शक्य ज्येवी) "निरावरणे"
आवरक कर्मेनां सर्वथा क्षय थवाथी निरावरणु, "कसिणे" सकल यद्येनि

केवलिवक्तव्यता

पुनरमाह—'से णं भते' इत्यादि ।

मृषम्—से णं भते ! केवलिवक्तव्यता धम्म आघवेज्ज वा पणवेज्ज वा परुवेज्ज वा ? नो इण्टे समट्ठे णण्णत्थ एगणा एण वा एगवागरणेण वा । सेण भते ! पन्नावेज्ज वा, मुढावेज्ज वा?, णो इण्टे समट्ठे, उवदेस पुण करेज्जा । से णं भते ! सिज्झइ, जाव अत करेइ ? हुता । सिज्झइ जाव अत करेइ ॥ सू० ४ ॥

छाया—स खलु मदन्त ! केवलिवक्तव्यता धर्मम् आख्यापयद् वा, महापयद् वा, प्ररूपयेद् वा ? नायमर्थं समर्थं, नान्यत्र एकज्ञातेन वा, एकन्याकरणेन वा । स खलु मदन्त ! मन्नाजयद् वा, मुण्डयद् वा, ? नायमर्थः समर्थः, उपदेशं

(केवलिवक्तव्यतास्य समुत्पन्ने) केवलिवक्तव्यता और केवल दर्शन उत्पन्न हो जाते हैं ॥ सू० ३ ॥

केवलिवक्तव्यता—

(से णं भते ! केवलिवक्तव्यता धम्म आघवेज्ज वा) इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(से णं भते ! केवलिवक्तव्यता धम्म आघवेज्ज वा, पणवेज्ज वा परुवेज्ज वा) हे भवन्त ! यह केवली केवलिवक्तव्यता धम्म का कथन करता है क्या ? उसे प्रज्ञापित करता है क्या ? उसकी प्ररूपणा करता है क्या ? (णो इण्टे समट्ठे णण्णत्थ एगणाएण वा एग वागरणेण वा) हे गौतम ! एक उदाहरण और एक प्रश्न के उत्तर देने के लिये यह अर्थ समर्थ

अदलु इरनाइ, " वडिपुम्मे " प्रतिपुल्लुं ओवु " केवलिवक्तव्यतास्य समुत्पन्ने " केवलिवक्तव्यता और केवलदर्शन उत्पन्न अर्थ अथ ॥ सू० ३ ॥

केवलि वक्तव्यता—

"से णं भते ! केवलिवक्तव्यता धम्म आघवेज्ज वा" इत्यादि

सूत्रार्थ—(से णं भते ! केवलिवक्तव्यता धम्म आघवेज्ज वा पणवेज्ज वा, परुवेज्ज वा) हे भवन्त ! ते केवलिवक्तव्यता श्रुति केवलिवक्तव्यता धम्म अर्थ अथ ॥ सू० ३ ॥
 अथ ? तेने प्रज्ञापित करे छे अथ ? तेनी प्ररूपणा करे छे अथ ? (णो इण्टे समट्ठे णण्णत्थ एगणाएण वा एग वागरणेण वा) हे गौतम ! ओ ७६६२५

पुनः कुर्यात्, । स खलु भदन्त ! सिध्यति यावत् अन्तं करोति ? इन्तं सिध्यति, यावत् अन्तं करोति ॥ सू० ४ ॥

टीका—गौतमः पृच्छति—‘ से णं भंते ! केवलिपन्नत्तं धम्मं आघवेज्ज वा, पन्नवेज्ज वा, परुवेज्ज वा ? ’ हे भदन्त ! स खलु केवलिप्रभृतेः सकाशाद् अश्रुत्वाऽपि प्राप्तकेवलज्ञानः केवली किं केवलिप्रज्ञप्तम् केवलिभिरुपदिष्टं धर्मम् आख्यापयेद् वा सामान्यतया विशेषतया वा कथयेद् वा, प्रज्ञापयेद् वा वचन

नहीं है। (से णं भंते ! पन्नावेज्ज वा, सुंढावेज्ज वा) हे भदन्त ! वह केवली किसी को दीक्षा देता है क्या किसी को मुण्डित करता है क्या ? (णो इण्ढे सम्ढे, उवदेसं पुण करेज्जा) हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है पर वह दीक्षा लेने के लिये उपदेश दे सकता है। (से णं भंते ! सिज्झइ, जाव अंतं करेइ) हे भदन्त ! वह केवली सिद्ध होता है क्या ? यावत् समस्त दुःखों का अन्त करता है क्या ? (हंता, सिज्झइ जाव अंतं करेइ) हां, गौतम ! वह केवली सिद्ध होता है यावत् समस्त दुःखों का अन्त करता है।

टीकार्थ—गौतम प्रभु से पूछते हैं—(से णं भंते ! केवलिपन्नत्तं धम्मं आघवेज्ज वा, पन्नवेज्ज वा, परुवेज्ज वा) हे भदन्त ! क्या वह अश्रुत्वा-केवलज्ञानी-केवली आदि के पास बिना सुने भी जिसने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया है—ऐसा केवली क्या केवली द्वारा प्रतिपादित धर्म को सामान्य या विशेषरूप से प्रतिपादित कर सकता है ? वचनपर्याय आदि के भेद

अने એક પ્રશ્નો ઉત્તર દીધા સિવાય આ અર્થ સમર્થ નથી. એટલે કે તે એકાદ ઉદાહરણ આપી શકે છે કે એકાદ પ્રશ્નો ઉત્તર આપી શકે છે પણ પ્રપણા કરી શકતા નથી (સે ણં ભંતે ! પવ્વાવેજ્જ વા, સુંઢાવેજ્જ વા ?) હે ભદન્ત ! તે કેવળજ્ઞાની કોઈને દીક્ષા આપે છે ખરો ? અથવા કોઈને મુડિત કરે છે ખરો ? (ણો ઇણ્ઢે સમ્ઢે, ઉવદેસં પુણ કરેજ્જા) હે ગૌતમ ! આ અર્થ સમર્થ નથી—એવું ણનતું નથી, પણ તે દીક્ષાનો ઉપદેશ દઈ શકે છે (સે ણ મંતે ! સિજ્ઝહ, જાવ અંતં કરેइ) હે ભદન્ત ! તે સિદ્ધપદ પામે છે ખરો ? યાવત્ સમસ્ત દુ ખોનો અન્ત કરે છે ખરો ? (હંતા, સિજ્ઝહ, જાવ અ તં કરેइ) હા, ગૌતમ ! તે કેવળજ્ઞાની સિદ્ધ થાય છે અને સમસ્ત દુઃખોનો અંત કરે છે.

टीकार्थ—गौतम स्वामी महावीर प्रभुने पूछे છે કે—(से णं भंते ! केवलिपणत्तं धम्मं आघवेज्ज वा) हे भदन्त ! शुं ते अश्रुत्वा केवणज्ञानी (केवले केवली आदिनी समीपे उपदेश सांभल्या विना केवणज्ञान प्राप्त करी वीधुं डाय

पर्यायादिभेदेन नामादिभेदेन वा कथयेद् वा, प्रकथयेद् वा स्वरूपतः कथयेद् वा ? मगवानाह—‘ णो इणद्धे समद्धे ’ हे गौतम ! नायमर्थः समर्थः अभुत्वा प्राप्त-
केवलज्ञान केवली, केवललिपिज्ञान धर्म नाख्यापयेत्, न वा प्रज्ञापयेत्, नैव वा
प्रकथयेत्, किन्तु ‘ गण्यस्य एगणाएण वा, एगवागरणेण वा ’ नान्यत्र एक
ज्ञातेन वा एकोदाहरणेन, एकव्याकरणेन वा एकप्रश्नस्योपहरदानेन वा । गौतमः
पृच्छति—‘ से ण भंते पण्णावेज्ज वा, मुहावेज्ज वा ? ’ हे भद्र ! स खलु अधु
त्वा केवली किं प्रज्ञापयेद् रजोहरणसदोरकमुखवस्त्रिकादिद्रव्यलिङ्गदानेन शिष्येभ्यः

द्वारा या नामादि भेद द्वारा उसकी प्रज्ञापना कर सकता है क्या ? या
स्वरूपतः उसका कथन कर सकता है क्या ? इसके उत्तर में प्रभु कहते
हैं—(णो इणद्धे समद्धे) हे गौतम ! जिसने केवली आदि से बिना सुने
केवलज्ञान प्राप्त किया है ऐसा केवली केवली द्वारा प्रतिपादित धर्म की
प्रकथना नहीं कर सकता है, न उसकी वह प्रज्ञापना कर सकता है
और न वह उसका स्वरूपतः प्रतिपादन कर सकता है । किन्तु—
(गण्यस्य एगणाएण वा एग वागरणेण वा) यह एक उदाहरण दे सकता
है और एक प्रश्न का उत्तर दे सकता है । इसके सिवाय वह धर्म का
उपदेश नहीं दे सकता है ।

अथ गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(से ण भंते । पण्णावेज्ज वा,
मुहावेज्ज वा) यह अधुत्या केवली क्या प्रज्ञप्ता—रजोहरण सदोरक
मुखवस्त्रिका आदि रूप द्रव्यलिङ्ग का अपने शिष्यों के लिये देने रूप

छे तेने अभुत्वा केवली कहे छे) केवली द्वारा प्रतिपादित धर्मनि सामान्य के
के विशेषरूपे प्रतिपादित करी शके छे ? “ पण्णेज्ज वा ” वचन पर्याय आरिना
वेद द्वारा अथवा नामादि वेद द्वारा तेनी प्रज्ञापना करी शके छे ? अथवा
स्वरूपतः तेनु कथन करी शके छे ?

भद्रावीर प्रभुने उत्तर—(णो इणद्धे समद्धे) हे गौतम ! जेजे केवली
आदि पासे धर्मोपदेश अवलु कथां विना केवलज्ञान प्राप्त कथु होय छे जेजे
केवलज्ञानी केवली द्वारा प्रतिपादित धर्मनी प्रज्ञप्ता करी शकते नथी, तेनी
प्रज्ञापना पणु करी शकते नथी, अने ते तेनु स्वरूपतः प्रतिपादन करी शकते
नथी पणु “ जग्यस्य एगणाएण वा एग वागरणेण वा ” ते जेके उदाहरण
आपी शके छे अने जेके प्रश्नने उत्तर आपी शके छे ते सिवाय ते धर्मनि
उपदेश न शकते नथी

गौतम आरिनि प्रश्न—(से ण भंते । पण्णावेज्ज वा मुहावेज्ज वा)
हे भद्र ! तु ते अभुत्वा केवली प्रकथना आनाशिने देवजुं छे, के आपीश

प्रव्रज्यां दद्याद् वा ? मुण्डयेद् वा ? शिरोलुञ्चनतो मुण्डनं कुर्याद् वा ? भगवानाह—
 ' जो इणट्टे समट्टे, उवदेसं पुण करेज्जा' हे गौतम ! नायमर्थः समर्थः, स खलु
 अश्रुत्वा केवलशिष्येभ्यः प्रव्रज्यां न दातुमर्हेत्, न वा शिरोलुञ्चनलक्षणं मुण्डनं
 कर्तुमर्हेत्, किन्तु—उपदेशं पुनः कुर्यात् ' इति । गौतमः पृच्छति—' से णं भंते !
 सिज्झइ जाव अंतं करेइ ? ' हे भदन्त ! स खलु केवली किं सिध्यति, यावत्-
 बुध्यते, मुच्यते परिनिर्वाति सर्वदुखानामन्तं करोति ? भगवानाह—' हंता,
 सिज्झइ, जाव अंतं करेइ ' हे गौतम ! हन्त सत्यम् स केवली सिध्यति, यावत्-
 बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति, सर्वदुखानामन्तं करोति चेति ॥ सू० ४ ॥

दीक्षा, और शिरोलुञ्चन करके उन्हें मुण्डित करने रूप मुंडन करना ये काम कर सकता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(जो इणट्टे समट्टे, उवदेसं पुण करेज्जा) हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है अर्थात् अश्रुत्वा केवली अपने शिष्यों के लिये न दीक्षा दे सकता है और उन्हें मुण्डित-केशलुञ्चनादिरूप से उनका मुण्डन कर सकता है । किन्तु वह उन्हें उपदेश कर सकता है—उनसे अमुक के पास दीक्षा धारण करो—ऐसा उपदेश दे सकता है ।

अब गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(से णं भंते ! सिज्झइ, जाव अंतं करेइ) हे भदन्त ! वह अश्रुत्वा केवली क्या सिद्ध होता है, यावत् समस्त दुःखों का अन्त करता है ? यहां यावत् शब्द से " बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति " इन क्रियापदों का ग्रहण किया गया है । इसके

इयं मुंडन करवानु कार्यं करी शके छे ? (रत्नेहरणु, सटोरकमुअवस्त्रिका आदि इयं द्रव्यलिंग पोताना शिष्येने माटे आपवाइय दीक्षाने प्रव्रज्या कडे छे शिरना वाण हाथथी जेची हाठवानी डियाने मुंडन किया कडे छे.)

महावीर प्रभुने उत्तर—(जो इणट्टे समट्टे, उवदेसं पुण करेज्जा) हे गौतम ! आ वात परापर नथी अटले के अश्रुत्वा केवली पोताना शिष्येने दीक्षा दई शकतो नथी अने तेमना केशलुञ्चननु कार्यं पणु करी शकतो नथी. परन्तु ते तेमने उपदेश दई शके छे—अमुक व्यक्ति पासे दीक्षा अंगीकार करवाने उपदेश ते तेमने आपी शके छे.

गौतम स्वामीने प्रश्न—(से णं भंते ! सिज्झइ, जाव अंतं करेइ ?) हे भदन्त ! ते अश्रुत्वा केवली शु सिद्ध थाय छे, (बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति) मुद्ध थाय छे, मुक्त थाय छे, समस्त कर्मेना संपूर्ण क्षय करे छे अने समस्त दुःखोने अंत करे छे ?

પુનસ્વાદ્યકેચલિનકન્યતા

પુનરપ્યાહ—‘ સે ષ મતે ! ’ इत्यादि ।

મૂષ્મ-સે ણં મંતે ! કિં ઉદ્ધુ હોજ્જા, અહો હોજ્જા, તિરિય હોજ્જા ? ગોયમા ! ઉદ્ધુ વા હોજ્જા, અહો વા હોજ્જા । તિરિય વા હોજ્જા ઉદ્ધુ હોજ્જમાણે સદ્વાવહ - વિયદાવહ - ગંધાવહ - માલવતપરિયાપસુ વદ્ધવેયદ્ધુપલ્વપસુ હોજ્જા, સાહરણં પદ્ધુચ્ચ સોમણસવણે વા, પદ ગવણે વા હોજ્જા । અહે હોજ્જમાણે ગદ્ધાપ વા, દરીણ વા, હોજ્જા, સાહરણ પદ્ધુચ્ચ પાયાલે વા, મવણે વા હોજ્જા । તિરિય હોજ્જમાણે પદ્ધુચ્ચ કમ્મમૂમીસુ હોજ્જા, સાહરણં પદ્ધુચ્ચ અદ્ધાદ્ધુજ્જે દીવસમુદ્ધે, તવેક્કવેસમાપ હોજ્જા । સેણ મતે ! યગસમણં કેવદ્ધયા હોજ્જા ? ગોયમા ! જહ્ણણેણ ઈકો વા, દો વા, તિલ્લિ વા, ઉક્કોસેણં દસ, સે સેણટ્ટેણ ગોયમા ! યવ વુદ્ધવહ્ અસોચ્ચાણં કેવલ્લસ્સ વા જાવ અત્યેગદ્ધપ્ કેવલિપદ્ધત્ત ધમ્મ લમેજ્જ સવણયાપ્, અત્યેગદ્ધપ્ અસોચ્ચાણં કેવલિં જાવ નો લમેજ્જ સવણયાપ્ જાવ અત્યેગદ્ધપ્ કેવલનાણં ઉપ્પાદેજ્જા, અત્યેગદ્ધપ્ કેવલનાણ નો ઉપ્પાદેજ્જા ॥ સૂં ૫ ॥

છાયા—સ સલ મદન્ત ! કિમ્ કર્ણે મવતિ ? મપો મવતિ ? તિર્ય્ણ મવતિ ? ગૌતમ ! કર્ણે ષા મવતિ, મપો ષા મવતિ, તિર્ય્ણ ષા મવતિ । કર્ણે

વત્તરમે પ્રસુ કહતે હૈ—(હતા, સિગ્ગહ જાવ અન્ત કરેહ) હાં, ગૌતમ ! વહ અચુત્થા કેવલી સિદ્ધ હોતા હૈ યાવત્ સમસ્ત દુઃખ્વોક્તા અન્ત કરતા હૈ ॥ સૂં ૪ ॥

મદાવીર પ્રશ્નને ઉત્તર—(હતા સિગ્ગહ જાવ અન્ત કરેહ) હા, ગૌતમ ! તે અચુત્થા કેવલી સિદ્ધ થાય છે, પુદ્ધ થાય છે, મુક્ત થાય છે, સમસ્ત ક્ષેત્રોના નાશ કરે છે અને સમસ્ત દુઃખોને અન્ત કરી નાખે છે ॥ સૂં ૪ ॥

भवन शब्दापाति-विकटापाति-गन्धापाति-माल्यवन्तपर्यायेषु वृत्तवैताढ्यपर्वतेषु भवति । संहरणं प्रतीत्य सौमनस्यवने वा, पाण्डुकवने वा भवति, अधो भवनं गर्ते वा, दर्या वा, भवति, संहरणं प्रतीत्य पाताले वा, भवने वा, भवति, तिर्यग् भवनं

पुनः केवलि चक्तव्यता-

(से णं भंते ! किं उड्डं होज्जा अहो होज्जा) इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(से णं भंते ! किं उड्डं होज्जा, अहो होज्जा, तिरियं होज्जा) हे भदन्त ! वह अश्रुत्वा केवली क्या उर्ध्वलोक में होता है, या अधोलोक में होता है, या तिर्यक् लोक में होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (उड्डं वा होज्जा, अहो वा होज्जा, तिरियं वा होज्जा) वह अश्रुत्वा केवली उर्ध्वलोक में भी होता है, अधोलोक में भी होता है, तिर्यक् लोक में भी होता है । (उड्डं होज्जमाणे सदावइ, वियडावइ गंधावइ मालवन्त परियाएसु वड्डवेयड्ड पव्वएसु होज्जा) यदि वह उर्ध्वलोक में होता है तो शब्दापाति, विकटापाति, गंधापाति और माल्यवन्त इन नाम वाले वृत्तवैताढ्य पर्वतों में होता है तथा (साहरणं पडुच्च सोमणसवणे वा, पंडगवणे वा-होज्जा) संहरण की अपेक्षा से वह सौमनस्यवन में या पाण्डुकवन में होता है । (अहे होज्जमाणे गड्ढाए वा दरीए वा, होज्जा, साहरणं पडुच्च पायाले वा भवणे वा, होज्जा) यदि वह अधोलोक में

केवलीनी विशेष चक्तव्यता—

“ से णं भंते ! किं उड्डं होज्जा अहो होज्जा ” इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(से णं भंते ! किं उड्डं होज्जा, अहो होज्जा तिरियं होज्जा ?) हे भदन्त ! ते अश्रुत्वा केवली शुं उर्ध्वलोकमां डोय छे के अधोलोकमां डोय छे, ते तिर्यग्लोकमां डोय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (उड्डं वा होज्जा, अहो वा होज्जा, तिरियं होज्जा) ते अश्रुत्वा केवली उर्ध्वलोकमां पणु डोय छे, अधोलोकमां पणु डोय छे अने तिर्यग्लोकमां पणु डोय छे (उड्डं होज्जमाणे सदावइ, वियडावइ गंधावइ मालवन्तपरियाएसु वड्डवेयड्ड पव्वएसु होज्जा) अने तेओ उर्ध्वलोकमां डोय छे, तो शब्दापाति, विकटापाति, विकटापाति, गंधापाति, अने माल्यवन्त, आ नामवाणा वृत्तवैताढ्य पर्वतमां डोय छे तथा (साहरणं पडुच्च सोमणसवणे वा, पंडगवणे वा होज्जा) संहरणकी अपेक्षासे ते सौमनस वनमां के पंडुक वनमां डोय छे । (अहे होज्ज-

पुनस्तादृशकेवलिकम्पता

पुनरप्याह—' से ष भते ।' इत्यादि ।

मूष्म्-से ष भते । किं उडु होज्जा, अहो होज्जा, तिरिय होज्जा ? गोयमा ! उडु वा होज्जा, अहो वा होज्जा । तिरिय वा होज्जा उडु होज्जमाणे सहावइ -- वियडावइ -- गंधावइ -- मालवतपरियापसु वट्टवेयइपव्वपसु होज्जा, साहरणं पडुच्च सोमणसवणे वा, पडु गवणे वा होज्जा । अहे होज्जमाणे गइाप वा, दरिण वा, होज्जा, साहरण पडुच्च पायाले वा, भवणे वा होज्जा । तिरिय होज्जमाणे पअरसु कम्ममूमीसु होज्जा, साहरणं पडुच्च अइाइज्जे दीवसमुहे, तदेकदेसभाए होज्जा । तेण भते । पगसमएणं केवइया होज्जा ? गोयमा ! जहणणेण एको वा, दो वा, तिस्सि वा, उक्कोसेणं दस, से तेणट्टेण गोयमा ! एव वुच्चइ असोच्चारणं केवलस्स वा जाव अत्येगइए केवलपसु च धम्म लभेज्ज सवणयाए, अत्येगइए असोच्चारणं केवलि० जाव नो लभेज्ज सवणयाए जाव अत्येगइए केवलनाणं उप्पाडेज्जा, अत्येगइए केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा ॥ सू० ५ ॥

छाया—स खलु मदन्त ! किम् ऊर्षं भवति ? अपो भवति ? तिर्यग् भवति ? गौतम ! ऊर्षं वा भवति, अपो वा भवति, तिर्यग् वा भवति । ऊर्षं

उत्तरमें मनु कहते हैं—(ईता, सिज्जइ जाव भंत करेइ) हां, गौतम ! वह मनुष्या केवली सिद्ध होता है यावत् समस्त दुःखोक्ता अन्त करता है ॥ सू० ५ ॥

मदाचीर मनुने उत्तर—(हांता सिज्जइ जाव भव करेइ) हां, गौतम ! ते मनुष्या केवली सिद्ध यावत् उ, सुद्ध यावत् उ, मुद्ध यावत् उ, समस्त विभिन्नि नाय उरे उ अने समस्त दुःखोक्ता अन्त करी नाये उ ॥ सू० ५ ॥

भवन शब्दापाति-विकटापाति-गन्धापाति-माल्यवन्तपर्यायेषु वृत्तवैताढ्यपर्वतेषु भवति । संहरणं प्रतीत्य सौमनस्यवने वा, पाण्डुकवने वा भवति, अधो भवनं गते वा, दर्या वा, भवति, संहरणं प्रतीत्य पाताले वा, भवने वा, भवति, तिर्यग् भवनं

पुनः केवलि वक्तव्यता-

(से णं भंते ! किं उडुं होज्जा अहो होज्जा) इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(से णं भंते ! किं उडुं होज्जा, अहो होज्जा, तिरियं होज्जा) हे भदन्त ! वह अश्रुत्वा केवली क्या उर्ध्वलोक में होता है, या अधोलोक में होता है, या तिर्यक् लोक में होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (उडुं वा होज्जा, अहो वा होज्जा, तिरियं वा होज्जा) वह अश्रुत्वा केवली उर्ध्वलोक में भी होता है, अधोलोक में भी होता है, तिर्यक् लोक में भी होता है । (उडुं होज्जमाणे सदावइ, वियडावइ गंधावइ मालवंत परियाएसु वडुवेयडु पव्वएसु होज्जा) यदि वह उर्ध्वलोक में होता है तो शब्दापाति, विकटापाति, गंधापाति और माल्यवन्त इन नाम वाले वृत्तवैताढ्य पर्वतों में होता है तथा (साहरणं पडुच्च सोमणसवणे वा, पंडगवणे वा होज्जा) संहरण की अपेक्षा से वह सौमनस्यवन में या पण्डकवन में होता है । (अहे होज्जमाणे गड्ढाए वा दरीए वा, होज्जा, साहरणं पडुच्च पायाले वा भवणे वा, होज्जा) यदि वह अधोलोक में

केवलीनी विशेष वक्तव्यता—

“ से णं भंते ! किं उडुं होज्जा अहो होज्जा ” इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(से णं भंते ! किं उडुं होज्जा, अहो होज्जा तिरियं होज्जा ?) हे भदन्त ! ते अश्रुत्वा केवली शुं उर्ध्वलोकमां डाय छे के अधोलोकमां डाय छे, ते तिर्यग्लोकमां डाय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (उडुं वा होज्जा, अहो वा होज्जा, तिरियं होज्जा) ते अश्रुत्वा केवली उर्ध्वलोकमां पणु, डाय छे, अधोलोकमां पणु डाय छे अने तिर्यग्लोकमां पणु डाय छे. (उडुं होज्जमाणे सदावइ, वियडावइ गंधावइ मालवन्तपरियाएसु वडुवेयडु पव्वएसु होज्जा) अने तेयो उर्ध्वलोकमां डाय छे, तो शब्दापाति, विकटापाति, विकटापाति, गंधापाति, अने माल्यवन्त, आ नामवाणा वृत्तवैताढ्य पर्वतमां डाय छे तथा (साहरणं पडुच्च सोमणसवणे वा, पंडगवणे वा होज्जा) सडु-
रणी अपेक्षासे ते सौमनस वनमां के पंडक वनमां डाय छे. (अहे होज्ज-

પશ્ચરસુ કર્મમૂનિષુ મવતિ । સહરણ પ્રતીત્ય મર્ષવૃત્તીયે દ્વીપસમુદ્રે તલેકલેસમાગે
મવતિ । તે સ્વલુ મદન્ત ! એકસમયેન ક્રિયન્તો મવન્તિ ? ગૌતમ ! જમ્બવેન
એકો વા, દ્વી વા, પ્રયો વા, ઉત્કર્ષેણ વસ, તત્ તેનાર્થેન ગૌતમ ! અમુચ્યતે-
અમુત્વા સ્વલુ કેવલિનો વા યાવત્ અસ્ત્યેકકઃ કેવલિપદ્મર્ષે પર્મ સમત, ધવમ
તયા, અસ્ત્યેકકઃ અમુત્વા સ્વલુ કેવલિનો યાવત્ નો સમેષ ધનશતયા, યાવત્
અસ્ત્યેકકઃ કેવલજ્ઞાનમુત્પાદયેત્, અસ્ત્યેકક કેવલજ્ઞાનં નોત્પાદયેત્ ॥ સૂ૦ ૬ ॥

હોતા હૈ તો ગર્સ મેં-અબોલોક ગ્રામાલિક મેં યા શુકા મેં હોતા હૈ તથા
સહરણ કી અપેક્ષા વહ પાતાલકલશમૈં યા મ્બનવાસી દેવોં કે મ્બન મેં
હોતા હૈ । (તિરિયં હોજમાણે પશ્ચરસુ કમ્મમૂમીસુ હોજ્જા, સાહરણ
પદુષ્ચ અહ્ઠાહ્ઠ્ઠે વીવસમુદ્રે, તલેકલેસમાગે હોજ્જા) યદિ વહ તિર્યક્
લોક મેં હોતા હૈ તો પત્રહકર્મમૂમિયોં મેં હોતા હૈ । સંહરણ કી અપેક્ષા
સે વહ અવાઈ દ્વીપ સમુદ્રોં કે એકમાગ મેં હોતા હૈ । (તે પં મંતે ! પગ
સમપ્ણ કેવહયા હોજ્જા) હે મદન્ત ! વે અમુત્વા કેવલજ્ઞાની એક સમય
મેં કિતને હોતે હૈ ? (ગોયમા) હે ગૌતમ ! (જહ્ણેણ એકો વા, વો વા
તિમિ વા ઉક્ષેણ વસ સે તેણ્ણે ગોયમા ! એવં વુચ્ચહ અસોચ્ચા ણ
કેવલિસ્સ વા જાવ અત્યેગહ્ણ કેવલિપદ્મર્સ પમ્મ સમેજ્જ સવળયાપ
અત્યેગહ્ણ અસોચ્ચા ણ કેવલિ જાવ નો સમેજ્જ સવળયાપ જાવ અત્યે
ગહ્ણ કેવલનાણ ઉપ્પાદેજ્જા અત્યેગહ્ણ કેવલનાણ નો ઉપ્પાદેજ્જા)
અમુત્વા કેવલજ્ઞાની એક સમય મેં કમ સે કમ એક વો ઓર તીન તક

માણે ગજ્ઞાપ વા વૃષિ વા, હોજ્જા, સાહરણ પદુષ્ચ પાપાલે વા મ્બને વા હોજ્જા)
ને તે અપીલોકમાં હોય છે તે ગત્તમાં-અપીલોકના બ્રામાલિકામાં અથવા
શુકામાં હોય છે તથા સહરણની અપેક્ષાએ તે પાતાલકલશમાં કે ભવનવાસી
દેવોના ભવનમાં હોય છે । (તિરિયં હોજમાણે પશ્ચરસુ કમ્મમૂમીસુ હોજ્જા,
સાહરણ પદુષ્ચ અહ્ઠાહ્ઠ્ઠે વીવસમુદ્રે તલેકલેસમાગે હોજ્જા) ને તેએ તિર્ષ
લોકમાં હોય છે, તે પશ્ચર કમ્મમૂમિએમા હોય છે અને સહરણની અપેક્ષાએ
અહીં દ્વીપસમુદ્રોના એક ભાગમાં હોય છે । (તે પં મંતે ! પગ સમપ્ણ કેવહયા
હોજ્જા ?) હે મદન્ત ! અમુત્વા કેવલજ્ઞાની એક સમયમાં કેટલા યદિ શકે છે ?
(ગોયમા !) હે ગૌતમ ! (જહ્ણેણ એકો વા, વો વા, તિમિ વા, ઉક્ષેણ-વસ
સે તેણ્ણે ગોયમા ! એવં વુચ્ચહ અસોચ્ચાણં કરલિંસ વા જાવ અત્યેગહ્ણ કેવ
લિપ્પણ્ણ પમ્મ સમેજ્જ સવળયાપ અત્યેગહ્ણ અસોચ્ચાણં કેવલિ સત્ત મો સમેજ્જ
સવળયાપ જાવ અત્યેગહ્ણ કેવલનાણ ઉપ્પાદેજ્જા અત્યેગહ્ણ કેવલનાણ નો ઉપ્પાદેજ્જા)
અમુત્વા કેવલજ્ઞાની એક સમયમાં એક, બે અથવા ત્રણ વાચ છે અને એક

टीका—गौतमः पृच्छति—‘से णं भंते ! किं उड्डुं होज्जा ? अहे होज्जा ? तिरियं होज्जा ?’ हे भदन्त ! स खलु अश्रुत्वा केवली किम् ऊर्ध्वम्=ऊर्ध्वलोके भवति ? किं वा अधः=अधोलोके भवति ? किं वा तिर्यग्गुलोके भवति ? भगवानाह—‘गोयमा ! उड्डुं वा होज्जा, अहे वा होज्जा, तिरियं वा होज्जा,’ हे

हो सकते हैं—तथा अधिक से अधिक दश तक हो सकते हैं। इसलिये हे गौतम ! मैंने ऐसा कहा है कि केवली आदि के समीप धर्म श्रवण किये बिना किसी जीव को धर्म श्रवण का लाभ होता है और किसी जीव को केवली आदि के समीप धर्म श्रवण किये बिना केवलीप्रणीत धर्म श्रवण का लाभ नहीं होता है। यावत् कोई जीव केवलज्ञान को उत्पन्न कर लेता है और कोई जीव केवलज्ञान को उत्पन्न नहीं करपाता है।

टीकार्थ—सूत्रकार अश्रुत्वा केवली के विषय में ही इस सूत्र द्वारा कथन कर रहे हैं—इसमें गौतमने प्रश्न से ऐसा पूछा है—(से णं भंते ! किं उड्डुं होज्जा, अहे होज्जा, तिरियं होज्जा ! हे भदन्त ! केवली के समीप बिना धर्मोपदेश सुने भी जिसने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया है ऐसा वह अश्रुत्वा केवली ऊर्ध्वलोक में होता है ? या अधीलोक में होता है ? या तिर्यग् लोक में होता है ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (उड्डुं वा होज्जा अहे वा होज्जा, तिरियं वा

समयमां वधारेमां वधारे १० अश्रुत्वा केवली थर्ष शके छे. हे गौतम ! ते धारणु मे” जेवुं कहु छे के “केवली आदिनी समीपे धर्मश्रवणु कर्था विना पणु कोठं एवने धर्मश्रवणुनो लाल भणतो डोय छे, अने केवली आदिनी समीपे धर्मश्रवणु कर्था विना कोठं एव केवलीप्रज्ञप्त धर्मश्रवणुनो लाल प्राप्त करी शकतो नथी.” आ कथनथी शङ् करीने “कोठं एव केवणज्ञान उत्पन्न करी शके छे अने कोठं एव केवणज्ञान उत्पन्न करी शकतो नथी,” आ कथन पर्यन्तनुं पूर्वोक्त कथन अर्ही अडणु करवुं जेधजे.

टीकार्थ—आ सूत्र द्वारा सूत्रकार अश्रुत्वा केवलीनुं निरूपणु करे छे (जेणु केवली लगवाननी समीपे उपदेश श्रवणु कर्था विना केवणज्ञान प्राप्त कथुं डोय, जेवा पुरुषने “अश्रुत्वा केवली” कडे छे)

गौतमस्वामीनो प्रश्न—(से णं भंते ! किं उड्डुं होज्जा, अहे होज्जा तिरियं होज्जा ? हे भदन्त ! अश्रुत्वा केवली शुं ऊर्ध्वलोकमां डोय छे के अधोलोकमां डोय छे, के तिर्यग्लोकमां डोय छे ?

गौतम । अश्रुत्वा केवली ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वलोके वा मवति, अथः-अधोलोके वा मवति, तिर्यग् लोके वा मवति । ' उडुं होज्जमाणे सहावह-वियडावह-गघावह-मालवतपरियाएसु वडवयवुपव्वपसु होज्जा ' ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वलोके मवन् वृक्षापाति-विहटापाति-गघापाति-मास्यवन्तपरियेषु एतच्चतुरभिधानेषु वृक्षवैताडयपर्व-तेषु मवति । तेषु च चतुर्षु ऊर्ध्वस्थानेषु तस्य अश्रुत्वाकेवलिनः आकाशगमन लब्धिसम्पत्तत्वेन तत्र गतस्य केवलज्ञानोत्पादसद्भावे सति स्थितिः संभवति ' साहरण पडुच्च सोमणसवणे वा, पंडगवणे वा होज्जा ' संहरणं प्रतीत्य साहरणा-

होज्जा) यह अश्रुत्वा केवली ऊर्ध्वलोक में भी होता है, अधोलोक में भी होता है और तिर्यग् लोक में भी होता है । उडुं होज्जमाणे सहावह, वियडावह, गघावह, मालवतपरियाएसु वडवयवुपव्वपसु होज्जा) यदि यह ऊर्ध्वलोक में होता है तो शब्दापातिवृक्षवैताडय में विकटापातिवृक्षवैताडयमें गघापाति वृक्षवैताडयमें या मास्यवन्त वृक्षवैताडयमें इन वृक्षवैताडय पर्वतों में होता है । तात्पर्य कहने का यह है कि इन चार ऊर्ध्वस्थानों में अश्रुत्वा केवली का सङ्काश इस तरह से पाया जाता है कि अश्रुत्वा केवली को आकाशगमनलब्धि का सङ्काश तो होता ही है-ऐसी स्थिति में आकाशगमन लब्धि की सहायता से आकाश में गमन करते समय यदि उसको केवलज्ञान हो जाता है तो इन स्थानोंमें उसका सङ्काश वहां स्थिति हो जाने की बजह से पाया जाता है । (साहरणं पडुच्च सोमणसवणे वा पंडगवणे वा होज्जा) संहरण की अपेक्षा से-

महावीर प्रभुने उत्तर—“ गोपमा । ” हे गौतम ! (उडुं होज्जा अथे वा होज्जा, तिरिय वा होज्जा) ते अश्रुत्वा केवली ऊर्ध्वलोके वा अधोलोके वा तिर्यग् लोके वा मवति । ' उडुं होज्जमाणे सहावह, वियडावह, गघावह, मालवतपरियाएसु वडवयवुपव्वपसु होज्जा) ते तेनो ऊर्ध्वलोके वा अधोलोके वा तिर्यग् लोके वा मवन् वृक्षापाति नामना वृक्षवैताडयर्थां हे विकटापाति नामना वृक्षवैताडयर्थां, हे गघापाति वृक्षवैताडयर्थां हे मास्यवन्त वृक्षवैताडयर्थां, आ वृक्षवैताडय पर्वतीर्थां वा हे वृक्षवैताडय पर्वतानां वा हे आ चार ऊर्ध्वस्थानोर्थां अश्रुत्वा केवलीने वडवयवुपव्वपसु आ गते अथवा गते हे अश्रुत्वा केवलीर्थां आकाशगमनलब्धिने सद्भावे ते अवर्य वा हे अथवा स्थितिर्थां आकाशगमनलब्धिने सद्भावे वा आकाशमा गमन करती अथवा तेभने केवलज्ञान उत्पन्न अथवा अथवा ते स्थानोर्थां तेभने वडवयवुपव्वपसु स्थानी स्थितिनी अपेक्षासे अथवा गते हे (साहरणं पडुच्च सोमणसवणे वा पंडगवणे वा होज्जा) संहरणनी अपेक्षासे-हेतु हेतुद्वारा ते तेन

पेक्षया सौमनस्यवनने मेरौ तृतीये वा, पाण्डुकवने-मेरौ चतुर्थे वा भवति, 'अहे होज्जमाणे गड्ढाए वा, दरीए वा होज्जा' सः अश्रुत्वा केवली अधोलोके भवन् गर्ते-निम्नतरे भूभागे 'खड्डा' इतिप्रसिद्धे अधोलोकग्रामादौ वा, दर्यां गुहायां वा भवति । 'साहरणं पडुच्च पायाले वा भवणे वा होज्जा' संहरणं प्रतीत्य संहरणापेक्षया पाताले महापातालकलशे बलयामुखादौ वा भवति, भवने भवनपति-देवनिवासे वा, भवति । 'तिरियं होज्जमाणे पन्नरससु कम्मभूमिसु होज्जा' तिर्यग्लोकके भवन् पञ्चदशसु कर्मभूमिषु पञ्च भरतानि, 'पञ्च ऐरवतानि, पञ्च महाविदेहा इत्येवं लक्षणासु भवति 'साहरणं पडुच्च अड्डाइज्जे दीवसमुद्दे तदेकदेसभाए होज्जा' संहरणं प्रतीत्य आश्रित्य अर्धतृतीये सार्धद्वये द्वीपसमुद्रे, तदेक-

कोई देवादिकद्वारा यदि इसका हरण कर लिया जावे-तो इसकी अपेक्षासे -सौमनस्यवनमें मेरुके तीसरे वनमें, या पण्डकवनमें मेरुके चतुर्थवनमें वह पाया जाता है। (अहे होज्जमाणे गड्ढाए वा दरीए वा होज्जा) यदि वह अश्रुत्वा केवली अधोलोक में होता है तो निम्नतर भूभाग में खड्डे में या अधोलोक ग्रामादिकों में, या दरी-गुफा में होता है। (साहरणं पडुच्च पायाले वा भवणे वा होज्जा) और संहरण की अपेक्षा वह पाताल में -महापाताल कलश में, या भवनपतिदेवके निवासरूप भवन में होता है। (तिरियं होज्जमाणे पन्नरससु कम्मभूमिसु होज्जा) यदि वह अश्रुत्वा केवली तिर्यग्लोक में पन्द्रह कर्मभूमियों में होता है। पांच भरत, पांच ऐरवत पांच महाविदेह और ये १५ कर्मभूमियां हैं। (साहरणं पडुच्च अड्डाइज्जे दीवसमुद्दे तदेकदेसभाए होज्जा) संहरण की अपेक्षा

इरथु करवाभां आवे-तो सौमनस वनभां (मेरुना त्रीण वनभां) अथवा पंडक वनभां (मेरुना चोथा वनभां) तेओ डोय छे. (अहे होज्जमाणे गड्ढाए वा दरीए वा होज्जा) ले ते अश्रुत्वा केवली अधोलोकभां डोय छे, तो निम्नतर भूभागभां-भाडाभां, अथवा अधोलोकवर्ती ग्रामादिकभां के दरीभां (गुहाभां) डोय छे. (साहरणं पडुच्च पायाले वा भवणे वा होज्जा) अने संहरणुनी अपेक्षाओ ते पाताणभां-महापाताण कलशभां के भवनपति देवना निवासस्थानरूप भवनभां डोय छे. (तिरियं होज्जमाणे पन्नरससु कम्मभूमिसु होज्जा) ले ते अश्रुत्वा केवली तिर्यग्लोकभां डोय छे, तो १५ कर्मभूमिओभां डोय छे. पांच भरत, पांच विदेह अने पांच ऐरवत, आ पंद्रह कर्मभूमिओ छे. (साहरणं पडुच्च अड्डाइज्जे दीवसमुद्दे तदेकदेसभाए होज्जा) संहरणुनी अपेक्षाओ ते अदी द्वीप समुद्रभां केअओक प्रदेशभां डोय छे, आ इधननुं लोकभां

देशमागे सार्धद्वयद्वीपसमुद्रस्य एकमवशे मत्रति, गौतमः पृच्छति—' ते ण मते ! एगसमएणं केवइया होज्जा ? ' हे भवन्त ! ते खल्ल अभुत्वा केवलिनः एक समये कियन्तो मवन्ति ? मगवानाइ—' गोयमा ! जहण्णेण एको वा, दो वा, तिप्पि वा, उकोसेण दस ' हे गौतम ! ते केवलिन भवन्त्येन एकममभे एको वा द्वी वा, त्रयो वा मवन्ति, उत्कृष्टेन तु एकसमये दस मवन्ति । उपसंहर-

अर्द्ध द्वीप में दो समुद्र में—इनके एकदेश में होता है । तात्पर्य कहने का यह है कि अश्रुत्वा केवली ऊर्ध्वमध्य और अधः इन तीनों लोकों में होता है । ऊर्ध्वलोक में लज्जि के निमित्त से या सहरण के निमित्त से यह घड़ा हो सकता है । मध्यलोक में भी यह स्वभावतः १५ कर्म भूमियों में होता ही है । रही अर्द्ध द्वीपसमुद्रों की बात—क्यों कि इतना ये न्ये स्थान कर्मभूमि से भी सम्बन्ध रखता है—अत इतने स्थान में भी इसका अस्तित्व सहरण की अपेक्षा से हो सकता है । अधोलोक में खल्ले आदि स्थानों में तो यह पाया ही जाता है—रही पाताल आदि स्थानरूप अधोलोक की बात—सो वहाँ पर भी इसका अस्तित्व—सहरण की अपेक्षा से बन सकता है ।

अथ गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(तेणं मते ! एगसमएणं केवइया होज्जा) हे भवन्त ! एक समय में कितने अश्रुत्वा केवली हो सकते हैं ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं एको वा, दो वा, तिप्पि वा) एक समय में अश्रुत्वा केवली कम से कम

छोःय छे ऊर्ध्वलोकमा लज्जिना कारव्हे अथवा सहरण्णे कारव्हे तेज्जानुं अस्तित्व स भवी शके छे मध्यलोकमा (तिप्पिगोइकाया) तेज्जा स्वाभाविक रीते १५ कर्म भूमिज्जायां तो छोःय छे उवे रही अर्द्ध द्वीपसमुद्रोन्नी वात—कारव्हे छे अज्जा ज्जायां स्थानो कर्मभूमि साथे पव्व सवधे साथे छे, तेथी ज्जेठवां स्थानोभा पव्व तेमनुं अस्तित्व सहरण्णी अपेक्षाज्जे स भवी शके छे अपीलोकमां गती (पाया) आदि स्थानोमां तो तेमनुं अस्तित्व छोःय छे, पव्व पाताल आदि स्थानरूप अपीलोकमां पव्व सहरण्णी अपेक्षाज्जे तेमनुं अस्तित्व स भवी शके छे

गौतम स्वामीने प्रश्न—(से णं मते ! एग समएणं केवइया होज्जा ?) छे भवन्त ! ज्जेक सभयमां ज्जेठवां अश्रुत्वा केवली स भवी शके छे ?

भद्रावीर प्रभुने उत्तर—' गोयमा ! ' छे गौतम ! (जहण्णेणं एको वा, दो वा तिप्पि वा) ज्जेक सभयमां ज्जेठवां ज्जेठवां ज्जेक अथवा ज्जे अथवा तनु अश्रुत्वा केवली छोःय शके छे, ज्जने " एकोसेण दस " वधारेमां वधारे

ब्राह्म- 'से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव अत्ये गइए केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए ' हे गौतम ! अथ, तेनार्थेन तेन कारणेन एवमुच्यते यत् अश्रुत्वा खलु केवलिनो वा सकाशात्, यावत् केवलि श्रावकप्रभृतीनां वा सकाशात् अस्त्येककः कश्चित् पुरुषः केवलिप्रज्ञप्तं धर्मं श्रवण-तया-श्रवणज्ञानफलतया, लभेत, 'अथ च 'अत्येगइए, असोच्चा णं केवलि जाव नो लभेज्ज सवणयाए ' अस्त्येककः कश्चित् अश्रुत्वा खलु केवलिनो वा सका-शात् यावत् केवलिश्रावकप्रभृतीनां वा सकाशात् केवलिप्रज्ञप्तं धर्मं श्रवणतया नो लभेत । तद् वैषम्यकारणं तु धर्मान्तरायिकादीनां कर्मणामावरणरूपाणां क्षयोपशमस्तदभावश्चेति । 'जाव अत्येगइए केवलनाणं उप्पाडेज्जा, ' यावत्

एक, या दो या तीन तक हो सकते हैं । और (उक्कोसेणं दस) अधिक से अधिक दश तक हो सकते हैं ।

अब सूत्रकार इस विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं- (से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ, असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव अत्येगइए केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए) हे गौतम ! इसी कारण मैंने ऐसा कहा है कि कोई एक पुरुष केवली आदिसे केवलिप्रज्ञप्त धर्म विना सुने भी उस केवलिप्रज्ञप्त धर्म को श्रवणज्ञानफलरूप से प्राप्त कर सकता है और (अत्येगइए) कोई एकपुरुष (असोच्चा णं केवलि जाव नो लभेज्ज सवणयाए) केवली आदि के पास से विना सुने केवलिप्रज्ञप्त धर्म को श्रवणज्ञानफलरूप से नहीं प्राप्त कर सकता है । इसकी विषमता का कारण आवरणरूप धर्मान्तरायिक आदि कर्मों का क्षयोपशम एवं इसके क्षयोपशम का अभाव है । (जाव अत्येगइए केवलनाणं उप्पाडे-

दश अश्रुत्वा केवली ढोए शके छे.

इसे सूत्रकार ये विषयने उपासंहार करता कडे छे—

(से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ, असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव अत्ये-गइए केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए) हे गौतम ! ते कारणे मे अबुं कहुं छे के केए अक पुरुष केवली आदिनी पासे केवलिप्रज्ञप्त धर्मनुं श्रवणुं कथां विना पणु केवलीप्रज्ञप्त धर्मने श्रवणु ज्ञानइलइये प्राप्त करी शके छे, अने (अत्येगइए असोच्चा णं केवलि जाव नो लभेज्ज सवणयाए) केएक पुरुष केवलि आदिनी पासे श्रवणु कथां विना केवलीप्रज्ञप्त धर्मने श्रवणुज्ञान इलइये प्राप्त करी शकतो नथी तेनी विषमतानुं कारणे आवरणइय धर्मान्तरायिक आदि कर्मोना क्षयोपशम तथा तेमना क्षयोपशमने अभाव छे. (जाव अत्येगइए केवलनाणं उप्पाडेज्जा) अही " जाव-(यावत्) " पदथी नीचेना पूर्वोक्ता

अस्त्येकक कश्चित् अश्रुत्वा केवलप्रमृते सकाशात् केवलां वोधिं बुध्येत, अस्त्ये-
 कक कश्चित् अश्रुत्वा केवलप्रमृते सकाशात् केवलामनगारितां प्रमजेत्, अस्त्ये-
 कक कश्चित्, अश्रुत्वा केवलप्रमृते सकाशात् केवलं द्रव्यवर्षवाप्तम् आवसेत्,
 अस्त्येककः कश्चित् अश्रुत्वा केवलप्रमृते सकाशात् केवलेन सयमन सयच्छेत्,
 अस्त्येकक कश्चित् केवलप्रमृते सकाशात् अश्रुत्वा केवलेन सवरेण सवृणुयात्,
 अस्त्येकक कश्चित् केवलप्रमृते सकाशात् अश्रुत्वा खलु केवलम् आभिनिवोषिक
 ज्ञानमुत्पादयेत्, अस्त्येकक कश्चित् केवलप्रमृते सकाशात् अश्रुत्वा केवलं ध्रुव
 ज्ञानमुत्पादयेत्, अस्त्येकक कश्चित् केवलप्रमृतेः सकाशात् अश्रुत्वा केवलम्
 अविधिज्ञानमुत्पादयेत्, अस्त्येकक कश्चित् केवलप्रमृते सकाशात् अश्रुत्वा

ज्जा) यहा यावत् पद से इस पाठ का जो कि पहिले कहा गया है
 समग्र हुआ है "कोई जीव केवली आदि से बिना सुने भी केवलवोषि
 को-शुद्ध सम्पग्दर्शन को-अनुभवित कर सकता है, कोई केवली आदि
 से बिना सुने भी केवल अनगारिता को धारण कर सकता है कोई एक
 जीव केवली आदि से बिना सुने भी केवलद्रव्यवर्षवास में रह सकता
 है, कोई एक जीव केवली आदि से बिना सुने भी केवल सयम से
 सयमयतना कर सकता है, कोई एक जीव केवली आदि से बिना
 सुने भी केवल सवर से श्रुभाष्यसाय वृत्तिरूप सवर कर सकता है
 कोई एक जीव केवली आदि से सुने बिना भी केवल आभिनिवोषिक
 ज्ञान उत्पन्न कर सकता है, कोई एक जीव केवली आदि से बिना सुने
 भी केवल ध्रुमज्ञान उत्पन्न कर सकता है, कोई एक जीव केवली आदि
 से बिना सुने भी केवल अविधिज्ञान उत्पन्न कर सकता है, कोई एक

पाठने अथवा कश्चित् आदिना उ-१ केवल केवली आदिनी पासे अथवा कर्षा
 बिना अथवा केवलवोषिना (शुद्ध सम्पग्दर्शनना) अनुभव करी शकें उ, केवल
 एव केवली आदि पासे धर्मवर्षवाप्त कर्षा बिना अथवा अथवा वरषा धारण करी
 शकें उ केवल एव केवली आदिनी सभीपि धर्मवर्षवाप्त कर्षा बिना अथवा शुद्ध
 द्रव्यवर्षवाप्त सेवी शकें उ, केवल एव केवली आदिना उपदेश धारण कर्षा बिना
 अथवा सयमद्वारा सयमयतना करी शकें उ केवल एव केवली आदि सभीपि
 धर्मवर्षवाप्त कर्षा बिना अथवा शुद्ध सवरद्वारा आभिनिवोषिना निरोध करी शकें उ,
 केवल एव केवली आदि सभीपि अथवा कर्षा बिना अथवा आभिनिवोषिक ज्ञान
 उत्पन्न करी शकें उ, केवल एव केवली आदिनी अथवा अथवा कर्षा बिना अथवा
 ध्रुम ज्ञान उत्पन्न करी शकें उ केवल एव केवली आदिनी अथवा अथवा कर्षा बिना

केवलं मनःपर्यवज्ञानमुत्पादयेत्, अस्त्येककः कश्चित् केवलिप्रभृतेः सकाशात् अश्रुत्वाऽपि केवलज्ञानमुत्पादयेदिति भावः। 'अत्येगइए केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा' अस्त्येककः कश्चित् केवलिप्रभृतेः सकाशात् अश्रुत्वा खलु केवलां बोधिं नो बुध्येत्, केवलामनगारितां नो प्रव्रजेत्, केवलं ब्रह्मचर्यवासं नो आवसेत्, केवलेन संयमेन नो संयच्छेत्, केवलेन संवरेण नो संवृणुयात्, केवलमाभिनिवोधिकज्ञानम्, केवलं श्रुतज्ञानम्, केवलमवधिज्ञानम्, केवलं मनःपर्यवज्ञानं नोत्पादयेत्, तथा अस्त्येककः कश्चित् अश्रुत्वा केवलिप्रभृतेः सकाशात् केवलज्ञानं नोत्पादयेदिति भावः ॥ सू० ५ ॥

जीव केवली आदि से विना सुने भी केवल मनःपर्यवज्ञान उत्पन्न कर सकता है। कोई एक जीव केवली आदि से विना सुने भी केवलज्ञान उत्पन्न कर सकता है। (अत्येगइए केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा) कोई एक जीव केवली आदि से विना सुने केवल बोधि का अनुभव नहीं कर सकता है, केवल अनगारिता को धारण नहीं कर सकता है, केवल ब्रह्मचर्यवास में नहीं रह सकता है केवल संयम से संयमयतना नहीं कर सकता है, केवल संवर से शुभाध्यवसाय वृत्तिरूप संवर नहीं कर सकता है, केवल आभिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता है, केवलश्रुतज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता है केवल अवधिज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता है, केवलमनःपर्यवज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता है तथा केवली आदि से विना सुने कोई जीव केवलज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता है ॥ सू०५ ॥

पणु अवधिज्ञान उत्पन्न करी शके छे, केछक एव केवली आदिनी पासे श्रवणु कया विना पणु मनःपर्यवज्ञान उत्पन्न करी शके छे अने केछक एव केवली आदिनी समीपे श्रवणु कया विना केवणज्ञान पणु उत्पन्न करी शके छे, (अत्येगइए केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा) परन्तु केछक एव केवली आदिनी समीपे धर्मश्रवणु कया विना सम्यग्दर्शनने अनुभव करी शकते नथी अणु-गारावस्था धारणु करी शकते नथी, ब्रह्मचर्यं व्रत पाणी शकते नथी, शुद्ध संयमद्वारा संयमनी यतना करी शकते नथी, संवरद्वारा आस्रवेने निरोध करी शकते नथी, शुद्ध आभिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न करी शकते नथी, श्रुतज्ञान उत्पन्न करी शकते नथी, अवधिज्ञान उत्पन्न करी शकते नथी, मन पर्यवज्ञान उत्पन्न करी शकते नथी अने केवणज्ञान पणु उत्पन्न करी शकते नथी ॥स०५॥

श्रुत्वा प्रतिपन्नाषपिज्ञानिविश्लेषवक्तव्यता ।

इसः पूर्वं केष्वपिप्रवृत्तिभ्यो धर्मादिप्रवचनाभ्रवणेऽपि धर्मान्तराधिकारीनां क्षयोपश्रमे धर्मादिसामस्य तरक्षयोपश्रमामावे च धर्मादिसामामावस्य च वक्तव्यतोक्ता, अथ केष्वन्यादि सत्ताश्चाद् धर्मादिप्रवचनभ्रवणेऽपि क्षयोपश्रमे सत्येव तद्धाम इति तद्धामविशेषवक्तव्यतां प्ररूपयितुमाह—‘सोच्चा णं’ इत्यादि ।

मूलम्—सोच्चा णं भते । केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिय उवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्म लभेज्जा सवणयाए ? गोयमा । सोच्चा ण केवलिस्स वा जाव अत्थेगइए केवलिपण्णत्त धम्म, एव जा चेव असोच्चाए वत्तव्वया सा चेव सोच्चाए वि भाणियव्वा, नवर अभिलावो सोच्चेत्ति, सेस त चेव निरवसेस जाव जस्स णं मणपज्जवनाणावरणिज्जाण कम्माण खओव समे कडे भवइ, जस्स णं केवलनाणावरणिज्जाण कम्माण खए कडे भवइ, से णं सोच्चा केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्म लभेज्जा सवणयाए, केवल धोहिं बुज्जेज्जा जाव केवलनाण उप्पाडेज्जा, तस्स ण अट्टमं-अट्टमेण अणि क्खित्तेण तवोकम्मेणं अप्पाण भावेमाणस्स पगइभइयाए तहेव जाव गवेसण करेमाणस्स ओहिणाणे समुप्पज्जइ, से णं तेण ओहिणाणेण समुप्पण्णेण जहण्णेणं अगुलस्स असखे ज्जइभागं, उक्कोसेण असखेज्जाइ अलोए लोयप्पमाणमेत्ताइ खडाइ जाणइ, पासइ । से ण भते ! कइ लेस्तासु होज्जा ? गोयमा ! छसु लेस्तासु होज्जा, त जहा-कण्हलेस्साए, जाव सुक्कलेस्साए । से ण भते ! कइसु णाणेसु होज्जा ? गोयमा ! तिसु वा चउसु वा होज्जा, तिसु होज्जमाणे आभिणिघोहियनाण सुयनाण-ओहिनाणेसु होज्जा । चउसु होज्जमाणे आभिणिघोहि

यनाण-सुयनाण-ओहिनाण-मणपज्जवनाणेसु होज्जा । से णं भंते ! किं सजोगी होज्जा, अजोगी होज्जा ? एवं जोगोव-ओगो, संघयणं, संठाणं, उच्चत्तं, आउयं च, एयाणि सवाणि जहा असोच्चाए तहेव भाणियवाणि । से णं भंते ! किं सवेदए, अवेदए ? गोयमा ! सवेदए होज्जा, अवेदए वा । जइ अवेदए होज्जा किं उवसंतवेयए होज्जा, खीणवेयए होज्जा ? गोयमा ! नो उवसंतवेयए होज्जा, खीणवेयए होज्जा । जइ सवेयए होज्जा ? किं इत्थीवेयए होज्जा, पुरिसवेयए होज्जा, नपुंसगवेयए होज्जा, पुरिस नपुंसगवेयए वा होज्जा ? गोयमा ! इत्थीवेयए वा होज्जा, पुरिसवेयए वा होज्जा, पुरिसनपुंसगवेयए वा होज्जा, नो नपुंसगवेयए होज्जा । से णं भंते ! किं सकसाई होज्जा, अकसाई वा होज्जा ? गोयमा ! सकसाई वा होज्जा, अकसाई वा होज्जा । जइ अकसाई होज्जा किं उवसंतकसाई होज्जा, खीणकसाई होज्जा ? गोयमा ! नो उवसंतकसाई होज्जा, खीणकसाई होज्जा, जइ कसाई होज्जा, कइसु कसाएसु होज्जा ? गोयमा ! चउसु वा, तिसु वा, दोसु वा, एक्कमि वा होज्जा । चउसु होज्जमाणे संजलणकोहमाणमायालोभेसु होज्जा । तिसु होज्जमाणे संजलणमाणमायालोभेसु होज्जा ! दोसु होज्जमाणे संजलणमायालोभेसु होज्जा । एगम्मि होज्जमाणे संजलणे लोभे होज्जा । तस्स णं भंते ! केवइया अज्झवसाणा पणत्ता ? गोयमा ! असंखेज्जा, एवं जहा असोच्चाए तहेव जाव केवलवरनाणदंसणे समुप्पज्जइ । से णं भंते ! केवलि-

पणत्त धम्म आघवेज्ज वा पन्नवेज्ज वा, परूवेज्ज वा ? हता
 आघवेज्ज वा, पन्नवेज्ज वा, परूवेज्ज वा । से ण भते । पत्ता
 वेज्जवा, मुंढावेज्ज वा ? हता, गोयमा ! पत्तावेज्ज वा, मुंढावेज्ज वा ।
 तस्स णं भते ! सिस्सा वि पत्तावेज्ज वा मुंढावेज्ज वा ? हता पत्तावेज्ज
 वा मुंढावेज्ज वा । तस्स णं भते । पसिस्सा वि पत्तावेज्ज वा,
 मुंढावेज्ज वा ? हता, पत्तावेज्ज वा, मुंढावेज्ज वा । से ण भते !
 सिज्झइ, बुज्झइ, जाव अत्त करेइ ? हता, सिज्झइ वा जाव
 अत्त करेइ । तस्स णं भते ! सिस्सा वि सिज्झति जाव अत्त
 करेति ? हता, सिज्झति, जाव अत्त करेति । तस्स णं भते !
 पसिस्सा वि सिज्झति जाव अत्त करेति ? एव चेव जाव अत्त
 करेति । से णं भते ! किं उहुं होज्जा, जहेव असोच्चाए जाव
 तदेक्कदेसभाए होज्जा । सेण भते ! एगसमएणं केवइया
 होज्जा ? गोयमा ! जहण्णेण एक्को वा, दो वा, तिस्सि वा,
 उक्कोसेण अट्टसय (१०८) से तेणट्ठेण गोयमा ! एव बुच्चइ,
 सोच्चा ण केवलिस्स वा जाव केवलिउवासियाए वा, जाव
 अत्थेगइए केवलनाण उप्पाहेज्जा, अत्थेगइए नो केवलनाण
 उप्पाहेज्जा, सेव भते ! सेव भते ! चि ” ॥ सू० ६ ॥

॥ नवमसयस्स इगतीसइमो उडेसो ॥ ९-३१ ॥

छाया— श्रुत्वा खलु भदन्त ! केवलिनो वा यावत् तत्पाक्षिकोपासिकाया वा केवलिप्रज्ञप्तं धर्मं लभेत श्रवणतया ? गौतम ! श्रुत्वा खलु केवलिनो वा यावत् अस्त्येककः केवलिप्रज्ञप्तं धर्मम्, एवं या चैव 'अश्रुत्वा' वक्तव्यता सा चैव 'श्रुत्वाऽपि' भणितव्या, नवरम् अभिलापः श्रुत्वेति, शेषं तदेव निरवशेषम् यावत् यस्य खलु

—:श्रुत्वाप्रतिपन्न अवधिज्ञानिविशेषवक्तव्यता:—

‘सोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव ’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(सोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव तत्पक्खियउवासियाए वा केवलिपणत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए) हे भदन्त ! केवली से या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म को सुन करके क्या कोई जीव श्रवणज्ञानफलरूप से उसे प्राप्त कर सकता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सोच्चा णं केवलिस्स वा जाव अत्थेगइए केवलिपणत्तं धम्मं एवं जा चैव असोच्चाए वक्तव्यता सा चैव सोच्चाए वि भाणियव्वा) केवली से या यावत् उनके पक्ष की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म को सुन करके कोई जीव उसे श्रवणज्ञानफलरूप से प्राप्त करता है और कोई जीव उसे प्राप्त नहीं करता है, इस प्रकार जिस तरह से अश्रुत्वा के विषय में वक्तव्यता कही गई है उसी प्रकार की वक्तव्यता यहां श्रुत्वा के विषय में भी कहलेनी चाहिये । (नवरं अभिलापो सोच्चेत्ति—सेसं तं चैव निरवसेसं जाव जस्स णं मणपज्जवणाणावर-

श्रुत्वा प्रतिपन्न अवधिज्ञानी विशेषवक्तव्यता—

“सोच्चाणं भंते ! केवलिस्स वा जाव ” इत्यादि

सूत्रार्थ—(सोच्चाणं भंते ! केवलिस्स वा जाव तत्पक्खियउवासियाए वा केवलिपणत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए ?) हे भदन्त ! केवली पासे अथवा तेमना पक्षणी उपासिका पर्यन्तनी पूर्वोक्त कोष्ठ व्यक्ति पासे केवलिप्रज्ञप्त धर्मने श्रवणु करीने शुं कोष्ठ एव श्रवणु ज्ञानइलइपे तेने प्राप्त करी शके छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (सोच्चाणं केवलिस्स वा अत्थेगइए केवलिपणत्तं धम्मं जा चैव असोच्चाए वक्तव्यता सा चैव सोच्चाए वि भाणियव्वा) केवली पासे अथवा तेमना पक्षणी उपासिका पर्यन्तनी कोष्ठ पणु व्यक्ति पासे केवलिप्रज्ञप्त धर्मने श्रवणु करीने कोष्ठ एव ते श्रवणुज्ञान इलइपे प्राप्त करे छे अने कोष्ठ एव तेने प्राप्त करतो नथी. आ प्रमाणे जेवी वक्तव्यता अश्रुत्वा (श्रवणु कर्या विना) विषे करवाभां आवी छे ओज प्रकारनी वक्तव्यता अर्धी श्रुत्वा (श्रवणु करीने) विषे पणु समजवी, (नवरं अभिलापो सोच्चेत्ति सेसं

मनःपर्यवज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमः कृतो भवति, यस्य सखु फेवञ्ज्ञाना-
वरणीयानां कर्मणां क्षयः कृतो भवति, स खलु ध्रुत्वा केषलिनी वा यावत् उपा-
सिकाया वा केवलिप्रहृतं धर्मं लभत ध्रुवणतया, केवलां बोधिं पुण्येत्, यावत्
केवलज्ञानमुत्पादयेत् । यस्य खलु अष्टमाष्टमेन अनिश्चितेन तपःकर्मणा आत्मान

णिज्जाणं कम्माणं त्वओवसमे कडे भवइ, जस्स ण केवलनाणावर-
णिज्जाणं कम्माणं खए कडे भवइ, से ण सोच्चा वेवलिस्स वा जाव
उवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्मं लभेज्जा सवणयाए, केवल बोधिं
पुज्जेज्जा जाव केवलनाण उप्पाडेज्जा) परन्तु उस वक्तव्यता में अश्रुत्वा
की जगह "श्रुत्वा" इस शब्द का प्रयोग करना चाहिये—अतः जैसी
वक्तव्यता अश्रुत्वा के ऊपर सूत्रकार ने की है—वैसी ही वक्तव्यता
अश्रुत्वा के स्थान पर श्रुत्वा शब्द को जोड़कर करने से वही वक्तव्यता
श्रुत्वा की धर्मादिककी प्राप्ति के विषय में हो जाती है । इस तरह यह
वक्तव्यता यावत् यह श्रुत्वा धर्मादिक की प्राप्ति करने वाला जीव मनः
पर्यवज्ञानावरणीय कर्मों के क्षयोपशम से, तथा केवलज्ञानावरणीय कर्मों
के क्षय से मनः पर्यवज्ञान को तथा केवलज्ञान का उत्पन्न कर लेता है
—यहां तक गृहीत हो जाती है । तात्पर्य कहने का यह है कि प्रथममूत्र
से लेकर पांचवें सूत्रतक अश्रुत्वा के धर्मादिक प्राप्ति करने की वक्तव्यता

त वेव निरपेस भाव जस्स णं मजरकञ्चनानाणावरणिज्जाणं कम्माणं त्वओवसमे
कडे भवइ, खरए णं केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं त्वओवसमे कडे भवइ से णं
ओवसा केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्मं लभेज्जा सवणयाए
केवल बोधिं पुज्जेज्जा जाव केवलनाण उप्पाडेज्जा) परन्तु आ वक्तव्यतामां
"अश्रुत्वा" पढ़ने लड़े 'अश्रुत्वा' पढ़ने प्रयोज्य भवेत् ज्येत्ते. तेषी जेवी
वक्तव्यता सूत्रकारे 'अश्रुत्वा' ने अनुलक्षीने पड़ेवाना सूत्रेमां करी छे,
ज्येवी वक्तव्यता अश्रुत्वाने स्थाने श्रुत्वा पढ़ भूक्षीने करवाही ते वक्तव्यता
श्रुत्वानी (केवली आदिनी समीपे केवलिप्रहृत धर्मनुं भवख करवाही) धर्मा-
दिकनी प्राप्तिना विषयमां यथं ज्येत्ते आ रीते केवलि आदिनी समीपे केवलि
प्रहृत धर्मनुं भवख करवाइ केवलि एव मनः पर्यवज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयो-
पशमधी मनःपर्यवज्ञान प्राप्त करी शके छे आने केवलज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयो-
पशमना उत्पन्न करी शके छे ज्येत्ते सुधीनी पूर्वोक्त वक्तव्यता ज्येत्ते
अद्वय करवामां आवी छे आ कथननां कावाम ज्येत्ते के पड़ेवा सूत्रधी
शह करीने पांचमां सूत्र सुधी अश्रुत्वाने अनुलक्षीने धर्मादिकनी प्राप्तिना

ભાવયતઃ પ્રકૃતિભદ્રતયા તથૈવ યાવત્ ગવેષણં કુર્વતોઽવધિજ્ઞાનં સમુત્પદ્યતે, । સ
 ચ્છલુ તેન અવધિજ્ઞાનેન સમુત્પન્નેન જઘન્યેન અઙ્ગુલસ્ય અસંખ્યેયભાગમ્, ઉત્કૃષ્ટેન
 અસંખ્યેયાનિ અલોકે લોકપ્રમાણમાત્રાણિ ચ્છણ્ડાનિ જાનાતિ, પર્યતિ । સ ચ્છલુ

જેસી કહી ગઈ હૈ-વૈસી હી વહ સવ વક્તવ્યતા શ્રુત્વા કે ધર્માદિ પ્રાપ્તિ
 કરને કે ડપર લગા લેની ચાહિયે । ડસમેં ઓર ડસમેં યહાં તક કે કથન
 મેં કોઈ અન્તર નહીં આતા હૈ । (તસ્સ ણં અટ્ટમં અટ્ટમેણં અણિક્ખત્તેણં
 તવોક્કમેણં અપ્પાણં ભાવેમાણસ્સ પગહ્મહયાએ તહેવ જાવ ગવેસણં
 કરેમાણસ્સ ઓહિનાણે સમુપ્પજ્જહ, સે ણં તે ણં ઓહિનાણેણં સમુપ્પ-
 ણેણં જહ્ણણેણં અંગુલસ્સ અસંખેજ્જહ્મહામં ઉક્કોસેણં અસંખેજ્જાહં અલોએ
 લોચપ્પમાણમેત્તાહં ચ્છંહાહં જાણહ પાસહ) કેવલજ્ઞાની સે યા યાવત્
 ડનકી ડપાસિકા સે ધર્મશ્રવણ કરકે સમ્યગ્દર્શન આદિ જિસ મનુષ્ય
 કો પ્રાપ્ત હુએ હૈં એસે ડસ શ્રુત્વા મનુષ્ય કે નિરન્તર લગાતાર અષ્ટમ કી
 તપસ્યા સે આત્મા કો ભવિત કરને કે કારણ તથા પ્રકૃતિ સે ભદ્ર હોને
 કે કારણ યાવત્ માર્ગ કી ગવેષણા કરતે સમય અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન હો
 જાતા હૈ ઓર વહ ડસ ઉત્પન્ન હુએ અવધિજ્ઞાન દ્વારા કમ સે કમ અઙ્ગુલ
 કે અસંખ્યાતવેં ભાગ કો જાનતા હૈ ઓર દેખતા હૈ તથા અધિક સે
 અધિક, વહ અલોક મેં લોક પ્રમાણમાત્ર અસંખ્યાત ચ્છણ્ડોં કો જાનતા

વિષયમાં જેવું કથન કરવામાં આવ્યું છે, એવું જ કથન અહીં શ્રુત્વાને અતુ-
 ધર્માદિકની પ્રાપ્તિના વિષયમાં થવું જોઈએ. તે કથનમાં અને આ કથનમાં લક્ષીને
 ખિલકુલ તક્ષાવત નથી (તસ્સ ણં અટ્ટમં અટ્ટમેણ અણિક્ખત્તેણં તવોક્કમેણં અપ્પાણં
 ભાવેમાણસ્સ પગહ્મહયાએ તહેવ જાવ ગવેસણં કરેમાણસ્સ ઓહિનાણે સમુપ્પજ્જહ,
 સે ણં તેણં ઓહિનાણેણ સમુપ્પણેણં જહ્ણણેણં અંગુલસ્સ અસંખેજ્જહ્મહા
 મં ઉક્કોસેણં અસંખેજ્જાહં અલોએ લોચપ્પમાણમેત્તાહ ચ્છંહાહં જાણહ પાસહ) કેવલજ્ઞાની
 પાસે અથવા તેમની ઉપાસિકા પર્યન્તની કોઈ વ્યક્તિ પાસે ધર્મશ્રવણ કરીને
 જે મનુષ્યને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયેલ હોય છે એવા કેવલી આદિ પાસે ધર્મ
 શ્રવણ કરનાર, નિરન્તર અક્રમને પારણે અક્રમ કરનાર, પ્રકૃતિભદ્ર આદિ વિશે-
 ષણોવાળા પુરુષને “ માર્ગની ગવેષણા કરતી વખતે અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ
 જાય છે, ” અહીં સુધીનો પૂર્વોક્ત પાઠ અહીં ગ્રહણ કરવો. આ પ્રમાણે ઉત્પન્ન
 થયેલા અવધિજ્ઞાન વડે તે ઓછામાં ઓછા અંગુલના અસંખ્યાતમાં લોકપ્રમાણ
 ક્ષેત્રને જાણે છે અને દેખે છે, અને અધિકમાં અધિક અલોકમાં લોકપ્રમાણ
 માત્ર અસંખ્યાત ખંડોને જાણે છે અને દેખે છે.

મદન્ત ! કઠિપુ છેદ્યાસુ મવતિ ? ગૌતમ ! પદ્મુ છેદ્યાસુ મવતિ, તપ્થા-કૃષ્ણ
 છેદ્યાયાં યાવત્ શુક્લેશ્યાપામ્ । સ સ્વલુ મદન્ત ! કઠિપુ જ્ઞાનેપુ મવતિ ? ગૌતમ !
 ત્રિપુ વા, ચતુર્પુ વા મવતિ, ત્રિપુ મવન્ આમિનિબોધિકજ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાના-વધિજ્ઞાનેષુ
 મવતિ, ચતુર્પુ મવન્ આમિનિબોધિકજ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાના-વધિજ્ઞાન-મન-પર્યવજ્ઞાનેષુ
 મવતિ । સ સ્વલુ મદન્ત ! કિં સયોગી મવતિ, અયોગી મવતિ ? પથ યોગઃ, ઉપયોગઃ,

और देखना है । (से ण भंते ! कइ छेस्सासु होज्जा) हे भदन्त ! वह
 श्रुत्वा अवधिज्ञानी मनुष्य कितनी छेद्याओं में होता है ? (गोयमा) हे
 गौतम ! वह श्रुत्वा अवधिज्ञानी मनुष्य (छसु छेस्सासु होज्जा) छह
 छेद्याओं में होता है । (तं जहा) वे छह छेद्याएँ इस प्रकार से हैं—
 (कण्ठेस्साए जाव सुक्खेस्साए) कृष्णछेद्या यावत् शुक्लछेद्या । (से
 ण भंते ! कइसु नाणेसु होज्जा) हे भदन्त ! वह श्रुत्वा अवधिज्ञानी
 कितने ज्ञानों में होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! वह श्रुत्वा अवधिज्ञानी
 मनुष्य (तिसु चउसु वा होज्जा) तीन ज्ञानों में या चार ज्ञानों में होता
 है । (तिसु होज्जमाणे आमिणियोहियनाण, सुयनाण, ओहिनाणेसु
 होज्जा) यदि वह तीन ज्ञानों में होता है—वे ज्ञान हैं आमिनिबोधिक
 ज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान (चउसु होज्जमाणे आमिणियोहिय
 नाण, सुयनाण, ओहिनाण, मणपउज्जवणेसु होज्जा) और वह यदि चार
 ज्ञानों में होता है तो वे चार ज्ञान हैं—आमिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान,
 अवधिज्ञान और मनः पर्यवज्ञान (से ण भंते ! किं सजोगी होज्जा

(से ण भंते ! कइछेस्सासु होग्गा ?) के भदन्त ! ते श्रुत्वा अवधिज्ञानी
 मनुष्य કેટલી દેશ્યાઓવાળો હોય છે ? (ગોયમા !) કે ગૌતમ ! (છસુ છેસ્સાસુ
 હોગ્ગા-સજહા) તે નીચે પ્રમાણેની છએ છ દેશ્યાઓવાળો હોય છે (કણ્ઠ
 એસ્સાપ જાવ સુક્કએસ્સાપ) કૃષ્ણદેશ્યાથી લઈને શુક્લદેશ્યા પર્યન્તની ૬ દેશ્યાઓ
 અહીં અટકે ૩૨વી.

(से ण भंते ! कइसु नाणेसु होग्गा ?) के भदन्त ! ते श्रुत्वा अवधि
 ज्ञानी કેટલાં જ્ઞાનેથી શુદ્ધ હોય છે ? (ગોયમા ! તિસુ ચઉસુ વા હોગ્ગા) કે
 ગૌતમ ! તે ત્રણ જ્ઞાનેથી અથવા ચાર જ્ઞાનેથી શુદ્ધ હોય છે (તિસુ હોગ્ગ
 માણે આમિણિબોહિયનાણ, સુયનાણ, ઓહિનાણેસુ હોગ્ગા) એ તે શ્રુત્વા અવધિજ્ઞાની
 ત્રણ જ્ઞાનવાળો હોય છે તો તે આમિનિબોધિક જ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિ
 જ્ઞાનેથી શુદ્ધ હોય છે (ચઉસુ હોગ્ગમાણે આમિણિબોહિયનાણ સુયનાણ, ઓહિ
 માણ મણપઉજ્જવનાણેસુ હોગ્ગા) ત્રણ એ તે ચાર જ્ઞાનવાળો હોય છે તો તે
 આમિનિબોધિક જ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યવ જ્ઞાનેથી શુદ્ધ હોય

संहननम्, संस्थानम्, उच्चत्वम्, आयुष्कं च, एतानि सर्वाणि यथा अश्रुत्वा तथैव भणितव्यानि । स खलु भदन्त ! किं सवेदकः अवेदकः ? गौतम ! सवेदको भवति, अवेदको वा । यदि अवेदको भवति किम् उपशान्तवेदको भवति, क्षीणवेदको भवति ? गौतम ! नो उपशान्तवेदको भवति, क्षीणवेदको भवति । यदि सवेदको भवति, किं स्त्रीवेदको भवति, पुरुषवेदको भवति, नपुंसकवेदको

अजोगी होज्जा) हे भदन्त ! वह श्रुत्वा अवधिज्ञानी सयोगी होता है या अयोगी होता है ? (एवं जोगोवओगो, संघषणं, संठाणं उच्चत्तं, आउयं च एयाणि सव्वाणि जहा असोच्चाए तहेव भाणियव्वाणि) हे गौतम ! पहिले कहे गये अनुसार योग, उपयोग, संहनन, संस्थान, ऊँचाई और आयु इन सब का कथन यहाँ पर अश्रुत्वा की तरह कहना चाहिये । (से णं भंते ! किं सवेदए अवेदए) हे भदन्त ! वह श्रुत्वा अवधिज्ञानी वेदसहित होता है या वेदरहित होता है ? (सवेदए होज्जा अवेदए वा) हे गौतम ! वह वेदसहित होता है, वेदरहित भी होता है । (जह अवेदए होज्जा किं उवसंतवेयए होज्जा, स्त्रीणवेयए होज्जा) हे भदन्त ! यदि वह वेदरहित होता है, तो क्या वह उपशान्त वेदवाला होता है या क्षीणवेदवाला होता है ? (गोयमा ! नो उवसंतवेयए होज्जा, स्त्रीणवेयए होज्जा) हे गौतम ! वह श्रुत्वा अवधिज्ञानी उपशान्त वेदवाला नहीं होता है क्षीणवेदवाला होता है । (जह सवेयए होज्जा ? किं

छे. (से णं भंते ! किं सजोगी होज्जा, अजोगी होज्जा ?) हे भदन्त ! ते श्रुत्वा अवधिज्ञानी सयोगी होय छे के अयोगी होय छे ? (एवं जोगोवओगो, संघषण, संठाण, उच्चत्तं, आउयं च एयाणि सव्वाणे जहा असोच्चाए तहेव भाणियव्वाणि) हे गौतम ! अश्रुत्वा अवधिज्ञानना योग, उपयोग, संहनन, संस्थान, आउयं अने आयुष्यना विषयमां जेवुं कथन पडेलां करवामां आउयुं छे, अवेदुं च कथन श्रुत्वा अवधिज्ञानीना योग, उपयोग, संहनन, संस्थान, आउयं अने आयुष्यना विषयमा पणु समज्जुं (से णं भंते ! किं सवेदए, अवेदए) हे भदन्त ! ते श्रुत्वा अवधिज्ञानी वेदसहित होय छे के वेदरहित होय छे ? (सवेदए होज्जा अवेदए वा) हे गौतम ! ते वेदसहित पणु होय छे अने वेदरहित पणु होय छे. (जह अवेदए होज्जा किं उवसंत वेयए होज्जा, स्त्रीणवेयए होज्जा ?) हे भदन्त ! जे ते वेदरहित होय छे, ते श्रुं ते उपशान्त वेदवाणे होय छे के क्षीण वेदवाणे होय छे ? (गोयमा ! नो उवसंतवेयए होज्जा, स्त्रीणवेयए होज्जा) हे गौतम ! ते श्रुत्वा अवधिज्ञानी उपशान्त वेदवाणे होतो नथी पणु क्षीण वेदवाणे होय छे. (जह सवेयए होज्जा)

भवति, पुरुषनपुसकवेदको वा भवति ? गौतम ! स्त्रीवेदको वा भवति, पुरुष
वेदको वा भवति, पुरुषनपुसकवेदको वा भवति, नो नपुसकवेदको भवति । स
खलु भवन्त । किं सक्रपायी भवति, अक्रपायी वा भवति ? गौतम ! सक्रपायी वा
भवति, अक्रपायी वा भवति । यदि अक्रपायी भवति किम् उपशान्तक्रपायी
भवति, स्त्रीणक्रपायी भवति ? गौतम ! नो उपशान्तक्रपायी भवति, स्त्रीणक्रपायी

इत्थीवेयए होज्जा, पुरिसवेयए होज्जा, नपुसगवेयए होज्जा, पुरिस
नपुसगवेयए वा होज्जा) हे भवन्त । यदि यह श्रुत्वा अथविज्ञानी वेद
सहित होता है तो क्या यह स्त्रीवेदवाला होता है, या पुरुषवेदवाला
होता है, या नपुसकवेदवाला होता है, या पुरुषनपुसकवेदवाला होता
है ? (गोयमा) हे गौतम ! (इत्थीवेयए वा होज्जा, पुरिसवेयए वा होज्जा,
पुरिस नपुसगवेयए वा होज्जा) यह श्रुत्वा अथविज्ञानी स्त्रीवेदवाला भी
होता है, पुरुषवेदवाला भी होता है, पुरुषनपुसकवेदवाला भी होता है,
परन्तु यह नपुसकवेदवाला नहीं होता है । (से णं भते ! किं सक्रसाई
होज्जा, अक्रसाई वा होज्जा) हे भवन्त ! यह श्रुत्वा अथविज्ञानी क्या
सक्रपायी होता है या अक्रपायी होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! यह
श्रुत्वा अथविज्ञानी (सक्रसाई वा होज्जा, अक्रसाई वा होज्जा) सक्र
पायी भी होता है अक्रपायी भी होता है । (जइ अक्रसाई होज्जा किं
उयसतक्रसाई होज्जा, स्त्रीणक्रसाई होज्जा) हे भवन्त ! यदि यह श्रुत्वा
अथविज्ञानी अक्रपायी होता है तो क्या उपशान्तक्रपायवाला होता है

नपुसगवेयए होज्जा, पुरिसनपुसगवेयए होज्जा ?) हे भवन्त ! ने ते श्रुत्वा
अथविज्ञानी वेदसहित होय छे तो शु स्त्रीवेदवालो होय छे के पुरुषवेदवालो
होय छे, के नपुसक वेदवालो होय छे के पुरुष नपुसक वेदवालो होय छे ?
(गोयमा !) हे गौतम ! (इत्थीवेयए वा होज्जा पुरिसवेयए वा होज्जा, पुरिस
नपुसगवेयए वा होज्जा) ते श्रुत्वा अथविज्ञानी स्त्रीवेदवालो भवु होय छे,
पुरुष वेदवालो भवु होय छे अने पुरुषनपुसक वेदवालो भवु होय छे परन्तु
ते नपुसक वेदवालो होतो नही.

(से णं भते ! सक्रसाई होज्जा, अक्रसाई वा होज्जा ?) हे भवन्त ! श्रुत्वा
अथविज्ञानी शु सक्रपायी होय छे के अक्रपायी होय छे ? (गोयमा !) हे
गौतम ! (सक्रसाई वा होज्जा, अक्रसाई वा होज्जा) ते श्रुत्वा अथविज्ञानी
सक्रपायी भवु होय छे अने अक्रपायी भवु होय छे (जइ अक्रसाई होज्जा,
किं उयसतक्रसाई होज्जा, स्त्रीणक्रसाई होज्जा) हे भवन्त ! ने ते श्रुत्वा अथ
विज्ञानी अक्रपायी होय छे, तो शु ते उपशान्त क्रपायवालो होय छे के स्त्रीण

भवति, । यदि सरुपायी भवति, स खलु भदन्त ! कतिपु कषायेषु भवति ? गौतम ! चतुर्षु वा, त्रिषु वा, द्वयोर्वा, एकस्मिन् वा भवति, चतुर्षु भवन् संज्वलनक्रोधमानमायालोभेषु भवति, त्रिषु भवन् संज्वलनमानमायालोभेषु भवति, द्वयोर्भवन् संज्वलनमायालोभयोर्भवति, एकस्मिन् भवन् संज्वलने लोभे भवति । तस्य

या क्षीणकषाय वाला होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (नो उवसंत-कसाई होज्जा, खीणकसाई होज्जा) वह श्रुत्वा अवधिज्ञानी उपशान्त कषायवाला नहीं होता है, किन्तु क्षीणकषायवाला होता है । (जइ सकसाई होज्जा, कइसु कसाएसु होज्जा) हे भदन्त ! यदि वह श्रुत्वा अवधिज्ञानी सकषायी होता है तो कितनी कषायों में होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (चउसु वा तिसु वा, दोसु वा एकस्मि वा होज्जा) वह श्रुत्वा अवधिज्ञानी चार कषायों में, या तीन कषायों में, या दो कषायों में या एक कषाय में होता है । (चउसु होज्जमाणे संजलणकोहमाणमायालोभेसु होज्जा, तिसु होज्जमाणे संजलण माणमायालोभेसु होज्जा, दोसु होज्जमाणे संजलणमायालोभेसु होज्जा, एकस्मि होज्जमाणे संजलणे लोभे होज्जा) यदि वह चार कषायों में होता है तो संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ इन चार कषायों में होता है । यदि वह तीन कषायों में होता है तो संज्वलन संबंधी मान, माया और लोभ इन तीन कषायों में होता है । यदि वह

कषायवाणे डोय छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (नो उवसंतकसाई होज्जा, खीणकसाई होज्जा) ते श्रुत्वा अवधिज्ञानी उपशान्त कषायवाणे डोते नथी, पणु क्षीण कषायवाणे डोय छे. (जइ सकसाई होज्जा, कइसु कसाएसु होज्जा) हे भदन्त ! ने ते श्रुत्वा अवधिज्ञानी सकषायी डोय छे, तो केटवा कषायवाणे डोय छे ?

(गोयमा !) हे गौतम ! (चउसु वा, तिसु वा, दोसु वा, एकस्मि वा होज्जा) ते श्रुत्वा अवधिज्ञानी चार, अथवा त्रणु अथवा ये अथवा येक कषायवाणे डोय छे (चउसु होज्जमाणे संजलणकोहमाणमायालोभेसु होज्जा, तिसु होज्जमाणे संजलणमाणमायालोभेसु होज्जा, दोसु होज्जमाणे संजलणमायालोभेसु होज्जा, एकस्मि होज्जमाणे संजलणे लोभे होज्जा) ने ते चार कषायवाणे डोय छे, तो ते संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया अने संज्वलन दोषयुक्त डोय छे. ने ते त्रणु कषायवाणे डोय छे, तो ते एवमां संज्वलन मान, माया अने दोष. आ त्रण कषायवाणे

સલ્લ મદન્ત ! કિયન્તિ અધ્યવસાનાનિ પ્રજ્ઞાનિ? ગૌતમ ! અસરૂપેયાનિ, एवं यथा अभुत्वा तथैव यावत् केवलवरानाणदर्शनं समुत्पद्यते । स सल्ल मदन्त ! केवल्लिपण्णप धर्मस् आरूपापयेद् वा, प्रज्ञापयेद् वा, प्ररूपयेद् वा ? इन्त, गौतम ! आरूपापयेद् वा, प्रज्ञापयेद् वा, प्ररूपयेद् वा । स सल्ल मदन्त ! प्रमानयेद् वा, मुण्ठयद् वा,

દો કપાયોં મેં હોતા હૈ તો સંજ્વલન સર્વથી માયા ઓમ હન દો કપાયોં મેં હોતા હૈ । ઓર જય ઘહ એક કપાય મેં હોતા હૈ તથ વહ સજ્વલન સર્વથી એક લોમ કપાય મેં હોતા હૈ । (તસ્સ ણ મંતે । કેવહ્યા અજ્ઞાવસાણા પણ્ણસા) હે મદન્ત !, ઉસ શુત્વા અવધિજ્ઞાની,કો કિતને અધ્યવસાય હોતે હૈં ? (ગોપમા) હે ગૌતમ । (અસંલોજ્ઞા) ઉસ શુત્વા અવધિજ્ઞાની કો અસલ્યાત અધ્યવસાય હોતે હૈં । (એવ જહા અસોચ્ચાપ તહેથ જાઘ કેવલવરનાણદંસણે સમુપ્પજ્ઞહ) હસ તરહ જૈસા કિ અશુત્વા કે લિયે કહા ગયા હૈ ડસી તરહ સે યાવત્ “ શુત્વા કેવલી કે લિયે અનતજ્ઞાન-કેવલજ્ઞાન ઓર અનતદર્શન-કેવલદર્શન ઉત્પલ્લ હોતે હૈં ” યહાં તક કહના ચાહિયે ।

(સે ણં મંતે ! કેવલ્લિપણ્ણસં ધમ્મ આચવેગ્ગ ઘા, પલ્લવેગ્ગ ઘા, પરુ વેગ્ગ ઘા) હે મદન્ત ! વહ શુત્વા કેવલી કેવલ્લિ દ્વારા પ્રજ્ઞા ધર્મ કા કથન કરતા હૈ, ઉસકી પ્રજ્ઞાપના કરતા હૈ ઓર કયા ઉસકી પ્રરૂપણા કરતા ? (હંતા, આચવેગ્ગ ઘા પલ્લવેગ્ગ ઘા પરુવેગ્ગ ઘા) હાં, ગૌતમ !

બાવ રહે છે એ તે જ ક્ષાયોવાળો ઢોલ તે તે અપમા સંવલન માયા અને સંવલન ઢોલનો જ સદ્ભાવ રહે છે એ તે એક ક્ષાયવાળો ઢોલ તે તે અપમા રૂઠ સંવલન ઢોલકષાયનો જ સદ્ભાવ રહે છે

(ઉસ ણં મતે ! કેવહ્યા અજ્ઞાવસાણા પણ્ણસા ?) હે મદન્ત ! તે શુત્વા અવધિજ્ઞાની કેટલા અધ્યવસાયવાળો ઢોલ છે ? (ગોપમા ! અસંલોજ્ઞા) હે ગૌતમ ! તે શુત્વા અવધિજ્ઞાનીના અસંજ્ઞાત અધ્યવસાય ઢોલ છે (एवं जहा असोच्चाप तहेथ जाघ केवलवरेणाणदंसणे समुत्पज्जह) આ રીતે અશુત્વાને અનુ લક્ષ્મિને નેતું કથન પહેલાં કરવામાં આનું છે, એવું જ કથન શુત્વાને અનુ લક્ષ્મિને પણ કરવું એમને “ શુત્વા અવધિજ્ઞાનીમાં અનતજ્ઞાન (કેવલજ્ઞાન) અને અનતદર્શન (કેવલદર્શન) ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, ” આ કથન પર્યન્તનું પૂર્વોક્ત કથન અહીં પણ પ્રદલ્ય કરવું એમને.

(સે ણં મંતે ! કેવલ્લિપણ્ણસં ધમ્મ આચવેગ્ગ ઘા પલ્લવેગ્ગ ઘા, પરુવેગ્ગ ઘા) હે મદન્ત ! તે શુત્વા કેવલીદ્વારા પ્રજ્ઞા ધર્મનું કથન કરે છે તેની પ્રજ્ઞાપના કરે છે પ્રરૂપણા કરે છે (હતા, આચવેગ્ગ ઘા, પલ્લવેગ્ગ ઘા, પરુવેગ્ગ ઘા) હા, ગૌતમ !

હન્ત, ગૌતમ ! પ્રત્રાજયેદ્ વા, મુણ્ડયેદ્ વા । તસ્ય ચ્વલુ ભદન્ત ! શિષ્યા અપિ પ્રત્રાજયેયુર્વા, મુણ્ડયેયુર્વા ? હન્ત, પ્રત્રાજયેયુર્વા, મુણ્ડયેયુર્વા । તસ્ય ચ્વલુ ભદન્ત ! પ્રશિષ્યા અપિ પ્રત્રાજયેયુર્વા, મુણ્ડયેયુર્વા ? હન્ત, પ્રત્રાજયેયુર્વા મુણ્ડયેયુર્વા । સ ચ્વલુ ભદન્ત ! સિધ્યતિ, વુધ્યતે, યાવત્ અન્તં કરોતિ ? હન્ત,

વહ શ્રુત્વા કેવલી કેવલી દ્વારા પ્રજ્ઞસ ધર્મ વા કથન કરતા હૈ ઁસકી પ્રજ્ઞાપના ઢી કરતા હૈ ઁર ઁસકી પ્રરૂપણા ઢી કરતા હૈ । (સે ણં ઢંતે ! પ્વાવેજ્જ વા મુંઢાવેજ્જ વા) હે ભદન્ત ! વ્યા વહ કિસી કો પ્રવ્રજ્યા દેતા હૈ, દીક્ષા દેતા હૈ ? (હંતા, ગોયમા ! પ્વાવેજ્જ વા મુંઢાવેજ્જ વા) હાં, ગૌતમ ! વહ શ્રુત્વા કેવલી પ્રવ્રજ્યા દેતા હૈ, દીક્ષા દેતા હૈ । (તસ્સ ણં ઢંતે ! સિસ્સા વિ પ્વાવેજ્જ વા મુંઢાવેજ્જ વા) હે ભદન્ત ! ઁસ શ્રુત્વા કેવલી કે શિષ્ય ઢી વ્યા કિસી કો પ્રવ્રજ્યા દેતા હૈ, દીક્ષા દેતા હૈ ? (હંતા, પ્વાવેજ્જ વા મુંઢાવેજ્જ વા) હાં ગૌતમ ! ઁસ શ્રુત્વા કેવલી કે શિષ્ય ઢી પ્રવ્રજ્યા દેતે હૈ, દીક્ષા દેતે હૈ । (તસ્સ ણં ઢંતે ! પ્સિસ્સા વિ પ્વાવેજ્જ વા મુંઢાવેજ્જ વા) હે ભદન્ત ! ઁસ શ્રુત્વા કેવલી કે પ્રશિષ્ય ઢી વ્યા કિસી કો પ્રવ્રજ્યા દેતે હૈ, દીક્ષા દેતે હૈ ? (હંતા, પ્વાવેજ્જ વા મુંઢાવેજ્જ વા) હાં ગૌતમ ! શ્રુત્વા કેવલી કે પ્રશિષ્ય ઢી પ્રવ્રજ્યા દેતે હૈ દીક્ષા દેતે હૈ । (સે ણં ઢંતે ! સિજ્ઞહ, વુજ્ઞહ, જાવ અંતં કરેહ) હે ભદન્ત ! વહ શ્રુત્વા કેવલી વ્યા સિદ્ધ હોતા હૈ, વુદ્ધ હોતા હૈ, યાવત્

તે શ્રુત્વા કેવળજ્ઞાની કેવલીદ્વારા પ્રજ્ઞસ ધર્મનુ કથન કરે છે, તેની પ્રજ્ઞાપના પણ કરે છે અને પ્રરૂપણા પણ કરે છે. (સે ણં ઢંતે ! પ્વાવેજ્જ વા મુંઢાવેજ્જ વા ?) હે ભદન્ત ! શું તે શ્રુત્વા કેવળજ્ઞાની કોઈને પ્રવ્રજ્યા દે છે, અને કેશલુચ્ચનરૂપ મુંડન કરે છે ? (હંતા, ગોયમા ! પ્વાવેજ્જ વા, મુંઢાવેજ્જ વા) હા, ગૌતમ ! તે શ્રુત્વા કેવલી પ્રવ્રજ્યા પણ દે છે અને મુંડનકાર્ય પણ કરે છે (તસ્સ ણં સિસ્સા વિ પ્વાવેજ્જ વા મુંઢાવેજ્જ વા) હે ભદન્ત ! તે શ્રુત્વા કેવલીના શિષ્યો પણ કોઈને પ્રવ્રજ્યા દે છે અને કેશલુચ્ચનરૂપ મુંડનકાર્ય કરે છે ? (હંતા, પ્વાવેજ્જ વા મુંઢાવેજ્જ વા) હા, ગૌતમ ! તે શ્રુત્વા કેવલીના શિષ્યો પણ પ્રવ્રજ્યા દે છે અને કેશલુચ્ચનરૂપ મુંડનકાર્ય કરે છે (તસ્સ ણં ઢંતે ! મંતે ! પ્સિસ્સા વિ પ્વાવેજ્જ વા મુંઢાવેજ્જ વા ?) હે ભદન્ત ! તે શ્રુત્વા કેવલીના પ્રશિષ્યો પણ શું પ્રવ્રજ્યા દે છે અને મુંડનકાર્ય કરે છે ? (હંતા, પ્વાવેજ્જ વા મુંઢાવેજ્જ વા) હા, ગૌતમ ! તેઓ પણ પ્રવ્રજ્યા દે છે અને કેશલુચ્ચનરૂપ મુંડનકાર્ય કરે છે (સે ણં ઢંતે ! સિજ્ઞહ, વુજ્ઞહ જાવ અંતં કરેહ ?) હે ભદન્ત ! તે શ્રુત્વા કેવલી શું સિદ્ધ થાય છે, વુદ્ધ થાય છે અને સમસ્ત

સિષ્યતિ યા, યાવત્ અન્તં કરોતિ । તસ્ય સ્વહ મદન્ત ! શિષ્યા અપિ સિષ્યન્તિ,
યાવત્, અન્ત કુર્વન્તિ ? હન્ત, સિષ્યન્તિ યાવત્ અન્ત કુર્વન્તિ, । તસ્ય સ્વહ મદન્ત !
પ્રશિષ્યાઅપિ સિષ્યન્તિ યાવત્ અન્ત કુર્વન્તિ, એવમેવ યાવત્ અન્ત કુર્વન્તિ । સ
સ્વહ મદન્ત ! કિમ્ ઊર્ધ્વ મવતિ ? યથૈવ અમૃત્વા યાવત્ તદેકદેશમાને મવતિ । તે

સમસ્ત દુઃખોં કા અન્ત કરતાં હૈ ? (હતા, સિઝ્ઝતિ યા જાવ અન્ત કરેહ)
હાં, ગૌતમ ! યહ યુત્વા કેવલી સિદ્ધ હોતા હૈ, યુદ્ધ હોના હૈ યાવત્
સમસ્ત દુઃખોં કા અન્ત કરતા હૈ । (તસ્સ ણ મંતે । સિસ્સા યિ સિઝ્ઝતિ,
જાવ અન્ત કરેતિ) હૈ મદન્ત ! ડસ યુત્વા કેવલી કે શિષ્ય મી કયા
સિદ્ધ હોતે હૈ યાવત્ સમસ્ત દુઃખોં કા અન્ત કરતે હૈ ? (હતા, સિઝ્ઝતિ
જાવ અન્ત કરેતિ) હાં, ગૌતમ ! ડસ યુત્વા કેવલી કે શિષ્ય મી સિદ્ધ
હોતે હ યાવત્ સમસ્ત દુઃખોં કા અન્ત કરતે હૈ । (તસ્સ ણ મંતે ! પસિ
સ્સા યિ સિઝ્ઝતિ જાવ અન્ત કરેતિ) હૈ મદન્ત ! ડસ યુત્વા કેવલી કે
પ્રશિષ્ય મી સિદ્ધ હોતે હૈ યાવત્ સમસ્ત દુઃખોં કા અન્ત કરતે હૈ । (પથ
વેથ જાવ અન્ત કરેતિ) હૈ ગૌતમ ! એમા હી હૈ યાવત્ વે સમસ્ત દુઃખોં
કા નાશ કરતે હૈ । (સે ણ મંતે । કિં ડહુ હોઝા) હૈ મદન્ત ! યહ
યુત્વા કેવલી કે કયા ઉર્ધ્વલોક મેં હોતા હૈ ? હત્યાદિ પ્રમ્મ । (જહેવ
અસોચ્ચાપ જાવ તદેક દેસમાપ હોઝા) હૈ ગૌતમ ! ડસ યિપય મેં

હુ ખોનો અન્ત કરે છે ? (હતા, સિઝ્ઝતિ યા જાવ અન્ત કરેહ) હા, ગૌતમ !
તે યુત્વા કેવલી સિદ્ધ થાય છે, યુદ્ધ થાય છે અને સમસ્ત દુઃખોનો અન્ત
કરે છે (તાસ ણ મંતે । સિસ્સા યિ સિઝ્ઝતિ, જાવ અન્ત કરેતિ ?) હે મદન્ત !
તે યુત્વા કેવલીના શિષ્યો પજુ શુ સિદ્ધ થાય છે, યુદ્ધ થાય છે અને સમસ્ત
દુઃખોનો અન્ત કરે છે ? (હતા, સિઝ્ઝતિ, જાવ અન્ત કરેતિ) હા, ગૌતમ !
તેમના શિષ્યો પજુ સિદ્ધ થાય છે યુદ્ધ થાય છે અને સમસ્ત દુઃખોનો અન્ત
કરે છે (તાસ ણ મંતે । પરિસ્સા યિ સિઝ્ઝતિ જાવ અન્ત કરેતિ ?) હે મદન્ત !
તે યુત્વા કેવલીના પ્રશિષ્યો પજુ શુ સિદ્ધ થાય છે, યુદ્ધ થાય છે અને સમસ્ત
દુઃખોનો અન્ત કરે છે ? (એવં વેથ જાવ અન્ત કરેતિ) હા, ગૌતમ ! તેઓ
પજુ સિદ્ધ થાય છે યુદ્ધ થાય છે અને સમસ્ત દુઃખોનો અન્ત કરે છે (સેણ
મંતે । કિં ડહુ હોઝા ?) હે મદન્ત ! શુ તે યુત્વા કેવલી ઉર્ધ્વલોકમાં ડેવ
ર, કે અપિલોકમાં ડેવ છે કે તિપગ્ગેલોકમાં ડેવ છે ? વજેર પ્રશ્નો.

(જરેવ અસોચ્ચાપ જાવ તદેકદેસમાપ હોઝા) હે ગૌતમ ! આ વિષયની
અભિપ્રાય અમત્વા કેવલીની વજાખ્યવા પ્રમાણે સમજવી. અદી દીપ સમુ

खलु भदन्त ! एकसमये कियन्तो भवन्ति ! गौतम ! जघन्येन एको वा, द्वौ वा, त्रयो वा, उत्कृष्टेन अष्टशतम् (१०८) तत् तेनार्थेन गौतम ! एवमुच्यते—श्रुत्वा खलु केवलिनो वा यावत् केवल्युपासिकाया वा यावत् अस्त्येककः केवलज्ञानमुत्पादयेत्, अस्त्येकको नो केवलज्ञानमुत्पादयेत्, तदेवं भदन्त ! तदेवं भदन्त ! इति ॥सू०६॥

इति नवमशतकस्य एकत्रिंशत्तमः उद्देशकः समाप्तः ॥ ९-३१ ॥

अश्रुत्वा केवली के समान जानना चाहिये, यावत् वह अढाई द्वीप समुद्रों के किसी एक भाग में होता है। (तेणं भंते ! एगसमएणं केवइया होज्जा) हे भदन्त ! वे श्रुत्वा केवली एक समय में कितने हो सकते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं अट्टसयं-से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ, सोच्चाणं केवलिसस वा जाव केवलि उवासियाए वा जाव अत्येगइए केवलनाणं उप्पाडेज्जा, अत्येगइए नां केवलनाणं उप्पाडेज्जा-सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति) श्रुत्वा केवली जघन्य से एक अथवा दो अथवा तीनतक हो सकते हैं और अधिक से अधिक १०८ हो सकते हैं। इस कारण हे गौतम ! मैंने ऐसा कहा है कि केवली अथवा यावत् केवली की उपासिका के पास यावत् कोई एक मनुष्य केवलज्ञान को उत्पन्न कर लेता है और कोई एक मनुष्य केवल ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर पाता है। हे भदन्त ! जैसा आपने कहा है वह सर्वथा सत्य है—हे भदन्त ! जैसा आपने कहा है वह सर्वथा

द्रोना डोई अेक लागमां डोय छे, ” आ कथन पर्यन्तनुं पांथमां सूत्रमां आपेतु अश्रुत्वा केवली विषेतु कथन अर्ही पणु अडिष्णु करवुं (ते णं भंते ! एगसमएणं केवइया होज्जा) हे भदन्त ! अेक समयमां डेटला श्रुत्वा केवली संभवी शके छे ? (गोयमा !) हे गौतम ! (जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं अट्टसयं-से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ, सोच्चा णं केवलिसस वा जाव केवलि उवासियाए वा जाव अत्येगइए केवलनाणं उप्पाडेज्जा, अत्येगइए नां केवलनाणं उप्पाडेज्जा) अेक समयमां ओछामां ओछा अेक, जे, अथवा त्रणु श्रुत्वा केवली संभवी शके छे अने वधारेमां वधारे १०८ श्रुत्वा केवली संभवी शके छे. :हे गौतम ! ते कारणे मे अेवुं कहुं छे हे केवली पासे अथवा केवलीनी उपासिका पर्यन्तनी डोई व्यञ्जित केवलिप्रज्ञस धर्मथी लधने केवज्ज्ञान पर्यन्तना पूर्वोक्त पदार्थो प्राप्त करी शके छे अने डोई व्यञ्जित तेमने उपदेशे श्रवणु करवा छतां पणु केवज्ज्ञान पर्यन्तनुं कंथं पणु उत्पन्न करी शकती नथी. (सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति) हे भदन्त ! आपे जे कहुं ते सर्वथा सत्य छे. हे भदन्त ! आ विषयनुं आपे जे प्रतिपादन कथुं ते सर्वथा सत्य जे छे.

टीका—सोषा णं मते । केवलिस्स वा जाव तप्पन्निखयउपासियाए वा केवलिपन्नसं घम्म लमेज्जा सवणयाए ?' गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! क्विज्जीवः केवलिनः सकाशाद् वा, यावत् केवलिधावकस्य सकाशाद् वा, केवलिधाविकाया सकाशाद् वा, तत्पासिकस्य स्वययुद्धस्य सकाशाद् वा, तत्पासिको

सत्य है इस प्रकार कह कर वे गौतम यावत् अपने स्थान पर विराजमान हो गये ।

टीकार्थ—इमसे पहिले “ केवली आदि से घर्मादिक का प्रवचन नहीं सुनने पर भी किसी २ जीव को घर्मान्तरायिक कर्मों के क्षयोपशम होने पर घर्मादिक का लाभ हो जाता है और किसी २ जीव को घर्मान्तरायिक कर्मों के क्षयोपशम के अभाव में घर्मादिक का लाभ नहीं होता है ” ऐसा कथन किया जा चुका है—

अथ सूत्रकार ऐसा कथन करते हैं कि केवली आदि से घर्मादिक का प्रवचन सुनने पर भी यदि घर्मान्तरायिक आदि कर्मों का क्षयोपशम है तब ही जाकर जीव को घर्मादिक का लाभ होता है । इस तरह तच्छाम विशेष की वस्तुव्यता करने के अभिप्राय से वे इस सूत्र का प्रारम्भ करते हैं—इममें गौतम ने प्रसु से यही पूछा है—(सोषा ण मते ! केवलिस्स वा जाव तप्पन्निखयउपासियाए वा केवलिपन्नसं घम्म लमेज्जा सवणयाए) हे भदन्त ! जिस मनुष्य ने केवली के पास या यावत्—केवली के आश्रक के पास, या केवली की आश्रिका के पास, या

अथ प्रभाषे क्वीने वदन्ता नमस्कार करीने तेज्जा तेभने स्थाने वित्री गया

टीका—अथ पड़ेवां “ केवली आदिनी सभीपे घर्मादिक प्रवचन नहीं सांभगवा उतां पवुं केवलिस्स वा जाव तप्पन्निखयउपासियाए वा केवलिपन्नसं घम्म लमेज्जा सवणयाए ?' गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! क्विज्जीवः केवलिनः सकाशाद् वा, यावत् केवलिधावकस्य सकाशाद् वा, केवलिधाविकाया सकाशाद् वा, तत्पासिकस्य स्वययुद्धस्य सकाशाद् वा, तत्पासिको

गौतम स्वामीने प्रभ—(सोषा णं मते । केवलिस्स वा जाव तप्पन्निखयउपासियाए वा केवलिपन्नसं घम्म लमेज्जा सवणयाए) हे भदन्त ! २० गनुधी

पासकस्य सकाशाद् वा, तत्पक्षिकोपासिकायाः सकाशाद् वा धर्मोपदेशं श्रुत्वा खलु केवलिप्रज्ञप्तम्=केवल्युपदिष्टं धर्मं श्रवणतया श्रवणज्ञानफलतया लभेत किम् ? इति प्रश्नः । भगवानाह—‘ गौयमा । सोच्चा णं केवलिस्स वा जाव अत्येगइए केवलिपणत्तं धम्मं एवं जा चेव असोच्चाए वत्तव्वया सा चेव सोच्चाए वि भाणियव्वा ’ हे गौतम ! अस्त्येककः कश्चित् केवलिनो वा सकाशात्, केवलिश्रावक-प्रभृतेः सकाशाद् वा धर्मोपदेशं श्रुत्वा खलु केवलिप्रज्ञप्तं केवल्युपदिष्टं धर्मं श्रवण-तया लभेत जानीयात् अस्त्येककः कश्चित् केवलिप्रज्ञप्तं धर्मं श्रुत्वाऽपि नो लभेत, इत्येवं पूर्वोक्तरीत्या या चेव ‘ अश्रुत्वा ’ इत्येस्य आलापकस्य वक्तव्यता भणिता सा चेव वक्तव्यता ‘ श्रुत्वा ’ इत्यस्मिन् आलापकेऽपि भणितव्या, किन्तु तदपे-

केवली के पक्ष के स्वयंबुद्ध के पास, या केवली के पक्ष के स्वयंबुद्ध के उपासक के पास, या उनकी उपासिका के पास धर्मोपदेश सुना है, ऐसा वह मनुष्य क्या श्रवणज्ञान फलरूप से केवली उपदिष्ट धर्म को प्राप्त कर सकता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गौयमा) हे गौतम ! (सोच्चा णं केवलिस्स वा जाव अत्येगइए केवलिपणत्तं धम्मं एवं जा चेव असोच्चाए वत्तव्वया सा चेव सोच्चाए वि भाणियव्वा) कोई एक जीव ऐसा होता है जो केवली से या उनके श्रावक आदि से धर्मोपदेश सुनकर केवलि द्वारा उपदिष्ट धर्म को श्रवणज्ञान फलरूप से पा लेता है—जान जाता है, और कोई एक जीव—मनुष्य ऐसा होता है जो केवली आदि से केवली—उपदिष्ट धर्म को सुन करके भी उसे श्रवण ज्ञानफलरूप से नहीं जान पाता है इस तरह पूर्वोक्तरूप से “ अश्रुत्वा ”

श्रवणज्ञानी पास, श्रवणीना श्रावक पास के तेमनी श्राविका पास के केवलीना पक्षना स्वयंबुद्ध पास, के केवलीना पक्षना स्वयंबुद्धना उपासक पास, के तेमनी उपासिकानी पास धर्मोपदेश सांलज्जे डाय छे, ते शुं श्रवणज्ञानइल इपे केवली—प्रइपित धर्मने प्राप्त करी शके छे ?

भडावीर प्रभुने उत्तर—(गौयमा ! हे गौतम ! (सोच्चारणं केवलिस्स वा जाव अत्येगइए केवलिपणत्तं धम्मं एवं जा चेव असोच्चाए वत्तव्वया सा चेव सोच्चाए वि भाणियव्वा) कोइके एव ओवेो पणु डाय छे के ने केवली पास अथवा केवलीना श्रावकादि सनीपे धर्मोपदेश श्रवणु करीने केवली प्रइपित धर्मने श्रवणज्ञान इलइपे प्राप्त करे छे अने कोइके एव ओवेो पणु डाय छे के ने केवली आदिनी सनीपे केवली उपदिष्ट धर्मने श्रवणु करवा छता पणु तेने श्रवणज्ञानइलइपे प्राप्त करी शकतो नथी. आ रीते ‘ अश्रुत्वा ’ ना आला-

સયા વિશેષમાદ- 'નવરં અમિલાવો સોચ્ચેતિ, સેસં તં વેવ નિરવસેસ ઝાબ' નવ
 રમ્ અમુક્તા વિપયકામિલાપાપેસયા વિશેવસ્ટુ શ્રુસ્વાવિપયકામિલાપોડમ વક્તવ્યમ્,
 ક્ષેપ તદેવ પૂર્વોક્તમેવ નિરવક્ષેપં વક્તવ્યમ્ યાવત્-પસ્ય સ્વલુ જીવસ્ય જ્ઞાનાવરણીયાનાં
 કર્મણાં ક્ષયોપશમઃ કૃતો મવતિ, યસ્ય સ્વલુ દર્શનાવરણીયાનાં કર્મણાં ક્ષયોપશમઃ
 કૃતો મવતિ, યસ્ય સ્વલુ ધર્માન્તરાયિકાણાં કર્મણાં ક્ષયોપશમઃ કૃતો મવતિ,
 યસ્ય ચારિત્રાવરણીયાનાં કર્મણાં ક્ષયોપશમઃ કૃતો મવતિ, યસ્ય યતનાવરણીયાનાં
 કર્મણાં ક્ષયોપશમ કૃતો મવતિ, યસ્ય અધ્યવસાનાવરણીયાનાં કર્મણાં ક્ષયોપશમઃ
 કૃતો મવતિ, યસ્ય અભિનિષોધિકજ્ઞાનાવરણીય-શ્રુતજ્ઞાનાવરણીયા-વડવિજ્ઞાનાવરણી

કે આલાપક કી જો વક્તવ્યતા કહી ગઈ છે, ઘડી વક્તવ્યતા "શ્રુસ્વા"
 હસ આલાપક મેં મી કહના ચાહિયે। કિન્તુ હસ આલાપક કી વક્તવ્યતા
 મેં ધૌર હસ આલાપક કી વક્તવ્યતા મેં જો મેદ્ છે ઘડ્ હસ પ્રકાર સે
 છે-(નવરં અમિલાવો સોચ્ચે તિ-સેસં તં વેવ નિરવસેસં ઝાબ) કિ હસ
 વક્તવ્યતા મેં "શ્રુસ્વા" યેસા પદ રસકર હસકા આલાપક બનાના
 ચાહિયે। યાકી કા ઓર સબ કવન અશ્રુસ્વા કે આલાપક જૈસા હી જાનના
 ચાહિયે। યાવત્-જિસ શ્રુસ્વા મનુષ્ય કે જ્ઞાનાવરણીય કર્મોં કા ક્ષયોપ
 શમ શૂન હોતા છે, જિસકે દર્શનાવરણીય કર્મોં કા ક્ષયોપશમ કિયા
 હુઆ હોતા છે, જિસકે ધર્માન્તરાયિક કર્મોં કા ક્ષયોપશમ કિયા ગયા
 છે, જિસકે ચારિત્રાવરણીય કર્મોં કા ક્ષયોપશમ કિયા હુઆ હોતા છે,
 જિસકે યતનાવરણીય કર્મોં કા ક્ષયોપશમ હોતા છે, જિસકે અધ્યવસા-
 નાવરણીય કર્મોં કા ક્ષયોપશમ હોતા છે જિસકે અભિનિષોધિક જ્ઞાના
 વરણીય કર્મોં કા ક્ષયોપશમ હોતા છે, જિસકે શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મોં

પદમાં જેવી વક્તવ્યતા આગળ કરવામાં આવી છે, એવી જ વક્તવ્યતા 'શ્રુસ્વા'
 વિષયક આ આલાપકમાં પણ થવી જોઈએ. પરંતુ તે આલાપકની વક્તવ્યતામાં
 અને આ આલાપકની વક્તવ્યતામાં આ પ્રમાણે કોઈ પ્રકલ્પ કરવો જોઈએ.
 (નવરં અમિલાવો સોચ્ચે તિ-સેસં તં વેવ નિરવસેસં ઝાબ) તે આલાપકમાં
 આ "અસોચ્ચા-અશ્રુસ્વા" પદનો પ્રયોગ કરવામાં આવેા હોય, ત્યાં આ
 આલાપકમાં "સોચ્ચા-શ્રુસ્વા" પદનો પ્રયોગ થવો જોઈએ. આથીનું સમસ્ત
 કવન અશ્રુસ્વાના આલાપકો પ્રમાણે જ સમજવું એમકે ... એ શ્રુસ્વા મનુષ્યના
 (કેવલી આદિ પાસે કેવલી પ્રરૂપિત ધર્મતું અવલુ કરનાર મનુષ્યના) જ્ઞાના
 વરણીય કર્મોંના ક્ષયોપશમ થયેા હોય છે એના ઇતનાવરણીય કર્મોંના ક્ષયો-
 પશમ થયેા હોય છે, એના યતનાવરણીય કર્મોંના ક્ષયોપશમ થયેા હોય છે,
 એના અધ્યવસાવાવરણીય કર્મોંના ક્ષયોપશમ થયેા હોય છે, એના અભિનિ

यानां कर्मणां क्षयोपशमः कृतो भवति 'जस्स णं मणपज्जवनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ' यस्य खलु जीवस्य मनःपर्यवज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमः कृतो भवति, 'जस्स णं केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खए कडे भवइ' यस्य खलु जीवस्य केवलज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयः कृतो भवति 'से णं सोच्चा केवलिसस वा जाव उवासियाए वा केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए' स खलु श्रुत्वाकेवलिनी वा सकाशात् यावत् केवलिश्रावकप्रभृतेः सकाशाद् वा, तत्पाक्षिकोपासिकायाः सकाशाद् वा श्रुत्वेति पूर्वणान्वयः केवलि-प्रज्ञप्तं धर्मं श्रवणज्ञानफलतया लभेत, 'केवलं बोहिं वुज्जेज्जा, जाव केवलनाणं

का क्षयोपशम होता है, जिसके अवधिज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयो-पशम होता है (जस्स णं मणपज्जवनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओ-वसमे कडे भवइ) जिसके मनः पर्यवज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम होता है, (जस्स णं केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खए कडे भवइ) और जिसके केवल ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय होता है (से णं सोच्चा केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सव-णयाए) ऐसा श्रुत्वा मनुष्य केवली से या यावत् केवली के श्रावक आदि से या तात्पक्षिक उपासिका से श्रुत्वा-सुन करके केवली द्वारा उपदिष्ट धर्मको श्रवणज्ञानफलरूप से प्राप्त कर लेता है-जान जाना है। "केवलं बोहिं वुज्जेज्जा जाव केवलनाणं उप्पाडेज्जा" विशुद्ध सम्य-ग्दर्शनरूप बोधि का अनुभव कर लेता है, यावत्-केवल अनगारिता को

बोधि क ज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयोपशम थयो डोय छे, जेना श्रुतज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयोपशम थयो डोय छे, जेना अवधिज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयोपशम थयो डोय छे, (जस्स णं मणपज्जवनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ) जेना मनःपर्यवज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयोपशम थयो डोय छे, (जस्स णं केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खए कडे भवइ) अने जेना केवल-ज्ञानावरणीय कर्मोना क्षय थयो डोय छे, (से णं सोच्चा केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए) जेयो ते श्रुत्वा मनुष्य केवणज्ञानी पासे अथवा तेमना श्रावकादि समीचे श्रवणु करीने केवलीद्वारा उपदिष्ट धर्मने श्रवणुज्ञान इलरूपे प्राप्त करी ले छे-जानी ले छे.

(केवलं बोहिं वुज्जेज्जा जाव केवलनाणं उप्पाडेज्जा) विशुद्ध सम्यग्दर्शन रूप बोधिने अनुभव करे छे, शुद्ध साधुपर्यायने अंगीकार करे छे, शुद्ध प्रवृ-

ઉપાદેજના 'કવલાં વિગુદ્ધાં યોષિં પુષ્યેત, યાષત્-કેવલામનગારિતાં મદ્યભેદ, કેષલ ઘ્રઘચર્યવાસમ્ આવસેત્, કેવલેન સંપમન સયચ્છેત્, કેવલન સવરેણ સદ્ શુયાત્, કેવલમ્ આમિનિયોષિકજ્ઞાનમ્, કેવલ મુતજ્ઞાનમ્, કેવલમવધિજ્ઞાનમ્, કેવલં મનઃપર્યવજ્ઞાનમ્, કેવલજ્ઞાનમુત્પાદયેત્, ઇતિ માત્રઃ ॥ મય યયૈવ ફેરલ્પિમ્ તિચ્ચનાધવર્ણાવાસપોઘ્યાદઃ કેવલજ્ઞાનમુત્પદ્યતે ન તયૈવ તચ્છૂવખાપ્રાપ્ત ઘોષ્યાદેઃ કેવલજ્ઞાનમુત્પદ્યતે અપિતુ મફારાન્તરેણેતિ પ્રવક્ષ્યિતુમાહ-'તસ્સ ણ અદ્દમઅદ્દમેણં અ નિચ્છિલ્લેષેણ તયોકમ્મેણ અપ્પાણ માયેમાણસ્સ' તસ્ય સ્વલ્લ યઃ કેવલ્પિમ્સૃતેઃ મુત્સા કેવલજ્ઞાનમુત્પાદયત્ તસ્ય કસ્યચિદપિ પ્રતિપન્નસમ્પર્દ્ધનચારિપ્રલિક્ષ્સ્ય અદ્દમા

પ્રાપ્ત કર લેતા હૈ, કેષલ ઘ્રઘચર્યવાસ મેં રહ્ જાતા હૈ કેષલ સંપમ સે સંપમ યતના કર લેતા હૈ, કેવલ સવર સે આઠ્ઠવનિરોષ કર દેતા હૈ, શુદ્ધ આમિનિયોષિકજ્ઞાન કો, શુદ્ધ મુતજ્ઞાન કો કેવલ અવધિજ્ઞાન કો, કેવલ-શુદ્ધ મન પર્યવજ્ઞાન કો ઓર કેવલજ્ઞાન કો ઉત્પન્ન કર લેતા હૈ.

અમ સૂત્રકાર યહ પ્રકટ કરસે હૈં કિ જિસ તરહ સે, અધુત્થા મનુષ્ય કે કેવલી આદિ કે વચનોં કો મહોં શ્રવણ કરને પર મી યોષિ આદિ પ્રાપ્ત હોકર કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન હો જાતા હૈ, ઘસ તરહ મુત્સા કો કેવલી આદિ કે વચનોં કે શ્રવણ કરને સે યોષિ આદિ પ્રાપ્ત હોકર કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન મહોં હોતા હૈ, કિન્તુ ઘહ પ્રકારાન્તર સે ઉસે પ્રાપ્ત હોતા હૈ-(તસ્સ ણં અદ્દમ અદ્દમેણં અનિચ્છિલ્લેષેણં તયોકમ્મેણં અપ્પાણં માયેમાણસ્મ) જો કેવલી આદિ સે શ્રવણ કરકે કેવલજ્ઞાન કો ઉત્પન્ન કર લેતા હૈ ઘસ કિસી મી મનુષ્ય કે કિ જિસને સમ્યગ્દર્શન ઇવ સમ્યક્ચારિત્રસ્પલિક્ષ્

અમ વતને ખાસુ કરે છે સમમદ્દારા સમમવતના કરે છે, સવરદ્દારા આઠ્ઠ વાને નિરોષ કરે છે, શુદ્ધ આમિનિયોષિક જ્ઞાન શુદ્ધ મુતજ્ઞાન, શુદ્ધ અવધિ જ્ઞાન, શુદ્ધ મન:પર્યવજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરી તે છે કવે સૂત્રકાર કો વાત પ્રકટ કરે છે કે જે રીતે કોઈક જ્ઞાનમુત્સા કેવલી આદિનાં વચનોં અવલુ નથી કરવા છતાં પણ યોષિ આદિની પ્રાપ્તિ થઈને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, કોલ પ્રમાણે કોઈક જ્ઞાન મનુષ્યને કેવલી આદિનાં વચનોં અવલુ કરવા છતાં પણ યોષિ આદિની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી, પરન્તુ તે કોઈ જ્ઞાન પ્રકારે તેને પ્રાપ્ત થાય છે—

(ત્વ ણં અદ્દમ અદ્દમેણં અનિચ્છિલ્લેષેણં તયોકમ્મેણં અપ્પાણ માયેમાણસ્મ) જે કેવલી આદિની ધર્મીયે ઉપદેશ અવલુ કરીને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી તે છે, જેણે સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્ આદિવદ્ધ્ય લિંગ (સાધુ પદ્ધતિ) ખાસુ કરેલ

एतेन एतन्नामकेन प्रसिद्धेन अनिक्षिप्तेन निरन्तरेण तपःकर्मणा आत्मानं भावयतः
 'पगइभदयाए तहेव जाव गवेसणं करेमाणस्स ओहिणाणे समुप्पज्जइ' प्रकृति
 भद्रतया स्वभावश्रेष्ठतया० तथैव पूर्वोक्तरीत्या यावत् प्रकृत्युपशान्ततया, प्रकृति-
 प्रतनुक्रोधमानमायालोभतया मृदुमार्दवसम्पन्नतया आलीनतया भद्रतया विनीत-
 तया अन्यदा कदाचित् शुभेन अध्यवसायेन शुभेन परिणामेन लेश्याभिर्विशुद्धग्र-
 मानाभिः त्रिशुद्धमानाभिस्तदावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमेन ईहापोहमार्गण-
 गवेषणं कुर्वतः अवधिज्ञानं समुत्पद्यते, अष्टमाष्टमेनेत्यादि कथनं प्रकृष्टतपश्चरण-
 वतः साधोस्वधिज्ञानमुत्पद्यते इति ज्ञापनार्थम्, 'से णं तेणं ओहिणाणेणं समुप्पन्नेणं

धारण कर लिया है और जो निरन्तर किये गये अष्टमतप से आत्मा
 को भावित करता रहता है (पगइ भदयाए तहेव जाव गवेसणं करे-
 माणस्स ओहिणाणे समुप्पज्जइ) स्वभाव से जो श्रेष्ठ है अर्थात् प्रकृति
 जिसकी भद्र है-पूर्वोक्त रीति के अनुसार यावत् प्रकृति से जो उपशान्त
 है, स्वभावतः जिसकी क्रोध, मान, माया और लोभ ये कषायें अति-
 मन्द हैं, अत्यन्त जो नम्रता से युक्त है। आलीनता से, भद्रता से एवं
 विनीतता से युक्त हुए उसे अन्यदा कदाचित् शुभ अध्यवसाय द्वारा,
 शुभपरिणामद्वारा विशुद्ध लेश्याओं द्वारा जायमान अवधिज्ञानावरणीय
 कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार ईहा, अपोह, मार्गणा और गवेषणा
 करते समय अवधिज्ञान उत्पन्न हो जाता है-(यहाँ जो " अष्टमाष्टमेन "
 इत्यादि रूप से कथन किया गया है, वह " प्रकृष्ट तपश्चरणवाले साधु
 को अवधिज्ञान उत्पन्न होता है इस बात को कहने के लिये किया गया

छे, जे निरन्तर अठमने पारखे अठम करीने पोताना आत्माने लावित करते
 डोय छे, (पगइ भदयाए तहेव जाव गवेसणं करेमाणस्स ओहिणाणे समुप्पज्जइ)
 जे लद्विक स्वभाववाणे छे, अने पूर्वोक्त कथनानुसार जे उपशान्त प्रकृतिवाणे
 छे, स्वाभाविक रीते जे जेना क्रोध, मान, माया अने लोभरूप कषाये अति
 मन्द पडेलीं छे, जे अत्यन्त नम्रतावाणे छे, जे आलीनता, लद्वता, अने
 विनीतताथी युक्त छे, ओवा साधुने क्यारेक शुभ अध्यवसायद्वारा, शुद्ध परि-
 ष्णामद्वारा, विशुद्ध लेश्याओ द्वारा जयमान अवधिज्ञानावरणीय कर्मोना क्षयो-
 पशमथी छंडा, अपोड, मार्गणा अने गवेषणा करती वपते अवधिज्ञान
 उत्पन्न थर्ध जय छे (छंडा, अपोड, मार्गणा अने गवेषणाना अर्थ आगण
 आपी दीधां छे)

अर्ही " अष्टमाष्टमेन " इत्यादि कथन द्वारा सूत्रकारे ओ वात प्रकट करी
 छे के प्रकृष्ट तपश्चरणवाणा साधुने अवधिज्ञान उत्पन्न थर्ध जय छे. (तेण

जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइ भाग, उक्कोसेणं असंखेज्जाइ अलोए छोयप्पमाण-
 येत्ताइ खडाइ जाणइ पासइ ' स खल्ल समुत्पभावधिञ्चानी तेन अवधिञ्चानेन
 समुत्पन्नेन भयन्नेन अङ्गुलस्य असख्येयभागम्, उत्कृष्टेन असख्येयानि अलोकं
 लोकप्रमाणमात्राणि लोकस्य यत्प्रमाणं तदेवं मात्रा-परिमाणं येषां तानि चण्ढानि
 जानाति पश्यति । अधेनमेव समुत्पभावधिञ्चानिनं छेदयादिमिं प्ररूपयति- ' से णं
 मते ! कइसुं छेस्सासुं होज्जा ? ' गौतमः पृच्छति- हे मइन्त ! स खल्ल भुत्वा
 समुत्पभावधिञ्चानीं कतिपुं लेइयासुं मवेत् ? मगवानाह- ' गोयमा ! छस्सुं लेस्सासुं
 होज्जा ' हे गौतम ! स प्रतिपभावधिञ्चानीं पट्सुं लेइयासुं मवति, यद्यपि प्रसस्ता

है " सो यह साधु (ते ण ओहिनाणेणं समुत्पन्नेणं जहण्णेण अंगुलस्स
 असखेज्जइ भाग उक्कोसेणं असखेज्जाइ अलोए छोयप्पमाणमेत्ताइ
 खडाइ जाणइ पासइ) उस उत्पन्न हुए अवधिज्ञान के द्वारा जघन्यरूप
 में अंगुल के असख्यातयें भाग को और उत्कृष्टरूप में आलोक में लोक
 प्रमाण परापर असख्यात खण्डों को जानता और देखता है ।

अब सूत्रकार इसी उत्तरमें अवधिज्ञानी की प्ररूपणा छेइया आदिकों
 द्वारा करते हैं-इसमें गौतम ने प्रश्न से ऐसा पूछा है-(से णं मते !
 कइलेस्सासुं होज्जा) हे मइन्त ! यह भुत्वा उत्पभावधिज्ञानबाला जीव
 किननी छेइयाओं में वर्तमान रहता है ? हमके उत्तर में प्रश्न कहते हैं-
 (गोयमा) हे गौतम ! यह भुत्वा समुत्पभावधिज्ञानबाला जीव छइ
 छेइयाओं में वर्तमान रहता है-यद्यपि भाव की अपेक्षा अन्तिम तीम
 प्रशस्त छेइयाओं में ही वर्तमान जीव के अवधिज्ञान प्राप्त होता है-पर

ओहिनाणेणं समुत्पन्नेणं जहण्णेणं अंगुलस्स असखेज्जइ भाग, उक्कोसेणं अस
 खेत्ताइ अलोए छोयप्पमाणमेत्ताइ खडाइ जाणइ पासइ) ते साधु उत्पन्न यथेता
 अवधिज्ञान द्वारा जघन्यनी अपेक्षाके आश्रयणा अस प्रयातभा भागप्रभावा
 क्षेत्रने अने उत्कृष्टनी अपेक्षाके आदीकभां लोकप्रभावा अशानर अस प्रयात
 अटाने अङ्गी शके छे अने देणी शके छे इवे सुत्रकार नेने अवधिज्ञान
 उत्पन्न यधु छे जेवा साधुनी देख्या वनेरेनुं निइपयुं करे छे-

गौतम स्वामीने प्रश्न-(से णं मते ! कइ छेस्सासुं होज्जा ? " दे
 मइन्त ! ते भुत्वा अवधिज्ञानीं एव देवतीं देख्याओवाणेणं डाय छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर-" गोयमा । " दे गौतम ! ते भुत्वा समुत्पत्ता
 वधिज्ञानीं एव (देवतीं आदिने उपदेश यत्तु करीने नेने अवधिज्ञान उत्पन्न
 यधु छे जेवा एव) उ देख्याओवाणेणं डाय छे जे दे जावनी अपेक्षाके

स्वेव तिसृषु अन्तिमासु भावलेश्यासु अवधिज्ञानं लभेत तथापि द्रव्यलेश्याः
आश्रित्य षट्स्रवपि लेश्यासु लभतेऽवधिज्ञानं सम्यक्त्वश्रुतवदित्याशयः ।
उक्तञ्च 'सम्मत्तसुयं सव्वासु लब्धम्' सम्यक्त्वश्रुतं सर्वासु लेश्यासु लभते
इति तदर्थः, तल्लाभे चासौ लब्धावधिज्ञानी षट्स्रवपि भवतीत्युच्यते, ता एवाह—'तं
जहा कण्ठलेस्साए जाव सुकलेस्साए' तद्यथा—कृष्णलेश्यायां, यावत् शुक्ललेश्यायां
च । गौतमः पृच्छति—'से णं भंते ! कइसु णाणेषु होज्जा !' हे भदन्त ! सः
अनन्तरोक्तविशेषणविशिष्टोऽवधिज्ञानी कतिषु ज्ञानेषु भवेत्? भगवानाह—'गोयमा !

यहां जो छ लेश्याओं में वर्तमान जीव के अवधिज्ञान होता है, ऐसा जो
कहा गया वह सम्यक्श्रुत की तरह द्रव्यलेश्याओं को आश्रित करके
कहा गया है—कहा भी है—“सम्मत्तसुयं सव्वासु लब्धम्” सम्यक्त्व-
श्रुत छहों लेश्याओं में वर्तमान जीव को प्राप्त हो जाता है—इस तरह
जब छहों लेश्याओं में अवधिज्ञान का लाभ होता है तो यह लब्धाव-
धिज्ञानी छहों लेश्याओं में वर्तमान रहता है ऐसा कहा गया है । वे छह
लेश्याएँ इस प्रकार से हैं—(कण्ठलेस्साए जाव सुकलेस्साए) कृष्णलेश्या,
यावत्-शुक्ललेश्या यहां यावत् पदसे अवशिष्ट नीलादिक चार लेश्याओं
का ग्रहण हुआ है ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(से णं भंते ! कइसु
णाणेषु होज्जा) हे भदन्त ! अनन्तरोक्त इन विशेषणों वाला वह अव-
धिज्ञानी कितने ज्ञानों में वर्तमान होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते

छेत्थी त्रणु प्रशस्त लेश्याओमां विद्यमान एवने अवधिज्ञान थाय छे परंतु
अर्ही ने ने लेश्याओमां विद्यमान एवने अवधिज्ञान थाय छे. अबुं
कडेवामां आओं छे ते सम्यक् श्रुतनी नेम द्रव्य लेश्याओनी अपेक्षाओ कडे-
वामा आओं छे “सम्मत्तसुयं सव्वासु लब्धम्” सम्यक्त्व श्रुत छओ लेश्या-
ओमां विद्यमान एवने प्राप्त थर्थ नय छे. आ रीते छओ लेश्याओमां विद्य-
मान एवने अवधिज्ञाननी प्राप्ति थती डोवाथी अबुं कडेवामां आओं छे के
“ते लब्धावधिज्ञानी छओ छ लेश्याओथी युक्त डोय छे.” ते छ लेश्याओनां
नाम आ प्रभाओे छे—“कण्ठलेस्साए जाव सुकलेस्साए” कृष्णलेश्या, नीललेश्या,
कापोतलेश्या, तेज्जलेश्या, पद्मलेश्या अने शुक्ललेश्या.

गौतम स्वामीने प्रश्न—(से णं भंते ! कइसु णाणेषु होज्जा ?) हे
भदन्त ! पूर्वोक्त विशेषणवाणो अवधिज्ञानी केटला ज्ञानोथी युक्त डोय छे ?
महावीर प्रभुने उ— “गोयमा !” = हे गौतम ! ते लब्धावधिज्ञानी

तिसु वा चतसु वा होज्जा ' ह गौतम ! स समुत्पन्नावधिज्ञानी त्रिषु वा ज्ञानेषु चतुर्षु वा ज्ञानेषु भवेत्, तत्रावधिज्ञानस्य मतिश्रुतज्ञानाधिनाभूत्त्वात् प्रस्तुतावधिज्ञानी त्रिषु ज्ञानेषु भवेत् किन्तु मतिश्रुतमन पर्यवज्ञानिनो जीवस्यावधिज्ञानोत्पत्तौ ज्ञानचतुष्टयसङ्मात्वात् प्रस्तुतावधिज्ञानी चतुर्षु ज्ञानेषु भवेदिति भावः। तत्र ' तिसु होज्जमाणे आभिणिषोद्वियनाण-सुयनाण-ओहिनाणेसु होज्जा ' त्रिषु ज्ञानेषु भवन् अवधिज्ञानी त्रिषु आमिनिवोधिक्खान-श्रुतज्ञाना-अवधिज्ञानेषु भवेत्, अप च 'चतसु होज्जमाणे आभिणिषोद्वियनाण-सुयनाण-ओहिनाण-मणपज्जवनाणेसु होज्जा ' चतुर्षु ज्ञानेषु भवन् अवधिज्ञानी आमिनिवोधिकखान-श्रुतज्ञाना-अधिज्ञान मन पर्यवज्ञानेषु भवेत् । गौतमः पृच्छति- ' सेण मते । किं सज्जोगी होज्जा,

हँ-(गोयमा ।) हे गौतम ! यह उत्पन्नावधिज्ञानी जीव (तिसु वा चतसु वा होज्जा) तीन ज्ञानों में या चार ज्ञानों में वर्तमान होता है । अवधिज्ञान, मतिज्ञान और श्रुतज्ञान, के बिना होता नहीं है-इसलिये मतिश्रुतज्ञान अविनाभावी होने से यह अवधिज्ञानी तीन ज्ञानों में होता है ऐसा कहा गया है । तथा मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और मन पर्यवज्ञानी जीव के अवधिज्ञान की उत्पत्ति होती है-इस अपेक्षा चार ज्ञान का सङ्गाव होने से प्रस्तुत अवधिज्ञानी चार ज्ञानों में होता है ऐसा कहा गया है । यही बात-(तिसु होज्जमाणे आभिणिषोद्वियनाण सुयनाण ओहिनाणेसु होज्जा, चतसु आभिणिषोद्वियनाण, सुयनाण-ओहिनाण-मणपज्जवनाणेसु होज्जा) इन सूत्रों द्वारा पुष्ट की गई है ।

अथ गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं-(से णं भंते ! किं सज्जोगी होज्जा, असज्जोगी होज्जा) हे भदन्त ! यह उत्पन्नावधिज्ञानी जीव क्या

७५ (तिसु वा चतसु वा होज्जा) त्रयु ज्ञानोधी अथवा चार ज्ञानोधी युक्त देव छे मतिज्ञान अने श्रुतज्ञानना सङ्गाव विना अवधिज्ञान सम्बन्धी शर्कतु नथी । तेथी ते अवधिज्ञानीभा त्रयु ज्ञाननो सङ्गाव कथो छे तथा मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी अने मनःपर्यवज्ञानी एवने अवधिज्ञाननी उत्पत्ति थाय छे आ कथननी अपेक्षाके अवधिज्ञानी एवभा चार ज्ञाननो पणु सङ्गाव कथो छे केच वातने सूत्रादे (तिसु होज्जमाणे आभिणिषोद्वियनाण सुयनाण, ओहि मणेषु होज्जा चतसु होज्जमाणे आभिणिषोद्वियनाण सुयनाण ओहिनाण मणपज्जव माणेषु होज्जा) आ सूत्रपाठ दाता पुष्ट करी छे

गौतम सज्जोगी प्रभु-(से णं भंते ! किं सज्जोगी होज्जा, असज्जोगी होज्जा ?) हे भदन्त ! ते उत्पन्नावधिज्ञानी एव शु अज्जोगी देव छे के अपेक्षी देव छे ।

अयोगी होजा ? ' हे भदन्त ! स खलु अधिकृतावधिज्ञानी किं सयोगी भवेत् ? किं वा अयोगी भवेत् ? ' एवं जोगो उवजोगो संघयणं, संठाणं, उच्चत्तं, आउयं च, एयाणि सव्वाणि, जहा असोच्चाए तहेव भाणियव्वाणि' एवं पूर्वोक्तरीत्या योगः, उपयोगः, संहननम्, संस्थानम्, उच्चत्वम्, आयुष्यं च, एतानि सर्वाणि यथा 'अश्रुत्वा' इत्यस्याभिलाषे भणितानि तथैवात्रापि भणितव्यानि, तथा च सयोगी भवेत्, नो अयोगी भवेत्, तत्रापि मनोयोगी वा भवेत्, वचनयोगी वा भवेत्, काययोगी वा भवेत्, एवं साकारोयुक्तो वा भवेत्, अनाकारोपयुक्तो वा भवेत्, एवं वज्रऋषभनाराचसंहननी भवेत्, तथैव षण्णां संस्थानानां मध्ये अन्यतमस्मिन् संस्थाने भवेत्, तथैव उच्चत्वे जघन्येन सप्ततनौ, उत्कृष्टेन पञ्चवत्तु शते भवेत्,

सयोगी होता है या अयोगी होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं— (एव जोगो उवजोगो संघयणं संठाणं, उच्चत्तं आउयं च एयाणि सव्वाणि जहा असोच्चाए तहेव भाणियव्वाणि) हे गौतम ! योग, उपयोग, संहनन, संस्थान, उच्चत्व और आयु इनके विषय का यहां पर कथन अश्रुत्वा के प्रकरण में कहे गये इनके कथन के अनुसार जानना चाहिये। तथा च—वह उत्पन्नावधिज्ञानी सयोगी होता है, अयोगी नहीं होता है, सयोगी में भी वह मनोयोगी भी हो सकता है वचनयोगी भी हो सकता है और काययोगी भी हो सकता है। उपयोग में वह दोनों उपयोग वाला हो सकता है—साकार उपयोग वाला भी और अनाकार उपयोग वाला भी संहनन में यह वज्र ऋषभनाराचसंहनन में होता है, संस्थान में यह छह संस्थानों में से किसी एक संस्थान में होता है। ऊंचाई में यह कम से कम सात हाथ की और अधिक से अधिक पांचसौ

भङ्गावीर प्रभुने। उत्तर—(एव जोगो उवजोगो संघयणं, संठाणं, उच्चत्तं आउयं च एयाणि सव्वाणि जहा असोच्चाए तहेव भाणियव्वाणि) हे गौतम ! योग, उपयोग, संहनन, संस्थान, उच्चत्व और आयु विषयके सभस्त कथन अर्द्धी पशु अश्रुत्वा अवधिज्ञानीना प्रकरणमा दृष्ट्वा प्रमाणे समञ्जसु ते प्रकरणेन आधारे अर्द्धी श्रुत्वा अवधिज्ञानी विषे आ प्रमाणे कडेवु नेधये. ते श्रुत्वा अवधिज्ञानी सयोगी होय छे, अयोगी होतो नथी. ते मनोयोगी पशु होय शके छे, वचनयोगी पशु होय शके छे अने काययोगी पशु होय शके छे. उपयोगनी अपेक्षाये ते मन्ने उपयोगवाणे—साकार उपयोगवाणे पशु होय छे अने अनाकार उपयोगवाणे पशु होय छे. ते वज्रऋषभनाराच संहननवाणे होय छे. संस्थाननी अपेक्षाये छ संस्थानमाथी कडेय् अक संस्थानवाणे होय

આયુષ્કલ્પે વ જગત્ત્યેન સાતિરેકાષ્ટવર્ષાણ્યુષ્કે, ઠ્ઠકષ્ટેન પૂર્વકોટયાયુષ્કે મવેત્ ।
 ગૌતમઃ પૂચ્છતિ—‘ સે ણ મંતે ! કિં સવેદપ, અવેદપ ? પુચ્છા ’ હે મદન્ત ! સ
 સ્વલુ અધિકૃતાવધિજ્ઞાની કિં સવેદકો મવતિ ? કિં વા અવેદકો મવતિ ? મગવા
 નાહ—‘ ગોપમા ! સવેદપ હોજ્જા, અવેદપ વા, હે ગૌતમ ! સ અધિકૃતાવધિજ્ઞાની
 સવેદકો મવેત્ અક્ષીણવેદસ્યાવધિજ્ઞાનોત્પત્તૌ સવેદકઃ સન્ અવધિજ્ઞાની મવેત્,
 ક્ષીણવેદસ્ય વાવધિજ્ઞાનોત્પત્તૌ અવેદકઃ સન્ અવધિજ્ઞાની મવેત્, અવેદકો વા
 મવેત્ । ગૌતમઃ પૂચ્છતિ—‘ જહ અવેદપ હોજ્જા, કિં ઉવસતવેયપ હોજ્જા, સ્ત્રીણ
 વેયપ હોજ્જા ? ’ હે મદન્ત ! અધિકૃતાવધિજ્ઞાની યદિ અવેદકો મવેત્ તદા કિં સ

વનુપ કા હોતા હૈ । આયુષ્ક મેં વહ કમ સે કમ આઠ વર્ષ સે કુછ અધિક
 આયુ મેં ઔર અધિક સે અધિક ઇક પૂર્વ કોટિ આયુ મેં હોતા હૈ ।

અવ ગૌતમસ્વામી પ્રશ્ન સે ઇસા પૂછતે હૈ—(સે ણ મંતે ! કિં સવેદપ
 અવેદપ પુચ્છા) હે મદન્ત ! વહ ઉત્પન્નાવધિજ્ઞાની વેદસહિત હોતા હૈ યા
 ધિના વેદકા હોતા હૈ ? હસકે ઉત્તર મેં પ્રશ્ન કહતે હૈ—(ગોપમા ! સવેદપ
 હોજ્જા અવેદપ હોજ્જા) હે ગૌતમ ! વહ ઉત્પન્નાવધિજ્ઞાની જીવ સવેદક
 મી હોતા હૈ ઔર અવેદક મી હોતા હૈ । અક્ષીણવેદ વાલે જીવ કે જમ
 અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન હોતા હૈ તમ વહ અવધિજ્ઞાની સવેદક હોતા હૈ ઇસા
 કહા જાતા હૈ ઔર ક્ષીણવેદવાલે જીવ કો જમ અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન હોતા
 હૈ—તમ વહ અવધિજ્ઞાની અવેદક હોતા હૈ ઇસા કહા જાતા હૈ ।

અવ ગૌતમ પ્રશ્ન સે ઇસા પૂછતે હૈ—(જહ અવેદપ હોજ્જા કિં ઉવ
 સતવેયપ હોજ્જા, સ્ત્રીણવેયપ હોજ્જા) હે મદન્ત ! યદિ વહ ઉત્પન્નાવધિ

ઊ તેની જગત્ત્યે ઊચ્ચાઈ સાત ઠાયપ્રમાણ અને ઉત્કૃષ્ટ ઊચ્ચાઈ ૫૦૦ મનુષ્ય
 પ્રમાણ હોય છે તેનું જમ ય આમુખ્ય આઠ વર્ષ કરતાં યોગુ વધારે અને
 ઉત્કૃષ્ટ આમુખ્ય બેક પૂર્વકોટિ પ્રમાણ હોય છે

ગૌતમ સ્વામીને પ્રશ્ન—(સે ણ મંતે ! કિં સવેદપ અવેદપ પુચ્છા ?) હે
 મદન્ત ! તે ઉત્પન્નાવધિજ્ઞાની વેદસહિત હોય છે કે વેદસહિત હોય છે ?

મદગવીર પ્રશ્નને ઉત્તર—(ગોપમા ! સવેદપ હોજ્જા, અવેદપ હોજ્જા)
 હે ગૌતમ ! તે સવેદક પણ હોય છે અને અવેદક પણ હોય છે અક્ષીણ
 વેદવાળા છત્રને બ્યારે અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે અવધિજ્ઞાની
 સવેદક હોય છે એવુ કહેવાય છે, અને ક્ષીણવેદવાળા છત્રને બ્યારે અવધિજ્ઞાન
 ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તે અવધિજ્ઞાની અવેદક હોય છે એવુ કહેવાય છે

ગૌતમ સ્વામીને પ્રશ્ન—(જહ અવેદપ હોજ્જા, કિં ઉવસતવેયપ હોજ્જા,
 સ્ત્રીણવેયપ હોજ્જા ?) હે મદન્ત ! એ તે ઉત્પન્નાવધિજ્ઞાની અવેદક હોય છે,

उपशान्तवेदको भवेत् ? किम्वा क्षीणवेदको भवेत् ? भगवानाह—‘ गो उवसंत वेयए होज्जा, खीणवेयए होज्जा ’ हे गौतम ! अधिकृतावधिज्ञानी नो उपशान्त-वेदको भवति, अयमवधिज्ञानी उपशान्तवेदो न भवति प्राप्तव्यकेवलज्ञानस्यास्य विव-क्षितत्वात्, अपितु क्षीणवेदको भवति । गौतमः पृच्छति ‘जइ सवेयए होज्जा, किं इत्थिवेयए होज्जा, पुरिसवेयए होज्जा, नपुंसगवेयए होज्जा, पुरिसनपुंसगवेयए होज्जा?’

ज्ञानी अवेदक होता है तो क्या वह उपशान्त वेदवाला होने से अवेदक होता है या क्षीण वेदवाला होने से अवेदक होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गो उवसंतवेयए होज्जा, खीणवेयए होज्जा,) हे गौतम ! वह उत्पन्नावधिज्ञानी उपशान्तवेदवाला होने से अवेदक नहीं होता है किन्तु क्षीण वेदवाला होने से अवेदक होता है । तात्पर्य कहने का यह है कि उपशान्तवेदवाला होने से भी अवेदक जीव माना जाता है पर यहां पर ऐसा अवेदक भाव नहीं लिया है—क्यों कि यह प्राप्तव्य केवल ज्ञान की विवक्षा में है और जो उत्पन्नावधिज्ञानी प्राप्तव्य केवलज्ञान की विवक्षा से इष्ट होना है वह उपशान्तवेदवाला होने से अवेदकरूप से नहीं माना जाता है क्यों कि उपशान्त वेदवाले जीव के केवलज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है—यह तो क्षीणवेदवाले जीव को ही होती है इस-लिये यहां पर उपशान्तवेदवाले को अवेदक नहीं कहा गया है, किन्तु क्षीणवेदवाले को ही अवेदक कहा गया है ।

अब गौतमप्रभुसे ऐसा पूछतेहैं—(जइ सवेयए होज्जा किं इत्थिवेयए

ते शु ते उपशान्त वेदवाणो ङोवाथी अवेदक ङाय छे के क्षीण वेदवाणो ङोवाथी अवेदक ङाय छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर—(गो उवसंतवेयए होज्जा, खीणवेयए होज्जा) हे गौतम ! ते उत्पन्नावधिज्ञानी उपशान्तवेदवाणो ङोवाथी अवेदक ङोतो नथी पणु क्षीणवेदवाणो ङोवाथी अवेदक ङाय छे आ कथननुं तात्पर्यं अे छे के उपशान्त वेदवाणा एवने पणु अवेदक मानवामां आवे छे, पणु अहीं अेवे अवेदकलाव अइणु करवामां आव्ये नथी. कारणु के ते प्राप्तव्य केवणज्ञाननी विवक्षामां छे अने के उत्पन्नावधिज्ञानी प्राप्तव्य केवणज्ञाननी विवक्षायी इष्ट ङाय छे ते उपशान्त वेदवाणो ङोवाथी अवेदकइपे मानी शकतो नथी, कारणु के उपशान्त वेदवाणा एवने केवणज्ञाननी उत्पत्ति थरी नथी, पणु क्षीणवेद-वाणा एवने केवणज्ञाननी उत्पत्ति थाय छे तेथी अहीं उपशान्त वेदवाणाने अवेदक कइयो नथी, पणु क्षीणवेदवाणाने के अवेदक कइयो छे.

गौतम स्वामीने प्रश्न—(जइ सवेयए होज्जा किं इत्थिवेयए होज्जा)

હે મદ્વ ! યદિ યશ્ચ સવેદકો મચતિ તદ્વા કિં સ્ત્રીવેદકો મચતિ ? કિં ષા પુરુષવેદકો મચતિ ? કિં ષા નપુસકવેદકો મચતિ ? કિં ચા પુરુષનપુસકવેદકો મચતિ ? મય ધાનાઈ- ' ગોયમા । ઇત્પીથેયય ષા હોઝ્જા, પુરિસવેયય ષા હોઝ્જા, પુરિસનપુસગ વેયય ષા હોઝ્જા નો નપુસગવેયય હોઝ્જા ' ; હે ગૌતમ ! સોઽષ્ટિકૃતાવધિજ્ઞાની સ્ત્રીવેદકો ષા મચતિ, મૂતપૂર્વસ્તીત્વાનુમવસદ્ભાવાત્, પુરુષવેદકો ષા મચતિ, મૂત- પૂર્વે પુસ્ત્વાનુમવસદ્ભાવાત્ ? ઇય પુરુષનપુસકવેદકો ષા મચતિ મૂત- પૂર્વેપુસ્ત્વનપુસકસ્ત્વાનુમવસદ્ભાવાત્ । કિન્તુ નો નપુમકવેદકો મચતિ, ઝન્મતપુંસકત્વ

હોઝ્જા, પુરિસવેયય હોઝ્જા, નપુંસગ વેયય હોઝ્જા, પુરિસનપુંસગવેયય હોઝ્જા) હે મદ્વ ! યદિ ઘહ ઉત્પન્ન ઋષિજ્ઞાની સવેદક હોતા હૈ તા કયા ઘહ સ્ત્રીવેદધાલા હોતા હૈ, યા પુરુષવેદધાલા હોતા હૈ, યા નપુમક વેદધાલા હોતા હૈ ? યા પુરુષનપુંસકવેદધાલા હોતા હૈ ? હસકે ઉત્તર મેં પ્રશ્ન કહતે હૈ—(ગોયમા ।) હે ગૌતમ ! (ઇત્પીથેયય ષા હોઝ્જા, પુરિસ વેયય ષા હોઝ્જા, પુરિસનપુસગવેયય ષા હોઝ્જા,) ઘહ ઉત્પન્નાવધિજ્ઞાની સ્ત્રીવેદધાલા ઋી હોતા હૈ, પુરુષવેદધાલા ઋી હોતા હૈ, પુરુષનપુંસકવેદ ધાલા ઋી હોતા હૈ, સ્ત્રીવેદધાલા કો જો યહાં પર ઉત્પન્નાવધિજ્ઞાન કા અધિપતિ કહા ગયા હૈ ઘહ સ્ત્રીસ્વ કે અનુભવ કે સદ્ભાવ કો લેકર કહા ગયા હૈ । હસી તરહ સે પુરુષવેદધાલા મેં ઓર પુરુષનપુસક વેદધાલા મેં ઋી કમશા' ઉત્પન્ન ઋષિજ્ઞાન કા અધિપતિસ્વ પુસ્ત્ય કે અનુભવ કે સદ્ભાવ

સવેયય હોઝ્જા, નપુસગવેયય હોઝ્જા, પુરિસનપુસગવેયય હોઝ્જા ?) હે મદ્વ ! નો તે ઉત્પન્ન ઋષિજ્ઞાની સવેદક હોય છે, તે શું તે સ્ત્રીવેદધાલા હોય છે, કે પુરુષવેદધાલા હોય છે, કે નપુસક વેદધાલા હોય છે કે પુરુષનપુસક વેદધાલા હોય છે ?

મદ્વાનીર પ્રશ્નો ઉત્તર—“ ગોયમા । ” હે ગૌતમ ! (ઇત્પીથેયય ષા હોઝ્જા, પુરિસવેયય ષા હોઝ્જા, પુરિસનપુસગવેયય ષા હોઝ્જા) તે ઉત્પન્ન ઋષિ જ્ઞાની સ્ત્રીવેદધાલા પણ હોય છે પુરુષવેદધાલા પણ હોય છે અને પુરુષ નપુસક વેદધાલા હોય છે સ્ત્રીવેદધાલાને અહીં ને ઉત્પન્નાવધિજ્ઞાનનો અધિ પતિ કહ્યો છે, તે સ્ત્રીત્વા અનુભવનાં સદ્ભાવની અપેક્ષાએ કહ્યો છે એજ પ્રમાણે પુરુષવેદધાલાને અને પુરુષનપુસક વેદધાલાને અહીં ને ઉત્પન્નાવધિ જ્ઞાનનો અધિપતિ કહ્યા છે તે અનુક્રમે પુસ્ત્ય (પુરુષત્વ) અને પુરુષ નપુ સકત્વનાં અનુભવના સદ્ભાવની અપેક્ષાએ કહેવામાં આવેલ છે

સદ્ભાવાત્ જન્મનપુંસકોઽવધિજ્ઞાની ન ભવતીતિ ભાવઃ । ગૌતમઃ પૃચ્છતિ-સે ણં
 મંતે ! કિં સકસાઈ હોજ્જા, અકસાઈ વા હોજ્જા ? ' હે ભદન્ત ! સ ખલુ અધિ-
 કૃતાવધિજ્ઞાની કિં સકષાયી ભવેત્ ? કિં વા અકષાયી ભવેત્ ? મગવાનાહ-
 ' ગોયમા ! સકસાઈ વા હોજ્જા, અકસાઈ વા હોજ્જા ' હે ગૌતમ ! અધિકૃતાવધિ-
 જ્ઞાની સકષાયી વા ભવેત્, અકષાયી વા ભવેત્, તત્ર યઃ કષાયાક્ષયે સતિ અવધિ-
 જ્ઞાનં લભતે સ સકષાયી સન્ અવધિજ્ઞાની ભવેત્, અથ ચ યસ્તુ કષાયક્ષયેસતિ
 અવધિજ્ઞાનં લભતે અસૌ અકષાયી અવધિજ્ઞાની ભવેદિતિ ભાવઃ । ગૌતમઃ પૃચ્છતિ-
 ' જહ અકસાઈ હોજ્જા કિં ઉવસંતકસાઈ હોજ્જા, સ્વીણકસાઈ હોજ્જા ? ' હે

કો ઓર પુરુષનપુંસકત્વ કે અનુભવ કે સદ્ભાવ કો લેકર કહા ગયા
 જાનના ચાહિયે ।

અવ ગૌતમસ્વામી પ્રશ્નુ સે એસા પૂછતે હૈં-(સે ણં મંતે ! કિં સક-
 સાઈ હોજ્જા, અકસાઈ વા હોજ્જા) હે ભદન્ત ! વહ અધિકૃત અવધિ-
 જ્ઞાની મનુષ્ય કયા સકષાયી હોતા હૈં યા અકષાયી હોતા હૈં ? હમકે
 ઉત્તર મેં પ્રશ્નુ કહતે હૈં-(ગોયમા ! સકસાઈ વા હોજ્જા અકસાઈ વા
 હોજ્જા) હે ગૌતમ ! વહ ઉત્પન્ન અવધિજ્ઞાની મનુષ્ય સકષાયી મી હોતા
 હૈં ઓર અકષાયી મી હોતા હૈં । જો અધિકૃત અવધિજ્ઞાની કષાય કે
 અક્ષય મેં અવધિજ્ઞાન કો પ્રાપ્ત કરતા હૈં વહ સકષાયી અવધિજ્ઞાની કહા
 જાતા હૈં ઓર જો કષાય કે ક્ષય મેં અવધિજ્ઞાન કો પ્રાપ્ત કરતા હૈં વહ
 અકષાયી અવધિજ્ઞાની કહા જાતા હૈં ।

અવ ગૌતમ પ્રશ્નુ સે એસા પૂછતે હૈં-(જહ અકસાઈ હોજ્જા કિં ઉવ-
 સંતકસાઈ હોજ્જા, સ્વીણકસાઈ હોજ્જા) હે ભદન્ત ! ઉત્પન્ન અવધિજ્ઞાની

ગૌતમ સ્વામીનો પ્રશ્ન—(સે ણં મંતે ! કિં સકસાઈ હોજ્જા, અકસાઈ
 હોજ્જા ?) હે ભદન્ત ! તે અધિકૃત અવધિજ્ઞાની મનુષ્ય શું સકષાયી હોય છે
 કે અકષાયી હોય છે ?

મહાવીર પ્રશ્નુનો ઉત્તર—“ ગોયમા ! ” હે ગૌતમ ! (સકસાઈ વા હોજ્જા,
 અકસાઈ વા હોજ્જા) તે ઉત્પન્ન અવધિજ્ઞાની મનુષ્ય કષાયયુક્ત પણ હોય છે
 અને કષાયરહિત પણ હોય છે, જે અધિકૃત અવધિજ્ઞાની કષાયના અક્ષયની
 અવસ્થામાં અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, તે મનુષ્યને સકષાયી અવધિજ્ઞાની કહે
 છે અને જે મનુષ્ય કષાયના ક્ષયની અવસ્થામાં અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, તે
 મનુષ્યને અકષાયી અવધિજ્ઞાની કહે છે

ગૌતમ સ્વામીનો પ્રશ્ન—(જહ અકસાઈ હોજ્જા, કિં ઉવસંતકસાઈ હોજ્જા,
 સ્વીણકસાઈ હોજ્જા) હે ભદન્ત ! ઉત્પન્ન અવધિજ્ઞાની મનુષ્યને સકષાયી

मदन्त ! यदि यदा अकपायी भवेत् तदा किम् उपशान्तकपायी भवेत् ! किं वा क्षीणकपायी भवेत् ? मगधानाह—' गोयमा ! नो उवसतकसाई होज्जा ? खीण कसाई होज्जा ' हे गौतम ! स सुत्वाअधिज्ञानी नो उपशान्तकपायी भवेत्, अपितु क्षीणकपायी भवेत् । गौतम पृच्छति—' जइ सकसाई होज्जा, से ण भवे । कइ सु कमापसु होज्जा ? ' हे मदन्त ! स सुत्वाअधिज्ञानी यदि यदा सकपायी भवेत् तदा कतिपु कपायेषु भवेत् ? मगधानाह—' गोयमा ! चउसु वा, तिसु वा,

मनुष्य यदि अकपायी होना है तो क्या वह उपशान्त कपायी होना है या क्षीणकपायी होता है—पूछने का तात्पर्य ऐसा है कि उत्पन्न अथधिज्ञानी यदि अकपायी जीव होता है—तो यह किस रूप से अकपायी होता है—क्या कपायें उसकी उपशान्त होती हैं इसलिये वह अकपायी होता है, या कपायें उसकी क्षीण हो गई हैं इसलिये वह अकपायी होता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा ! नो उवसतकसायी होज्जा, खीणकसायी होज्जा) हे गौतम ! जो जीव सुत्वा अधधिज्ञानी होता है वह उपशान्त कपायवाला होने से अकपायी नहीं होता है । किन्तु—क्षीणकपायवाला होने से अकपायी होता है ।

अथ गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(जइ सकसायी होज्जा, से ण भवे । कइसु कसापसु होज्जा) हे मदन्त ! यदि सुत्वा अधधिज्ञानी सकपायी होता है—तो वह कितनी कपायों में हाता है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (चउसु वा, तिसु वा,

दोषे उ, ते शु ते उपशान्तकपायी दोषे उ के क्षीणकपायी दोषे उ ? आ प्रभुनु तात्पर्यं नीत्थि प्रभाजे उ—उत्पन्न अधधिज्ञानी मनुष्य ने अकपायी दोषे उ तो शु तेना कपाये उपशान्त यथं ज्वाधी अकपायी दोषे उ के तेना कपाये क्षीण यथं ज्वाधी ते अकपायी दोषे उ ?

महावीर प्रभुने उत्तर—(गोयमा ! नो उवसतकसाई होज्जा, खीणकसायी होज्जा) हे गौतम ! ने एव सुत्वा अधधिज्ञानी दोषे उ, ते उपशान्त कपायवाले दोषाधी अकपायी दोषो नधी, पवु क्षीणकपायवाले दोषाधी अकपायी दोषे उ

गौतम स्वामीने प्रभु—(जइ सकसाई होज्जा, से ण भवे । कइसु कसापसु होज्जा ?) हे मदन्त ! ने ते सुत्वा अधधिज्ञानी सकपायी दोषे उ, तो केट्ठा कपायेवाले दोषे उ ?

દોષુ વા, એકકમિ વા હોજ્જા ' હે ગૌતમ ! સ શ્રુત્વાઽવધિજ્ઞાની ચતુર્ણુ વા, ત્રિષુ વા, દ્વયોર્વા, એકસ્મિન્ વા કપાયે ભવતિ, તથા ચ યદા અક્ષીણકપાયઃ સન્ અવધિજ્ઞાનં લભતે તદાઽયં ચારિત્રયુક્તત્વાત્ ચતુર્ણુ સંજ્વલનકપાયેષુ ભવેત્, યદા તુ ક્ષપકશ્રેણીવર્તિત્વેન સંજ્વલનક્રોધે ક્ષીણે સતિ અવધિજ્ઞાનં લભતે તદા ત્રિષુ સંજ્વલનમાનમાયાલોભેષુ અવધિજ્ઞાનં લભતે, યદા તુ તથૈવ સંજ્વલનક્રોધમાનયોઃ ક્ષીણયોરવધિજ્ઞાનં લભતે તદા દ્વયોર્માયાલોભયોરવધિજ્ઞાનં ભવતિ, યદા તુ ત્રિષુ સંજ્વલનક્રોધમાનમાયારૂપેષુ ક્ષીણેષુ અવધિજ્ઞાનં લભતે તદા એકસ્મિન્ લોભે અવધિજ્ઞાનં ભવેદિતિ

દોષુ વા એકકમિ વા હોજ્જા) વહ શ્રુત્વા અવધિજ્ઞાની ચાર કષાયોં મેં મી હોતા હૈ, ત્રીન કષાયોં મેં મી હોતા હૈ, દો કષાયોં મેં મી હોતા હૈ ઓર એક કષાય મેં મી હોતા હૈ । તથા ચ—જબ જીવ અક્ષીણકષાય હોકર અવધિજ્ઞાન કો પ્રાપ્ત કરતા હૈ તબ યહ ચારિત્ર યુક્ત હોને સે ચાર સંજ્વલન સંબંધી ક્રોધ, માન, માયા ઓર લોભ ઇનમેં વર્તતા હૈ । ઓર જબ ક્ષપક શ્રેણીપર આરોહણ કરતા હૈ તબ ક્ષપક શ્રેણીવર્તી હોને સે ડસકા ક્રોધ ક્ષીણ હો જાતા હૈ—અતઃ ક્રોધ કે ક્ષીણ હો જાને પર જબ યહ જીવ અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા હૈ તબ એસા કહા જાતા હૈ કિ સંજ્વલન સંબંધી માન, માયા ઓર લોભ ઇન ત્રીન કષાયોં મેં જીવ અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા હૈ ઓર ઇસી તરહ સે જબ સંજ્વલન સંબંધી ક્રોધ ઓર માન કે ક્ષીણ હોને પર જીવ અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા હૈ તબ દો કષાયોં મેં જીવ અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા હૈ એસા કહા જાતા હૈ ઓર જબ ઇસી તરહ સે સંજ્વલન સંબંધી ક્રોધ, માન, ઓર માયાકે ક્ષીણ હોને પર જીવ અવધિ-

દોષુ વા, એકકમિ વા હોજ્જા) તે શ્રુત્વા અવધિજ્ઞાની ચાર કષાયોવાળો પશુ હોય છે, ત્રણ કષાયોવાળો પશુ હોય છે, બે કષાયોવાળો પશુ હોય છે અને એક કષાયવાળો પશુ હોય છે જેમકે. . . ન્યારે જીવ અક્ષીણ કષાયની અવસ્થામાં અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે ચારિત્રયુક્ત હોવાથી સંજ્વલન સંબંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભરૂપ ચાર કષાયોવાળો હોય છે ન્યારે તે જીવ ક્ષપક શ્રેણીપર આરોહણ કરે છે ત્યારે તેનો ક્રોધ ક્ષીણ થઈ જાય છે આ રીતે ક્રોધક્ષીણ થઈ જતા ન્યારે તે અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે એવું કહેવાય છે કે સંજ્વલન સંબંધી માન, માયા અને લોભ, આ ત્રણ કષાયોમાં તે અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે એજ પ્રમાણે સંજ્વલન સંબંધી ક્રોધ અને માનક્ષીણ થતાં ન્યારે જીવ અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે અવધિજ્ઞાનીમા માયા અને લોભરૂપ બે કષાયોના જ સહભાવ રહે છે અને એજ રીતે સંજ્વ-

માથ । તદેવ સૂત્રકારઆદ- 'ચત્સુ હોજ્જમાણે સંજલળકોદમાણમાયાલોમેસુ હોજ્જા' ચતુર્થ મગ્ન ધ્રુત્વાઽવધિજ્ઞાની સજ્વલનક્રોધમાનમાયાલોમપુ મષેત્ । 'તિષ્ઠ હોજ્જમાણે સજ્વલળમાણમાયાલોમેસુ હોજ્જા' ત્રિપુ મગ્ન ધ્રુત્વાઽવધિજ્ઞાની સજ્વલનમાનમાયાલોમપુ મષેત્, 'દોસુ હોજ્જમાણે સમલળમાયાલોમેસુ હોજ્જા' દ્વયોર્મગ્ન ધ્રુવાઽવધિજ્ઞાની સજ્વલનમાયાલોમયોર્મષેત્, 'પર્ગમિ હોજ્જમાણે પર્ગમિ સજ્વલળલોમે હોજ્જા ! એકસ્મિન્ મગ્ન ધ્રુત્વાઽવધિજ્ઞાની સજ્વલનલોમે

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા હૈ-તય ઘહ લોમ મેં અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા હૈ પેસા કહા જાતા હૈ હસી યાત કો સૂત્રકાર ને (ચત્સુ હોજ્જમાણે સજ્વલળ કોદમાણમાયા લોમેસુ હોજ્જા, તિષ્ઠ હોજ્જમાણે સજ્વલળ માણમાયા લોમેસુ હોજ્જા, દોસુ હોજ્જમાણે સજ્વલળમાયાલોમેસુ હોજ્જા, પર્ગમિ હોજ્જમાણે પર્ગમિ સજ્વલળ લોમે હોજ્જા) ઇન સૂત્રોં દ્વારા કહા હૈ । અર્થાત્ ઋત્વા અવધિજ્ઞાની જય ચાર કપાયોં મેં વર્તતા હૈ તો વે કપાયોં સજ્વલન સપ્તમી ક્રોધાદિ ચાર હૈ-ઇનમેં હી ઘહ વર્તતા હૈ અન્ય કપાયોં મેં ઘહ નહીં વર્તતા હૈ । હસી તરહ સે જય ઘહ ત્રીન કપાયોં મેં હોતા હૈ પેસા કહા જાતા હૈ-તય સજ્વલન સપ્તમી હી ત્રીન કપાયોં મેં ઘહ હોતા હૈ-સજ્વલનાતિરિક્ત કપાયોં મેં નહીં । હસી તરહ સે જય ઘહ દો કપાયોં મેં હોતા હૈ-તો વે દો કપાયોં સજ્વલન સપ્તમી માયા લોમ હૈ-ઇનમેં હી ઘહ હોતા હૈ-એક મેં ઘહ સજ્વલન સપ્તમી લોમ મેં હોતા હૈ ।

વલન સબધી ક્રોધ માન અને માયા ક્ષીણ યતાં છવ વ્યારે અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે એક માત્ર લોકાધી મુક્ત રહીને અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, એમ કહી શકાય છે

એજ વાતને સૂત્રકારે (ચત્સુ હોજ્જમાણે સજ્વલળ કોદમાણમાયાલોમેસુ હોજ્જા, તિષ્ઠ હોજ્જમાણે સજ્વલળ માણમાયાલોમેસુ હોજ્જા, દોસુ હોજ્જમાણે સજ્વલળ માયાલોમેસુ હોજ્જા, પર્ગમિ હોજ્જમાણે પર્ગમિ સજ્વલળલોમે હોજ્જા) આ સૂત્રપાઠ દ્વારા બ્યક્ત કરી છે એન્દે કે ઋત્વા અવધિજ્ઞાની વ્યારે કથાયોર્મા વર્તતા હોય છે, ત્યારે સજ્વલન સબધી ક્રોધ માન, માયા અને લોકાધ્ય ત્યારે કથાયોર્મા વર્તતા હોય છે વ્યારે તે ત્રણ કથાયોર્મા વર્તતા હોય છે, ત્યારે તે સજ્વલન સબધી માન, માયા અને લોકાધ્ય જ વર્તતા હોય છે વ્યારે તે બે કથાયોર્મા વર્તતા હોય છે ત્યારે સજ્વલન સબધી માયા અને લોકાધ્ય જ વર્તતા હોય છે વ્યારે તે એક કથાયોર્મા વર્તતા હોય છે ત્યારે સજ્વલન સબધી લોકાધ્ય જ વર્તતા હોય છે

भवेत् । ' तस्स णं भते ! केवइया अज्झवसाणा पणत्ता ? ' हे भदन्त ! तस्य खलु श्रुत्वाऽवधिज्ञानिनः कियन्ति अध्यवसानानि अध्यवसायाः प्रज्ञप्तानि ? अणवानाह— ' गोयमा ! असंखेज्जा ' हे गौतम ! श्रुत्वासमुत्पन्नावधिज्ञानिनः असंख्येयाः अध्यवसाया भवन्ति, ' एवं जहा असोच्चाए तहेव जाव केवलवरणाणदंसणे समुप्पज्जइ ' एवं पूर्वोक्तरीत्या यथा ' अश्रुत्वा ' इत्यस्मिन् आलापके उक्तं तथैवात्रापि यावत्—ते अध्यवसायाः प्रशस्ताः, नो अप्रशस्ताः, तैश्च प्रशस्तैः वर्द्धमानैरध्यवसायैरनन्तेभ्यो नैरथिकेभ्यः भवग्रहणेभ्यः भवग्रहणेभ्य आत्मानं विसंयोजयति, या अपि च ता इमा नैरथिक—तिर्यग्योनिक मनुष्यदेव आत्मानं विसंयोजयति, प्रशस्तै

अब गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पृच्छते हैं (तस्स णं भते ! केवइया अज्झवसाणा पणत्ता) हे भदन्त ! उस श्रुत्वा अवधिज्ञानी के अध्यवसान-अध्यवसाय कितने कहे गये हैं—उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(गोयमा) हे गौतम ! (असंखेज्जा) उस श्रुत्वा अवधिज्ञानी के अध्यवसाय असंख्यात होते हैं । (एवं जहा असोच्चाए तहेव जाव केवलवरणाणदंसणे समुप्पज्जइ) इस तरह से जैसा इन अध्यवसायों के विषय में तथा अध्यवसायों से भी आगे केवलज्ञान दर्शन उत्पन्न होने तक का कथन अश्रुत्वा के प्रकरण में आलापक में किया गया है—वैसा ही कथन यहां पर भी किया गया जानना चाहिये । यावत्—वे अध्यवसाय उसके प्रशस्त होते हैं, अप्रशस्त नहीं होते हैं । उन वर्द्धमान प्रशस्त अध्यवसायों के प्रभाव से वह श्रुत्वा अवधिज्ञान अधिपति नैरथिक संबंधी अनन्त भवग्रहणों से अपनी मुक्ति कर लेता है अर्थात् वह मर कर नैरथिकों

गौतम स्वामीने प्रश्न—(तस्स णं भते ! केवइया अज्झवसाणा पणत्ता ?) हे भदन्त ! ते श्रुत्वा अवधिज्ञानीना केट्ठवा अध्यवसाय क्ख्यां छे ?

भडापीर प्रभुने उत्तर—“ गोयमा ! असंखेज्जा ” हे गौतम ! ते श्रुत्वा अवधिज्ञानीना असंख्यात अध्यवसाय क्ख्यां छे. (एवं जहा असोच्चाए तहेव जाव केवलवरणाणदंसणे समुप्पज्जइ) अध्यवसायोना विषयमां तथा केवज्ज्ञान दर्शन उत्पन्न तथा पर्यन्तना विषयमां जेषु अश्रुत्वा अवधिज्ञानीनु कथन कर वामा आव्यु छे, जेषु न कथन श्रुत्वा अवधिज्ञानीना विषयमा पणु समञ्जसुं. ते कथनने साराश नीचे प्रमाणे समञ्जयो—तेना ते अध्यवसायो प्रशस्त न होय छे, अप्रशस्त होता नथी. ते वर्द्धमान प्रशस्त अध्यवसायोना प्रभावथी नैरथिक संबंधी अनन्त भवग्रहणोथी मुक्त थर्ध जाय छे—जेट्ठे के भरीने

रष्यवसायैरन्तेभ्यस्तिर्यग्योनिकमनुष्य देवगति नाम्न्यश्चत्त उत्तरप्रकृतपरतासां च खलु औपग्रहिकान् मन्वपोपकान् अनन्तानुषन्धिन् क्रोधमानमायालोमान् क्षपयति तौश्च क्षपयित्वा अपत्याख्यानरूपायान् क्रोधमानमायालोमान् क्षपयति, तौश्च क्षपयित्वा प्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोमान् क्षपयति, तौश्च क्षपयित्वा संज्वलनक्रोधमानमायालोमान् क्षपयति, तौश्च क्षपयित्वा पद्मविष ज्ञानावरणीय, नवविष दर्शनावरणीय, पद्मविष च भ्रान्तरायिक तालमस्तककृपं च खलु मोहनीयं कृत्वा कर्मरजोविकरणकर्म अपूर्वकरणम् अनुपविष्टस्य अनन्तम् अनुत्तरम्

में जन्म धारण नहीं करता है, इसी तरह से वह उन प्रशस्त अभ्यसायों के प्रभाव से अनन्ततिर्यग्यों के भयों के ग्रहण से, अनन्त मनुष्य और देव संघधी भयों के ग्रहण से, अपने को छुड़ा लेता है। तथा जो ये नैरयिक तिर्यग्योनिक, मनुष्य और देवगति नाम की चार उत्तर प्रकृतियाँ हैं सो इनकी औपग्रहिक-भयपोपक जो अनन्तानुषधी संघधी क्रोध, मान, माया, लोम प्रकृतियाँ हैं उनका क्षय करता है, इनका क्षय करके फिर यह अपत्याख्यान क्रोध, मान, माया और लोम इनका क्षय करता है इनका क्षय करके प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोम इनका क्षय करता है, इनके क्षय के बाद फिर यह संज्वलन क्रोध, मान, माया, और लोम का क्षय करता है। इनका क्षय करके पाँच प्रकार के ज्ञानावरणीय को, नौ प्रकार के दर्शनावरणीय को पाँच प्रकार के भ्रान्तरायिक को और मोहनीय को तालमस्तककृत्स करके कर्मरज के बिले

नारदोभा उत्पन्न यतो नदी ज्येष्ठ प्रभावे ते प्रशस्त अभ्यवसायेना प्रभावधी अनन्त तिर्यग्ये लवग्रहलुधी, अनन्त मनुष्ये लवग्रहलुधी येतानी जतने छेदानी हे छे तथा नारद, तिर्यग्ये, मनुष्ये जने देवगति नामनी के चार उत्तर प्रकृतिये छे तेमनी औपग्रहिक (लवपीपक) के अनन्तानुषधी क्रोध, मान, माया जने दोलनरूप चार प्रकृतिये छे, तेमने ते क्षय करे छे तेमने क्षय करीने ते अपत्याख्यान संघधी क्रोध, मान, माया जने दोलनो क्षय करे छे तेमने क्षय करीने ते अपत्याख्यानावरणधी क्रोध, मान, माया जने दोलनो क्षय करे छे तेमने क्षय करीने ते संज्वलन क्रोध मान, माया जने दोलनो क्षय करे छे तेमने क्षय करीने ते पाँच प्रकारनां ज्ञानावरणीय कर्मनिना, नव प्रकारना दर्शनावरणीय कर्मनिना, पाँच प्रकारना भ्रान्तरायिक कर्मनिना जने मोहनीय कर्मनिना क्षय करे छे जेम भस्वक छेदवाधी तादवृक्ष क्षीय्ये यथं क्षय छे तेम ज्ञा कर्मनिना आवरण कृती ज्येष्ठी ज्येष्ठा पञ्च कर्मनिनी शक्ति

આઘવેજ્જ વા, પન્નવેજ્જ વા, પરુવેજ્જ વા, ' હે ગૌતમ ! સ શ્રુત્વા કેવલજ્ઞાની કેવલિપ્પજ્ઞસં ધર્મમ્ અરુયાપયેદ્ વા, પ્રજ્ઞાપયેદ્ વા, પ્રરૂપયેદ્ વા । ગૌતમઃ પૃચ્છતિ- નિવ્યર્થાઘાતં નિરાવરણં કૃત્સનં પ્રતિપૂર્ણં કેવલવરજ્ઞાનદર્શનં સમુત્પન્નં ભવેદિતિ ભાવઃ । ગૌતમઃ પૃચ્છતિ- ' સે ણં મંતે ! કેવલિપ્પણત્તં ધમ્મં આઘવેજ્જ વા, પન્નવેજ્જ વા, પરુવેજ્જ વા ? ' હે ભદન્ત ! સ ચલુ શ્રુત્વા સમુત્પન્નકેવલજ્ઞાની કિં કેવલિ- પ્રજ્ઞસં ધર્મમ્ અરુયાપયેદ્ વા, પ્રજ્ઞાપયેદ્ વા, પ્રરૂપયેદ્ વા ! ' મગવાનાહ- ' હંતા, રનેવાલે અપૂર્વકરણમેં પ્રવિષ્ટ હુણ્ણુ ઇસકે અનન્ત, અનુત્તર, નિવ્યર્થાઘાત, નિરાવરણ, કૃત્સન, પ્રતિપૂર્ણ શ્રેષ્ઠ કેવલજ્ઞાન ઓર કેવલદર્શન ઉત્પન્ન હો જાતે હેં ।

અવ ગૌતમ પ્રશ્નુ સે ઇસા પૂછતે હેં-(સે ણં મંતે ! કેવલિપ્પણત્તં ધમ્મ આઘવેજ્જ વા, પન્નવેજ્જ વા, પરુવેજ્જ વા) હે ભદન્ત ! વહ શ્રુત્વા સમુત્પન્ન કેવલજ્ઞાની કયા કેવલી પ્રજ્ઞસ ધર્મ કા કથન કરતા હે, ડસકી પ્રજ્ઞાપના કરતા હે ? ઓર કયા ડસકી પ્રરૂપણા કરતા હે ? ઇસકે ડત્તર મેં પ્રશ્નુ કહતે હેં-(હંતા, આઘવેજ્જ વા, પન્નવેજ્જ વા, પરુવેજ્જ વા) હાં, ગૌતમ ! વહ શ્રુત્વા કેવલજ્ઞાની કેવલિપ્પજ્ઞસ ધર્મ કા કથન કરતા હે ડસકી પ્રજ્ઞાપના કરતા હે ઓર ડસકી પ્રરૂપણા કરતા હે ।

અવ ગૌતમ પ્રશ્નુ સે ઇસા પૂછતે હેં-(સે ણં મંતે ! પવ્વાવેજ્જ વા, મુંહાવેજ્જ વા) હે ભદન્ત ! વહ શ્રુત્વા કેવલજ્ઞાની શિષ્યોં કો પ્રવ્રજ્યા દે સકતા હે, ડન્હેં દીક્ષિત કર સકતા હે ? ડત્તર મેં પ્રશ્નુ કહતે હેં=(હંતા,

થઈ બય છે આ રીતે ઉપયુક્ત કર્મોને ' તાલમસ્તક કૃત ' (અર્થ આગળ સ્પષ્ટ કર્યો છે) કર્મરજને વિષેરનાર અપૂર્વકરણમાં પ્રવિષ્ટ થયેલા તે શ્રુત્વા અવધિજ્ઞાનીને અનન્ત, અનુત્તર, નિવ્યર્થાઘાત, નિરાવરણ, કૃત્સન, (સંપૂર્ણ) પ્રતિપૂર્ણ અને શ્રેષ્ઠ કેવલજ્ઞાન અને કેવલ દર્શન ઉત્પન્ન થઈ બય છે.

ગૌતમ સ્વામીને પ્રશ્ન—(સે ણં મંતે ! કેવલિપ્પણત્તં ધમ્મં આઘવેજ્જ વા, પન્નવેજ્જ વા, પરુવેજ્જ વા ?) હે ભદન્ત ! તે શ્રુત્વા સમુત્પન્ન કેવલજ્ઞાની મનુબ્ય શુ કેવલિપ્પજ્ઞસ ધર્મનું કથન કરે છે, તેની પ્રજ્ઞાપના કરે છે, અને તેની પ્રરૂપણા કરે છે ?

મહાવીર પ્રશ્નુને ડત્તર—(હતા, આઘવેજ્જ વા, પન્નવેજ્જ વા, પરુવેજ્જ વા) હા, ગૌતમ ! તે શ્રુત્વા કેવલજ્ઞાની કેવલિપ્પજ્ઞસ ધર્મનું કથન કરે છે, તેની પ્રજ્ઞાપના પણ કરે છે અને તેની પ્રરૂપણા પણ કરે છે.

ગૌતમ સ્વામીને પ્રશ્ન—(સે ણં મંતે ! પવ્વાવેજ્જ વા, મુંહાવેજ્જ વા ?) હે ભદન્ત ! શુ તે શ્રુત્વા કેવલજ્ઞાની શિષ્યોને પ્રવ્રજ્યા દઈ શકે છે અને તેમને દીક્ષિત કરી શકે છે ?

‘सेष मते ! पञ्चावेज्ज वा, मुंढावेज्ज वा ?’ हे मद्दन्त ! स खलु श्रुत्वा केवलज्ञानी शिष्यान् प्रप्राजयेद् वा ? मुण्डयेद् वा ? किम् भगवानाह—‘इत्ता पञ्चावेज्ज वा, मुंढावेज्ज वा,’ हे गौतम ! इन्त सत्य प्रप्राजयद् वा मुण्डयेद् वा, गौतमः पृच्छति—‘तस्स ण मते ! सिस्सा वि पञ्चावेज्ज वा मुंढावेज्ज वा ?’ हे मद्दन्त ! तस्य खलु केवलज्ञानिनः शिष्या अपि किं प्रप्राजययुर्वा मुण्डयेयुर्वा ? भगवानाह—‘हे गौतम ! इत्त पञ्चावेज्ज वा मुंढावेज्ज वा’ इन्त—सत्यम् प्रप्राजयेयुर्वा मुण्डयेयुर्वा । गौतम पृच्छति—‘तस्स ण मते ! पसिस्सा वि पञ्चावेज्ज वा मुंढावेज्ज वा ?’ हे मद्दन्त ! तस्य केवलिनः प्रशिष्या अपि किं प्रप्राजययुर्वा ? मुण्डयेयुर्वा ? भगवानाह—‘इन्त, पञ्चावेज्ज वा मुंढावेज्ज वा’ इन्त—सत्य तस्य केव

पञ्चावेज्ज वा मुंढावेज्ज वा) हां, गौतम ! वह श्रुत्वा केवली शिष्यों को प्रप्राज्या दे सकता है और उन्हें दीक्षित कर सकता है ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं—(तस्स ण मते ! सिस्सा वि पञ्चावेज्ज वा मुंढावेज्ज वा) हे मद्दन्त ! उस श्रुत्वा केवलज्ञानी के शिष्य भी क्या प्रप्राज्या दे सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं ? उत्तर में प्रश्नु कहते हैं—(इत्ता, पञ्चावेज्ज वा, मुंढावेज्ज वा) हां गौतम ! उस श्रुत्वा केवलज्ञानी के शिष्य भी प्रप्राज्या दे सकते हैं—दीक्षा दे सकते हैं । गौतम प्रश्नु से पूछते हैं—(तस्स ण मते ! पसिस्सा वि पञ्चावेज्ज वा, मुंढावेज्ज वा) हे मद्दन्त ! उस श्रुत्वा केवलज्ञानी के प्रशिष्य भी क्या प्रप्राज्या दे सकते हैं—दीक्षा दे सकते हैं ? (इत्ता, पञ्चावेज्ज वा मुंढावेज्ज वा) हां,

भद्रावीर प्रश्नुने उत्तर—(इत्ता, पञ्चावेज्ज वा, मुंढावेज्ज वा) हां, गौतम ! ते श्रुत्वा केवली शिष्येणे प्रप्राज्या इत्थं शकंते अने तेभने दीक्षित करी शकंते ।

गौतम स्वामीने प्रश्नु—(तस्स ण मते ! सिस्सा वि पञ्चावेज्ज वा, मुंढावेज्ज वा ?) हे मद्दन्त ! ते श्रुत्वा केवलीना शिष्ये पञ्च श्रु प्रप्राज्या इत्थं शकंते अने दीक्षा इत्थं शकंते ?

भद्रावीर प्रश्नुने उत्तर—(इत्ता पञ्चावेज्ज वा, मुंढावेज्ज वा) हां, गौतम ! ते श्रुत्वा केवलीज्ञानीना शिष्ये पञ्च श्रु प्रप्राज्या इत्थं शकंते अने दीक्षा इत्थं शकंते ।

गौतम स्वामीने प्रश्नु—(तस्स ण मते ! पसिस्सा वि पञ्चावेज्ज वा, मुंढावेज्ज वा ?) हे मद्दन्त ! तेभना प्रशिष्ये पञ्च श्रु प्रप्राज्या इत्थं शकंते अने दीक्षा इत्थं शकंते ।

लिनः प्रशिष्या अपि प्रव्राजयेयुर्वा मुण्डयेयुर्वा । गौतमः पृच्छति—‘ से णं भंते ! सिज्झइ वुज्झइ जाव अंतं करेइ ? ’ हे भदन्त ! स खलु श्रुत्वा केवलज्ञानी किम् सिध्यति, बुध्यते, यावत् मुच्यते परिनिर्वाति सर्वदुःखानामन्तं करोति ? भगवानाह—‘ हता, सिज्झइ वा जाव अंतं करेइ ’ हे गौतम ! हन्त सत्यं स श्रुत्वा केवलज्ञानी सिध्यति, बुध्यते यावत्—मुच्यते परिनिर्वाति सर्वदुःखानामन्तं करोति । गौतमः पृच्छति—‘ तस्स णं भंते ! सिस्सा वि सिज्झति, जाव अंतं करेति ? ’ हे भदन्त ! तस्य खलु केवलिनः शिष्या अपि किं सिध्यन्ति यावत् बुध्यन्ते मुच्यन्ते

गौतम ! उस श्रुत्वा केवलज्ञानी के प्रशिष्य भी प्रव्रज्या दे सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं ।

अब गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं—(से णं भंते ! सिज्झइ, वुज्झइ जाव अंतं करेइ) हे भदन्त ! वह श्रुत्वा केवलज्ञानी क्या सिद्ध होता है, यावत् समस्त दुःखों का अन्त करता है ? यहाँ यावत् पद से “ बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति, सर्वदुःखानाम् ” इन पदों का ग्रहण हुआ है । इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—(हंता, सिज्झइ, वा जाव अंतं करेइ) हां, गौतम ! वह श्रुत्वा केवलज्ञानी सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, यावत् मुक्त होता है, सब तरफ से सर्वथा शांत होता है और समस्त दुःखों का नाश करता है । (तस्स णं भंते ! सिस्सा वि सिज्झति जाव अंतं करेति) हे भदन्त ! क्या उसके शिष्य भी सिद्ध होते हैं यावत् समस्त दुःखों का नाश करते हैं ? यहाँ यावत् पद से “ बुध्यते ” आदि क्रिया

भडावीर प्रभुनेो उत्तर—(हता, पव्वावेज्ज वा, मुहावेज्ज वा) हा, गौतम ! तेमना प्रशिष्येो पथु प्रवन्त्या दधं शके छे अने दीक्षा अंगीकार करावी शके छे

गौतम स्वामीनेो प्रश्न—(से णं भंते ! सिज्झइ, वुज्झइ, जाव अंतं करेइ ?) हे भदन्त ! शुं ते श्रुत्वा केवलज्ञानी सिद्ध थाय छे, पुद्ध थाय छे, मुक्त थाय छे, समस्त कर्मेोना क्षय करे छे अने समस्त दुःखेोना अंत करे छे ?

भडावीर प्रभुनेो उत्तर—(हंता, सिज्झइ वा जाव अंतं करेइ) हा, गौतम ! ते श्रुत्वा केवलज्ञानी सिद्ध थाय छे, पुद्ध थाय छे, मुक्त थाय छे, समस्त कर्मेोना क्षय करे छे अने समस्त दुःखेोना अंत करे छे

गौतम स्वामीनेो प्रश्न—(तस्स णं भंते ! सिस्सा वि सिज्झति, जाव अंतं करेति ?) हे भदन्त ! ते श्रुत्वा केवलीना शिष्येो पथु शुं सिद्ध थाय छे अने समस्त दुःखेोना नाश करे छे ? अर्ही “ जाव (यावत्) ” पद द्वारा

परिनिर्वाण्णि सर्वदुःखानाम तं कुर्वन्ति ? भगवानाह—‘इत्ता सिज्झति, जाव अत्त करेति’ हे गौतम ! तस्य शिष्या अपि इन्त सत्प सिध्यन्ति यावत्-मुच्यन्ते, मुच्यन्ते, सर्वदुःखानाम तं कुर्वन्ति च । गौतम पृच्छति ‘तस्म ण मत्तं पत्तिस्सा वि सिज्झति जाव अत्त करेति?’ हे मद्दन्त ! तस्य केवलज्ञानिनः प्रशिष्या अपि किम् सिध्यन्ति यावत् बुध्यन्ते मुच्यन्ते परिनिर्वाण्णि सर्वदुःखानामन्तं कुर्वन्ति? भगवानाह—‘एव चेष जाव अत्तं करेति’ हे गौतम ! एवमेव पूर्वोक्तरीत्यैव यावत् तस्य प्रशिष्या अपि सिध्यन्ति बुध्यन्ते मुच्यन्ते परिनिर्वाण्णि सर्वदुःखानामन्तं कुर्वन्ति चेति । गौतमः

पदों का ग्रहण हुआ है “सर्वदुःखानाम्” इस पद तक । उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(इत्ता सिज्झति जाव अत्तं करेति) हाँ, गौतम ! उस श्रुत्या केवलज्ञानी के शिष्य भी सिद्ध होते हैं, यावत् समस्त दुःखों का अन्त करते हैं । (तस्स ण भेत्ते । पत्तिस्सा वि सिज्झति जाव अत्तं करेति) हे मद्दन्त ! उस श्रुत्या केवली के क्या प्रशिष्य भी सिद्ध होते हैं यावत् समस्त दुःखों का अन्त करते हैं ? यहाँ पर भी यावत् पद से पूर्वोक्त “सिज्झति” आदि क्रिया पदों का “सर्वदुःखानाम्” पद तक ग्रहण किया गया है । उत्तर में प्रश्न कहते हैं—(एव चेष, जाव अत्तं करेति) हे गौतम ! पूर्वोक्तरीति के अनुसार यावत् उसके प्रशिष्य भी सिद्ध होते हैं यावत् समस्त दुःखों का अन्त करते हैं । यहाँ पर भी (यावत्) पद से ‘बुध्यन्ते, मुच्यन्ते, परिनिर्वाण्णि, सर्वदुःखानाम्’ इन पदों का ग्रहण हुआ है ।

(बुध्यन्ते, मुच्यन्ते, परिनिर्वाण्णि सर्वदुःखानाम्) आ क्रियापदाने अद्वयं कश्चिदात्मं आख्यांते

महावीर प्रश्नो उत्तर—(इत्ता सिज्झति, जाव अत्तं करेति) हाँ गौतम ! ते श्रुत्या केवलीना शिष्यो पत्तु सिद्धं थायं उ मुच्यंथाय उ समस्तं दुःखेना ध्वं करे उ अने समस्तं दुःखेना अत्तं करे उ

गौतम स्वाभीना प्रश्न—(ताम णं मत्ते । पत्तिस्सा वि सिज्झति जाव अत्तं करेति) हे मद्दन्त ! तेमना प्रशिष्यो पत्तु शु सिद्धं थायं उ मुच्यंथाय उ समस्तं पत्तिपोथी रद्धितं थायं उ अने समस्तं दुःखेना अत्तं करे उ ?

महावीर प्रश्नो उत्तर—(एव चेष जाव अत्तं करेति ?) हे गौतम ! श्रुत्या केवलीना शिष्योनी नेम प्रशिष्यो पत्तु सिद्धं थायं उ मुच्यंथाय उ समस्तं पत्तिपोथी रद्धितं थायं उ अने समस्तं दुःखेना अत्तं करे नाये उ

पृच्छति—‘से णं भंते किं उद्दहं होज्जा?’ हे भदन्त! त खलु केवलज्ञानी किम् ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वलोके भवति, अधोलोके भवति, तिर्यग्लोके वा भवति? भगवानाह—‘जहेव असोच्चाए जाव तदेक्कदेसभाए होज्जा’ हे गौतम! यथैव ‘अश्रुत्वा’ इत्यस्या-भिलाषे उक्तं तथाऽत्रापि यावत् ऊर्ध्वं वा लोके भवति, अधो वा लोके भवति, तिर्यग्लोके वा भवति, ऊर्ध्वं भवन् शब्दापाति—विक्रटापाति—गन्धापाति—माल्यवन्तपर्यायेषु वृत्तवैताढ्यपर्वतेषु भवति, संहरणं प्रतीत्य सौमनस्यवने वा पण्डु-कवने वा भवति, अधोलोके भवन् गर्ते वा दर्यां वा भवति, संहरणं प्रतीत्य पाताले वा भवने वा भवति? तिर्यग्लोके भवन् पञ्चदशसु कर्मभूमिषु भवति,

अब गौतमस्वामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं—(से णं भंते ! किं उद्धं होज्जा०) हे भदन्त ! वह श्रुत्वा केवलज्ञानी क्या ऊर्ध्वलोक में होता है ? या अधोलोक में होता है ? या तिर्यग्लोक में होता है ? इसके उत्तर में प्रश्नु कहते हैं—(जहेव असोच्चाए जाव तदेक्कदेसभाए होज्जा) हे गौतम ! जिस प्रकार अश्रुत्वा के अभिलाष में कहा गया है, उसी प्रकार से यहां पर भी जानना चाहिये यावत् वह ऊर्ध्वलोक में होता है, अधोलोक में होता है, और तिर्यक् लोक में भी होता है। ऊर्ध्वलोक में वह शब्दा-पाति, विक्रटापाति, गन्धापाति, माल्यवन्त इन पर्याय वाले—इन नामों वाले वृत्तवैताढ्य पर्वतों में होता है। संहरण की अपेक्षा से वह सौम-नस्य वन में या पण्डकवन में होता है। अधोलोक में वह गर्त में या गुफा में होता है। संहरण की अपेक्षा से वह पाताल में अथवा भवन

गौतम स्वामीने प्रश्न—(से णं भंते ! किं उद्दहं होज्जा ?) हे भदन्त ! ते श्रुत्वा केवली शुं ऊर्ध्वलोकमा डोय छे, के अधोलोकमा डोय छे के तिर्यग् लोकां डोय छे ?

भडावीर प्रश्नुने उत्तर—(जहेव असोच्चाए जाव तदेक्कदेसभाए होज्जा) हे गौतम ! अश्रुत्वा केवलज्ञानी विषेना पूवोक्त वक्तव्यना नेवुं व वक्तव्य अर्ही श्रुत्वा केवली विषे पणु समज्जुं ते वक्तव्यने साराश नीचे प्रमाणे छे श्रुत्वा केवली ऊर्ध्वलोकमां पणु डोय छे, अधोलोकमां पणु डोय छे अने तिर्यग्लोकमां पणु डोय छे. ऊर्ध्वलोकमा शब्दापाति, विक्रटापाति गन्धापाति अने माल्यवन्त नामना वृत्तवैताढ्य पर्वतोमां डोय छे अने संहरणुनी अपे-क्षाअे ते सौमनस वनमा अथवा पंडक वनमा डोय छे अधोलोकमा ते गर्त (भाडा) मां अथवा गुफांमां डोय छे अने संहरणुनी अपेक्षाअे ते पातालमां

सहरण प्रतीत्य अर्धसृतीयद्वीपसमुद्रतदैकदेशमागे भवति-इति भाषः । गौतमः पृच्छति-‘ ते ण भते ! एगसमएण केवइया होज्जा ? ’ हे भदन्त ! ते खलु भुत्वा समुत्पन्नकेवलज्ञाना एकसमयेन कियन्तो भवन्ति ? भगवानाह-‘ गोयमा ! जहण्णेण एक्को वा, दो वा, तिमि वा, उक्कोसेण अट्टसय १०८ ’ हे गौतम ! जघन्येन एकसमये एक्को वा, द्वी वा भयो वा भवन्ति, उत्कृष्टेन अष्टोत्तरशतम् भवति । तदुपमहरति-‘ से तेणहेण गोयमा ! एव पुच्चइ-सोच्चा ण केवलिस्स वा जाव केवलिसियाए वा जाव अत्येगइए केवलनाण उप्पाहेज्जा ’ हे गौतम ! एत् तेनार्यो एवम् उच्यते-भुत्वा खलु केवलिनो वा सक्काशात् यावत्-केवलि

में होता है । तिर्यग् लोक में वह पन्द्रह कर्मभूमियों में होता है और सहरण की अपेक्षा से वह अट्ठाई द्वीप और अट्ठाई द्वीपान्तर्गत दो समुद्रों के किसी एक भाग में होता है ।

अथ गौतम प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं-(ते ण भते ! एगसमएण केव इया होज्जा) भुत्वा समुत्पन्न केवलज्ञानी एक समय में कितने तक हो सकते हैं ? इसके उत्तर में प्रश्नु कहते हैं-(गोयमा) हे गौतम ! (जह ण्णेण एक्को वा, दो वा, तिमि वा, उक्कोसेण अट्टसय) भुत्वा समुत्पन्न केवलज्ञानी एक समय में कम से कम एक, या दो, या तीन तक हो सकते हैं और अधिक से अधिक एक सौ आठ १०८ तक हो सकते हैं । (से तेणहेण गोयमा ! एव पुच्चइ, सोच्चाण केवलिस्स वा जाव केवलिसियाए वा जाव अत्येगइए केवलनाण उप्पाहेज्जा) इस कारण हे गौतम ! मैंने ऐसा कहा है कि कोई एक जीव केवली से यावत् केवली

अथवा जवनमां होय छे तियंज्जाकमा ते १५ इमभूमियोमा होय छे जने सहरणनी अपेक्षाजे ते ज्ही द्वीपमां जने ज्ही द्वीपमांना जे समुद्रोना इधं ज्जे भावमां होय छे

गौतम स्वामीने प्रश्न—(से ण भते ! एग समएण केवइया होज्जा ?) हे भदन्त ! भुत्वा समुत्पन्न केवलज्ञानी ज्जेक अभवमां कट्ठा यधं शके छे ?

भगवादी प्रश्नुने उत्तर—(गोयमा ! जहण्णेण एक्को वा, दो वा, तिमि वा एक्कोसेण अट्टसय) हे गौतम ! ज्जेक अभवमां ज्जेक मां ज्जेक ज्जेक अथवा जे अथवा जन्तु भुत्वा समुत्पन्न केवली यधं शके छे जने वधारेमां वधारे १०८ भुपी यधं शके छे

(से तेणहेण गोयमा ! एव पुच्चइ साच्चाणं केवलिस्स वा जाव केवलिसियाए वा जाव अत्येगइए केवलनाण उप्पाहेज्जा) हे गौतम ! ते इत्ये

श्रावकप्रभृतीनां वा सकाशात्, केवल्युपासिकाया वा सकाशात् यावत् केवलिप्रज्ञप्तं धर्मं श्रवणतया अस्त्येककः कश्चित् लभेत, केवलां बोधिं बुद्ध्येत, केवलामनगारितां प्रव्रजेत्, केवल ब्रह्मचर्यवासमावसेत्, केवलेन संयमेन संयच्छेत्, केवलेन संवरेण संवृणुयात्, केवलमाभिनिबोधिकज्ञानं श्रुतज्ञानम्, अवधिज्ञानं, मनःपर्यवज्ञानं

के श्रावक आदि से या केवली की उपासिका से यावत्-केवली प्रज्ञप्त धर्म को सुन करके उसे श्रवणज्ञानफलरूप से प्राप्त कर सकता है-जान सकता है, केवल बोधि का अनुभव कर सकता है, केवल अनगारिता को धारण कर सकता है, ब्रह्मचर्यवास में रह सकता है, केवलसंयम से संयम की यतना कर सकता है, केवल संवर से शुभाध्यवसायवृत्तिरूप संवर कर सकता है, केवल आभिनिबोधिकज्ञान को, केवल श्रुतज्ञान को, अवधिज्ञान को, मनः पर्यवज्ञान को और केवलज्ञान को उत्पन्न कर सकता है। तथा कोई एक जीव केवली से या यावत् उन की उपासिका से केवलिप्रज्ञप्त धर्म को श्रवण करके भी उसे श्रवणज्ञान-फलरूप से प्राप्त नहीं कर सकता है, केवल शुद्धबोधि का अनुभव नहीं कर सकता है, केवल शुद्ध अनगारिता को (गृहस्थवास छोड़कर) धारण नहीं कर सकता है, शुद्ध ब्रह्मचर्यवास में नहीं रह सकता है-केवल संयम से संयम की यतना नहीं कर सकता है-केवल संवर से शुभा-

में जेवु कहु छे केछि एव केवली पासे अथवा तेमना श्रावक पासे अथवा केवलीना पक्षनी उपासिका पर्यन्तनी केछि व्यक्ति पासे केवली प्रज्ञप्त धर्मं श्रवणु करीने श्रवणुज्ञान इलइये तेने (केवलि प्रज्ञप्त धर्मने) प्राप्त करी शके छे-जसुी शके छे, शुद्ध सम्यक्त्वइय जोधिने अनुभव करी शके छे, अणु-गारावस्था धारणु करी शके छे, शुद्ध ब्रह्मचर्यव्रत धारणु करी शके छे, शुद्ध संयम द्वारा संयमयतना करी शके छे, शुद्ध संवर द्वारा आसवेने निरोध करी शके छे, शुद्ध आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान अने केवजज्ञानने उत्पन्न (प्राप्त) करी शके छे. परन्तु केछि एव जेवो पणु होय छे के जे केवली पासे अथवा तेमना श्रावकादि पासे केवली प्रज्ञप्त धर्मने श्रवणु करवा छातां पणु श्रवणुज्ञान इण इये तेने प्राप्त करी शकतो नथी, शुद्ध जोधिने अनुभव करी शकतो नथी, शुद्ध ब्रह्मचर्यव्रत धारणु करी शकने नथी, शुद्ध संयम द्वारा संयमनी यतना करी शकतो नथी, शुद्ध संवर वडे शुभ

केवलज्ञानमूत्पादयत्, अस्यकक कश्चित् यावत् नो केवलज्ञानमुत्पादयेदिति भाव ।
अथे गौतमो भगवद्वाचय सत्यापपद्याह-सव भंते ! सेव भते ! सि ' इ
मदन्त ! तदेव भवदुक्त सत्यमेव, हे मदन्त ! तदेव भवदुक्त सत्यमवेति ॥ सू० ६ ॥

इति श्री-विश्वविख्यात - जगद्गुरुम-प्रसिद्धवाचक - पञ्चदशभारतकवि-
तन्त्रलितकलापाठापरु-प्रविद्युद्गगपयनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-
श्रीशाहृषपतिकोरदापुरराजप्रदक्ष - ' जैनशास्त्राचार्य ' - पद्भूषित-
कोरदापुरराजगुरु-शालग्रामचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री
घासीलालमतिविरचितायां श्रीभगवतीसूत्रस्य प्रमेयचन्द्रिकाख्यायां
ख्याख्यायाम् नवमशतकस्य एकत्रिंशदुद्देशक समाप्त ॥०-३१॥

अथस्वायम्भूतिरूप मधुर नदीं कर सकता है-घाघत् घह केवलज्ञान को
उत्पन्न नदीं कर सकता है । अत में गौतम भगवान् के वचनों में सत्यता
ख्यापन करन के निमित्त (सेव भंते ! सेव भंते ! सि) ऐसा कहते हैं
हे मदन्त ! आपके द्वारा कहा गया यह सत्य विषय सत्य ही है,
हे मदन्त ! आपसे द्वारा कहा गया यह सत्य विषय सत्य ही है ।
ऐसा का कर ये गौतम यावत् अपने स्थानपर विराजमान हो गये । मू०
श्री नानाचार्य जनभम दियाकर श्री घासीलालजी मद्भागवतम् " भगव
तीसूत्र"की प्रमेयचन्द्रिका ख्याख्याके नयये शतकया इकतीमयां
उद्देशक समाप्त ॥ ०-३१ ॥

श वर ७२ अथपश्याय वृत्तिश्च सवर करी शकते। नथी शुद्ध आत्रितिनोपि
ज्ञान गनगान अथविज्ञान, भन पदवज्ञान अने केवलज्ञानने ज्ञान करी
शकते। नथ।

१ । भगवान्ना वचनेने प्रभावभूत भाषीने तेमना वचनेभां येन नी
यदा ज्ञान कंता गौतम स्वामी कहे थे-" सेव भंते ! सर्वे भव । सि ' दे
अन्त । आपसे ने कहु ते सत्य उ दे अन्त । आपसे आ विमान ने प्रति
पादन कहु ते सत्य उ आ प्रमणे करीने भदावीर प्रभुने वरणा-नभस्य र
करीने तेभां तेमने सचने जभी अग

जिनस्य श्री घासीलालजी भदागज्जून भगवती सूत्रती प्रमेय
चन्द्रिका ख्याख्यायां नवमां शतकेने ३१या उद्देशक समाप्त ३६-३१४

